

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



क्रम संख्या

२२०११

काल न०

वर्णन







ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्थाङ्क १४ ]


गुणभद्राचार्यप्रणीतम्

# म हा पुरा ण म्

[ द्वितीयो विभागः ]

## उत्तरपुराणम्

हिन्दीभाषानुवादसहितः



सम्पादक—

पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य

साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

## भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति  
एक सहस्र प्रति

मार्गशीर्ष वीरनि० स० २४८१  
वि० सं० २०११  
नवम्बर १९५४

मूल्य १० रु०

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

संस्कृत ग्रन्थाङ्क १४

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उमका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रंथ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक—

डॉ० हीरालाल जैन,

एम० ए०, डी० लिट्

डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय,

एम० ए०, डी० लिट्

प्रकाशक—

अयोध्याप्रसाद गोयलीय,

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड, बनारस

मुद्रक—बम्बई प्रिंटिंग वाटोज, बांसफाटक, बनारस

स्थापनाब्द  
फाल्गुन कृष्ण ६  
वीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००  
१८ फरवरी सन् १९४४



JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ

SANSKRITA GRANTHA NO. 14

# MAHĀPURĀNA

Vol. II

## UTTAR PURĀNA

of

ACĀRYA GUNBHADRA

WITH HINDI TRANSLATION



*Translated and Edited*

BY

PANDITA PANNĀLĀL JAIN, SĀHITYĀCĀRYA

Sahiyadhyapak-GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR

*Published by*

**Bhāratiya Jñānapitha Kāshi**

*First Edition* }  
1000 Copies. }

MARGSHIRSHA, VIR SAMVAT 2480  
VIKRAMA SAMVAT 2011  
NOVEMBER 1954.

{ *Price*  
Rs. 10/-

FOUNDED BY

SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRI MURTI DEVI

BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI  
JAIN GRANTHAMALA

SANSKRITA GRANTHA NO. 14

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,  
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS  
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,  
KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN  
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR  
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT  
SCHOLARS AND POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

*General Editors*

Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt.

Dr. A.N.Upadhye, M.A.,D. Litt.



*Publisher*

**Ayodhya Prasad Goyal**

Secy., BHARATIYA JNANAPITHA  
DURGAKUND ROAD, BANARAS

Founded in  
Phalguna Krishna 9. }  
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

{ Vikrama Samvat 2000  
18th Febr. 1944



## PREFACE

With the publication of this part containing the Uttara-purāṇa by Guṇabhadra, the Bhāratiya Jñānapīṭha, Banaras, has to its credit a signal achievement in presenting to the world of scholars the celebrated Sanskrit work, the Mahāpurāṇa (MP) or the Triṣaṣṭi-lakṣaṇa-mahāpurāṇa-saṃgraha (TLMPS), of Jinasena-and-Guṇabhadra, in three handy volumes. As compared with the three or four earlier editions of this work, in part or full, with Marāṭhī, Hindī and Kannaḍa translations, this edition is characteristically superior. The Sanskrit text is critically presented after collating it from a number of Mss. important readings from which are duly noted; it is accompanied, just below, by a fluent Hindī paraphrase; there is an exhaustive Introduction in Hindī which not only puts together all information about the authors but also touches some important topics from the work itself; lastly, there is an alphabetical Index of the verses. Thus this edition meets the needs of a pious reader, and goes a great way to satisfy the demands of a critical scholar.

The MP or the TLMPS, as its title indicates, is a great narrative of the ancient times, basically describing the lives of 63 Śālākāpuruṣas, namely, 24 Tīrthakaras, 12 Cakravartins, 6 Balabhadras, 9 Nārāyaṇas and 9 Pratinārāyaṇas recognised and honoured by Jainism. These biographies do not cover only one life of theirs, but present a detailed account of the career of their souls through various earlier births and also indicate their march on the path of religious and spiritual progress. In fact, these lives hold before the religious aspirants various facets of the spiritual career of great many souls that inspire religious confidence in others and lay down spiritual standards for them.

The entire narration is put in the mouth of Gautama and delivered in reply to the enquiry of king Śreṇika, both of whom are historical persons. These biographies of souls give many an occasion to the authors to introduce various topics of traditional and conventional character and to embody in the work mythological, religious, dogmatical, sacramental and ritualistic details, and thus make the whole work almost an encyclopedia of Jainism. We get here a graphic description of the evolution of human society along the march of time and of what the great souls of the past did for man in the beginning. The careers of migrating souls bring before one the glim-

pses of the whole universe and its ideological associations. No opportunity to introduce poetical descriptions, ethical sermons, moral exhortations, theoretical details about dreams, town-planning, polity etc., religious dogmas and practices, polemical attacks and refutations, and technical information, is ever missed with the effect that the narratives get enriched by a variety of stuff which at once demonstrates the deep learning and width of hereditary scholarship the authors of this work possessed.

The MP is a magnificent traditional history so far as the great heroes of Śramaṇic culture are concerned. Rich details about the Kulakaras like Nābhi, about Tīrthakaras like Vṛṣabha, about Cakravartins like Bharata and others are presented with deep interest. It is here that we get the tales about Rāma and Rāvaṇa, about Kṛṣṇa and Pāṇḍavas, about Bāhubali, Brahmadatta, Jivamdharma, Vasu, Nārada and many other luminaries which are of immense significance for a student of comparative mythology.

In describing the military campaign of Bharata, the author introduces important geographical information, though conventional in many details. The descriptions of Kalpavṛkṣas, numerals, three worlds, various mountains, philosophical schools, divisions of knowledge, renunciation, rituals, saṃskāras, penances, meditation, Samavasaraṇa etc. have enriched the work with religious and cultural details of great importance. Some socio-cultural topics deserve careful study and interpretation. Apart from the code of layman's and ascetic's morality which is elaborated throughout the work, we find in this work many ideas on statecraft and worldly wisdom expressed in a striking manner.

While composing this MP, Jinasena and Guṇabhadra have drawn a good deal of information from canonical tradition and post canonical texts like the *Tiloyapaṇṇatti* of Yativṛṣabha, as well as the *Vāgartha-saṃgraha* of Kavi Parameṣṭhi. Their performance proved so authoritative, magnificent and exhaustive that its prototypical predecessors were almost eclipsed. It may not be surprising, therefore, that works like that of Kavi parameṣṭhi came to be neglected and in course of time lost beyond recovery.

This MP has served as a model, if not necessarily a direct and the only source for many subsequent authors like Puṣpadanta, Hemacandra, Āśādhara, Cāmuṇḍarāja, and the author of Tamil Śrīpurāṇa, etc. who composed their works in Apabhraṃśa, Sanskrit, Kannaḍa and Tamil. Besides, many Jaina authors are directly or indirectly indebted to this class of works for patterns of details and descriptions with which they enriched their poems on select themes centring round one or the other hero, a Tīrthamkara, a Cakravartin, or any individual hero of antiquity like Bāhubali, Pradyumna, Jivamdharma etc.

The MP is divided into two parts, Ādipurāṇa in 47 Parvans and Uttara-purāṇa in 29 Parvans : the entire work thus has 76 Parvans. The total Granthāgra comes to about 20 thousand ślokas. Of the Ādipurāṇa, 42 Parvans and three verses more were composed by Jinasena (about 12 thousand ślokas) and the remaining work by his pupil Guṇabhadra. The Ādipurāṇa covers the biography of the first Tīrthakara and first Cakravartin, and the Uttarapurāṇa deals with the lives of the remaining Tīrthakaras and other Triṣaṣṭi Puruṣas. The Uttarapurāṇa (about eight thousand Ślokas in extent) obviously therefore becomes more enumerative than descriptive.

As an able exponent of Jainism in its manifold aspects and as a successful master of Sanskrit language, Jinasena occupies a unique place in Indian literature by both the quantity and quality of his contributions. Very little is known of his personal life. We get, however, some glimpses of his personality from some of his own poetic expressions at the close of his commentary Jayadhavalā. Almost as a boy he appears to have accepted renunciation, leading a strict celibate life and devoting himself wholly and solely to religious and scholarly life. Though physically weak and not quite handsome, he was strong in his penances and gifted with intelligence, forbearance and modesty. He was an embodiment of knowledge and spiritualism.

As a monk Jinasena was more an institution than an individual. He was a great disciple of a greater teacher, Virasena, whose Jayadhavalā commentary he completed in 837 A.D. just as his pupil Guṇabhadra completed his Mahāpurāṇa posthumously some years before 897 A.D. He belonged to the ascetic line or family called Pañcastūpānvaya to which belonged Guhanandi, Vṛṣabhanandi, Candrasena, Āryanandi and Virasena. This Pañcastūpānvaya had once its home in the North, in Eastern India; the monks of this line were perhaps the greatest custodians of the knowledge of Karma Siddhānta; and they travelled via Rajaputana and Gujrat as far as Śravaṇa Belgol in the South carrying with them the hereditary learning of the Karma doctrine and pursuing their religious path of severe penances. Virasena and Jinasena attained such a position and eminence that after them the Senānvaya or Senagaṇa came to be mentioned as the family or line of teachers almost replacing the Pañcastūpānvaya.

Jinasena lived in an age of political prosperity and stability as well as academic fertility. The contemporary kings were Jagattuṅga and Nṛpatuṅga or Amoghavarṣa (815-877 A.D.) of the Rāṣṭrakūṭa dynasty, with their capital at Mānyakheta which became a centre of learning. Amoghavarṣa was not only a mighty monarch but also a patron of letters and a man of academic aptitude and literary attainments. A Kannaḍa work, Kavirājamārga, on

poetics is attributed to him. He was a great devotee of Jinasena whose ascetic virtues and literary gifts must have captivated his mind. He soon became a devout Jaina and renounced the kingdom in preference to religious life as mentioned by him in his Sanskrit work *Praśnottara-ratnamālā* and as graphically described by his contemporary Mahāvīrācārya in his *Gaṇitasāra-saṃgraha*. (See Jaina Siddhānta Bhāskara IX, and *Anekānta V*, page 183) His reign was victoriously prosperous and the span of his career pretty long.

After finishing his training in various branches of traditional learning like grammar, poetics, Nyāya etc. under his teachers like Virasena and Jayasena, it seems, Jinasena began his literary career by composing (sometime before 783 A.D.) the *Pārśvābhyudaya*, a Sanskrit Kāvya, a curio in Sanskrit literature. In this poem he incorporates in every verse one or two lines of the *Meghadūta* of Kālidāsa in their serial order, the remaining lines being composed by himself. In this way the whole poem of Kālidāsa is subjected to the poetic art known as *samasyā-pūraṇa*. Though the stories are basically different, the lines of the *Meghadūta* get fitted admirably in the *Pārśvābhyudaya*. Composition by *samasyā-pūraṇa* puts a number of restrictions on the poet who undertakes it. Jinasena has achieved it so naturally and skilfully that while reading *Pārśvābhyudaya* by itself one hardly suspects that it embodies another poem of different theme as well as contexts. The *Pārśvābhyudaya* is a remarkable tribute to Jinasena's mastery over Sanskrit and abilities as a poet. His compliments to Kālidāsa's poem at once ennoble his personality. It is only a merited poet that can admire another poet. On this poem, Professor K.B. Pathak has remarked thus : "This poem is one of the curiosities of Sanskrit literature. It is at once the product and the mirror of the literary taste of the age. The first place among Indian poets is allotted to Kālidāsa by consent of all. Jinasena, however, claims to be considered a higher genius than the author of *Cloud-messenger*." (The Journal of the Bombay branch of the R.A.S., No. XLIX, vol. XVIII, 1892; also his ed. of Kālidāsa's *Meghadūta*, 2nd ed., Poona 1916, Intro. pp. xxiii etc.)

After completing the *Dhavalā* commentary on the *Ṣaṭkhaṇḍāgama* in 72 thousand *Granthāgras*, Virasena took up the *Jayadhavalā* commentary on the *Kaṣāya-prābhṛta*. He passed away when he had composed just 20 thousand *Granthāgras*. It was left consequently to his worthy disciple Jinasena to complete that commentary by composing some 40 thousand *Granthāgras* more (in 837 A.D.). These voluminous commentaries show their depth of learning and their mastery over the entire range of Jainology, especially the *Karma Siddhānta*. These works contained all that was worth

knowing in that context, practically absorbing the earlier Sanskrit and Prākṛit commentaries. The poetic abilities of Jināsena are explicit from his memorable poem, Pārśvābhyudaya, and the depth of his wide learning from his Jayadhavalā. This twofold ability of Jināsena is seen all the more blooming in his Mahāpurāṇa.

The MP as a systematic exposition of Jaina traditions and principles is sufficiently appreciated by the specialist; but the literary qualities of this work have not attracted the attention of the students of Sanskrit literature to the extent that they deserve. Many sections of the MP present an exquisite specimen of Kāvya. Jināsena shows an intelligent acquaintance with the works of his predecessors in the field. He handles Sanskrit language with ease and facility and further invests it with dignity. The Sahasranāma shows how fully he has availed himself of both the strength and weakness of Sanskrit language, grammar and vocabulary. He is a consummate master of versification, and now and then he has attended to even poetic and metrical tricks. His descriptions are exuberantly rich and full of poetic embellishments, both of sense and sound. Professor Pathak was already attracted, though casually, by Jināsena's 'richness of fancy, copiousness of imagery and fluency of verse' seen in the MP. It is a sad event in the history of Sanskrit scholarship that Jināsena left this work incomplete. His pupil Guṇabhadra, with much hesitation and after waiting for some time, but as a sacred duty to his teacher, had to complete it which was later consecrated by Lokāsena, a pupil of Guṇabhadra, in 897 A.D. It is a memorable event that Virāsena, Jināsena and Guṇabhadra formed a continued and composite academic personality ushered into existence as if for the purpose of completing three significant works of Indian literature, namely, Dhavalā, Jayadhavalā and Mahāpurāṇa which were too big and profound to be completed in one span of life by any one individual.

Besides completing his teacher's Mahāpurāṇa, Guṇabhadra composed two other Sanskrit works, the Ātmānuśāsana, a religious and didactic anthology in 272 verses of different metres, and the Jinadattacarita, a poem in nine cantos.

Earnest students of Sanskrit literature in general and of Jaina literature in particular feel highly obliged to Shṛīmān Seth Shānti Prasādji and his accomplished wife Shṛīmatī Ramā Rāñiji who founded the Bhāratiya Jñāna Pīṭha which is publishing important Prākṛit and Sanskrit works. Not minding the cost involved they are arranging the publication of these works with one great and laudable object that such gems of ancient Indian literature should not be allowed to be lost in oblivion. Words cannot adequately express their spirit of self-sacrifice and love of learning for its own

sake. If the Jñānapīṭha Lokodaya Granthamālā aims at educating the public at large, the Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā maintains respectfully the prestige of ancient Indian learning especially in its neglected branches. Thus the Jñānapīṭha is really serving a national cause and a great cultural purpose; and all its publications are enriching our national language Hindi.

Shri Ayodhyāprasād Goyaliya is pushing the activities of the Jñānapīṭha with zeal and sincerity. Thanks are due to Pt. Pannālāl Sāhityāchārya who prepared this edition of the Mahāpurāṇa with a lucid Hindi translation. We have every hope that this edition will give fresh impetus to the study of Mahāpurāṇa in its various aspects.

July 1954.

H. L. Jain,  
A. N. Upadhye.

## प्रास्ताविक [ हिन्दी ]

आचार्य गुणभद्र कृत उत्तरपुराणके प्रकाशनके साथ जिनसेन और गुणभद्रकृत 'त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण-संग्रह' अपरनाम 'महापुराण' तीन भागोंमें पूर्णरूपसे प्रकाशित हो गया। इस सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थको ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वत्संसारके सन्मुख उपस्थित करनेका श्रेय 'भारतीय ज्ञानपीठ, काशी' को है। इससे पूर्व आंशिक अथवा पूर्णरूपमें हिन्दी, मराठी व कन्नड अनुवादों सहित इस ग्रन्थके तीन चार संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओंके कारण अधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके मिलानके पश्चात् समालोचनात्मक रीतिसे निश्चित किया गया है, और उपयोगी पाठान्तर अङ्कित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत मूल पाठके साथ-साथ धारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीकी सुविस्तृत प्रस्तावनामें ग्रन्थकारोंके सम्बन्धकी समस्त ज्ञात बातोंका संग्रह कर दिया है, तथा ग्रन्थके कुछ महत्त्वपूर्ण विषयोंका भी परिचय कराया गया है। अन्तमें पद्यांकी वर्णानुक्रमसे सूची भी दे दी गई है। इस प्रकार यह संस्करण धर्मानुरागियोंके स्वाध्यायके लिए और आलोचनशील विद्वानोंके लिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा।

महापुराण अपने नामानुसार प्राचीन कालका एक महान् आख्यान है। इसमें जैनधर्मकी मान्यतानुसार चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रतिनारायण, इन त्रैसठशलाका पुरुषोंका मुख्यतः जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके केवल एक ही जीवनकालका वर्णन नहीं है, किन्तु उनके अनेक पूर्वजन्मोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नतिकी मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यथार्थतः इन चरित्रों द्वारा धर्मानुरागियोंके समक्ष अनेक आत्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें धार्मिक श्रद्धा एवं आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित हो जाते हैं।

महापुराणका समस्त आख्यान महाराज श्रेणिकके प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् गौतम गणधरके मुखसे प्रसृत हुआ है। गौतम गणधर और श्रेणिक ये दोनों ही विख्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रोंके चित्रणमें ग्रन्थकारोंको अनेक परम्परागत रूढ़ विषयोंके वर्णनका अवसर मिला है, और उन्होंने अपनी रचनामें नाना पौराणिक, धार्मिक, सैद्धान्तिक, सांस्कारिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ प्रायः जैनधर्मका विश्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके कालानुसार विकासका सजीव चित्रण तथा आदिकालीन महापुरुषोंके लोक-कल्याणकारी कार्योंका परिचय मिलता है। जीवांके जन्मान्तर-वर्णनोंमें हमें समस्त लोक और तत्सम्बन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट झलकियाँ दिखाई देती हैं। काश्यात्मक वर्णनों, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वप्नों, नगर-योजनाओं, राजनीति इत्यादि, तथा सिद्धान्त और सदाचार एवं मत-मतान्तरोंके खण्डन-मण्डन व कलात्मक बातोंके वर्णन करनेका कहीं कोई अवसर कुशल कवियोंने अपने हाथसे नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आख्यानोंमें सुन्दर वैचित्र्य आ गया है जिससे ग्रन्थकारोंकी विशाल विद्वत्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डित्यका पता चलता है।

महापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास है। यहाँ नाभि आदिक कुलकरों, वृषभादि तीर्थंकरों, भरतादि चक्रवर्तियों आदिके सुविस्तृत वर्णन बड़े रोचक ढङ्गसे प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ हमें राम और रावण, कृष्ण और पाण्डव, तथा बाहुबली, ब्रह्मदत्त, जीवन्धर, वसु, नारद आदि अनेक महत्त्वशाली व्यक्तियोंके कथानक प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

कविने भरतकी विजय-यात्राके प्रसङ्गमें बहुत-सी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दी हैं, जो अनेक बातोंमें रूढिगत होनेपर भी उपयोगी हैं। कल्पवृक्ष, गणना, त्रैलोक्य, नाना पर्वत, दर्शन, ज्ञानभेद, वैराग्य, कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वर्णनों द्वारा यह रचना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्वकी विविध बातोंसे खूब परिपुष्ट हुई है। इनमेंके अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे अध्ययन करने और समझने योग्य हैं। ग्रन्थमें सर्वत्र व्याप्त श्रावकधर्म व मुनिधर्मके अतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावशाली रीतिसे अभिव्यक्त बहुतसी राजनीति और लोक-व्यवहार-वाता भी मिलती है।

महापुराणकी रचनामें आचार्य जिनसेन और गुणभद्रने आगमिक परम्परा तथा यतिवृत्तमूलक तिलोत्पण्णिति व कवि परमेष्ठि कृत 'वागर्थ संग्रह' जैसी आगमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कुछ आधार लिया है। किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वाङ्गपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्तद्विषयक पूर्वकालीन रचनाएँ प्रायः अन्धकारमें पड़ गईं। अतः यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि कवि परमेष्ठी जैसे ग्रंथकारोंकी रचनाएँ उपेक्षित हो गईं और क्रमसे कालके गालमें समा गईं।

यह महापुराण अपभ्रंश कवि पुष्पदन्त, संस्कृत कवि हेमचन्द्र और आशाधर, कन्नड कवि चामुण्डराय एवं श्रीपुराणकार तामिल कवि आदिकी रचनाओंके लिए यदि साक्षात् और एकमात्र आधार नहीं तो आदर्श अवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन लेखकोंने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, प्रद्युम्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुषका चरित्र लिखा है, वे भी अपनी रचनाओंके पांचक वर्णन और विस्तारके लिए इन्हीं ग्रंथोंके ऋणी हैं।

महापुराण दो भागोंमें विभक्त है। प्रथमभाग आदिपुराण कहलाता है और उसमें सैंतालीस पर्व हैं। द्वितीयभाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पर्व हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहत्तर पर्वोंमें समाप्त हुआ है जिनका समस्त ग्रंथाग्र लगभग बीस हजार श्लोक-प्रमाण है। आदिपुराणके ब्यालीस पर्व और तैतालीसवें पर्वके तीन पद्य, जिनका श्लोक प्रमाण लगभग बारह हजार होता है, आचार्य जिनसेन कृत हैं और ग्रंथका शेषभाग उनके शिष्य आचार्य गुणभद्रकी रचना है। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती इन दो का ही चरित्र वर्णित हो पाया है। शेष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरपुराण में ग्रथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठहजार श्लोक प्रमाणमें वर्णन-विस्तारकी अपेक्षा नाम-धामोल्लेख ही अधिक है।

जैनधर्मके विविध अंगोंके सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कलाकारके नाते जिनसेन अपनी रचनाके प्रमाण और गुण इन दोनों दृष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयध्वला टीकाके अन्तमें उन्होंने जो कुछ पद्य-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी कुछ झलकें मिल जाती हैं। जान पड़ता है, उन्होंने अपने बाल्यकालमें ही जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मचर्यके पालन एवं धार्मिक व साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें ही पूर्णतः संलग्न रहे। यद्यपि वे शरीरसे कृश थे और देखनेमें सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्यामें सुदृढ और बुद्धि, धैर्य एवं विनयादि गुणोंमें प्रतिभावान् थे। वे ज्ञान और अध्यात्मके मूर्तिमान् अवतार ही कहे जा सकते हैं।

मुनिधर्मकी दृष्टिसे जिनसेन एक व्यक्तिमात्र नहीं किन्तु एक संस्थाके समान थे। वे वीरसेन जैसे महान् गुरुके महान् शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुकी जयध्वला टीकाका शक संवत् ७५९ (सन् ८३७ ई०) में समाप्त किया। उसी प्रकार उनके शिष्य गुणभद्रने उनकी मृत्युके पश्चात् उनके महापुराणको शक सं० ८१९ (सन् ८९७ ईस्वी) से कुछ पूर्व पूर्ण किया। वे पंचस्तूपान्वय नामक मुनि सम्प्रदायके सदस्य थे। इसी सम्प्रदायमें गुहनन्दी, वृषभनन्दी, चन्द्रसेन, आर्यनन्दी और वीरसेन भी हुए थे। इस पंचस्तूपान्वयका मुख्य केन्द्र किसी समय उत्तर-पूर्व भारतमें था। अनुमानतः इसी अन्वयके मुनि जैन कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञानके सबसे बड़े संरक्षक थे। वे राजपूताना और गुजरात होते हुए दक्षिण भारतमें श्रवणबेलगुल तक पहुँचे। वे जहाँ गये वहाँ अपने परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानको लेते गये, और कठोर तपस्याके धार्मिक मार्गका भी अनुसरण करते रहे। वीरसेन और जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्चात् उनका मुनिसम्प्रदाय पंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेनान्वय अथवा सेनगणके नामसे ही अधिक प्रसिद्ध हो गया।

जिनसेनका काल राजनैतिक स्थैर्य और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नतिका युग था। उनके समकालीन नरेवा राष्ट्रकूटवंशी जगन्गुण और नृपतुङ्ग अपरनाम अमोघवर्ष (सन् ८१५—८७७) थे। इनकी राजधानी मान्यकैट थी जहाँ विद्वानोंका अच्छा समागम हुआ करता था। अमोघवर्ष केवल एक प्रबल सम्राट ही नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके आश्रयदाता भी थे। स्वयं भी वे शास्त्रीय चर्चाओंमें रुचि और साहित्यिक योग्यता रखते थे। अलंकार-विषयक एक कन्नडग्रंथ 'कविराजमार्ग' उनकी कृति



कही जाती है। वे जिनसेनके बड़े भक्त थे और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। वे शीघ्र ही जैनधर्मके पक्के अनुयायी हो गये। उनके संस्कृतकाव्य 'प्रपनोधाररत्नमाला' तथा उनके समकालीन महावीरारचार्य कृत 'गणितसार संग्रह'के सुस्पष्ट उल्लेखोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यागकर धार्मिक जीवन स्वीकार किया था। ( देखिये प्रो० हीरालाल जैन : 'राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्षकी जैनदीक्षा' जै० सि० भास्कर भा० ९ कि० १; तथा अनेकान्त, वर्ष ५, पृ० १८३-१८७ ) उनका राज्यकाल खूब विजयी और समृद्धिशाली रहा, तथा वे दीर्घकाल तक जीवित रहे।

जिनसेनने वीरसेन और जयसेन जैसे गुरुओंसे व्याकरण, अलङ्कार, न्याय आदि परम्परागत नाना विद्याओंको सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन् ७८३ ) से कुछ पूर्व संस्कृत काव्य पार्श्वभ्युदयकी रचनासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें अनूठा माना जाता है। इस कवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्यमें अनुक्रमसे कालिदास कृत मेघदूत नामक खण्ड-काव्यकी एक या दो पंक्तियाँ अनुबद्ध की हैं और शेष पंक्तियाँ स्वयं बनाई हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्यमें समस्या-पूतिके काव्यकौशल द्वारा समस्त मेघदूतको प्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्योंका कथाभाग परस्पर सर्वथा भिन्न है, तथापि मेघदूतकी पंक्तियाँ पार्श्वभ्युदयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक ढङ्गसे बैठ गई हैं। समस्यापूतिकी कला कविवर अनेक नियन्त्रण लगा देती है। तथापि जिनसेनने अपनी रचनाको ऐसी कुशलता और चतुराईसे समहाला है कि पार्श्वभ्युदयके पाठकको कहीं भी यह सन्देह नहीं हो पाता कि उसमें अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगारम्भ एक पृथक् काव्यका भी समावेश है। इस प्रकार पार्श्वभ्युदय जिनसेनके संस्कृत भाषापर अधिकार तथा काव्यकौशलका एक सुन्दर प्रमाण है। उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व और भी जँवा उठ जाता है। महान् कवि ही अपनी कवितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धमें प्रोफेसर के० बी० पाठकका मत है कि "पार्श्वभ्युदय संस्कृत साहित्यकी एक अद्भुत रचना है। वह अपने युगकी साहित्यिक रचिकी उपज और आदर्श है। भारतीय कवियोंमें सर्वोच्चस्थान सर्वसम्मतिसे कालिदासको मिला है। तथापि मेघदूतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जानेके योग्य हैं।" ( जर्मल, बाम्बे ब्रांच, रायल एग्जियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, ब्हा० १८ ( १८९२ ) तथा पाठक द्वारा सम्पादित 'मेघदूत' द्वि० संस्करण, पूना १९१६, भूमिका पृ० २३ आदि )

अपनी षट्खंडागम-टीकाको बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण ग्रंथाग्रमें समाप्त करनेके पश्चात् वीरसेन स्वामीने कषाय-प्राभृतपर जयधवलटीका लिखना प्रारम्भ किया। इसकी बीस हजार श्लोकप्रमाण ही रचना हो पाई थी कि उनका स्वर्गवास हो गया। अतः उस टीकाको पूरा करनेका कार्य उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेन पर पड़ा। इन्होंने इस महान् और पवित्र ग्रंथको अपनी चालीस हजार श्लोकप्रमाण रचना द्वारा सन् ८३८ ईस्वीमें समाप्त किया। ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओंके गरभीर ज्ञानों तथा जैनधर्मके समस्त अंगों और विशेषतः कर्मसिद्धान्तके महान् पाण्डित्यकी परिचायक हैं। इन रचनाओंमें तद्विषयक समस्त ज्ञातव्य बातोंका एवं प्रायः पूर्वकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया गया है। जिनसेनाचार्यका काव्यकौशल उनके स्मरणीय काव्य पार्श्वभ्युदयसे एवं उनकी विशाल विद्वत्ता उनकी अमर टीका जयधवलासे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा और भी खूब विकसित रूपमें दृष्टि-गोचर हो रही है।

जैन पुराण और सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो महापुराणका विशेषज्ञों द्वारा पर्याप्त आदर किया जाता है; किन्तु इस रचनाके साहित्यिक गुणोंकी ओर संस्कृतज्ञोंका जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं गया। महापुराणके अनेक खंड संस्कृत काव्यके अति सुन्दर उदाहरण हैं। इस क्षेत्रमें जिनसेनने अपने पूर्वकालीन कवियोंकी कृतियोंसे सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होंने संस्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सरल और स्वाभाविक ढंगसे करके भी उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहस्रनाम स्तोत्र बतला रहा है कि उन्होंने संस्कृत भाषा, व्याकरण और शब्दभण्डारके सामर्थ्य और दौर्बल्य, दोनोंसे कितना अधिक लाभ उठाया है। वे पद्यरचनाके परिपक्व विद्वान् हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यको भी अपनाया है। उनके वर्णन अति समृद्ध तथा शब्द और अर्थारम्भक अलंकारोंसे भरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो कल्पनाका उत्कर्ष,

चित्रणका प्राचुर्य तथा पद्यरचनाकी धारावाहिकता आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं उनसे प्रोफेसर पाठक बहुत आकर्षित हुए। संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेन अपनी इस रचनाकी अपूर्ण छोड़कर परलोक सिंघार गये। उनके शिष्य गुणभद्रने बड़े संकोचके साथ, कुछ काल ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कर्तव्य समझकर, इस ग्रन्थको सन् ८९७ ईस्वीमें पूर्ण किया और गुणभद्रके शिष्य लोकसेनने उसकी प्रतिष्ठा कराई। यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र इन तीनोंका अविच्छिन्न और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस असाधारण त्रिमूर्तिका अवतार धवला, जयधवला और महापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी निधियोंको उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त ग्रंथ एक व्यक्ति द्वारा एक जीवनकालमें सम्पन्न करना असंभव था।

अपने गुरुकी कृति महापुराणकी पृतिके अतिरिक्त गुणभद्रने दो और संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना की— एक 'आत्मानुशासन' जिसमें धार्मिक व नैतिक २७२ पद्योंका समावेश है; और दूसरी 'जिनदत्तचरित' जो नौ सर्गोंका प्रबन्ध काव्य है।

संस्कृत साहित्यके और विशेषतः जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमान् सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना करके बड़े महत्त्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थोंका प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। इस प्रकाशनमें व्ययकी कोई चिन्ता न कर उन्होंने केवल यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यके सुन्दर रत्न अन्धकारमें पड़े न रह जावें। इस सम्बन्धमें उनके निस्वार्थ त्याग और साहित्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना शब्दसामर्थ्यसे बाहरकी बात है। जहाँ 'ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रंथमाला' जन-साधारणमें ज्ञानप्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रंथमाला' भारतकी प्राचीन साहित्यिक निधि, और विशेषतः उसके उपेक्षित अङ्गोंका विनीत भावसे सत्कार और उत्कर्ष कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान् सांस्कृतिक प्रयोजनकी पृतिके संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिन्दीकी समुच्चयितमें भी सहायक हो रहे हैं।

भारतीय ज्ञानपीठके मंत्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय ज्ञानपीठके कार्यको गतिशील बनाये रखनेमें बड़ी तत्परता और लगनसे प्रयत्नशील हैं।

महापुराणके इस संस्करणको हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

हमें पूर्ण आशा और भरोसा है कि यह संस्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसे अध्ययन-अन्वेषण कार्यमें नव-स्फूर्तिदायक सिद्ध होगा।

हीरालाल जैन  
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये

### प्रकाशन-व्यय

१८३४(३)॥ कागज २२ × २९ = २८ पौण्ड

९४ रीम ४ जिस्ता

१८८२) छपाई ८४ फार्म

१०००) जिल्द बँधाई

५०) कवर कागज

५०) कवर छपाई

१२०४) सम्पादन-व्यय

२६४) प्रूफ संशोधन

१०००) मेंट, आलोचना

१७५) पोस्टेज ग्रंथ मेंट भेजने का

२८५०) कमीशन, विज्ञापन, विक्री व्ययादि

कुल लागत १०३५६(३)॥

१००० प्रति छपी। लागत एक प्रति १०।३॥

मूल्य १०) रु०

## प्रस्तावना

### सम्पादनसामग्री

उत्तरपुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके आधारपर हुआ है ।

‘क’ प्रति

यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त हुई है । पत्रसंख्या ३१८, लम्बाई-चौड़ाई १२ × ५ इंच । प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३४ से ३६ तक अक्षर हैं । प्रारम्भसे २८१ पत्र तक प्रति अत्यन्त जाँघा हो चुकी है । कागज जर्जर है, हाथ लगाते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो चुका है । दशा देवनेसे अत्यन्त प्राचीन मालूम होती है । २८२ से अन्ततक पुनः पत्र लिखाकर जोड़े गये हैं । अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है । इस प्रतिके चारों ओर संस्कृतमें सूक्ष्म अक्षरों द्वारा टिप्पण भी दिये गये हैं । किन्हीं-किन्हीं श्लोकोंमें अन्वयके क्रमाङ्क भी दिये गये हैं । लेखन प्रायः शुद्ध और सुवाच्य है । काली स्याहीसे लिखी गई है और श्लोकाङ्क लाल स्याहीसे दिये गये हैं । इसका सांकेतिक नाम ‘क’ है । इसमें १६६ वाँ पृष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पत्र नहीं हैं ।

‘ख’ प्रति

यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरासे पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यके सौहार्दसे प्राप्त हुई है । इसका कुल पत्र संख्या ३०९ है । पत्रोंका परिमाण १२ × ६ इञ्च है । प्रति पत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं । अन्तमें लेखन-काल १८१५ संवत् दिया हुआ है । मार्गशीर्ष कृष्ण दशमाका इसका प्रतिलिपि पूर्ण हुई है । दशा अच्छी है, लिपि सुवाच्य है, शुद्ध भी है, इसका सांकेतिक नाम ‘ख’ है । इसमें ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति नहीं है ।

‘ग’ प्रति

यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त है । कुल पृष्ठसंख्या ४१३ है, पत्रोंका परिमाण १० × ५ इञ्च है । प्रति पत्रमें ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३० से ३३ तक अक्षर हैं । लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें लेखन-काल १५५७ वर्ष आपाद कृष्ण ८ शुक्रवार दिया हुआ है । काली स्याहीसे लिखित है, कागज जीर्ण हो चुका है, रङ्ग भी मटमैला हो गया है, बीच-बीचमें कितने ही स्थलों पर टिप्पण भी दिये गये हैं । दशा जर्जर होनेपर भी अच्छी है । इसका सांकेतिक नाम ‘ग’ है ।

‘घ’ प्रति

यह प्रति भी भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त है । इसमें कुल पत्रसंख्या ३१३ है, पत्रोंका परिमाण १३ × ७ इञ्च है, प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४५ से ४७ तक अक्षर हैं । अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है । कागजकी दशा और रङ्गसे अधिक प्राचीन नहीं मालूम होती । लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है । इसका सांकेतिक नाम ‘घ’ है ।

‘ङ’ प्रति

यह प्रति श्रीमान् पण्डित लालारामजी शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा अनूदित है । ऊपर सूक्ष्म अक्षरोंमें मूल श्लोक तथा नीचे कुछ स्थूलाक्षरोंमें हिन्दी अनुवाद दिया गया है । इसका प्रकाशन स्वयं उक्त शास्त्रीजी द्वारा हुआ है । इसमें मूलपाठ कितनी ही जगह परम्परासे अशुद्ध हो गया है, अब यह अप्राप्य है । इसका सांकेतिक नाम ‘ङ’ है ।

‘च’ प्रति

यह प्रति श्रीमान् पंडित चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ जयपुरके सौजन्य वश श्री अतिशयक्षेत्र महा-  
द्वारजीके सरस्वती-भवनसे प्राप्त हुई है । इसमें २७९ पत्र हैं, पत्रोंका परिमाण १२ × ६ इञ्च है, प्रतिपत्रमें

१२ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्तिमें ३८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीच-बीचमें कठिन पदोंके टिप्पण भी आजू-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा अच्छी है, प्रायः शुद्ध है, लेखन-काल १८०५ है, जेठबदी पञ्चमी गुरुवारको सवाई जयपुरमें विमलसागर थलिके द्वारा लिखी गई है। इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

### एक प्रति और

उत्तर पुराण संस्कृतकी पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ बनारसमें हुई है। प्रारम्भसे लेकर नमिनाथ-पुराण तक तो यह पं० लालारामजी शास्त्रीकृत अनुवाद सहित मुद्रित प्रतिसे हुई है और उसके बाद किसी हस्तलिखित प्रतिसे हुई है। यह प्रति कहाँ से आई, कैसे आई इसका परिचय ज्ञानपीठके व्यवस्थापक महाशयके स्थानान्तरित हो जानेके कारण नहीं जान सका। एक पत्र मैंने पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य भूतपूर्व व्यवस्थापकको उस प्रतिका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे लिखा भी था पर कुछ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यक्ष भी चर्चा की थी पर उन्होंने कहा कि समय अधिक हो जानेसे स्मरण नहीं है। वर्तमान व्यवस्थापकजीको इस विषयकी जानकारी नहीं है। अस्तु, यह प्रति शुद्ध मालूम होती है और जहाँ कहीं अन्य प्रतियाँसे विभिन्न पाठान्तर लिखे हुए हैं। इस प्रतिके पाठोंका उल्लेख मैंने 'द्वयपि क्वचित्' इन शब्दों द्वारा किया है।

### उत्तरपुराण

उत्तरपुराण, महापुराणका पूरकभाग है। इसमें अजितनाथको आदि लेकर २३ तीर्थकर, सगरको आदि लेकर ११ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कालमें होनेवाले विशिष्ट पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकोंमें कितने ही कथानक इतने रोचक ढङ्गसे लिखे गये हैं कि उन्हें प्रारम्भकर पूरा किये बिना बीचमें छोड़नेको जी नहीं चाहता। यद्यपि आठवें, सोलहवें, बाईसवें तेईसवें और चौबीसवें तीर्थकरको छोड़कर अन्य तीर्थकरोंके चरित्र अत्यन्त संक्षेपसे लिखे गये हैं परन्तु वर्णन शैलीकी मधुरतासे वह संक्षेप भी रुचिकर ही प्रतीत होता है। इस ग्रन्थमें न केवल पौराणिक कथानक ही हैं किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें सिद्धान्तकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शनादिका और दार्शनिक दृष्टिसे सृष्टिकर्तृत्व आदि विषयोंका भी अच्छा विवेचन हुआ है।

रचयिता गुणभद्राचार्यका ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकामें विस्तारसे दे चुका है अतः यहाँ फिरसे देना अनावश्यक है।

### उत्तरपुराणका रचना-स्थल—बङ्कापुर

उत्तर पुराणकी रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु साधनके अभावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री मृडबिद्वीने अपने एक पत्रमें संकेत किया कि 'यदि उत्तरपुराणकी भूमिकामें उसके रचना-स्थल बंकापुर का परिचय देना चाहें तो भेज दूँ'। मैंने शास्त्रीजीकी इस कृपाको अनभ्रष्टृष्टि जैसा समझ भूमिकामें बंकापुरका परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फलस्वरूप शास्त्रीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह उन्हींके शब्दोंमें दे रहा हूँ—

“बंकापुर, पूना-बेंगलूर रेलवे लाइनमें हरिहरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशन से १५ मील पर धारवाड जिलेमें है। यह वह पवित्र स्थान है, जहाँ पर प्रातःस्मरणीय आचार्य गुणभद्रजीने शक संवत् १८२० में अपने गुरु भगवजिनसेनके विश्रुत महापुराणान्तर्गत उत्तरपुराणको समाप्त किया था। आचार्य जिनसेन और गुणभद्र जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोंमें से हैं इस बातको साहित्य संसार अच्छी तरह जानता है। संस्कृत साहित्यमें महापुराण वस्तुतः एक अनूठा रत्न है। उत्तरपुराण के समाप्ति-कालमें बंकापुरमें जैन वीर बंकिशका सुयोग्य पुत्र लोकादित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक अकालवर्ष बा कृष्णराज (द्वितीय) के सामन्तके रूपमें राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर, तेजस्वी और शत्रु-विजयी था। इसकी ध्वजामें चिह्न बाचील का चिह्न अंकित था और वह चेलुचीलजका अनुज तथा चेलुकेत

( बंकेय ) का पुत्र था । उस समय समूचा बनवास ( बनवासी ) प्रदेश लोकादित्यके ही वशमें रहा । उपर्युक्त बंकापुर, श्रद्धेय पिता वीर बंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और उस जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त था । बंकेय भी सामान्य व्यक्ति नहीं था । राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंगके लिए राज्यकार्योंमें जैन वीर बंकेय ही पथप्रदर्शक था । मुकुलका पुत्र परकोरि, परकोरिका पुत्र घोर और घोरका पुत्र बंकेय था । बंकेयका प्रपितामह मुकुल शुभतुंग कृष्णराज का, पितामह परकोरि शुभतुंगके पुत्र ध्रुवदेव का, एवं पिता घोर चक्री गोविंद राज का राजकार्य-सारथि था । इससे सिद्ध होता है कि लोकादित्य और बंकेय ही नहीं, इनके पितामहादि भी राजकार्य पटु तथा महाशूर थे ।

नृपतुङ्गको बंकेय पर अटूट श्रद्धा थी । वही कारण है कि एक लेखमें नृपतुंगने बंकेयके सम्बन्ध में 'विततज्योतिर्निशितासिरिवापरः' कहा है । पहले बंकेय नृपतुंगके आस सेनानायकके रूपमें अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृपापात्र बननेके फलस्वरूप विशाल बनवास ( बनवासी ) प्रान्तका सामन्त बना दिया गया था । सामन्त बंकेयने ही गङ्गराज राजमल्लको एक युद्धमें हरा कर बंदी बना लिया था । बल्कि इस विजयोपलक्ष्यमें भरी सभामें वीर बंकेयको नृपतुंगके द्वारा जब कोई अभीष्ट वर माँगनेकी आज्ञा हुई तब जिनभक्त बंकेयने सगद्गद महाराज नृपतुङ्गसे यह प्रार्थना की कि 'महाराज ! अब मेरी कोई लौकिक कामना बाकी नहीं रही । अगर आपको कुछ देना ही अभीष्ट हो तो कोलनूरमें मेरे द्वारा निर्मापित पवित्र जिनमन्दिरके लिए सुचारु रूपसे पूजादि कार्य-संचालनार्थ एक भू दान प्रदान कर सकते हैं, । बस, ऐसा ही किया गया । यह उल्लेख एक विशाल प्रस्तरखण्डमें शासन के रूपमें आज भी उपलब्ध होता है । बंकेयके असीम धर्मप्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है । इस प्रसंगमें यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपत्नी विजया बड़ी विदुषी रही । इसने संस्कृतमें एक काव्य रचा है । इस काव्यका एक पद्य श्रीमान् बेंकटेश भीम राव आलूर बी०ए०-एल० एल०बी० ने 'कर्णाटकगतत्रैभव' नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपमें उद्धृत किया है<sup>१</sup> । बंकेयके सुयोग्य पुत्र लोकादित्यमें भी पूज्य पिताके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ लोकादित्य पर 'उत्तरपुराणके रचयिता श्री गुणभद्राचार्यका प्रभाव भी पर्याप्त था । इसमें सन्देह नहीं कि धर्मधुरीण लोकादित्यके कारण बंकापुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था । यद्यपि लोकादित्य राष्ट्रकूट-नरेशोंका सामन्त था फिर भी राष्ट्रकूट शासकोंके शासन-कालमें यह एक वैशिष्ट्य था कि उनके सभी सामन्त स्वतन्त्र रहे । आचार्य गुणभद्रके शब्दोंमें लोकादित्य शत्रु रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक ख्यातिप्राप्त प्रतापी शासक ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीमान् भी था । उस जमानेमें बंकापुरमें कई जिन-मन्दिर थे । इन मन्दिरोंको चालुक्यार्थी शासकोंसे दान भी मिला था । बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहाँ पर जैनाचार्योंका वास अधिक रहता था । यही कारण है कि इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपमें होती थी । इसीलिए ही गङ्गनरेश नारसिंह जैसे प्रतापी शासकने वहाँ आकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरुओंके पादमूलमें सल्लेखना व्रत सम्पन्न किया था । टंडाधिप हुल्लने वहाँपर कैलास जैसा उत्तुङ्ग एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था । इतना ही नहीं, प्राचीनकालमें वहाँ पर एक दो नहीं, पाँच महाविद्यालय मौजूद थे ।<sup>२</sup> 'ये सब बीती हुई बातें हुईं' । वर्तमान कालमें बंकापुरकी स्थिति कैसी है इसे भी विशु पाठक अवश्य सुन लें । सरकारी रास्तेके बगलमें उन्नत एवं विशाल मैदानमें एक ध्वंसावशिष्ट पुराना किला है । इस किलाके अन्दर १२ एकड़ जमीन है । यह किला बम्बई सरकारके वशमें है । वहाँ पर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल रखा है । जहाँ-तहाँ खेती भी होती है । राजमहलका स्थान ऊँचा है और इसके चारों ओर विशाल मैदान है । वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूपमें दृष्टिगोचर होता है । इन विशाल खेतोंमें आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, उद्द, मूँग, चना, तुवर, कपास और मूँगफली आदि पैदा होते हैं । स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी समृद्धिके जमानेमें यह स्थान

१ "सरस्वती व कर्णाटी विजयाङ्गा जयत्यसौ । या वैदर्भीगिरा वासः कात्सिदात्तादनन्तरम् ॥" २. बम्बई प्रान्तके जैन स्मारक देखें ।

वस्तुतः देखने लायक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहाँसे हटनेकी इच्छा ही नहीं हुई। किलेके अन्दर इस समय एक सुन्दर जिनालय अवशिष्ट है वहाँ वाले इसे 'आवरा मूस कंब गलवस्ति' कहते हैं। इसका हिन्दी अर्थ ६३ खम्भोंका जैन मन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध शान्ति-मन्दिर और इसके ६३ खम्भ जैनोंके त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंका स्मृतिचिह्न होना चाहिये। मन्दिर बड़ा पुष्ट है और वस्तुतः सर्वोच्च कलाका एक प्रतीक है। खम्भोंका पालिश इतना सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, आज भी उनमें आसानीसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंमें विभक्त है। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ खण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सौ आदमी आरामसे बैठ सकते हैं। छत और दीवारों परकी सुन्दर कलापूर्ण मूर्तियाँ निर्दय विध्वंसकोंके द्वारा नष्ट की गई हैं। इस मन्दिरको देखकर उस समय की कला, आर्थिक स्थिति और धार्मिक श्रद्धा आदिको आज भी विवेकी परख सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानोंके इन प्राचीन महत्त्वपूर्ण जैन स्थानोंका उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानों को जानती भी नहीं है।

### रामकथाकी विभिन्न धाराएँ

पद्मपुराण और उत्तर पुराणका राम-कथामें पर्याप्त मतभेद है। यह क्यों और कब हुआ इसका विश्वस्त रूपसे कह सकना संभव नहीं दिखता। जब लोगोंको मालूम हुआ कि उत्तरपुराणका सम्पादन और अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तब कई विद्वानोंने इस आशयके पत्र लिखे कि आप राम-कथाके मतभेदकी गुत्थी अवश्य ही सुलझाइये। मेरी दृष्टि भी इस ओर बहुत समयसे थी। परन्तु अध्ययन करनेके बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुँच सका कि आखिर यह मतभेद क्यों और कबसे चला। रामकथा की विभिन्न धाराओं पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धेय श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास, नामक ग्रन्थमें प्रकाशित 'पद्मचरित और पठम चरित, नामक लेखमें 'राम कथा की विभिन्न धाराएँ' शीर्षक एक प्रकरण लिखा है जो कि इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाठकोंकी जानकारी के लिए मैं उसे यहाँ लेखकके ही शब्दोंमें उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ—

“रामकथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इस पर विपुल साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी गई है और तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुष मानते हैं।

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले वाल्मीकि मुनिने लिखा और संस्कृतका सबसे पहला महाकाव्य ( आदिकाव्य ) वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े-थोड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें लिपिबद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्भुत रामायण नामसे भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये। बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ।

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें शृत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी स्त्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भसे साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। इस पर उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़में दूधको अभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोंके चुभा-चुभाकर उनके शरीरका बूँद-बूँद खून निकाला और उसे घड़े में भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीव्र है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गई कि पति का मुक्तपर सच्चा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही परस्त्रियोंमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई। पत्तिकी अनुपस्थितिमें गर्भ धारण हो जानेसे अब उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक दिन विमानमें बैठकर कुक्षेत्र गई और उस गर्भको जमानमें गाढ़कर वापिस चली आई। उसके बाद हल जातते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली और उन्होंने उसे पाल लिया वहाँ सीता है।

विष्णुपुराण ( ४—५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज पुत्रलाभ के लिए यज्ञभूमि जोत रहे थे, उसी समय लाङ्गलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई ।

बौद्धोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्वजन्मकी कथाएँ लिखी गई हैं । दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेशकी सोलह हजार रानियाँ थीं । उनमेंसे मुख्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामकी एक कन्या हुई । फिर मुख्य रानीके मरने पर दूसरी जो पट्टरानी हुई उससे भरत नामका पुत्र हुआ । यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना चाहती थी । तब इस भय से कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार न डाले, राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे । नौ वर्षके बाद दशरथकी मृत्यु हो गई और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेके लिए राजी नहीं हुए । इसलिए भरत, रामकी पादुकाओंको ही सिंहासन पर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने लगे । आखिर बारह वर्ष पूरे होने पर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताके साथ विवाह करके उन्होंने सोलह हजार वर्ष तक राज्य किया । पूर्व जन्ममें राजा शुद्धोदन राजा दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत और सारिपुत्र लक्ष्मण थे । इस कथामें सबसे अधिक खटकने वाली बात रामका अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज्य-घरानोंमें राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका विवाह कर दिया जाता था । वह एक रिवाज था । इस तरह हन हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें रामके कथाके तीन रूप देखते हैं एक वाल्मीकि रामायण का, दूसरा अद्भुत रामायण का और तीसरा बौद्ध जातकका ।

### जैन रामायणके दो रूप

इसी तरह जैन साहित्यमें भी राम-कथा के दो रूप मिलते हैं एक तो पउमचरिय और पद्मचरित का तथा दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराण का । पउमचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्वमें वर्णित है । उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है —

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे । रामकी माताका नाम सुबाला और लक्ष्मणकी माताका नाम कैकेयी था । भरत शत्रुघ्न किसके गर्भमें आये थे, वह स्पष्ट नहीं लिखा । केवल 'कस्यां चित् देव्याम्' लिख दिया । सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी, परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें भेजकर जमीनमें गड़वा दिया । दैवयोगसे हल्की नाकमें उलझ जानेसे वह राजा जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूपमें पाल ली । इसके बाद जब वह विवाहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई । उन्होंने एक वैदिक यज्ञ किया और उसका रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुलवाया । फिर रामके साथ सीता का विवाह दिया । यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त क्रुद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा ।

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है । पंचवटी, दण्डक-वन, जटायु, शूर्पणखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव है । बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता है । रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने लगते हैं । सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है । लक्ष्मण एक असाध्यरोगमें ग्रसित होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्वेग होता है । वे लक्ष्मणके पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजपद पर और सीताके पुत्र अजितजयको युवराजपद पर अभिषेक करके अनेक राजाओं और अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं ।

इसमें सीताके आठ पुत्र बनलाये, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनमि विद्याधर के वंशके पुलस्त्यका पुत्र था। शत्रुओंको सताता था इस कारण वह रावण कहलाया। आदि।

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा। वह बिलकुल 'पउमचरिय' की कथाके अनुरूप है। ऐसा मालूम होता है कि 'पउमचरिय और पद्मचरित' दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने मौजूद थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है दिग्म्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका अधिक प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लवित करके अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोंने उसका भी आदर्श मानकर काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तका ही ले लीजिये। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चासुण्डरायपुराणमें भी वही कथा है।<sup>१</sup>

पउमचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराण की कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे यह बात बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है। उत्तर पुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासन, लव-कुश जन्म आदि नहीं है।

अर्थात् भारतवर्षमें रामकथाकी जो दो तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं। पउमचरिउके कर्ताने कहा है कि उस पद्मचरितको मैं कहता हूँ जा आचार्योंकी परम्परासे चला आ रहा था और नामावली<sup>२</sup> निबद्ध था। इसका अर्थ मैं यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात् उसमें कथाके प्रधान प्रधान पात्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लवित कथाके रूपमें नहीं होगा और उम्मीकी विमलसूरिने विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री धर्मसेन गणीने वसुदेवहिंडिके दूसरे खण्डमें जो कुछ कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था। उसमें कुछ श्रुतिनिबद्ध था और कुछ आचार्य परम्परागत था।

जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुए, होंगे तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादि को राक्षस, वसा-रक्त-मांसका खाने पीनेवाला और कुम्भकर्णको छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा है कि पर्वत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेल डाले जाने और नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भैसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता था।<sup>३</sup> उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या उसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, उपपत्तिविरुद्ध तथा अविश्वसनीय बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावली निबद्ध ढांचा उनके समक्ष था ही और श्रुति परम्परा या आचार्य परम्परासे आया हुआ कथामूत्र भी था। उसीके आधार पर उन्होंने पउमचरियकी रचना की होगी।

उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रचियेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थोंका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोक-प्रचलित कथाको ही स्वतन्त्ररूपसे जैनधर्मके सांघेमें ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० ९५५ है जो बहुत

१ पंपकविकी कनडो रामायण और स्वयंभू कविकी अपभ्रंश रामायण पद्मपुराणके आधार पर लिखी गई है। २ "गामावलिपणिवद्धं आयरियपरंपरागतं सव्वं। बोच्चामि पउमचरियं अश्राणुपुब्बिं समासेण ॥ ८ ॥" ३ देखो पउमचरिय गाथा १०७ से ११६ तक।



प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमलसूरिके ही समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्यको गुरुपरम्परा द्वारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण कवि परमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था—‘कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोश्चरितम्।’ और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्वर या कवि परमेश्वरीको ‘वागर्थसंग्रह’ नामक समग्र पुराणका कर्ता बतलाया है। अतएव मुनिसुव्रत तीर्थकरका चरित्र श्री गुणभद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चामुण्डरायने कवि परमेश्वरका स्मरण किया है।

गरज यह कि पउमचरिय और उत्तर पुराणकी रामकथाकी दो धाराएँ अलग-अलग स्वतन्त्र रूपसे निमित्त हुईं और वे ही आगे प्रवाहित होती हुईं हम तक आई हैं। इन दो धाराओंमें गुरु-परम्परा भेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एक धाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको। ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पउमचरियकी धारासे परिचित होने पर भी इस ख्यालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह हमारी गुरु-परम्पराकी नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हें पउमचरियके कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा मालूम हुआ हो।

पउमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैन धर्म दिग्म्बर श्वेताम्बर भेदोंमें वि० सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन धर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थमें कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिस पर दोनों से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छाप लगी हो और उसमें हम यह निर्णय कर सकें कि विमल सूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे। बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ दिग्म्बर परम्पराके विरुद्ध। इससे ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचारधारा है।

### अन्य कथाओंमें भी विविधता

इकहत्तरवें पर्वमें बलराम, श्रीकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रद्युम्न आदिके भवान्तर बतलाये गये हैं इसमें जिनसेन [ द्वितीय ] के हरिवंशपुराणसे कहीं-कहीं नाम तथा कथानक आदिमें भेद पाया जाता है। इसी प्रकार पचहत्तरवें पर्वमें जीवन्धर स्वामीका चरित लिखा गया है परन्तु उसमें और आचार्य वार्दीभसिहके द्वारा लिखित गद्यचिन्तामणि या क्षत्रचूडामणिके कथानकमें काफी विविधता है। नाम आदिकमें विविधता तो है ही पर उनके चरित्र-चित्रणमें भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वार्दीभसिहने पौराणिक कथानकको काव्यके ढाँचेमें ढालनेके लिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर आदिके प्रकरणोंको छोड़ दिया हो। पर पात्रोंके नाम आदिमें भेद कैसे हो गया यह समझमें नहीं आता।

### महापुराणका परिमाण

इस महापुराण ग्रन्थका अनुष्टुप् श्लोकोंकी संख्यामें कितना परिमाण है? इसके विषयमें दो उल्लेख मिलते हैं—एक तो गुणभद्राचार्यने ही ग्रन्थके अन्तमें २० हजार श्लोक प्रमाण बतलाया है और दूसरा उसी श्लोकके पाठान्तरमें २४ हजार श्लोक प्रमाण बतलाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर विचार आया कि इसका एक बार निर्णय कर लेना ही उचित होगा। फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय भाग तथा उत्तर पुराणके श्लोकोंका निर्णय निम्न यन्त्रसे किया जाता है—

### आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमाण

क्रमांक	छन्द नाम	श्लोक संख्या	अक्षर
१.	अनुष्टुप	१०४१२ × ३२	३३३१८४
२.	हरिणी	१६ × ६८	१०८८
३.	मालिनी	१०६ × ६०	६३६०

क्रमांक	छन्द नाम	दलोक संख्या	अक्षर
४.	स्त्रग्धरा	९ × ८४	७५६
५.	शार्कूलविक्रीडित	८१ × ७६	६१५६
६.	उपजाति	१९ × ४४	८३६
७.	इन्द्रवज्रा	४ × ४४	१७६
८.	वसन्ततिलका	८१ × ५६	४५३६
९.	दोधक	८ × ४४	३५२
१०.	द्रुतविलम्बित	३३ × ४८	१५८४
११.	उपेन्द्रवज्रा	५ × ४४	२२०
१२.	वंशस्थ	४ × ४८	१९२
१३.	रुचिरा	१० × ५२	५२०
१४.	पुष्पिताग्रा	१२ × ५०	६००
१५.	अपरवक्त्र	२ × ४६	९२
१६.	चम्पकमाला	२ × ४०	८०
१७.	शालिनी	४ × ४४	१७६
१८.	मौक्तिकमाला	२ × ४४	८८
१९.	पृथिवी	१३ × ६८	८८४
२०.	चामर	१ × ६०	६०
२१.	अज्ञात नाम	४ × ५६	२२४
२२.	ग्रहपिणी	१३ × ५२	६७६
२३.	मुजंगप्रयात	३१ × ४८	१४८८
२४.	जलधरमाला	१ × ४८	४८
२५.	स्वागता	५ × ४४	२२०
२६.	मन्दाक्रान्ता	७ × ६८	४७६
२७.	मरामयूर	७ × ५२	३६४
२८.	विद्युन्माला	२ × ३२	६४
२९.	समानिका	२ × ३२	६४
३०.	चित्रपदा	३ × ३२	९६
३१.	भुजगशशिभृता	२ × ३६	७२
३२.	रुक्मवती	१ × ४०	४०
३३.	पणव	१ × ४०	४०
३४.	उपस्थिता	१ × ४०	४०
३५.	मयूर सारिणी	१ × ४०	४०
३६.	अज्ञात नाम	२ × ४०	८०
३७.	तोटक	१० × ४८	४८०
३८.	वार्तोनि	१ × ४४	४४
३९.	अमरविलसित	१ × ४४	४४
४०.	रथोद्धता	२ × ४४	८८
४१.	बृषावृता	१ × ४४	४४
४२.	सैनिकाकृत्	१ × ४४	४४
४३.	अज्ञात नाम	१ × ४४	४४

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
४४.	इन्द्रवंशा	१ × ४८	४८
४५.	पुटवृषा	१ × ४८	४८
४६.	जलोद्धतागति	४ × ४८	१२२
४७.	प्रमिताक्षरा	४ × ४८	१९२
४८.	तामरस	५ × ४८	२४०
४९.	नवमालिनी	५ × ४८	४२०
५०.	प्रमुदितवदना	१ × ४८	४८
५१.	जलधरमाला	६ × ४८	२८८
५२.	मञ्जुभाषिणी	१ × ५२	५२
५३.	अज्ञात नाम	२ × ५२	१०४
५४.	असम्बाधा	१ × ५६	५६
५५.	अपराजिता	१ × ५६	५६
५६.	प्रहरणकलिका	१ × ५६	५६
५७.	इन्दुवदना	१ × ५६	५६
५८.	शशिकला	५ × ६०	३००
५९.	ऋषभगजविलसित	२ × ६४	१२८
६०.	वाणिनी	१ × ६४	६४
६१.	शिखरिणी	४ × ६८	२७२
६२.	वंशपत्रपतित	१ × ६८	६८
६३.	कुसुमितलतावेष्टित	९ × ७२	७२
६४.	अज्ञात छन्द	१ × ७६	७६
६५.	सुवदना	१ × ८०	८०
६६.	अज्ञात छन्द	१ × ८४	८४
६७.	वियोगिनी	४ × ४२	१६८

१०९७९  
समस्त श्लोक

३६५७४८ + ३२

११४२९ अनुष्टुप् श्लोक  
शेष बचे २०

### उत्तरपुराणका परिमाण

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
१.	अनुष्टुप्	७३६० × ३२	२३५५२०
२.	मालिनी	३६ × ६०	२१६०
३.	शाकूलविक्रादित	६५ × ७६	४९४०
४.	द्रुतविकम्बित	३ × ४८	१४४
५.	वसन्ततिलका	७० × ५६	३९२०
६.	स्रग्धरा	५ × ८४	४१०
७.	स्थोद्धता	२ × ४४	८८
८.	उपजाति	२ × ४४	८८
९.	संघस्थ	४ × ४८	१९२
१०.	पृथिवी	९ × ६८	७०२

## महापुराणान्तगत उत्तरपुराण

क्रमांक	छन्द	श्लोक-संख्या	अक्षर
११	त्रियोगिनी	१ × ४२	४२
१२	हरिणी	१ × ६८	६८
१३	स्वागता	१ × ४४	४४
१४	प्रह्विणी	१ × ५२	५२
१५	शिखरिणी	१ × ६८	६८
		७५६१	२४८४४८ + ३२
			७७६४ अनुष्टुप्
१६	मात्रिक छन्द, आर्या	१४	१४
		७५७५	७७७८

भादिपुराण—११४२५ अनुष्टुप्

उत्तरपुराण—७७७८ अनुष्टुप्

१९२०७

इस प्रकार विचार करने पर महापुराणके तीनों भागोंकी अनुष्टुप् श्लोक-संख्याका प्रमाण उन्नीस हजार दो सौ सात है और यह भदन्त गुणभद्राचार्यके प्रतिपादित आनुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुलता है। पाठान्तरमें दिया हुआ चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नहीं है।

### अनुवाद और आभार-प्रदर्शन

उत्तरपुराणके पाठ-भेद लेनेमें श्री पं० कपूरचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, श्री लक्ष्मणप्रसादजी 'प्रशान्त' साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्ठीदासजी विद्यार्थी, गोकुलचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी आदिका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए इन सबका आभारी हूँ। हस्तलिखित प्रतियोंके वाचनमें श्रीमान् वयोवृद्ध पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका आभार मानता हूँ। प्रस्तावना लेखमें श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमी एवं पं० के० भुजबली शास्त्री मूढबिद्विके क्रमशः 'रामकथाकी विभिन्न धाराएँ' और 'बंकापुरका परिचय' शीर्षक प्रकरण दिये गये हैं अतः मैं इनका भी आभारी हूँ। इस ग्रन्थके सम्पादन एवं अनुवादमें दो वर्षका लम्बा समय लग गया है। दूरवर्ती रहनेके कारण मैं इसका प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हूँ अतः पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य बनारसने देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषयमें काफी सावधानी रखा है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे हुआ है अतः मैं उसके संचालक और व्यवस्थापक महानुभावों का अत्यन्त आभारी हूँ।

महापुराण, पञ्चपुराण और हरिवंशपुराण ये तीन पुराण, दिगम्बर जैन प्रथमानुयांग साहित्यके अनूठे रत्न हैं। मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मनमें इच्छा होती थी कि इनका आधुनिक रूपसे सम्पादन तथा अनुवाद हो जाय तो आम जनताका बहुत उपकार हो। इन तीन ग्रन्थोंमें से महापुराणका सम्पादन और अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पञ्चपुराण और हरिवंशपुराणके सम्पादन तथा अनुवादकी आवश्यकता अवशिष्ट है। देखूँ उसकी पूर्ति कब होती है।

ग्रन्थ महान् है और मेरी बुद्धि अत्यन्त अल्प है उतने पर भी गृहस्थीके भारसे दबा रहनेके कारण अनेक कार्योंमें व्यस्त रहना पड़ता है इसलिए जहाँ कहीं अनुवादमें त्रुटि होगा संभव है अतः विद्वज्जनोंसे क्षमाप्रार्थी हूँ।

सागर  
संप्रशुक्ल पुणिमा  
२४८० बी० नि० सं०

चिनीत  
पन्नालाल साहित्याचार्य

## विषय-सूची

अष्टचत्वारिंशत्तम पर्व	
अजितनाथ चरित	१
सगर चक्रवर्ती २	६
एकोनपञ्चाशत्तम पर्व	
सहभवननाथ चरित	१४
पञ्चाशत्तम पर्व	
अभिनन्दननाथ चरित	१९
एकपञ्चाशत्तम पर्व	
सुमतिनाथ चरित	२५
द्विपञ्चाशत्तम पर्व	
पद्मप्रभ चरित	३३
त्रिपञ्चाशत्तम पर्व	
सुपाशर्वनाथ चरित	३८
चतुःपञ्चाशत्तम पर्व	
चन्द्रप्रभ चरित	४४
पञ्चपञ्चाशत्तम पर्व	
पुष्पदन्त चरित	६६
षट्पञ्चाशत्तम पर्व	
शीतलनाथ चरित	७१
सप्तपञ्चाशत्तम पर्व	
श्रेयान्सनाथ चरित	७९
विजय बलभद्र, त्रिपृष्ठ नारायण और	
अश्वमेध प्रतिनारायणका चरित	८४
अष्टपञ्चाशत्तम पर्व	
वासुपूज्य चरित	८७
त्रिपृष्ठनारायण, अचल बलभद्र और तारक	
प्रतिनारायणका चरित	९१
एकोनषष्टितम पर्व	
विमलनाथ चरित	९७
धर्म बलभद्र, स्वयंभू नारायण और मधु	
प्रतिनारायणका चरित	१०२
संजयन्त, मेरु और मन्दर गणधरका चरित	१०५
षष्टितम पर्व	
अनन्तनाथ चरित	१२१
सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और	
मधुसूदन प्रतिनारायणका चरित	१२४

एकषष्टितम पर्व	
धर्मनाथ चरित	१३८
मधवा चक्रवर्तीका चरित ३	१३४
सनत्कुमार चक्रवर्तीका चरित ४	१३५
द्विषष्टितम पर्व	
अपराजित बलभद्र तथा अनन्तवीर्य नारायणके	
अभ्युदयका वर्णन	१३८
त्रिषष्टितम पर्व	
शांतिनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्तीका चरित ५	१७५
चतुःषष्टितम पर्व	
कुन्धुनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्तीका चरित ६	२१३
पञ्चषष्टितम पर्व	
अरहनाथ चरित ७	२१८
सुभौम चक्रवर्तीका चरित ८	२२४
नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और	
निशुम्भ प्रतिनारायणका चरित	२३०
षट्षष्टितम पर्व	
मल्लिनाथ चरित	२३३
पद्म चक्रवर्तीका चरित ९	२३८
नन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण और बलीन्द्र	
प्रतिनारायणका चरित	२४१
सप्तषष्टितम पर्व	
मुनिसुधत चरित	२४४
हरिषेण चक्रवर्तीका चरित १०	२४८
राम बलभद्र, लक्ष्मण नारायण और रावण	
प्रतिनारायणका चरित, तदन्तर्गत राजा	
सगर, सुलसा, मधुपिङ्गल, राजा वसु,	
क्षीरकदम्बक, पर्वत, नारद आदिका	
वर्णन	२५०
अष्टषष्ट पर्व	
राम, लक्ष्मण, रावण और अणुमान् (हनुमान्)	
का चरित	२७८
एकोनसप्ततितम पर्व	
नमिनाथ चरित	३३१
जयसेन चक्रवर्ती ११	३३७

सप्ततितम पर्व		पञ्चसप्ततितम पर्व	
नेमिनाथ चरित, तदन्तर्गत श्रीकृष्णकी विजय का वर्णन	३३९	राजा चेटक, चेलना आदिका वर्णन जैकधर चरित	४८९ ४९४
एकसप्ततितम पर्व		षट्सप्ततितम पर्व	
श्रीकृष्ण, बलदेव, श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ आदिके भवान्तरों का वर्णन	३७५	राजा श्वेतवाहनके मुनिपदका वर्णन अन्तिम केवली जग्गु स्वामीका वर्णन	५३० ५३१
द्विसप्ततितम पर्व		श्रीतिकर मुनिका वर्णन	५७३
नेमिनाथ तीर्थकर, प्रद्युम्नकुमार, पद्म बलभद्र, कृष्ण, जरासन्ध और <u>ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती</u> 12 का चरित	४०७	उत्सपिणी अवसपिणी कालकर विशिष्ट वर्णन करते हुए कलिकर्षोंका वर्णन	५५५ ५५७
त्रिसप्ततितम पर्व		प्रलय कालका वर्णन	५५९
पार्श्वनाथ चरित	४२९	आगामी तीर्थकर आदि शलाकापुरुषोंका वर्णन	५६१
चतुःसप्ततितम पर्व		महावीर भगवान्की शिष्य-पदपरत	५६३
वर्धमान स्वामीका चरित	४४३	ग्रन्थका समारोप	५६६
सती चन्दनाका चरित	४६६	प्रशस्ति	५७२
राजा श्रेणिक और अमथकुमारका वर्णन	४६९	टीकाकारकी प्रशस्ति	५७९



# महापुराणम्

## तदन्तर्गतं श्रीमद्-गुणभद्रविरचितम्

### उत्तरपुराणम्

### अष्टचत्वारिंशत्तमं पर्व

श्रीमान् जिनोऽजितो जीषाद् यद्वचास्यमलान्यलम् । क्षालयन्ति जलानीव विनेयाणां मनोमलम् ॥ १ ॥  
पुराणं तस्य वक्ष्येऽहं मोक्षलक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भव्यानामव्याहृतमहोदयः ॥ २ ॥  
इह जम्बूमति द्वीपे विदेहे प्राचि विश्रुते । सीतासरिदपागभागे वत्साख्यो विषयो महान् ॥ ३ ॥  
मुसीमानगरं तस्मिन् विभूत्या विस्मयावहम् । नात्रास्य नृपतिः प्राभूत् प्रभुविमलवाहनः ॥ ४ ॥  
गुणा गुणाधिभिः प्राथ्यां न्यायोऽयं चित्रमत्र तत् । गुणाः प्रणयिनः सर्वे स्वयं तं <sup>१</sup>वृण्वते स्म यत् ॥ ५ ॥  
शक्तिसिद्धिप्रयोपेतो यथान्यायमतन्त्रितः । प्रजाः स पालयामास विधाय स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥  
धर्मादयं <sup>२</sup>स्ततोऽर्थोऽर्थात् कामोऽये <sup>३</sup>ऽनिष्टिते, <sup>४</sup>न तौ । इति स्मरन् बभूवासी जैनधर्मेण धार्मिकः ॥ ७ ॥  
स कदाचित् समुत्पन्नबोधिः सञ्ज्वलनोदया । स्वगतं <sup>५</sup> जातसंवेदो रहस्येवमचिन्तयत् ॥ ८ ॥

अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरङ्ग लक्ष्मी और अष्टप्रातिहार्य रूप बहिरङ्ग लक्ष्मीसे युक्त वे अजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहें जिनके कि निर्दोष—पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित वचन, जलकी तरह भव्य जीवोंके मनमें स्थित रागद्वेषादिरूप मलको धो डालते हैं ॥ १ ॥ मैं उन अजितनाथ स्वामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन महा-भ्युदयसे युक्त मोक्षरूपी लक्ष्मीका समागम प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ इस जम्बूद्वीपके अतिशय प्रसिद्ध पूर्वविदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विशाल देश है ॥ ३ ॥ उसमें अपने वैभवसे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला मुसीमा नामका नगर है । किसी समय इस मुसीमा नगरका राजा विमलवाहन था जो बड़ा ही प्रभावशाली था ॥ ४ ॥ संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध है कि गुणोंकी चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आश्चर्यकी बात थी कि झोहसे भरे हुये सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे ॥ ५ ॥ वह राजा उत्साह शक्ति, मन्त्रशक्ति और फलशक्ति इन तीन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और फल-सिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, आलस्यरहित था और अपनी सन्तानके समान न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था ॥ ६ ॥ 'धर्मसे पुण्य होता है, पुण्यसे अर्थकी प्राप्ति होती है और अर्थसे काम—अभिलषित भोगोंकी प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अर्थ और काम नहीं मिलते हैं' यही सोचकर वह राजा जैनधर्मके द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था ॥ ७ ॥ किसी समय उस राजाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय दूर होकर सिर्फ संज्वलन कषायका उदय रह गया उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई और वह संसारसे विरक्त हो मन ही मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने लगा ॥ ८ ॥

१ वणते क०, ख०, ग०, घ० । २ पुण्यम् । ३ पुण्ये । ४ अपूर्णे । ५ अर्थकामौ न भवतः । ६ स्वागतं ग० ।

आयुषो वसतिः काये कायस्थस्य <sup>१</sup>ममाप्यलम् । आयुर्जलं <sup>२</sup>गलत्याशु मितकालघटीधृतम् ॥ ९ ॥  
 ततो गलति निःशेषं न यावत्तावदेव हि । वत्स्यांशुस्तद्व्यसन्मार्गे जैने स्वर्गापवर्गयोः ॥ १० ॥  
 हृत्याशापाशमाच्छिद्य बहुभिः सह निस्पृहः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षालक्ष्म्या वशीकृतः ॥ ११ ॥  
 तपस्यन् सुचिरं तीव्रं विस्पष्टैकादशाङ्गकः । <sup>३</sup>नाम्नोऽन्यमेष पुण्यात्मा स्वकार्षीद्भावनापरः ॥ १२ ॥  
 आयुषोऽन्ते समाधानं विधाय परमेष्ठिषु । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुरयात् स <sup>४</sup>विजयं जयी ॥ १३ ॥  
 तत्रादायाद्यसंस्थानं <sup>५</sup>शुक्लेश्याद्वयान्वितः । हस्तोच्छ्वायं शुभं देहं सुवर्णादिचतुष्टयम् ॥ १४ ॥  
 मासैः षोडशभिः पञ्चदशभिश्चोच्छ्वसन् दिनैः । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्दैर्मानसाहारमाहरन् ॥ १५ ॥  
 निजतेजोऽवधिभ्यासलोकनालिनिजावधिः\* । क्षेत्रोधापिबलस्मत्पूरककायजविक्रियः ॥ १६ ॥  
 सातपञ्चशुभैः सौख्यमप्रवीचारमन्वभूत् । सप्रवीचारसत्सौख्यात्तदनन्तगुणाधिकम् ॥ १७ ॥  
 तस्मान्महीं <sup>६</sup>महाभागो स्वर्गाद्द्वारागमिष्यति । प्रागेव भावनोपात्ततीर्थकृत्त्वामपुण्यतः ॥ १८ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुर्जितशश्वाल्यः ख्यातो गोत्रेण काश्यपः ॥ १९ ॥  
 तस्य शकाश्रया गेहे पण्मासान् प्रत्यहं मुहुः । रत्नान्यैलविल<sup>७</sup>स्तिस्तः कोटीः सार्धं<sup>८</sup> न्यपीपतत् ॥ २० ॥  
 ज्येष्ठे मासि<sup>९</sup>कलाशेषशशिरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद् ब्रह्मणः पूर्वं <sup>१०</sup>दरनिद्राविलेक्षणाम् ॥ २१ ॥

'इस जीवका शरीरमें जो निवास हो रहा है वह आयुकर्मसे ही होता है, मैं यद्यपि शरीरमें स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घाड़ियोंमें धारण किया हुआ मेरा आयुरुपी जल शीघ्र ही गलता जाता है—उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिये मेरा वह आयुरुपी जल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्गभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति करूँगा' ॥ ९-१० ॥

इस प्रकार आशाखरुपी पाशको छेदकर वह राजा राज्यलक्ष्मीसे निस्पृह हो गया तथा स्वाधीन होनेपर भी अनेक राजाओंके साथ दीक्षारुपी लक्ष्मीके द्वारा अपने आधीन कर लिया गया अर्थात् अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥ ११ ॥ जिसने बहुत समय तक तीव्र तपस्या की है, जिसे ग्यारह अङ्गोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा पुण्यके प्रकाशसे जगमगा रही है और जो दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनमें निरन्तर तत्पर रहता है ऐसे इस विमलवाहनने तीर्थकर नामकमका बन्ध किया ॥ १२ ॥ इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने-वाला वह विमलवाहन आयुके अन्त समय पञ्चपरमेष्ठियोंमें चित्त स्थिरकर—समाधिमरण कर तैत्तिस सागरकी आयुका धारक हो विजय नामक अनुत्तरविमानमें पहुँचा ॥ १३ ॥ वहाँ वह द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्लेश्याओंसे सहित था तथा समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त एक हाथ ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलह महीने और पन्द्रह दिन बाद उच्छ्वास लेता था, तैत्तिस हजारवर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, उसने अपने अवधिज्ञानके द्वारा लोकनाडीको व्याप्त कर रखा था अर्थात् लोकनाडी पर्यन्तके रूपी पदार्थोंको वह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें लोकनाडीको उखाड़कर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी, वह उतने ही क्षेत्रमें अपने शरीरकी विक्रिया भी कर सकता था और सुखस्वरूप पंचेन्द्रियोंके द्वारा प्रवीचारजन्य सुखसे अन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था ॥ १४-१७ ॥ उस महाभागके स्वर्गसे पृथिवीपर अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे ही प्रतिदिन तीर्थकर नामक पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके अधिपति इक्ष्वाकुवंशीय काश्यपगोत्री राजा जितशत्रुके घरमें इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वृष्टि की ॥ १८-२० ॥ तदनन्तर जेठ महीनेकी अमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अवशिष्ट चन्द्रमाके साथ संयोग था तब

१ ममापरं ख०। ममापरम् ग०, क०, घ०। २ गलत्याशु क०, ख०, ग०, घ०। ३ नाम्नोऽन्यं शेष क०, ख०, ग०, घ०। ४ विजयनामानुत्तरविमानम्। ५ द्रव्यतो भावतश्च शुक्लेश्यासहितः। ६-मनसाहार-क० ख०, ग०, घ०। ७ निजावधि-क्षेत्रो क०, ग०, घ०। ८ महाभागस्याप्राद्द्वारागमिष्यतः क०, ख०, ग०। ९ कुबेरः। १० ईषनिद्राकलुषितलोचनाम्।



देवीं विजयसेनाख्यां षोडशस्वमपूर्वकम् । प्रविशन्तं विलोक्यात्मवक्त्राब्जं <sup>१</sup>गन्धसिन्धुरम् ॥ २२ ॥  
 प्रातः पृष्टवतीं स्वभान् देशावधिविलोचनः । जितशत्रुर्महाराजः फलान्येषामबुधुषत् ॥ २३ ॥  
 विजयादागतं देवं तद्गर्भं स्फटिकामलम् । विमलानुगसन्ज्ञानं <sup>२</sup>नेत्रत्रितयभास्वरम् <sup>३</sup> ॥ २४ ॥  
 दशम्यां माघमासस्य शुक्लपक्षे प्रजेश्वरम् । प्रजेशयोगे नीतिवा महोदयमसूत सा ॥ २५ ॥  
 सागरोपमकोटीनां लक्षाः पञ्चाशदुत्तरे । मुक्तिमाद्ये जिने याते तदभ्यन्तरजीविनः ॥ २६ ॥  
 तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराकृतेः । जन्माभिषेककल्याणमजिताख्यामकुर्वत ॥ २७ ॥  
 द्वासप्ततिगुणा लक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम् । चतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेधो धनुषां मतः ॥ २८ ॥  
 भर्तुः सुवर्णवर्णस्य पादे <sup>४</sup> स्वस्वययुषो मते । अजितस्य जिताशेषबाह्याभ्यन्तरविद्विषः ॥ २९ ॥  
 पूर्वाणां लक्षया हीनं भागत्रितयमायुषः । पूर्वाङ्गमपि नार्पत्य <sup>५</sup> निर्जितादित्यतेजसः ॥ ३० ॥  
 त्वया सम्भोगसौख्यस्य पर्यन्तोऽयं ममेति वा । राज्यलक्ष्म्या परिष्वक्तः श्लाघ्यान् भोगानसुहृत् सः ॥ ३१ ॥  
 स कदाचित्सुखासीनः सौधपृष्ठे विशां पतिः । उल्कामलोकतानव्यां <sup>६</sup> जल्पन्तीवाध्रुवां श्रियम् ॥ ३२ ॥  
 विषयेषु तदैवात्सौ विदां निर्विदिदे वरः । लक्ष्मीमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेप्तुं किं वा न कारणम् ॥ ३३ ॥  
 ब्रह्मलोकात्तदाम्येत्य <sup>७</sup> सौराः सारस्वतादयः । मुनीश्वराः प्रशस्योच्चैस्तत्तदेवान्वावदिषुः ॥ ३४ ॥

ब्राह्ममुहूर्तके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देखे । उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई अल्प निद्रासे क्लृप्त हो रहे थे । सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि हमारे मुखकमलमें एक मदान्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है । जब प्रातःकाल हुआ तो महारानीने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका फल पूछा और देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले महाराज जितशत्रुने उनका फल बतलाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीर्थकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है । वह पुत्र, निर्मल तथा पूर्वभवसे साथ आनेवाले मति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन नेत्रोंसे देदीप्यमान है ॥ २१-२४ ॥ जिस प्रकार नीति, महान् अभ्युदयको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी विजयसेनाने माघमासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें प्रजापति तीर्थकर भगवान्को जन्म दिया ॥ २५ ॥ भगवान् आदिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ सागर वर्ष बीत-चुके तब द्वितीय तीर्थकरका जन्म हुआ था । इनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी । जन्म होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीर्थकर भगवान्का देवोंने मेरुपर्वतपर जन्माभिषेक कल्याणक किया और अजितनाथ नाम रक्खा ॥ २६-२७ ॥ इन अजितनाथकी बहत्तर लाख पूर्वकी आयु थी और चार सौ पचास धनुष शरीरकी ऊँचाई थी । अजितनाथ स्वामीके शरीरका रङ्ग सुवर्णके समान पीला था । उन्होंने बाह्य और आभ्यन्तरके समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली थी । जब उनकी आयुका चतुर्थांश अर्थात् बहत्तर लाख पूर्व प्रमाणकाल बीत चुका तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ । उस समय उन्होंने अपने तेजसे सूर्यका तेज जीत लिया था । एकलाख पूर्व कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक पूर्वाङ्गतक उन्होंने राज्य किया । देखें, आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आता है या मेरा ही अन्त होता है इस विचारसे राज्यलक्ष्मीके द्वारा आलिङ्गित हुए भगवान् अजितनाथने प्रशंसनीय भोगोंका अनुभव किया ॥ २८-३१ ॥

किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ॥ ३२ ॥ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय विषयोंसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि जिन्हें शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होनेवाला है उन्हें लक्ष्मीको छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ? ॥ ३३ ॥ उसी समय सारस्वत आदि देवर्षियों अर्थात् लौकान्तिक देवोंने ब्रह्मस्वर्गसे आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि की ॥ ३४ ॥

१ मत्तहस्तिनम् । २ मतिश्रुतावधिशानानि एव नेत्रत्रितयम् । ३ मास्करम् ग० । ४ चतुर्थभागे । ५ नृपतेः कार्यं नार्पत्यं राज्यम् । ६ जल्पन्तीमध्रुवां श्रियम् इति पाठः शुद्धो भाति । ७ सौराः क०, ख०, ग०, घ० ।

तेषां तदुदितं तस्य लोकस्येवांशुमालिनः । स चक्षुषो बथार्थावलोककेऽगास्तहकारिताम् ॥ ३५ ॥  
 सुतायाजितसेनाय राज्याभिषेकपूर्वकम् । दत्त्वा विवेकिनां त्याज्यं राज्यं <sup>१</sup>भोज्यमिबोजितसम् ॥ ३६ ॥  
 लब्धनिष्कान्तिकल्याणमहाभिषेकसम्भदः । सुप्रभाशिबिकारुडो ब्यूढो नरखगामरैः ॥ ३७ ॥  
 माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके वने सप्तपर्णद्रुमसमीपगः ॥ ३८ ॥  
 अपराह्णे सहस्रेण राजामाशाविधाविनाम् । सार्धं <sup>२</sup>षष्ठोपवासेन <sup>३</sup>समास्थित स संवमम् ॥ ३९ ॥  
 चतुर्थज्ञानसम्पन्नो द्वितीयेऽह्नि प्रविष्टवान् । साकेतं दानिनां तोषमपूर्वमुपपादयन् ॥ ४० ॥  
 तत्र <sup>४</sup>ब्रह्मा महीपालस्तस्मै दानं <sup>५</sup>यथाक्रमात् । दत्त्वा सातादिभिः पुण्यैः <sup>६</sup>सहापाश्र्वर्यपञ्चकम् ॥ ४१ ॥  
 छाग्नस्येन नयन्नदान्पौषे द्वादशशुद्धधीः । शुद्धैकादशयहःप्रान्ते<sup>७</sup> रोहिण्यामासतामगात् ॥ ४२ ॥  
 सिंहसेनादयस्तस्य नवतिः स्युर्गणाधिपाः । खपञ्चसप्तवह्युक्तप्रमाणाः पूर्वधारिणः ॥ ४३ ॥  
 शिक्षकाः खद्वयत्वेकद्विप्रमागणाः क्रमात् । शून्यद्वयचतूरन्भ्रमितास्त्रिज्ञानलोचनाः ॥ ४४ ॥  
 केवलगावमास्तत्र ते सहस्राणि विशतिः । चतुःशतैः सहस्राणां विशतिर्विकृतर्द्धयः ॥ ४५ ॥  
 शून्यपञ्चचतुर्द्वयैकमनःपर्ययर्वाक्षणाः । शून्यद्वयचतुर्द्वयैकैस्तस्यानुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥  
 सर्वे ते पिण्डिताः सन्तो लक्षमेकं तपोधनाः । प्रकुब्जाद्यार्थिकाः शून्यचतुष्कद्वयभिःसम्मिताः ॥ ४७ ॥  
 श्रावकास्त्रीणि लक्षाणि श्राविकाः <sup>८</sup>पञ्चलक्षिकाः । देवा देव्यस्त्वसङ्ख्याताः सङ्ख्यातो द्वादशगणः ॥ ४८ ॥  
 एवं द्वादशभिर्देवो गणैरभिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्धेतुफलभेदान् प्रपञ्चयन् ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार लोग देखते तां अपने नेत्रोंसे हैं परन्तु सूर्य उसमें सहायक हो जाता है उसी प्रकार भगवान् यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तो भी लौकान्तिक देवोंका कहना उनके यथार्थ अवलोकनमें सहायक हो गया ॥ ३५ ॥ उन्होंने जूठनके समान विवेकी मनुष्योंके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, राज्याभिषेकपूर्वक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥ ३६ ॥ देवोंने उनका दीक्षाकल्याणकसम्बन्धी महाभिषेक किया । अनन्तर वे सुप्रभा नामकी पालकीपर आरूढ होकर सहेतुक वनकी ओर चले । उनकी पालकीको सर्वप्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याधरोंने और फिर देवोंने उठाया था । माघमासके शुक्लपक्षकी नवमीके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्होंने सहेतुक वनमें सप्तपर्ण वृक्षके समीप जाकर सायंकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण कर लिया—दीक्षा ले ली ॥ ३७-३९ ॥ दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये और दूसरे दिन दानियोंको अपूर्व आनन्द उपजाते हुए साकेतनगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ४० ॥ वहाँ ब्रह्मा नामक राजाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया और सानावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतियोंका बन्धकर पञ्चाश्वर्य प्राप्त किये ॥ ४१ ॥ शुद्धज्ञानके धारक भगवान्ने बारहवर्ष छद्मस्थ अवस्थामें बिताये । तदनन्तर पौषशुक्ल एकादशीके दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रमें आप्तपना प्राप्त किया अर्थात् लोकालोकावभासी केवलज्ञानको प्राप्तकर सर्वज्ञ हो गये ॥ ४२ ॥ उनके सिंहसेन आदि नब्बे गणधर थे । तीन हजार सात सौ पचास पूर्वधारी, इक्कीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार केवलज्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रियाच्छ्रद्धिवाले, बारह हजार चार सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और बारह हजार चार सौ अनुत्तरवादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रकुब्जा आदि तीन लाख बीस हजार आर्थिकाएँ थीं, तीन लाख श्रायकथे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, और असंख्यात देव देवियों थीं । इस तरह उनकी बारह सभाओंकी संख्या थी ॥ ४३-४८ ॥ इस प्रकार बारह सभाओंसे वेष्टित भगवान् अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका विस्तारसे कथन करते

१ उच्छिष्ट-भोजनमिव । २ दिनद्रयोपवासेन । ३ अङ्गीचकार । ४ मनःपर्ययज्ञानसहितः ।

५ ब्रह्मस्यहीपात्त क०, ग०, ष० । ६ यथाक्रमम् क०, ख०, ग० । ७ सह सार्धम्, आप लेभे, आश्वर्यपञ्चकम् पञ्चाश्वर्यान् इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग० । ९ पञ्चलक्षिकाः क०, ख०, ग०, ष० ।

## मालिनी

समवसरणलक्ष्म्या वीक्ष्यमाणः कटाक्षैः

सुकृतविकृतचिह्नैरष्टभिः प्रातिहार्यैः ।

अविहितविहितारिः प्राज्यवैराग्यभावः

स्वपरगुरुकृतार्थप्रार्थ्यसम्यक्प्रसिद्धः<sup>१</sup> ॥ ५० ॥

## शार्दूलविक्रीडितम्

पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति वा दुर्वादिभिश्चाखिलै-

नामान्वर्थमवासवानिति विदां स्तोत्रस्य पात्रं भवन् ।

आर्यक्षेत्रमशेषमेव विहरन् सम्प्राप्य सम्मेदकं

स्थित्वा<sup>२</sup> दिव्यनिनादयोगरहितस्तत्रैव पक्षद्वयम् ॥ ५१ ॥

कुर्वाणः समयं प्रति प्रकृतिषु<sup>३</sup> ज्ञावं गुणासङ्ख्यया<sup>४</sup>

स्थित्यादिं च विधातयन् स्वमितिकं दण्डादिकं वर्तयन् ।

सूक्ष्मध्याननिरुद्धयोगविभवो विदिलत्पदेहत्रय-

स्तुर्यध्यानसमाश्रयात्समुपयंश्चाष्टौ गुणान् शुद्धिभाक् ॥ ५२ ॥

## आर्या

चैत्रज्योत्स्नापक्षे पञ्चम्यां रोहिणीगते चन्द्रे ।

प्रतिमायोगं बिभ्रत्पूर्वाह्णेऽवाप मुक्तिपदम् ॥ ५३ ॥

## द्रुतविलम्बितम्

विमलवाहनमाहवदुर्द्धरं दुरितदूरतपश्चरणोद्यतम् ।

सुखनिधिं विजये सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादजितं जिनम् ॥ ५४ ॥

थे ॥ ४६ ॥ उन अजितनाथ स्वामीको समवसरण लक्ष्मी कटाक्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित चिह्नस्वरूप आठ प्रातिहार्योंसे युक्त थे, उन्होंने कर्मरूपी शत्रुओंसे घातिया कर्मरूप शत्रुओंको अपने आधीन कर लिया था— जीत लिया था और अघातिया कर्मरूप शत्रुओंको अमी आधीन नहीं कर पाया था, उनकी वैराग्यपरिणति अत्यन्त बड़ी हुई थी, वे निज और परके गुरु थे, कृतकृत्य मनुष्योंके प्रार्थनीय थे और अतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे ॥ ५० ॥ 'यह न तो कहीं पापोंसे जीते जाते हैं और न समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते हैं' इसलिए 'अजित' इस सार्थक नामको प्राप्त हुए हैं' इस प्रकार विद्वानोंकी स्तुतिके पात्र होते हुए भगवान् अजितनाथने समस्त आर्यक्षेत्रमें विहार किया और अन्तमें सम्मेदाचलपर पहुँचकर दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मासतक वहींपर स्थिर निवास किया ॥ ५१ ॥ उस समय उन्होंने प्रतिसमय कर्म-प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणी निर्जरा की, उनकी स्थिति आदिका विधान किया, दण्डप्रतर आदि लोकपूरणसमुद्घात किया, सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती ध्यानके द्वारा योगोंका वैभव नष्ट किया, औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंके सम्बन्धको पृथक् किया, और सातिशय विशुद्धताको प्राप्त हो व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक चतुर्थ शुक्तध्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंको प्राप्त किया ॥ ५२ ॥ इस प्रकार चैत्रशुक्ल पञ्चमीके दिन जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, प्रातःकालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान् अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥ ५३ ॥

जो पहले विमलवाहन भवमें युद्धके समय दुर्जेय रहे, फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत रहे, तदनन्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन अजित जिनेन्द्रको हे भव्यजीवो !

## शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं षोडशभावनाहितमहापुण्योदयापादकः

सद्ग्रथानात्खलकर्मजालमखिलं निर्मूल्यनिर्मलः ।

धर्मः शर्मपरम्परां प्रविद्धदत्ते शिवे शाश्वते

तस्माद्धर्ममुपाध्वमुज्झितमदाः शुद्धासद्बुद्धं बुधाः ॥ ५५ ॥

तीर्थकृत्यु द्वितीयोऽपि १योऽद्वितीयपथस्तुतः । स विधेयात् पुराणोरुमार्गनिर्वहणं कवेः ॥ ५६ ॥

तत्तीर्थं सगराभिरुयो द्वितीयश्चक्रवर्तिनाम् । अभूत् पुराणमेतस्य शृणु श्रेणिक धीधन ॥ ५७ ॥

द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापागभागाभूषणे । विषये वत्सकावल्यां पृथिवीनगराधिपः ॥ ५८ ॥

जयसेनो जनैः सेव्यो जनसेनास्य बलभा । रतिषेणस्तयोः सनुर्धतिषेणश्च ताबुभौ ॥ ५९ ॥

सूर्याचन्द्रमसौ जित्वा सदा भातः कृतोदयौ । पितरौ च (न) २मरुन्मार्गपृथिव्यौ वा ततः पृथक् ॥ ६० ॥

कदाचिद्रतिषेणोऽभूत् कृतान्तमुखगङ्गरे । केनापि हेतुना किं वा न मृत्योर्हेतुतां ब्रजेत् ॥ ६१ ॥

३सजानिं जयसेनाख्यं ४सलतं चामरद्रुमम् । ५शोकाशानिरवाधिपत् तन्मृत्युघननिर्गतः ॥ ६२ ॥

६प्रलभः प्राप्तकालस्तावाल्लिङ्ग यमाग्रगः । लब्धरन्ध्रा न तिष्ठेयुरकृत्वापकृतिं द्विषः ॥ ६३ ॥

भिषक्प्रायोर्जितोपार्यैः शनैः संलब्धचेतनौ । गुरुणा गुरुणैवैष तेन दुःखेन बोधितः ॥ ६४ ॥

विग्रहं तद्गृहं मत्वा निगृहीतुं कृताग्रहः । हन्तुं यमं समुद्युक्तस्तद्धि युक्तं मनस्विनाम् ॥ ६५ ॥

नमस्कार करो ॥ ५४ ॥ चैकं धर्मं सोलह भावनाओं से महापुण्य तीर्थकर प्रकृतिको उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कर्मोंके समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मल है, सुखकी परम्परा को करनेवाला है और नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा आमोपन्न धर्मकी हे चिद्वज्जनो ! मद्गदित होकर उपासना करो ॥ ५५ ॥ जो तीर्थकरोंमें द्वितीय होंनेपर भी श्रुतके मार्गमें अद्वितीय है—अनुपम है वे अजितनाथ भगवान्, कविको पुराणका विशाल मार्ग पूरा करनेमें सहायता प्रदान करें ॥ ५६ ॥

## सगर चक्रवर्तीका वर्णन

द्वितीय तीर्थकर अजितनाथके तीर्थमें सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे बुद्धिमान् श्रेणिक ! तू अब उसका चरित्र सुन ॥ ५७ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्सकावती नामका देश है । उसमें पृथिवी नगरका अधिपति, मनुष्योंके द्वारा सेवनीय जयसेन नामका राजा था । उसकी स्त्रीका नाम जयसेना था । उन दोनोंके रतिषेण और धृतिषेण नामके दो पुत्र थे ॥ ५८-५९ ॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमाको जीतते हुए शोभित होते थे । उनके माता-पिता आकाश और पृथिवीके समान उनसे कभी पृथक् नहीं रहते थे अर्थात् स्नेहके कारण सदा अपने पास रखते थे ॥ ६० ॥ एक दिन किसी कारणवश रतिषेण की मृत्यु हो गई सो ठीक ही है क्योंकि मृत्युका कारण क्या नहीं होता ? अर्थात् जब मरणका समय आता है तब सभी मृत्युके कारण हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ रतिषेणकी मृत्युरूपी मेघसे निकले हुए शोक-रूपी बरुने लतासहित कल्पवृक्षके समान भार्यासहित राजा जयसेनको बाधित किया—दुखी किया ॥ ६२ ॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेवाली मूर्च्छाने उन दोनोंका आलिंगन किया अर्थात् वे दोनों मूर्च्छित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि झिद्र प्राप्त करनेवाले शत्रु अपकार किये बिना नहीं रहते ॥ ६३ ॥ जब वैद्यजनोंके श्रेष्ठ उपायोंके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए तो बृहस्पतिके समान श्रेष्ठ गुरुने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे समझाया ॥ ६४ ॥ तदनन्तर वह इस शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निग्रह करनेके लिए आग्रह करने लगा । और यमराजको मारने

१ योऽद्वितीयः पथि श्रुते क०, ग० । पथि स्तुते ख०, घ० । २ आकाशपृथिव्यौ । ३ सभार्यम् । ४ लतोषेतं कल्पवृक्षमिव । ५ शोकवज्रम् । ६ मूर्च्छां ।

जीर्णपर्णवदागण्य प्राणप्रान्तान् परिग्रहान् । राज्यभोज्ये नियुज्यार्यं धृतिषेणं १धृतायतिम् ॥ ६६ ॥  
यशोधरगुरुद्विष्टं शुद्धमध्वानमाप सः । नृपैर्महास्ताख्येन बहुभिर्मैथुनेन च ॥ ६७ ॥  
कालान्ते कृतसंन्यासविधिः कल्पेऽन्तिमेऽच्युते । देवो महाबलो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥  
महारुतोऽपि तत्रैव मणिकेतुः सुरोऽजनि । आबयोर्योऽवतीर्णः प्राक् तस्यान्यो बोधको भवेत् ॥ ६९ ॥  
इति तत्र तयोरसीदन्मोन्थं सम्प्रधारणम् । तत्र द्वाविंशतिसागरोपमाण्यामरं सुखम् ॥ ७० ॥  
अनुभूयात्र साकेतनगरे २कौशले नृपः । समुद्रविजयस्तस्य सुबाला रमणी तयोः ॥ ७१ ॥  
महाबलोऽभवत्सुनुरिक्ष्वाकुः सगराङ्गयः । पूर्वाणां ससतिलक्षाः तस्यायुःपरमावधिः ॥ ७२ ॥  
चतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेधेन धनूषि सः । सर्वलक्षणसम्पूर्णः श्रीमांश्रामीकरच्छविः ॥ ७३ ॥  
कुमारत्वे दशाष्टौ च लक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः । महामण्डलिकृत्वं च तस्य तावत्प्रमामितम् ॥ ७४ ॥  
तदोदपादि षट्खण्डभूचक्राक्रमणक्षमम् । चक्रं कीर्तिंश्च ३दिक्चक्रमाक्रमन्त्यात्तविक्रमा ॥ ७५ ॥  
आद्यचक्रिवदेयोऽपि कृत्वा दिग्विजयं चिरम् । गृह्णन् तत्सारवस्तूनि सर्वान् स्वाज्ञामजिग्रहत् ॥ ७६ ॥  
ततो निवृत्त्य साकेतं साम्राज्यश्रीनिकेतनम् । भोगान् दशाङ्गान् निर्भङ्गं निर्विशन्नावसन् सुखम् ॥ ७७ ॥  
तस्य षष्टिसहस्राणि पुत्राणां कृतिनोऽभवन् । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यञ्जिता गुणाः ॥ ७८ ॥  
तस्मिन् सिद्धिवने श्रीनाम्नश्चतुर्मुखयोगिनः । अन्यदाखिलभास्यासीत् केवलाधिगमस्तदा ॥ ७९ ॥  
तत्कल्याणस्य देवेन्द्रैर्मणिकेतुः सहागतः । महाबलोऽजनि क्वेति सोपयोगोऽवधित्विषा ॥ ८० ॥

के लिए उद्यत हुआ सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥ ६५ ॥ वह प्राणोंका अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिग्रहोंको पुराने पत्तोंके समान समझने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली आर्य धृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक राजाओं और महारुत नामक सालेके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमार्गको प्राप्त हुआ—दीक्षित हो गया ॥ ६६-६७ ॥ जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे अन्तिम अच्युत स्वर्गमें महाबल नामके देव हुए ॥ ६८ ॥ जयसेनका साला महारुत भी उसी स्वर्गमें मणिकेतु नामका देव हुआ । वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हमलोगोंके बीच जो पहले पृथिवीलोकोपर अवतीर्ण होगा—जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समझानेवाला होगा—संसारका स्वरूप समझाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा । महाबल देव, अच्युत स्वर्गमें बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भोगकर कौशल देशकी अयोध्या नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी राजा समुद्र-विजय और रानी सुबालाके सगर नामका पुत्र हुआ । उसकी आयु सत्तरलाख पूर्वकी थी । वह चार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान् था तथा सुवर्णके समान कान्तिसे युक्त था ॥ ६९-७३ ॥ उसके अठारह लाख पूर्व कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए । तदनन्तर महामण्ड-लेश्वर पद प्राप्त हुआ । उसके बाद इतना ही काल बीत जानेपर छह खण्डोंकी पृथिवीके समूहपर आक्रमण करनेमें समर्थ चक्रवर्त्त प्रकट हुआ और दिशाओंके समूहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपूर्ण कीर्ति प्रकट हुई ॥ ७४-७५ ॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विजय किया, वहाँकी सारपूर्ण वस्तुओंको ग्रहण किया और सबलोगोंको अपनी आज्ञा ग्रहण कराई ॥ ७६ ॥ दिग्विजयसे लौटकर वह साम्राज्य-लक्ष्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमें वापिस आया और निर्विघ्न-रूपसे दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने लगा ॥ ७७ ॥ उस पुण्यवान्के साठ-हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाताने पुत्रोंके आकारमें उसके गुण ही प्रकट किये हों ॥ ७८ ॥ किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुर्मुख नामके मुनिराज पधारे थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥ ७९ ॥ उनके कल्याणोत्सवमें अन्य देवों तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव भी आया था । वहाँ आकर उसने जानना चाहा कि हमारा

सगरश्चक्रवर्त्येण शेषैः पुण्यैरभूदसौ । इति बुद्ध्वा विशां नाथमुपगम्येदमब्रवीत् ॥ ८१ ॥  
 स्मरस्यावां वदिष्यावस्तत्त्वं कल्पेऽच्युताङ्घ्रये । प्राग्महीगतमग्रस्थो <sup>१</sup>बोधयत्वावयोरिति ॥ ८२ ॥  
 मनुष्यजन्मनः सारं साम्राज्यं चिरमन्वभूत् । किं भोगैर्भोगिभोगाभैर्भोगैर्भोगैर्भोगैर्भोगैः ॥ ८३ ॥  
 उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्तावित्यस्य विमुखोऽभवत् । चक्रवर्ती स सिद्धयध्वा काललब्ध्या विना कुतः ॥ ८४ ॥  
 ज्ञात्वा तत्तस्य वैमुख्यमन्यालापैर्न्यवनयत् । हितेनापि न कुर्वन्ति विप्रियं क्रमवेदिनः ॥ ८५ ॥  
 धिग्भोगानीदृशास्त्वोक्तेरेवं च्यावयतोऽघदान् । दुस्त्यजानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद् दिवम् ॥ ८६ ॥  
 उपायमेकमालोच्य ततो प्राहयितुं पुनः । मणिकेतुर्महीपालमवतीर्थं महीतलम् ॥ ८७ ॥  
 आलम्ब्य लक्षणैर्लक्ष्यं कान्येन्दुं भानुमाभया । वामेन वपुषा कामं निर्जित्य विभ्रितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥  
 चारणत्वं समासाद्य भावयन् संयमं परम् । तस्थौ जिनेन्द्रान् वन्दित्वा सगरस्य जिनालये ॥ ८९ ॥  
 इष्ट्वा तं विस्मयापन्नो <sup>३</sup>वयस्यस्मिन्नदं कुतः । तपस्तवेति पपृच्छ नृपः <sup>४</sup>सोऽप्यन्यथाब्रवीत् ॥ ९० ॥  
 यौवनं जरसा प्रास्यं गलत्यायुः प्रतिक्षणम् । हेयः कायाऽशुचिः पापी दुर्धरो दुःखभाजनम् ॥ ९१ ॥  
 सर्वदानिष्टसंयोगो वियोगश्चेत्बस्तुभिः । गतोऽनादिर्भवावर्तः पुनश्चानन्त एव सः ॥ ९२ ॥  
 कर्मारिभिरिदं सर्वं दग्ध्वा तानि तपोऽग्निना । यास्याम्यनश्वरीं शुद्धिं यथाहं कनकोपलः ॥ ९३ ॥

मित्र महाबल कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इच्छा होते ही उसने अवधिज्ञानके प्रकाशसे जान लिया कि वह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है । ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा और कहने लगा ॥ ८०-८१ ॥ कि 'क्यों स्मरण है ? हम दोनों अच्युत स्वर्गमें कहा करते थे कि हमलोगोंके बीच जो पहले पृथिवीपर अवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहनेवाला साथी समभावंगा ॥ ८२ ॥ हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारभूत, साम्राज्यका तू चिरकाल तक उपभोग कर चुका है । अब सर्पके फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोंसे क्या लाभ है ? हे राजन ! अब मुक्तिके लिए उद्योग कर' । मणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवर्ती इससे विमुख रहा सो ठीक ही है क्योंकि मुक्तिका मार्ग काललब्धिके बिना कहाँसे मिल सकता है ? ॥ ८३-८४ ॥ सगर चक्रवर्तीकी विमुखता जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सो उचित ही है क्योंकि अनुक्रमको जाननेवाले पुरुष अहितकी बात जाने दो, हितके द्वारा भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते ॥ ८५ ॥ 'इन भोगोंको धिक्कार है जो कि मनुष्योंको इस प्रकार अपने कहे हुए वचनोंसे च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करनेवाले हैं और बड़ी कठिनाईसे छोड़े जाते हैं' इस तरह निर्वेदको प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव स्वर्ग चला गया ॥ ८६ ॥ फिर कुछ समय बाद मणिकेतुदेव राजाको तप ग्रहण करानेका एक दूसरा उपाय सांचकर पृथिवीपर आया ॥ ८७ ॥ उसने चारण ऋद्धिधारी मुनिका रूप बनाया । वह मुनि अनेक लक्षणोंसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाका, प्रभासे सूर्यका और मुन्दर शरीरसे कामदेवको जीत रहा था । इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवानकी वन्दनाकर सगर चक्रवर्तीके चैत्यालयमें जा ठहरा ॥ ८८-८९ ॥ उस चारण मुनिको देख चक्रवर्तीको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्यों धारण किया है ? चारण मुनिने भी भूठमूठ कहा कि यह यौवन बुढ़ापाके द्वारा प्रास्य है—प्रसनेके योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो रही है, यह शरीर चूँकि अपवित्र है, पापी है, दुर्धर है, और दुःखोंका पात्र है अतः छोड़नेके योग्य है । सदा अनिष्ट वस्तुओंका संयोग और इष्ट वस्तुओंका वियोग होता रहता है । यह संसार रूपी भँवर, अनादि काल से बीत रही है फिर भी अनन्त ही बनी हुई है । जीवकी यह सब दशा कर्मरूप शत्रुओंके द्वारा की जा रही है अतः मैं तपरूपी अग्निके द्वारा उन कर्म-शत्रुओंको जलाकर सुवर्ण पाषाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा-मोक्ष प्राप्त करूँगा ॥ ९०-९३ ॥

इत्युक्तः संसृतेर्भूपो वेपमानोऽपि नापतत् । पन्थानं निवृत्तिर्बद्धः पुत्रशृङ्खला दृढम् ॥ ९४ ॥  
 नातिह्रस्वोऽस्य संसार इत्ययास्त विपादवान् । उपायो निष्फलः कस्य न विपादाय धीमतः ॥ ९५ ॥  
 वशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलक्ष्म्या निधीशिना । <sup>१</sup>विस्मृताऽच्युतलक्ष्मीश्च कामिनां कान्तरज्ञता ॥ ९६ ॥  
<sup>२</sup>लाभो लाभेषु पुत्राणां लाभः स्वर्गापवर्गयोः । लक्ष्म्योर्नासाविति स्मृत्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषक्तवान् ॥ ९७ ॥  
 कदाचित्ते सुता दृशाः सिंहपोता इवोद्धताः । इति विज्ञापयामासुः सभास्थं चक्रवर्तिनम् ॥ ९८ ॥  
 यदि क्षत्रियपुत्राणां <sup>३</sup>शौर्यसाहसशालिनाम् । यौवनं न पितुः <sup>४</sup>प्रैषे दुःसाध्ये साधितेप्सितम् ॥ ९९ ॥  
 किं तेन जन्मना तेन जन्मिनो जीवितेन वा । ननु तत्सर्वसामान्यं जन्मजीवितयोर्द्वयम् ॥ १०० ॥  
 तदादिश विशामीश प्रैषं नः साहसावहम् । <sup>५</sup>पात्रेसमिततादैर्न्यं येनैनो वा निरस्यते ॥ १०१ ॥  
 तदाकर्ण्य मुदा पुत्राः सर्वं चक्रेण साधितम् । भो किं यत्न मे सिद्धं मध्ये हिमसमुद्रयोः ॥ १०२ ॥  
 एष एव मम प्रैषो राज्यलक्ष्मीमिमां मम । सम्भूय भूयसीं यूयमनुभूष्वं यथोचितम् ॥ १०३ ॥  
 इति भूयो <sup>६</sup>नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोषमास्थुर्विधेया <sup>७</sup>हि पितृणां शुद्धवंशजाः ॥ १०४ ॥  
 तेऽन्येषुः पुनरासाद्य नृपं व्यज्ञापयन्नदम् । न भुज्महे न चेत्प्रैष इत्यभ्यर्णात्मशुद्धयः ॥ १०५ ॥  
 नच्छ्रुत्वैष स कः प्रैष इति चिन्तयता मनाक् । नन्वस्ति कार्यशेषोऽयं धर्म इत्यात्तहृष्टिना ॥ १०६ ॥

मणिकेतुके इस प्रकार कहने पर वह चक्रवर्ती संसारसे भयभीत तो हुआ परन्तु मोक्षमार्गको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुत्ररूपी सौकलोसे भजबूत बैठा हुआ था ॥ ९४ ॥ 'अभी इसका संसार बहुत बड़ा है' इस प्रकार विपाद करना हुआ मणिकेतु चला गया सो ठीक ही है क्योंकि निष्फल उपाय किस बुद्धिमानको विपाद नहीं करता ? ॥ ९५ ॥ वह देव सोचने लगा कि देखो साम्राज्यकी तुच्छ लक्ष्मीमें वशीभूत हुए चक्रवर्तीने अच्युत स्वर्गकी लक्ष्मी भुला दी सो ठीक ही है क्योंकि कामी मनुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थोंके अन्तरका ज्ञान कहाँ होता है ? ॥ ९६ ॥ मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभोंमें पुत्र-लाभको ही लाभ मानता है, स्वर्ग और मोक्षलक्ष्मीका लाभ इसके लिए लाभ नहीं है, ऐसा समझकर ही यह पुत्रोंमें अत्यन्त लीन हो रहा है ॥ ९७ ॥

किसी समय सिंहके बच्चोंके समान उद्धत और अहङ्कारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें विराजमान चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूरीरता और साहससे मुशोभित क्षत्रिय-पुत्रोंका यौवन याद दुःसाध्य कार्यमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन नहीं है । ऐसे प्राणीके जन्म लेने अथवा जीवन धारण करनेमें क्या लाभ है ? जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों ही सर्वसाधारण हैं अर्थात् सब जीवोंके होते हैं । इसलिए हे राजन् ! हम लोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐसा कार्य बतलाइये कि जिससे हमारी केवल भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके ॥ ९८-१०१ ॥

यह सुन चक्रवर्तीने हर्षित होकर कहा कि हे पुत्रो ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो चुका है, हिमवान् पर्वत और समुद्रके बीच ऐसी कौनसी वस्तु है जो मुझे सिद्ध नहीं हुई है ? तुम्हारे लिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राज्यलक्ष्मीका यथायोग्य रीतिसे उपभोग करो ॥ १०२-१०३ ॥ इस प्रकार राजाने जब उन्हें बहुत निवारण किया तब वे चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते हैं ॥ १०४ ॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने लगे कि यदि आप हम लोगोंको कोई कार्य नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं ॥ १०५ ॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ चिन्तामें पड़ गये । वे सोचने लगे कि इन्हें कौनसा कार्य दिया जावे । अकस्मात् उन्हें याद आ गई

१ विस्मृताऽच्युतलक्ष्मीश्च क०, ख०, ग०, घ० । विस्मृतोऽच्युत ल० । २ लाभालाभेषु क०, घ० ।  
 ३ सूर्य क०, घ० । ४ प्रैष्यदुःसाध्ये ग० । ५ मात्रभोजनसमेलनजन्यदैन्यम् । ६ पापमित्त । ७ नृपेन्द्रेण क०, ख०, ग०, घ० । ८ आधीनाः आज्ञाकारिण इति यावत् । ९ प्रैष्य ग० ।

राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं कैलासे भरतेशिना । गृहाः कृता महारथैश्चतुर्विंशतिरर्हताम् ॥ १०७ ॥  
 तेषां गङ्गां प्रकुर्वीध्वं<sup>१</sup> परिखां परितो गिरिम् । इति तेऽपि तथा कुर्वन् दण्डरत्नेन सत्वरम् ॥ १०८ ॥  
 मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसौजन्यचांद्रितः । सचिवैर्बोधनोपायं स सहैवं व्यचिन्तयत् ॥ १०९ ॥  
 किञ्चिद्धितं प्रियं चोक्तं किञ्चिच्च हितमप्रियम् । किञ्चिदप्रियं सदहितं परं चाहितमप्रियम् ॥ ११० ॥  
 अन्यद्वयं परित्यज्य शेषाभ्यां भावता हितम् । इति निश्चित्य कैलासं तदैवागम्य दर्पिणः ॥ १११ ॥  
 कुमारान् भस्मराशि वा व्यघ्रान् क्रूररगाकृतिः । कुर्वन्ति सुहृदोऽगत्या हितं चेदप्रियं च तत् ॥ ११२ ॥  
 ज्ञत्वापि तन्मृति भूपमाकर्णयितुमक्षमाः । तस्नेहं तेषु जानानः संकृत्य सचिवाः स्थिताः ॥ ११३ ॥  
 तदा ब्राह्मणरूपेण मणिकेतुरपेत्य तम् । महाशोकसमाक्रान्तो<sup>२</sup> न्यवेदयदिदं वचः ॥ ११४ ॥  
 देव देवे धराचक्रं रक्षति क्षेममत्र नः । किन्वन्तकेन मत्पुत्रोऽहायारो<sup>३</sup> ज्जीवितावधेः ॥ ११५ ॥  
 प्रेयान् ममैकं<sup>४</sup> पुत्रासौ नायुपा तेन र्जावितम् । नार्नातश्चेत्त्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्यतः ॥ ११६ ॥  
 तव विद्वयप्रतो नांतं किं कुर्वन्ति न गविताः ।<sup>५</sup> शलाटुभक्षणे<sup>६</sup> लोलः किं पङ्कं तस्य जेदिति ॥ ११७ ॥  
 तदाकर्ण्यहं<sup>७</sup> सन् राजा द्विज किं वेत्सि नान्तकः<sup>८</sup> । सिद्धं रव स वार्योऽन्यैर्नैत्यागोपालविश्रुतम् ॥ ११८ ॥  
 अपवर्त्यायुषः केचिद्ब्रह्मायुर्जावितः परं<sup>९</sup> । तान् सर्वान् सहरत्येष यमो मृत्योरगोचरः ॥ ११९ ॥

कि अभी धर्मका एक कार्य बाकी है। उन्होंने हर्षित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने कैलास पर्वत पर महारथोंसे अरहन्तदेवके चौबीस मन्दिर बनवाये हैं सो तुम लोग उस पर्वतके चारों ओर गङ्गा नदीको उन मन्दिरोंकी परिखा बना दो। उन राजपुत्रोंने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीघ्र ही कर दिया ॥ १०६-१०८ ॥

प्रेम और सज्जनतासे प्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंके साथ राजा सगरका समझानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १०९ ॥ कि वचन चार प्रकारके होते हैं—कुछ वचन तो हित और प्रिय दोनों ही होते हैं, कुछ हित और अप्रिय होते हैं, कुछ प्रिय होकर अहित होते हैं और कुछ अहित तथा अप्रिय होते हैं। इन चार प्रकारके वचनोंमें अन्तके दो वचनोंको छोड़कर शेष दो प्रकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया जा सकता है। ऐसा निश्चय कर वह मणिकेतु एक द्रुप नागका रूप धरकर कैलास पर्वत पर आया और उन अहङ्कारी राजकुमारोंको भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मंत्रीगण जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं तब हित होनेपर भी अप्रिय वचनोंका प्रयोग करते ही हैं ॥ ११०-११२ ॥ मंत्री यह जानते थे कि राजाका पुत्रों पर कितना स्नेह है अतः पुत्रोंका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनानेके लिए समर्थ नहीं हो सके। समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपा कर ही बैठ रहे ॥ ११३ ॥

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रख कर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत भारी शोकसे आक्रान्त होकर निम्नाङ्कित वचन कहने लगा ॥ ११४ ॥ हे देव ! जब आप पृथिवीमण्डलका पालन कर रहे हैं तब हम लोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है किन्तु आयुकी अवधि दूर रहने पर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। वह मेरा एक ही पुत्र था। यदि आप उसे आयुसे युक्त अर्थात् जीवित नहीं करते हैं तो आज मुझे भी आपके देवते-देवते उस यमराजके द्वारा ले जाया हुआ समझें। क्योंकि अहङ्कारी लोग क्या नहीं करते हैं। जो कबे फल खानेमें सतृष्ण है वह भला पके फल क्यों छोड़ेगा ॥ ११५-११७ ॥

ब्राह्मणके वचन सुनकर राजाने कहा कि हे द्विजराज ! क्या आप नहीं जानते कि यमराज सिद्ध भगवान्के द्वारा ही निवारण किया जाता है; अन्य जीवोंके द्वारा नहीं, यह बात तो आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है ॥ ११८ ॥ इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी आयु बीचमें ही

१ प्रकुर्वीत क०, ख०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिदं ग० । ३ हायारो ज्जीवितावधेः घ० । हाहार्यो ल० ।  
 ४ ममैप ल० । ५ आप्रफलभक्षणे । ६ सतृष्णः । ७ स राजा क०, घ० । स राजा ल० । ८ नान्तकम् क०  
 घ० । ९ चरे ल० ।



तस्मिन् वहसि चेद्वैर' जीर्णो मा भूर्गृहे वृथा । मोक्षदीक्षां गृहाणाद्यु शोकं हिवेत्सुवाच तम् ॥ १२० ॥  
 इत्युक्ते देव किं सत्यमेतद्यथान्तकात्परः । बलीति तन्न भेतध्यं मया किञ्चिद्दिप्यता ॥ १२१ ॥  
 तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेऽपि स्वान्तिकं सुताः । तस्मात्तदुक्तमार्गेण बहुवैरं खलेऽन्तके ॥ १२२ ॥  
 इत्याह सोऽपि तद्वाक्यवज्रनिर्भक्तमानसः । गनासुरिव निःस्पन्दो बभूव नृपतिः क्षणम् ॥ १२३ ॥  
 चन्दनोशीरसस्मिथ्रसलिलैः सुहृदुक्तिभिः । उल्क्षेपैश्च मृदृक्षेपैः पुनरागत्य चेतनाम् ॥ १२४ ॥  
 १मा माया मा २वृथायामा भीमः कामो यमोऽधमः । भङ्गुरः सङ्गमः प्रेम्णः कायोऽश्रेयोऽमुचिः क्षयी ॥ १२५ ॥  
 ३वासुक्कामुक्निर्भासि यौवनं तद्यथौ वनम् । जानन् जिनोऽहमथापि मूढोऽत्रैवेति चिन्तयन् ॥ १२६ ॥  
 भव्ये भगलिदेशेशसिंहविक्रमराड्भुवः । विदर्भायाः सुते राज्यं नियोज्यासौ भगीरथे ॥ १२७ ॥  
 राजते स्म तपोराज्ये दृढधर्मजिनान्तिके । तावदेव गृहे सन्तो न हेतुर्वाचदीक्ष्यते ॥ १२८ ॥  
 ४सोऽपि गत्वा भवद्गतार्तां महीपतिमबुधुधन् । अनाकर्ण्यामसौ श्रुत्वा गाढं शोकाग्निदीपितः ॥ १२९ ॥  
 कृत्वा भगीरथे राज्यं तपोऽयादहमप्यतः । इहान्वेषुं समायातः शोकाद्युष्मत्कुलद्विजः ॥ १३० ॥  
 इति देवः समभ्येव्य मायाभस्मावगुण्ठितान् । कुमारान् बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥ १३१ ॥

छिद्र जानी हैं और कितने ही ऐसे हैं कि जो जितनी आयुका बंध करते हैं उतना जीवित रहते हैं—  
 बीचमें उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन सब जीवोंका संहार करता है पर स्वयं संहारसे  
 रहित है ॥ ११६ ॥ यदि तुम उस यमराज पर द्वेष रखते हो तो घरके भीतर व्यर्थ ही जीर्ण-शीर्ण  
 मत होओ । मोक्ष प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही दीक्षा धारण करो; शोक छोड़ो ॥ १२० ॥

जब राजा मगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेपधारी मणिकेतु बोला—'हे देव! यदि यह सच है  
 कि यमराजसे बड़कर और कोई बलवान् नहीं है तो मैं जो कुछ कहूँगा उससे आपको भयभीत नहीं  
 होना चाहिये ॥ १२१ ॥ आपके जो पुत्र कैलास पर्वत पर खाई खोदनेके लिए गये थे वे सब उस  
 यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं इसलिए आपको अपने कहे हुए मार्गके अनुसार दुष्ट  
 यमराज पर बहुत वैर धारण करना चाहिये अर्थात् दीक्षा लेकर यमराजको जीतनेका प्रयत्न करना  
 चाहिये ॥ १२२ ॥

ब्राह्मणके उक्त वचन रूपी वज्रसे जिसका हृदय विदीर्ण हो गया है ऐसा राजा मगर क्षण भरमें  
 मरे हुएके समान निश्चेष्ट हो गया ॥ १२३ ॥ चन्दन और खससे मिले हुए जलसे, मित्रोंके वचनोंसे  
 तथा पंखोंकी कामल वायुसे जब वह मचेत हुआ तो इस प्रकार विचार करने लगा कि व्यर्थ ही खेदको  
 बढ़ानेवाली यह लक्ष्मीरूपी माया मुझे प्राप्त न हो—मुझे इसकी आवश्यकता नहीं । यह काम  
 भयंकर है, यमराज नीच है, प्रेमका समागम नश्वर है, शरीर अपवित्र है, क्षय हो जानेवाला है और  
 इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याणकारी है, यह यौवन इन्द्रधनुषके समान नश्वर  
 है...ऐसा जानते हुए तीर्थकर भगवान् वनमें चले जाते हैं । परन्तु मैं मूर्ख अब भी इन्हींमें मूढ़ हो  
 रहा हूँ...ऐसा विचार कर मगर चक्रवर्तीने भगलि देशके राजा सिंहविक्रमकी पुत्री विदर्भाके पुत्र  
 भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप दिया और आप दृढधर्माके बलीके समीप दीक्षा धारण कर तप-  
 श्रवण रूपी राज्यमें सुशोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष घरमें तभी तक रहते हैं  
 जबतक कि विरक्त होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता ॥ १२४-१२८ ॥ इधर चक्रवर्तीने दीक्षा ली  
 उधर वह मणिकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा और कहने लगा कि किसीने आपके मरणका यह  
 अश्रवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाग्निसे बहुत ही अधिक उदीपित हुए और  
 भगीरथके लिए राज्य देकर तप करने लगे हैं । मैं आपकी कुल-परम्परासे चला आया ब्राह्मण हूँ  
 अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२९-१३० ॥ ऐसा कहकर उस देवने

१ मा लक्ष्मीः माया मायास्वरूपा मा भूत् । २ व्यर्थदैर्घ्या । ३ वासुक् मेघस्तस्य कामुक् धनुर्वि निर्भा-  
 सते शोभते इत्येवंशीलं नश्वरमिति यावत् । ४ कोऽपि ग०, प० ।

तेऽपि तद्बचनात्प्रापन् तपस्तजिनसंश्रयात् । चरमाङ्गधरा युक्तं तदेवौचित्यवेदिनाम् ॥ १३२ ॥  
 भगीरथोऽपि तान् गत्वा कृत्वा भक्त्या नमस्कृत्याम् । धर्ममाकर्ण्य जैनेन्द्रमादत्त श्रावकव्रतम् ॥ १३३ ॥  
 प्रकटीकृततन्मायां मणिकेतुश्च तान् मुनीन् । क्षन्तव्यमित्युवाचैतान् सगरादीन् सुहृद्भरः ॥ १३४ ॥  
 कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्ठितम् । हितं चेति प्रसन्नोक्त्या ते तदा १तमसान्वयन् ॥ १३५ ॥  
 सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवमुपागमत् । परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥ १३६ ॥  
 सर्वेऽन्ते सुचिरं कृत्वा सत्तपो विधिवद् बुधाः । शुक्लध्यानेन सम्भेदे सम्प्रापन् परमं पदम् ॥ १३७ ॥  
 निर्वाणगमनं श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानसः । वरदत्ताय दत्त्वात्मराज्यलक्ष्मीं भगीरथः ॥ १३८ ॥  
 कैलासपर्वते दीक्षां शिवगुप्तमहामुनेः । आदाय प्रतिमायोगधार्यभूत्स्वधुर्नातटं ॥ १३९ ॥  
 सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाब्धिपयोभिरभिषेचनान् । क्रमयोस्तत्प्रवाहस्य गङ्गायाः सङ्गमे सति ॥ १४० ॥  
 तदाप्रभृति तीर्थत्वं गङ्गाप्यस्मिन्नुपागता । कृत्वोत्कृष्टं तपो गङ्गातटंऽसौ निवृत्तिं गतः ॥ १४१ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अत्रामुत्र च मित्रवच्च हितकृन् कोऽप्यस्ति बन्धुः परो

गुह्याद् गुह्यतरं गुंरारपि न तद्वाच्यं यदस्थोच्यते ।

दुःसाध्यान्यपि साधयत्यगणयन्प्राणाश्च तत्र स्फुटो

दृष्टान्तो मणिकेतुरेव कुरुतां तन्मित्रमीदृग्विधम् ॥१४२॥

मायामयी भस्मसे अब्रह्मण्डित राजकुमारोको सचेत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रोंकी माया भी हित करनेवाली होती है ॥ १३१ ॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरमशरीरी राजकुमारोंने भी जिनेन्द्र भगवान्का आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो उचित बातको जानते हैं उन्हें ऐसा करना ही योग्य है ॥ १३२ ॥ जब भगीरथने यह समाचार सुना तब वह भी उन मुनियोंके पास गया और वहाँ उसने उन सबका भक्तिसे नमस्कार कर जिनेन्द्राक्त धर्मका स्वरूप सुना तथा श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ १३३ ॥ अन्तमें मित्रवर मणिकेतुने उन सगर आदि मुनियोंके समक्ष अपनी समस्त माया प्रकट कर दी और कहा कि आप लोग क्षमा कीजिये ॥ १३४ ॥ 'इसमें आपका अपराध ही क्या है ? यह तो आपने हमारा हित तथा प्रिय कार्य किया है' इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों द्वारा उन सब मुनियोंने मणिकेतु देवका सान्त्वना दी ॥ १३५ ॥ जिसका कार्य सिद्ध हो गया है ऐसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वर्ग चला गया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे ही प्रायः महापुरुषोंको संतोष होता है ॥ १३६ ॥ वे सभी विद्वान् मुनि-राज चिरकाल तक यथाविधि तपश्चरण कर सम्भेद शैल पर पहुँचे और शुक्लध्यानके द्वारा परम पदको प्राप्त हुए ॥ १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निर्वेदसे भर गया अतः उसने वरदत्तके लिए अपनी राज्यश्री सौंपकर कैलास पर्वत पर शिवगुप्त नामक महामुनिसे दीक्षा ले ली तथा गङ्गा नदीके तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया ॥ १३८-१३९ ॥ इन्द्रने क्षीरसागरके जलसे महामुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गङ्गामें जाकर मिल गया । उसी समयसे गङ्गा नदी भी इस लोकमें तीर्थरूपताको प्राप्त हुई अर्थात् तीर्थ मानी जाने लगी । भगीरथ गङ्गा नदीके तट पर उत्कृष्ट तप कर वहींसे निर्वाणको प्राप्त हुआ ॥ १४०-१४१ ॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस लोक तथा परलोकमें मित्रके समान हित करनेवाला दूसरा नहीं है । न मित्रसे बढ़कर कोई भाई है । जो बात गुरु अथवा माता-पितासे भी नहीं कही जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात मित्रसे कही जाती है, मित्र अपने प्राणोंकी भी परवाह नहीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है । मणिकेतु ही इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको

१ तम् देवम् असान्वयन् शान्तं चक्रुरिति यावत् । २ गङ्गातीरे ।

## मालिनी

स जयति जयसेनो यो जितारानिसेनः

श्रुत इति महदादिर्यो बलः प्रान्तकल्पे ।

सगरसकलचकी योजितो यश्च यश्च

प्रहतचरमदेहो देहमात्रात्मदेहः ॥ १४३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपट्टिलक्षणमहापुराणसङ्गृहे अजिततीर्थकरसगरचक्रधर-  
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिंशत्तमं पर्व ॥ ४८ ॥

ऐसा ही मित्र बनाना चाहिये ॥ १४२ ॥ जो पहले शत्रुओंकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर अच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, वहाँसे आकर शत्रुओं द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए और अन्तमें अपना चरम शरीर—अन्तिम देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर सदा जयवन्त रहें ॥ १४३ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत त्रिपट्टिलक्षण  
महापुराण संग्रहमें अजितनाथ तीर्थकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन  
करनेवाला अड़तालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥



## एकोनपञ्चाशत्तमं पर्व

श्रियं क्रियात्स मे निम्नं सम्भवो दम्भजृम्भणम् । सम्मुखीनायते<sup>१</sup> यस्य सद्बोधः<sup>२</sup>सम्मुखेऽखिले ॥ १ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्नादिमे पूर्वविदेहे नद्युदकतटे । कच्छाख्ये विषये क्षेमपुरे विमलवाहनः ॥ २ ॥  
 नाम्ना नरपतिस्तस्य सद्यः केनापि हेतुना । सति<sup>३</sup>त्रिभेदे निर्वेदे स समासज्ञनिर्हृतिः ॥ ३ ॥  
 जन्तुरन्तकदन्तस्थो हन्त जीवितमीहते । मोहात्तन्निर्गमोपायं न चिन्तयति धिक् तमः ॥ ४ ॥  
 आयुः परमसङ्ख्याताः क्षणास्ते शरणीकृताः । प्राणिभिर्हानये चेमानर्पयन्त्यन्तकप्रभोः ॥ ५ ॥  
 अभिलाषातपातसादृश्यां भोग्यस्य संश्रिताः । जीर्णकूलस्य वासोऽमृन्न हि क्षेमेण<sup>४</sup>पालयेत् ॥ ६ ॥  
 इत्यादि चिन्तयन् राज्यं दत्त्वा विमलकीर्तये । स्वयम्प्रभजिनस्यान्तेवासित्वं प्रतिपन्नवान् ॥ ७ ॥  
 एकादशाङ्गधारी सन् त्रैलोक्यक्षोभकारणम् । भावनाभिर्निर्वृत्यान्त्यनामर्ताथकराङ्गयम् ॥ ८ ॥  
 संन्यासविधिना त्यक्तदेहो ग्रैवेयकादिमे । "सुदर्शने विमानेऽभूद्दहमिन्द्रो महर्द्धिकः ॥ ९ ॥  
 त्रयोविंशतिवार्यायुः स पृथङ्गुलमानभाक् ।<sup>६</sup>शरीरो लेदयया शुक्रुः श्वसन् पक्षो नवत्सरे ॥ १० ॥  
 खन्नयान्निद्विवर्गान्ते भोजनं मनसा स्मरन् । निःप्रर्वाचारभोगोऽन्यनरकान्तगतावधिः ॥ ११ ॥  
 स्वावधिक्षेत्रसञ्चारसमर्थस्तत्प्रमप्रभः । प्राग्देहोत्थतनुव्यासया स्वावधिक्षेत्रपूरकः ॥ १२ ॥

जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोंका प्रकाशित करनेके लिए दर्पणके समान हैं तथा जो सब प्रकारके पाप्मण्डोंके विस्तारको नष्ट करनेवाले हैं ऐसे सम्भवनाथ तीर्थकर मेरा कल्याण करें ॥ १ ॥ इसी पहले जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥ २ ॥ जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष प्राप्त होनेवाला है ऐसा वह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही विरक्त हो गया । वह विचार करने लगा कि इस संसारमें वैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं ॥ ३ ॥ प्रथम तो यह कि यह जीव यमराजके दाँतोंके बीचमें रहकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता है और मोहकर्मके उदयसे उससे निकलनेका उपाय नहीं सोचना इसलिए इस अज्ञानान्वकारको धिक्कार हो ॥ ४ ॥ वैराग्यका दूसरा कारण यह है कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयकी ही है उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु आश्चर्य है कि ये आयुके क्षण ही इन जीवोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते हैं ॥ ५ ॥ तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलाषारूपी धूपसे संतप्त होकर विषयभोगरूपी किसी नदीके जीर्णशीर्ण तटकी छायाका आश्रय ले रहे हैं सो उनका यह आश्रय कुशलतापूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सका ॥ ६ ॥ इत्यादि विचार करते हुए विमलवाहन राजाने अपना राज्य विमलकीर्ति नामके पुत्रके लिए देकर स्वयंप्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ ७ ॥ ग्यारह अङ्गोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थकर नामक नामकर्मका बन्ध किया ॥ ८ ॥ अन्तमें संन्यासकी विधिसे शरीर छोड़कर प्रथम ग्रैवेयके सुदर्शन विमानमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारण करनेवाला ब्रह्मिन्द्र हुआ ॥ ९ ॥ तेईस सागरकी उसकी आयु थी, साठ अङ्गुल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्र लेख्या थी, साढ़े ग्यारह माहमें एकवार श्वास लेता था, तेईस हजार वर्ष बाद मनसे आहारका स्मरण करता था, उसके भोग प्रवीचारासे रहित थे, सातवें नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके क्षेत्रमें गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी ही उसके शरीरकी प्रभा थी और उतनी ही दूर तक उसका

१-जायते ख०, ग० । सम्मुखे पुरस्ताद् भवतीति सम्मुखीनी दर्पणतद्वदाचरतीति सम्मुखीनायते ।  
 २ सम्मुखोऽखिले ख० । ३ त्रिभेद क०, ख०, ग०, घ०, म० । ४ यापयेत् ख०, ग० । ५ सुदर्शनविमाने क०, ख०, ग०, घ०, म० । ६ अर्धर्चादित्वात्पुंस्त्वम् ।

अग्निमादिगुणोपेतं पञ्चपुण्योदयार्पितम् । अहमिन्द्रसुखं श्रीमानन्वभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे श्रावस्तिनगरेशिनः । राज्ञः काश्यपगोत्रस्य दृढराजस्य सद्युतेः ॥ १४ ॥  
 बलभेक्ष्वाकुवंशस्य सुपेणा तत्सुरागमे । षण्मासान् वसुधाराधि<sup>१</sup>माहात्म्यपदवीं गता ॥ १५ ॥  
 शुक्लफाल्गुनजाप्टम्यां स्वमान् षोडश पञ्चमे । प्रभातसमयेऽपश्यन्नक्षत्रे सुकृतोदयात् ॥ १६ ॥  
 ततोऽनु ववर्नं<sup>२</sup> तस्याः स्वप्ने प्राविशदग्निमः<sup>३</sup> । गिरीन्द्रशिखराकारो वारणश्चारुलक्षणः ॥ १७ ॥  
 सा तेषां फलमाकर्ण्य स्वपतेर्मुदमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८ ॥  
 पौर्णमास्यामवापार्च्यमहमिन्द्रं<sup>४</sup> त्रिविद्युतम् । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभूत् ॥ १९ ॥  
 सम्भवे तव लोकानां शं भवत्यद्य नमभव । विनापि परिपाकेन तीर्थकृत्नामकर्मणः ॥ २० ॥  
<sup>५</sup> तवाङ्गचूते प्रीणन्ति लक्षणव्यञ्जनोद्गमे । प्रलम्बबाहुविटपे सुरदग्भमराश्वरम् ॥ २१ ॥  
 परतेजांसि ते तेजां भाति देव तिरोदधत् । मतानि कपिलादीनां स्याद्वादस्येव निर्मलम् ॥ २२ ॥  
 समस्ताह्लादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बोधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥  
 त्वां लोकः स्नेहसंबुद्धो निर्हेतुहितकारणम् । प्रदीपवन्नमत्येप निधानमिव<sup>६</sup> भास्वरम् ॥ २४ ॥  
 इति स्तुत्वादिकल्पेशो विहितानन्दनाटकः । पित्रांस्तमर्पयित्वा मा स्वर्लोकमगमत्सुरैः ॥ २५ ॥

वैक्रियिक शरीर आ जा सकता था ॥ १०-१२ ॥ इस प्रकार वह श्रीमान् उत्तम अहमिन्द्र अग्निमा  
 महिमा आदि गुणांसे सहित तथा पाँच प्रकारके पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले अहमिन्द्रके सुखोंका  
 अनुभव करता था ॥ १३ ॥

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरीका राजा दृढराज्य था । वह इक्ष्वाकु-  
 वंशी तथा काश्यपगोत्री था । उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी । सुपेणा उसकी स्त्रीका नाम  
 था । जब पूर्वोक्त देवके अवतार लेनेमें लहमाम बाकी रह गये तब सुपेणा रत्नवृष्टि आदि माहात्म्यको  
 प्राप्त हुई । फाल्गुन शुक्ल अष्टमीके दिन प्रातःकालके समय मृगशिरा नक्षत्रमें पुण्योदयसे रानी सुपेणा  
 ने सोलह स्वप्न देखे ॥ १४-१६ ॥ तदनन्तर स्वप्नमें ही उसने देखा कि मुमरु पर्वतके शिखरके  
 समान आकारवाला तथा सुन्दर लक्षणोंसे युक्त एक श्रेष्ठ दायी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥ १७ ॥  
 अपने पतिसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर वह आनन्दको प्राप्त हुई । उसी दिन वह अहमिन्द्र उसके  
 गर्भमें आया । तदनन्तर नवमें महीनेमें कार्तिक शुक्ला पौर्णमासीके दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौम्य  
 योगमें उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पूज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया । जन्मकल्याणकसम्बन्धी  
 उत्सव हो जानेके बाद उसका 'संभव' यह नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ १८-१९ ॥ इन्द्रोंने उस समय भगवान्  
 संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की—हे संभवनाथ ! तीर्थकर नामकर्मके उदयके बिना ही केवल  
 आपके जन्मसे ही आज जीवोंको मुख मिल रहा है । इसलिए आपका संभवनाथ नाम सार्थक है  
 ॥ २० ॥ हे भगवन् ! जिसमें अनेक लक्षण और व्यञ्जनारूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लम्बी-लम्बी  
 भुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रवृक्षपर देवोंके नेत्ररूपी भ्रमर  
 चिरकाल तक रुप रहते हैं ॥ २१ ॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याद्वादका निर्मल तेज कपिल आदिके  
 मतोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोभित होता है उसी प्रकार आपका निर्मल तेज भी अन्य लोगोंके  
 तेजको तिरस्कृत करता हुआ सुशोभित हो रहा है ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सब जीवोंको आह्लादित  
 करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्का हित करता है उसी प्रकार आप भी साथ उत्पन्न हुए तीन  
 प्रकारके ज्ञानसे जगत्का हित कर रहे हैं ॥ २३ ॥ हे नाथ ! आपके स्नेहसे बढ़ा हुआ यह लोक,  
 दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खजानेके समान देदीप्यमान आपको नमस्कार  
 कर रहा है ॥ २४ ॥ इस प्रकार स्तुतिकर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वर्गका  
 अधिपति सौधर्मेन्द्र माता-पिताके लिए भगवान्को सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चला गया ॥ २५ ॥

१ वसुधारादिमाहात्म्य-क०, ख०, ग०, घ० । २ वदनस्थान्तः ल० । ३-दग्निमे ल० । ४ त्रिवि-  
 द्युतम् ख०, ग० । ज्ञानत्रयसहितम् । ५ तव शरीराम्रवृक्षे टि० । तवाङ्गभूजे ल० । ६ भास्वरः ल० ।

द्वितीयतीर्थसन्ताने समये सागरोपमैः । त्रिंशच्छतसहस्रोक्तकोटिभिः प्रान्तमीयुषि ॥ २६ ॥  
 शम्भवाख्योऽभवत्स्वामी तदभ्यन्तरजीवितः । स पूर्वपटिलक्षायुः चतुःशतधनुःप्रमः ॥ २७ ॥  
 आयुवति<sup>१</sup> चतुर्भागे प्राप्तराज्यमहोदयः । सुखान्यन्वभवद्दैवैरुपनीतान्यनुक्षणम् ॥ २८ ॥  
 चत्वारिंशच्चतुर्लक्षाः पूर्वाणां समतिक्रमे<sup>२</sup> । चतुःपूर्वाङ्गयुक्तानामभूविभूमदर्शनात् ॥ २९ ॥  
 लब्धबोधिः समुत्पन्नवैराग्यो जीवितादिकम् । स्वगतं स्मरति स्मेति शम्भवः स भवान्तकः ॥ ३० ॥  
 आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भ्रान्त्योक्तोऽन्योऽन्तकः परैः । जन्तवस्तदजानन्तो त्रियन्तेऽनन्तशोऽन्तकात् ॥ ३१ ॥  
 अभ्यास्य कायमेवायमन्तकेनाभिभूयते । भूयो जन्तुरिदं जाह्वयमत्रैव वसतीति यत् ॥ ३२ ॥  
 विरसान् सरसान् मत्वा विषयान् विषसन्निभान् । भुङ्क्ते रागरसाविद्धो धिग् धियोऽनादिविष्टवम् ॥ ३३ ॥  
 आत्मेन्द्रियायुरिष्टार्थसन्निधेः<sup>३</sup> संसृती सुखम् । स्वसन्निधिरिह<sup>४</sup> स्थेयान् किं न वेति न तर्क्यते ॥ ३४ ॥  
 विद्युदुद्युतिवल्लक्ष्मीर्नैयं स्थेमानमृच्छति । व्युच्छिन्नेच्छः श्रियं स्थानुं स्वच्छतद्बोधदीधितिम् ॥ ३५ ॥  
 इत्यात्तत्त्वसारं तं स्तुत्वा लौकान्तिका गताः । दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्राप्तनिष्कमणोत्सवः ॥ ३६ ॥  
 सिद्धार्थशिविकामूढां देवैरारुह्य निर्गतः । सहेतुकवने राज्ञां सहस्रेणाप संयमम् ॥ ३७ ॥  
 मनःपर्ययसञ्ज्ञानः श्रावस्तिनगरं<sup>५</sup> प्रति । भिक्षाहेतोर्द्वितीयेऽह्नि प्राविशान् कनकप्रभः ॥ ३८ ॥  
 नृपः सुरेन्द्रदत्ताख्यः सुवर्णाभः प्रतीक्ष्य तम् । दत्त्वा दानं स्फुरद्रथमापदाश्रयपञ्चकम् ॥ ३९ ॥

द्वितीय तीर्थकरकी तीर्थ-परम्परामें जब तीस लाख करोड़ सागर वीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी अनन्तरालमें सम्मिलित थी । उनकी साठ लाख पूर्वकी आयु थी, चार सौ धनुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एकचौथाई भाग वीत चुका तब उन्हें राज्यका महान् वैभव प्राप्त हुआ था । वे सदा देवांपनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे ॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए, जब चवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाङ्ग व्यतीत हो चुके तब किसी दिन मेघोंका विभ्रम देखनेसे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, वे उसी समय विरक्त हो गये और संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंभवनाथ स्वामी अपने मनमें आयु आदिका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २९-३० ॥ कि प्राणीके भीतर रहनेवाला आयुकर्म ही यमराज है, अन्य वालोंने भूलने किसी दूसरेको यमराज बतलाया है, संसारके प्राणी इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्तवार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं ॥ ३१ ॥ यमराज इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस जीवकी मूर्खता देखो कि यह इसी शरीरमें वास करता है ॥ ३२ ॥ रागरूपी रसमें लीन हुआ यह जीव विषके समान नीरस विषयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इसलिए अनादि कालसे चले आये इसकी बुद्धिके विभ्रमको धिक्कार है ॥ ३३ ॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु और उष्ट्र पदार्थके संनिधानसे संसारमें सुख होना है सो आत्माका संनिधान तो इस जीवके सदा विद्यमान रहता है फिर भी यह जीव क्यों नहीं जानता और क्यों नहीं इसका विचार करता । यह लक्ष्मी विजलीकी चमकके समान कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही निर्मल सम्यग्ज्ञान की किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त हो सकता है ॥ ३४-३५ ॥ इस प्रकार पदार्थके सारको ग्रहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर लौकान्तिक देव चले गये । तथा भगवान् भी अपने पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव प्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धार्थ नामकी पालकीमें सवार हो नगरसे बाहर निकले और सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ३६-३७ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया । सुवर्णके समान प्रभाको धारण करनेवाले भगवान्ने दूसरे दिन भिक्षाके हेतु श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ वहाँ काञ्चन जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्हें पगाहकर आहार दान दिया और जिनमें

१ आयुपि इते गते सतीत्यर्थः । २ सम्भतिक्रमे ल० । ३ सन्निधः ल० । ४ स्वसन्निधेरिह स्थेयं ख०, घ० । स सन्निधिरिह स्थेयां ग०, क० । ५ विच्छिन्नेच्छः क०, घ० । व्युच्छिन्नेच्छः श्रेयत् स्थातुम् क०, ख०, ग०, घ० । ६ मुनिः क०, ल०, ग०, घ० ।

अथ मौनव्रतेनाथं छद्मस्थोऽब्देषु शुद्धधीः । द्विसप्तसु गते दीक्षावने शालतरोरधः ॥ ४० ॥  
जन्मर्क्षे कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्लागः । षष्ठोपवासो हत्वाघान् पापानन्तचतुष्टयम् ॥ ४१ ॥  
कल्पामरैः समं सर्वैस्त्रिविधैर्ज्योतिषादिभिः । व्यधात् कैवल्यकल्याणं तदैवैत्यामराधिपाः ॥ ४२ ॥  
पञ्चोत्तरशतोद्दिष्टैर्गणैः परिवारितः । चारुषेणादिभिः सोऽभाद् गिरान्द्रो गिरिभिर्यथा ॥ ४३ ॥  
शून्यपञ्चैकपक्षोक्तचारुपूर्वधरावृतः । शून्यद्वयत्रिरन्ध्रद्वयेकोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ४४ ॥  
शून्यद्वितयषड्रन्ध्रमितावधिविलोचनः । शून्यत्रयेन्द्रियैकोक्तकेवलावगमान्वितः ॥ ४५ ॥  
शून्यद्वयाष्ट्रन्ध्रैकज्ञातवैक्रियकानुगः । शून्यपञ्चैकपक्षैकज्ञानतुर्यावबोधकः ॥ ४६ ॥  
शून्यत्रितयपक्षैकसङ्ख्यावादिषुभूपितः । पिण्डिताशेषदिग्वासो लक्षद्वयपरिष्कृतः ॥ ४७ ॥  
खचतुष्कद्विवह्नुक्तधर्माद्याधार्मिकागणः । त्रिलक्षोपासकोपेतश्राविकापञ्चलक्षगः ॥ ४८ ॥  
असङ्ख्यदेवदेवीक्यस्तिर्वक्सङ्ख्यातसंस्तुतः । एवं द्वादशभेदोक्तधर्मभृद्गणनायकः ॥ ४९ ॥  
चतुस्त्रिंशदतीशेषप्रतिहार्याष्टकप्रभुः । दिव्यवाग्ज्योत्स्नया कृत्स्नमाह्लाद्यानमितांशुमान् ॥ ५० ॥  
शुद्ध एव चरन् पक्षे मोक्षलक्ष्या सहोद्भूतः । निष्कलङ्को निरातङ्को निर्द्धृतारिः कुपक्षहृत् ॥ ५१ ॥  
मुनितारागणाकीर्णः कामद्वेषा महोष्मधृत् । सद्बृत्तः सर्वदा पूर्णः सदाभ्यर्णध्रुवोदयः ॥ ५२ ॥

अनेक रत्न चमक रहे हैं ऐसे पञ्चाध्वर्य प्राप्त किये ॥ ३६ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भगवान् संभवनाथ चौदह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थामें मौनसे रहे । तदनन्तर दीक्षावनमें पहुँचकर शाल्मली वृक्षके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीके दिन जन्मकालीन मृगशिर नक्षत्रमें शामके समय बेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए और चार घातिया कर्मरूपी पाप-प्रकृतियोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हुए ॥ ४०-४१ ॥ उमी समय इन्होंने कल्पवासियों तथा ज्योतिष्क आदि तीन प्रकारके देवोंके साथ कैवल्य महात्मव किया—ज्ञानकल्याणक उत्सव किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार छोट-छोटे अन्य अनेक पर्वतोंसे घिरा हुआ मुमेरु पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार चारुषेण आदि एक सौ पाँच गणधरोंसे घिरे हुए भगवान् संभवनाथ मुशोभित हो रहे थे ॥ ४३ ॥ वे दस हजार एक सौ पचास पूर्वधारियोंसे परिवृत थे, एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ शिक्षकोंसे युक्त थे ॥ ४४ ॥ नौ हजार छह सौ अवधि-ज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे ॥ ४५ ॥ उन्तीस हजार आठ सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके साथ थे, बारह हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे ॥ ४६ ॥ तथा बारह हजार वादियोंसे मुशोभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दस लाख मुनियोंसे अत्यन्त शोभा पा रहे थे ॥ ४७ ॥ धर्मार्थोंको आदि लेकर तीन लाख बीस हजार आर्थिकाएँ थीं, तीन लाख श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यञ्च उनकी स्तुति करते थे । इस प्रकार वे भगवान्, धर्मको धारण करनेवाली बारह सभाओंके स्वामी थे ॥ ४८-४९ ॥ वे चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्योंके प्रभु थे, दिव्यध्वनिरूपी चाँदनीके द्वारा सबको आह्लादित करते थे तथा नमस्कार करनेवालोंको सूर्यके समान प्रकाशित करते थे ॥ ५० ॥ भगवान् संभवनाथने चन्द्रमाको तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और वदी दोनों पक्षोंमें संचार करता है परन्तु भगवान् शुद्ध अर्थात् निर्दोष पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लक्ष्मीहीन हो जाता है परन्तु भगवान् मोक्षलक्ष्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलङ्क सहित है परन्तु भगवान् निष्कलङ्क—निष्पाप थे, चन्द्रमा सातङ्क—राहु आदिके आक्रमणके भयसे युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान् निरातङ्क—निर्भय और नीरोग थे, चन्द्रमाके राहु तथा मेघ आदिके आवरणरूप अनेक शत्रु हैं परन्तु भगवान् शत्रुरहित थे, चन्द्रमा कुपक्ष—कृष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान् कुपक्ष—मलिन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनमें ताराओंसे रहित दिखता है परन्तु भगवान् सदा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको बढ़ानेवाला है परन्तु भगवान् कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेजरहित है परन्तु भगवान् महान् तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके सिवाय अन्य तिथियोंमें वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आकारका धारक होता है परन्तु भगवान्

सदा त्रिभुवनासेव्यो भव्यपञ्चावबोधनः । नित्यध्वस्तोभयध्वान्तो १लोकालोके प्रकाशकः ॥ ५३ ॥  
 विभुं सोऽधो विघायैवं विहरद् धर्मवृष्टये । पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वलोकसुखप्रदा ॥ ५४ ॥  
 सम्मेदं पर्वतं प्राप्य त्यक्तमासविहारकः । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमागतः ॥ ५५ ॥  
 २चैत्रे मासि सिते पक्षे षष्ठ्यामर्केऽन्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीं समागाम् ॥ ५६ ॥  
 पञ्चमावगमेशं तं पञ्चमीं गतिमास्थितम् । पञ्चमेऽभ्यर्च्य कल्याणे सञ्चितायां ३ ययुः सुराः ॥ ५७ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अष्टौ शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य क्रमा-  
 दष्टौ दुष्टतमानुपायनिपुणो निर्मथ्य कर्मद्विपः ।  
 अष्टाविष्टतमान् गुणानविकलान् कृत्वा तनुं शाश्वती-  
 मष्टय्यामवनौ स्म ४सम्भवविभुः शुम्भलसुखः शोभते ॥ ५८ ॥

### मालिनी

विपुलविमललक्ष्मीर्वीक्षितानङ्गलक्ष्मीरिह भुवि विमलादिर्वाहनो देहदीप्त्या ।  
 हतरविरहमिन्द्रो रुन्द्रकल्याणलक्ष्मीप्रकटितपरिरम्भः सम्भवः शं क्रियाद्गः ॥ ५९ ॥  
 इत्यायं भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सम्भवतीर्थकरपुराणं  
 परिसमाप्तमेकोनपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ४९ ॥

सदा सद्बृत्त—सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको ही पूर्ण रहता है अन्य तिथियोंमें अपूर्ण रहता है परन्तु भगवान् सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण रहते थे, चन्द्रमाके निकट ध्रुव ताराका उदय नहीं रहता परन्तु भगवान् सदा अभ्यर्ण ध्रुवोदय थे—उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थान् स्थायी था, चन्द्रमा केवल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय हैं परन्तु भगवान् तीनों लोकोंके द्वारा सेवनीय थे, चन्द्रमा कमलोंको मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान् सदा भव्य जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते थे अथवा भव्यजीवोंकी पद्मा अर्थान् लक्ष्मीको बढ़ाते थे, चन्द्रमा केवल बाह्य अन्धकारको ही नष्ट करता है परन्तु भगवान्ने बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा केवल लोकको प्रकाशित करता है परन्तु भगवान्ने लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित कर दिया था । इस प्रकार चन्द्रमाको निरस्कृत कर धर्मकी वर्षा करनेके लिए भगवान्ने आर्य देशोंमें विहार किया था सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी चेष्टा मंत्रके समान सब लोगोंको सुख देनेवाली होती है ॥ ५१-५४ ॥ अन्तमें जब आयुका एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल प्राप्त कर विहार बन्द कर दिया और एक हजार राजाओंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥ ५५ ॥ तथा चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीके दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्म-नक्षत्रमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥ ५६ ॥ जो पञ्चम ज्ञान—केवलज्ञानके स्वामी हैं और पञ्चम-गति—मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए हैं ऐसे भगवान् संभवनाथकी पञ्चमकल्याणक—निर्वाणकल्याणकमें पूजा कर पुण्यका संचय करने वाले देव यथास्थान चल गये ॥ ५७ ॥ उपायोंके जाननेमें निपुण भगवान् संभवनाथने छठवसे लेकर चौदहवें तक संयमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लंघन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कर्मरूपी शत्रुओंका विनाश किया, अत्यन्त दुष्ट सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको अपना अविनश्वर शरीर बनाया और अष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हां मुशोभित होने लगे ॥ ५८ ॥ जिन्होंने अनन्तचतुष्टयरूप विशाल तथा निर्मल लक्ष्मी प्राप्त की है, जिन्होंने शरीररहित मोक्षलक्ष्मीका साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी प्रभासे सूर्यको पराजित कर दिया है, जो पहले इस पृथिवी पर विमलवाहन राजा हुए थे, फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर जिन्होंने पञ्च-कल्याणक लक्ष्मीका आलिंगन प्राप्त किया ऐसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥५९॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यके द्वारा प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके  
 संग्रहमें संभवनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला उत्तमासवां पर्व पूर्ण हुआ ।



## पञ्चाशत्तमं पर्व

अर्थे सत्ये वचः सत्यं सद्बक्तुर्वक्ति सत्यताम् । यस्यासौ पातु वन्दारूढन्नन्दयन्नभिनन्दनः ॥ १ ॥  
जम्बूपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे । सीताया विषयो भागे व्यभासीन्मङ्गलावती ॥ २ ॥  
राजा महाबलस्तत्र नगरे रत्नसञ्चये । स्वामिसम्पत्समेतोऽभूच्चतुर्वर्णाश्रमाश्रयः ॥ ३ ॥  
पाति तस्मिन् महीं नासीद् ध्वनिरन्याय इत्ययम् । <sup>१</sup>प्रावर्तना प्रजाः स्वेषु स्वेषु मार्गेष्वनर्गलाः ॥ ४ ॥  
पाङ्गुण्यं तत्र नैर्गुण्यमगाद्विगतविद्विषि । निर्गुणोऽपि गुणैस्स्यागसत्यादिभिरसौ गुर्णा ॥ ५ ॥  
निःसपन्नः श्रियः सोऽभूत्पनिस्तस्याः सरस्वती । कीर्तिवीरश्रियोऽभूवन् सपन्न्यः प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥  
<sup>२</sup>अन्यवाकध्रोत्रयोः कीर्तिस्तस्य वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौ वक्षस्यहमित्यतुपद्रमा ॥ ७ ॥  
कान्ताकल्पलतारम्यो निजकायामरद्रमः । फलति स्म <sup>३</sup>सुखं तस्य यद्यत्नेनाभिवाञ्छितम् ॥ ८ ॥  
रम्यरामामुत्वाभोजमेवालोलाक्षिपटपदः । सुखेन सोऽनयद्दीर्घं कालं कालकलामिव ॥ ९ ॥  
कदाचिजातवैराग्यः कामभागेऽप्यतर्पणात् । सूनवे धनपालाय दत्त्वा राज्यं महामनाः ॥ १० ॥  
<sup>४</sup>आदात् संयममासाद्य गुरुं विमलवाहनम् । एकादशाङ्गधार्येण भावितद्वयष्टकारणः ॥ ११ ॥  
तीर्थकृत्नाम सप्रप्राप्त <sup>५</sup>फलं कल्याणपञ्चकम् । येन तीर्थकरोऽयं स्यात् किं नाप्यन्ति मनस्विनः ॥ १२ ॥  
आयुषोऽन्ते म संन्यस्य विजयेऽनुत्तरादिमे । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुरहमिन्द्रत्वमाययौ ॥ १३ ॥

पदार्थकं मन्य हानेसे जितके वचनोंकी सत्यता सिद्ध है और ऐसे सत्य वचन ही जिन यथार्थ वक्ताकी सत्यताका प्रकट करते हैं ऐसे अभिनन्दन स्वामी वन्दना करनेवाले लोगोंको आनन्दित करते हुए हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥ जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक मङ्गलावती नामका देश सुशोभित है ॥ २ ॥ उसके रत्नसंचय नगरमें महाबल नामका राजा था । वह बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वर्णों और आश्रमोंका आश्रय था—रक्षा करनेवाला था ॥ ३ ॥ उसके पृथिवीकी रक्षा करते समय 'अन्याय' यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मार्गमें प्रवृत्ति करती थी ॥ ४ ॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विग्रह आदि छह गुणोंका समूह भी निर्गुणताको प्राप्त हो गया था और इस तरह निर्गुण होनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणवान् था ॥ ५ ॥ वह राजा लक्ष्मीका एक ही पति था । यद्यपि सरस्वती कीर्ति और वीरलक्ष्मी उसकी सौतेली थीं तो भी राजा सब पर प्रसन्नचित्त रहता था । उसकी कीर्ति अन्य मनुष्योंके वचनों तथा कानोंमें रहती है, सरस्वती उसके वचनोंमें रहती है, वीरलक्ष्मी वक्षःस्थल पर रहती है और मैं सर्वाङ्गमें रहती हूँ यह विचार कर ही लक्ष्मी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी ॥ ६-७ ॥ स्त्रीरूपी कल्पलतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, वह जिस जिसकी इच्छा करता था वही वही सुख प्रदान करता था ॥ ८ ॥ जिसके नेत्ररूपी भ्रमर मुन्द्र स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोंकी सेवा करनेमें सदा सतृष्ण रहते हैं ऐसे उस राजा महाबलने बहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया ॥ ९ ॥ किसी समय इच्छानुसार मिलनेवाले भोगोपभोगोंमें संतुष्ट होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पहुँच संयम धारण कर लिया । वह ग्यारह आङ्ग का पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तवन किया ॥ १०-११ ॥ सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन करनेसे उससे पञ्चकल्याणरूपी फलको देनेवाले तीर्थकर नामकर्म-बन्ध किया जिससे यह तीर्थकर होगा । सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको क्या नहीं प्राप्त होता ? ॥ १२ ॥ आयुके अन्तमें समाधिमरण कर वह विजय नामके पहले

१ प्रवर्तने ल० । २ अनिन्दाश्रोत्रयोः ल० । ३ सुखे ल० । ४ कामभोगेष्वतर्पणात् क०, ल०, ग०, घ० । ५ अघात् ल० । ६ फलकल्याण-ल० ।

तत्रोक्तदेहलेदयविद्<sup>१</sup> गुण्योच्छ्वासादिसंयुतः । पञ्चशतसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ॥ १४ ॥  
 ध्यायन् वैराग्यसम्पत्त्या तत्रास्थाङ्गकितोऽर्हतः । कृत्स्नकर्मक्षयं कर्तुं तस्मिन्त्रागमिष्यति ॥ १५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्भुतोदयः ॥ १६ ॥  
 राजा स्वयंवरो नात्रा सिद्धार्थाऽस्याग्रवल्लभा । षड्मासान् वसुधारादि-पूजामानुवर्ती सती ॥ १७ ॥  
 वैशाखस्य सिते पक्षे पष्ठ्यां भे सप्तमे शुभे । स्वप्नेक्षानन्तरं वक्त्रं विशन्तं वीक्ष्य सा गजम् ॥ १८ ॥  
 नृपात्त्वप्रफलैस्तुष्ट्या दिष्ट्यासुत तमुत्तमम् ।<sup>२</sup> माघे मास्यदितौ योगे धवलद्वादशीदिने ॥ १९ ॥  
 तत्र भावविशेषेण प्रकम्पितनिजासनः । प्रैलोक्येशसमुद्भूतिमवबुद्धयावधेः सुधीः ॥ २० ॥  
 तं<sup>३</sup> तदावाप्य देवेन्द्रः स्वदेव्या दिव्यमानवम् । देवावृतो द्रतद्रावी देवादौ दिव्यविष्टरे ॥ २१ ॥  
 बालार्कसन्निभं बालं जलैः क्षीरापगापतेः ।<sup>४</sup> स्नापयित्वा विभूष्याख्यां प्रख्याप्याम्याभिनन्दनम् ॥ २२ ॥  
 बहुबाहुः सहस्राक्षो बहुभावरसान्वितः । विचित्रकरणा<sup>५</sup> रघैरङ्गहारैर्नभोज्जणे ॥ २३ ॥  
 उद्यताभिनयप्रायं भक्त्यानुत्पत्सनाण्डवम् । गतो रागः परां कोटिं धीरोदात्तांश्च<sup>६</sup> नाटयन् ॥ २४ ॥  
 निवृत्त्याग्न्य साकेतं<sup>७</sup> निकृष्य कृतकार्भकम् । पित्रोः पुरो विधायैतं<sup>८</sup> सुरेडारामरं पदम् ॥ २५ ॥  
 सम्भवस्यान्तरे जाते दशलक्षाधिकोऽतिभिः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुराद्यभासे विदां त्रिभिः ॥ २६ ॥

अनुत्तरमें तंतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ १३ ॥ विजय विमानमें जो शरीरकी ऊँचाई, लेश्या, अवधिज्ञानका क्षेत्र तथा आसोच्छ्वासादिका प्रमाण बतलाया है वह उन सबसे सहित था, पांचा इन्द्रियोंके मुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वैराग्यरूपी सम्पत्तिते उपलक्षित हो भक्ति-पूर्वक अर्हन्त भगवान्का ध्यान करता हुआ वहाँ रहता था और आयुके अन्तमें समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिए इस पृथिवीतल पर अवतार लेगा ॥ १४-१५ ॥ जब अवतार लेनेका समय हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें त्रयोध्या नगरीका स्वामी इक्ष्वाकु वंशी काश्यपगोत्री तथा आश्चर्यकारी वैभवको धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था । सिद्धार्था उसकी पटरानी का नाम था । अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह पूर्वमे सिद्धार्थाने रत्नवृष्टि आदि पूजाको प्राप्त किया और वैशाख मासके शुक्लपक्षकी पष्ठी तिथिके दिन मातर्वे शुभ नक्षत्र (पुनर्वसु) में सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करना हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया ॥ १६-१८ ॥ राजासे स्वप्नोका फल सुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुई और माघ मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन अदिति योगमें उसने पुण्यादयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमानने अवधिज्ञानके द्वारा त्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया ॥ २० ॥ इन्द्रने अपनी शचीदेवी द्वारा उस दिव्य मानवको प्राप्त किया और उसे लेकर देवोंसे आवृत हो शीघ्रतासे सुमेरु पर्वत पर पहुँचा । वहाँ दिव्य सिंहासनपर विराजमानकर बाल सूर्यके समान प्रभावाले बालकका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहनाये और अभिनन्दन नाम रक्खा ॥ २१-२२ ॥ उस समय जिसने विक्रिया वश बहुत-सी मुजाएँ बना ली हैं, हजार नेत्र कर लिये हैं और जो अनेक भाव तथा रसोंसे सहित हैं ऐसे इन्द्रने आश्चर्यकारी करणोंसे प्रारम्भ किये हुए अङ्गहारों द्वारा आकाशरूपी आंगनमें भक्तिसे ताण्डव नृत्य किया और अनेक अभिनय दिखलाये । उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, साथ ही वह अन्य अनेक धीरोदात्त नटोंको भी नृत्य करा रहा था ॥ २३-२४ ॥ जन्माभिषेकसे वापिस लौटकर इन्द्र त्रयोध्यानगरीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके बालकको रख कर स्वर्ग चला गया ॥ २५ ॥ श्री संभवनाथ तीर्थकरके बाद दश लाख करोड़ वर्षका अन्तराल बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतीर्ण हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित

१ लेश्यादिगुणोच्छ्वासादि ख०, ग० । २ मात्रमास्य-ल० । ३ तदादाय क०, घ० । ४ स्नापयित्वा इति भवितव्यम् । ५ करणारम्भैः क०, ख०, घ० । करणारम्भिरङ्गहारैः ग० । ६ नाटयेत् ख०, ग० । ७ निकृष्य ग० । ८ सुरेट् इन्द्रः, आर जगाम, आमरं देवसम्बन्धि ।

पञ्चाशत्तमं पत्रं: सार्द्धं त्रिंशत्तमं पत्रं: १ । २ बालेन्दुरिव सज्ज्योत्सवः पुण्यौघो वा ३ स्फुरद्द्रसः ॥ २७ ॥  
 स श्रीवृद्धि च सम्प्राप्तुं सर्वानाह्लादयन् गुणैः । चामीकरच्छविर्गते कौमारे ४ कामसारथौ ॥ २८ ॥  
 पूर्वद्वादशलक्षेपु सार्द्धेषु प्राप्तवान् स तत् । राज्यं नियोज्य भुङ्क्वेति पितर्यासे तपोवनम् ॥ २९ ॥  
 इन्दुः कामयते कान्तिं दीप्तिमिच्छत्यहर्षतिः । वाञ्छत्यैश्वर्यमस्येन्द्रः शममाशासते स्पृहाः ॥ ३० ॥  
 निजोक्कृष्टानुभागानामनन्तगुणवृद्धितः । तस्य पुण्याणवः सर्वे फलन्ति स्म प्रतिक्षणम् ॥ ३१ ॥  
 अभिभूयान्यतेजांसि सर्वप्रकृतिरञ्जनात् । तारेशमंशुमन्तं च जिव्वाराजत्स ५ तेजसा ॥ ३२ ॥  
 नमिताखिलभूपालमौलिरित्यत्र का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतोऽयं चेदमरेन्द्रार्चितक्रमः ॥ ३३ ॥  
 नेया श्रीरागिणी ६ वास्याभूदक्ता कोऽत्र विस्मयः । मोक्षलक्ष्म्या च चेदेप कटाक्षैर्गोचरीकृतः ॥ ३४ ॥  
 शुद्धश्रद्धानमक्षय्यमयस्तीर्थकराङ्गयः । आत्मसम्पदितः कान्या जगत्त्रयजयैषिणः ७ ॥ ३५ ॥  
 स धीरललितः पूर्वं राज्ये धीरोद्धतो यमी । ८ धीरः प्रशान्तः पर्यन्ते धीरोदात्तवर्मायिवान् ॥ ३६ ॥  
 अफलन् शक्तयस्तिष्ठः सिद्धिं धर्मानुबन्धिनीम् । ता एव शक्तयो या हि लोकद्वयहितावहाः ॥ ३७ ॥  
 कीर्त्ता श्रुतिः स्तुतौ तस्य गीतिर्वर्णाक्षराङ्किता । प्रीतिर्दृष्टौ जनस्यासीत्स्पृष्टतिश्च गुणगोचरा ॥ ३८ ॥  
 गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स सर्वैराभिगामिकैः । न चेत्किं सेवितुं गर्भं निलम्पाः कम्पितासनाः ॥ ३९ ॥

थी वं सति श्रुत अवधि इन् तीन ज्ञानोंसे मुशोभित थे, पचास लाख पूर्व उनकी आयु थी, साढ़े तीन सौ धनुष ऊँचा शरीर था, वे बाल चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है ऐसे पुण्य कर्मके समूहके समान जान पड़ते थे ॥ २६-२७ ॥ गुणोंसे सबको आह्लादिन करते हुए वे शोभा अथवा लक्ष्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे । उनकी कान्ति सुवर्णके समान देदीप्यमान थी । कामदेवके सारथिके समान कुमार अवस्थाके जब साढ़े बारह लाख पूर्व बीत गये तब 'तुम राज्यका उपभोग करो' इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वनको चले गये । उसी समय इन्होंने राज्य प्राप्त किया ॥ २८-२९ ॥ उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाहता था, सूर्य इनके तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएं इनकी शान्ति चाहती थी ॥ ३० ॥ अपने उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल देते रहते थे ॥ ३१ ॥ इन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सब प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा और सूर्यको भी जीत लिया था इस तरह वे अपने ही तेजसे मुशोभित हो रहे थे ॥ ३१-३२ ॥ समस्त राजा लोग इन्हें अपने मुकुट भुकाते थे इसमें उनकी वया स्तुति थी । क्योंकि ये जन्मसे ही ऐसे पुण्यात्मा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोंकी पूजा करता था ॥ ३३ ॥ जब मोक्षलक्ष्मी भी इन्हें अपने कटाक्षोंका विषय बनाती थी तब राज्यलक्ष्मी इनमें अनुराग करने लगी इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ॥ ३४ ॥ उनके कभी नष्ट नहीं होनेवाला शुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन था और तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृति थी । सो ठीक ही है क्योंकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके इससे बढ़कर दूसरी कौनसी आत्मसम्पत्ति है ? ॥ ३५ ॥ वे भगवान् कुमार-अवस्थामें धीर और उद्धत थे, संयमी अवस्थामें धीर और प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामें धीर और उदात्त अवस्थाको प्राप्त हुए थे ॥ ३६ ॥ उनकी उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोंने धर्मानुबन्धिनी सिद्धिको फलीभूत किया था सो ठीक ही है क्योंकि शक्तियां वही हैं जो कि दोनों लोकोंमें हित करनेवाली हैं ॥ ३७ ॥ उनकी कीर्तिमें शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वर्ण और अक्षरोंसे अङ्कित अनेक गीत थे, मनुष्योंकी दृष्टिमें उनकी प्रीति थी, और उनका स्मरण सदा गुणोंके विवेचनके समय होता था ॥ ३८ ॥ वे उत्पन्न होनेके पूर्व ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूर्ण थे । यदि ऐसा न होता तो गर्भमें

१ चापगः ख० । चापसः ग० । २ तलेन्दुरिव घ० । ३ पुण्यौघो वा ससद्रसः ग० । पुण्योदावाससद्रसः ख० । पुण्यौघो वा स्फुरद्द्रविः ल० । ४ कामतां द्यौ क०, ख०, ग० । कामसा द्यौ घ० । ५-मीप्सवत्यहर्षतिः क०, ख०, ग०, घ० । ६ रवतेजसा क०, ख० । ७ रागिणी मात्या ग०, ख० । रागिणी सास्या ल० । ८ जयीद्धिणः ग० । जगत्त्रितयजयैषिणः ल० । अत्र पाठे छन्दोभङ्गः । ९ धीरप्रशान्तः घ०, क० ।

पुष्कलं प्राग्भवायातं बोधित्रितयमुत्तमम् । तस्य प्रज्ञागुणाः केऽन्ये वर्णनीयाः मनीषिभिः ॥ ४० ॥

न वाच्यः प्रथमगुणाहो यद्यथं हन्तुमीहते । मोहशत्रुं सशेषात् खलं शैलोक्यकण्टकम् ॥ ४१ ॥

<sup>१</sup>उद्धर्मेऽपि प्रतापेऽस्य माध्यान्दनदिनाधिपम् । निःप्रतापं करोत्यद्य तमन्यः सहते नु कः ॥ ४२ ॥

लिलङ्घयिष्वोऽन्योन्यं वर्द्धन्तेऽस्याखिला गुणाः । समानं वर्द्धमानानां स्पृहा केन <sup>२</sup>निषिध्यते ॥ ४३ ॥

एवं संसारसारोऽरुविसरद्भोगभागिनः । <sup>३</sup>प्रान्तबोधदिनाधीशप्रोद्गमोदयभूभृतः ॥ ४४ ॥

खचतुष्केन्द्रियवर्धिमितपूर्वेषु निष्ठिते । राज्यकाले जगद्गुरुष्टपूर्वाङ्गशेषतः ॥ ४५ ॥

प्रादुर्भूतक्षणाप्रान्तविनश्यत्सौधविभ्रमे । गन्धर्वनगरे साक्षाद्याते सञ्जातबोधिकः ॥ ४६ ॥

अवश्यं भङ्गुरा भांगा भङ्गयन्त्यत्र मां स्थितम् । न पातयति किं स्वस्थं भङ्गुरो व्रिष्टपः स्फुटम् ॥ ४७ ॥

तनुर्मयेऽसितैः सर्वैः स्वीकृतापि न्यजेद्भ्रुवम् । प्रायः पण्याङ्गनेवेति विरक्तः स तनावभूत् ॥ ४८ ॥

सत्यायुषि मृतिस्तस्मिन्नसत्यत्रास्ति सापि न । बिभेति चेन्मृतेस्तेन भेतव्यं पूर्वमायुषः ॥ ४९ ॥

गन्धर्वनगरेणैव संवादः सर्वसम्पदाम् । विधाय्यभ्रविलायित्वविधेरपधियामपि ॥ ५० ॥

इत्यपश्यच्चदैवैनमानचूर्णमरद्विजाः । सुरैः सम्प्राप्तनिष्कान्तिकल्याणः शमितेन्द्रियः ॥ ५१ ॥

हस्तचित्राल्पयानाधिऋदोऽप्रोद्यानमागतः । माघे सिते <sup>४</sup>स्वगर्भर्क्षे द्वादश्यामपराह्णकः ॥ ५२ ॥

दीक्षां पद्योपवासेन जैतीं जग्राह राजभिः । सहस्रसङ्ख्यैर्विख्यातैस्तदासजानतुर्यकः ॥ ५३ ॥

ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोंके आसन कम्पायमान क्यों होते ? ॥ ३६ ॥ उनका उत्तम रत्नत्रय प्रचुर मात्रामें पूर्वभवसे साथ आया था तथा अन्य गुणोंकी क्या बात ? उनकी बुद्धिके गुण भी विद्वानोंके द्वारा वर्णनीय थे ॥ ४० ॥ उनके उत्साह गुणका वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिये क्योंकि वे तीनों लोकोंके कण्ठक स्वरूप मोह शत्रुका अन्य समस्त पापोंके साथ नष्ट करना ही चाहते थे ॥ ४१ ॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप ऐसा था कि दोपहरके सूर्यको भी प्रतापरहित करता था फिर इस समय उसे दूसरा सह ही कौन सकता था ? ॥ ४२ ॥ इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे मानो परस्परमें एक दूसरेका उल्लंघन ही करना चाहते हों । सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़नेवालोंकी ईर्ष्याका कौन रोक सकता है ? ॥ ४३ ॥ इस प्रकार संसारके श्रेष्ठतम विशाल भोगोंके समूहका उपभोग करनेवाले भगवान् अभिनन्दननाथ केवलज्ञानरूपी सूर्यका उदय होनेके लिए उदयाचलके समान थे ॥ ४४ ॥ जब उनके राज्यकालके साढ़े छत्तीस लाख पूर्व वीत गये और आयुके आठ पूर्वाङ्ग शेष रहे तब वे एकदिन आकाशमें मेघोंकी शांभा देख रहे थे कि उन मेघोंमें प्रथम तो एक सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़े ही देरमें वह नष्ट हो गया । इस घटनासे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । वे सोचने लगे कि ये चिन्तार्थिक भोग इस संसारमें रहते हुए मुझे अवश्य ही नष्ट कर देंगे । क्या टूटकर गिरनेवाली शाखा अपने ऊपर स्थित मनुष्यको नीचे नहीं गिरा देती ? ॥ ४५ ॥ यद्यपि मैंने इस शरीरको सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थोंसे परिपुष्ट किया है तो भी यह निश्चित है कि वेश्याके समान यह मुझे छोड़ देगा । इस तरह विचार कर वे शरीरसे विरक्त हो गये ॥ ४६-४८ ॥ उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुके रहते हुए भी मरण होता है, आयुके न रहने पर मरण नहीं होता । इसलिए जो मरणसे डरते हैं उन्हें सबसे पहिले आयुसे डरना चाहिये ॥ ४९ ॥ समस्त सम्पदाओंका हाल गन्धर्वनगरके ही समान है अर्थात् जिस प्रकार यह मेघोंका बना गन्धर्वनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएं भी नष्ट हो जाती हैं यह बात विद्वानोंकी कौन कहे मूर्ख भी जानते हैं ॥ ५० ॥ जिस समय भगवान् ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की । देवोंने भगवान्का निष्कमणकल्याणक किया । तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान् हस्तचित्रा नामकी पालकी पर आरूढ़ होकर अश्र-उद्यानमें आये । वहाँ उन्होंने माघ शुक्ल द्वादशीके दिन शामके समय अपने जन्म नक्षत्रका उदय

१ जन्मकालेऽपि । २ निषेध्यते क०, ख०, घ० । सर्वं किम् निषेध्यते (१) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० ।

द्वितीयेऽहनि साकेतं बुभुक्षुः प्राविशन् नृपः । तं प्रतीक्ष्येन्द्रदत्तोऽर्क्षं दत्त्वापाश्रयं पञ्चकम् ॥ ५४ ॥  
 अथ मौनव्रतेनेते<sup>१</sup> छात्रस्यैऽप्यादशाब्दके । दीक्षावनेऽसनक्षमाजमूले षष्ठोपवासिनः ॥ ५५ ॥  
 सिते पौषे चतुर्दश्यां सायाह्ने भेऽस्य सप्तमे । केवलवगमो जज्ञे विश्वामरसमर्चितः ॥ ५६ ॥  
 त्रिलोकोक्तैर्गणार्थशैर्वज्रनाभ्यादिनामभिः । खट्वयेन्द्रियपक्षोक्तैः स्यक्ताङ्गैः पूर्वधारिभिः ॥ ५७ ॥  
 खाक्षखट्वयवह्निद्विप्रमालक्षितशिक्षकैः । खट्वयाप्तनवज्ञैः प्राज्ञैस्त्रिज्ञानलोचनैः ॥ ५८ ॥  
 खत्रयत्वेकसङ्ख्यातैः केवलज्ञानमानिभिः । शून्यत्रितयरन्ध्रैकमितवैक्रियकद्धिभिः<sup>२</sup> ॥ ५९ ॥  
 शून्यपञ्चतुर्द्वोक्तमनःपर्ययबोधनैः । एकादशसहस्रोद्यद्वादिभिर्विन्दितकमः ॥ ६० ॥  
 लक्षत्रितयसम्पिण्डताशेषयतिनायकः । खट्वयतुर्खवह्यग्निसङ्ख्याभिरभितो युतः ॥ ६१ ॥  
 मेरुपेणार्थिकाद्यार्थिकाभिर्जगदधीश्वरः । लक्षत्रयोदितोपासकाभ्यचितपदद्वयः ॥ ६२ ॥  
 लक्षपञ्चप्रमाप्रोक्तश्राविकालोक<sup>३</sup> संस्तुतः । असङ्ख्यदेवदेवीह्य<sup>४</sup> स्तिर्यक्सङ्ख्यातमेवितः ॥ ६३ ॥  
 इति द्वादशनिदिष्टशिष्टभ्यगणनाप्रणाः । धर्मवृष्टिं किरन् दूरं विहन्यायावनीतलम् ॥ ६४ ॥  
 यदृच्छ्याप्य सम्मेदं स्थित्वा मासं विना ध्वनेः । तात्कालिकक्रियायुक्तं ध्यानद्वयमयोऽमलः ॥ ६५ ॥  
 मुनिभिर्बहुभिः प्राह्णे प्रतिमायोगवानगात् । भे सिते सप्तमे पञ्च्यां वैशाखेऽयं<sup>५</sup> परं पदम् ॥ ६६ ॥  
 तदा भक्त्या नताप्याङ्गाः सुरेन्द्राः कृत्नपूजनाः । नुन्वा तमगमश्चाकं शैलोक्येशं यथायथम् ॥ ६७ ॥

रहते वेलाका नियम लेकर एक हजार प्रमिद्ध राजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ५१-५३ ॥ दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने साकेत ( अयोध्या ) नगरमें प्रवेश किया । वहाँ इन्द्रवत् राजाने पडगाह कर उन्हें आहार दिया तथा पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५४ ॥

तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके अठारह वर्ष मौनमे वीत जाने पर वे एक दिन दीक्षावनमें असन वृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए ॥ ५५ ॥ पौष शुक्ल चतुर्दशीके दिन शामके समय मानवें पुनर्वसु नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान हुआ, समस्त देवोंने उनकी पूजा की ॥ ५६ ॥ वज्रनाभि आदि एक सौ तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले दो हजार पाँच सौ पूर्वधारी, दो लाख तीस हजार पचास शिक्षक, नौ हजार आठ सौ अत्रधिज्ञानी, सोलह हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और ग्यारह हजार प्रचण्ड वार्दी उनके चरणोंकी निरन्तर वन्दना करते थे ॥ ५७-६० ॥ इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे, मेरुपेणा आदि तीन लाख तीस हजार छह सौ आर्थिकाओंसे सहित थे, तीन लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा वे स्तुत्य थे, और संख्यात तिर्यञ्च उनकी सेवा करते थे ॥ ६१-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ट और भव्य जीवोंकी वारह सभाओंके नायक भगवान् अभिनन्दननाथने धर्मवृष्टि करते हुए इस आर्यखण्डकी वसुधा पर दूर-दूर तक विहार किया ॥ ६४ ॥ इच्छाके विना ही विहार करते हुए वे सम्मेद गिरि पर जा पहुँचे । वहाँ एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रहित होकर ध्यानारूढ रहे, उस समय वे ध्यान कालमें होनेवाली योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया-प्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक दो ध्यानोसे रहित थे, अत्यन्त निर्मल थे, और प्रतिमा-योगको धारण किये हुए थे । वहींसे उन्होंने वैशाख शुक्ल षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय पुनर्वसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोंके साथ परमपद—मोक्ष प्राप्त किया ॥ ६५-६६ ॥ उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अङ्ग भुक्त रहे हैं ऐसे इन्द्रने आकर उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और तदनन्तर यथाक्रमसे स्वर्गकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६७ ॥

१ मौनव्रतेन इते गते । २ वैक्रियिकद्धिभिः क०, ख०, ग०, घ० । वैक्रियिकर्पिभिः ल० । ३ संयुतः ल० । ४ देवदेवीभिः क०, घ० । ५ वैशाखेऽयात् परं पदम् ल० ।


## शार्दूलविक्रीडितम्

येनाप्तानिमिपेश्वरैरयमर्या<sup>१</sup> श्रीः पञ्चकल्याणजा  
 यस्यानन्तचतुष्टयोऽज्वलतरा श्रीरक्षया क्षायिकी ।  
 यो रूपेण विनापि निर्मलगुणः सिद्धिश्रियालिङ्गितः  
 स त्रिश्रारभिनन्दनो निजपतिर्जीयादनस्तोदयः ॥ ६८ ॥

## वसन्ततिलका


यो रत्नसञ्चयपुरेशमहाबलाख्यो  
 योऽनुत्तरेषु विजयी विजयेऽहमिन्द्रः ।  
 यश्चाभिनन्दननृपो वृषभेशवंशे  
 साकेतपत्तनपतिः स जिनोऽवताद्गः ॥ ६९ ॥  
 उभयनयभेदाभ्यां विश्वं विभज्य विभावयन्  
 स्वभविभवभ्रष्टैर्भक्त्या द्युभूमिरभिप्लुतः ।  
 त्रिभुवनत्रिभुभूयां भव्या भवान्भवतां भवद्  
 भयमभिभवन् भूयै भूयादभीरभिनन्दनः ॥ ७० ॥

द्व्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतं त्रिपट्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाप्तमभिनन्दन-  
 स्वामिनः पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५० ॥



जिन्होंने इन्द्रोंके द्वारा पञ्च कल्याणकोंमें उन्पन्न होनेवाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने कर्म क्षयसे होनेवाली तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरङ्ग लक्ष्मी प्राप्त की जो रूपसे रहित होनेपर भी निर्मल गुणोंके धारक रहे, साक्षलक्ष्मीने जिनका आलिङ्गन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो पूर्वोक्त लक्ष्मियोंसे युक्त रहं एसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ॥ ६८ ॥ जो पहले रत्नसंचय नगरके राजा महाबल हुए, तदनन्तर विजय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋषभनाथ तीर्थकरके वंशमें अयोध्या नगरीके अधिपति अभिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंसे विभाग कर समस्त पदार्थोंका विचार किया है, अपने भवकी विभूति को नष्ट करनेके लिए देवोंने भक्तिमें जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, निर्भय हैं और संसारके प्राणियोंका भय दूर करनेवाले हैं एसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवो ! तुम सबकी विभूतिको करनेवाले हो ॥ ७० ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपट्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला पचासवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।




## एकपञ्चाशत्तमं पर्व

लक्ष्मीरनश्वरी तेषां येषां 'तस्य मते' मतिः । देयादादेयवाक्<sup>३</sup> सद्भिः सोऽस्मभ्यं सुमतिर्मतिम् ॥ १ ॥  
 अश्वण्डे धातकीखण्डे मन्दरे प्राचि पूर्वगे । विदेहे नद्यदककूले सुराङ्गं पुष्कलावती ॥ २ ॥  
 पुरेऽस्मिन् पुण्डरीकिण्यां रतिषेणो महीपतिः । प्राग्जन्मोपाजितोदीर्णपुण्यपण्यात्मसाकृतम् ॥ ३ ॥  
 राज्यं विनिजितारातिनिःकोपं नित्यवृद्धिकम् । स्वामिसम्पत्समेतः सन्नीत्या ऽनिर्व्यसनोऽन्वभूत् ॥ ४ ॥  
 "या स्वस्यैवास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदेकस्यापि दण्डेषु वर्तन्ते न पथि प्रजाः ॥ ५ ॥  
 रक्तस्य मनसा तृप्तिः कामः करणगोचरे । स्वेष्टाशेषार्थसम्पत्तेः कामस्तस्य न दुर्लभः ॥ ६ ॥  
 अर्थे चतुष्टयी वृत्तिरर्जनादि यथागमम् । देवोऽर्हनर्थधर्मौ च तदनीपल्लभौ मतौ ॥ ७ ॥  
 गच्छत्येवं चिरं काले हेलया पालितक्षितेः । परस्परानुकूल्येन वर्गत्रितयवृद्धिनः ॥ ८ ॥  
 जन्तोः किं कुशलं कस्मात्सुखमेपोऽधिनिष्ठति । पर्यायावर्तदुर्जन्मदुर्मृत्युरादूरगः ॥ ९ ॥  
 न तावदर्थकामाभ्यां सुखं संसारवर्द्धनान् । नामुष्मादपि मे धर्माद्यमात्सावद्यसम्भवः ॥ १० ॥

अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रति-  
 पादित मतमें ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। इसके  
 सिवाय जिनके वचन मज्जन पुरुषोंके द्वारा प्राह्य हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान् हम सबके लिए सद्बुद्धि  
 प्रदान करें ॥ १ ॥ अश्वण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूर्व मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर स्थित विदेह क्षेत्रमें  
 सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है ॥ २ ॥ उसकी पुण्डरीकिणी  
 नगरीमें रतिषेण नामका राजा था। वह राजा राज-सम्पदाओंसे सहित था, उसे किसी प्रकारका  
 व्यसन नहीं था और पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए राज्यका नीति-पूर्वक  
 उपभोग करता था। उसका वह राज्य शत्रुओं से रहित था, क्रोधके कारणोंसे रहित था और निरन्तर  
 वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥ ३-४ ॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी वह उसी की थी वैसी  
 राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पाई जाती थी। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड इन चारों  
 विद्याओंमें चौथी दण्डावद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा प्राणदण्ड आदि  
 अनेक दण्डोंमेंसे किसी एक भी दण्डके मार्गमें नहीं जाती थी ॥ ५ ॥ इन्द्रियोंके विषयमें अनुराग  
 रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। वह काम, अपने इष्ट समस्त  
 पदार्थोंकी संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुर्लभ नहीं था ॥ ६ ॥ वह राजा अर्जन, रक्षण,  
 वर्धन और व्यय इन चारों उपायोंसे धन संचय करता था और आगमके अनुसार अर्हन्त भगवान्को  
 ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धर्मको वह कामकी अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था अर्थात्  
 कामकी अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुषार्थका अधिक सेवन करता था ॥ ७ ॥ इस प्रकार लीलापूर्वक  
 पृथिवीका पालन करनेवाले और परस्परकी अनुकूलतासे धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेवाले  
 राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उसके हृदयमें निम्नाङ्कित विचार  
 उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ वह विचार करने लगा कि इस संसारमें जीवका कल्याण करनेवाला क्या है ?  
 और पर्यायरूपी भँवरोंमें रहनेवाले दुर्जन्म तथा दुर्मरण रूपी सर्पोंसे दूर रहकर यह जीव सुखको  
 किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? अर्थ और कामसे तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी  
 ही वृद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्ममें पापकी संभावना है उस धर्मसे भी सुख नहीं हो

१ यस्य क०, ख०, ग०, घ० । २ मतिर्मतिम् क०, ग० । ३ वाक्सिद्धिः ग० । ४ अनिर्व्यसनन्वभूत् ख० ।  
 ५ या स्वस्येष्टा च सा विद्या ग० ।



निःसावद्योऽस्ति धर्मोऽन्यस्ततः सुखमनुगामम्<sup>१</sup> । इत्युदको वितकोऽस्य विरक्तस्याभवरातः ॥ ११ ॥  
 राज्यस्य दुर्भरं भारं निवेदयातिरथे<sup>२</sup> तुजि ।<sup>३</sup> सुभरं तपसो भारं बभार स भवान्तकृत् ॥ १२ ॥  
 जिनाहर्हन्नन्दनाभ्यासे विदितैकादशाङ्गकः । उदासीनः स्वदेहेऽपि मोहारातिजयेच्छया ॥ १३ ॥  
 यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धिस्तच्चरन्ति सुमेधसः । श्रद्धानविनयाद्युक्तकारणोपात्ततीर्थकृत् ॥ १४ ॥  
 प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्यायुरुकृष्टमहमिन्द्रताम् ।<sup>४</sup> वैजयन्तेऽत्र सम्प्रापदेकारभिः शरीरकः ॥ १५ ॥  
 मातैः षोडशभिः पञ्चदशभिश्च दिनैः श्वसन् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्दैरन्धो<sup>५</sup> मानसमाहरत् ॥ १६ ॥  
 शुक्ललेयः स्वतेजोऽवधीतविष्टपनालिकः । तत्क्षेत्रविक्रियद्वींशस्तदुद्धारिबलान्वितः ॥ १७ ॥  
 आहमिन्द्रं सुखं मुख्यमङ्गिनामाजवंजवे । निर्द्वन्द्वं निःप्रवाचारं चिरं नीरागमागमन् ॥ १८ ॥  
 आयुरन्ते समाधानातस्मिन्नप्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेते वृषभान्वये ॥ १९ ॥  
 तद्गोत्रे क्षत्रियोऽन्तारिः श्लाघ्यो मेघरथोऽभवत् । मङ्गलाऽस्य महादेवी वसुधारादिपूजिता ॥ २० ॥  
 मघायां श्रावणे मासि दृष्ट्वा स्वप्नान् गजादिकान् । आस्यं सितद्वितीयायामैक्षिप्यागामुक्तं द्विपम् ॥ २१ ॥  
 तत्फलान्यवबुध्यात्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदम् । तवमे मासि चित्रायां सज्ज्योत्सुकैकादशीदिने ॥ २२ ॥  
 त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं पितृयोगे सतां पतिम् । जगन्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमलब्ध सा ॥ २३ ॥  
 देवेन्द्रान्तं सदा नीत्वा मेरो<sup>६</sup> जन्मसवोत्सवम् । कृत्वा सुमनिसञ्ज्ञां च पुनस्तद्वेहमानयन् ॥ २४ ॥

सकता । हां, पापरहित एक मुनिधर्म है उसीसे इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार विरक्त राजाके हृदयमें उत्तम फल देनेवाला विचार उत्पन्न हुआ । ॥ ६-११ ॥ तदनन्तर संसार का अन्न करनेवाले राजा रतिपेणने राज्यका भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए सौंप कर तपका हलका भार धारण कर लिया । १२ ॥ उसने अहर्हन्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया और मोह-शत्रुको जीतनेकी इच्छामे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी । १३ ॥ उसने दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता आदि कारणोंमे तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया सो ठीक ही है क्योंकि जिससे अमीष्ट पदार्थकी सिद्धि होती है बुद्धिमान् पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं । १४ ॥ उसने अन्त समयमें संन्यासमरण कर उकृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहां उनका एक हाथ ऊंचा शरीर था । वह सोलह माह तथा पन्द्रह दिनमें एक बार श्वास लेता था, तैनीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, शुक्ललेयाका धारक था, अपने तेज तथा अवधिज्ञानसे लोकनाडीको व्याप्त करना था, उतनी ही दूर तक विक्रिया कर सकता था, और लोकनाडी उखाड़ कर फेंकनेकी शक्ति रखता था । १५-१७ ॥ इस संसारमें अहमिन्द्रका सुख ही मुख्य सुख है, वही निर्द्वन्द्व है, प्रवीचारासे रहित है और रागसे शून्य है । अहमिन्द्रका सुख राजा रतिपेणके जीवको प्राप्त हुआ था । १८ ॥ आयुके अन्तमें समाधि-मरण कर जब वह अहमिन्द्र यहाँ अवतार लेनेको हुआ तब इस जन्मवृद्धीप-सम्बन्धी भरत-क्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें मेघरथ नामका राजा राज्य करता था । वह भगवान् वृषभदेवके वंश तथा गोत्रमें उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय था, शत्रुओंसे रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था । मङ्गला उसकी पट्टरानी थी जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयोंसे सन्मानको प्राप्त थी । १९-२० ॥ उसने श्रावणशुक्ल द्वितीयाके दिन मवा नक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने सुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया । २१ ॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी बहुत ही हर्षित हुई । तदनन्तर नौवें चैत्र माहके शुक्लपक्षकी एकादशीके दिन चित्रा नक्षत्र तथा पितृ योगमें उसने तीन ज्ञानके धारक, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ और त्रिभुवनके भर्ता उस अहमिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया । २२-२३ ॥ सदाकी भांति इन्द्र लोग जिन-वालकको सुमेरु पर्वत

१-मनुत्तरम् क०, घ० । २ पुत्रे 'तुक् तोकं चाभजः प्रजा' इति कोशः । ३ मुचिरम् ख०, ग० ।  
 ४ वैजयन्ते तु ल० । ५ भोजनम् । ६ जन्मोत्सवात्सवम् क०, व० । जन्ममहोत्सवम् ल० ।



नवलक्ष्माग्निहोत्रीषु प्रयातेऽनन्तरेऽन्तरे<sup>१</sup> । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरुदपाद्युदितोदयः<sup>२</sup> ॥ २५ ॥  
 शून्यषड्धाधिपूर्वायुः शरासत्रिशतोच्छ्रितः<sup>३</sup> । सन्नसतपनीयाभः स्वभावसुभगाकृतिः ॥ २६ ॥  
 शैशवोचितसर्वाथैर्देवानीतैः सदैधितुः<sup>४</sup> । अंशवो वा शिशोरिन्दोर्व्यक्त्यास्थावयवा बभुः ॥ २७ ॥  
 तनवः कुञ्चिताः स्निग्धाः सूर्धजाजाम्बवत्विषः । मुखपङ्कजमाशङ्क्य मिलिता वास्य पटपदाः ॥ २८ ॥  
 मया त्रैलोक्यराज्यस्य स्नपनान्ते सुरोत्तमैः । पट्टोऽलम्भीति<sup>५</sup> वास्याधाह्लाटाटटमुक्कतिम् ॥ २९ ॥  
 कर्णौ लक्षणसम्पूर्णौ नास्य त्रिज्ञानधारिणः । पञ्चवर्षोर्ध्वशिष्यत्वपरिभूतिं प्रतेनतुः ॥ ३० ॥  
 सुभ्रुवो न भ्रुवोर्वाच्यो विभ्रमोऽस्य पृथग्विदाम् । भ्रूक्षेपमात्रद्वयार्थसार्थसन्तपिताथिनः ॥ ३१ ॥  
 नेत्रे विलासिनी स्निग्धे त्रिवर्णे तस्य रेजतुः । इष्टाखिलार्थसम्प्रेक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥ ३२ ॥  
 मया विनाऽऽस्यशोभा<sup>६</sup> स्यान्न्यसौ नासिका, समयम् । उन्नता दधतीवाभाद्ब्रह्मजामोदपायिनी ॥ ३३ ॥  
 लक्ष्म्यौ कपोलयोर्लक्ष्म्या वक्षःस्थलसमाश्रितेः<sup>७</sup> । उत्तमाङ्गाश्रयाद् द्विग्वात् जिन्वयौ वास्य रेजतुः ॥ ३४ ॥  
 जिन्वास्य कुन्दसौन्दर्यं द्विजराजिर्धराजत । वक्राब्जवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती ॥ ३५ ॥  
 नाधरस्याधराख्या<sup>८</sup> स्यात्सप्तमास्वादशालिनः । अधरीकृतविश्रामराधरस्याद्रिशोभिनः ॥ ३६ ॥  
 नालप्यते लपस्यास्य शोभा वावह्लभोज्ज्वला । यदि दिव्यो ध्वनिविश्रवाचकोऽस्माद्दिनिःसृताः ॥ ३७ ॥

पर ले गये, वहाँ उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमति नाम रक्त्वा और फिर घर वापिस ले आये ॥ २४ ॥ अभिनन्दन स्वामीके वाद नौ लाख करोड़ सागर वीन जानेपर उत्कृष्ट पुण्यको धारण करनेवाले भगवान सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी समयमें शामिल थी ॥ २५ ॥ इनकी आयु चालीस लाख पूर्वकी थी, शरीरकी ऊँचाई तीन सौ धनुष थी, तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति थी, और आकार स्वभावसे ही सुन्दर था ॥ २६ ॥ वे देवोंके द्वारा लाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोंसे वृद्धिको प्राप्त होते थे । उनके शरीरके अवयव ऐसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाकी किरणें ही हों ॥ २७ ॥ उनके पतले, टेढ़े, चिकने तथा जामुनके समान कान्ति वाले शिरके केश ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखमें कमलकी आशंका कर भौर ही इकट्ठे हुए हों ॥ २८ ॥ मैने देवोंके द्वारा अभिषेकके वाद तीन लोकके राज्यका पट्ट प्राप्त किया है । यह सोच कर ही मानो उनका ललाटतट ऊँचाईको प्राप्त हुआ था ॥ २९ ॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवानके कान सब लक्षणोंसे युक्त थे और पांच वर्षके वाद भी उन्होंने किसीके शिष्य बननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था ॥ ३० ॥ उनकी भौहें बड़ी ही सुन्दर थीं, भौहोंके संकेत मात्रसे दिये हुए धन-समूहसे उन्होंने याचकोंको संतुष्ट कर दिया था अतः उनकी भौहोंकी शोभा बड़े-बड़े विद्वानों के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी ॥ ३१ ॥ समस्त इष्ट पदार्थोंके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले अपरिमित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र विलास पूर्ण थे, स्नेहसे भरे थे, शुक्ल कृष्ण और लाल इस प्रकार तीन वर्ण के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे ॥ ३२ ॥ मुख-कमलकी सुगन्धिका पान करनेवाली उनकी नाक, 'मेरे विना मुखकी शोभा नहीं हो सकती' इस बातका अहंकार धारण करती हुई ही मानो ऊँची उठ रही थी ॥ ३३ ॥ उनके दोनों कपोलोंकी लक्ष्मी उत्तमाङ्ग अर्थात् मस्तकका आश्रय होने तथा संख्यामें दो होनेके कारण वक्षःस्थल पर रहनेवाली लक्ष्मीको जीतती हुई-सी शोभित हो रही थी ॥ ३४ ॥ उनके दांतोंकी पंक्ति कुन्द पुष्पके सौन्दर्यको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो मुख कमलमें निवास करनेसे संतुष्ट होँसती हुई सरस्वती ही हो ॥ ३५ ॥ जिन्होंने समस्त देवोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वतकी शोभा बढ़ाई है और छहरसोंके सिवाय सप्तम अलौकिक रसके आस्वादसे सुशोभित है ऐसे उनके अधरों (ओठों) की अधर (तुच्छ) संज्ञा नहीं थी ॥ ३६ ॥ जिससे समस्त पदार्थोंका उल्लेख करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट हुई है ऐसे उनके मुखकी शोभा तो कही ही

१ प्रयातेऽनन्तरान्तरे ग०, क० । २ द्युतितोदितः क०, ख०, ग० । द्युतितोदितम् घ० । ३ त्रिशतोच्छ्रितः क०, घ० । ४ सदैव च ग० । ५ वास्यागाह्लाटाट-ख०, ग० । ६ आस्यशोभा-मुखशोभा । ७-माश्रितः ल० । ८-बराह्यस्य क०, ख०, ग०, घ० ।

'हावो वक्राभ्युजस्यास्य किं पुनर्वर्ण्यतेतराम् । यदि लोलालितां जग्मुर्निलिम्पेशः सवल्लभाः ॥ ३८ ॥  
 कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्याद्यदि त्रैलोक्यकण्ठिका । बद्धामरेशैः स्याद्वादकुण्ठिताखिलवादिनः ॥ ३९ ॥  
 तद्वादुशिखरे मन्ये शिरसोऽप्यतिलङ्घिनी । वक्षःस्थलनिवासिन्या लक्ष्म्याः क्रीडाचलायते ॥ ४० ॥  
 धरालक्ष्मीं समाहर्तुं वीरलक्ष्मीप्रसारितौ । भाजते जयिनस्तस्य भुजावाजानुलङ्घिनौ ॥ ४१ ॥  
 पृथक् पृथक्त्वं नाख्येयं रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाभ्युदयलक्ष्म्यां चैतदेवावसतः समम् ॥ ४२ ॥  
 कृशमप्यकृशं मध्यं लक्ष्माद्वयसमाश्रितम् । ऊर्ध्वदेहं महाभारं वहदेतस्य हेलया ॥ ४३ ॥  
 नाभिः प्रदक्षिणावतां गम्भीरंति न कथ्यते । सा चेन्न तादृशी तस्मिन्न स्यादेवं सुलक्षणा ॥ ४४ ॥  
 रूपशोभां विना नेमः<sup>३</sup> ४ स्वाश्रयादिति वाणवः । सन्तः सर्वेऽपि तत्रासन् रम्यस्तत्र कटीतटः ॥ ४५ ॥  
 रम्भास्तम्भादयोऽन्येषामूर्वीयान्पमानताम् । उपमेयास्तदूरुभ्यां ते वृशत्वादिभिर्गुणैः ॥ ४६ ॥  
 कुतो जानुक्रियेत्येतद् वेष्टि नान्येषु वेधसः । चेदस्मिन्नूरुजङ्घानां शोभास्पृहानि<sup>४</sup> वृत्तये ॥ ४७ ॥  
 वज्रेण घटितं जङ्घे वेधसाऽस्यान्यथा कथम् । जगत्त्रयगुरोभारं बिभाते ते तनोस्तन् ॥ ४८ ॥  
 धरेयं सर्वभावेन लग्नाऽस्मत्तलयोरिति । सत्कमौ प्रमदेनेव कूर्मपृष्ठी शुभच्छवी ॥ ४९ ॥  
 इयन्तोऽस्मिन् भविष्यन्ति धर्माः कर्मनिवर्हणाः । इत्याख्यातुमिवाभान्ति विधिनाङ्गुलयः कृताः ॥ ५० ॥

नहीं जा सकती । उनके मुखकी शोभा वचनोंसे प्रिय तथा उज्ज्वल थी अथवा वचनरूपी वल्लभा—सरस्वतीसे देदीप्यमान थी ॥ ३७ ॥ जब कि अपनी-अपनी वल्लभाओंसे सहित देवेन्द्र भी उस पर सत्पुण्य भ्रमर जैसी अवस्थाको प्राप्त हो गये थे तब उनके मुख-कमलके हावका क्या वर्णन किया जावे ? ॥ ३८ ॥ जिन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त वादियोंको कुण्ठित कर दिया है ऐसे भगवान् सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोंने तीन लोकके अधिपतित्वकी कण्ठी बाँध रखी थी तब उसकी क्या प्रशंसा की जावे ? ॥ ३९ ॥ शिरसे भी ऊँचे उठे हुए उनकी भुजाओंके शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्षःस्थल पर रहने वाली लक्ष्मीके क्रीडा-पर्वत ही हों ॥ ४० ॥ घुटनों तक लटकने वाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो पृथिवीकी लक्ष्मीको हरण करनेके लिए वीर-लक्ष्मीने ही अपनी भुजाएँ फैलाई हों ॥ ४१ ॥ उनके वक्षःस्थलकी शोभाका पृथक्-पृथक् वर्णन कैसे किया जा सकता है जब कि उस पर मोक्षलक्ष्मी और अभ्युदयलक्ष्मी साथ ही साथ निवास करती थीं ॥ ४२ ॥ उनका मध्यभाग कृश होने पर भी कृश नहीं था क्योंकि वह मांझलक्ष्मी और अभ्युदय-लक्ष्मीसे युक्त उनके भारी शरीरको लीलापूर्वक धारण कर रहा था ॥ ४३ ॥ उनकी आवर्तके समान गोल नाभि गहरी थी यह कहनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीरमें अच्छी ही नहीं जान पड़ती ॥ ४४ ॥ समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया-हम किसी अच्छे आश्रयके विना रूप तथा शोभाको प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे परमाणु उनकी कमर पर आ कर स्थित हो गये थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सुन्दर हो गई थी ॥ ४५ ॥ (केलेके स्तम्भ आदि पदार्थ अन्य मनुष्योंकी जाँघोंकी उपमानताको भले ही प्राप्त हो जावें परन्तु भगवान् सुमतिनाथके जाँघोंके सामने वे गोलाई आदि गुणोंसे उपमेय ही बने रहते थे) ॥ ४६ ॥ विधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए बनाये थे यह बात मैं ही जानता हूँ अन्य लोग नहीं जानते और वह बात यह है कि इनकी ऊरुओं तथा जंघाओंमें शोभासम्बन्धी ईर्ष्या न हो इस विचार सेही बीचमें घुटने बनाये थे ॥ ४७ ॥ विधाताने उनकी जंघाएँ वज्रसे बनाई थीं, यदि ऐसा न होता तो वे कृश होने पर भी त्रिभुवनके गुरु अथवा त्रिभुवनमें सबसे भारी उनके शरीरके भारको कैसे धारण करतीं ॥ ४८ ॥ यह पृथिवी संपूर्ण रूपसे हमारे तलवोंके नीचे आकर लग गई है यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हर्षसे कञ्जुबकी पीठके समान शुभ कान्तिके धारक हो गये थे ॥ ४९ ॥ इन भगवान् सुमतिनाथमें कर्मोंको नष्ट करनेवाले इतने धर्म प्रकट होंगे यह कहनेके लिए

१ मुखस्य । अयं श्लोकः ष० पुस्तके नास्ति । २ वीरलक्ष्म्या ल०, ग० । ३ नेमः ग० । रूपशोभा-वितानेन ल० । ४ सुष्ठु आश्रयः स्वाश्रयः तस्मात् । ५ निषिद्धये ल० ।

विधाय दशधाऽऽत्मानं विधुराङ्गी निषेवते । कान्तिमाभ्यां परं प्राप्नुमित्याशङ्कावहा नखाः ॥ ५१ ॥  
 एवं सर्वाङ्गशोभास्य लक्षणैर्व्यञ्जनैः शुभा । स्वीकरिष्यति मुक्त्यङ्गानं वेत्यत्र न संशयः ॥ ५२ ॥  
 कौमारमिति रूपेण सन्धसे रामणीयकम् । अनास्यौवनस्यास्य तद्विनापि मनोभवात् ॥ ५३ ॥  
 ततो यौवनमालम्ब्य कामोऽप्यस्मिन् कृतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थानं नाधितिष्ठन्ति के स्वयम् ॥ ५४ ॥  
 कुमारकाले पूर्वाणां दशलक्षेषु निष्ठिते । भुञ्जन् स्वर्लोकसाम्राज्यं नृराज्यं चाप स क्रमात् ॥ ५५ ॥  
 न हिंसा न मृषा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वप्नेऽपि तद्गतानन्दः शुक्ललेश्यस्य केन सः ॥ ५६ ॥  
 तथा नानिष्टसंयोगो विधेयो नेष्टवस्तुनि । नासातं न निदानं च तत्सङ्क्षेपो न तद्रतः ॥ ५७ ॥  
 गुणानां वृद्धिमातन्वन् सञ्चयं पुण्यकर्मणाम् । विपाकं विश्वपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥ ५८ ॥  
 सेव्यमानः सदा रक्तैः सुरखेचरभूचरैः । निराकृतैर्हिकारम्भः सम्भृतः सर्वसम्पदाम् ॥ ५९ ॥  
 निश्चितं कामभोगेषु नित्यं नृसुरभाविषु । न्याय्यार्थपथ्यधर्मेषु 'शर्मसारं' समाप सः ॥ ६० ॥  
 कान्ताभिः कमनीयाभिः सवयोभिः समीप्सुभिः । दिव्याङ्गरागसङ्गवक्ष्भूषाभी रमते स्म सः ॥ ६१ ॥  
 दिव्यश्रीमन्नुषी च श्रीः समप्रेमप्रतोपिते । सुखं विदधतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥  
 सुखं नाम तदेवात्र यदस्येन्द्रियगोचरम् । स्वर्वन्धसारभोग्यं चेत्युरेशास्यैव रक्षितम् ॥ ६३ ॥  
 एवं सङ्गमयन् कालं दिव्यराज्यश्रियोर्द्वये । व्यरत्सीत् संसृतेः सा हि प्रत्यासन्नविनेयता ॥ ६४ ॥

ही मानो विधाताने उनकी दश अंगुलियाँ बनाई थीं ॥ ५० ॥ उनके चरणोंके नख ऐसी शङ्का उत्पन्न करते थे कि मानो उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी सेवा करता था ॥ ५१ ॥ इस प्रकार लक्ष्मी तथा व्यञ्जनोसे सुशोभित उनके सर्व शरीरकी शोभा मुक्तिरूपी स्त्रीको स्वीकृत करेगी इसमें कुछ भी संशय नहीं था ॥ ५२ ॥ इस प्रकार भगवान्की कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ था तो भी वे कामदेवके विना ही अधिक सुन्दर थे ॥ ५३ ॥ तदनन्तर यौवन प्राप्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन मत्पुरुष हैं जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते ॥ ५४ ॥

इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूर्व वीत चुके तब उन्हें स्वर्गलोकके साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाला मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुआ ॥ ५५ ॥ शुक्ललेश्याको धारण करनेवाले भगवान् सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न झूठ बोलते थे और न चोरी तथा परिग्रह सम्बन्धी आनन्द उन्हें स्वप्नमें भी कभी प्राप्त होता था (भावार्थ—वे हिंसानन्द, मृषानन्द, स्तेयानन्द और परिग्रहानन्द इन चारों रौद्रध्यानसे रहित थे ॥ ५६ ॥ उन्हें न कभी अनिष्ट-संयोग होता था, न कभी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुःख होता था और न वे कभी निदान ही करते थे । इस प्रकार वे चारों आर्तध्यानसम्बन्धी संस्कारसे रहित थे ॥ ५७ ॥ गुण, पुण्य और सुखोंको धारण करनेवाले भगवान् अनेक गुणोंकी वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे और पुरातन समस्त पुण्य कर्मोंके विपाकका अनुभव करते थे ॥ ५८ ॥ अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर और भूमिगोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे, उन्होंने इस लोकसम्बन्धी समस्त आरम्भ दूर कर दिये थे, और वे सर्व सम्पदाओंसे परिपूर्ण थे ॥ ५९ ॥ वे मनुष्य तथा देवोंमें होनेवाले काम-भोगोंमें, न्यायपूर्ण अर्थमें तथा हितकारी धर्ममें श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे ॥ ६० ॥ वे दिव्य अङ्गराग, माला, वस्त्र और आभूषणोंसे सुशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे प्राप्त हुई स्त्रियोंके साथ रमण करते थे ॥ ६१ ॥ समान प्रेमसे संतोषित दिव्य लक्ष्मी और मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुँचाती थीं सो ठीक ही है क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता ? ॥ ६२ ॥ संसारमें सुख वही था जो इनके इन्द्रियगोचर था, क्योंकि स्वर्गमें भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इन्द्र इन्हींके लिए सुरक्षित रखता था ॥ ६३ ॥ इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य-

१ सुधीः कथं सुखांशेषु विपयामिपगृद्धिमान् । न पापबडिशं पश्येन्न चेदनिमि<sup>२</sup>पायते ॥ ६५ ॥  
 मूढः प्राणी परं प्रौढिमप्राप्तोऽस्त्वहिताहितः<sup>३</sup> । अहितेनाहितोऽहं च कथं बोधत्रयाहितः ॥ ६६ ॥  
 निरङ्कुशं न वैराग्यं यादृग्ज्ञानं च तादृशम् । कुतः स्यादात्मनः स्वास्थ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम् ॥ ६७ ॥  
 खपञ्चकनवद्गुक्तैः पूर्वं राज्येऽवसाधिते । सह द्वादशपूर्वाङ्गैः स्वस्मिन्नेवेत्यचिन्तयत् ॥ ६८ ॥  
 म्नुतस्तदैव संस्तोत्रैः सवैः सारस्वतादिभिः । अभिषेकं सुरैराण्य देवोढाभययानकः ॥ ६९ ॥  
 दीक्षां षष्ठोपनासेन सहेतुकवनेऽगृहीत् । सिते राज्ञां सहस्रेण सुमतिर्नवमीदिने ॥ ७० ॥  
 मघाशशनि वैशाखे पूर्वाह्णे संयमाश्रयम्<sup>४</sup> । तदैवाविरभूदस्य मनःपर्ययसञ्चकम् ॥ ७१ ॥  
 बुरं सौमनसं नाम भिक्षायै पश्चिमे दिने । प्राप्तं<sup>५</sup> प्रतीक्ष्य पद्मोऽगात्पूजां घुम्नद्युतिर्नृपः ॥ ७२ ॥  
 सामायिकं समादाय समीनः शान्तकल्मषः । तपस्तेषु समाधानात्सहिष्णुर्दुरसहं, परैः ॥ ७३ ॥  
 विशतिं वत्सराज्ञीत्वा छद्मस्थः प्राक्तने वने । प्रियङ्गुभूरुहोऽधस्तादुपवासाद्वयं श्रितः ॥ ७४ ॥  
 मघायां चैत्रमासास्य धवलैकादशीदिने । पश्चिमाभिमुखे भानौ कैवल्यमुदयादयत्<sup>६</sup> ॥ ७५ ॥  
 सुरैः सम्प्राप्ततपूजो गणेशेश्वामरादिभिः । स सप्तद्विभिरभ्यर्च्यः सपौडशशतोन्मुखैः ॥ ७६ ॥  
 शून्यद्वयचतुःपक्षमितपूर्वधरानुगः । खपञ्चत्रिचतुःपञ्चपक्षांक्तैः<sup>७</sup> शिक्षकैर्युतः ॥ ७७ ॥

लक्ष्मी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान् सुमतिनाथ संसारसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यपना इसीको कहते हैं ॥ ६४ ॥ भगवान्ने विचार किया कि अल्प मुखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् मानव, इस विषयरूपी मांसमें क्या लम्पट हो रहे हैं । यदि ये संसार के प्राणी मछलीके समान आचरण न करें तो इन्हें पापरूपी वंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥ ६५ ॥ जो परम चातुर्यका प्राप्त नहीं हैं ऐसा मूर्ख प्राणी भले ही अहितकारी कार्योंमें लीन रहे परन्तु मैं तो तीन ज्ञानामे सहित हूँ फिर भी अहितकारी कार्योंमें कैसे लीन हो गया ? ॥ ६६ ॥ जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और यथेष्ट सम्यग्ज्ञान नहीं होता तब तक आत्माकी स्वस्वरूपमें स्थिरता कैसे हो सकती है ? और जिसके स्वस्वरूपमें स्थिरता नहीं है उसके मुख कैसे हो सकता है ? ॥ ६७ ॥ राज्य करते हुए जब उन्हें उन्नीस लाख पूर्व और बारह पूर्वाङ्ग वीत चुके तब अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया ॥ ६८ ॥ उसी समय सारस्वत आदि समस्त लौकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की, देवोंने उनका अभिषेक किया और उन्होंने उनकी अभय नामक पालकी उठाई ॥ ६९ ॥ इस प्रकार भगवान् सुमतिनाथने वैशाख सुदी नवमीके दिन मघा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली । संयमके प्रभावसे उसी समय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ७०-७१ ॥ दूसरे दिन वे भिक्षाके लिए सौमनस नामक नगरमें गये । वहाँ मुखर्णके समान कान्तिके धारक पद्म-राजाने पडगाह कर आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की ॥ ७२ ॥ उन्होंने सर्वपापकी निवृत्ति रूप सामायिक संयम धारण किया था, वे मौनसे रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त हो चुके थे, वे अत्यन्त सहिष्णु—सहनशील थे और जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते ऐसे तपको बड़ी सावधानीके साथ तपते थे ॥ ७३ ॥ उन्होंने छद्मस्थ रहकर वीम वर्ष बिताये । तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें प्रियङ्गु वृक्षके नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ॥ ७४ ॥ और चैत्र शुक्ल एकादशीके दिन जब सूर्य पश्चिम दिशाकी ओर ढल रहा था तब कैवल्यज्ञान उत्पन्न किया ॥ ७५ ॥ देवोंने उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की । सप्त ऋद्धियोंके धारक अमर आदि एक सौ सोलह गणधर निरन्तर सम्मुख रह कर उनकी पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूर्वधारी निरन्तर उनके साथ

१ अयं श्लोकः ४० पुस्तके नास्ति । २ अनिमिषो मत्स्यस्तद्वदाचरतीति—अनिमिषायते 'पाठीनोऽनिमिष-  
 स्तिमिः' इति धनञ्जयः । ३ परं प्रौढिं विश्रुतामप्राप्तो मूढः प्राणी अहिते—अहितकरे कार्ये आहित आसक्तः अस्तु  
 भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्तोऽहं अहितेन कथं माहित इत्याश्रयम् । ४ संयमाश्रयात् ग० । ५ प्राप्ते ग० ।  
 ६ कैवल्यमुपपादिवान् ल० । ७ पद्मोत्तरैः ल० ।

एकादशसहस्रावधीद्वबोधविदीडितः । त्रयोदशसहस्रात्मसमानज्ञान<sup>१</sup>संस्तुतः ॥ ७८ ॥  
 शून्यद्वययुगाष्टैकमितवैक्रियकस्तुतः । शून्यद्वयचतुःसैकप्रमितोपान्तविद्व<sup>२</sup>तः ॥ ७९ ॥  
 शून्यपञ्चचतुःसैकमितवाष्पभिवन्दितः । पिण्डितैः खचतुष्कद्वित्रिमितैस्तैर्विभूषितः ॥ ८० ॥  
 खचतुष्कत्रिवह्युक्तानन्तार्याधार्यिकानुगः । त्रिलक्षश्रावकाभ्यर्चः श्राविकापञ्चलक्षवान् ॥ ८१ ॥  
 स देवदेव्यसङ्ख्याततिर्यक्सङ्ख्यातवेष्टितः । विहृत्याष्टदशक्षेत्रविशेषेष्बमराञ्चितः ॥ ८२ ॥  
 प्रशास्ताशास्तभाषासु भव्यानां दिव्यमक्षिपत् । ध्वनिं बीजविशेषं वा सुभूमिषु महाफलम् ॥ ८३ ॥  
 विमुक्त<sup>३</sup>विहृतिर्मांसं सहस्रमुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निर्द्वृतिं ययौ ॥ ८४ ॥  
 एकादश्यां सिते चैत्रे मघायामपराह्वगः । अमरैरन्यकल्याणमवाप सुमतीश्वरः ॥ ८५ ॥

## मालिनी

रिपुनृपयमदण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो

हरिरिव रतिपेणो वैजयन्तेऽहमिद्रः ।

सुमतिरमितलक्ष्मीमनीर्भकृत्यः कृतार्थः

सकलगुणसमृद्धो वः स सिद्धिं विदध्यात् ॥ ८६ ॥

रहते थे, वे दो लाख चौअन हजार तीन सौ पचास शिश्रकोसे सहित थे, ग्यारह हजार अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केवलज्ञानी उनकी स्तुति करते थे, आठ हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश हजार चार सौ मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे, और दश हजार चार सौ पचास वादी उनकी वंदना करते थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख बीस हजार मुनियोंसे वे मुशोभित हो रहे थे ॥ ७६-८० ॥ अनन्तमती आदि तीन लाख तीस हजार आर्यिकाएँ उनकी अनुगामिनी थीं, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं ॥ ८१ ॥ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यञ्चोंसे वे सदा घिरे रहते थे । इस प्रकार देवोंके द्वारा पूजित हुए भगवान् सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रोंमें विहार कर भव्य जीवोंके लिए उपदेश दिया था । जिस प्रकार अच्छी भूमिमें बीज बोया जाता है और उससे महान् फलकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार भगवानने प्रशास्त अप्रशास्त सभी भाषाओंमें भव्य जीवोंके लिए दिव्य ध्वान रूपी बीज बोया था और उससे भव्य जीवोंको रत्नत्रयरूपी महान् फलकी प्राप्ति हुई थी ॥ ८२-८३ ॥

अन्तमें जब उसकी आयु एक मासकी रह गई तब उन्होंने विहार करना बन्द कर सम्मेद-गिरि पर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वहीसे चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्रमें शामके समय निर्वाण प्राप्त किया । देवोंने उनका निर्वाणकल्याणक किया ॥ ८४-८५ ॥ जो पहले शत्रु राजाओंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान अथवा इन्द्रके समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिपेण थे, फिर वैजयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अनन्त लक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतकृत्य सुमतिनाथ तीर्थकर हुए वे तुम

१ ज्ञानिसंयुतः ग० । २-विद्वतः क०, घ० ।-विद्वृतः ग० । ३ विमुक्तविकृतिर्मांसं क०, ख०, ग०, घ० ।  
 विमुक्तविकृतिः ल० ।

## स्रग्धरा

सद्यो जातं जिनेन्द्रं स्वरवतरणसम्प्राप्तकल्याणकार्ये

वामं जन्माभिषेके 'सुरपतिरचितैर्भूषणैरिद्विशोभम् ।

सन्निष्कान्तावधोरं सुमतिमतिमतिं केवलज्ञानसिद्धा-

वीशानं निर्वृतौ तत्पुरुषमपरुषं शान्तये संश्रयध्वम् ॥ ८७ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुमतितीर्थपुराणं नाम  
समाप्तमेकपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५१ ॥

—:ॐ:—

सबको सिद्धि प्रदान करें ॥ ८६ ॥ जो भगवान् स्वर्गावतरणके समय गर्भकल्याणकके उत्सवमें 'सद्यो-  
जात' कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्रोंके व्रजसे विरचित आभूषणोंसे सुशोभित होकर 'वाम'  
कहलाये, दीक्षा-कल्याणकके समय 'अवार' कहलाये, केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 'ईशान' कहलाये और  
निर्वाण होने पर 'तत्पुरुष' कहलाये ऐसे रागद्वेष रहित अतिशय पूज्य भगवान् सुमतिनाथका शान्तिके  
लिए हे भव्य जीवो ! आश्रय ग्रहण करो ॥ ८७ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें  
सुमतिनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला इक्यावनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## द्विपञ्चाशत्तमं पर्व

पद्मेऽस्थासुर्न भार्ताव प्रभास्मिन्निति वाश्रिता । त्यक्त्वा तं यं स पद्मास्मान्पातु पद्मप्रभः प्रभुः ॥ १ ॥  
द्वितीये धातकीखण्डे द्वीपे प्राग्भागपूर्वजे । चिदेहे दक्षिणे कूले सीताया बत्सदेशजम् ॥ २ ॥  
सुसीमानगरं तस्मिन् महाराजोऽपराजितः । न परैर्जायते जेता स बाह्याभ्यन्तरद्विषाम् ॥ ३ ॥  
विक्रमेणैव वक्राणां जेतुर्बाह्यपरिच्छदः । सप्ताङ्गपूर्णं तस्य बलं दोर्बलशास्त्रिनः ॥ ४ ॥  
तस्य सत्त्वेन वर्षन्ति जीमूताः कर्षकैश्छया । भादिमध्यान्तवापाश्च धान्यभेदाः फलप्रदाः ॥ ५ ॥  
त्यागेन तस्य दारिद्र्यशब्दः खकृसुमायते । भुवि प्राग्येषु द्वारिद्र्यं तैरत्र धनदायितम् ॥ ६ ॥  
राज्ञां महागुणास्तस्मिन् सुक्षेत्रोत्सुबीजवत् । त्रयोऽप्येते फलन्ति स्म सजातीयान् परान् गुणान् ॥ ७ ॥  
परेषां वास्यरूपादिसम्पन्नोन्मार्गवृत्तये । तरून्पाटी मरुन्मेहं<sup>१</sup> क्षमः कम्पयितुं च किम् ॥ ८ ॥  
स षट्प्रकृतिभिर्भूष्यस्ताश्च तेन ततोऽभवत् । तद्राज्यं न परैर्दुष्यं परेषां<sup>२</sup> धर्षकः स्वयम् ॥ ९ ॥  
एवं भवान्तरावजितोऽजिनायोदयापितम् । नार्पत्यं सुखिरं भुक्त्वा संविभक्तं सुहृद्भैः ॥ १० ॥  
क्षणिकाः सर्वपर्यायाः पर्यायैश्चानुभूयते । सुखं कारणविध्वंसे कार्ये कौतस्कुनी स्थितिः ॥ ११ ॥  
<sup>३</sup> इत्यृजुसूत्रभावेन स सर्वं भङ्गुरं स्मरन् । दत्त्वा राज्यं सुमित्राय सुताय विजितात्मने ॥ १२ ॥  
गत्वा तपंगुरं कृत्वा जिनेन्द्रं पिहितान्नवम् । एकादशाङ्गविद् बध्वा नाम तीर्थकराङ्ग यम् ॥ १३ ॥

कमल दिनमें ही फूलना है, रातमें बन्द हो जाता है अतः उसमें स्थिर न रह सकनेके कारण जिस प्रकार प्रभाकी शोभा नहीं होती और इसीलिए उसने कमलको छोड़कर जिनका आश्रय ग्रहण किया था उसी प्रकार लक्ष्मीने भी कमलको छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे पद्मप्रभ स्वामी हम सबका रक्षा करें ॥ १ ॥ दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्स देश है । उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राज्य करते थे । महाराज अपराजित वास्तव में अपराजित थे क्योंकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्गके सभी शत्रुओंको जीत लिया था ॥ २-३ ॥ वह राजा कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही जीत लेता था अतः बाहुबलसे सुशोभित उस राजाकी सप्ताङ्ग सेना केवल बाह्य आडम्बर मात्र थी ॥ ४ ॥ उसके सत्यसे मेघ किसानोंकी इच्छानुसार बरसते थे और वर्षके आदि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे ॥ ५ ॥ उसके दानके कारण दारिद्र्य शब्द आकाशके फूलके समान हो रहा था और पृथिवी पर पहले जिन मनुष्योंमें दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान आचरण करने लगे थे ॥ ६ ॥ जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजातीय अन्य बीजोंको उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों महान् गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे ॥ ७ ॥ इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमार्गमें नहीं ले गई थी सो ठीक ही है क्योंकि वृक्षोंको उखाड़ने वाला क्या मेरु पर्वतको भी कम्पित करनेमें समर्थ है ? ॥ ८ ॥ वह राजा राजाओंके योग्य सन्धि विग्रहादि ब्रह्म गुणोंसे सुशोभित था और ब्रह्म गुण उससे सुशोभित थे । उसका राज्य दूसरोंके द्वारा धर्षणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दूसरोंका धर्षक-तिरस्कार करने वाला था ॥ ९ ॥ इस प्रकार अनेक भावोंमें उपाजित पुण्य कर्मके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें बटे हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया ॥ १० ॥ तदनन्तर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें समस्त पर्याय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्यायोंके द्वारा भोगा जाता है और कारणका विनाश होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है ? ॥ ११ ॥ इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थोंको भंगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया,

१ मेरुक्षमं ल० । २ धर्षकं ल० । ३ इत्यन्तर्गतभावेन क०, घ० ।

संन्यस्थान्तपरित्यक्तदेहोऽयाद्दहमिन्द्रताम् । ऊर्ध्वग्रैवेयके रम्ये प्रीतिकरविमानजः ॥ १४ ॥  
 एकत्रिंशत्समुद्रायुर्हस्तद्वयशरीरकः । शुक्लदेवो दिनैः पञ्चपट्चतुःसम्मितैः श्वसन् ॥ १५ ॥  
 एकत्रिंशत्सहस्राब्दैर्मानसाहारतपितः । तेजोबलावधिज्ञानव्याप्तसप्तमभूतलः ॥ १६ ॥  
 तत्क्षेत्रविक्रियर्द्धीशः <sup>१</sup>सुखमापाहमिन्द्रजम् । <sup>२</sup>स्वायुरन्ते ततस्तस्मिन्नवनीमागमिष्यति ॥ १७ ॥  
<sup>३</sup>जम्बूद्वीपेऽत्र कौशाम्ब्यां पतिरिक्ष्वाकुवंशजः । गोत्रेण काश्यपो राजा धरणाढ्यो महानभूत् ॥ १८ ॥  
 तस्य देवी सुसीमाख्या रत्नवृष्ट्यादिमानिता । प्रभाते माघकृष्णयां पद्ययां चित्रेन्दुसङ्गमे ॥ १९ ॥  
 गजादिषोडशस्वप्नवीक्षणानन्तरास्यगम् । निरीक्ष्य वारणं ज्ञातैस्तत्फलैः प्रमदान्विता <sup>४</sup> ॥ २० ॥  
 कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां त्वष्टृयोगेऽपराजितम् । कार्तिके मास्यसूतैवा रक्ताम्भोजदलच्छविम् ॥ २१ ॥  
 अस्योत्पत्तौ समुत्पत्तिर्गुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः शमः शोकः प्रमोदात्सर्वदेहिनाम् ॥ २२ ॥  
 मोहनाद्बुद्धैर्हृतच्छायो नष्टोऽहं वेति कम्पते । स्वर्गापधर्गायोर्माणं वाहकेऽस्मिन् भविष्यति ॥ २३ ॥  
 मोहनिद्रां विहास्यन्ति बहवोऽस्मिन् प्रबोधके । जन्मिनां जाति <sup>५</sup>सम्बन्धविरोधश्च विनङ्क्ष्यति ॥ २४ ॥  
 लक्ष्मीविकास <sup>६</sup>मस्यायात् प्रायान् कीर्तिर्जगत्प्रथम् । अभूदित्यादिसंलापो विदुषामितरेतरम् ॥ २५ ॥  
 तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरौ क्षीरवारिभिः । स्रपयित्वा विधायानुमुदा पद्मप्रभाभिधाम् ॥ २६ ॥  
 अभिष्टुभ्य पुनर्मात्वा मापुरङ्गे महाद्युतिम् । निधाय मुदिता नृत्यं विधाय <sup>७</sup>प्रययुदिवम् ॥ २७ ॥  
 समस्तैः शैशवं तस्य मुदेन्दोरिव वन्द्यते । कः स यः सर्वमाहाद्य वर्द्धमाने पराङ्मुखः ॥ २८ ॥

वनमें जाकर पिहितारुच जिनेन्द्रको दीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर तीर्थकर प्रकृति का वन्द्य किया और आयुके अन्तमें समाधिभरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त रमणीय ऊर्ध्व-ग्रैवेयके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥ १२-१४ ॥ इकतीस सागर उसकी आयु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, चार सौ पैसठ दिनमें श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता था, इकतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहारसे संतुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अवधि-ज्ञानसे सप्तमी पृथिवीको व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विक्रियाऋद्धि थी । इस प्रकार अहमिन्द्र सम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे । आयुके अन्तमें जब वह वहाँ से चय कर पृथिवीपर अवतार लेनेके लिए उद्यत हुआ ॥ १५-१७ ॥ तब इसी जम्बूद्वीपकी कौशाम्बी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री धरण नामका एक बड़ा राजा था । उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयोक्ते सम्मानित थी । माघकृष्ण पष्टीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र और चन्द्रमाका संयोग हो रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । पतिसे स्वप्नोका फल जानकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥ १८-२० ॥ कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीके दिन त्वष्टृ योगमें उसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले अपराजित पुत्रको उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुणोंकी उत्पत्ति हुई, दोष-समूहका नाश हुआ और हर्षसे समस्त प्राणियोंका शोक शान्त हो गया ॥ २२ ॥ स्वर्ग और मोक्षका मार्ग चलानेवाले भगवानके उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्रु कान्तिरहित हो गया तथा 'अब मैं नष्ट हुआ' यह सोचकर काँपने लगा ॥ २३ ॥ उस समय विद्वानोंमें निम्न प्रकारका वार्तालाप हो रहा था कि जब भगवान् सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुतसे लोग मोह-निद्राको छोड़ देंगे, प्राणियोंका जन्मजात विरोध नष्ट हो जावेगा, लक्ष्मी विकासको प्राप्त होगी और कीर्ति तीनों जगत्में फैल जावेगी ॥ २४-२५ ॥ उसी समय इन्द्रोंने मेरु पर्वत पर, ले जाकर क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, हर्षसे पद्मप्रभ नाम रक्खा, स्तुति की, तदनन्तर महाकान्तिमान् जिन-बालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें रक्खा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्गकी और प्रस्थान किया ॥ २६-२७ ॥ चन्द्रमाके समान उनके बाल्यकालकी सब बड़े हर्षसे प्रशंसा करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो

१ सुखमापाहमिन्द्रजं ल० । २ स्वायुरन्ते क०, ख०, ग०, घ०, ल० । ३ जम्बूद्वीपे च कौशाम्ब्यां ल० ।

४ प्रमदान्वितैः ख० । ५ सम्बन्ध-ग०, ख० । ६-विकास क०, घ० । ७ प्राययुदिवम् क०, घ०, ग० ।



न कामनीयकं कामेऽविकायेऽन्यत्र चेद्वशम् । तत्कामनीयकं तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥  
 तथैव रूपमप्यस्य कथ्यते किं पृथक् पृथक् । यद्यत्तस्मिन्न तत्त्वज्ञैरन्यस्थैरुपमीयते ॥ ३० ॥  
 कामयन्ते स्त्रियः पुंसः पुमांसस्ता इमं पुनः । ताश्च ते चास्य सौभाग्यं नाल्पभाग्यैरवाप्यते ॥ ३१ ॥  
 तत्तनावेव सर्वेषां दृष्टिस्तृप्तिं परामिता । सन्ततं चूतमञ्जर्यां मत्तार्त्तानामिवावली ॥ ३२ ॥  
 सर्वेन्द्रियसमाह्लादस्तस्मिन् चेन्न भृशायते । परत्रापूर्णपुण्येषु न कर्षीति वयं स्थिताः ॥ ३३ ॥  
 खचतुष्केण कोटीनां नवभिश्चोक्तवाङ्मिभिः । मिते सुमतिस्तानाने पद्मप्रभजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥  
 षट्शून्यवह्निपूर्वायुः शून्यपञ्चद्विचापभाक् । जीवितस्य चतुर्भागे<sup>१</sup> कुमारत्वेन निष्ठिते ॥ ३५ ॥  
 अलब्ध राज्यं प्राप्तामरेज्यो<sup>२</sup> द्वैराज्यवर्जितम् । क्रमायातं न हीच्छन्ति सन्तस्तच्चान्यथागतम् ॥ ३६ ॥  
<sup>३</sup>पट्टबन्धेऽस्य सर्वस्य स्वस्थ स्वस्थेव सम्मदः । महाभयानि तद्दृशे नष्टान्यष्टौ निरन्वयम् ॥ ३७ ॥  
 दारिद्र्यं विद्रुतं दूरं स्वैरं स्वं संप्रवर्तते । सर्वाणि मङ्गलान्यासन् सङ्गमः सर्वसम्पदाम् ॥ ३८ ॥  
 कस्य कस्मिन्समीप्येति वदान्येष्वभवद्वचः । कस्यचिन्नैव कस्मिंश्चिदर्थितेत्यवदजनः ॥ ३९ ॥  
 इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ जगत्सुसमिवोत्थितम् । तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम् ॥ ४० ॥  
 हीने षोडशपूर्वाङ्गैः<sup>४</sup> पूर्वलक्ष्मायुषि स्थिते । कदाचिद् द्वारिवन्धस्थगजप्रकृतिसंभ्रुतेः ॥ ४१ ॥

सबको आह्लादित कर वृद्धिको प्राप्त होता है उससे कौन पराङ्मुख रहता है ? ॥ २८ ॥ भगवान् पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमें थी और न अन्य किसी मनुष्यमें भी । यथार्थमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती थी ॥ २९ ॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी पृथक् पृथक् वर्णन नहीं करना चाहिये क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्यमान थे विद्वान लोग उन गुणोंकी अन्य मनुष्योंमें रहनेवाले गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ॥ ३० ॥ स्त्रियाँ पुरुषोंकी इच्छा करती हैं और पुरुष स्त्रियोंकी इच्छा करते हैं परन्तु उन पद्मप्रभकी, स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे सो ठीक ही है । क्योंकि जिनका भाग्य अल्प है वे इनके सौभाग्यको नहीं पा सकते हैं ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार मत्त भौरोंकी पंक्ति आममञ्जरीमें परम संतोषको प्राप्त होती है उसी प्रकार सब मनुष्योंकी दृष्टि उनके शरीरमें ही परम संतोष प्राप्त करती थी ॥ ३२ ॥ हम तो ऐसा समझते हैं कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि उन पद्मप्रभ भगवान्में पूर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर अणुप अणुके धारक दूसरे किन्हीं भी मनुष्योंमें पूर्णताको प्राप्त नहीं हो सकते थे ॥ ३३ ॥ जब सुमतिनाथ भगवान्की तीर्थ परम्पराके नब्बे हजार करोड़ सागर वीत गये तब भगवान् पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे ॥ ३४ ॥ तीस लाख पूर्व उनकी आयु थी, दो सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था और देव लोग उनकी पूजा करते थे । उनकी आयुका जब एक चौथाई भाग वीत चुका तब उन्होंने एकलव्य राज्य प्राप्त किया । उनका वह राज्य क्रमप्राप्त था—वंश-परम्परासे चला आ रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन मनुष्य उस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ॥ ३५-३६ ॥ जब भगवान् पद्मप्रभको राज्यपट्ट बाँधा गया तब सबको ऐसा हर्ष हुआ मानो सुके ही राज्यपट्ट बाँधा गया हो । उनके देशमें आठों महाभय समूल नष्ट हो गये थे ॥ ३७ ॥ दरिद्रता दूर भाग गई, धन स्वच्छदन्तासे बढ़ने लगा, सब मङ्गल प्रकट हो गये और सब सम्पदाओंका समागम हो गया ॥ ३८ ॥ उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदार्थकी इच्छा है और याचक लोग कहा करते थे कि किसीको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं है ॥ ३९ ॥

इस प्रकार जब भगवान् पद्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाको सुख देनेवाला हो ॥ ४० ॥ जब उनकी आयु सोलह पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय दरवाजे पर बँधे हुए हाथीकी दशा सुननेसे उन्हें अपने पूर्व भवोंका ज्ञान हो गया और तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाले वे संसारको इस

१ चतुर्भागे-ल० । २ प्राप्तामरेज्यो ल० । प्राप्तामरेज्यो ग० । ३ पट्टबन्धस्य ग० । ४ पूर्वाङ्गे ग०, क० ।  
 ५ पूर्व लक्ष्मायुषि ल० ।

ज्ञातात्मान्यभवो धिक् धिक् संसारमिति तत्त्वविद् । विरक्तः कामभोगेषु पापदुःखप्रदायिषु ॥ ४२ ॥  
 अदृष्टं किं किमस्पृष्टमनाप्रातं किमश्रुतम् । किं <sup>१</sup>किमस्वादितं येन पुनर्नवमिवेष्यते ॥ ४३ ॥  
 शुक्रमेव पुनर्भुक्तं जन्तुनानन्तशो भवे । <sup>२</sup>मध्यमप्यभिलाषाब्धेरितं वदत किं ततः ॥ ४४ ॥  
 नेन्द्रियैरात्मनस्तृप्तिर्मिथ्यान्वादिद्विदूपितैः । <sup>३</sup>वीतघात्युपयोगेऽस्य विश्वं यावन्नगोचरम् ॥ ४५ ॥  
 रोगोरगाणां तु ज्ञेयं शरीरं वामलक्षकम् । दृष्टान् दृष्ट्वापि तैरेव किमिष्टान्नपृज्जीवितान् ॥ ४६ ॥  
<sup>४</sup>आहितो <sup>५</sup>देहिनां देहे मोहोऽनेनाविनश्वरः । <sup>६</sup>सहवासः कृतः कापि केनाप्यस्यायुषा किमु ॥ ४७ ॥  
 हिंसादिपञ्चकं धर्मः सुखं यस्येन्द्रियार्थजम् । संसृती रोचते तस्मै विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥  
 पापापापोपलेपापक्षेपो येनोपपद्यते । तद्ध्येयं तदनुष्ठेयं तद्ध्येयं सदा बुधैः ॥ ४९ ॥  
 इति त्रिविधनिर्वेदभूतबोधैः <sup>७</sup>सुरोत्तमैः । प्रोत्साहितः सुरैः प्राप्तनिष्कान्तिस्त्रान्तसम्मदः ॥ ५० ॥  
 निवृत्त्याख्यं समारुह्य शिषिकां स मनोहरे । वने षष्ठोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्रहीत् ॥ ५१ ॥  
 कार्तिके कालपक्षस्य त्रयोदश्यपराह्णगः । चित्रायां भूभुजां सान्द्धं सहस्रेणाहितादरः ॥ ५२ ॥  
 चतुर्थज्ञानसम्पन्नश्चर्यायै पश्चिमे दिने । नगरं वर्द्धमानाख्यं प्राविशद्विदुषां वरः ॥ ५३ ॥  
 सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥  
 चिन्वन् शुभास्त्रवैः पुण्यं संवरं कर्मसंहतेः । कुर्वन्गुण्यादिपट्केन तपसा निर्जरां च सः ॥ ५५ ॥

प्रकार धिक्कार देने लगे । वे पाप तथा दुःखांकां देनेवाले काम-भोगोंमें विरक्त हो गये । वे विचारने लगे कि इस संसारमें ऐसा कौन-सा पदार्थ है जिसे मैंने देखा न हो, छुआ न हो, सूँघा न हो, सुना न हो, और खाया न हो जिससे वह नयेके समान जान पड़ता है ॥ ४१-४३ ॥ यह जीव अपने पूर्वभवोंमें जिन पदार्थोंका अनन्त वार उपभोग कर चुका है उन्हें ही वार-वार भोगता है अतः अभिलाषा रूप सागरके वीच पड़े हुए इस जीवसे क्या कहा जावे ? ॥ ४४ ॥ घानिया कर्मोंके नष्ट होने पर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगमें जब तक सारा संसार नहीं भूलकने लगता तब तक मिथ्यात्व आदिसे दृष्टि इन्द्रियोंके विषयोंसे इसे तृप्ति नहीं हो सकती ॥ ४५ ॥ यह शरीर रोगरूपी साँपोंकी वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्हीं रोगरूपी साँपोंसे काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं फिर भी यह शरीरमें अविनाशी मोह कर रहा है यह बड़ा आश्चर्य है । क्या आज तक कहीं किसी जीवने आशुके साथ सहवास किया है ? अर्थात् नहीं किया ॥ ४६-४७ ॥ जो हिंसादि पाँच पापोंका धर्म मानता है, और इन्द्रिय तथा पदार्थके सम्बन्धसे होनेवाले मुखको मुख समझता है उसी विपरीतदर्शी मनुष्यके लिए यह संसार रुचता है—अच्छा मालूम होता है ॥ ४८ ॥ जिस कार्यसे पाप और पुण्य दोनों उपलेशोंका नाश हो जाता है, विद्वानोंको सदा उसीका ध्यान करना चाहिये, उसीका आचरण करना चाहिये और उसीका अध्ययन करना चाहिये ॥ ४९ ॥ इस प्रकार संसार, शरीर और भोग इन तीनोंके वैराग्यसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लौकान्तिक देवोंने जिनका उत्साह बढ़ाया है और चतुर्निकाय देवोंने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेकोत्सव किया है ऐसे भगवान् पद्मप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकी पर सवार होकर मनोहर नामके वनमें गये और वहाँ बेलाका नियम लेकर कार्तिके कृष्ण त्रयोदशके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ आदर पूर्वक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा धारण कर ली ॥ ५०-५२ ॥ जिन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मप्रभ स्वामी दूसरे दिन चर्याके लिए वर्धमान नामक नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ५३ ॥ शुक्र कान्तिके धारक राजा सोमदत्तने उन्हें दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है ? ॥ ५४ ॥ शुभ आरुह्यसे

१ किमन्यवारितं येन । २ मध्यमेत्यभिलाषाब्धेरितं वदतु किं ततः क०, घ०, ख० । नवामप्यभि-ग० ।  
 ३ वीतघात्युपयोगस्य क०, ग०, ल० । ४ अहितो ल० । ५ देहिनां घ० । ६ विनश्वरम् क०, घ० ।  
 ७ सहवासः कृतं क०, घ०, ख०, सहवासकृतं ल० । ८ निर्वेदभूतो बोधिसुरोत्तमैः क०, घ० ।  
 निर्वेदभूतबोधैः ग० ।

षण्मासैर्मौनमास्थाय द्वाद्यस्थयमपनीतवान् । क्षपकश्रेणिमारुह्य नष्टघातिचतुष्टयः ॥ ५६ ॥  
 पौर्णमास्यां सिते चैत्रे मध्याह्ने<sup>१</sup> रवौ गते । चित्रायां केवलज्ञानं प्रतिपदे परार्थकृत् ॥ ५७ ॥  
<sup>२</sup>समर्चितो महादेवैः शतेनेतो गणेशिनाम् । स वज्रचामरादीनां दशभिश्च जगद्धितः ॥ ५८ ॥  
 शून्यद्वयाग्निपक्षोक्तसर्वपूर्वधरान्वितः । शून्यत्रिकनवर्तुद्विप्रोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ५९ ॥  
<sup>३</sup>शून्यत्रिकशदज्ञेयत्रिविधावधिवीक्षणः । खत्रयद्वादशलक्ष्यकेवलवगमाश्रितः ॥ ६० ॥  
 खद्वयाष्टबडेकाङ्कविक्रियद्विसमृद्धिमान् । शून्यद्वयत्रिशून्यैकप्रोक्तस्तुर्यावबोधनः ॥ ६१ ॥  
 शून्यद्वयर्तुरन्ध्रोक्तव्यातानुचारवादिकः । खचतुष्कादिवह्वुक्तसम्पिण्डतयतीश्वरः ॥ ६२ ॥  
 खचतुष्कद्विवाराशिम्रमिताभिरभिष्टुतः । <sup>४</sup>रात्रिपेणाख्यमुख्याभिरार्यिकाभिः समन्ततः ॥ ६३ ॥  
 त्रिलक्षश्रावकांपेतः श्राविकापञ्चलक्षवान् । सदेवदेव्यसङ्ख्यातस्तिर्यक्सङ्ख्यातसंयुतः ॥ ६४ ॥  
 कुर्वन् धर्मोपदेशेन मोक्षमार्गं तन्मृतः । भव्यान् पुण्योदयेनेव धर्मसत्त्वान् सुखोदये ॥ ६५ ॥  
 सम्मेदपर्वन्ते मासं स्थित्वा <sup>५</sup>योगं निरुद्धवान् । सार्द्धं यतिसहस्रेण प्रतिमायांगमास्थितः<sup>६</sup> ॥ ६६ ॥  
 फाल्गुने मासि चित्रायां चतुर्थ्यामपराह्लागः । कृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिन्नक्रियात्मना ॥ ६७ ॥  
 शुक्लध्यानेन कर्माणि हत्वा निर्वाणमापिवान् । तदैव्य चक्रः शक्राद्याः परिनिर्वाणपूजनम् ॥ ६८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

किं सेव्यं क्रमयुग्ममञ्जविजयामस्यैव लक्ष्यास्पदं

किं श्रव्यं सकलप्रतीतिजननादस्यैव सत्यं वचः ।

पुण्यका मञ्जय, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिपह-जय तथा चारित्र्य इन छह उपायोंसे कर्म समूह-का संवर और तपके द्वारा निर्जरा करते हुए, उन्होंने छद्मस्थ अवस्थामें छह माह मौनसे व्यतीत किये । तदनन्तर क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ होकर उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश किया तथा चैत्र शुक्ल पौर्णमासीके दिन जब कि सूर्य मध्याह्नेसे कुछ नीचे ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्रमें उन पर-कल्याणकारी भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया ॥ ५५-५७ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उनकी पूजा की । जगतका हित करनेवाले भगवान्, वज्र चामर आदि एक सौ दश गणधरोंसे सहित थे, दो हजार तीन सौ पूर्वशारियोंसे युक्त थे, दो लाख उनहत्तर हजार शिशुकोंसे उपलक्षित थे, दश हजार अवधिज्ञानी और बारह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, सोलह हजार आठ सौ विक्रिया-ऋद्धिके धारकोंसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी उनकी सेवा करते थे, और नौ हजार छह सौ श्रेष्ठ वादियोंसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख तीस हजार मुनि सदा उनकी स्तुति करते थे । रात्रिपेणाको आदि लेकर चार लाख बीस हजार आर्थिकाएँ सब ओरसे उनकी स्तुति करती थीं । तीन लाख श्रावक, पाँच लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यञ्च उनके साथ थे ॥ ५८-६४ ॥ इस प्रकार धर्मोपदेशके द्वारा भव्य जीवोंको मोक्षमार्गमें लगाते और पुण्यकर्मके उदयसे धर्मात्मा जीवोंको सुख प्राप्त कराते हुए भगवान् पद्मप्रभ सम्मेद शिखर पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने एक माह तक ठहर कर योग-निरोध किया तथा एक हजार राजाओं के साथ प्रतिमायोग धारण किया ॥ ६५-६६ ॥

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्होंने समुच्छिन्न-क्रिया-प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यानके द्वारा कर्मोंका नाश कर निर्वाण प्राप्त किया । उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर उनके निर्वाण-कल्याणककी पूजा की ॥ ६७-६८ ॥ सेवा करने योग्य क्या है ? कमलोंको जीत लेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया है ऐसे इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के चरण-

१ मध्याह्ने ल० । २ समर्चितमहो देवैः क०, ख०, ग०, घ० । ३ शून्यत्रिदशज्ञेय ल० । ४ रात्रिपेणाख्य-ल० । ५ योगान्निरुद्ध ल० । ६ संस्थितः ल० ।

किं ध्येयं गुणसन्ततिश्च्युतमलस्यास्यैव काष्ठाश्रया-  
 दित्युक्तस्तुतिगोचरः स भगवान् पद्मप्रभः पातु वः॥६९॥  
 राजा प्रागपराजितो जितरिपुः श्रीमान् सुसीमेश्वरः  
 पश्चादाप्य तपोऽन्त्यनामसहितो भ्रैवेयकेऽन्त्येऽमरः ।  
 कौशाम्ब्यां कलितो गुणैरगणितैरिक्ष्वाकुवंशाग्रणीः  
 पृष्ठतीर्थकरः परात्महितकृत् पद्मप्रभः शं क्रियात्॥७०॥  
 इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्गृहे पद्मप्रभाहृतपुराणवर्णनं नाम  
 द्विपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५२ ॥



युगल सेवन करने योग्य हैं। मुनने योग्य क्या है? सब लोगोंका विश्वास उत्पन्न करानेवाले इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के सत्य वचन मुननेके योग्य हैं, और ध्यान करने योग्य क्या है? अतिशय निर्मल इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के दिग्दिगन्त तक फैले हुए गुणोंके समूहका ध्यान करना चाहिये इस प्रकार उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान् पद्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ जो पहले सुसीमा नगरीके अधिपति, शत्रुओंके जीतनेवाले, अपराजित नामके लक्ष्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करते हुए अन्तिम भ्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर कौशाम्बी नगरीमें अनन्तगुणोंसे सहित, इक्ष्वाकुवंशके अग्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले ढ़ठवें तीर्थकर हुए वे पद्मप्रभ स्वामी सब लोगोंका कल्याण करें ॥ ७० ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें पद्मप्रभ भगवान्के पुराणका वर्णन करनेवाला वाचनवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

## त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व

तत्त्वं सत्त्वादिना येन नैकेनाप्यवधारितम् । तद्विषयाप्यसावेव स सुपात्रोऽस्तु मे गुरुः ॥ १ ॥  
 विदेहे धातकीखण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये नन्दिषेणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥  
 प्रज्ञाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरक्तानुजीविनः । तस्यानुगुणदैवस्य राज्यश्रीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥  
 शरीरं न भिषप्रक्ष्यं न राज्यमपि मन्त्रिभिः । तथापि तद्द्वयं तस्य क्षेमवत्सुकृतोदयात् ॥ ४ ॥  
 पुरुषार्थत्रयं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव सुस्थितम् । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ५ ॥  
 जितारिभूभुजस्यास्य विजिगीषैहलौकिकी । सा भूषन्वस्ति सन्मार्गं रक्षतः पारलौकिकी ॥ ६ ॥  
 एवं राज्यसुखं श्रीमान् बन्धुमित्रानुजीविभिः । सहसानुभवाज्जातवैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥  
 मोहोदयोभयाविद्धकायवाक्चिराद्बुद्धिभिः । बद्ध्वा कर्माणि तैर्नीतो जातो गतिचतुष्टये ॥ ८ ॥  
 संसारे चक्रकथान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । वीतादौ सुचिरं भ्राम्यन्नद्य भव्यो यदच्छया ॥ ९ ॥  
 लब्धकालादिराप्तोऽपि मुक्तिमार्गं सुदुर्गमम् । ४ रमे रामादिभिर्मुग्धो धिग्धग्मां कामुकाग्रिमम् ॥ १० ॥  
 निर्मूल्याग्निलकर्मणि निर्मलो लोकमूर्ध्वगः । किल नाम्नोमि निर्वाणं सार्वं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ११ ॥  
 इत्याविष्कृतसञ्चिन्तः सुस्वान्तः स्वस्य सन्तनौ । सुस्थाप्यात्मजमात्मीयं पतिं धनपतिं सताम् ॥ १२ ॥  
 नरेन्द्रैर्बहुभिः सार्धं निर्धुनानो रजो मुदा । अर्हन्नन्दनपूज्यान्तेवासित्वं प्रत्यपचत ॥ १३ ॥

जिन्होंने जीवाजीवादि तत्त्वांको सत्त्व असत्त्व आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया है फिर भी उनके जानकार वही हैं ऐसे सुपात्रनाथ भगवान् मेरे गुरु हैं ॥ १ ॥ धातकीखण्डके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें नन्दिषेण नामका राजा राज्य करता था ॥ २ ॥ यह राजा बुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था । इसलिए उसकी राज्य-लक्ष्मी सबको मुख देनेवाली थी ॥ ३ ॥ उसके शरीरकी न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे और न राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशलयुक्त थे ॥ ४ ॥ धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें स्थित थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था ॥ ५ ॥ शत्रुओंको जीतनेवाले इस राजा नन्दिषेणको जीतनेकी इच्छा सिर्फ इस लोक सम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा करते हुए इसके परलोकके जीतनेकी भी इच्छा थी ॥ ६ ॥ इस प्रकार वह श्रीमान् तथा बुद्धिमान् राजा बन्धुओं, मित्रों तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त हो गया ॥ ७ ॥ वह विचार करने लगा कि यह जीव दर्शनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनों मोहकर्मके उदयसे मिली हुई मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिते कर्मोंको बाँधकर उन्हींके द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचित् कालादि लब्धियाँ पाकर अतिशय कठिन मोक्षमार्गको पाता है फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदिके साथ क्रीडा करता है । मैं भी ऐसा ही हूँ अतः कामियोंमें मुख्य मुझको वार-वार धिक्कार है ॥ ९-१० ॥ मैं समस्त कर्मोंको नष्ट कर निर्मल हो ऊर्ध्व-गामी बनकर सबका हित करनेवाले सर्वज्ञ-निरूपित निर्वाणलोकको नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुःख की बात है ॥ ११ ॥ इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदयको धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने पद पर सज्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओंके

१ स शीघ्रमनुभवन् जातवैराग्यातिशयः क०, घ० । २ मोहोभयोदयाविद्ध ल० । ३ प्राप्तोऽपि ग० । ४ रमे ल० । ५ निर्धुनानो ल० ।

एकादशाङ्गधारी सन्नुक्तद्योग्यकारणैः । स्वीकृत्य तीर्थकृत्नाम संन्यस्यान्ते समाधिमान् ॥ १४ ॥  
 शुक्लेशयो द्विहस्ताङ्गको प्रैवेयकमध्यमे । अहमिन्द्रः सुभद्राख्ये विमाने मध्यमेऽजनि ॥ १५ ॥  
 चतुःशतेषु पञ्चोत्तरेष्वहःस्वेष निःश्वसन् । शून्यभ्रितयससद्विप्रमिताब्देषु विध्वजन् ॥ १६ ॥  
 विक्रियावधिवीर्यं त्विद्व्यासाससमभूमिकः । सप्तविंशतिवार्यायुरथ भुक्त्वाखिलं सुखम् ॥ १७ ॥  
 आयुरन्ते ततस्तस्मिन्नागमिन्यनि भूतलम् । द्वीपेऽस्मिन् भारते काशीविषये वृषभान्वये ॥ १८ ॥  
 सुप्रतिष्ठमहाराजो पाराणस्या महीपतिः । तस्यासीत् पृथिवीषेणा देवी तस्या गृहाङ्गणे ॥ १९ ॥  
 पण्मासान् साररत्नानि बह्वपुः सुरवारिदाः । सितपट्ट्यां विशाखायां मासि भाद्रपदे शुभान् ॥ २० ॥  
 स्वमान् षोडश संवीक्ष्य वारणं चाननागतम् । ज्ञात्वा पत्युः फलं तेषां परितुष्टाग्निमित्रके ॥ २१ ॥  
 शुभयोगे सितज्येष्ठद्वादश्यां तं सुरोरामम् । सोदपीपददुत्तुङ्गमैरावतमिवाोजितम् ॥ २२ ॥  
 सुरेन्द्रैर्मन्दरस्यान्ते कृतजन्ममहोत्सवैः । तस्याकारि सुपार्श्वीक्या तत्पादानतमौलिभिः ॥ २३ ॥  
 कोटीनवसहस्रेषु पद्मप्रभजिनान्तरे । सागरोपमसङ्ख्येषु गते तद्रतजीवितः ॥ २४ ॥  
 १ शून्यपट्टयुगपद्मोक्तपूर्वजीवी धनुःशत- द्वयोन्मेषो विधुं कान्त्या ह्येयञ्चाप यौवनम् ॥ २५ ॥  
 २ लक्षपञ्च सुपूर्वाणां कौमार्ये गतव्यतः । धनं त्यक्तुं वदान्यो वा साम्राज्यं स्वीचकार सः ॥ २६ ॥  
 शुश्रूषाद्यष्टार्धाधुर्यान् सर्वशास्त्रविशारदान् । नटान् सपेटकान् प्रेक्ष्यान्नर्तकान् नृत्यकोविदान् ॥ २७ ॥  
 सुकण्ठान् गायकान् श्रव्यानपटार्धातोद्यवादकान् । सनर्मरुचिरानन्याज्ञानाविद्याकलागुणान् ॥ २८ ॥

साथ पाप कर्मको नष्ट करता हुआ बड़े हर्षसे पूज्य अर्हन्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया ॥ १२-१३ ॥ तदनन्तर ग्यारह अङ्गका धारी होकर उसने आगममें कही हुई दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर मध्यम प्रैवेयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमें अहमिन्द्रका जन्म धारण किया । वहाँ उसके शुक्त लेश्या थी, और दो हाथ ऊँचा शरीर था ॥ १४-१५ ॥ चार सौ पाँच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था ॥ १६ ॥ उसकी विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बल और कान्ति सप्तमी पृथिवी तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी आयु थी । इस प्रकार समस्त सुख भोगकर आयुके अन्तमें जब वह पृथिवी तल पर अवतीर्ण होनेको हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भारत-वर्ष सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी । उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे । सुप्रतिष्ठका जन्म भगवान् वृषभदेवके इक्ष्वाकु-वंशमें हुआ था । उनकी रानीका नाम था पृथिवी-षेणा था । रानी पृथिवीषेणाके घरके आंगनमें देवरूपी मेवाँने छह माह तक उत्कृष्ट रत्नोंकी वर्षा की थी । उसने भाद्रपद शुक्त पट्टीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्यप्र देखकर मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया । पतिके मुखसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी पृथिवीषेणा बहुत ही हर्षित हुई । तदनन्तर ज्येष्ठशुक्ल द्वादशीके दिन अग्निमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐरावत हाथीके समान उन्नत और बलवान् अहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया ॥ १७-२२ ॥ इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट फुकाये और 'सुपार्श्व' ऐसा नाम रक्खा ॥ २३ ॥ पद्मप्रभ जिनेन्द्रके वाद नौ हजार करोड़ बीत जानेपर भगवान् सुपार्श्वनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥ २४ ॥ उनकी आयु बीस लाख पूर्वाकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुष थी, वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको लज्जित करते थे । इस तरह उन्होंने यौवन-अवस्था प्राप्त की ॥ २५ ॥ जब उनके कुमार-कालके पाँच लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी भाँति धनका त्याग करनेके लिए साम्राज्य स्वीकार किया ॥ २६ ॥ उस समय इन्द्र शुश्रूषा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रेष्ठ, सर्वाशास्त्रोंमें निपुण भुण्डके भुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निपुण नर्तकोंको, उत्तम कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य साढ़ेसात प्रकारके वादित्त-वादकोंको, हास्य-विनोद

स्त्रीश्च तादृग्गुणोपेता गन्धर्वानीकसत्तमाः । आनीय तस्य देवेन्द्रो विनोदैशकरोत्सुखम् ॥ २९ ॥  
 शोषेन्द्रियप्रयार्थैश्च तत्रोत्कृष्टैर्निरन्तरम् । सुखं तदेव संसारे यदनेनानुभूयते ॥ ३० ॥  
 निःस्वेदत्वादिसन्नामसम्भूतातिशयाष्टकः । सर्वप्रियहितालापी निर्व्यापारोऽर्कवीर्यकः ॥ ३१ ॥  
 १ प्रसन्नोऽनपवर्त्यायुर्गुणपुण्यसुखात्मकः । कल्याणकायःत्रिज्ञानः प्रियङ्गुप्रसवच्छविः ॥ ३२ ॥  
 मन्दाशुभानुभागोऽयं शुभोत्कृष्टानुभावभाक् । निर्वाणाभ्युदयैश्वर्यकण्ठिकाकान्तकण्ठकः ॥ ३३ ॥  
 स्वपादनखसंक्रान्तनिखिलेन्द्रमुखाम्बुजः । पृथते श्रीधरोऽगाधतृप्यग्भोषौ प्रबुद्धवान् ॥ ३४ ॥  
 स्वायुराद्यष्टवर्षेभ्यः सर्वेषां परतो भवेत् । उदिताष्टकषायाणां तीर्थेशां देशसंयमः ॥ ३५ ॥  
 ततोऽस्य भोगवस्तूनां साकल्येऽपि जितात्मनः । वृत्तिर्नियमितैकामृदसङ्ख्यगुणनिर्जरा ॥ ३६ ॥  
 पूर्वाङ्गविशतिन्यूनलक्षपूर्वायुषि स्थिते । विलोक्यतुंपरावर्तं सर्वं भावयतोऽधुवम् ॥ ३७ ॥  
 कदाचित्काललब्ध्यास्य विशुद्धोद्बोधदर्पणे । छायाक्रोडेव सा सर्वा साम्राज्यश्रीरभासत ॥ ३८ ॥  
 ईदृशी नश्वरी ज्ञाता नेयं मायामयी मया । धिग्धिग्मां के न सुखन्ति भोगरागान्धचेतसः ॥ ३९ ॥  
 इत्युदासो मनोऽग्भोषौ बोधिर्विधुरिवाद्भूतः । देवर्षयस्तदैर्ष्येनं प्रस्तुतार्थैः समस्तुवन् ॥ ४० ॥  
 सुरैरूढां समारूढ शिविकां च मनोगतिम् । सहेतुकवने शुद्धे ज्येष्ठे पष्टोपवासष्टत् ॥ ४१ ॥

करनेमें चतुर, अनेक विद्याओं और कलाओंमें निपुण अनेक मनुष्योंको, ऐसे ही गुणोंसे सहित अनेक स्त्रियोंको तथा गन्धर्वाकी श्रेष्ठ सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवानको सुख पहुँचाता था ॥ २७-२९ ॥ इसी प्रकार चन्द्र और कर्णके सिवाय शेष तीन इन्द्रियोंके उत्कृष्ट विषयोंसे भी इन्द्र, भगवानको निरन्तर सुखी रखता था । यथार्थमें संसारमें सुख वही था जिसका कि भगवान् सुपार्श्वनाथ उपभाग करते थे ॥ ३० ॥ प्रशस्त नामकर्मके उदयसे उनके निःस्वेदत्व आदि आठ अतिशय प्रकट हुए थे, वे सर्वप्रिय तथा सर्वहितकारी वचन बोलते थे, उनका व्यापाररहित अनुल्य बल था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपवर्त्य थी—असमयमें कटनेवाली नहीं थी, गुण, पुण्य और सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, प्रियङ्गुके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके अशुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त मन्द था, शुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष-स्वर्ग तथा मानवांचित ऐश्वर्यकी कण्ठीसे ही सुशोभित था । उनके चरणोंके नखोंमें समस्त इन्द्रोंके सुखकमल प्रतिबिम्बित हो रहे थे, इस प्रकार लक्ष्मीको धारण करनेवाले प्रकृष्टज्ञानी भगवान् सुपार्श्वनाथ अगाध संतोष-सागरमें वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ ३१-३४ ॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन सम्यग्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कषायोंका ही केवल उदय रह जाता है ऐसे सभी तीर्थकरोंके अपनी आयुके प्रारम्भिक आठ वर्षके बाद देश-संयम हो जाता है ॥ ३५ ॥ इसलिए यद्यपि उनके भोगोपभागकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निर्जराका कारण थी ॥ ३६ ॥

जब उनकी आयु बीस पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय ऋतुका परिवर्तन देखकर वे 'समस्त पदार्थ नश्वर हैं' ऐसा चिन्तन करने लगे ॥ ३७ ॥ उनके निर्मल सम्यग्-ज्ञान रूपी दर्पणमें काललब्धिके कारण समस्त राज्य-लक्ष्मी छायाकी क्रीडाके समान नश्वर जान पड़ने लगी ॥ ३८ ॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली तथा मायासे भरी हुई है । मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो । सचमुच ही जिनके चित्त भोगोंके रागसे अन्धे हो रहे हैं ऐसे कौन मनुष्य है जो मोहित न होते हों ॥ ३९ ॥ इस प्रकार भगवान्के मनरूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर समयानुकूल पदार्थोंसे भगवानकी स्तुति की ॥ ४० ॥ तदनन्तर भगवान् सुपार्श्वनाथ, देवोंके द्वारा उठाई हुई मनोगति नामकी पालकी पर आरूढ़ होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ ज्येष्ठशुक्ल द्वादशी-

गर्भागमर्क्षे द्वादश्यां सायाह्ने संयमं श्रितः । नृपैः सह सहस्रेण तदापोपान्त्यबोधनम्<sup>१</sup> ॥ ४२ ॥  
 पश्चिमे दिक्से सोमखेटे तं कनकद्युतिः । नृपो महेन्द्रदत्ताख्यः<sup>२</sup> प्रतीक्ष्यापामरार्चनम् ॥ ४३ ॥  
 सुपार्श्वो मौनमास्थाय छाद्यस्थ्ये नववर्षकः । सहेतुकवने मूले शिरीषस्य द्व्युपोषितः ॥ ४४ ॥  
 गर्भावतारनक्षत्रे कृष्णवष्टयपराङ्गः । समुत्पन्नान्तर्हज्जानः सम्प्राप्तामरपूजनः ॥ ४५ ॥  
 बलाख्यमुख्यपञ्चान्तरन्ध्रोक्तगणभृद्भृतः । शून्यत्रिशून्यपक्षोक्तसर्वपूर्वधराधिपः ॥ ४६ ॥  
 शून्यद्विरन्ध्रवाध्यंघ्रिपक्षमानोक्तशिक्षकः । शून्यत्रयनवशाततृतीयावगमश्रितः ॥ ४७ ॥  
 खत्रयैकैकनिदिष्टकेवलवावगमान्वितः । शून्यद्वयत्रिपञ्चैकसङ्ख्यावैक्रियिकाचितः ॥ ४८ ॥  
 शून्यपञ्चैकरन्ध्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । षट्शताष्टसहस्रोक्तवादिबन्दितावकपतिः ॥ ४९ ॥  
 पिण्डीकृतत्रिलोकोक्तमुनिवृन्दारकाधिपः । मीनार्याद्यायिकात्रिशत्सहस्रान्तत्रिलक्षकः ॥ ५० ॥  
 त्रिलक्षश्रावकः पञ्चलक्षसत्श्राविकाचितः । असङ्ख्यदेवदेवीड्यस्तिर्यक्सङ्ख्यातसंयतः<sup>३</sup> ॥ ५१ ॥  
 धर्माश्रुतमयीं वाणीं ग्राहयन् विहरन् महीम् । पश्चात्संहस्य सम्मेदे विहारं मासमुद्गहन् ॥ ५२ ॥  
 प्रतिमायोगमापाद्यं सहस्रमुनिभिः समम् । फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां राधायां दिनपोदये ॥ ५३ ॥  
 कृतपञ्चमकल्याणाः कल्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमत्रेति परिकल्प्यागमन् दिवम् ॥ ५४ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

दुर्बारां दुरितोरुशश्रुसमिति निष्पन्नधीर्निष्क्रियन्<sup>१</sup>

तूर्णीं युद्धमधिष्ठितः कतिपयाः काष्ठाः प्रतिष्ठां गतः ।

के दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्षत्रमें वेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ संयमी हो गये—दीक्षित हो गये। उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ४१-४२ ॥ दूसरे दिन वे चर्याके लिए सोमखेट नामक नगरमें गये। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले महेन्द्रदत्त नामके राजाने पडगाह कर देवोंसे पूजा प्राप्त की ॥ ४३ ॥ सुपार्श्वनाथ भगवान् छद्मस्थ अवस्थामें नौ वर्ष तक मौन रहे। तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें दो दिनके उपवासका नियम लेकर वे शिरीष वृक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए। वहीं फाल्गुन (?) कृष्ण पक्षके दिन सायंकालके समय गर्भावतारके विशाखा नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जिसमें देवोंने उनकी पूजा की ॥ ४४-४५ ॥ वे बलको आदि लेकर पंचानवे गुणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, दो हजार तीस पूर्वधारियोंके अधिपति थे, दो लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस शिक्षक उनके साथ रहते थे, नौ हजार अधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञानी उनके सहगामी थे, पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रियाच्छ्रद्धिके धारक उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, और आठ हजार छह सौ वादी उनकी वन्दना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे। मीनार्याका आदि लेकर तीन लाख तीस हजार आर्यिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन लाख श्रावक और पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियोंकी स्तुति करती थीं और संख्यात तिर्यञ्च उनकी वन्दना करते थे ॥ ४६-५१ ॥ इस प्रकार लोगोंको धर्माश्रुतरूपी वाणी ग्रहण कराते हुए वे पृथिवीपर विहार करते थे। अन्तमें जब आयुका एक माह रह गया तब विहार बन्द कर वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सूर्योदयके समय लोकका अग्रभाग प्राप्त किया—मोक्ष पधारे ॥ ५२-५३ ॥ तदनन्तर पुण्यवान् कल्पवासी उत्तम देवोंने निर्वाण-कल्याणक किया, तथा 'यहाँ निर्वाण-क्षेत्र है' इस प्रकार सम्मेदशिखरको निर्वाण-क्षेत्र ठहराकर स्वर्गकी ओर प्रयाण किया ॥ ५४ ॥

१ मनःपर्ययज्ञानम् । २ प्रतीक्ष्य प्रतिग्राह्य आप लेभे, अमरार्चनं देवकृतपूजाम् । ३ संमतः क०, ख०,

ग०, घ०, । ४-निष्क्रियस् क०, ख०, ग०, घ० ।



निष्ठां दुष्टतर्मां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्ठामितः

प्रेष्ठो द्वाक्कुरुताच्चिरं परिचितान् पार्श्वे सुपार्श्वः स नः ॥५५॥

### वसन्ततिलका


क्षेमाख्यपत्तनपतिर्नूतनन्दिषेणः

कृत्वा तपो नवसुमध्यगतेऽहमिन्द्रः ।

धाराणसीपुरि सुपार्श्वनृपो जितारि-


रिद्वाकुवंशतिलकोऽवतु तीर्थकृद् वः ॥ ५६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुपार्श्वस्वामिनः पुराणं  
परिसमाप्तं त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५३ ॥



अत्यन्त बुद्धिमान और निपुण जिन सुपार्श्वनाथ भगवान्ने दुःखसे निवारण करनेके योग्य पापरूपी बड़े भारी शत्रुओंके समूहको निष्क्रिय कर दिया, मौन रखकर उसके साथ युद्ध किया, कुछ काल तक समयसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाको दूर किया और अन्तमें निर्वाणकी अवधिको प्राप्त किया, वे श्रेष्ठतम भगवान् सुपार्श्वनाथ हम सब परिचितोंको चिरकालके लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें ॥ ५५ ॥ जो पहले भवमें क्षेमपुर नगरके स्वामी तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नन्दिषेण राजा हुए, फिर तप कर नव प्रवेयकोंमेंसे मध्यके प्रवेयकमें अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर बनारस नगरीमें शत्रुओंको जीतनेवाले और इद्वाकु वंशके तिलक महाराज सुपार्श्व हुए वे सप्तम तीर्थकर तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५६ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें सुपार्श्वनाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



## चतुःपञ्चाशत्तमं पर्व

नीलकवर्णतां ऽसर्वा सभां यः प्रभया स्वया । शुद्धितामनयच्छुद्धः शुद्धयै चन्द्रप्रभोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 देहप्रभेक्ष वाग्यस्याह्लादिन्यपि च बोधिनी । तन्नमामि नभोभागे सुरतारापरिष्कृतम् ॥ २ ॥  
 नामग्रहोऽपि यस्याद्यं निहन्यस्विलमङ्गिनाम् । न हन्यात् किं नु तस्यार्च्यं चरितं श्रुतिगोचरम् ॥ ३ ॥  
 तत्पुराणं ततो वक्ष्ये भवादासप्तमाद्ग्रहम् । श्रोतव्यं भव्य ते श्रद्धां निधाय मगधाधिप ॥ ४ ॥  
 दानं पूजां तथान्यच्च मुक्त्यै ज्ञानेन संस्कृतम् । तत्पुराणश्रुतेः श्रव्यं तत्तदेव हितैपिभिः ॥ ५ ॥  
 अर्हद्भिर्भाषितं सूक्तमनुयोगैश्चतुष्टयम् । तेषु पूर्वं पुराणानि तस्मात्प्रोक्तः श्रुतिक्रमः ॥ ६ ॥  
 सा जिह्वा तौ मनःकर्णौ यैर्वक्तिश्रुतिचिन्तनाः । पूर्वादीनां पुराणानां पुरुषार्थोपदेशिनाम् ॥ ७ ॥  
 अस्त्यत्र पुष्करद्वीपः तन्मध्ये मानुषोत्तरः । ऽनृसंचारस्य सीमासौ सर्वतो वलयाकृतिः ॥ ८ ॥  
 तदभ्यन्तरभागे स्तो मन्दरो पूर्वपश्चिमौ । पूर्वमिमन् मन्दरे देशो विदेह पश्चिमे महान् ॥ ९ ॥  
 सीतोदाद्रक्तं दुर्गवतखन्याकरोचितैः । अकृष्टपत्न्यसस्याद्यैः सुगन्धिभूर्गुणैरभात् ॥ १० ॥  
 तस्मिन्देसे जनाः सर्वे वर्णत्रयविकल्पिताः । स्निग्धाः सूक्ष्मेक्षणाः प्रेक्ष्या विलोचनविशेषवत् ॥ ११ ॥  
 ऋजवो धार्मिका वीरदांपाः कुशसहिष्णवः । कर्पकाः सफलारम्भाः तपःस्थान्श्रान्तिशरतं ॥ १२ ॥

जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभाके द्वारा समस्त सभाको एक वर्णकी वनाकर शुद्ध कर दी, वे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके लिए हैं ॥ १ ॥ शरीरकी प्रभाके समान जिनकी वाणी भी हर्षित करनेवाली तथा पदार्थोंकी प्रकाशित करनेवाली थी और जो आकाशमें देवरूपी ताराओंसे घिरे रहते थे उन चन्द्रप्रभ स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जिनका नाम लेना भी जीवोंके समस्त पापोंको नष्ट कर देता है फिर मुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यां नहीं नष्ट कर देगा ? इसलिए मैं पहलेके सात भवोंसे लेकर उनका चरित्र कहूँगा । हे भव्य श्रेणिक ! तुझे उसे श्रद्धा रखकर सुनना चाहिये ॥ ३-४ ॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यग्ज्ञानसे सुशोभित होते हैं तो वे मुक्तिके कारण होते हैं और चूंकि वह सम्यग्ज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता है अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा अवश्य ही सुननेके योग्य है ॥ ५ ॥ अहन्न भगवान्ने अनुयोगोंके द्वारा जो चार प्रकारके सूक्त बतलाये हैं उनमें पुराण प्रथम सूक्त है ! भगवान्ने इन पुराणोंसे ही सुननेका क्रम बतलाया है ॥ ६ ॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थका उपदेश देनेवाले भगवान् ऋषभदेव आदिके पुराणोंको जो जीभ कहनी है, जो कान सुनते हैं और जो मन सोचता है वही जीभ है, वही कान है और वही मन है, अन्य नहीं ॥ ७ ॥

इस मध्यम लोकमें एक पुष्करद्वीप है । उसके बीचमें मानुषोत्तर पर्वत है । यह पर्वत चारों ओरसे बलयके आकार गोल है तथा मनुष्योंके आवागमनकी सीमा है ॥ ८ ॥ उसके भीतरी भागमें दो सुमेरु पर्वत हैं एक पूर्व मेरु और दूसरा पश्चिम मेरु । पूर्व मेरुके पश्चिमकी ओर विदेहक्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तट पर एक सुगन्धि नामका बड़ा भारी देश है । जो कि योग्य किला, वन, खाई, खानें और विना बोये होनेवाली धान्य आदि पृथिवीके गुणोंसे सुशोभित है ॥ ९-१० ॥ उस देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णमें विभक्त थे तथा नेत्र विशेषके समान स्नेहसे भरे हुए, सूक्ष्म पदार्थोंको देखने वाले एवं दर्शनीय थे ॥ ११ ॥ उस देशके किसान तपस्वियोंका अतिक्रमण करते थे अर्थात् उनसे आगे बढ़े हुए थे । जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात् सरलपरिणामी होते हैं उसी प्रकार वहाँके किसान भी सरलपरिणामी—भोले भाले थे, जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक होते हैं उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे—धर्मात्मा थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए धर्म—धनुषसे

जलाशयाश्च सुस्वच्छाः सुखभोग्याः सपद्मकाः । सन्तापच्छेदिनोऽगाधा मनोनयनहारिणः ॥ १३ ॥  
 क्षेत्राणि सर्वधान्यानि सर्वतर्पीणि सर्वदा । सम्पन्नानि महीभर्तुः कोष्टागाराणि वा बभुः ॥ १४ ॥  
 ग्रामाः कुक्कुटसम्पात्याः सारा बहुकृपीबलाः । पशुधान्यधनापूर्णाः नित्यारम्भा<sup>१</sup> निराकुलाः ॥ १५ ॥  
 वीतदण्डादिबाधत्वाक्षिगमाः सर्वसम्पदः । वर्णाश्रमसमाकीर्णास्ते स्थानीयानुकारिणः ॥ १६ ॥  
<sup>२</sup>असंवारिपथोपेतः सफलाकण्टकद्रुमः । अहष्टाष्टभयः प्रान्तवीथितन्वीयनाश्रयः ॥ १७ ॥  
 यद्यज्जनपदस्योक्तं नीतिशास्त्रविशारदः । लक्षणं तस्य तस्यायं देशो लक्ष्यत्वमायिवान् ॥ १८ ॥  
 हानिर्धनस्य सत्पात्रे सत्क्रियायाः फलावधौ । उन्नतेविनयस्थाने प्राणस्य परमायुषि ॥ १९ ॥  
 तुङ्गेषु कुच्योरेव काठिन्यमतिवर्तते । गजेष्वेव प्रपातोऽपि तरुष्वेव<sup>३</sup>दरीरिषु ॥ २० ॥  
 दण्डच्छत्रे तुलायाञ्च नागरादिषु तीक्ष्णता । रोधनं सेतुबन्धेषु शब्दशास्त्रेऽपवादभाक् ॥ २१ ॥

सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी वीतदोष-दोषोंसे रहित होते हैं उसी प्रकार किसान भी वीतदोष-निर्दोष थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए दोषाणै-रात्रियों व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्वी जुधा तृषा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार किसान भी जुधा तृषा आदिके कष्ट सहन करते थे । इस प्रकार सादृश्य होनेपर भी किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका कारण था कि तपस्वी मनुष्योंके आरम्भ सफल भी होते थे और निष्फल भी चले जाते थे परन्तु किसानोंके आरम्भ निश्चित रूपसे सफल ही रहते थे ॥ १२ ॥ वहाँके सरोवर अत्यन्त निर्मल थे, मुख्यसे उपभोग करनेके योग्य थे, कमलोंसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेवाले थे, अगाध-गहरे थे और मन तथा नेत्रोंको हरण करनेवाले थे ॥ १३ ॥ वहाँके खेत राजाके भाण्डारके समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजाओंके भाण्डार सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते हैं उसी प्रकार वहाँके खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते थे, राजाओंके भाण्डार जिस प्रकार हमेशा सबको संतुष्ट करते हैं उसी प्रकार वहाँके खेत भी हमेशा सबको संतुष्ट रखते थे, और राजाओंके भाण्डार जिस प्रकार सम्पन्न-सम्पत्तिसे युक्त रहते हैं उसी प्रकार वहाँके खेत भी धान्यरूपी सम्पत्तिसे सम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तान् पन्नाः सम्पन्नाः' सब आरसे प्राप्त करने योग्य थे ॥ १४ ॥ वहाँके गाँव इतने समीप थे कि मुर्गा भी एकसे उड़ कर दूसरे पर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें बहुतसे किसान रहते थे, पशु धन धान्य आदिसे परिपूर्ण थे । उनमें निरन्तर काम-काज होते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराकुल थे ॥ १५ ॥ वे गाँव दण्ड आदिकी बाधासे रहित होनेके कारण सर्व सम्पत्तियोंसे मुशोभित थे, वर्णाश्रमसे भरपूर थे और वहीं रहने वाले लोगोंका अनुकरण करनेवाले थे ॥ १६ ॥ वह देश ऐसे मार्गोंसे सहित था जिनमें जगह-जगह कंधों पर्यन्त पानी भरा हुआ था, अथवा जो असंचारी-दुर्गम थे, अथवा जो असंचारि-आने जानेकी रुकावटसे रहित थे । वहाँके वृक्ष फलोंसे लदे हुए तथा कांटोंसे रहित थे । आठ प्रकारके भयोंमें से वहाँ एक भी भय दिखाई नहीं देता था और वहाँके वन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियोंके आश्रय थे ॥ १७ ॥ नीतिशास्त्रके विद्वानोंने देशके जो जो लक्षण कहे हैं यह देश उन सबका लक्ष्य था अर्थात् वे सब लक्षण इसमें पाये जाते थे ॥ १८ ॥ उस देशमें धनकी हानि सत्पात्रको दान देते समय होती थी अन्य समय नहीं । समीचीन क्रियाकी हानि फल प्राप्त होने पर ही होती थी अन्य समय नहीं । उन्नतिकी हानि विनयके स्थान पर होती थी अन्य स्थान पर नहीं, और प्राणोंकी हानि आयु समाप्त होने पर ही होती थी अन्य समय नहीं ॥ १९ ॥ ऊँचे उठे हुए पदार्थोंमें यदि कठोरता थी तो स्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी अन्यत्र नहीं थी । प्रपात यदि था तो हाथियोंमें ही था अर्थात् ऊँचीका मद भरता था अन्य मनुष्योंमें प्रपात अर्थात् पतन नहीं था । अथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षोंमें ही था अन्यत्र नहीं ॥ २० ॥ वहाँ यदि दण्ड था तो छत्र अथवा तराजूमें ही था वहाँके मनुष्योंमें दण्ड नहीं था अर्थात् उनका कभी जुर्माना नहीं होता था । तीक्ष्णता-तेजस्विता यदि थी तो कोतवाल आदिमें ही, वहाँके मनुष्योंमें तीक्ष्णता

१ नित्यारम्भनिराकुलाः ख०, ग० । २ असंचारिपथो ख०, ग० । ३ असंचारि क०, ।

निम्बिशशब्दः खड्गेषु विश्वाशित्वं हुनाशने । तापकत्वं खराभीषौ मारकत्वं यमाङ्कये ॥ २२ ॥  
 धर्मो जैनेन्द्र एवास्मिन् दिवसे वा दिवाकरः । ततो नैकान्तवादानामुत्कृष्टानामिवोद्गमः ॥ २३ ॥  
 दुर्गाण्यासन् यथास्थानं सातत्येनानुसंस्थितैः । शृतानि यन्त्रशस्त्राभ्युपवसैन्धवरक्षकैः ॥ २४ ॥  
 तस्य मध्ये शुभस्थाने ललाटे वा विशेषकम् । विशेषैः सर्वरम्याणां श्रीपुरं 'आमरं' पुरम् ॥ २५ ॥  
 विकसन्नीलनीरेजसरोजालिविलोचनैः । स्वच्छवारिसरोवक्त्रैर्हसत्परपुरश्रियम् ॥ २६ ॥  
 नानाप्रसूनसुस्वादकेसरासवपायिनः । तत्रालिनोंऽलिनीवृन्दैः प्रयान्ध्यापानकोत्सवम् ॥ २७ ॥  
 तदुत्तुङ्गमहासौधगणैः समुरजारवैः । विश्राम्यन्तु भवन्तोऽग्रेत्याङ्कयद्वा घनाघनान् ॥ २८ ॥  
 तदेव सर्ववस्तुनामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्ठां न किं यान्ति तथा भोगैर्निरन्तरम् ॥ २९ ॥  
 यद्यदालोक्यते तत्तत्स्ववर्षाणेषु सतामम् । भ्रान्तिः स्वर्गोऽयमेवेति करोति मरुतामपि ॥ ३० ॥  
 सत्कुलेषु समुद्भूतास्तत्र सर्वेऽपि 'सन्नताः' । उत्पद्यन्ते यतः प्रेन्य स्वर्गजाः शुद्धदृष्टयः ॥ ३१ ॥  
 स्वर्गः किमीदृशो वेति तत्रस्थाश्चारुदर्शनाः । मुक्त्यर्थमेव कुर्वन्ति धर्मं न स्वर्गमेधया ॥ ३२ ॥  
 तत्रोत्सवे जनाः पूजां मङ्गलार्थं प्रकुर्वते । शोके तदपनोदार्यमेते जैनीं विवेकिनः ॥ ३३ ॥  
 साध्यार्था इव साध्यन्ते जैनवादैः 'सहेतुभिः' । धर्मार्थकामास्तज्जातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥

नहीं—क्रूरता नहीं थी । रुकावट केवल पुलोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी । और अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्रमें ही था वहाँके मनुष्योंमें अपवाद—अपयश नहीं था ॥ २१ ॥ निम्बिश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थात् कृपाण ही ( त्रिशदभ्योऽङ्गुलिभ्यो निर्गन् इति निम्बिशः ) तीस अङ्गुलसे बड़ी रहती थी, वहाँके मनुष्योंमें निम्बिश—क्रूर शब्दका प्रयोग नहीं होता था । विश्वाशित्व अर्थान् सब चीजें खा जाना यह शब्द अभ्रिममें ही था वहाँके मनुष्यों में विश्वाशित्व—सर्वभक्षकपना नहीं था । तापकत्व अर्थान् संताप देना केवल सूर्यमें था वहाँके मनुष्योंमें नहीं था, और मारकत्व केवल यमराजके नामोंमें था वहाँके मनुष्योंमें नहीं था ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सूर्य दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्ममें ही रहता था । यही कारण था कि वहाँ पर उल्लुओंके समान एकान्त वादोंका उद्गम नहीं था ॥ २३ ॥ उस देशमें सदा यथास्थान रखे हुए यन्त्र, शस्त्र, जल, जौ, घोड़े और रक्षकोंसे भरे हुए किले थे ॥ २४ ॥ जिस प्रकार ललाटके बीचमें तिलक हांता है उसी प्रकार अनेक शुभस्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर नामका नगर है । वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरहकी मनोहर वस्तुओंसे देवनगरके समान जान पड़ता था ॥ २५ ॥ खिले हुए नीले तथा लाल कमलोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवररूपी मुखोंके द्वारा वह नगर शत्रुनगरोंकी शोभाकी मानो हँसी ही उड़ाता था ॥ २६ ॥ उस देशमें अनेक प्रकारके फूलोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भौरे भ्रमरियोंके समूहके साथ पान-गोष्ठीका आनन्द प्राप्त करते थे ॥ २७ ॥ उस नगरमें बड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें मृदङ्गोंका शब्द हो रहा था । जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 'आप लोग यहाँ विश्राम कीजिये' इस प्रकार वह नगर मेघोंको ही बुला रहा था ॥ २८ ॥ ऐसा मालूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुओंका मानो खान था । यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें आने पर वे समाप्त क्यों नहीं होतीं ? ॥ २९ ॥ उस नगर में जो जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने वर्गमें सर्वश्रेष्ठ रहती थी अतः देवोंको भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है ? ॥ ३० ॥ वहाँके रहने वाले सभी लोग उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, व्रतसहित थे तथा सम्यग्दृष्टि थे अतः वहाँके मरे हुए जीव स्वर्गमें ही उत्पन्न होते थे ॥ ३१ ॥ 'स्वर्गमें क्या रक्खा ? वह तो ऐसा ही है' यह सोच कर वहाँके सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षके लिए ही धर्म करते थे, स्वर्गकी इच्छासे नहीं ॥ ३२ ॥ उस नगरमें विवेकी मनुष्य उत्सवके समय मङ्गलके लिए और शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र भगवान्की पूजा किया करते थे ॥ ३३ ॥ वहाँके जैनवादी लोग अपरिमित सुख देनेवाले धर्म, अर्थ

द्वीपाद्द्वैचक्रयालो वा प्राकारो यत्परीतवान् । भिवेव रविसन्तापाह्नीनोऽभून्मणिरदिमपु ॥ ३५ ॥  
 श्रीषेणो नाम तस्यासीत् पतिः सुरपतिद्युतिः । नतारिमौलिरन्नांशुवाविकासिक्रमान्बुजः ॥ ३६ ॥  
 पाति यस्मिन् भुवं जिष्णौ दुष्टा विगतविक्रियाः । अभूवन् शक्तिवन्मन्त्रसम्बिधौ वा भुजङ्गमाः ॥ ३७ ॥  
 उपाया येन सञ्चिन्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । ददुः फलमतिस्फीतं समाहर्तुवदथितम् ॥ ३८ ॥  
 श्रीकान्ता नाम तस्यासीद् वनिता विनयान्विता । सती मृदुपदन्त्यासा सत्कवेरिव भारती ॥ ३९ ॥  
 रूपायाः स्त्रीगुणास्तस्याः समुत्पन्नाः सुखायहाः । सुता इव सदा पाल्या वन्द्याश्च गुरुवत्सताम् ॥ ४० ॥  
 अरीरमन्मनः पत्युस्तस्या रूपाद्यो गुणाः । स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मनीषिणः ॥ ४१ ॥  
 प्रतिच्छन्दः परस्त्रीणां वेधसैवा विनिर्मिता । गुणानामिव मङ्गूपा स्वमतिप्रतिपत्त्ये ॥ ४२ ॥  
 १ अपारं सुखमच्छिन्नं १ सञ्जेहं समनृसिदम् । मिथुनं सन्समापोक्षैमिथुनं वामरं परम् ॥ ४३ ॥  
 स कदाचिन्महीनाथो निष्पुत्रत्वाच्छुचाहितः । इति स्वगतमेकाकी सन्त्यर्थमचिन्त्यत ॥ ४४ ॥  
 स्त्रियः संसारबल्लर्यः सत्पुत्रास्तत्कलायिताः । न चेत्ते तस्य रामाभिः पापाभिः किं नृपापिनः ॥ ४५ ॥  
 यः पुत्रवदनारभोजं नापश्यद्देवयोगतः । पङ्खण्डश्रीमुखान्जनेन दृष्टेनाप्यस्य तेन किम् ॥ ४६ ॥  
 ततः पुरोषसः प्राप्तुं मुनं सदुपदेशतः । अनर्धैर्मणिभिः पञ्चवर्णैरञ्चितकाञ्चनैः ॥ ४७ ॥

और कामको साध्य पदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए हेतुओंसे सिद्ध करते थे ॥ ३४ ॥ उस नगरका घेरे हुए जो कोट था वह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्करवरद्वीपके बीचमें पड़ा हुआ मानुपोत्तर पर्वत ही हो । वह कोट अपने रत्नोंकी किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके संतापके भयसे छिप ही गया हो ॥ ३५ ॥ नमस्कार करनेवाले शत्रु राजाओंके मुकुटोंमें लगे हुए रत्नोंकी किरणें रूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे हैं ऐसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक श्रीषेण नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप सर्प विकाररहित हो जाते हैं उसी प्रकार विजयी श्रीषेणके प्रथिवीका पालन करने पर सब दुष्ट लोग विकाररहित हो गये थे ॥ ३७ ॥ उसने साम, दान आदि उपायोंका ठीक-ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसलिये वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे ॥ ३८ ॥ उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी स्त्री थी । वह श्रीकान्तस किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी । क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती अर्थात् दुःश्रवत्व आदि दोषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी सती अर्थात् पतिव्रता थी और अच्छे कविकी वाणी जिस प्रकार मृदुपदन्त्यासा अर्थात् कोमलकान्तपदविन्याससे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी मृदुपदन्त्यासा अर्थात् कोमल चरणोंके निःश्रंपसे सहित थी ॥ ३९ ॥ स्त्रियोंके रूप आदि जो गुण हैं वे सब उसमें सुख देनेवाले उत्पन्न हुए थे । वे गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे और गुरुओंके समान सज्जनोंके द्वारा वन्दनीय थे ॥ ४० ॥ जिस प्रकार स्यादेवकार-स्यात् एव शब्दसे ( किसी अपेक्षासे पदार्थ ऐसा ही है ) से युक्त नय किसी विद्वान्के मनको आनन्दित करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनन्दित करते थे ॥ ४१ ॥ वह स्त्री अन्य स्त्रियोंके लिए आदर्शके समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नामकर्म रूपी विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकर्षता बतलानेके लिए गुणोंकी पेट्टी ही बनाई हो ॥ ४२ ॥ वह दम्पती देवदम्पतीके समान पापरहित, अविनाशी, कभी नष्ट न होनेवाले और समान वृत्तिको देनेवाले उच्छ्रष्ट सुखको प्राप्त करता था ॥ ४३ ॥ वह राजा निष्पुत्र था अतः शोकसे पीड़ित होकर पुत्रके लिए अकेला अपने मनमें निम्न प्रकार विचार करने लगा ॥ ४४ ॥ स्त्रियाँ संसारकी लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके समान हैं । यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियोंसे क्या प्रयोजन है ? ॥ ४५ ॥ जिसने देवयोगसे पुत्रका मुखकमल नहीं देखा है वह छह खण्डकी लक्ष्मीका मुख भले ही देख ले पर उससे क्या लाभ है ॥ ४६ ॥ उसने पुत्र प्राप्त करनेके लिए पुरोहितके

विधाय जिनविम्बानि प्रातिहार्यैः सहाष्टभिः । भृङ्गारादिविनिदिष्टैः सङ्गतान्यष्टमङ्गलैः ॥ ४८ ॥  
 प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमैः । कृत्वा महाभिषेकं च जिनसङ्गममङ्गलैः ॥ ४९ ॥  
 गन्धोदकैः स्वयं देव्या सहैवास्त्रात्स्नुवन् जिनान् । व्यधादाष्टाह्निकीं पूजामैहिकामुत्रिकोदयाम् ॥ ५० ॥  
 यातैः कतिपयैर्देवीं दिवैः स्वप्नान् व्यलोकत । गजसिंहेन्दुपद्माभिषेकानीषद्विनिद्रिता ॥ ५१ ॥  
 तदैव गर्भसङ्क्रान्तिरभूत्तस्यास्ततः क्रमान् । आलस्यमरुचिस्तन्द्रा जुगुप्सा वा निमिशिका ॥ ५२ ॥  
 'अशक्तयोरिवान्योन्यं विजेतुं सुचिरान्मुखम् । कुचयोरादधौ तस्याः कालिमानं दिने दिने ॥ ५३ ॥  
 योपितां भूषणं लज्जा श्लाघ्यं नान्यद्विभूषणम् । इति स्पष्टयितुं वैषा सर्वाचेष्टा स्थिता ह्रिया ॥ ५४ ॥  
 तस्या भाराक्षमत्वेन भूषणान्युचितान्यपि । दिवस्ताराकुलानीय निशान्ते स्वल्पतां ययुः ॥ ५५ ॥  
 वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्येव विभूतयः । चिरं विरग्य श्रव्यत्वाश्रवाभ्रंभांदावलेखि ॥ ५६ ॥  
 कुर्युः कुतूहलोत्पत्तिं वाढमभ्यर्णवतिनाम् । एवं तद्गर्भचिह्नानि व्यक्तान्यन्यानि चाभवन् ॥ ५७ ॥  
 प्रमोदात्प्राप्य राजानं प्रणम्याननसूचितम् । इति चैन्याश्रुवन् कर्णे तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ५८ ॥  
 सरोजं वोदयान्दानोः कुमुदं वा हिमद्युतेः । व्यकसत्तन्मुखाभोजं श्रुतगर्भमहोदयान् ॥ ५९ ॥  
 चन्द्रोदयान्वयाम्भोधेः कुलस्य तिलकायितः । प्रादुर्भावस्तन्जस्य न प्रतोपाय कस्य वा ॥ ६० ॥  
 अट्टवदनाभोजमपयं गर्भगं च माम् । एवं प्रतोपयत्येतत् दृष्टवक्त्रं किमुच्यते ॥ ६१ ॥  
 मत्वेति ताभ्यो द्रष्टेष्टं स्वासैः कतिपयैर्वृतैः । महादेवीगृहं गत्वा द्विगुणीभूतसम्मदः ॥ ६२ ॥

उपदेशसे पाँच वर्णके अमूल्य रत्नोंसे मिले सुवर्णकी जिन-प्रतिमाएँ धनवाईं । उन्हें आठ प्रातिहार्यों तथा भृङ्गार आदि आठ मङ्गल-द्रव्यसे युक्त किया, प्रतिप्राशाक्रममें कर्दा हुई क्रियाओंके क्रमसे उनकी प्रतिष्ठा कराई, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवानके संसर्गसे मङ्गल रूप हुए गन्धोदकसे रानीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की तथा इस लोक और परलोक सम्बन्धी अभ्युदयको देनेवाली आष्टाह्निकी पूजा की ॥ ४७-५० ॥ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर कुछ कुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक थे चार स्वप्न देखे ॥ ५१ ॥ उसी समय उसके गर्भ धारण हुआ तथा क्रमसे आलस्य आने लगा, अरुचि होने लगी, तन्द्रा आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी ॥ ५२ ॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समर्थ नहीं हो सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिदिन कालिमाको धारण कर रहे थे ॥ ५३ ॥ 'स्त्रियोंके लिये लज्जा ही प्रशंसनीय आभूषण है अन्य आभूषण नहीं' यह स्पष्ट करनेके लिए ही मानो उसकी समस्त चेष्टाएँ लज्जासे सहित हो गई थीं ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाशके ताराओंके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार धारण करनेमें समर्थ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गये थे—विरल हो गये थे ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार अल्प धनवाले मनुष्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन भी परिमित थे और नई मंघमालाके शब्दके समान रुक-रुक कर बहुत देर बाद मुनाई देते थे ॥ ५६ ॥ इस प्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे । वे चिह्न कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे ॥ ५७ ॥ किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने हर्षसे राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा । यद्यपि यह समाचार दासियोंके मुखकी प्रसन्नतासे पहले ही सूचित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था ॥ ५८ ॥ गर्भ धारणका समाचार सुनकर राजाका मुख-कमल ऐसा विक्रमिन्त हो गया जैसा कि सूर्योदयसे कमल और चन्द्रोदयसे कुमुद विकसित हो जाता है ॥ ५९ ॥ जो वंशरूपी समुद्रको वृद्धिज्ञत करनेके लिए चन्द्रोदयके समान है अथवा कुलका अलंकृत करनेके लिए तिलकके समान है ऐसा पुत्रका प्रादुर्भाव किसके संतोपके लिए नहीं होता ? ॥ ६० ॥ जिसका मुखकमल अभी देखनेको नहीं मिला है, केवल गर्भमें ही स्थित है ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है तब मुख दिखाने पर कितना संतुष्ट करेगा इस बातका क्या कहना है ॥ ६१ ॥ ऐसा मान कर राजाने उन दासियोंके लिये

अभितां वाभ्रपदवीं रत्नगर्भामिव क्षितिम् । उपोदयार्कं प्राचीं वा तां ददर्श दृशः सुखम् ॥ ६३ ॥  
 सापि दृष्ट्वा महीनाथमभ्युत्थात् कृतोद्यमा । तथैव देवि तिष्ठेति स्थिता राज्ञा निवारिता ॥ ६४ ॥  
 नृपस्तयैकशय्यायामुपविश्य चिरं मुदा । सलज्जया सहालाप्य ययौ तद्दृष्टितोक्तभिः ॥ ६५ ॥  
 दिनेषु केषुचिन्पश्चाच्छातेषु प्रकटीभवत् । प्राक् पुण्याद् गुरुशुक्रादिशुभग्रहनरीक्षणात् ॥ ६६ ॥  
 हरेर्हरिदिवादित्यं सस्यपाकं यथा शरत् । महोदयमिवाख्यातिरसूत सूतमुगमम् ॥ ६७ ॥  
 प्रवर्द्धमानभाग्यस्य योग्यस्य सकलश्रियः । श्रीवर्मेति शुभं नाम तस्य बन्धुजनो व्यधात् ॥ ६८ ॥  
 प्रबोधो मूर्च्छितस्येव दुर्विषयेव वा निधिः । जयो वात्यल्पसैन्यस्य राजस्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥  
 तस्याङ्गतेजसा रत्नदीपिका विहतत्वियः । विभावर्या सभास्थाने नैरर्थक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥  
 शरीरवृद्धिस्त्वस्यासीद् भिषक्शास्त्रोक्तवृत्तितः । शब्दशास्त्रादिभिः प्रज्ञावृद्धिः सुविहितक्रियाः ॥ ७१ ॥  
 स राजा तेन पुत्रेण द्वीपांस्यमिव मेरुणा । तुङ्गेन सङ्गतः श्रीमान् पालयन् बलयं क्षितेः ॥ ७२ ॥  
 जिनें श्रीपवनामानमवतीर्णं यदृच्छया । शिवङ्करवनोद्याने कदाचिद्वनपालतः ॥ ७३ ॥  
 श्रुत्वा सप्तपदानीन्वा तां दिशं शिरसाऽनमत् । तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ७४ ॥  
 त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य तं यथास्थानमास्थितः । कृत्वा धर्मपरिप्रश्नं बुद्ध्या वस्तु यथोदितम् ॥ ७५ ॥  
 भोगनृष्णामपास्याशु धर्मनृष्णात्तमानसः । दत्त्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्राम्राजीराजिनान्तिके ॥ ७६ ॥

इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनन्दित होता हुआ कुछ आप्र जनोंके साथ वह रानीके घर गया ॥ ६२ ॥ वहाँ उसने नेत्रोंको मुख देनेवाली रानीको गंगा देखा माना मेघसे युक्त आकाश ही हो, अथवा रत्नगर्भा पृथिवी हो अथवा उदय होनेके समीपवर्ती सूर्यसे युक्त पूर्व दिशा ही हो ॥ ६३ ॥ राजाको देवकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु 'हं देवि, बैठी रहो' इस प्रकार राजाके मना किये जाने पर बैठी रही ॥ ६४ ॥ राजा एक ही शय्या पर चिरकाल तक रानीके साथ बैठा रहा और लज्जा सहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर दपित होता हुआ वापिस चला गया ॥ ६५ ॥

तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कर्मके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि शुभ ग्रहोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा ( प्राची ) सूर्यको उत्पन्न करती है, शरदःश्रुत पके हुए धानको उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ ६६-६७ ॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लक्ष्मी पानेके योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने 'श्रीवर्मा' यह शुभ नाम रक्खा ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार मूर्च्छितको सचेत होनेसे संतोष होता है, दरिद्रको खजाना मिलनेसे संतोष होता है और थोड़ी सेनावाले राजाको विजय मिलनेसे संतोष होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको संतोष हुआ था ॥ ६९ ॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गई है ऐसे रत्नोंके दीपक रात्रिके समय सभा-भवनमें निरर्थक हो गये थे ॥ ७० ॥ उसके शरीरकी वृद्धि वैद्यक शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओंको करनेवाली बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रोंके अनुसार हुई थी ॥ ७१ ॥ जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊँचे मेरु पर्वतसे मुशोभित होता है उसी प्रकार पृथिवी-मंडलका पालन करनेवाला यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्रसे मुशोभित हो रहा था ॥ ७२ ॥ किसी एक दिन शिवंकर वनके उद्यानमें श्रीपद्म नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे थे । वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामें सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार किया और बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, और यथास्थान आसन ग्रहण किया । राजाने उनसे धर्मका स्वरूप पूछा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगोंकी वृष्णा छोड़ी, धर्मकी वृष्णामें अपना मन लगाया, श्रीवर्मा पुत्रके

श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या 'भूतमिथ्यामहातमाः । आस्थात्तुर्यगुणस्थानमाद्यं सोपानमुच्यते ॥ ७७ ॥  
 सन्निधाने च तस्यायः' सन्निधापयति स्वयम् । यथाकाममशेषार्थास्तैः स प्रापेप्सितं सुखम् ॥ ७८ ॥  
 असौ कदाचिदापाठपौर्णमासादिने जिनान् । उपोष्याभ्यर्च्य सत्स्वाप्तै रात्रौ हर्म्यतले स्थितः ७९ ॥  
 विलाक्यापातमुल्काया भोगसारे विरक्तवान् । प्राग्विश्राणितसाञ्जाज्यः श्रीकान्ताथाप्रसूनवे ॥ ८० ॥  
 अभ्यासे श्रीप्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विधाय विधिवत्प्रान्ते संन्यस्य श्रीप्रभे गिरौ ॥ ८१ ॥  
 श्रीप्रभे प्रथमे कल्पे विमाने सागरोपम- । द्वित्वायुः श्रीधरो नाम्ना देवः समुदपद्यत ॥ ८२ ॥  
 अणिमादिगुणः सप्तहस्तो वैक्रियिकाङ्गभाक् । चतुर्थलेश्यो मासेन निःश्वसन् मनसाहरन्<sup>३</sup> ॥ ८३ ॥  
 वर्षद्वयसहस्रेण पुद्गलानमृतात्मकान् । तृप्तः कायप्रवीचाराद् व्यासाद्यक्षमातलावधिः ॥ ८४ ॥  
 बलतेजोमहाविक्रियाभिः स्वावधिसम्मनतः । सुन्धितोऽनुभवन्सौख्यं स्वपुण्यपरिपाकजम् ॥ ८५ ॥  
 दक्षिणे धातकीखण्डे प्राचीण्वाकारपर्वतान् । भारते त्रिपथे श्रीमदलकाख्ये पुरोत्तमम् ॥ ८६ ॥  
 अयोध्याह्ं नृपस्तम्भिन्नावभावजितञ्जयः । आसीदजितसेनास्य देवी "सुतसुखप्रदा ॥ ८७ ॥  
 सा कदाचितानृजाप्यै परिपुज्य जिनेश्वरान् । मुक्ता तच्चिन्तया स्वप्नान्विलोक्याष्टौ शुभानिमान् ॥ ८८ ॥  
 गजेन्द्रवृषसिंहेन्दुरवीन् पद्मसरोवरम् । शङ्खं पूर्णघटं चैतत् फलान्यप्यजितञ्जयान् ॥ ८९ ॥  
 गजापुत्रं गभीरं गोः सिंहेनानन्तर्वीर्यकम् । चन्द्रेण तर्पकं तेजः प्रतापाढ्यं दिवाकरान् ॥ ९० ॥

लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपदा जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ ७३-७६ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के उपदेशसे जिसका मिथ्यादर्शनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया है। ऐसे श्रीवर्माने भी वह चतुर्थ गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीढ़ी कहलाती है ॥ ७७ ॥ चतुर्थ गुणस्थानके सन्निधानमें जिस पुण्य-कर्मका संचय होता है वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थोंको सन्निहित-निकटस्थ करना रहता है। उन पदार्थोंसे श्रीवर्माने इच्छित सुख प्राप्त किया था ॥ ७८ ॥

किसी समय राजा श्रीवर्मा आपाढ़ मासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवानकी उपासना और पूजा कर अपने आमजनोके साथ रात्रिमें महलकी छत पर बैठा था ॥ ७९ ॥ वहाँ उल्कापात देखकर वह भोगोंसे विरक्त हो गया। उसने श्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया और श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अन्तमें श्रीप्रभ नामक पर्वत पर विधिपूर्वक संन्यासमरण किया ॥ ८०-८१ ॥ जिससे प्रथम स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें दो सागरकी आयु वाला श्रीधर नामका देव हुआ ॥ ८२ ॥ वह देव अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त था, सात हाथ ऊँचा उसका शरीर था, वैक्रियिक शरीरका धारक था, पीतलेस्या वाला था, एक माहमें श्वास लेता था, दो हजार वर्षमें अमृतमय पुद्गलोंका मानसिक आहार लेता था, काय-प्रवीचरसे संतुष्ट रहता था, प्रथम पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथिवी तक थी, इस तरह अपने पुण्य कर्मके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका उपभोग करता हुआ वह सुखसे रहता था ॥ ८३-८५ ॥

धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें जो इण्वाकार पर्वत है उससे दक्षिणकी ओर भरतक्षेत्रमें एक अलका नामका सम्पन्न देश है। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है। उसमें अजितंजय राजा सुशोभित था। उसकी अजितसेना नामकी वह रानी थी जो कि पुत्र-सुख को प्रदान करती थी ॥ ८६-८७ ॥ किसी एक दिन पुत्र-प्राप्तिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवान् की पूजा की और रात्रिको पुत्रकी चिन्ता करती हुई सो गई। प्रातः काल नीचे लिखे हुए आठ शुभ स्वप्न उसने देखे। हाथी, बैल, सिंह, चन्द्रमा, सूर्य, कमलोंसे सुशोभित सरोवर, शङ्ख और पूर्ण कलश। राजा अजितंजयसे उसने स्वप्नोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देवि! हाथी देखनेसे तुम पुत्रको प्राप्त करोगी; बैलके देखनेसे वह पुत्र गभीर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेसे अनन्तबलका धारक होगा, चन्द्रमाके देखनेसे सबको संतुष्ट करनेवाला होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और प्रतापसे युक्त होगा, सरोवरके

१ त्रीतमिथ्या-ख०, ग०। २ पुण्यम्। ३ मनसाहरत् ल०। ४ विजये क०, ख०, ग० घ०,। ५ सुखसुतप्रदा।



सरंसा शङ्खचक्रादि द्वात्रिंशलक्षणाञ्चितम् । शङ्खेन चक्रिणं पूर्णकुम्भाज्ज्ञात्वा निधीशिनम् ॥ ९१ ॥  
 तुष्टा कतिपर्यैमासैस्तं श्रीधरमजीजनत् । व्यधादजितसेनाख्यां राजास्य जितविद्विषः ॥ ९२ ॥  
 तेन तेजस्विना राजा सदाभाद् भास्करेण वा । दिवसो विरजास्तादृक् तनूजः <sup>१</sup>कुलभूषणम् ॥ ९३ ॥  
 स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेशमशोकवनमागतम् । परेत्युः सपरीवारः सम्प्राप्याभ्यर्च्य सन्नतः ॥ ९४ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं सतां त्याज्यं राज्यं निजितशत्रवे । प्रदायाजितसेनाय संयम्यासीत्स केवली ॥ ९५ ॥  
 राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि रक्तया स वशीकृतः । प्रौढ एव युवा कामं सुख्यं सौख्यमुपेयिवान् ॥ ९६ ॥  
 तत्पुण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चक्रिणः । यद्यत्तत्समुत्पन्नं चेतनेतरभेदकम् ॥ ९७ ॥  
 चक्रमाक्रान्तद्विचक्रमस्य तस्योद्भवेऽभवत् । पुर्नादिद्विजयौ जेतुः पुरबाह्यविहारवत् ॥ ९८ ॥  
 नासुखोऽनेन कोऽप्यासीन्न परिग्रहमूर्च्छना । षट्खण्डाधीशिनोऽप्यस्य पुण्यं पुण्यानुबन्धि यत् ॥ ९९ ॥  
 दुःखं स्वकर्मपाकेन सुखं तदनुपालनान् । प्रजानां तस्य साम्राज्ये तत्ताभिः सोऽभिनन्द्यते ॥ १०० ॥  
 देवविद्याधराधीशमुकुटाग्रं पु सद्युतीन् । विच्छार्याकृत्य रत्नांशूस्तदाज्ञंवाञ्छित्वा बभौ ॥ १०१ ॥  
 नित्योदयस्य चेन्न स्यात् पद्मानन्दकृतो बलम् । चण्डद्युतेः कथं पाति शक्रोऽध्यक्षः स्वयं दिशम् ॥ १०२ ॥  
<sup>२</sup>विधिर्विधा न चेदग्निं स्थापयेद्रक्षितुं दिशम् । स्वयानिदाहिना कोऽपि घञ्चिन् केनापि रक्षितः ॥ १०३ ॥  
 पालको मारको वेति नान्तकं सर्वभक्षणम् । किं वेत्ति वेधास्तं पातुं पापिनं परिकल्पयन् ॥ १०४ ॥

देखनेसे शंख-चक्र आदि वृत्तीस लक्षणांसे सहित हांगा, शंख देखनेमें चक्रवर्ती हांगा और पूर्ण कलशा देखनेसे निधियोंका स्वामी हांगा ॥ ८८-९१ ॥ स्वर्गोंका उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही संतुष्ट हुई । तदनन्तर कुछ माह बाद उमने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न किया । राजाने शत्रुओंको जीतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रक्खा ॥ ९२ ॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे ऐसा मुशोभित होता था जैसा कि धूलिरहित दिन सूर्यसे मुशोभित होता है । यथार्थमें ऐसा पुत्र ही कुलका आभूषण होता है ॥ ९३ ॥ दूसरे दिन स्वयंप्रभ नामक तीर्थकर अशोक वनमें आये । राजाने परिवारके साथ जाकर उनकी पूजा की, 'स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्जनोंके छोड़ने योग्य राज्य शत्रुओंका जीतनेवाले अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवलज्ञानी बन गया ॥ ९४-९५ ॥ इधर अनुरागसे भरी हुई राज्य-लक्ष्मीने कुमार अजितसेनको अपने वश कर लिया जिससे वह युवावस्थामें ही प्रौढ़की तरह मुख्य मुखोंका अनुभव करने लगा ॥ ९६ ॥ उसके पुण्य कर्मके उदयसे चक्रवर्तीके चक्ररत्न आदि जो-जो चेतन-अचेतन मामग्री उत्पन्न होती हैं वह सब आकर उत्पन्न हो गई ॥ ९७ ॥ उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेवाला चक्ररत्न प्रकट हुआ । चक्ररत्नके प्रकट होते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान सरल हो गया ॥ ९८ ॥ इस चक्रवर्तीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था और यद्यपि यह छह खण्डका स्वामी था फिर भी परिग्रहमें इसकी आसक्ति नहीं थी । यथार्थमें पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्मका बन्ध करनेवाला हो ॥ ९९ ॥ उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अशुभकर्मोदयसे था और सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक् रक्षा होनेसे था । यही कारण था कि प्रजा उसकी वन्दना करती थी ॥ १०० ॥ देव और विद्याधर राजाओंके मुकुटोंके अग्रभागपर चमकने वाले रत्नोंकी किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसकी उजत आज्ञा ही मुशोभित होती थी ॥ १०१ ॥ यदि निरन्तर उदय रहने वाले और कमलोंको आनन्दित करने वाले सूर्यका बल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति हो कर भी अपनी दिशाकी रक्षा कैसे करता ! ॥ १०२ ॥ विधाता अवश्य ही बुद्धिहीन है क्योंकि यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आग्रयं दिशाकी रक्षाके लिए अग्निको क्यों नियुक्त करता ? भला, जो अपने जन्मदाताको जलाने वाला है उससे भी क्या कहीं किसीकी रक्षा हुई है ? ॥ १०३ ॥ क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है या मारक ? फिर भी उसने उसी सर्व-

शुनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यमसमीपगः । स्वर्जावितेऽपि सन्देहो नैर्ऋतः कस्य पालकः ॥ १०५ ॥  
 \*काललीलां विलब्धालं (?) पाशहस्ता \*जलप्रियः । स <sup>३</sup>नदीनाश्रयः पाशी प्रजानां केन पालकः ॥ १०६ ॥  
 धूमध्वजसखोऽस्थास्तुः स्वयमन्याश्च चालयन् । पालकः स्थापितस्तादृक् स किमेकत्र तिष्ठति ॥ १०७ ॥  
 लुब्धो न लभते पुण्यं विपुण्यः केन पालकः । धनेन चेददाता तत् गुह्यकोऽपि न पालकः ॥ १०८ ॥  
 ईशानोऽन्त्यां दशां यातो गणने सर्वपाश्र्विमः । पिशाचावेष्टितो दुष्टः कथमेव दिशः पतिः ॥ १०९ ॥  
 कृत्वैतान् बुद्धिवैकल्यात्तत्प्रमादं प्रजापतिः । व्यधादेकमिमं मन्ये विश्वदिक्पालनक्षमम् ॥ ११० ॥  
 इत्युदात्तचोमाला विरचय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाक्रान्तदिक्चक्रः शक्रादीन् सोऽतिलङ्घते ॥ १११ ॥  
 धनं दाने मतिर्धर्मं शौर्यं भूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तनुभोगे तस्य वृद्धिमवाप्तिरम् ॥ ११२ ॥  
 अपरायत्तमच्छिन्नमवाधमयवर्द्धनम् । गुणान्पुष्पान् वितृष्णः सन् सुखेन सुखमार्थिवान् ॥ ११३ ॥  
 ऋतं वाचि दया चित्तं धर्मकर्मणि निर्मलः । स्वान् गुणान् वा प्रजाः पाति राजर्षिः केन नास्तु सः ॥ ११४ ॥  
 मन्ये नैसर्गिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्रागहारिणि पापेऽपि रिपौ नोपैति विक्रियाम् ॥ ११५ ॥  
 न हि मूलहरः कोऽपि नापि कोऽपि कदर्यकः । ताद्रात्विकोऽपि तद्राज्ये सर्वे सद्व्ययकारिणः ॥ ११६ ॥

भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥ १०४ ॥ जो कुन्नेके स्थानपर रहता है, दीन है, सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भी जिसे संदेह है, ऐसा नैर्ऋत किमकी रक्षा कर सकता है ? ॥ १०५ ॥ जो जल भूमिमें विद्यमान विलभं मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता है, जिसके हाथमें पाश है, जो जलप्रिय है—जिसे जल प्रिय है ( पक्षमें जिसे जड-सूर्य प्रिय है ) और जो नदीनाश्रय है—समुद्रमें रहता है ( पक्षमें दीन मनुष्योंका आश्रय नहीं है ) ऐसा वरुण प्रजाकी रक्षा कैसे कर सकता है ? ॥ १०६ ॥ जो अग्निका मित्र है, स्वयं अस्थिर है और दृमरोको चलाता रहता है उस वायुका विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया सो ऐसा वायु क्या कहीं ठहर सकता है ? ॥ १०७ ॥ जो लोभी है वह कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता और जो पुण्यहीन है वह कैसे रक्षक हो सकता है जब कि कुबेर कभी किसीको धन नहीं देता तब उसे विधाताने रक्षक कैसे बना दिया ? ॥ १०८ ॥ ईशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, पिशाचों से घिरा हुआ है और दुष्ट है इसलिए यह ऐशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ? ॥ १०९ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाओंका अक्ष बनाया था और इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था । अब विधाताने अपना सारा अपयश दूर करनेके लिए ही मानो इम एक अजितसेनको समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समर्थ बनाया था ॥ ११० ॥ इस प्रकारके उदार वचनोंकी माला बनाकर सब लोग जिमकी स्तुति करते हैं और अपने पराक्रमसे जिमने समस्त दिशाओंको व्याप्त कर लिया है ऐसा अजितसेन इन्द्रादि देवोंका उल्लंघन करता था ॥ १११ ॥ उसका धन दान देनेमें, बुद्धि धार्मिक कार्योंमें, शूरवीरता प्राणियों की रक्षामें, आयु सुखमें और शरीर भोगोपभोगमें सदा बुद्धिकी प्राप्त होता रहता था ॥ ११२ ॥ उसके पुण्यकी बुद्धि दूसरेके आधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरहकी बाधा नहीं आती थी । इस प्रकार वह तृष्णारहित होकर गुणोंका पोषण करता हुआ बड़े आरामसे सुखको प्राप्त होता था ॥ ११३ ॥ उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्योंमें निर्मलता थी, और प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजर्षि क्यों न हो ? ॥ ११४ ॥ मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था । यदि ऐसा न होता तो प्राण हरण करनेवाले पापी शत्रु पर भी वह विकारको क्यों नहीं प्राप्त होता ॥ ११५ ॥ उसके राज्यमें न तो कोई मूलहर था—मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कदर्य था—अतिशय कृपण था और

१ 'कालिलेलाविलब्धालः' इति पाठो भवेत् । कलिलस्येयं जलस्य इयं कालिला सा चासौ इला च भूमि-  
 श्चेति कालिलेला तस्यां विद्यमानो विलो गर्तसन्निभो नीचैः प्रदेशः तत्र विद्यमानो व्यालो मकरादिजन्तुरिव, इति  
 तदर्थः । २ जलं प्रियो यस्य सः, पक्षे हलधोरभेदात् जडो मूर्खः प्रियो यस्य सः । ३ नदीनामिनः स्वामी  
 नदीनः समुद्रः स आश्रयो यस्य स, पक्षे न दीनानाम् आश्रय इति नदीनाश्रयः 'सह सुपा' इत्यनेन समासः ।

इति तस्मिन् महीं पाति सौराज्ये सति भूपतौ । प्रजाः प्रजापतिं मत्वा तमैषन्त सुमेधसम् ॥ ११७ ॥  
 रत्नानि निधयश्चास्य चतुर्दश नवाभवत् । नवयौवनसम्प्राप्तौ प्राप्तपुण्योदयान् प्रभोः ॥ ११८ ॥  
 भाजनं भोजनं शय्या चमूवाहनमासनम् । निर्धारत्नं पुरुं नाट्यमिति भोगान्दशान्वभूत् ॥ ११९ ॥  
 श्रद्धादिगुणसम्पन्नः स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दत्त्वाञ्च सते मासोपवासिने ॥ १२० ॥  
 गृहीतनवपुण्यात्मा वसुधारादिपञ्चकम् । प्रापाश्चर्यमनाप्य किं सद्नुष्ठानतत्परैः ॥ १२१ ॥  
 असौ मनोहराद्याने गुणप्रभजिनेश्वरम्<sup>१</sup> । परेशुः प्राप्य तत्प्रोक्तं धर्मसारं रसायनम् ॥ १२२ ॥  
 पीत्वा<sup>२</sup> स्वभवसम्बन्धश्रुतिबन्धुप्रचोदितः । सद्यो निविद्य साम्राज्यं वितीर्य जितशत्रवे ॥ १२३ ॥  
 त्रैलोक्यजयिनं जेतुं मोहराजं कृतोद्यमः । अराजभिर्बहुभिः सार्द्धं गृहीत्वा साधनं तपः ॥ १२४ ॥  
 चरित्वा निरतीचारं तनुं त्यक्त्वायुषोऽवधौ । नभस्तिलकगिर्यग्रे शान्तकारविमानगः ॥ १२५ ॥  
 अच्युतेन्द्रोऽजनिष्टासवादिद्वाविंशतिस्थितिः । हस्तत्रयप्रमाणान्तनिर्धातुतनुभास्करः ॥ १२६ ॥  
 शुक्लेश्वरः श्वसन्मासैरेकादशभिराहरन् । द्वाविंशतिसहस्राब्दमनसा<sup>३</sup>ऽऽहारमामरम् ॥ १२७ ॥  
 तमःप्रभावधिव्यासदेशावधिविलोचनः । तत्क्षेत्रव्यापिसत्तेजाबलात्तरशरीरभाक् ॥ १२८ ॥  
 दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा स्वायुरन्तं विशुद्धकम् ।<sup>४</sup>प्राग्भागधातकीखण्डे सीतादक्षिणकूलगे ॥ १२९ ॥  
 विषये मङ्गलावल्यां रत्नसञ्चय<sup>५</sup>पूःपतिः । देव्यां कनकमालायां बहूभः कनकप्रभः ॥ १३० ॥

न कोई तादात्विक था—भविष्यतका विचार न रख वर्तमानमें ही मौज उड़ानेवाला था, किन्तु सभी समीचीन कार्योंमें ग्वर्च करनेवाले थे ॥ ११६ ॥ इस प्रकार जब वह राजा पृथिवीका पालन करता था तब सब और मुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान राजाको ब्रह्मा मानकर वृद्धिको प्राप्त हो रही थी ॥ ११७ ॥ जब नव यौवन प्राप्त हुआ तब उस राजाके पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई थीं ॥ ११८ ॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, आसन, निधि, रत्न, नगर और नाट्य इन दश भोगोंका वह अनुभव करता था ॥ ११९ ॥ श्रद्धा आदि गुणोंसे संपन्न उस राजाने किसी समय एक माहका उपवास करनेवाले अरिन्दम नामक साधुके लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत्न-वृष्टि आदि पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम कार्योंके करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंका क्या दुर्लभ है ? ॥ १२०-१२१ ॥ दूसरे दिन वह राजा, गुप्तप्रभ जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायनका पान किया, अपने पूर्व भवके सम्बन्ध मुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त कर लिया। वह जितशत्रु नामक पुत्रके लिए राज्य देकर त्रैलोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुतसे राजाओंके साथ उसने तप धारण कर लिया। इस प्रकार निरनिचार तप तप कर आयुके अन्तमें वह नभस्तिलक नामक पर्वतके अग्रभाग पर शरीर छोड़ें सोलहवें स्वर्गके शान्तकार विमानमें अच्युतेन्द्र हुआ। वहाँ उसकी वाईस सागरकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुओंसे रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्लेश्वर था, वह ग्यारह माहमें एक बार आस लेता था, वाईस हजार वर्ष बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेत्र छठवीं पृथिवी तकके पदार्थों तकको देखते थे, उसका समीचीन तेज, बल तथा वैक्रियिक शरीर भी छठवीं पृथिवी तक व्याप्त हो सकता था ॥ १२२-१२८ ॥ इस प्रकार निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला वह अच्युतेन्द्र चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोग आयुके अन्तमें कहाँ उत्पन्न हुआ यह कहते हैं ॥ १२९ ॥  
 पूर्व धातकीखण्ड द्वीपमें सीता नदीके दाहिने तट पर एक मङ्गलावती नामका देश था। उसके रत्नसंचय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाला नामकी रानी थी। वह अहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोंके शुभ स्वप्नों द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मनाभ नामका पुत्र

१ जिनेशितम् ल०। २ स्वभाव क०, घ०। स्वभवः ख०, ग०, ल०। ३ रामाभिः ल०। ४ मनिसाहार-क०, ख०, घ०। ५ प्राग्भागे ल०। ६ रत्नसंचयभूपतिः ख०।

पद्मनाभः सुतो जातस्तयोः सुस्वप्नपूर्वकम् । बालानुकूलपर्युष्टिविशेषैः सांऽभ्यवर्द्धत ॥ १३१ ॥  
 उपयोगक्षमाशेषपयांसिपरिनिष्ठितम् । आरोप्य तं व्रतं राजा विद्यागृहसर्वाविशान् ॥ १३२ ॥  
 अभिजातपरीवारो दासहस्तिपकाद्रिकान् । दूरीकृत्य स निःशेषा विद्याः शिक्षितुमुद्ययौ ॥ १३३ ॥  
 तथेन्द्रियतनिस्तेन पराजयत सा यथा । निजार्थैः सर्वभावेन ननान्ति प्रातिमात्मनः ॥ १३४ ॥  
 स धीमान् बृद्धसंयोगं व्यधाद् विनयबृद्धये । <sup>१</sup>विनयः शास्त्रनिर्गीतः कृत्रिमः सहजोऽपरः ॥ १३५ ॥  
 तं सम्पूर्णकलं प्राप्य कान्तं सहजकृत्रिमौ । राजानं गुरुशुक्रौ वा रेजतुविनयौ भृशम् ॥ १३६ ॥  
 स धीमान् षोडशे वर्षे विरेजे प्राप्य यौवनम् । वनं सुष्टु विनीतात्मा संयतं वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥  
 रूपान्वयवयःशिक्षासम्पन्नं तमविक्रियम्<sup>२</sup> । <sup>३</sup>भद्रं गजं विनीतात्मा<sup>४</sup> समालोक्य मुदा पिता ॥ १३८ ॥  
 विद्यापूजां विधायाम्य जिनपूजापुरःसरम् । संस्कृतस्येव रत्नस्य व्यधाद् बुद्धिं क्रियान्तरे ॥ १३९ ॥  
 कलाभिरिव बालेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयान् । रम्यं राजा तमूर्जो<sup>५</sup> वा प्रमदाभिरपूरयन् ॥ १४० ॥  
 तस्य सोमप्रभादीनां देवीनामभवन् सुताः । शुभाः सुवर्णनाभद्याः भास्करस्येव <sup>६</sup>मानवः ॥ १४१ ॥  
 पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान् परीतः कनकप्रभः । स्वराज्यं पालयन्नेवं सुखेनान्येद्युःशुद्धधीः ॥ १४२ ॥  
 मनोहरवने धर्मं श्रीधराजिनपुङ्गवान् । श्रुत्वा संयोज्य साम्राज्यं सुनौ संयम्य निर्वृतः ॥ १४३ ॥  
 पद्मनाभश्च तत्रैव गृहीतोपासकव्रतः । <sup>७</sup>तन्त्रावापगतव्याप्तिसमाप्त्यैः सम्प्रवर्तयन् ॥ १४४ ॥

उत्पन्न हुआ । पद्मनाभ, बालकोचित सेवा-विशेषके द्वारा निरन्तर बुद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥ १३०-१३१ ॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंका पूर्णता हो जानेपर राजाने उसे व्रत देकर विद्यागृहमें प्रविष्ट कराया ॥ १३२ ॥ सुतीन विद्वानोंके साथ रहनेवाला वह राजशुमार, दास तथा महावत आदिको दूर कर समस्त विद्याओंके सीखनेमें उद्यम करने लगा ॥ १३३ ॥ उमने इन्द्रियोंके समूहको इस प्रकार जीत रक्खा था कि वे इन्द्रियों सब रूपसे अपने विषयोंके द्वारा केवल आत्माके साथ ही प्रेम बढ़ाती थीं ॥ १३४ ॥ वह बुद्धिमान् विनयकी बुद्धिके लिए सदा बृद्धजनोंकी संगति करता था । शास्त्रोंसे निर्णय कर विनय करना कृत्रिम विनय है और स्वभाससे ही विनय करना स्वाभाविक विनय है ॥ १३५ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर गुरु और शुक्र ग्रह अत्यन्त मुशोभित होते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण कलाओंको धारण करनेवाले अतिशय सुन्दर उम राजशुमारको पाकर स्वाभाविक और कृत्रिम-दोनों प्रकारके विमान अतिशय मुशोभित हो रहे थे ॥ १३६ ॥ वह बुद्धिमान् राजशुमार सोलहवें वर्षमें यौवन प्राप्त कर ऐसा मुशोभित हुआ जैसा कि विनयवान् जितेन्द्रिय संयमी वनको पाकर मुशोभित होता है ॥ १३७ ॥ जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर उसका शिक्षक हर्षित होता है उसी प्रकार रूप, वंश, अवस्था और शिक्षामे सम्पन्न तथा विकारसे रहित पुत्रको देखकर पिता बहुत ही हर्षित हुए । उन्होंने जितेन्द्र भगवानकी पूजाके साथ उसकी विद्याकी पूजा की तथा संस्कार किये हुए रत्नके समान उमकी बुद्धि दूसरे कार्यमें लगाई ॥ १३८-१३९ ॥ जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्लपक्षके आश्रयसे कलाओंके द्वारा बालचन्द्रको पूर्ण किया जाता है उसी प्रकार बलवान् राजाने उस सुन्दर पुत्रको अनेक स्त्रियोंसे पूर्ण किया था अर्थात् उसका अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था ॥ १४० ॥ जिस प्रकार सूर्यके किरणें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियोंके सुवर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १४१ ॥ इस प्रकार पुत्र-पौत्रादिसे विरं हुए श्रीमान् और बुद्धिमान् राजा कनकप्रभ सुखसे अपने राज्यका पालन करते थे ॥ १४२ ॥  
 किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वनमें पधारं हुए श्रीधर नामक जिन-राजसे धर्मका स्वरूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-क्रमसे निर्वाण प्राप्त कर लिया ॥ १४३ ॥ पद्मनाभने भी उन्हीं जिनराजके समीप श्रावकके व्रत लिये तथा मन्त्रियोंके साथ स्वराष्ट्र

१ विनीतः ख० । २ तमविक्रियः ल० । ३ भद्राङ्गजं क०, ग०, घ० । ४ विनेता वा क०, ख०, ग०, घ० । ५ तमूर्जी वा ग० । ६ भाजनम् ग० । ७ 'तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्ताधामावापः परचिन्तनम्' ।

विश्वम्भाससंस्पर्शविनादैरतिपेशलैः । कामिनीनां कलालापैः १ सविलोकैर्विलोकनैः ॥ १४५ ॥  
 अनङ्गपूर्वरङ्गस्य पुष्पाञ्जलिनिभैः २ शुभैः । समप्रेमसमुत्पन्नैः प्रसादं प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥  
 कामकल्पद्रुमोद्भूतं परिपक्वं फलोत्तमम् । रामाप्रेमोपनीतं सा ३ सीमाऽऽसत्तस्य निवृत्तः ॥ १४७ ॥  
 प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य फलमेतदिति स्फुटम् । प्रबोधयन्नसौ मूढानुद्यद्दासिरभूत्सुखी ॥ १४८ ॥  
 सोऽपि श्रीधरसाक्षिधे बुद्ध्वा धर्मं बुधोत्तमः । संसारमोक्षयाथात्म्यमात्मन्येवमचिन्तयन् ॥ १४९ ॥  
 यावदौदयिको भावस्तावत्संस्मृतिरात्मनः । स च कर्माणि तत्कर्म तावद्यावत्सकारणम् ॥ १५० ॥  
 कारणान्यपि पञ्चैव मिथ्यात्वादीनि कर्मणः । मिथ्यात्वे सत्यवश्यं स्यात्तत्र शेषं चतुष्टयम् ॥ १५१ ॥  
 असंयमे त्रयं द्वे स्तः प्रमादे योगसञ्ज्ञकम् ४ । कपाये निःकपायस्य योग एव हि बन्धकृत् ॥ १५२ ॥  
 स्वस्मिन् स्वस्मिन् गुणस्थाने मिथ्यात्वादेर्विनाशानान् । स्वहेनोस्तच्छ्रुतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यति ॥ १५३ ॥  
 सदादित्रितयं नक्ष्यन् पश्चात्तच्च स्वकालतः । आपर्यन्तगुणस्थानात्तत्क्षयात्संस्मृतेः क्षयः ॥ १५४ ॥  
 संसारे प्रलयं याते पापे जन्मादिलक्षणे । क्षायिकैरात्मनो भावैरात्मन्यात्मा समेधते ॥ १५५ ॥  
 इति तत्त्वं जिनोऽष्टमज्ञानानोऽन्धवच्चिरम् । भ्रान्तः संसारकान्तारे दुर्गे दुःखी ५ दुरन्तके ॥ १५६ ॥  
 असंयमादिकं सर्वमुज्जित्वा कर्मकारणम् । शुद्धश्रद्धादिमोक्षाङ्गपञ्चकं समुपैम्यहम् ॥ १५७ ॥

और पर-राष्ट्रीकी नीतिका विचार करता हुआ वह सुखसे रहने लगा ॥ १४४ ॥ परस्परके समान प्रेमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूर्व रङ्गकी शुभ पुष्पाञ्जलिके समान अत्यन्त कोमल स्त्रियोंकी विनय, हँसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर वातचीत और चञ्चल चितवनोंके द्वारा वह चित्तकी परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥ १४५-१४६ ॥ कामदेव रूपी कल्प-वृक्षसे उत्पन्न हुए, स्त्रियोंके प्रेमसे प्राप्त हुए और पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मनाभके वैराग्यकी सीमा हुए थे अर्थात् इन्हीं भोगोपभोगोंसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया था ॥ १४७ ॥ ये सब भोगोपभोग पूर्वमवमें किये हुए पुण्यकर्मके फल हैं इस प्रकार मूर्ख मनुष्योंका स्पष्ट रीतिसे बतलाना हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था ॥ १४८ ॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मनाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार और मोक्षका यथार्थ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा ॥ १४९ ॥ उसने विचार किया कि 'जब तक औदयिक भाव रहता है तब तक आत्माको संसार-भ्रमण करना पड़ता है, औदयिक भाव तब तक रहता है जब तक कि कर्म रहते हैं और कर्म तब तक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विद्यमान रहते हैं ॥ १५० ॥ कर्मके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैं । उनमेंसे जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ वाक्यके चार कारण अवश्य रहते हैं ॥ १५१ ॥ जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कपाय और योग ये तीन कारण रहते हैं । जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ उसके सिवाय योग और कपाय ये दो कारण रहते हैं । जहाँ कपाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है और जहाँ कपायका अभाव है वहाँ सिर्फ योग ही बन्धका कारण रहता है ॥ १५२ ॥ अपने-अपने गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे होनेवाला बन्ध भी नष्ट हो जाता है ॥ १५३ ॥ पहले सत्ता, बन्ध और उदय नष्ट होते हैं, उनके पश्चात् चौदहवें गुणस्थान तक अपने-अपने कालके अनुसार कर्म नष्ट होते हैं तथा कर्मके नाश होनेसे संसारका नाश हो जाता है ॥ १५४ ॥ जो पाप रूप है और जन्म-मरण ही जिसका लक्षण है ऐसे संसारके नष्ट हो जानेपर आत्माके क्षायिक भाव ही शेष रह जाते हैं । उस समय यह आत्मा अपने-आपमें उन्हीं क्षायिक भावोंके साथ बढ़ता रहता है ॥ १५५ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा कहे हुए तत्त्वको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसार-रूपी दुर्गम वनमें अन्धके समान चिरकालसे भटक रहा है ॥ १५६ ॥ अब मैं असंयम आदि कर्म-बन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध श्रद्धा आदि मोक्षके पाँचों कारणोंको प्राप्त होता हूँ—धारण करता हूँ ॥ १५७ ॥

१ सविलोकैर्विलोकनैः ख० । २ निभः ल० । ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्य ख० ।

४ योगसंज्ञके ल० । ५ दुःखे ख० ।

इत्यन्तस्तत्त्वतो ज्ञात्वा पद्मनाभो हिताहिते । दत्त्वा सुवर्णनाभाय <sup>१</sup>प्राभवं बाह्यसम्पदः ॥ १५८ ॥  
 राजभिर्बहुभिः सार्धं संयमं प्रतिपद्य सः । समाचरंश्चतुर्भेदे प्रसिद्धे मुक्तिसाधने ॥ १५९ ॥  
 द्व्यष्टकारणसम्प्राप्तभावनां नामतीर्थकृतम् । स्वीकृत्यैकादशाङ्गाब्धिपारगः परमं तपः ॥ १६० ॥  
 सिंहनिःक्रीडिनाद्युग्रं विधायाबुधदुस्तरम् <sup>२</sup> । कालान्ते सम्यगाराध्य समुत्सृष्टशरीरकः ॥ १६१ ॥  
 वैजयन्ते त्रयत्रिंशत्सागरायुरजायत । पूर्वोक्तदेहेलेश्यादिविशेषो दिव्यसौख्यभाक् ॥ १६२ ॥  
 तस्मिन् पण्मासशेषायुष्या <sup>३</sup>गमिष्यति भूतले । द्रौपेऽस्मिन् भारते वर्षे नृपश्चन्द्रपुराधिपः <sup>४</sup> ॥ १६३ ॥  
 इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्भुतोदयः । महासेनो महादेवी लक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे ॥ १६४ ॥  
 वसुधारां सुरैः प्राप्ता देवाभिः परिवारिता । दिव्यवस्त्रखगालेषशयनाद्रिसुखोचिता ॥ १६५ ॥  
 चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां स्वप्नान् यामननोहरे । दृष्ट्वा षोडश संतुष्य समुत्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥  
<sup>५</sup>पुण्यप्रसाधनोपेता <sup>६</sup>स्वक्वत्रापितसम्पदा । स्वप्नान् सिंहासनासीनं स्वानवाजीगमत् पतिम् ॥ १६७ ॥  
 सोऽपि स्वावधिबोधेन तन्फलानि पृथक् पृथक् । राज्यै निवेदयामास सापि सन्तोषसम्भृता ॥ १६८ ॥  
 कान्ति लज्जां धृतिं कान्तिं बुद्धिं सौभाग्यसम्पदम् । श्रीह्रीधृत्यादिदेवीषु वर्धयन्तीषु सन्ततम् ॥ १६९ ॥  
<sup>७</sup>पौपासितैकदृश्यां सा शक्रयोगे सुराचितम् । अहमिन्द्रमनक्यांभं त्रिबोधमुपपादयत् ॥ १७० ॥  
 नर्दवाभ्येय नाकीशो महामन्दरमस्तके । सिंहासनं समारोप्य मुस्ताप्य क्षीरवारिभिः ॥ १७१ ॥

इस प्रकार अन्तरङ्गमें हिताहितका यथार्थ स्वरूप जानकर पद्मनाभने बाह्य सम्पदाओंकी प्रभुता सुवर्णनाभके लिए दे दी और बहुतसे राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली । अब वह भोक्षके कारण भूत चारों आराधनाओंका आचरण करने लगा, सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तन करने लगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीर्थकर नामत्रमका ग्रन्थ किया । जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिंहनिःक्रीडित आदि कठिन तप उसने किये और आयुके अन्तमें समाधिमरण-पूर्वक शरीर छोड़ा जिसमें वैजयन्त विमानमें तीर्त्सा मागरकी आयुका धारक अहमिन्द्र हुआ । उसके शरीरका प्रमाण तथा लेश्यादिकी विशेषता पहले कहे अनुसार थी । इस तरह वह दिव्य सुखका उपभोग करना हुआ रहता था ॥ १५८-१६२ ॥

तदनन्तर जब उसकी आयु लहकरी धाकी रह गई तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक चन्द्रपुर नामका नगर था । उसमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री तथा आश्वर्यकारी वैभवको धारण करनेवाला महासेन नामका राजा राज्य करता था । उसकी महादेवीका नाम लक्ष्मणा था । लक्ष्मणाने अपने घरके आंगनमें देवोंके द्वारा बरसाई हुई रत्नोंकी धारा प्राप्त की थी । श्री ह्री आदि देवियाँ सदा उसे घेरे रहती थीं । देवोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा शय्या आदिके सुखोंका समुचित उपभोग करनेवाली रानीने चैत्रकृष्ण पञ्चमीके दिन पिछली रात्रिमें सोलह स्वप्न देखकर संतोष लाभ किया । सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वस्त्राभरण धारण किये तथा प्रसन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये ॥ १६३-१६७ ॥ राजा महासेनने भी अवधिज्ञानसे उन स्वप्नोंका फल जानकर रानीके लिए पृथक्-पृथक् वतलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥ १६८ ॥ श्री ह्री धृति आदि देवियाँ उसकी कान्ति, लज्जा, धैर्य, कीर्ति, बुद्धि और सौभाग्य-सम्पत्तिको सदा बढ़ाती रहती थीं ॥ १६९ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पौषकृष्ण एकादशीके दिन शक्रयोगमें देव पूजित, अचिन्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १७० ॥ उसी समय इन्द्रने आकर महासेरुकी शिखर पर विद्यमान सिंहासन पर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया, तीन लोकके राज्यकी कण्ठी बाँधी और फिर प्रसन्नतासे हजार

१ प्रभावं राज्यसम्पदः ग० । प्राभवं राज्यसंपदः क०, ख०, घ० । २ विधायांबुधदुस्तरम् ल० ।

३ शेषायुष्या क० । ४ चण्डपुराधिपः क०, घ० । ५ पुण्यप्रसाधनोपेता क०, ख०, ग०, घ० ।

६ स्वक्वत्रापितसंभवा क० । ७ पौषे मिलैकादश्यन्ते ग० ।

विभूष्य भूषणैः सर्वैर्बद्ध्वा त्रैलोक्यकण्ठिकाम् । मुदा वीक्ष्य सहस्राक्षो व्यवहारप्रसिद्धये ॥ १७२ ॥  
 कुलं कुवलयस्थास्य सम्भवे व्यकसत्तराम् । यतस्ततश्चकाराख्यां सार्थां चन्द्रप्रभं प्रभोः ॥ १७३ ॥  
 आनन्दनाटकं चास्य निर्वर्त्ताप्रे शचीपतिः । पुनरानीय तत्पित्रोरर्पयित्वा जगत्पतिम् ॥ १७४ ॥  
 भोगोपभोगयोर्गोखवस्तुभिः परिचर्यताम् । भगवानिति सन्दिश्य यक्षेशं स्वाश्रयं ययौ ॥ १७५ ॥  
 प्रबोधमहतां स्त्रीत्वमपि निन्द्यं जगत्पतेः । लोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्यां लक्ष्मणामिभाम् ॥ १७६ ॥  
 पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा देवाश्चापन् महाफलम् । स्त्रीतेदृशी वरिष्ठेति मेनिरेऽनिमिषाङ्गनाः ॥ १७७ ॥  
 गतेऽनन्तरसन्ताने सागरोपमकोटिभिः । शतैर्नवभिरेपोऽभूत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥  
 शून्यषट्कैकपूर्वायुः सार्द्धं चापशतोच्छ्रितः । अवर्द्धन्तेव शान्तांशुः कलाशेषो जगन्नुतः ॥ १७९ ॥  
 इतः स्वामिंस्त्वमेहीति कुतूहलविलासिनी । प्रसारितकरन्यस्ततलाम्भोजसमाश्रयः ॥ १८० ॥  
 अकारणसमुद्भूतस्मितकान्तमुखाम्बुजः । कदाचिन्प्रस्वलत्पादविन्यासो मणिकुट्टिमे ॥ १८१ ॥  
 इत्यादितद्वयोयोग्यमुग्धशुद्धविचेष्टितैः । नीत्वा बाल्यं स कौमारमाप प्रार्थ्यं सुखार्थिभिः ॥ १८२ ॥  
 अमृतैस्तनुमेतस्य कृतां मन्यामहे वयम् । वेधसेति जनालापाः प्रवर्तन्ते स्म कौतुकात् ॥ १८३ ॥  
 आधिक्याद्भावलेश्येव निर्गतेवेक्षयाप्रिया । द्रव्यलेश्या व्यवसासिष्ट जित्वा पूर्णेन्दुजद्युतिम् ॥ १८४ ॥  
 यशसा लेश्यया चास्य ज्योतिषां छादिता द्युतिः । भोगभूमिर्निवृत्तेति प्रतोपमकरोज्जनः ॥ १८५ ॥ॐ

नेत्र बनाकर उन्हें देखा । उनके उत्पन्न होते ही यह कुवलय अर्थात् पृथ्वी-मण्डलका समूह अथवा नील-कमलोंका समूह अत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए उनका 'चन्द्रप्रभ' यह सार्थक नाम रक्खा ॥ १७१-१७३ ॥ इन्द्रने इन त्रिलोकीनाथके आगे आनन्द नामका नाटक किया । तदनन्तर उन्हें लाकर उनके माता-पिताके लिए सौंप दिया ॥ १७४ ॥ 'तुम भोगोपभोगकी योग्य वस्तुओंके द्वारा भगवानकी सेवा करो' इस प्रकार कुवेरके लिए संदेश देकर इन्द्र अपने स्थान पर चला गया ॥ १७५ ॥ यद्यपि विद्वान लोग स्त्री-पर्यायको निन्द्य बतलाते हैं तथापि लोगोंका कल्याण करनेवाले जगत्पति भगवानको धारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्यवनी है, बड़ी ही पवित्र है, इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान फलको प्राप्त हुए थे तथा 'इस प्रकारकी स्त्री-पर्याय श्रेष्ठ हैं' ऐसा देवियोंने भी स्वीकृत किया था ॥ १७६-१७७ ॥

भगवान् सुपार्श्वनाथके मोक्ष जानेके बाद जब नौ सौ करांड सागरका अन्तर वीत चुका तब भगवान् चन्द्रप्रभ उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी ॥ १७८ ॥ दश लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, एक सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था, द्वितीयके चन्द्रमाकी तरह वे बढ़ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था ॥ १७९ ॥ 'हे स्वामिन् ! आप इधर आइये' इस प्रकार कुतूहलवश कोई देवी उन्हें बुलाती थी । वे उसके फैलाये हुए हाथों पर कमलोंके समान अपनी हथेलियाँ रख देते थे । उस समय कारणके बिना ही प्रकट हुई मन्द मुसकानसे उनका मुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था । वे कभी मणिजटित पृथिवी पर लड़खंडाते हुए पैर रखते थे ॥ १८०-१८१ ॥ इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य भोलीभाली शुद्ध चेष्टाओंसे बाल्यकालको बिताकर वे सुखाभिलाषी मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८२ ॥ उस समय वहाँके लोगोंमें कौतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम ऐसा समझते हैं कि विधाताने इनका शरीर अमृतसे ही बनाया है ॥ १८३ ॥ उनकी द्रव्य लेश्या अर्थात् शरीरकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको जीतकर ऐसी मुशोभित हो रही थी मानो बाह्य वस्तुओंको देखनेके लिए अधिक होनेसे भाव लेश्या ही बाहर निकल आई हो ॥ भावार्थ—उनका शरीर शुक्त था और भाव भी शुक्त-उज्ज्वल थे ॥ १८४ ॥ उनके यश और लेश्यासे ज्योतिषी देवोंकी कान्ति छिप गई

१-स्तनुरेतस्य क०, ष० ।

\*१८५ तमश्लोकादप्रे क०-ख०-ग०-घ०-पुस्तकेष्वयं श्लोकोऽधिको वर्तते, ल० पुस्तके नास्ति—  
 'आत्राल्यादेष पीयूषभोजी तेन तनुद्युतिः । अमानुषी हताशेषद्युतिरित्यब्रवीज्जनः' ॥

द्युतिस्तस्य द्युतिर्वाभात् मिश्रिता रविचन्द्रयोः । तत्सदा व्यकसन्मन्ये पद्मानि कुमुदान्यपि ॥ १८६ ॥  
 कुन्दहासा गुणास्तस्य चन्द्रस्येवांशवोऽमलाः । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुवलयवलिम् ॥ १८७ ॥  
 सहोत्पत्तौ श्रियोऽनेन सोदर्येन्दोरिति श्रुतिः । अजानद्भिर्जनैरेतदन्यथा परिकल्पितम् ॥ १८८ ॥  
 चन्द्रस्येवोदयेऽस्यापि<sup>१</sup> सर्वसन्तापहारिणः । ह्लादते भासते वर्द्धते स्म लोको निराकुलः ॥ १८९ ॥  
 एनस्यैव गुणैर्लक्ष्मी<sup>२</sup> मन्ये कीर्तिश्च निर्मला । कारणानुगुणं कार्यमिति सत्यं भवेद्यदि ॥ १९० ॥  
 महाविभूतिसम्पन्नः<sup>३</sup> सज्जमजनमङ्गलः । सालङ्कारक्रियो<sup>४</sup> वेलां कदाचिदनयत् कृती ॥ १९१ ॥  
 वीणावाद्येन हृद्येन गीतैर्मुर्जवादनैः<sup>५</sup> । कदाचिद्धनदानीतभूषावस्त्रावलोकनैः ॥ १९२ ॥  
 वादिप्रवाद्युपन्यस्तपक्षादिसुपरीक्षणैः । कुतूहलेक्षणायातभव्यलोकान्मदर्शनैः ॥ १९३ ॥  
 धर्मादयो व्यवर्द्धत गुणाः पापाद्ययाक्षयम् । कौमारेऽस्मिन् स्थितेऽप्येवं किं वाच्यं संयमे सति ॥ १९४ ॥  
 इति द्विलक्षपञ्चाशत्सहस्रप्रमितैर्गैतैः । पूर्वं राज्याभिषेकाप्या परमानन्दसुन्दरः ॥ १९५ ॥  
 नावता मण्डलं राहोः स्वहस्ततलसस्मितम् । किं तेजोऽर्कस्य तेजोऽस्य तेजस्त्रैलोक्यरक्षणः ॥ १९६ ॥  
 शक्रादयोऽपि कैङ्कर्यं जन्मनः प्राग्वहन्ति चेत् । ऐश्वर्यादिभिरेपोऽन्यैर्बृहत्तैः कैरुपमीयताम् ॥ १९७ ॥  
 तले कपोलयोः स्त्रीणां छेदे वा दन्तिदन्तयोः । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुखं सुखमेयिवान् ॥ १९८ ॥

थी इसलिये 'भोगभूमि लौट आई है' यह समझ कर लोग संतुष्ट होने लगे थे ॥ १८५ ॥ ( ये बाल्य अवस्थासे ही अमृतका भोजन करते हैं अतः इनके शरीरकी कान्ति मनुष्योंसे भिन्न है तथा अन्य सबकी कान्तिको पराजित करती है । ) उनके शरीरकी कान्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो सूर्य और चन्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल और कुमुद दोनों ही खिले रहते थे ॥ १८६ ॥ कुन्दके फूलोंकी हँसी उड़ानेवाले उनके गुण चन्द्रमाकी चिरणोंके समान निर्मल थे । इसीलिए तो वे भव्य जीवोंके मनरुपी नीलकमलोंके समूहको विकसित करते रहते थे ॥ १८७ ॥ लक्ष्मी इन्हींके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिये वह इन्हींकी बहिन थी । 'लक्ष्मी चन्द्रमाकी बहिन है' यह जो लोकमें प्रसिद्धि है वह अज्ञानी लोगोंने मिथ्या कल्पना कर ली है ॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर यह लोक हर्षित हो उठता है, सुशोभित होने लगता है और निराकुल होकर बढ़ने लगता है उसी प्रकार सब प्रकारके संतापको हरनेवाले चन्द्रप्रभ भगवान्का जन्म होने पर यह सारा संसार हर्षित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर बढ़ रहा है ॥ १८९ ॥ 'कारणके अनुकूल ही कार्य होता है' यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना पड़ता है कि इनकी लक्ष्मी और कीर्ति इन्हींके गुणोंसे निर्मल हुई थीं । भावार्थ—उनके गुण निर्मल थे अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी ॥ १९० ॥ जो बहुत भारी विभूतिसे सम्पन्न हैं, जो स्नान आदि माङ्गलिक कार्योंसे सजे रहते हैं और अलङ्कारोंसे सुशोभित हैं ऐसे अतिशय कुशल भगवान् कभी मनोहर वीणा बजाते थे, कभी मृदङ्ग आदि वाजोंके साथ गाना गाते थे, कभी कुबेरके द्वारा लाये हुए आभूषण तथा वस्त्र आदि देखते थे, कभी वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा उपस्थापित पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे और कभी कुतूहलवश अपना दर्शन करनेके लिए आये हुए भव्य जीवोंको दर्शन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे ॥ १९१-१९३ ॥ जब भगवान् कौमार अवस्थामें ही थे तभी धर्म आदि गुणोंकी वृद्धि हो गई थी और पाप आदिका क्षय हो गया था, फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है ? ॥ १९४ ॥ इस प्रकार दो लाख पचास हजार पूर्व व्यतीत होने पर उन्हें राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही हर्षित तथा सुन्दर जान पड़ते थे ॥ १९५ ॥ जो अपनी हथेलीप्रमाण मण्डलकी राहुसे रक्षा नहीं कर सकता ऐसे सूर्यका तेज किस कामका ? तेज तो इन भगवान् चन्द्रप्रभका था जो कि तीन लोककी रक्षा करते थे ॥ १९६ ॥ जिनके जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किङ्करता स्वीकृत कर लेते हैं ऐसे अन्य ऐश्वर्य आदिसे विरे हुए इन चन्द्रप्रभ भगवान्को किसकी उपमा दी जावे ? ॥ १९७ ॥ वे

१ चन्द्रस्येवोदयेऽस्यापि ल० । २ मान्या ल० । ३ मान्यमजनमङ्गलः ल०, ग० । सज्जं सावधानीकृतं मज्जनं मङ्गलस्नानं यस्य सः इतिक-पुस्तके टिप्पणी । ४ सालङ्कारक्रियां ल० । ५ मुर्जवादिभिः ल० ।



विलोकिनीनां कान्तानामुन्मुकानां विलासकृत् । त्यागीव स सुखी जातः स्ववक्त्ररसतर्पणात् ॥ १९९ ॥  
 नान्तरायः परं तस्य कान्तावक्त्राब्जवीक्षणे । जातपङ्केरुहाशङ्केर्भ्रमद्भिर्भ्रमरैर्विना ॥ २०० ॥  
 मधुपैश्वर्यलैर्युक्तायुक्ताविचारकैः । मलिनैः किमकर्तव्यं प्रवेशो यदि लभ्यते ॥ २०१ ॥  
 खचतुष्केन्द्रियतृकैः पूर्वंः साम्राज्यसम्पदः । चतुर्विंशतिपूर्वाङ्गैः सम्मितौ क्षणवन्सुखम् ॥ २०२ ॥  
 सत्यां प्रयाति कालेऽसावलङ्कारगुहेऽन्यदा । प्रपश्यन् वदनाम्भोजं दर्पणागतमात्मनः ॥ २०३ ॥  
 'तन्नावधार्यनिर्वेदहेतु' कञ्चिन्मुखे स्थितम् । पातुकः पश्य कायोऽयमीतयः प्रीतयोऽप्यमूः ॥ २०४ ॥  
 किं सुखं यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीश्रेयि चला । किं यौवनं यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि ॥ २०५ ॥  
 सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चेद्वियोगपुरस्सरः । स एवाहं न एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥  
 प्रीतिः सैवानुभूतिश्च वृत्तिश्चास्यां भवावनौ<sup>३</sup> । परिवृत्तमिदं सर्वं पुनः पुनरनन्तरम् ॥ २०७ ॥  
 तत्र किं जातमप्येककाले किं वा भविष्यति । इति जानन्नहं चास्मिन्मोसुहीमि मुहुर्मुहुः ॥ २०८ ॥  
 अनित्ये नित्यबुद्धिर्मे दुःखे सुखमिति स्मृतिः । अशुचौ शुचिरित्यास्था परत्रान्ममतिर्यथा ॥ २०९ ॥  
 अविद्यथैवमाक्रान्तो दुरन्ते भववारिधौ । चतुर्विंशोरुदुःखोऽप्रदुर्गदैराहितश्चिरम् ॥ २१० ॥  
 इत्यथेनायतेनैवमायासित इवाकुलः । काललब्धि परिप्राप्य क्षुण्णमार्गजिहासया ॥ २११ ॥  
 गुणाढ्यं भावुको भाविकेवलावगमादिभिः । स्मरन्कित्याप सन्मत्या<sup>४</sup>सफल्येव समागमम्<sup>५</sup> ॥ २१२ ॥

स्त्रियोंके कपोल-नलमें अथवा हाथी-दाँतके टुकड़ोंमें कामदेवसे मुसकाता हुआ अपना मुख देखकर सुखी होते थे ॥ १९८ ॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी होता है उसी प्रकार शृङ्गार चेष्टाओंको करने वाले भगवान्, अपनी ओर देखनेवाली उन्मुक स्त्रियोंके लिए अपने मुखका रस समर्पण करनेसे सुखी होते थे ॥ १९९ ॥ सुखमें कमलकी आशङ्का होनेसे जो पास हीमें मँडरा रहे हैं ऐसे भ्रमरोंको छोड़कर स्त्रीका मुख-कमल देखनेमें उन्हें और कुछ बाधक नहीं था ॥ २०० ॥ चञ्चल सत्पण, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले और मलिन मधुप-भ्रमर भी (पक्षमें मद्य-पायी लोग भी) जब प्रवेश पा सकते हैं तब संसारमें ऐसा कार्य ही कौन है जो नहीं किया जा सकता हो ॥ २०१ ॥ इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छह लाख पचास हजार पूर्व तथा चौबीस पूर्वाङ्गका लम्बा समय सुख पूर्वक क्षणभरके समान बीत गया तब वे एक दिन आभूषण धारण करनेके घरमें दर्पणमें अपना मुख-कमल देख रहे थे ॥ २०२-२०३ ॥ वहाँ उन्होंने मुख पर स्थित किसी वस्तुको वैराग्यका कारण निश्चित किया और इस प्रकार विचार करने लगे । 'देखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी ईतिके समान दुःखदायी है ॥ २०४ ॥ वह सुख ही क्या है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या है जो चञ्चल हो, वह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जानेवाला हो, और वह आयु ही क्या है जो अवधिसे सहित हो—सान्त हो ॥ २०५ ॥ जिसके आगे वियोग होनेवाला है ऐसा बन्धुजनोंके साथ समागम किस कामका ? मैं वही हूँ, पदार्थ वही है, इन्द्रियाँ भी वही हैं, प्रीति और अनुभूति भी वही है, तथा प्रवृत्ति भी वही है किन्तु इस संसारकी भूमिमें यह सब बार-बार बदलता रहता है ॥ २०६-२०७ ॥ इस संसारमें अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होनेवाला है यह मैं जानता हूँ, फिर भी बार बार मोहको प्राप्त हो रहा हूँ यह आश्चर्य है ॥ २०८ ॥ मैं आज तक अनित्य पदार्थोंको नित्य समझता रहा, दुःखको सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थोंको पवित्र मानता रहा और परको आत्मा जानता रहा ॥ २०९ ॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हुआ यह जीव, जिसका अन्त अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाररूपी सागरमें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयङ्कर रोगोंके द्वारा चिरकालसे पीड़ित हो रहा है ॥ २१० ॥ इस प्रकार काल-लब्धि को पाकर संसारका मार्ग छोड़नेकी इच्छासे वे बड़े लम्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुल हो गये थे ॥ २११ ॥ आगे

१ स्ववक्त्रसंतर्पणात् ल० ( इन्दोभङ्गः ) । २ तदावधार्य ल० । ३ भवावलौ ल० । ४ सकल्पेव ल० । ५ समागमे ल० ।

दीक्षालक्ष्याः स्वयं प्राप्ता सद्बुद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रबुद्धतत्त्वं तं प्रपद्य सुरसंयताः ॥ २१३ ॥  
यथोचितमभिष्टुत्य ब्रह्मलोकं पुनर्ययुः । नृपोऽपि वरचन्द्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ २१४ ॥  
विनिःक्रमणकल्याणपूजां प्राप्य सुरेश्वरैः । आरुह्य सुरसन्धार्यां शिविकां विमलाङ्गयात् ॥ २१५ ॥  
दिनद्वयोपवासित्वा वने सर्वतुंकाह्वये । <sup>१</sup>पौषे मास्यनुराधायामेकादश्यां महीभुजाम् ॥ २१६ ॥  
सहस्रेणाप्य नैर्ग्रन्थं मनःपर्ययमाप्तवान् । <sup>२</sup>द्वितीये दिवसे तस्मै पुरे नलिननामनि ॥ २१७ ॥  
सोमदत्तो नृपो गौरः प्रदायाहारमुत्तमम् । पुण्यानि नव सम्प्राप्य वसुधारादिपञ्चकम् ॥ २१८ ॥  
सुरैस्तद्दानसन्तुष्टैरापितं स्वीचकार सः । धृत्वा व्रतानि सम्पाल्य समितीस्त्यक्तदण्डकः ॥ २१९ ॥  
निगृहीतकषायारिर्वर्द्धमानविशुद्धिभाक् । त्रिगुसः शीलसम्पन्नो गुणी प्रोक्ततपोद्वयः ॥ २२० ॥  
वस्तुवृत्तिवचोभेदाच्चरन्त्येण भावयत् । दशप्रकारधर्मस्थः षोडशेषपरीषहः ॥ २२१ ॥  
अनित्याशुचिदुःखत्वं स्मरन् कायादिकं मुहुः । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परमं योगमाश्रितः ॥ २२२ ॥  
श्रीन् भासान् जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षावनान्तरे । अधस्ताद्भागवृक्षस्य स्थित्वा पद्योपवासनृत् ॥ २२३ ॥  
फाल्गुने कृष्णसप्तम्यामनुराधापराङ्मुके । प्रागेव निहिताशेषश्रद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२४ ॥  
करणत्रयसंयोगात् क्षपकश्रेणिमाश्रितः । स्फुरन्तुरीयचारिश्रो द्रव्यभावविकल्पतः ॥ २२५ ॥  
<sup>३</sup>शुक्लध्यानान्दसद्भ्यात्या मोहारातिं निहत्य सः । <sup>४</sup>सावगाढदृग्योऽभाद् विचतुष्कादिभास्करः ॥ २२६ ॥

होनेवाले केवलज्ञानादि गुणोंसे मुझे समृद्ध होना चाहिए...ऐसा स्मरण करते हुए वे द्रुतीके समान सद्बुद्धिके साथ समागमको प्राप्त हुए थे ॥ २१२ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेवाली उनकी सद्बुद्धि अपने आप दीक्षा-लक्ष्मीको प्राप्त हो गई थी । इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्त्वको समझ लिया है ऐसे भगवान् चन्द्रप्रभके समीप लौकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तुति कर ब्रह्मस्वर्गको वापिस चले गये । तदनन्तर महाराज चन्द्रप्रभ भी वरचन्द्र नामक पुत्रका राज्याभिषेक कर देवोंके द्वारा की हुई दीक्षा-कल्याणककी पूजाको प्राप्त हुए और देवोंके द्वारा उठाई हुई विमला नामकी पालकीमें सवार होकर सर्वतुंक नामक वनमें गये । वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर पौष कृष्ण एकादशीके दिन अनुराधा नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ निग्रन्थ दीक्षा कर ली । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया । दूसरे दिन वे चर्याके लिए नलिन नामक नगरमें गये । वहाँ गौर वर्णवाले सोमदत्त राजाने उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक उत्तम आहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देवोंके द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पञ्चाश्रय प्राप्त किये । भगवान् अहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंको धारण करते थे, ईर्ष्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, मन वचन कायकी निरर्थक प्रवृत्ति रूप तीन दण्डोंका त्याग करते थे ॥ २१३-२१६ ॥ उन्होंने कषायरूपी शत्रुका निग्रह कर दिया था, उनकी विशुद्धता निरन्तर बढ़ती रहती थी, वे तीन गुणियोंसे युक्त थे, शील सहित थे, गुणी थे, अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों तपोंको धारण करते थे, वस्तु वृत्ति और वचनके भेदसे निरन्तर पदार्थका चिन्तन करते थे, उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंमें स्थित रहते थे, समस्त परिषह सहन करते थे, यह शरीरादि पदार्थ अनित्य हैं, अशुचि हैं और दुःख रूप हैं ऐसा वार-वार स्मरण रखते थे तथा समस्त पदार्थोंमें माध्यस्थ्य भाव रखकर परमयोगको प्राप्त हुए थे ॥ २२०-२२२ ॥ इस प्रकार जिन-कल्प-मुद्राके द्वारा तीन माह वितारकर वे दीक्षावनमें नागवृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर स्थित हुए । वह फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके सायंकालका समय था और उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदय था । सम्यग्दर्शनको घातनेवाली प्रकृतियोंका तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया अब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करणरूप तीन परिणामोंके संयोगसे क्षपकश्रेणीको प्राप्त हुए । वहाँ उनके द्रव्य तथा भाव दोनों ही रूपसे चौथा सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥ २२३-२२५ ॥ वहाँ उन्होंने प्रथम शुक्लध्यानके प्रभावसे मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया जिससे उनका सम्यग्दर्शन अवगाढ सम्यग्दर्शन हो गया ।

१ पौषमास्यनु-ल० । २ द्वितीयदिवसे ल० । ३ धर्मध्यानेदसद्भ्यात्या ल०, ग०, घ०, क० ।  
४ सावगाढदृगन्त्यायो ल० । सावगाढदृगन्त्येऽयो ल० ।

द्वितीयशुक्लध्यानेन घातित्रितयघातकः । जीवस्यैवोपयोगाख्यो गुणः शोषेष्वसम्भवात् ॥ २२७ ॥  
 घातीति नाम तद्घातादभूदेषचतुष्टये । भवातिष्वपि केपाञ्चिदेव तत्र विलोपनात् ॥ २२८ ॥  
 परावगाढं सम्यक्त्वं चर्यान्त्यां ज्ञानदर्शने । दानादिपञ्चकं प्राप्य सयोगः सकलो जिनः ॥ २२९ ॥  
 सर्वज्ञः सर्वलोकेशः सार्वः सर्वैकरक्षकः । सर्वदक् सर्वदेवेन्द्रवन्द्यः सर्वार्थदेसकः ॥ २३० ॥  
 चतुर्दिशदतीशेषविशेषविभवोदयः । प्रातिहार्याष्टकव्यक्तीकृततीर्थकरोदयः ॥ २३१ ॥  
 देवदेवः समस्तेन्द्रमुकुटोटाङ्घ्रिप्रह्वजः । स्वप्रभाह्लादिताशेषविश्वो लोकविभूषणः ॥ २३२ ॥  
 गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्तृतेः । प्रबोधकः स्थितो ब्योस्मि श्रीमान् चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३३ ॥  
 क्रौर्यधुर्येण शौर्येण यदहः सञ्चितं परम् । सिंहैर्हेतुं स्वजातेर्वा व्युदं तस्यासनं व्यभात् ॥ २३४ ॥  
 केवलद्युतिरैवैव मूर्तिजातेव भास्वरा । देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्य शोभते ॥ २३५ ॥  
 चामरैरामरैरेष प्रभाप्रकटितार्यातः । हंसांसधवलैर्गाङ्गातरङ्गैरिव सेव्यते ॥ २३६ ॥  
 ध्वनिरेकोऽपि दिव्योऽस्य प्रकाशो वांशुमालिनः । द्रष्टृणां सर्वभावानां संश्रोत्राणां प्रकाशकः ॥ २३७ ॥  
 त्रिभिः शिवं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत् । मोक्षमार्गः पृथग्भूतो भाति छत्रत्रयं विभोः ॥ २३८ ॥  
 भाति पिण्डीद्रुमो भर्तुरशोकः संश्रयादहम् । इत्याविष्कृतरागो वा पल्लवैः प्रसवैरपि ॥ २३९ ॥

उम समय चार ज्ञानोसे देदीप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान् अत्यन्त मुशोभित हो रहें थे ॥ २२६ ॥ वारहवें गुणस्थानके अन्तमें उन्होंने द्वितीय शुक्लध्यानेके प्रभावसे मोहानिरिक्त तीन घातिया कर्माका क्षय कर दिया । उपयोग जीवका ही ग्वास गुण है क्योंकि वह जीवके सिवाय अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अन्नराय कर्म जीवके उपयोग गुणका घात करते हैं इसलिये घातिया कहलाते हैं । उन भगवानके घातिया कर्माका नाश हुआ था और अघातिया कर्मांसे भी कितनी ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था । इस प्रकार वे परमावगाह सम्यग्दर्शन, अन्तिम यथाख्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान, दर्शन तथा ज्ञानादि पाँच लब्धियों पाकर शरीर सहित सयोगकेवली जिनेन्द्र हो गये ॥ २२७-२२८ ॥ उम समय वे सर्वज्ञ थे, समस्त लोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे, सबके एक मात्र रक्षक थे, सर्वदर्शी थे, समस्त इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय थे और समस्त पदार्थोंका उपदेश देनेवाले थे ॥ २३० ॥ चौनीम अनिशयोंके द्वारा उनके विशेष वैभवका उदय प्रकट हो रहा था और आठ प्रातिहार्योंके द्वारा तीर्थंकर नामकर्मका उदय व्यक्त हो रहा था ॥ २३१ ॥ वे देवोंके देव थे, उनके चरण-कमलोंको समस्त इन्द्र अपने मुकुटों पर धारण करते थे, अपनी प्रभासे उन्होंने समस्त संसारको आनन्दित किया था, तथा वे समस्त लोकके आभूषण थे ॥ २३२ ॥ गति, जीव, समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण आदिकेविस्तारका ज्ञान करानेवाले श्रीमान् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र आकाशमें स्थित थे ॥ २३३ ॥ सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा मुशोभित हो रहा था कि सिंह जातिने क्रूरता-प्रधान शूर-वीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए मानो उन्होंने भगवानका सिंहासन उठा रक्खा था ॥ २३४ ॥ समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती हुई उनके शरीरकी प्रभा ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवलज्ञानकी कान्ति ही तदाकार हो गई हो ॥ २३५ ॥ हंसोंके कंधोंके समान सफेद देवोंके चामरोंसे जिनकी प्रभाकी दीर्घता प्रकट हो रही है ऐसे भगवान् ऐसे जान पड़ते थे मानो गङ्गानदीकी लहरें ही उनकी सेवा कर रही हों ॥ २३६ ॥ जिस प्रकार सूर्यका एक ही प्रकाश देखनेवालोंके लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देता है उसी प्रकार भगवानकी एक ही दिव्यध्वनि सुननेवालोंके लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देती थी ॥ २३७ ॥ भगवान्का छत्रत्रय ऐसा मुशोभित हो रहा था मानो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र रूप मोक्षमार्ग जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्षकी प्राप्ति हम तीनोंसे ही हो सकती है अन्यसे नहीं ॥ २३८ ॥ लाल-लाल अशोक वृक्ष ऐसा मुशोभित हो रहा था मानो भगवान्के आश्रय-

१ यदहः ग०, ल० । २ चमरै-ल० । ३ द्रष्टृणां सर्वभावानां संश्रोत्राणां प्रकाशकः ल०, ग० । नराणां सर्वभावानां संश्रोत्राणां प्रकाशकः ल० ।

अभान् सुमनसां वृष्टिः पतन्ती नभसो विभुम् । तारावलिनिवायान्ती सेवितुं भक्तिनिर्भरा ॥२४०॥  
 देवदुन्दुभयो बाढं दध्नुस्तजिताब्धयः । दिशः श्रावयितुं वास्य मोहारातिजयं विभोः ॥ २४१ ॥  
 अभादस्य प्रभामध्ये प्रसन्नं वक्त्रमण्डलम् । नाकनद्यामिवाम्भोजमिव वा बिम्बमैन्दवम् ॥ २४२ ॥  
 श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये चतुर्भिस्त्रिगुणैर्गणैः । तारागणैः शरच्चन्द्र इव सेव्यो व्यराजत ॥ २४३ ॥  
 दत्तादित्रिनवत्युक्तगणेशः खत्रयद्विस-<sup>१</sup> । श्लोकपूर्वधरः शून्यत्रिकाष्टावधिलोचनः ॥ २४४ ॥  
 शून्यद्वयचतुःशून्यद्विक<sup>२</sup>पक्षाक्तशिक्षकः । खचतुष्कैकनिदिष्टकेवलानामाग्रणीः ॥ २४५ ॥  
 चतुर्दशसहस्रोक्तविक्रियद्विभूषितः । खत्रयाष्टचतुर्ज्ञानपरिवत्परिवारितः ॥ २४६ ॥  
 खद्वयर्वादिवादीशः सर्वसाहद्विलक्षकः । खचतुष्काष्टवह्युक्तवरुणाद्यार्थिकानुतः ॥ २४७ ॥  
 त्रिलक्षणश्रावकाभ्यर्च्यः श्राविकापञ्चलक्षकः । असङ्ख्यदेवदेवीड्यन्तिर्यक्सङ्ख्यातसेवितः<sup>३</sup> ॥ २४८ ॥  
 प्रादक्षिण्येन भव्येशं परीत्यैते गणाः पृथक् । स्वकोष्ठेष्ववतिष्ठन्ति विहिताअलिकुडमलाः ॥ २४९ ॥  
 तत्राकृत्रिमसम्भूतभक्तिभारानतः स्फुरन् । मुकुटाग्रमणिः स्तोत्रं द्वितीयेन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ २५० ॥  
 रत्नत्रयेण येनासं रत्नत्रयमनुत्तरम् । त्वं देह्यस्मभ्यमप्युच्चैः सरत्नत्रयसम्पदम् ॥ २५१ ॥  
 स्वार्थः सागरमेरूणां परार्थः कल्पभूरुहाम् । देव स्वार्थः परार्थश्च महिमा महत्तस्तव ॥ २५२ ॥  
 ददासि परमं सौख्यमित्यस्तु भवतः "स्तवः । नन्द नन्देति देवस्य साधितात्मार्थसम्पदः ॥ २५३ ॥

से ही मैं अशोक-शोकरहित हुआ हूँ अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फूलोंके द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हूँ ॥ २३६ ॥ आकाशसे पड़नी हुई फूलोंकी वर्षा ऐसी मुशोभित हो रही थी मानो भगवानकी सेवा करनेके लिए भक्तिसे भरी हुई ताराओंकी पंक्ति ही आ रही हो ॥ २४० ॥ समुद्रकी गर्जनाकी जीतनेवाले देवोंके नगाड़े ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे मानो वे दिशाओंको यह मुना रहे हों कि भगवानने मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है ॥ २४१ ॥ उनकी प्रभाके मध्यमें प्रसन्नतासे भरा हुआ मुख-मण्डल ऐसा मुशोभित होना था मानो आकाशागङ्गामें कमल हा खिल रहा हो अथवा चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब ही हो ॥ २४२ ॥ जिस प्रकार तारागणोंसे सेवित शरद्-ऋतुका चन्द्रमा मुशोभित होना है उसी प्रकार बारह सभाओंसे सेवित भगवान् गन्धकुटीके मध्यमें मुशोभित हो रहे थे ॥ २४३ ॥ उनके दत्त आदि तेरानव गणधर थे, दो हजार पूर्वधारी थे, आठ हजार अवधिद्वानी थे, दो लाख चार सौ शिक्षक थे; दश हजार केवलज्ञानी थे । वे चौदह हजार विक्रिया-ऋद्धिके धारक मुनियोंसे विभूषित थे, आठ हजार मनःपर्यय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार छह सौ वादियोंके स्वामी थे । इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या अढ़ाई लाख थी । वरुणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ उनकी स्तुति करती थीं । तीन लाख श्रावक और पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं । वे असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यञ्च उनकी सेवा करते थे ॥ २४३-२४८ ॥ ये सब बारह सभाओंके जीव प्रदक्षिणा रूपसे भव्योंके स्वामी भगवान् चन्द्रप्रभको घेरे हुए थे, सब अपने-अपने कोठोंमें बैठे थे और सभी कमलके मुकुलके समान अपने-अपने हाथ जोड़े हुए थे ॥ २४६ ॥

उसी समय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारसे नम्र हो रहा है और जिसके मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए मणि देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥ २५० ॥ वह कहने लगा कि हे भगवन् ! जिस रत्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट रत्नत्रय प्राप्त किया है वही रत्नत्रय-सम्पत्ति आप मुझे भी दीजिये ॥ २५१ ॥ हे देव ! समुद्र और सुमेरु पर्वतकी महिमा केवल अपने लिए हैं तथा कल्पवृक्षकी महिमा केवल परके लिए है परन्तु सबसे बड़े ऐसे आपकी महिमा अपने तथा दूसरे दोनोंके लिए है ॥ २५२ ॥ हे भगवन् ! आप परम सुखके देनेवाले हैं ऐसी आपकी स्तुति तो दूर ही रही, अपने आत्मतत्त्व रूपी संपदाको सिद्ध करनेवाले आप सदा समृद्धिमान् हों

त्वद्ब्रह्मो वाचि धर्मस्ते हृदि वृत्तिस्तनी भवेत् । यस्य स त्वाद्दशो भूत्वा परमानन्दमनुते ॥ २५४ ॥

स्वयैवैकेन कर्मारिन् भुवनत्रयविद्विषः । शुक्लध्यानासिना हत्वा मुक्तिसाम्राज्यमर्जितम् ॥ २५५ ॥

त्वत्पादपादपोद्भूतसान्द्रच्छायां समाश्रिताः । पापार्करोगधर्मोऽग्रदुःखसन्तापवृग्गाः ॥ २५६ ॥

सागरोऽनन्तकान्तारं संसारः सर्वदेहिनाम् । त्वन्मताश्रितभव्यानां गोष्पदं नन्दनं वनम् ॥ २५७ ॥

फलं त्रिलोकसाम्राज्यं क्लेशकृच्चरणस्मृतिः । लोकस्तत्रापि मन्देच्छो न वेत्ति हितमात्मने ॥ २५८ ॥

आधाराधेयभावोऽयमनन्यसदृशस्तव । अधःस्थं जगदाधेयमाधारस्त्वं तदग्रिमः ॥ २५९ ॥

वेदकोऽसि न वेद्योऽसि न पाल्योऽस्यसि पालकः । कर्तासि नासि कार्यस्त्वं न पोष्योऽस्यसि पोषकः ॥ २६० ॥

त्वां नमन्नुत्तमः स्तोता गुरुश्च गुणगौरवान् । अनमन् तप्यते पापैरस्तुवन् शप्यते सदा ॥ २६१ ॥

नास्तिकाः पापिनः केचिद् दैष्टिकाश्च हतोद्यमाः । त्वदीयास्त्वास्तिका धर्म्याः परत्र विहितोद्यमाः ॥ २६२ ॥

सर्वत्र सर्वदा सर्वं सर्वैस्त्वं सर्वसर्ववित् । प्रकाशयति नैवेन्दुर्भानुर्वाण्येषु का कथा ॥ २६३ ॥

समृद्धिमान हों, मैं यहीं स्तुति करना हूँ ॥ २५३ ॥ जो मनुष्य आपके वचनको अपने वचनोंमें, आपके धर्मको अपने हृदयमें और आपकी प्रवृत्तिको अपने शरीरमें धारण करता है वह आप जैसा ही होकर परम आनन्दको प्राप्त होता है ॥ २५४ ॥ हे नाथ ! आप अकेले ही शुक्लध्यान रूपी तलवारके द्वारा तीनों लोकोंसे द्वेष रखनेवाले कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त कर लिया है ॥ २५५ ॥ हे प्रभो ! जो आपके चरणरूपी वृक्षसे उत्पन्न हुई सघन छायाका आश्रय लेते हैं वे पापरूपी सूर्यके रोगरूपी घामके तीव्र दुःखरूपी संतापसे दूर रहते हैं ॥ २५६ ॥ हे देव ! यह संसार, समस्त जीवोंके लिए या तो समुद्र है या अनन्त वन है परन्तु जो भव्य आपके मतका आश्रय लेते हैं उनके लिए गायका मुर है अथवा नन्दन वन है ॥ २५७ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपके चरणोंका स्मरण करनेसे बुद्ध क्लेश अवश्य होता है परन्तु उसका फल तीनों लोकोंका साम्राज्य है । आश्रय है कि ये संसारके प्राणी उम महान् फलमें भी मन्द इच्छा रखते हैं इससे जान पड़ता है कि ये अपनी आत्माका हित नहीं जानते ॥ २५८ ॥ हे प्रभो ! आपका यह आधाराधेय भाव अनन्यसदृश है—सर्वथा अनुपम है क्योंकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है और उसके ऊपर रहनेवाले आप आधार हैं । भावार्थ—जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और जो उसके ऊपर रहती है वह आधेय कहलाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है । दूसरे पक्षमें यह अर्थ है कि आप जगत्के रक्षक हैं अतः आधार हैं और जगत् आपकी रक्षाका विषय है अतः आधेय है ॥ २५९ ॥ आप सबको जानते हैं परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने जाते, आप सबके रक्षक हैं परन्तु आप किसीके द्वारा रक्षा करने योग्य नहीं हैं, आप सबके करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके जाननेवाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं हैं और आप सबका पोषण करने वाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा पोषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ॥ २६० ॥ जो आपको नमस्कार करता है वह उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है वह गुणोंके गौरवसे गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता है इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोंसे संतप्त होता है और जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सदा निन्दाको प्राप्त होता है ॥ २६१ ॥ हे भगवन् ! इस संसारमें कितने ही लोग नास्तिक हैं—परलोककी सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए स्वच्छन्द होकर तरह-तरहके पाप करते हैं और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं परन्तु आपके भक्त लोग नास्तिक हैं—परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैं इसलिए 'परलोक विगड़ न जावे' इस भयसे सदा धार्मिक क्रियाएँ करते हैं और परलोकके सुधारके लिए सदा उद्यम करते हैं ॥ २६२ ॥ सबका हित करनेवाले और सबको जाननेवाले आप सब जगह सब समय सब पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं । ऐसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है और न सूर्य ही,

न स्थिरं क्षणिकं ज्ञानमात्रं शून्यमनीक्षणम्<sup>१</sup> । वस्तु प्रतिक्षणं तत्त्वान्वयस्वरूपं तवैक्षण्यम् ॥ २६४ ॥  
 अस्त्यात्मा बोधसद्भावत्परजन्मास्ति तत्सृष्टेः । सर्वविश्वास्ति धीबुद्धेस्त्वदुपज्ञमिदं त्रयम् ॥ २६५ ॥  
 द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं गुणस्याप्यवदद्विधीः । गुणैः परिणतिं द्रव्यस्यावादीस्त्वं यथार्थदृक् ॥ २६६ ॥  
 भ्रमतीपा प्रभा भाति देव देहस्य तंऽनिशम् । चन्द्रप्रभेति नामेदमपरीक्ष्य हरिव्यर्थात् ॥ २६७ ॥  
 इति शब्दार्थगम्भीरस्तवनेन सुराधिपः । चिरं सपुण्यमात्मानं बहुमेने स हृष्टधीः ॥ २६८ ॥  
 अथ चन्द्रप्रभः स्वामी धर्मतीर्थं प्रवर्तयन् । सर्वान् देशान् विहृत्यार्यान् सम्मेदतलमाप्तवान् ॥ २६९ ॥  
 विहारमुपसंहृत्य मासं सिद्धशिलातले । प्रतिमायोगमास्थाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ २७० ॥  
 फाल्गुने शुक्लसप्तम्यां ज्येष्ठाचन्द्रेऽपराह्लके । तृतीयशुक्लध्यानेन कृतयोगनिरोधकः ॥ २७१ ॥  
 अयोगपदमासाद्य तुर्यशुक्लेन निर्हरन् । शेषकर्माणि निर्लुप्तशरीरः परमोऽभवत् ॥ २७२ ॥  
 सुरा निर्वाणकल्याणपूजाविधिधियायिनः । पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम् ॥ २७३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

सम्पूर्णः किमयं शरच्छशधरः किं वाषितोऽर्पणः

सर्वाथावगतैः किमेव विलसत्पीयूषपिण्डः पृथुः ।

किं पुण्याणुमयश्चयोऽयमिति यद्वक्त्राम्बुजं शङ्कयते

सोऽयं चन्द्रजिनस्तमो व्यपहरन्तंहाभयाद्रक्षतात् ॥ २७४ ॥

फिर, अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या है ? ॥२६३॥ हे भगवन् ! कोई भी वस्तु न नित्य है, न क्षणिक है, न ज्ञानमात्र है और न अदृश्य होनेसे शून्य रूप है किन्तु आपके दर्शनसे प्रत्येक वस्तु तत्त्व और अतत्त्व रूप—अस्ति और नास्ति रूप है ॥ २६४ ॥ आत्मा है, क्योंकि उसमें ज्ञानका सद्भाव है, आत्मा दूसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, और आत्मा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती है । हे भगवन् ! ये नीनों ही सिद्धान्त आपके ही कहे हुए हैं ॥ २६५ ॥ जिस प्रकार एक द्रव्यमें दूसरा द्रव्य जुदा है उसी प्रकार द्रव्यसे गुण भी जुदा है ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं परन्तु आपने कहा है कि द्रव्यका परिणामन गुणोंसे ही होता है अर्थात् द्रव्यसे गुण सर्वथा जुदा पदार्थ नहीं है । इसीलिए आप यथार्थदृष्टा हैं—आप पदार्थके स्वरूपको ठीक-ठीक देखते हैं ॥ २६६ ॥ हे नाथ ! चन्द्रमाकी प्रभा तो राहुसे तिरोहित हो जाती है परन्तु आपके शरीरकी प्रभा बिना किसी प्रतिबन्धके रात-दिन प्रकाशित रही आती है अतः इन्द्रने जो आपका 'चन्द्रप्रभ' ( चन्द्रमा जैसी प्रभावाला ) नाम रक्खा है वह बिना परीक्षा किये ही रख दिया है ॥ २६७ ॥ इस प्रकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही गम्भीर हैं ऐसे स्तवनेसे प्रसन्न बुद्धिके धारक इन्द्रने अपने आपको चिरकालके लिए बहुत ही पुण्यवान् माना था ॥ २६८ ॥

अथानन्तर चन्द्रप्रभ स्वामी समस्त आर्य देशोंमें विहार कर धर्म-तीर्थकी प्रवृत्ति करते हुए सम्मेदशिखर पर पहुँचे ॥ २६९ ॥ वहाँ वे विहार बन्द कर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर एक माह तक सिद्धशिला पर आरूढ रहे ॥ २७० ॥ और फाल्गुन शुक्ल सप्तमीके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निरोध कर चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए तथा चतुर्थ शुक्ल-ध्यानके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो गये ॥ २७१-२७२ ॥ उसी समय निर्वाण-कल्याणककी पूजाकी विधिको करनेवाले देव आये और पुण्यरूपी पण्य—खरीदने योग्य पदार्थको लेकर अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ २७३ ॥

'क्या यह शरद्वक्रनुका पूर्ण चन्द्रमा है, अथवा समस्त पदार्थोंको जाननेके लिए रक्खा हुआ दर्पण है, अथवा अमृतका शोभायमान विशालपिण्ड है अथवा पुण्य परमाणुओंका समूह है' इस प्रकार जिनके मुख-कमलको देखकर लोग शङ्का किया करते हैं वे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र अज्ञानान्धकारको

लेश्या यस्य मृणालनालधवला श्लाघ्योभया<sup>१</sup> शोभते

यस्यास्येन्दुरहदिवं कुवलयार्हादं विधरो भुवम् ।


यद्वोधोज्ज्वलदर्पणे त्रिसमर्थं जीवादिकं लक्ष्यते

स श्रीमान् दिशताच्छ्रियं जिनपतिर्नष्टाष्टकर्माष्टकः ॥ २७५ ॥

श्रीवर्मा श्रीधरो देवोऽजितसेनोऽच्युताधिपः । पद्मनाभोऽहमिन्द्रोऽस्मान् पातु चन्द्रप्रभः प्रभुः ॥ २७६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्द्रप्रभपुराणं


परिसमाप्तं चतुःपञ्चाशत्तमं पत्रं ॥ ५४ ॥



नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करें ॥ २७४ ॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी लेश्याएँ कमलकी मृणालके समान सफेद तथा प्रशंसनीय मुशोभित हैं, जिनका मुखरूपी चन्द्रमा रात-दिन कुवलय—पृथिवी-मण्डल अथवा नील कमलोंके समूहको हर्षित करता रहता है, जिनके ज्ञानरूपी निर्मल दर्पणमें त्रिकालसम्बन्धी जीवाजीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं और जिन्होंने अष्ट कर्मोंका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे मोक्ष-लक्ष्मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ २७५ ॥ जो पहले श्रीवर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अजितसेन हुए, तत्पश्चात् अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए, फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर अष्टम तीर्थकर हुए, ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ २७६ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण

संग्रहमें चन्द्रप्रभ पुराणका वर्णन करनेवाला चौवनवाँ पत्र समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥



## पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व

विधाय विपुले मार्गे विनेयांश्रामले स्वयम् । स्वयं च सुविधियोंऽभूद् विधेयान्नः स तं विधिम् ॥ १ ॥  
 पुष्करार्द्धेन्द्रदिग्भागे<sup>१</sup> मन्दरप्राग्विदेहभाक् । सीतासरिदुदक्कूले विषयः पुष्कलावती ॥ २ ॥  
 तत्राभूत्पुण्डरीकिण्यां महीपद्मो महीपतिः । दोर्दण्डखण्डितारातिमण्डलश्चण्डविक्रमः ॥ ३ ॥  
 पुराणमपि सन्मार्गं स स्ववृत्त्याऽकरोन्नवम् । पाश्र्वत्यानां तु तद्वृत्त्या पुराणः सोऽभवत्पुनः ॥ ४ ॥  
 सम्पोष्य पालयामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा । प्रस्तुता निजसारेण तं सदा समतर्पयत् ॥ ५ ॥  
 स्वानुरक्तान् जनान् सर्वान् स्वगुणैः स व्यधान् सुधीः । ते च तं प्रीणयन्ति स्म प्रत्यहं सर्वभावतः ॥ ६ ॥  
 शेषाः प्रकृतयस्तेन विहिता वद्विताश्च याः । स्वेन स्वेनांपकारेण ताश्चैनं वृद्धिमानयन् ॥ ७ ॥  
 अवर्द्धन्त गुणास्तन्मिन् सद्वृत्ते शास्त्रशालिनि । मुनिवल्लघसंस्कारा बभूवश्च मणयो यथा ॥ ८ ॥  
 विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाश्रितैः । स्वोऽन्वभूच्चिरमच्छिन्नं सन्तः साधारणश्रियः ॥ ९ ॥  
 वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रस्थानं पृवायं दण्ड्याभावात्प्रजागुणात् ॥ १० ॥  
 रतिरच्छिन्नसन्ताना तस्य भोग्याश्च<sup>२</sup> तादृशाः । तस्मात्स्वसुखविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकः<sup>३</sup> ॥ ११ ॥

जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोक्षमार्गमें अनेक शिष्योंको लगाया और स्वयं लगे एवं जो सुविधि रूप हैं—उत्तम मोक्षमार्गकी विधि रूप हैं अथवा उत्तम पुण्यसे सहित हैं वे सुविधि-नाथ भगवान् हम सबके लिए सुविधि—मोक्षमार्गकी विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें ॥ १ ॥ पुष्करार्धद्वीपके पूर्व दिग्भागमें जो मेरु पर्वत है उसके पूर्वविदेहक्षेत्रमें सीतानदीके उत्तर तट पर पुष्कलावती नामका एक देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें महापद्म नामका राजा राज्य करता था । उस राजाने अपने भुजदण्डोंसे शत्रुओंके ममूह खण्डित कर दिये थे, वह अत्यन्त पराक्रमी था, वह किसी पुराने मार्गको अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देता था और फिर आगे होनेवाले लोगोंके लिए वही नया मार्ग पुराना हो जाता था ॥ २-४ ॥ जिस प्रकार कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोषण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे दूध देती हुई सदा संतुष्ट रखती है उसी प्रकार वह राजा अपनी पृथिवीका भरण-पोषण कर उसकी रक्षा करता था और वह पृथिवी भी द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनेमें उत्पन्न होनेवाले रत्न आदि श्रेष्ठ पदार्थोंके द्वारा उस राजाको संतुष्ट रखती थी ॥ ५ ॥ वह बुद्धिमान् सब लोगोंको अपने गुणोंके द्वारा अपनेमें अनुरक्त बनाता था और सब लोग भी सब प्रकारसे उस बुद्धिमानको प्रसन्न रखते थे ॥ ६ ॥ उसने मंत्री पुरोहित आदि जिन कार्य-कर्ताओंको नियुक्त किया था तथा उन्हें बढ़ाया था वे सब अपने-अपने उपकारोंसे उस राजाको सदा बढ़ाते रहते थे ॥ ७ ॥ जिस प्रकार मुनियोंमें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस सदाचारी और शास्त्रज्ञानसे सुशोभित राजामें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हुए मणि सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उस राजामें अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे ॥ ८ ॥ वह राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग कर अपने आश्रित परिवारके साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लक्ष्मीका उपभोग करता रहा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष लक्ष्मीको सर्वसाधारणके उपभोगके योग्य समझते हैं ॥ ९ ॥ नीतिके जाननेवाले राजाको इन्द्र और यमके समान कहते हैं परन्तु वह पुण्यात्मा इन्द्रके ही समान था क्योंकि उसकी सब प्रजा गुणवती थी अतः उसके राज्यमें कोई दण्ड देनेके योग्य नहीं था ॥ १० ॥ उसके सुखकी परम्परा निरन्तर बनी रहती थी और उसके भोगोपभोगके योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी वह राजा अपने सुखके विरहको कभी



इति स्वपुण्यमाहात्म्यसम्पादितमहोत्सवः । स कदाचिन्महेश्वर्यं श्रुत्वा स्ववनपालकान् ॥ १२ ॥  
जिनं मनोहरोद्याने स्थितं भूतहिताह्वयम् । गत्वा विभूत्या भूतेषां त्रिः परीण्य कृतार्चनः ॥ १३ ॥  
वन्दित्वा स्वोचितस्थाने स्थित्वा मुकुलिताञ्जलिः । आकर्ण्य धर्ममुत्पन्नबोधिवरेवमचिन्तयत् ॥ १४ ॥  
आत्मायमात्मनात्मायमात्मन्याविष्कृतासुखम् । विधायानादिकालीनमिथ्यात्वोदयदूषितः ॥ १५ ॥  
उन्मादीव मदीवान्धो वावेशी वाविचारकः । यद्यदात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचरँश्चिरम् ॥ १६ ॥  
भ्रमित्वा भवकान्तारे प्रभ्रष्टो निर्बृतेः पथः । हृत्यतोऽनुभवान्नीत्वा मुक्तिमार्गप्रपित्सया ॥ १७ ॥  
सूनवे धनदाख्याय वित्तीयैश्वर्यमात्मनः । प्राञ्जाजीद् बहुभिः सार्द्धं राजभिर्भवभीरुभिः ॥ १८ ॥  
क्रमादेकादशाङ्गाविधपारगो भावनापरः । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १९ ॥  
विशत्यत्यब्ध्युपमात्तायुः सार्द्धं हस्तप्रयोच्छ्रुतिः । शुक्ललेदयः श्वसन् मासैर्दशभिर्दशभिर्बली ॥ २० ॥  
स्मरन् सहस्रविंशत्या वत्सराणां तनुस्थितिम् । मानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्तधूमप्रभावधिः ॥ २१ ॥  
विक्रियाबलतेजोभिः स्वावधिक्षेत्रसम्मितः । उक्त्वाष्टगुणैश्वर्यः प्राणतेन्द्रोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥  
दीर्घं तत्र सुखं भुक्त्वा तस्मिन्नागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥  
इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यां क्षत्रियाग्रिमः । सुग्रीवोऽस्य महादेवी जयरामेति रम्यभाः ॥ २४ ॥  
सा देवैर्वसुधारादिपूजां प्राप्य पराधिकाम् । फाल्गुने मूलनक्षत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥  
प्रभाते षोडश स्वप्नान् दरनिद्राविलेक्षणा । विलोक्य तत्फलान्यात्मपतेर्ज्ञात्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ॥

जानता ही नहीं था ॥ ११ ॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बढ़ते रहते हैं ऐसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने वनपालसे सुना कि मनोहर नामक उद्यानमें महान् ऐश्वर्यके धारक भूतहित नामके जिनराज स्थित हैं । वह उनकी वन्दनाके लिए बड़े वैभवसे गया और समस्त जीवोंके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, वन्दना की तथा हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर बैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और वह इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १२-१४ ॥ अनादि कालीन मिथ्यात्वके उदयसे दूषित हुआ यह आत्मा, अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागलकी तरह अथवा मतबालेकी तरह अन्या हो रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारी हो रहा है । जो जो कार्य आत्माके लिए अहितकारी हैं मोहोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हींका आचरण करता चला आ रहा है । संसाररूपी अटवीमें भटक-भटक कर यह मोक्षके मार्गसे भ्रष्ट हो गया है । इस प्रकार चिन्तन कर वह संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्षमार्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे धनद नामक पुत्रके लिए अपना ऐश्वर्य प्रदान कर संसारसे डरनेवाले अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया ॥ १५-१८ ॥ क्रम-क्रमसे वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया, सोलह कारण भावनाओंके चिन्तनमें तत्पर रहने लगा और तीर्थकर नामकर्मका बन्ध कर अन्तमें उसने समाधिमरण धारण किया ॥ १९ ॥ समाधिमरणके प्रभावसे वह प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ । वहाँ बीस सागरकी उसकी आयु थी, साढ़ेतीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्लेश्या थी, दश-दश माहमें श्वास लेता था, बीस हजार वर्ष बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धूम्रप्रभा पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, विक्रिया बल और तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके बराबर थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उक्त्वाष्ट गुणोंसे उसका ऐश्वर्य बढ़ा हुआ था ॥ २०-२२ ॥ वहाँका दीर्घ सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रकी काकन्दी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री सुग्रीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था । सुन्दर कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पट्टरानी थी ॥ २३-२४ ॥ उस रानीने देवोंके द्वारा अतिशय श्रेष्ठ रत्नवृष्टि आदि सम्मानको पाकर फाल्गुनकृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूलनक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुल्ल-कुल्ल बाकी बची हुई निद्रासे मलिन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे ।

मार्गशीर्षे सिते पक्षे जैत्रयोगे तमुत्तमम् । प्रासूत प्रतिपद्याशु तदैत्येन्द्राः सहामरैः ॥ २७ ॥  
 क्षीराभिषेकं भूपान्ते पुष्पदन्ताख्यमद्रुवन् । कुन्दपुष्पप्रभाभासि देहदीप्या विराजितम् ॥ २८ ॥  
 सागरोपमकोटीनां नवत्यामन्तरे गते । एष चन्द्रप्रभस्याभूत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २९ ॥  
 पूर्वलक्षद्वयात्प्रायुः शतचापसमुच्छ्रितः । लक्षार्द्धपूर्वकालेऽस्य कौमारमगमत् सुखम् ॥ ३० ॥  
 अथाप्य पूज्यं साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिर्विभुः । अन्वभूत्सुखमाश्लिष्टमिष्टैः शिष्टैरभिष्टुतः ॥ ३१ ॥  
 कान्ताभिः करणैः सर्वैरमुष्मादपिऽयत्सुखम् । ताभ्योऽनेन तयोः कस्य बहुत्वं कथ्यतां बुधैः ॥ ३२ ॥  
 पुण्यवानस्त्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यर्णनिर्वाणसुखमेनमरीरमन् ॥ ३३ ॥  
 यः स्वर्गसारसौख्याब्धिभग्नः सन् भुवमागतः । तान्येव भोग्यवस्तूनि यानि तं चाभ्यलाषयन् ॥ ३४ ॥  
 अनन्तशोऽहमिन्द्रन्वं प्राप्य तेनाप्यतृप्तवान् । सुखेनानेन चेदेप तृप्तः सौख्येष्विदं सुखम् ॥ ३५ ॥  
 अष्टाविंशतिपूर्वाङ्गयुतलक्षार्द्धपूर्वकं । राज्यकाले गते प्रीत्या कुर्वतो दिग्विलोकनम् ॥ ३६ ॥  
 आपतन्तीं विलोक्योल्कामस्यासीदादृशी मतिः । दीपिकेऽयं ममानादिमहामोहनमोऽपहा ॥ ३७ ॥  
 इति तद्धेतुसम्भूतविमलावगमात्मकः । स्वयंबुद्धां विबुद्धः सन् तत्त्वमेवं विभावयन् ॥ ३८ ॥  
 स्पष्टमद्य मया दृष्टं विश्वमेतद्विडम्बनम् । कर्मेन्द्रजालिकेनैवं विपर्यस्य प्रदर्शितम् ॥ ३९ ॥

स्वप्न देखकर उसने अपने पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्षित हुई ॥ २५-२६ ॥  
 मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदाके दिन जैत्रयोगमें उस महादेवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय  
 इन्द्रोंने देवोंके साथ आकर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहिनाय और  
 कुन्दके फूलके समान कान्तिसे मुशोभित शरीरकी दीप्तिसे विराजित उन भगवान्का पुण्यदन्त नाम  
 रक्खा ॥ २७-२८ ॥ श्री चन्द्रप्रभ भगवान्के बाद जब नववै करोड़ सागरका अन्तर बीन चुका था  
 तब श्री पुष्पदन्त भगवान् हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥ २९ ॥ दो लाख  
 पूर्वकी उनकी आयु थी, सौ धनुष ऊँचा शरीर था और पचास लाख पूर्व तक उन्होंने कुमार-अवस्था-  
 के सुख प्राप्त किये थे ॥ ३० ॥

अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिसे पूज्य समझते हैं ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त भग-  
 वान्ने इष्ट पदार्थोंके संयोगसे युक्त सुखका अनुभव किया । उस समय बड़े-बड़े पूज्य पुरुष उनकी  
 स्तुति किया करते थे ॥ ३१ ॥ सब स्त्रियोंसे, इन्द्रियोंसे और इस राज्यसे जो भगवान् मुविधिनाथको  
 सुख मिलता था और भगवान् मुविधिनाथसे उन स्त्रियोंको जो सुख मिलता था उन दोनोंमें विद्वान्  
 लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहें ? ॥ ३२ ॥ भगवान् पुण्यवान् रहें किन्तु मैं उन स्त्रियोंको भी  
 बहुत पुण्यात्मा समझता हूँ क्योंकि मोक्षका सुख जिनके समीप है ऐसे भगवान्को भी वे प्रसन्न  
 करती थीं—क्रीड़ा कराती थीं ॥ ३३ ॥ वे भगवान् स्वर्गके श्रेष्ठ सुख-रूपी समुद्रमें भग्न रहकर पृथिवी  
 पर आयें थे अर्थात् स्वर्गके सुखोंसे उन्हें संतोष नहीं हुआ था इसलिए पृथिवी पर आयें थे । इससे  
 कहना पड़ता है कि यद्यार्थ भोग्य वस्तुएँ वही थीं जो कि भगवान्को अभिलाषा उत्पन्न कराती थीं—  
 अच्छी लगती थीं ॥ ३४ ॥ जो भगवान् अनन्त वार अहमिन्द्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए वे  
 यदि मनुष्य-लोकके इस सुखसे संतुष्ट हुए तो कहना चाहिए कि सब सुखोंमें यही सुख प्रधान था  
 ॥ ३५ ॥ इस प्रकार प्रेम-पूर्वक राज्य करते हुए जब उनके राज्य-कालके पचास हजार पूर्व और  
 अष्टाईस पूर्वाक बीत गये तब वे एक दिन दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे । उसी समय उल्का-  
 पात देखकर उनके मनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं है किन्तु मेरे अनादि-  
 कालीन महामोह रूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली दीपिका है ॥ ३६-३७ ॥ इस प्रकार उस उल्काके  
 निमित्तसे उन्हें निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । वे स्वयंबुद्ध भगवान् इस निमित्तसे प्रतिबुद्ध  
 होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार विड-

कामशोकभयोन्मादस्वप्नचौर्याद्युपद्रुताः । असत्सदिति पश्यन्ति पुरतो वा व्यवस्थितम् ॥ ४० ॥  
 न स्थास्तु न शुभं किञ्चिन्न सुखं मे न किञ्चन । ममाहमेव मरतोऽन्यद्वन्यदेवाखिलं जगत् ॥ ४१ ॥  
 अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपितम् । तथापि कोऽप्ययं मोहादाग्रहो विग्रहादिषु ॥ ४२ ॥  
 अहं मम शुभं नित्यं सुखमित्यतथात्मसु । अस्मादेव विपर्यासाद् भ्रान्तोऽहं भववारिधौ ॥ ४३ ॥  
 जन्मदुःखजरामृत्युमहामकरभीकरे । इति साम्राज्यलक्ष्मीं स तितिक्षुरभवत्तदा ॥ ४४ ॥  
 क्षिप्त्वा लौकान्तिकावाप्तपूजो राज्यभरं सुते । सुमतौ प्राप्तकल्याणः सुरेन्द्रैः परिवारितः ॥ ४५ ॥  
 आरुह्य शिविकां सूर्यप्रभाभ्यां पुष्पके वने । मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रतिपद्यपराह्वके ॥ ४६ ॥  
 दीक्षां षष्ठोपवासेन ससहस्रनृपोऽगृहीत् । मनःपर्ययसंज्ञानो द्वितीयेऽह्नि प्रविष्टवान् ॥ ४७ ॥  
 चर्यां शैलपुरे पुष्पमित्रश्रामीकरच्छविः । तत्र तं भोजयित्वाऽऽप पञ्चाश्रयाणि पाथिवः ॥ ४८ ॥  
 एवं तपस्यतो याताः छाद्यस्थेन चतुःसमाः । मूलर्क्षे कार्तिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ४९ ॥  
 दिनद्वयोपवासः सन्नधस्तान्नागभूरुहः । दीक्षावने विधृताद्यः प्रासानन्तचतुष्टयः ॥ ५० ॥  
 त्रतुविधामराधीशविहितातर्क्यवैभवः । सुनिरूपितविश्वार्थदिव्यध्वनिविराजितः ॥ ५१ ॥  
 विदर्भनाममुख्याप्याश्रीतिसप्तद्विसंयुतः । शून्यद्वयेन्द्रियैकोक्तश्रुतकेवलनायकः ॥ ५२ ॥  
 खद्वयेन्द्रियपञ्चेन्द्रियैकशिक्षकरक्षकः । शून्यद्वयाब्धिकर्मोक्तत्रिज्ञानधरसेवितः ॥ ५३ ॥  
 शून्यत्रयमुनिप्रोक्तकेवलज्ञानलोचनः । खत्रयत्र्यैकनिर्णतविक्रियद्विवेष्टितः ॥ ५४ ॥  
 शून्यद्वयेन्द्रियद्वयुक्तमनःपर्ययबोधनः । शून्यद्वयर्तुपट्प्रोक्तवादिवन्वाङ्घ्रिमङ्गलः ॥ ५५ ॥

स्वना रूप है । कर्मरूपी इन्द्रजालिया ही इस उल्टा कर दिखलाया है ॥ ३८-३९ ॥ काम, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न और चोरी आदिसे उपद्रुत हुए प्राणी सामने रक्वे हुए असत् पदार्थको सत् समझने लगते हैं ॥ ४० ॥ इस संसारमें न तो कोई वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली है और न कोई पदार्थ मेरा है, मेरा तो मेरा आत्मा ही है, यह सारा संसार मुझसे जुदा है और मैं इससे जुदा हूँ, इन दो शब्दोंके द्वारा ही जो कुछ कहा जाता है वही सत्य है, फिर भी आश्चर्य है कि मोहोदयसे शरीरादि पदार्थोंमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है ॥ ४१-४२ ॥ शरीरादिक ही मैं हूँ, मेरा सब सुख शुभ है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थोंमें जो मेरी पिपर्यय-बुद्धि हो रही है उसीसे मैं अनेक दुःख देनेवाले जरा, मरण और मृत्यु रूपी बड़े-बड़े मकरोसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण कर रहा हूँ । ऐसा विचार कर वे राज्य-लक्ष्मीको छोड़नेकी इच्छा करने लगे ॥ ४३-४४ ॥ लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की । उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंप दिया, इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घेर लिया ॥ ४५ ॥ वे उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मार्गशीर्षके शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय बेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय-ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहारके लिए शैलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने उन्हें भोजन कराकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ४६-४८ ॥ इस प्रकार छद्मस्थ अवस्थामें तपस्या करते हुए उनके चार वर्ष बीत गये । तदनन्तर कार्तिक शुद्ध द्वितीया-के दिन सायंकालके समय मूल-नक्षत्रमें दो दिनका उपवास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित हुए और उसी दीक्षावनमें घातिया कर्मरूपी पापकर्मोंका नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो गये ॥ ४९-५० ॥ चतुर्णिकाय देवोंके इन्द्रोंने उनके अचिन्त्य वैभवकी रचना की—समवसरण बनाया और वे समस्त पदार्थोंका निरूपण करनेवाली दिव्यध्वनिसे सुशोभित हुए ॥ ५१ ॥ वे सात ऋद्धियोंको धारण करनेवाले विदर्भ आदि अट्ठासी गणधरोसे सहित थे, पन्द्रह सौ श्रुतकेवलियोंके स्वामी थे; एक लाख पचपन हजार पाँच सौ शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ अवधि-ज्ञानियोंसे सेवित थे, सात हजार केवलज्ञानियों और तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारकोंसे वेष्टित थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानियों और छह हजार छह सौ वादियोंके द्वारा उनके मङ्गलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंके स्वामी थे, घोषार्याको आदि लेकर तीन लाख


पिण्डतपिद्विलक्षणः खचतुष्काष्टवह्निमान् । घोषायांघायिकोपेतो द्विलक्षणश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥  
 श्राविकापञ्चलक्षार्च्यः सङ्ख्यातीतमरुद्गणः । तिर्यक्सङ्ख्यातसम्पन्नो गौरीत्येभिरचितः ॥ ५७ ॥  
 विहृत्य विषयान् प्राप्य सम्मेदं रुद्धयोगकः । मासे भाद्रपदेऽप्यस्यां शुक्ले मूले पराङ्कके ॥ ५८ ॥  
 सहस्रमुनिभिः सार्द्धं मुक्तिं सुविधिराप्तवान् । निलम्बाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥

### स्रग्धरा

दुर्गं मार्गं परेषां सुगममभिगमात्स्वस्य शुद्धं व्यधाद्यः  
 प्राप्तुं स्वर्गापवर्गौ सुविधिसुपशमं चेतसा विभ्रतां तम् ।  
 भक्तानां मोक्षलक्ष्मीपतिमतिविकसत्पुष्पदन्तं भदन्तं  
 भास्वन्तं दन्तकान्त्या प्रहसितवदनं पुष्पदन्तं ननामः ॥ ६० ॥

### वसन्ततिलका

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं  
 सर्वोपकारि तव देव ततो भवन्तम् ।  
 संसारमारवमहास्थलरुद्रसान्द्र-  
 छायामहीरुहमिमे सुविधिं श्रयामः ॥ ६१ ॥  
 यांऽजायत क्षितिभृद्भद्र महादिपद्यः  
 पश्चाद्भूदिवि चतुर्दशकल्पनाथः ।  
 प्रान्ते बभूव भरते सुविधिनृपेन्द्र-  
 स्तीर्थेश्वरः स नवमः कुरुताच्चिद्व्यं वः ॥ ६२ ॥  
 इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा-  
 वसति पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५५ ॥



अस्सी हजार आर्यिकाओंसे सहित थे, दो लाख श्रावकोंसे युक्त थे, पाँच लाख श्राविकाओंसे पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात तिर्यञ्चोंसे सम्पन्न थे । इस तरह वारह सभाओंसे पूजित भगवान् पुष्पदन्त आर्य देशोंमें बिहार कर सम्मेदशिखर पर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रशुक्ल अष्टमीके दिन मूल नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हो गये । देव आये और उनका निर्वाण-कल्याणक कर स्वर्ग चले गये ॥ ५२-५६ ॥

जिन्होंने स्वयं चलकर मोक्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, जिन्होंने चित्तमें उपशम भावको धारण करनेवाले भक्तोंके लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त करनेकी उत्तम विधि बतलाई है, जो मोक्ष-लक्ष्मीके स्वामी हैं, जिनके दाँत खिले हुए पुष्पके समान हैं, जो स्वयं देदीप्यमान हैं और जिनका मुख दाँतोंकी कान्तिसे मुशोभित है ऐसे भगवान् पुष्पदन्तको हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥ हे देव ! आपका शरीर शान्त है, वचन कानोंको हरनेवाले हैं, चरित्र सबका उपकार करनेवाला है और आप स्वयं संसाररूपी विशाल रेगिस्तानके बीचमें 'सघन'-छायादार वृक्षके समान हैं अतः हम सब आपका ही आश्रय लेते हैं ॥ ६१ ॥

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वर्गमें चौदहवें कल्पके इन्द्र हुए और तदनन्तर भरतनेत्रमें महाराज सुविधि नामक नौवें तीर्थकर हुए ऐसे सुविधिनाथ अथवा पुष्पदन्त हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६२ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें पुष्पदन्त पुराणका वर्णन करनेवाला पचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

## षट्पञ्चाशत्तमं पर्व

शीतलो यस्य सद्धर्मः कर्मधर्माश्रभीषुभिः<sup>१</sup> । सन्तसानां शशीवासौ शीतलः शीतलोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 पुष्करद्वीपपूर्वाद्धर्मन्दरप्राग्निदेहभाक् । सीतापाक्तवत्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥  
 भूपतिः पद्मगुल्माख्यो दृष्टोपायचतुष्टयः । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णीतसन्धिविग्रहतत्त्ववित् ॥ ३ ॥  
 प्रज्ञावारिपरीपेकवृद्धिमद्राज्यभूरुहः । सप्तप्रकृतिशाखाभिः फलत्यस्य फलत्रयम् ॥ ४ ॥  
 प्रतापवाहवालोलज्वालामालापरिस्फुरन् । चन्द्रासिधारावावाङ्घ्रिमग्नारातिमहीधरः ॥ ५ ॥  
 स्वयमुत्पाद्य दैवेन लक्ष्मीं बुद्धयोद्यमेन च । विधाय सर्वसम्भोग्यां भोक्तापि गुणवानसौ ॥ ६ ॥  
 न्यायाजितार्थसन्तर्पिताधिसार्थं निराकुलम् । पाति तस्मिन् धराचक्रं सर्वर्तुसुखशालिनि ॥ ७ ॥  
 कोकिलालिकलालापा विलसत्पल्लवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्तालिकलितोद्गमलोचना ॥ ८ ॥  
<sup>१</sup> वीतनीहारसज्ज्योत्सनाहासा स्वच्छाम्बराम्बरा । सम्पूर्णचन्द्रबिम्बास्या वकुलामोदवासिता ॥ ९ ॥  
 मलयानिलनिःश्वासा कर्णिकारतनुच्छविः । वसन्तश्रीरिवायाता तत्सङ्गमसमुत्सुका ॥ १० ॥  
 अनङ्गस्तद्वलेनैव पञ्चवाणोऽपि निष्ठुरम् । अविध्यद्दहुवाणो वा को न कालबले बली ॥ ११ ॥

जिनका कहा हुआ सर्माचीन धर्म, कर्मरूपी सूर्यकी किरणोंसे संतप्त प्राणियोंके लिए चन्द्रमाके समान शीतल है—शान्ति उत्पन्न करनेवाला है वं शीतलनाथ भगवान् हम सबके लिए शीतल हैं—शान्ति उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ १ ॥ पुष्करवर द्वीपके पूर्वार्ध भागमें जो मेरु पर्वत है उसकी पूर्व दिशाके विदेह क्षेत्रमें सीतानदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है। उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामका राजा राज्य करता था। राजा पद्मगुल्म साम, दान, दण्ड और भेद इन चार उपायोंका ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, कालविभाग और विनिपातप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे निर्णीत संधि और विग्रह—युद्धके रहस्यको जाननेवाला था। उसका राज्यरूपी वृक्ष बुद्धि-रूपी जलके सिञ्चनसे खूब वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना इन सात प्रकृतिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त होकर धर्म, अर्थ और कामरूपी तीन फलोंको निरन्तर फलता रहता था ॥ २-४ ॥ वह प्रताप-रूपी बड़वानलकी चञ्चल ज्वालाओंके समूहसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास-खङ्गकी धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजा रूप-पर्वतोंको डुबा दिया था ॥ ५ ॥ उस गुणवान् राजाने दैव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्वयं लक्ष्मीका उपार्जन कर उसे सर्वसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भी उसका उपभोग करता था ॥ ६ ॥ न्यायोपाजित धनके द्वारा याचकोंके समूहको संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त ऋतुओंके सुख भोगनेवाला राजा पद्मगुल्म जब इस धराचक्रका—पृथिवीमण्डलका पालन करता था तब उसके समागमकी उल्लुकासे ही मानो वसन्त ऋतु आ गई थी। कोकिलाओं और भ्रमरोंके मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, वृक्षोंके लहलहाते हुए पल्लव ही उसके ओठ थे, सुगन्धिसे एकत्रित हुए मत्त भ्रमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे, कुहरासे रहित निर्मल चाँदनी ही उसका हास्य था, स्वच्छ आकाश ही उसका वस्त्र था, सम्पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, मौलिश्रीकी सुगन्धिसे सुवासित मलय समीर ही उसका श्वासोच्छ्वास था और कनेरके फूल ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी ॥ ७-१० ॥ कामदेव यद्यपि शरीररहित था और उसके पास सिर्फ पाँच ही वाण थे, तो भी वह राजा पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्ठुरतासे पीड़ा पहुँचाने लगा जैसे कि अनेक वाणोंसहित हो सो ठीक ही है क्योंकि समयका बल पाकर कौन नहीं बलवान् हो

१ कृतधर्माश्रभीषुभिः ख०। कर्मधर्माश्रभीषुभिः ल०। कर्म एव धर्माशुः सूर्यः तस्य श्रभीषवः किरणाः तैः ।  
 २ भामिनोहार ख०, ल० ।

१स सुखेऽसुखेऽसन्तश्रीविवशीकृतमानसः । तथा विबृद्धसम्प्रीतिराक्रीडति निरन्तरम् ॥ १२ ॥  
 सापि कालानिलोद्धृता घनाली वा व्यलीयत । तदपायसमुद्भूतशोकव्याकुलिताशयः ॥ १३ ॥  
 कामो नाम खलः कोऽपि तापयत्यखिलं जगत् । पापी सकलचित्तस्थो विग्रही १विग्रहाद्विना ॥ १४ ॥  
 तं ध्यानानलनिर्दग्धमद्यैव विदग्धाम्यहम् । इत्याविर्भूतवैराग्यश्चन्दने निजनन्दने ॥ १५ ॥  
 राज्यभारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकम् । सम्प्राप्य ३सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं स समीपिवान् ॥ १६ ॥  
 विपाकसूत्रपर्यन्तसकलाङ्गधरः शर्मा । स्वीकृत्य तीर्थकृत्नाम विधाय सुचिरं तपः ॥ १७ ॥  
 सम्प्राप्य ४जीवितस्थान्तं त्रिधाराधनसाधनः । आरणाख्येऽभवत्कल्पे सुरेन्द्रो ५रुन्द्रवैभवः ॥ १८ ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमानायुः हस्तत्रितयविग्रहः । शुक्लेश्याद्वयो मासैः सदैकादशभिः श्वसन् ॥ १९ ॥  
 द्वाविंशतिसहस्राब्दैर्मानसाहारतपितः । श्रीमान् मनःप्रवीचारः ६प्राकाम्याद्यष्टधागुणः ॥ २० ॥  
 प्राक्यष्टनरकाद् व्याप्तनृतीयज्ञानभास्वरः । तत्प्रमाणबलस्तावत् प्रकाशतनुविक्रियः ॥ २१ ॥  
 वीतबाह्यविकारोरुवरसौख्यविधिपारगः । कलामिव ७किलासङ्ख्यामयमायुरजीगमत् ॥ २२ ॥  
 तस्मिन्भुवं समायाति पण्मासस्थितिजीविते । द्वापेऽस्मिन् भारते वर्षे विषये मल याह्वये ॥ २३ ॥  
 राजा भद्रपुरे वंशे पुरोद्वंशरथोऽभवत् । महादेवी मुनन्दास्य तद्गृहं धनदाज्ञया ॥ २४ ॥  
 रत्नैरपूरयन् देवाः पण्मासैर्गुह्यकाह्वयाः । सापि स्वप्नाङ्घ्रिशान्ते ८ पाण्डशालोक्य मानिनी ॥ २५ ॥

जाता है ? ॥ ११ ॥ जिसका मन वसन्त-लक्ष्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता है ऐसा वह राजा प्रीतिको ब्रह्माता हुआ उस वसन्तलक्ष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा करने लगा ॥ १२ ॥ परन्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ाई हुई मेघमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार कालरूपी वायुसे उड़ाई वह वसन्त-ऋतु कहीं जा छिपी—नष्ट हो गई और उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुल हो गया ॥ १३ ॥ वह विचार करने लगा कि यह काम बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसारको दुःखी करता है, सबके चिन्तमें रहता है और विग्रह-शरीर रहित होनेपर भी विग्रही—शरीरसहित ( पक्षमें उपद्रव करनेवाला ) है ॥ १४ ॥ मैं उस कामको आज ही ध्यानरूपी अप्तिके द्वारा भस्म करता हूँ । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ । वह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर आनन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा और समस्त परिग्रह तथा शरीरसे विमुख हो गया ॥ १५-१६ ॥ शान्त परिणामोंको धारण करनेवाले उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीर्थकर नाम-कर्मका बन्ध किया, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन आराधनाओंका साधन किया तथा आयुके अन्तमें वह समाधिमरण कर आरण नामक पन्द्रहवें स्वर्गमें विशाल वैभवको धारण करनेवाला इन्द्र हुआ ॥ १७-१८ ॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्लेश्याएँ थी, ग्यारह माहमें श्रास लेता था, बाईस हजार वर्षमें मानसिक आहार लेकर संतुष्ट रहता था, लक्ष्मीमान् था, मानसिक प्रवीचारसे युक्त था, प्राकाम्य आदि आठ गुणोंका धारक था, छठवें नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेवाले अवधिज्ञानसे देदीप्यमान था, उतनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी और बाह्य-विकारोंसे रहित विशाल श्रेष्ठ सुखरूपी सागरका पारगामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्ययान वर्षकी आयुको कालकी कलाके समान—एक क्षणके समान विता दिया ॥ १९-२२ ॥ जब उस इन्द्रकी आयु छह माहकी बाकी रह गई और वह पृथिवी पर आनेके लिए उद्यत हुआ तब जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी मलय नामक देशमें भद्रपुर नगरका स्वामी इन्द्रवाकुवंशी राजा हृदरथ राज्य करता था । उसकी महारानीका नाम मुनन्दा था । कुबेरकी आज्ञासे यज्ञ जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रत्नोंके द्वारा मुनन्दाका

१ सन् सुखेऽसु-ग० । सुसुखेऽसु-ल० । २ विग्रहं विना ख० । ३ सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं ( सर्वपरिग्रहशरीरवि-मुख्यं ) क०, टि० । सर्वसंभोगवैमुख्यम् ल० । ४ जीवितस्थान्ते ल० । ५ विशालवैभवः । ६ प्राकाम्याद्यष्ट-धीगुणः ल० । प्राकाम्यद्यष्टधागुणैः ख० । ७ कलासंख्य-ल० । ८ निशामान्ते ल० ।

प्रविशन्तं गजं चास्ये भूपतेस्तफलान्यवैत् १ । तदाद्याषादनक्षत्रे कृष्णाष्टम्यां दिवश्च्युतः ॥ २६ ॥  
 चैत्रे स देवः स्वर्गाग्रात् गुणैः सद्बृहतादिभिः । भावी शुक्तिपुटे तस्या वाविन्दुर्वोदरेऽभवत् ॥ २७ ॥  
 आदिकल्याणसत्पूजां प्रीत्यैत्य विदधुः सुराः । द्वादश्यामसिते माघे विश्वयोगेऽजनि क्रमात् ॥ २८ ॥  
 तदैवागत्य तं नीत्वा २ महामेहं महोत्सवाः । देवा महाभिषेकान्ते व्याहरन्ति स्म शीतलम् ॥ २९ ॥  
 नवकोट्यब्धिमानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपमचतुर्भागे ध्युच्छिन्ने धर्मकर्मणि ॥ ३० ॥  
 तदभ्यन्तरवर्त्यायुरल्पन्नः कनकच्छविः । स्वपञ्चकैकपूर्वायुर्धनुर्नवतिविग्रहः ॥ ३१ ॥  
 गते स्वायुश्चतुर्भागे कौमारे स्वपितुः पदम् । प्राप्य प्रधानसिद्धिं च पालयामास स प्रजाः ॥ ३२ ॥  
 गत्यादिशुभनामानि सद्द्वेषं गोत्रमुत्तमम् । आयुस्तीर्थकरोपेतमपवर्तविवर्जितम् ॥ ३३ ॥  
 सर्वाण्येतानि सम्भूय स्वोक्त्वाऽनुभवोदयात् । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ ३४ ॥  
 स्वायुश्चतुर्थभागवशेषे ह्रासितसंस्तुतिम् ३ । प्रत्याख्यानकषायोदयावसाने प्रतिष्ठितम् ॥ ३५ ॥  
 तं कदाचिद्विहारार्थं वनं यातं महौजसम् । हिमानीपटलं सद्यः प्रच्छाद्य ४ विलयं गतः ॥ ३६ ॥  
 स तद्धेतुसमुद्भूतबोधिरित्थमचिन्तयत् । क्षणं प्रत्यर्थपर्यायैरिदं विश्वं विनश्चरम् ॥ ३७ ॥  
 दुःखदुःखिनिमित्ताख्यग्रितथं निश्चितं मया । सुखादित्रयविज्ञानमेतन्मोहानुबन्धजात् ॥ ३८ ॥  
 अहं किल सुखी सौख्यमेतन् किल पुनः सुखम् । पुण्याकिल महामोहः काललब्ध्या विनाभवत् ॥ ३९ ॥

घर भर दिया । मानवनी मुनन्दाने भी रात्रिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय चैत्रकृष्ण अष्टमीके दिन पूर्वाषाढा नक्षत्रमें सद्बृहत्ता—सदाचार आदि गुणोंसे उपलक्षित वह देव स्वर्गमें च्युत होकर रानीके उदरमें उम प्रकार अवतीर्ण हुआ जिस प्रकार कि सद्बृहत्ता—गोलाई आदि गुणोंसे उपलक्षित जलकी बूंद शुक्तिके उदरमें अवतीर्ण होती है ॥ २२-२७ ॥ देवोंने आकर बड़े प्रेमसे प्रथम कल्याणककी पूजा की । क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत होनेपर माघकृष्ण द्वादशीके दिन विश्वयोगमें पुत्र-जन्म हुआ ॥ २८ ॥ उसी समय बहुत भारी उत्सवसे भरे देव लोग आकर उस बालकको सुमेरु पर्वत पर ले गये । वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतलनाथ नाम रक्खा ॥ २९ ॥ भगवान् पुष्पदन्तके मोक्ष चले जानेके बाद नौ करोड़ सागरका अन्तर वीन जानेपर भगवान् शीतलनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी । उनके जन्म लेनेके पहले पल्यके चौथाई भाग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था । भगवान्के शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, आयु एक लाख पूर्वकी थी और शरीर नव्वे धनुष ऊँचा था ॥ ३०-३१ ॥ जब आयुके चतुर्थ-भागके प्रमाण कुमारकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान सिद्धि प्राप्त कर प्रजाका पालन किया ॥ ३२ ॥ गति आदि शुभ नामकर्म, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र और अपघात मरणसे रहित तथा तीर्थकर नामकर्मसे सहित आयु-कर्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उदय होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे अतः उनके सुखकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ॥ ३३-३४ ॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थ भाग शेष रह गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके प्रत्याख्यानावरण कषायका अन्त हो गया । महातेजस्वी भगवान् शीतलनाथ किसी समय विहार करनेके लिए वनमें गये । वहाँ उन्होंने देखा कि पालेका समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थोंको ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है ॥ ३५-३६ ॥ इस प्रकरणसे उन्हें आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण भरमें बदलते रहते हैं उन्हींसे यह सारा संसार विनश्वर है ॥ ३७ ॥ आज मैंने दुःख, दुःखी और दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया । मोहके अनुबन्धसे मैं इन तीनोंको सुख, सुखी और सुखका निमित्त समझता रहा ॥ ३८ ॥ 'मैं सुखी हूँ, यह सुख है और यह सुख पुण्यादयसे फिर भी मुझे मिलेगा' यह बड़ा भारी मोह है जो कि काललब्धिके बिना हो रहा

१ न्यवैत् (!) ल० । २ महामेह ल० । ३ संस्तुतिः ल० । ४ प्रलयं ल० ।

कर्मं स्यात्किं न वा पुण्यं कर्म चेत्कर्मणा कुतः । सुखं रतिविकाराभिलाषदोषवतोऽङ्गिनः ॥ ४० ॥  
 विषयैरेव चेत्सौख्यं तेषां पर्यन्तगोऽस्यहम् । ततः कुतो न मे तृप्तिः मिथ्यावैषयिकं सुखम् ॥ ४१ ॥  
 औदासीन्यं सुखं तच्च सति मोहे कुतस्ततः । मोहारिरेव निर्मूलं विलयं प्रापये द्रुतम् ॥ ४२ ॥  
 इत्याकलय्य<sup>१</sup> याथात्म्यं हेयपक्षे निवेशितम् । दत्त्वा पुत्राय साम्राज्यं मोहिनामादरावहम् ॥ ४३ ॥  
 लब्धलौकान्तिकस्तोत्रः प्राप्तकालपूजनः । शुक्रप्रभां समारुह्य सहेतुकवनान्तरे ॥ ४४ ॥  
 पूर्वापादे माघमासे कृष्णद्वादश्याक्षये । उपवासद्वयी<sup>२</sup> राजसहस्रैर्गैत्य संयमम् ॥ ४५ ॥  
 चतुर्ज्ञानो द्वितीयेऽह्नि स चर्या<sup>३</sup> प्रविष्टवान् । अरिष्टनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनर्वसुः ॥ ४६ ॥  
 नाम्ना नरपतिर्दत्त्वा परमात्मं प्रमोदवान् । वितीर्णममरैस्तुष्टैः प्रापदाक्षर्यपञ्चकम् ॥ ४७ ॥  
 छद्मस्थेन समास्तित्तो नीत्वा बिल्वद्रुमाश्रयः । पौषकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वापादेऽपराह्वगे ॥ ४८ ॥  
 दिनद्वयोपवासेन कैवल्यं कनकश्रुतिः । प्रापदाप्य तदा देवाः तस्य पूजामकुर्वत ॥ ४९ ॥  
 अनगाराख्यमुख्यैकाशीनिसप्तद्विसत्तमः । शून्यद्वययुगीकोक्तपूज्यपूर्वधरान्वितः ॥ ५० ॥  
 शून्यद्वयद्विरन्ध्रेन्द्रियोक्तशिक्षकलक्षितः । शून्यद्वयद्विसप्ताङ्गज्ञानत्रयविलोचनः ॥ ५१ ॥  
 शून्यत्रितयसप्तोक्तपञ्चमावगमान्वितः । शून्यत्रितयपक्षैकविक्रियद्वियतीडितः ॥ ५२ ॥  
 खद्विकेन्द्रियसप्तोक्तमनःपर्ययसंयतः । शून्यद्वयद्विपञ्चाक्तवादिमुख्याञ्चितकमः ॥ ५३ ॥  
 एकीकृतयतिव्रत<sup>४</sup> लक्षासमुपलक्षितः । खचतुष्काष्टवह्युक्तध<sup>५</sup> रणाद्यार्थिकान्वितः ॥ ५४ ॥  
 उपासकद्विलक्षार्थो द्विगुणश्राविकानुतः । असङ्ख्यदेवदेवीड्यस्तिर्यक्संख्यानमेवितः ॥ ५५ ॥

हैं ॥ ३६ ॥ कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म विद्यमान हैं तो उनसे इस जीवकां सुख कैसे मिल सकता है ? क्योंकि यह जीव राग-द्वेष तथा अभिलाषा आदि अनेक दांपोसे युक्त है ॥ ४० ॥ यदि विषयोंसे ही सुख प्राप्त होता है तो मैं विषयोंके अन्नको प्राप्त हूँ अर्थात् मुझे सबसे अधिक सुख प्राप्त हैं फिर मुझे संतोष क्यों नहीं होता । इससे जान पड़ता है कि विषय-सम्बन्धी सुख मिथ्या सुख है ॥ ४१ ॥ उदासीनता ही सच्चा सुख है और वह उदासीनता मोहके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह शत्रुको ही शीघ्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता हूँ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नेके योग्य और मोही जीवोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना भारा साम्राज्य पुत्रके लिए दे दिया ॥ ४३ ॥ उसी समय आये हुए लौकान्तिक देवोंने जिनकी स्तुति की है तथा उन्होंने दीक्षा-कल्याणक पूजा प्राप्त की है ऐसे भगवान् शीतलनाथ शुक्रप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें पहुँचे ॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होंने माघकृष्ण द्वादशीके दिन सार्यकालके समय पूर्वापादा नक्षत्रमें दो उपवासका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण किया ॥ ४५ ॥ चार ज्ञानके धारी भगवान् दूसरे दिन चर्याके लिए अरिष्ट नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ नवधा भक्ति करनेवाले पुनर्वसु राजाने बड़े हर्षके साथ उन्हें खीरका आहार देकर संतुष्ट देवोंके द्वारा प्रदत्त पञ्चाध्वर्य प्राप्त किये ॥ ४६-४७ ॥ तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके तीन वर्ष बिताकर वे एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर विराजमान हुए । जिससे पौषकृष्ण चतुर्दशीके दिन पूर्वापादा नक्षत्रमें सार्यकालके समय सुवर्णके समान कान्तिवाले उन भगवानने केवलज्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवोंने आकर उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की ॥ ४८-४९ ॥ उनकी सभामें सप्त ऋद्धियोंको धारण करनेवाले अनगार आदि इक्यासी गणधर थे । चौदह सौ पूर्वधारी थे, उनमें एक हजार दो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनि उनकी पूजा करते थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सब मुनियोंकी संख्या एक लाख थी, धरणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्थिकाएँ उनके साथ थीं,

१ याथात्म्येहेय ल० । २ उपवासद्वयो ख०, ल० । ३ लक्षः समुप-ख० । लक्षसमुप-ल० ।



विहृत्य विविधान् देशान् भव्यमिथ्यादृशो बहून् । सम्यक्वादिगुणस्थानान्यापयन् १ धर्मदेशनान् ॥५६॥  
सम्मोदशैलमासाद्य मासमात्रोज्जितक्रियः । प्रतिमार्योगमासाद्य सहस्रमुनिसंवृतः ॥ ५७ ॥  
ध्रुवलाश्वयुजाष्टम्यां पूर्वापादेऽपराङ्गुः । नाशिताशेषकर्मारिः सम्प्राप्यपरमं पदम् ॥ ५८ ॥  
कृत्वा पञ्चमकल्याणं देवेन्द्रा द्योतिताखिलाः । स्वदेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतलं संसृता दिवम् ॥ ५९ ॥

### शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्

यस्योत्पादमनुप्रसादभगमच्चन्द्रोदयाद्वा जगत्

बन्धूनां व्यकसन्मुखानि निखिलान्यब्जानि वोष्णद्युतेः ।

अर्थान् प्राप्य समीप्सितान् बहुमुदा सन्नर्थवन्तोऽथिनः

तं वन्दे त्रिदशार्चितं रतिनृपानिःशेषिणं शीतलम् ॥ ६० ॥

दिङ्भातङ्गकपोलमूलगलितैर्दानैस्ततामोदनै-

र्द्व्याद्द्वैन्दुनिभोज्ज्वलोलित्तिलकिकास्तद्वत्तपर्यङ्गके २ ॥

दिङ्गन्याः कलकण्ठिकाश्च रचितैर्गार्थान्ति वर्णाक्षरै-

र्यस्यान्युद्धतमोहवीरविजयं तं शीतलं संस्तुवे ॥ ६१ ॥

### रथोद्धतावृत्तम्

पद्मगुल्ममखिलैः स्तुतं गुणैरारणेन्द्रममराचितं ततः ।

तीर्थैकसुदशमं दयामयं शीतलं नमत सर्वशीतलम् ॥ ६२ ॥

### अनुष्टुप्

शान्तलेशस्य तीर्थान्ते सद्गमं नाशमेयिवान् । वक्त्रश्रोत्रचरिष्णूनामभावात्कालदोषतः ॥ ६३ ॥

दो लाख श्रावक और तीन लाख श्राविकाएँ, उनकी अर्चा तथा स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-  
देवियों उनका स्तवन करती थीं और संख्यात निर्यञ्ज उनकी सेवा करती थीं ॥ ५०-५५ ॥ असंख्यात  
देशोंमें विहार कर धर्मोपदेशके द्वारा बहुतसे भव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंको सम्यक्त्व आदि गुणस्थान  
प्राप्त कराते हुए वे सम्मोदशिवर पर पहुँचे । वहाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने प्रतिमा  
योग धारण किया और एक हजार मुनियोंके साथ आश्विन शुक्ला अष्टमीके दिन सायंकालके समय  
पूर्वापादा नक्षत्रमें समस्त कर्म-शत्रुओंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५६-५८ ॥ अपने शरीरकी  
कान्तिसे सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ जिनेन्द्रकी  
स्तुति कर स्वर्गको चले गये ॥ ५९ ॥

जिनका जन्म होते ही संसार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदयसे  
होता है । समस्त भाई-बन्धुओंके मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सूर्यसे कमल  
विकसित हो जाते हैं और याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर बड़े हर्षसे कृतकृत्य हो गये उन देव  
पूजित, रति तथा वृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ—स्तुति करता हूँ  
॥ ६० ॥ दिग्गजोंके कपोलमूलसे गलते हुए तथा सबको सुगन्धित एवं हर्षित करनेवाले मद्-जलसे  
जिन्होंने ललाट पर अर्धचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर हैं ऐसी दिङ्गन्याएँ स्वरचित  
पद्योंके द्वारा जिनकी अत्यन्त उद्दण्ड मोहरूपी शूर-वीरको जीत लेनेके गीत गाती हैं उन शीतल  
जिनेन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ६१ ॥ जो पहले सब तरहके गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामके राजा  
हुए, फिर देवोंके द्वारा पूजित आरण स्वर्गके इन्द्र हुए और तदनन्तर दशम तीर्थकर हुए उन दयालु  
तथा सबको शान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको हे भव्य जीवो ! नमस्कार करो ॥ ६२ ॥

अथानन्तर—श्री शीतलनाथ भगवान्के तीर्थके अन्तिम भागमें काल-दोषसे वक्ता, श्रोता और  
आचरण करनेवाले धर्मात्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन धर्मका नाश हो गया ॥६३॥

तदा मलयदेशो निवसन् भद्रिले पुरे । राजा मेघरथस्तस्य सचिवः सत्यकीर्तिवाक्<sup>१</sup> ॥ ६४ ॥  
 स कदाचित्सभागोहे सिंहासनमधिष्ठितः । आपृच्छत सभासीनान् धर्मार्थं द्रव्यदत्तया ॥ ६५ ॥  
 दानेषु कतमदानं दत्तं बहुफलं भवेत् । इत्यतो मतिवाक्सारः सचिवो दानतत्त्ववित् ॥ ६६ ॥  
 शास्त्राभयान्नदानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूर्वपूर्वबहूपत्तफलानीमानि धीमताम् ॥ ६७ ॥  
 पूर्वापरविरोधादिदूरं हिंसाद्यपासनम् । प्रमाणद्वयसंपादि<sup>२</sup> शास्त्रं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ६८ ॥  
 भूयः संसारभीरूणां सतामनुजिघृक्षया । व्याख्यानं तस्य शास्त्रस्य शास्त्रदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥  
 सुमुक्षोर्दृष्टतत्त्वस्य बन्धहेतुजिहासया । प्राणिपीडापरित्यागस्तद्दानमभयाङ्ग्यम् ॥ ७० ॥  
 हिंसादिदोषदूरेभ्यो ज्ञानिभ्यो बाह्यसाधनम् । प्राहुराहारदानं तच्छुद्धाहारातिसर्जनम् ॥ ७१ ॥  
 आभ्यामाद्यन्तदानाभ्यामुभयोः कर्मनिर्जरा । पुण्यास्त्रवश्च शेषेण दातुस्तदुभयं भवेत् ॥ ७२ ॥  
 न ज्ञानात्सन्ति दानानि विना ज्ञानं न शास्त्रतः ।<sup>३</sup> हेयोदेयादितत्त्वावभासनं परमं हि तत् ॥ ७३ ॥  
 तद्व्याख्यातं श्रुतं सम्यक् भावितं शुद्धबुद्धये ।<sup>४</sup> तयोर्हेयं परित्यज्य हितमादाय सन्नताः ॥ ७४ ॥  
 मुक्तिमार्गं समाश्रित्य 'क्रमाच्छान्तेन्द्रियाशयाः ।' शुक्लध्यानमभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यमृतं पदम् ॥ ७५ ॥  
 तस्माद् दानेषु तच्छ्रेष्ठं प्रदातुर्गृह्यतामपि । निरवद्यं निजानन्दनिर्वाणपदसाधनम् ॥ ७६ ॥  
 अत्यादप्यल्पसावद्यादभयाख्यमभिष्टुतम् । त्रिभिरेभिर्महादानैः प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ७७ ॥

उस समय भद्रिलपुरमें मलय देशका स्वामी राजा मेघरथ रहता था, उसके मंत्रीका नाम सत्यकीर्ति था ॥ ६४ ॥ किसी एक दिन राजा मेघरथ सभा-भवनमें सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने धर्मके लिए धन दान करनेकी इच्छामें सभामें बैठे हुए लोगोंमें कहा ॥ ६५ ॥ कि सब दानोंमें ऐसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फल होना हो ? इसके उत्तरमें दानके तत्त्वको जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा ॥ ६६ ॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने शास्त्रदान, अभयदान और अन्नदान ये तीन प्रकारके दान कहे हैं । ये दान बुद्धिमानोंके लिए पहले-पहले अधिक फल देनेवाले हैं अर्थात् अन्नदानकी अपेक्षा अभयदानका और अभयदानकी अपेक्षा शास्त्रदानका बहुत फल है ॥ ६७ ॥ जो सर्वज्ञ-देवका कहा हुआ हो, पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित हो, हिंसादि पापोंका दूर करनेवाला हो और प्रत्यक्ष परांश दोनों प्रमाणोंसे सम्पन्न हो उसे शास्त्र कहते हैं ॥ ६८ ॥ संसारके दुःखोंसे बरे हुए सत्पुरुषोंका उपकार करनेकी इच्छामें पूर्वोक्त शास्त्रका व्याख्यान करना शास्त्रदान कहलाता है ॥ ६९ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाला मुनि कर्मबन्धके कारणोंको छोड़नेकी इच्छामें जो प्राणिपीडाका त्याग करता है उसे अभयदान कहते हैं ॥ ७० ॥ हिंसादि दोषोंसे दूर रहनेवाले ज्ञानी साधुओंके लिए शरीरादि बाह्य साधनोंकी रक्षाके अर्थ जो शुद्ध आहार दिया जाता है उसे आहारदान कहते हैं ॥ ७१ ॥ इन आदि और अन्तके दानोंसे देने तथा लेनेवाले दानोंको ही कर्मोंकी निर्जरा एवं पुण्य कर्मका आस्त्रवहता है और अभयदानसे सिर्फ देनेवालेके ही उक्त दानों फल होते हैं ॥ ७२ ॥ इस संसारमें ज्ञानसे बढ़कर अन्य दान नहीं हैं और ज्ञान शास्त्रके विना नहीं हो सकता । वास्तवमें शास्त्र ही हेय और उपादेय तत्त्वोंका प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ साधन है ॥ ७३ ॥ शास्त्रका अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिन्तन करना शुद्ध बुद्धिका कारण है । शुद्ध बुद्धिके होने पर ही भव्य जीव हेय पदार्थको छोड़कर और हितकारी पदार्थको ग्रहण कर ब्रती बनते हैं, मोक्षमार्गका अवलम्बन लेकर क्रम-क्रमसे इन्द्रियों तथा मनको शान्त करते हैं और अन्तमें शुक्ल-ध्यानका अवलम्बन लेकर अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥ ७४-७५ ॥ इसलिए सब दानोंमें शास्त्रदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्योंसे रहित है तथा देने और लेनेवाले दानोंके लिए ही निजानन्द रूप मोक्ष-प्राप्तिका कारण है ॥ ७६ ॥ अन्तिम आहारदानमें थोड़ा आरम्भ-जन्य पाप करना पड़ता है इसलिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है । यह जीव इन तीन महादानोंके द्वारा परम पदको प्राप्त

१ कीर्तिभाक् ख० । २ संवादि ल० । ३ हेयोपेयादि ल० । ४ तदा हेयं ख०, ग० । ५ क्रमात् शान्तेन्द्रियाशयाः क०, घ० ।

इति प्राहैवमुक्तेऽपि राजा तत्रावमन्यता । कपोतलेश्यामाहात्म्यादन्यदानप्रदित्स्या ॥ ७८ ॥  
 तत्रैव नगरे भूतिशर्माख्यो ब्राह्मणोऽभवत् । प्रणीतदुश्रुतीः राज्ञोऽरञ्जयत्स्वमनीषया ॥ ७९ ॥  
 तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सर्वशास्त्रवित् । मुण्डशालायनो जातस्तत्रासीनोऽब्रवीदसौ ॥ ८० ॥  
 मुनीनां दुर्विधानां च दानत्रयमिदं मतम् । <sup>१</sup>महेच्छानां महीशानां दानमस्यन्यदुत्तमम् ॥ ८१ ॥  
 भूसुवर्णादिभूयिष्ठमाचन्द्रार्कयशस्करम् । शापानुग्रहशालिभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छत ॥ ८२ ॥  
 भार्यमत्र श्रुतं चास्ति दानस्यास्योपदेशकम् । इत्यानीय गृहात्स्वोक्तं तत्पुस्तकमवाचयत् ॥ ८३ ॥  
 इत्थं तेनेङ्गितज्ञेन लब्ध्वावसरमुत्पथम् । मुण्डशालायनेनोक्तं राजा तद्ब्रह्ममन्यत ॥ ८४ ॥  
 पापाभीरोरभद्रस्य विषयान्धस्य दुर्मतेः । रञ्जितः स महीपालः परलोकमहाशया ॥ ८५ ॥  
 कदाचित्कार्तिके मासे पौर्णमास्यां शुचीभवन् । मुण्डशालायनं भक्त्या पूजयित्वाक्षतादिभिः ॥ ८६ ॥  
 भूसुवर्णादितत्प्रोक्तदानान्यदित दुर्मतिः । तं दृष्ट्वा भक्तिमान् भूपममान्यः <sup>२</sup>प्रत्युवाच तम् ॥ ८७ ॥  
 अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं जिनैर्मतम् । स्वपरोपकृतिं प्रादुरत्र तज्जा अनुग्रहम् ॥ ८८ ॥  
<sup>३</sup>स्वोपकारोऽयसंवृद्धिः परस्य गुणवर्द्धनम् । स्वशब्दो धनपर्यायवाची पात्रेऽतिसर्जनम् ॥ ८९ ॥  
 स्वस्य दानं प्रशंसन्ति तज्जानन्नपि किं वृथा । कुपात्रेऽर्थं विस्तुष्ट्वैवं त्रयाणां विहितः कृता ॥ ९० ॥  
 सुवीजं सुप्रभूतं च प्रक्षिप्तं किं तदूपरे । फलं भवति सङ्कुश-बीजनाश-फलाद्धिना ॥ ९१ ॥


होता है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार वह जनेपर भी राजाने दानका यह निरूपण स्वीकृत नहीं किया क्योंकि वह कपोतलेश्याके माहात्म्यसे इन तीन दानोंके सिवाय और ही कुछ दान देना चाहता था ॥ ७८ ॥

उसी नगरमें एक भूतिशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था । वह अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे-खोटे शास्त्र बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था ॥ ७९ ॥ उसके मरने पर उसका मुण्डशालायन नामक पुत्र समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला हुआ । वह उस समय उसी सभामें बैठा हुआ था अतः मंत्रीके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा ॥ ८० ॥ कि ये तीन दान मुनियोंके लिए अथवा दरिद्र मनुष्योंके लिए हैं । बड़ी-बड़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए तो दूसरे ही उत्तम दान हैं ॥ ८१ ॥ शाप तथा अनुग्रह करनेकी शक्तिसे मुशोभित ब्राह्मणोंके लिए, जब तक चन्द्र अथवा सूर्य हैं तब तक यशका करनेवाला पृथिवी तथा सुवर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए ॥ ८२ ॥ इस दानका समर्थन करनेवाला ऋषिप्रणीत शास्त्र भी विद्यमान है, ऐसा कहकर वह अपने घरसे अपनी बनाई हुई पुस्तक ले आया और सभामें उसे बचवा दिया ॥ ८३ ॥ इस प्रकार अभिप्रायको जाननेवाले मुण्डशालायनने अवसर पाकर कुमारगका उपदेश दिया और राजाने उसे बहुत माना—उसका सत्कार किया ॥ ८४ ॥ देवो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, विषयान्ध था और दुबुद्धि था फिर भी राजा परलोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हो गया—प्रसन्न हो गया ॥ ८५ ॥ किसी समय कार्तिक मासकी पौर्णमासीके दिन उस दुबुद्धि राजाने शुद्ध होकर बड़ी भक्तिके साथ अक्षतादि द्रव्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे हुए भूमि तथा सुवर्णादिके दान दिये । यह देख भक्त मंत्रीने राजासे कहा ॥ ८६-८७ ॥ अनुग्रहके लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है और इस विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारको ही अनुग्रह कहते हैं ॥ ८८ ॥ पुण्य कर्मकी वृद्धि होना यह अपना उपकार है—अनुग्रह है और परके गुणोंकी वृद्धि होना परका उपकार है । स्व शब्द धनका पर्यायवाची है । धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है । यही दान प्रशंसनीय दान है फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर आप दाता, दान और पात्र तीनोंको क्यों नष्ट कर रहे हैं ॥ ८९-९० ॥ उत्तम बीज कितना ही अधिक क्यों न हो, यदि ऊसर जमीनमें डाला जावेगा तो उससे संक्रेश और बीज नाश-रूप फलके सिवाय और क्या होगा ?

सुबीजमल्पमप्युसं सुक्षेत्रे कालवेदिना । तत्सहस्रगुणीभूतं वापकस्य फलं भवेत् ॥ ९२ ॥  
इति भक्तेन तेनोक्तमुदाहरणकोटिभिः । धीमता तन्महीभर्तुरूपकाराय नाभवत् ॥ ९३ ॥  
कालदृष्टस्य वा मन्त्रो भैषज्यं वा गतायुषः । आजन्मान्धस्य वादशो विपरीतस्य सद्बचः ॥ ९४ ॥  
विहायादिक्रमायातं दानमार्गं कुमारगः । मूर्खप्रलपितं दानमारातीयमवीकृतत् ॥ ९५ ॥


### शार्दूलविक्रीडितम्

कन्याहस्तिमुवर्णवाजिकपिलादासीतिलस्यन्दन-  
क्षमागेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दानं दरिद्रेप्सितम् ।  
तीर्थान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाविश्वकार स्वयं  
लुब्धो वस्तुषु भूतिशर्मतनयोऽसौ मुण्डशालायनः ॥ ९६ ॥  
इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतलपुराणं नाम  
परिसमाप्तं पट्पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५६ ॥



कुछ भी नहीं ॥ ६१ ॥ इसके विपरीत उत्तम बीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेवाले मनुष्यके द्वारा उत्तम क्षेत्रमें बोया जाता है तो वानेवालेके लिए उससे हजारगुना फल प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान् एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाको समझाया परन्तु उससे राजाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥ ६३ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि विपरीत बुद्धिवाले मनुष्यके लिए सत्-पुरुषोंके वचन ऐसे हैं जैसे कि कालके काटेके लिए मंत्र, जिस्की आयु पूर्ण हो चुकी है उसके लिए औषधि, और जन्मके अन्धके लिए दर्पण ॥ ६४ ॥ उस कुमारगामी राजाने प्रारम्भसे ही चले आये दानके मार्गको छोड़कर मूर्ख मुण्डशालायनके द्वारा कहे हुए आधुनिक दानके मार्गको प्रचलित किया ॥ ६५ ॥ इस प्रकार लौकिक वस्तुओंके लोभी, भूतिशर्मके पुत्र मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रके तीर्थके अन्तिम समयमें दरिद्रोंको अच्छा लगनेवाला—कन्यादान, हस्तिदान, सुवर्णदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान और गृहदान यह दश प्रकारका दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया—चलाया ॥ ६६ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें शीतलपुराणका वर्णन करनेवाला छपनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## सप्तपञ्चाशत्तमं पर्व

१श्रेयः श्रेयेषु २ नास्त्यन्यः ३श्रेयसः श्रेयसे बुधैः। इति ४श्रेयोऽर्थिभिः श्रेयः श्रेयांसःश्रेयसेऽस्तु नः॥१॥  
 पुष्करार्द्धेन्द्रदिग्मेरुप्राग्विदेहे सुकच्छके । सीतानद्युत्तरे देशे नृपः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥  
 नलिनप्रभनामाभून्नमिताशेषविद्विषः । प्रजानुरागसम्पादिताचिन्त्यमहिमाश्रयः ॥ ३ ॥  
 पृथक्प्रभेदनिर्णातिशक्तिसिद्धयुदयोदितः । शमव्यायामसम्प्राप्तक्षेमयोगोऽयमैवत ॥ ४ ॥  
 भूभृत्स्वमर्थवत्तस्मिन्यस्मान्न्यायेन पालनात् । स्थितौ सुस्थाप्य सुखिग्धां धरामधित स प्रजाः ॥ ५ ॥  
 धर्मं पुत्रापरे धर्मस्तस्मिन्सन्मार्गवर्तिनि । अर्थकामौ च धर्म्यौ यत्तत् स धर्ममयोऽभवत् ॥ ६ ॥  
 एवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः । लोकपालोपमो दीर्घं पालयन्निखिलामिलाम् ॥ ७ ॥  
 "सहस्राश्रवणेऽनन्तजिनं तद्वनपालकान् । अवतीर्णं विदित्वात्मपरिवारपरिष्कृतः ॥ ८ ॥  
 गत्वाऽभ्यर्च्य चिरं स्तुत्वा नत्वा स्वांचितदेशभाक् । श्रुत्वा धर्मं समुत्पन्नतत्त्वबुद्धिरिति स्मरन् ॥ ९ ॥  
 कस्मिन् केन कथं कस्मात् कस्य किं श्रेय इत्यदः । अजानता मया भ्रान्तं भ्रान्तेनानन्तजन्मसु ॥ १० ॥  
 आहितो बहुधा मोहान्मयैवैव परिग्रहः । तत्यागाद्यदि निर्वाणं कस्मात्कालविलम्बनम् ॥ ११ ॥  
 इति नाम्ना सुपुत्राय १पुत्राय गुणशालिने । दत्त्वा राज्यं समं भूयैर्बहुभिः संयमं ययौ ॥ १२ ॥  
 शिक्षितैकादशाङ्गोऽसौ, तीर्थकृन्नामधाम सन् । संन्यस्याजनि कल्पेऽन्ते सुराधीशोऽच्युताह्वयः ॥ १३ ॥

जो आश्रय लेने योग्य हैं उनमें श्रेयान्सनाथको छोड़कर कल्याणके लिए विद्वानोंके द्वारा और दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है—इस तरह कल्याणके अभिलाषी मनुष्योंके द्वारा आश्रय करने योग्य भगवान् श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ॥ १ ॥ पुष्करार्ध द्वीपसम्बन्धी पूर्व विदेह क्षेत्रके सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तटपर क्षेमपुर नामका नगर है । उसमें समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला तथा प्रजाके अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत नलिनप्रभ नामका राजा राज्य करता था ॥ २-३ ॥ पृथक्-पृथक् तीन भेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है ऐसी शक्तियों, सिद्धियों और उदयोसे जो अभ्युदयको प्राप्त है तथा शान्ति और परिश्रमसे जिसे क्षेम और योग प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था ॥ ४ ॥ वह राजा न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था और स्नेह पूर्ण पृथिवीको मर्यादामें स्थित कर उसका भूभृत्पना सार्थक था ॥ ५ ॥ समीचीन मार्गमें चलनेवाले उस श्रेष्ठ राजामें धर्म तो धर्म ही था, किन्तु अर्थ तथा काम भी धर्म-युक्त थे । अतः वह धर्ममय ही था ॥ ६ ॥ इस प्रकार स्वकृत पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सुखकी खान स्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त पृथिवीका दीर्घकाल तक पालन करता रहा ॥ ७ ॥ एक दिन वनपालसे उसे मालूम हुआ कि सहस्राश्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीर्ण हुए हैं तो वह अपने समस्त परिवारसे युक्त होकर सहस्राश्रवणमें गया । वहाँ उसने जिनेन्द्रदेव की पूजा की, चिरकाल तक स्तुति की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया । तदनन्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे इस प्रकार चिन्तन करने लगा कि किसका कहाँ किसके द्वारा किस प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जान कर मैंने खेद-खिन्न होते हुए अनन्त जन्मोंमें भ्रमण किया है । मैंने जो बहुत प्रकारका परिग्रह इकट्ठा कर रखा है वह मोह वश ही किया है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तब समय वितानेसे क्या लाभ है ? ॥ ८-११ ॥ ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत-से राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२ ॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीर्थकर नाम-

१ श्रयणीयः । २ श्रेयेषु आश्रयणीयेषु । ३ श्रेयसः एकादशतीर्थकरात् । ४ कल्याणार्थिभिः ।

५ सहस्राश्रवणे ल० । ६ सुपुत्राय सुपुत्रगुणशालिने ल०, ग०, ल० ।

पुष्पोत्तरविमानेऽसौ द्वाविंशत्यब्धिजीवितः । हस्तत्रयप्रमाणाङ्गः प्रोक्तेऽस्यादिभिर्युतः ॥ १४ ॥  
 देवीभिर्दिव्यभावाभिः कमनीयाभिरन्वहम् । भवसाराणि सौख्यानि तत्र प्रीत्यान्वभूच्चिरम् ॥ १५ ॥  
 कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्ततः । संसारसौख्यपर्यन्तसन्तोषात्समतीयिवान् ॥ १६ ॥  
 अनुभूय सुखं तस्मिन् तस्मिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो नरेश्वरः ॥ १७ ॥  
 इक्ष्वाकुवंशविख्यातो विष्णुनामास्य बलभा । नन्दा पण्माससम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ १८ ॥  
 ज्येष्ठे मास्यसिते पृथ्वांश्रवणे रात्रिनिर्गमे । स्ववक्त्रावेशिनागेन्द्रास्त्वप्राणैक्षिप्त पोडश ॥ १९ ॥  
 तत्कलान्यवबुध्यासौ पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम् । तदैवायातदेवेन्द्रविहितोरुमहोत्सवा ॥ २० ॥  
 नवमासान् यथोक्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः । फाल्गुने मासि कृष्णैकादश्यां त्रिज्ञानधारिणम् ॥ २१ ॥  
 विष्णुयोगे महाभागमसूताच्युतनायकम् । मेघावलीव सद्बृष्टिविशेषं विश्वतुष्टये ॥ २२ ॥  
 तदुद्भवे प्रसन्नानि मनांसि सकलाङ्गिनाम् । जलस्थलानि वा<sup>१</sup> सद्यः सर्वत्र शरदागमे ॥ २३ ॥  
 अधिनो धनसन्तृप्या धनिनो दीनतर्पणैः<sup>२</sup> । ते च ते चेष्टसम्भोगान्सोदृष्याः<sup>३</sup> स्युस्तदुद्भवे ॥ २४ ॥  
 तदा सर्वतर्बस्तत्र स्वैः स्वैर्भावैर्मनोहरैः । प्रादुर्बभूवुः सम्भूय सर्वाङ्गिसुखहेतवः ॥ २५ ॥  
 सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो वीतशोकताम् । धमिष्ठतां च पापिष्ठाश्रममीशसमुद्भवे ॥ २६ ॥  
 जनस्य चेदयं तोपस्तदानीमतिमात्रया । पित्रोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥

कर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर सोलहवें अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमान-  
 में अच्युत नामका इन्द्र हुआ । वहाँ वाइस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर  
 था, और ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है ऐसी लेश्या आदिमें सहित था ॥ १३-१४ ॥ दिव्य भावों-  
 को धारण करनेवाली मुन्दर देवियोंके साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुखांका बड़ी  
 प्रीतिसे उपभोग किया ॥ १५ ॥ कल्पातीत—सोलहवें स्वर्गके आगेके अहमिन्द्र विराग हैं—राग  
 रहित हैं और अन्य देव अल्प सुखवाले हैं इसलिए संसारके सबसे अधिक सुखोंसे संतुष्ट होकर  
 वह अपनी आयु व्यतीत करता था ॥ १६ ॥ वहाँके सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत  
 हुआ तब इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी इक्ष्वाकु वंशसे प्रसिद्ध विष्णु नामका  
 राजा राज्य करता था ॥ १७ ॥ उसकी बल्लभाका नाम मुनन्दा था । मुनन्दाने गर्भधारणके छह माह पूर्वसे  
 ही रत्नवृष्टि आदि कई तरहकी पूजा प्राप्त की थी ॥ १८ ॥ ज्येष्ठकृष्ण पक्षके दिन श्रवण नक्षत्रमें प्रातःकालके  
 समय उसने सोलह स्वप्न तथा अपने सुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥ १९ ॥ पतिसे उनका  
 फल जानकर वह बहुत ही हर्षको प्राप्त हुई । उसी समय इन्द्रोंने आकर गर्भ-कल्याणकका महोत्सव  
 किया ॥ २० ॥ उत्तम सन्तानको धारण करनेवाली मुनन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माह बिता कर  
 फाल्गुनकृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके धारक तथा महाभाग्यशाली उस अच्यु-  
 तेन्द्रको संसारके संतोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम वृष्टिको  
 उत्पन्न करती है ॥ २१-२२ ॥ जिस प्रकार शरद-ऋतुके आनेपर सब जगहके जलाशय शीघ्र ही  
 प्रसन्न-स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सब जीवोंके मन प्रसन्न हो गये थे—  
 हर्षसे भर गये थे ॥ २३ ॥ भगवानका जन्म होनेपर याचक लोग धन पाकर हर्षित हुए थे, धनी  
 लोग दीन मनुष्योंको संतुष्ट करनेसे हर्षित हुए थे और वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे ॥ २४ ॥  
 उस समय सब जीवोंको सुख देनेवाली समस्त ऋतुएँ मिलकर अपने-अपने मनोहर भावोंसे प्रकट  
 हुई थीं ॥ २५ ॥ बड़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवानका जन्म होनेपर रोगी मनुष्य नीरोग हो  
 गये थे, शोकवाले शोकरहित हो गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे ॥ २६ ॥ जब उस  
 समय साधारण मनुष्योंको इतना संतोष हो रहा था तब माता-पिताके संतोषका प्रमाण कौन

१ 'वा स्यादिकल्पोपमयोस्त्रिवाथेऽपि समुच्चये' इति कोशः । २ दीनतर्पणात् ग० । ३ सोदृष्याः सदर्षाः  
 "क्षण उद्भव उत्सवः" ।

सद्यश्चतुर्विधा देवाः कृत्या तेजोमयं जगत् । स्वाङ्गाभरणभाभरैरापतन्ति स्म सर्वतः ॥ २८ ॥  
 नेदुर्दुन्दुभयो हृद्याः पेतुः कुसुमवृष्टयः । नेदुरामरनर्तक्यो जगुः स्वादुः शुगायकाः ॥ २९ ॥  
 लोकोऽयं देवलोको वा ततश्चात्यद्भुतोदयः । अपूर्वः कोऽप्यभूद्वेति तदासन् शुसदां गिरः ॥ ३० ॥  
 अपितरौ तस्य सौधर्मः स्वयं सद्भूषणादिभिः । शचीं देवीं च सन्तोष्य माययाऽऽदाय बालकम् ॥ ३१ ॥  
 ऐरावतगजस्कन्धमारोप्यामरसेनया । सहलीलः स सम्प्राप्य महामेहं महौजसम् ॥ ३२ ॥  
 पञ्चमावारपारात्क्षीरवारिघटोत्करैः । अभिषिच्य विभूष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ ३३ ॥  
 ततः पुरं समानीय मातुरङ्गे निधाय तम् । सुरार्धाशः सुरैः सार्द्धं प्रमुद्यारं सुरालये ॥ ३४ ॥  
 गुणैः सार्द्धमर्द्धन्त तदास्यावयवाः शुभाः । क्रमात्कान्तिं प्रपुष्यन्तो बालचन्द्रस्य वांशुभिः ॥ ३५ ॥  
 स खत्रयर्तुपक्षर्तुपङ्क्तसरशताब्धिभिः । उनसागरकोट्यन्ते पल्यार्द्धं धर्मसन्ततौ ॥ ३६ ॥  
 व्युच्छिन्नायां तदभ्यन्तरायुः श्रेयःसमुद्भवः । पञ्चशून्ययुगाष्टाब्दजीवितः कनकप्रभः ॥ ३७ ॥  
 चापार्श्वान्तिसमुत्सेधो बलोजस्तेजसां निधिः । एकांशतिलक्ष्णाब्दकौमारं सुखसागरः ॥ ३८ ॥  
 प्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं सर्वलोकनमस्कृतः । तर्पयैश्चन्द्रवत्सवान् दपितान् भानुवत्तपन् ॥ ३९ ॥  
 तेजोमहामणिर्वाङ्मिर्गाम्भीर्यं मलयोद्भवः । शैत्यं धर्मं इव श्रेयः सुखं स्वस्याकरोच्चिरम् ॥ ४० ॥  
 प्राग्जन्मसुकृतायेन\* कृतायां सर्वसम्पदि । बुद्धिपौरुषयोर्व्याप्तिस्तस्याभूद्धर्मकामयोः ॥ ४१ ॥

वता सकना हे ? ॥ २७ ॥ शीघ्र ही चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी प्रभाके समूहमे समस्त संसारको तेजोमय करते हुए चारों ओरसे आ गये ॥ २८ ॥ मनोहर दुन्दुभियाँ वज्रने लगीं, पुष्प-वर्षाएँ होने लगीं, देव-नर्तकियाँ नृत्य करने लगीं और स्वर्गके गवैया मधुर गान गाने लगे ॥ २९ ॥ 'यह लोक देव लोक है अथवा उससे भी अधिक वैभवको धारण करनेवाला कोई दूसरा ही लोक है' इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे ॥ ३० ॥ सौधर्मेन्द्रने स्वयं उत्तम आभूषणादिसे भगवान्के माता-पिताको संतुष्ट किया और इन्द्राणीने मायासे माताको संतुष्ट कर जिन-बालकको उठा लिया ॥ ३१ ॥ सौधर्मेन्द्र जिन-बालकको ऐरावत हाथीके कन्धे पर विराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूर्वक महा-तेजस्वी महासिरु पर्वत पर पहुँचा ॥ ३२ ॥ वहाँ उसने पञ्चम क्षीरसमुद्रसे लाये हुए क्षीर रूप जलके कलशोंके समूहसे भगवान्का अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये और बड़े हर्षके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रक्खा ॥ ३३ ॥ इन्द्र मेरु पर्वतसे लौटकर नगरमें आया और जिन-बालकको माताकी गोदमें रख, देवोंके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग चला गया ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार किरणोंके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमाके अवयव बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार गुणोंके साथ-साथ उस समय भगवान्के शरीरावयव बढ़ते रहते थे ॥ ३५ ॥ शीतलनाथ भगवान्के मोक्ष जानेके बाद जब सौ सागर और छयासठ लाख छव्वीस हजार वर्ष कम एक सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पत्य तक धर्मकी परम्परा टूटी रही तब भगवान् श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी कुल आयु चौरासी लाख वर्षकी थी । शरीर सुवर्णके समान कान्तिवाला था, ऊँचाई अस्सी धनुष की थी, तथा स्वयं बल, आज और तेजके भंडार थे । जब उनकी बुमारावस्थाके इक्कीस लाख वर्ष बीत चुके तब सुखके सागर स्वरूप भगवान्ने देवोंके द्वारा पूजनीय राज्य प्राप्त किया । उस समय सब लोग उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको संवृष्ट करते थे और अहंकारी मनुष्योंको सूर्यके समान संतापित करते थे ॥ ३६-३६ ॥ उन भगवान्ने महामणिके समानअपने आपको तेजस्वी बनाया था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमाके समान शीतल बनाया था और धर्मके समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप बनाया था ॥ ४० ॥ पूर्व जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य-कर्मसे उन्हें सर्व प्रकारकी सम्पदाएँ तो स्वयं प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि और पौरुषकी व्याप्ति

१ स्वर्गायकाः । युगायकाः ख० । युगायनाः ल० । २ दिवि सीदन्तीति युसदः तेषाम् देवानाम् ।  
 ३ माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ, एकशेषः । ४ प्रसन्नो भूत्वा । ५ आर जगाम । ६ कौमारे सु-ल० ।  
 ७ पूर्वजन्मसुविहितपुण्यकर्मणा ।

तथा शुभविनोदेषु देवैः पुण्यानुबन्धिषु । सम्पादितेषु कान्ताभिर्दिनान्यारमतोऽगमन् ॥ ४२ ॥  
 एवं पञ्चखपक्षाब्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकालेऽयमन्येषुर्वसन्तपरिवर्तनम् ॥ ४३ ॥  
 विलोक्य किल कालेन सर्वं प्राप्तीकृतं जगत् । सोऽपि कालो व्ययं याति क्षणादिपरिवर्तनैः ॥ ४४ ॥  
 कस्यान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेतद्दिनश्वरम् । शाश्वतं न पदं यावत् प्राप्यते सुस्थितिः कुतः ॥ ४५ ॥  
 इति स चिन्तयन् लब्धस्तुतिः सारस्वतादिभिः । श्रेयस्करे समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ॥  
 प्राप्य निष्कमणस्त्रानमारुह्य विमलप्रभाम् । शिविकां देवसंवाद्यां त्यक्त्वाहारो दिनद्वयम् ॥ ४७ ॥  
 मनोहरमहोद्याने फाल्गुनैकादशीदिने । कृष्णपक्षे सहस्रेण पूर्वाह्णे भूभुजां समम् ॥ ४८ ॥  
 श्रवणे संयमं प्राप्य चतुर्थावगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगरं भुक्तयेऽविशत् ॥ ४९ ॥  
 तस्मै हेमद्युतिर्नन्दभूपतिर्भक्तिपूर्वकम् । दत्त्वाऽन्नं प्राप्य सत्पुण्यं पञ्चाश्रयांग्यज्यर्धीः ॥ ५० ॥  
 द्विसंवत्सरमानेन छाद्मस्थे गतवन्पत्नी । मुनिर्मनोहरोद्याने तुम्बुरद्रुमसंश्रयः ॥ ५१ ॥  
 दिनद्वयोपवासेन माघे मास्यपराह्वगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यमुदपादयत् ॥ ५२ ॥  
 तदा चतुर्थकल्याणपूजां देवाश्रतुर्विधाः । तस्य निर्वर्तयामासुर्विविधद्विसमन्विताः ॥ ५३ ॥  
 सप्तसप्ततिकुन्धादिगणभृद्बृन्दवेष्टितः । शून्यद्वयानलैकोक्तसर्वपूर्वधरान्वितः ॥ ५४ ॥  
 खद्वयद्वयप्टवाभ्युक्तशिक्षकोत्तमपूजितः । शून्यत्रितयपट्प्रोक्ततृतीयज्ञानमानितः ॥ ५५ ॥  
 शून्यद्वयेन्द्रियर्तुक्तपञ्चमज्ञानभास्करः । शून्यत्रिकैकैकाख्येयविक्रियाद्विविभूपितः ॥ ५६ ॥

सिर्फ धर्म और काममें ही रहती थी । भावार्थ—उन्हें अर्थकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी ॥ ४१ ॥  
 देवोंके द्वारा किये हुए पुण्यानुबन्धी शुभ विनोदोंमें स्त्रियोंके साथ क्रीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत  
 हो रहे थे ॥ ४२ ॥ इस प्रकार बयालीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया । तदनन्तर किसी दिन वसन्त  
 ऋतुका परिवर्तन देखकर वे विचार करने लगे कि जिस कालने इस समस्त संसारको ग्रस्त कर  
 रक्खा है वह काल भी जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवर्तनसे नष्ट होता जा रहा है तब अन्य किस  
 पदार्थमें स्थिरता रह सकती है ? यथार्थमें यह समस्त संसार विनश्वर है, जब तक शाश्वत पद—अवि-  
 नाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ?  
 ॥ ४३—४५ ॥ भगवान् ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उम्मी समय सारस्वत आदि लौकान्तिक देवों-  
 ने आकर उनकी स्तुति की । उन्होंने श्रेयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके  
 समय होनेवाला महाभिषेक प्राप्त किया और देवोंके द्वारा उठाई जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी  
 पालकी पर सवार होकर मनोहर नामक महान् उद्यानकी ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर  
 उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय श्रवण  
 नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्हें चौथा मनःपर्ययज्ञान  
 उत्पन्न हो गया । दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए सिद्धार्थ नगरमें प्रवेश किया ॥ ४६—४८ ॥ वहाँ  
 उनके लिए सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्द राजाने भक्ति-पूर्वक आहार दिया जिससे उत्तम बुद्धिवाले  
 उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य और पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५० ॥ इस प्रकार छद्मस्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत  
 जाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमें दो दिनके उपवासका नियम लेकर  
 तुम्बुर वृक्षके नीचे बैठे और वहाँ पर उन्हें माघकृष्ण अमावस्याके दिन श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके  
 समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ५१—५२ ॥ उसी समय अनेक ऋद्धियोंसे सहित चार निकायके  
 देवोंने उनके चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥ ५३ ॥

भगवान् कुन्धुनाथ, कुन्धु आदि सतहत्तर गणधरोंके समूहसे घिरे हुए थे, तेरहसौ पूर्वधारियोंसे  
 सहित थे, अड़तालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनियोंके द्वारा पूजित थे, छह हजार अवधि-  
 ज्ञानियोंसे सम्मानित थे, छह हजार पाँचसौ केवलज्ञानी रूपी सूर्योंसे सहित थे, ग्यारह हजार विक्रया-  
 ऋद्धिके धारकोंसे सुशोभित थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियोंसे युक्त थे, और पाँच हजार मुख्य  
 वादियोंसे सेवित थे । इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी हजार मुनियोंसे सहित थे । इनके सिवाय



षट्सहस्रप्रमाप्रोक्तमनःपर्ययवीक्षणः । शून्यश्रितयपञ्चोक्तवादिमुख्यसमाश्रितः ॥ ५७ ॥  
 शून्यत्रययुगाष्टोक्तपिण्डिताखिललक्षितः । खचतुष्टयपञ्चैकधारणाद्यार्थिकाचितः ॥ ५८ ॥  
 द्विलक्षोपासकोपेतो द्विगुणध्राविकाचितः । पूर्वोक्तदेवतिर्यक्तो विहरन् धर्ममादिशन् ॥ ५९ ॥  
 सम्मेदगिरिमासाद्य<sup>१</sup> निष्कियो मासमास्थितः । सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥  
 पौर्णमास्यां धनिष्ठार्थां दिनान्ते श्रावणे सताम् । असङ्ख्यातगुणश्रेण्या निर्जरां व्यदधन् मुहुः ॥ ६१ ॥  
 विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्चके । पञ्चमी गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान् सुनिवृतः ॥ ६२ ॥  
<sup>२</sup> विफलानिमिषत्वा स्मो विनास्मादिति वा सुराः । कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैव त्रिदिवं ययुः ॥ ६३ ॥

### वसन्ततिलकावृत्तम्

निर्धूय यस्य निजजन्मनि सत्समस्त-  
 मान्ध्वं चराचरमशेषमवेक्षमाणम् ।  
 ज्ञानं प्रतीपविरहाभिज्ञरूपसंस्थं  
 श्रेयान् जिनः स दिशतादशिवच्युतिं वः ॥ ६४ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

सत्यं सार्वदयामयं तव वचः सर्वं सुहृद्भयो हितं  
 चारित्रं च विभोस्तदेतदुभयं भ्रूते विशुद्धिं पराम् ।  
 तस्माद्देव समाश्रयन्ति विबुधास्त्वामेव शक्रादयो  
 भक्त्येति स्तुतिगोचरां स विदुषां श्रेयान् स वः श्रेयसे ॥ ६५ ॥  
 राजाभूर्जलिनप्रभः प्रभुतमः प्रध्वस्तपापप्रभः  
 कल्पान्ते सकलामराधिपपतिः सङ्कल्पसौख्याकरः ।

एक लाख बीस हजार धारणा आदि आर्थिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, दो लाख श्रावक और चार लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहे अनुसार असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यञ्च सदा उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विहार करते और धर्मका उपदेश देते हुए वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया। श्रावणशुक्ला पौर्णमासीके दिन सायंकालके समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्मोंकी असंख्यातगुणश्रेणी निर्जरा की और अ इ उ ऋ लृ इन पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगता है उतने समयमें अन्तिम दो शुक्लध्यानोंसे समस्त कर्मोंको नष्ट कर पञ्चमी गतिमें स्थित हो वे भगवान् श्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये ॥ ५४-६२ ॥ इसके विना हमारा टिमकाररहित-पना व्यर्थ है ऐसा विचार कर देवोंने उसी समय उनका निर्वाण-कल्याणक किया और उत्सव कर सब स्वर्ग चले गये ॥ ६३ ॥

जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वको देख लिया था, और कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपमें स्थित रहा था ऐसे श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें ॥ ६४ ॥ हे प्रभो ! आपके वचन सत्य, सबका हित करने-वाले तथा दयामय हैं। इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुहृत् जनोंके लिए हितकारी है। हे भगवन् ! आपकी ये दोनों वस्तुएँ आपकी परम विशुद्धिको प्रकट करती हैं। हे देव ! इसीलिए इन्द्र आदि देव भक्ति-पूर्वक आपका ही आश्रय लेते हैं। इस प्रकार विद्वान् लोग जिनकी स्तुति किया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान् तुम सबके कल्याणके लिए हों ॥ ६५ ॥ जो पहले पापकी प्रभाको नष्ट करनेवाले श्रेष्ठतम नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले

यस्तीर्थाधिपतिखिलोकमहितः श्रीमान् श्रियै श्रायसं

स्याद्वादं प्रतिपाद्य सिद्धिमगमत् श्रेयान् जिनः सोऽस्तु वः ॥ ६६ ॥

१ जिनसेनानुगायास्मै पुराणकवये नमः । गुणभद्रभदन्ताय लोकसेनाचिताङ्गव्ये ॥ ६७ ॥  
तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमानभूदाद्यः समुद्यमी । भरतश्चक्रिणां वासौ त्रिखण्डपरिपालिनाम् ॥ ६८ ॥  
आनुतीयभवात्तस्य चरितं प्रणिगच्छते । उदितास्तगभूपानामुदाहरणमित्यदः ॥ ६९ ॥  
द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषयो मगधाङ्गयः । पुरं राजगृहं तस्मिन् पुरन्दरपुरोत्तमम् ॥ ७० ॥  
स्वर्गादेत्यात्र भूष्णूनां राज्ञां यद्गृहमेव तत् । भोगोपभोगसम्पत्त्या नाम तस्यार्थवत्ततः ॥ ७१ ॥  
विश्वभूतिः पतिस्तस्य जैनी देव्यनयोऽस्तुतः । विश्वनन्दनशीलत्वाद्द्विश्वनन्दाति विश्रुतः ॥ ७२ ॥  
विश्वभूतेविशाखादिभूतिजातोऽनुजः प्रिया । लक्ष्मणाख्यास्य नन्द्यन्तविशाखस्तनयोऽनयोः ॥ ७३ ॥  
विश्वभूतिस्तपः प्रायात् कृत्वा राज्ये निजानुजम् । प्रजाः प्रपालयत्यस्मिन्प्रणताखिलभूपतौ ॥ ७४ ॥  
नानावीरुल्लतावृक्षैर्विराजन्नन्दनं वनम् । यद्विश्वनन्दनस्तत्र प्राणेश्योऽपि प्रियं परम् ॥ ७५ ॥  
विशाखभूतिपुत्रेण निर्भर्ष्य वनपालकान् । स्वीकृतं तद्वलात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयोः ॥ ७६ ॥  
संग्रामासहनात्तत्र दृष्ट्वा तस्य पलायनम् । विश्वनन्दा विरक्तः सद् धिग्मोहमिति चिन्तयन् ॥ ७७ ॥  
त्वक्त्वा सर्वं समागत्य सम्भूतगुरुसन्निधौ । पितृव्यमग्रणीकृत्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥ ७८ ॥  
स शीलगुणसम्पन्नः कुर्वन्नशनं तपः । विहरन्नकदा भोक्तुं प्राविशन् मथुरापुरम् ॥ ७९ ॥

मुखोंकी खान स्वरूप, समस्त देवोंके अधिपति—अच्युतेन्द्र हुए और फिर त्रिलोकपूजित तीर्थकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए, मोक्षको प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान् श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी लक्ष्मीके लिए हों—तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६६ ॥

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं—शिष्य हैं तथा लोकसेन नामक शिष्यके द्वारा जिनके चरण-कमल पूजित हुए हैं और जो इस पुराणके बनानेवाले कवि हैं ऐसे भदन्त गुणभद्राचार्यको नमस्कार हो ॥ ६७ ॥ ]

जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयान्सनाथके तीर्थमें तीन खण्डको पालन करनेवाले नारायणोंमें ऊ्यमी प्रथम नारायण हुआ ॥ ६८ ॥ उसीका चरित्र तीसरे भवसे लेकर कहता हूँ । यह उद्यय तथा अस्त होनेवाले राजाओंका एक अच्छा उदाहरण है ॥ ६९ ॥ इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपुरी से भी उनम है ॥ ७० ॥ स्वर्गसे आकर उत्पन्न होनेवाले राजाओंका यह घर है इसलिए भोगोपभोगकी सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह' यह नाम सार्थक है ॥ ७१ ॥ किसी समय विश्वभूति राजा उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जैनी था । इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि सबके लिए आनन्ददायी स्वभाव वाला होनेके कारण विश्वनन्दा नामसे प्रसिद्ध था ॥ ७२ ॥ विश्वभूतिके विशाखभूति नामका छोटा भाई था, उसकी स्त्रीका नाम लक्ष्मणा था और उन दोनोंके विशाखनन्दी नामका पुत्र था ॥ ७३ ॥ विश्वभूति अपने छोटे भाईको राज्य सौंपकर तपके लिए चला गया और समस्त राजाओंको नम्र बनाता हुआ विशाखभूति प्रजाका पालन करने लगा ॥ ७४ ॥ उसी राजगृह नगरमें नाना गुल्मों, लताओं और वृक्षोंसे सुशोभित एक नन्दन नामका वाग था जो कि विश्वनन्दीको प्राणोंसे अधिक प्यारा था ॥ ७५ ॥ विशाखभूतिके पुत्रने वनवालोंको डाँट कर जबर्दस्ती वह वन ले लिया जिससे उन दोनों—विश्वनन्दी और विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ ॥ ७६ ॥ विशाखनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ । यह देखकर विश्वनन्दीको वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह विचार करने लगा कि इस माँहको धिक्कार है ॥ ७७ ॥ वह सबको छोड़कर सम्भूत गुरुके समीप आया और काका विशाखभूतिको अग्रगामी बनाकर अर्थात् उसे साथ लेकर दीक्षित हो गया ॥ ७८ ॥ वह शील तथा गुणोंसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने लगा तथा

स बालवत्सया धेन्वा क्रुधा प्रतिहतोऽपतत् । दौष्यान्निर्वासितो देशान् भ्राम्यन्तन्नागतो विधीः ॥ ८० ॥  
 विशाखनन्दी तं दृष्ट्वा वेदयासौधतले स्थितः । व्यहसद्विक्रमस्तेऽद्य क्व यातः स इति क्रुधा ॥ ८१ ॥  
 सशल्यः सोऽपि तच्छ्रुत्वा सनिदानोऽसुसङ्क्षये । महाशुक्रेऽभवद्देवो यत्रार्सादिनुजः पितुः ॥ ८२ ॥  
 १पोडशाब्ध्यायुषा दिव्यभोगान् देव्यप्सरंगणैः । ईप्सिताननुभूयासौ ततः प्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे<sup>२</sup> सुरम्यविषये पुरे । प्रजापतिर्महाराजः पादनाख्येऽभवत्पतिः ॥ ८४ ॥  
 प्राणप्रिया महादेवी तस्याजनि मृगावती । तस्यां सुस्वप्नवीक्षान्ते त्रिष्टुष्टाख्यः सुतोऽभवत् ॥ ८५ ॥  
 पितृव्यांऽपि च्युतस्तस्मात्तोको<sup>३</sup>ऽभूत्तन्महीपतेः । जयावन्यां ४पुरे चैत्य विक्रमी विजयाङ्घ्रयः ॥ ८६ ॥  
 भ्रमन् विशाखनन्दी च चिरं संसारचक्रके । विजयादर्द्धोत्तरश्रेण्यामलकाख्यपुरेशिनः ॥ ८७ ॥  
 मयूरग्रीवसंज्ञस्य स्वपुण्यपरिपाकतः । हयग्रीवाङ्घ्रयः सूनुरजायत जितारिराट् ॥ ८८ ॥  
 अशीतिचापदेहैः तावादिमौ रामकेशवौ । पञ्चशून्ययुगाष्टाब्दनिर्भङ्गपरमायुषौ ॥ ८९ ॥  
 शङ्खेन्द्रनीलसङ्काशौ हत्वाऽश्वग्रीवमुद्धतम् । त्रिखण्डमण्डितायास्ताविहाभूतां पती क्षितेः ॥ ९० ॥  
 द्विगुणाप्तसहस्राणां मुकुटाङ्कमहीभुजाम् । खगव्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ॥ ९१ ॥  
 त्रिष्टुष्टस्य धनुःशङ्खचक्रदण्डासिःशक्तयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यभवत्सुरैः ॥ ९२ ॥  
 रामस्यापि गदा रत्नमाला ५समुशलं हलम् । श्रद्धानज्ञानचारित्रतपांसीवाभवच्छ्रिये ॥ ९३ ॥  
 देव्यः स्वयम्प्रभामुख्या ६मुकुटेशप्रमा बभुः । केशवस्य तदद्वास्ता रामस्यापि मनःप्रियाः ॥ ९४ ॥

विहार करना हुआ एक दिन मथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ ॥ ७६ ॥ वहाँ एक छोटे बड़बुवाली गायने  
 क्रांभसे धक्का दिया जिमसे वह गिर पड़ा । दुष्टताके कारण राज्यसे बाहर निकाला हुआ मूर्ख  
 विशाखनन्दी अनेक देशोंमें घूमना हुआ उसी मथुरानगरीमें आकर रहने लगा था । वह उस  
 मयूर्य एक वेश्याके मकानकी छतपर बैठा था । वहाँसे उसने विश्वनन्दीको गिरा हुआ देखकर  
 क्रांभसे उसकी हँसी की कि तुम्हारा वह पराक्रम आज कहाँ गया ? ॥ ८०-८१ ॥ विश्वनन्दीको कुछ  
 शल्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी हँसी मुनकर निदान किया । तथा प्राणश्रय होनेपर महाशुक्र  
 स्वर्गमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥ ८२ ॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण  
 उसकी आयु थी । ममस्त आयु भर देवियों और अप्सराओंके समूहके साथ मनचाहे भोग भोगकर वहाँसे  
 च्युत हुआ और इस पृथिवी तल पर जम्बूद्वीप सम्वन्धी भरत क्षेत्रके सुरम्य देशमें पोदनपुर नगरके राजा  
 प्रजापतिकी प्राणप्रिया मृगावती नामकी महादेवकी शुभ स्वप्न देखनेके बाद त्रिष्टुष्ट नामका पुत्र हुआ  
 ॥ ८३-८५ ॥ काकाका जीव भी वहाँसे—महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगरीके राजाकी दूसरी  
 पत्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हुआ ॥ ८६ ॥ और विशाखनन्दी चिरकाल तक संसार-चक्रमें  
 भ्रमण करता हुआ विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीकी अलका नगरीके स्वामी मयूरग्रीव राजाके अपने  
 पुण्योदयसे शत्रु राजाओंको जीतनेवाला अश्वग्रीव नामका पुत्र हुआ ॥ ८७-८८ ॥ इधर विजय और  
 त्रिष्टुष्ट दोनों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुष ऊँचा था और चौरासी  
 लाख वर्षकी उनकी आयु थी ॥ ८९ ॥ विजयका शरीर शंखके समान सफेद था और त्रिष्टुष्टका  
 शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था । वे दोनों उदण्ड अश्वग्रीवको मारकर तीन खण्डोंसे शोभित  
 पृथिवीके अधिपति हुए थे ॥ ९० ॥ वे दोनों ही सोलह हजार मुकुट-बद्ध राजाओं, विश्वाधरों एवं  
 व्यन्तर देवोंके अधिपत्यको प्राप्त हुए थे ॥ ९१ ॥ त्रिष्टुष्टके धनुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति  
 और गदा ये सात रत्न थे जो कि देवोंसे सुरक्षित थे ॥ ९२ ॥ बलभद्रके भी गदा, रत्नमाला, मुसल  
 और हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपके समान लक्ष्मीको  
 बढ़ानेवाले थे ॥ ९३ ॥ त्रिष्टुष्टकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स्त्रियाँ थीं और बलभद्रके

१ एष पाठः क०-ख०-ग०-घ०-प्रतिसंमतः, पोडशाब्धिसमायुर्दिव्यभोगानप्सरोगणैः ल० । २ वर्षे ल० ।

३ पुत्रः । 'पुत्रः सूनुरपत्यं च तुक्ल्लोभौ चात्मजः सुतः ।' इति कोशः । ४ परैर्वैत्य ल० । ५ समुसलं ग० ।

६ मुकुटबद्धराजप्रमाणाः पोडशासहस्रप्रमिता इति यावत् ।

स संरम्य चिरं ताभिर्बह्वारम्भपरिग्रहः । सप्तमीं पृथिवीं प्राप केशवश्चाश्वकन्धरः ॥ ९५ ॥  
सीरपाणिश्च तद्दुःखात्तदैवादाय संयमम् । सुवर्णकुम्भयोगीन्द्राद्भूदगृहकेवली ॥ ९६ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्


कृत्वा राज्यममू सहैव सुचिरं भुक्त्वा सुखं तादृशं  
पृथ्वीमूलमगात्किलाखिलमहादुःखालयं केशवः ।  
रामो धाम परं सुखस्य जगतां मूर्द्धानिमध्यास्त धिक्  
दुष्टं कः सुखभागविलोमगविधिं यावन्न हन्यादमुम् ॥ ९७ ॥

### उपजातिच्छन्दः

प्रागविश्वनन्दीति विशामधीशस्ततो महाशुकमधिष्ठितोऽमरः ।  
पुनस्त्रिष्टुटो भरतार्द्धचक्री चिताशकः सप्तमभूमिमाश्रयत् ॥ ९८ ॥

### वंशस्थवृत्तम्

विशाखभूतिर्धरणीपतिर्यमी मरुन्महाशुकगतस्ततश्च्युतः ।  
हलायुधोऽसौ विजयाह्वयः क्षयं भवं स नीत्वा परमात्मनामितः ॥ ९९ ॥  
विशाखनन्दी विहतप्रतापा<sup>१</sup> व्यसुः परिभ्रम्य भवे चिरं ततः ।  
खगाधिनाथो हयकन्धराह्वयो रिपुस्त्रिष्टुष्टस्य ययावयोगतिम् ॥ १०० ॥  
इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयस्तार्थकरत्रिष्टुट-  
विजयाश्वमीवपुराणं परिसमाप्तं सप्तपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५७ ॥



चित्तको प्रिय लगनेवाली आठ हजार स्त्रियाँ थीं ॥ ९४ ॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहको धारण करनेवाला त्रिष्टुट नारायण उन स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक रमण कर सातवीं पृथिवीको प्राप्त हुआ—सप्तम नरक गया । इसी प्रकार अश्वमीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥ ९५ ॥ बलभद्रने भाईके दुःखसे दुःखी होकर उसी समय सुवर्णकुम्भ नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया और क्रम-क्रमसे अनगरकेवली हुआ ॥ ९६ ॥ देखो, त्रिष्टुट और विजयने साथ ही साथ राज्य किया, और चिरकाल तक अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण—त्रिष्टुट समस्त दुःखोंके महान् गृह स्वरूप सातवें नरकमें पहुँचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोकके अग्रभाग पर जाकर अधिष्ठित हुआ इसलिए प्रतिकूल रहनेवाले इस दुष्ट कर्मको धिक्कार हों । जब तक इस कर्मको नष्ट नहीं कर दिया जावे तब तक इस संसारमें सुखका भागी कौन हो सकता है ? ॥ ९७ ॥ त्रिष्टुट, पहले तो विश्वनन्दी नामका राजा हुआ फिर महाशुक स्वर्गमें देव हुआ, फिर त्रिष्टुट नामका अर्धचक्री—नारायण हुआ और फिर पापांका संचय कर सातवें नरक गया ॥ ९८ ॥ बलभद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा था फिर मुनि होकर महाशुक स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे चयकर विजय नामका बलभद्र हुआ और फिर संसारको नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥ ९९ ॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी हुआ, फिर प्रताप रहित हो भरकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा, फिर अश्वमीव नामका विद्याधर हुआ जो कि त्रिष्टुट नारायणका शत्रु होकर अधोगति—नरक गतिको प्राप्त हुआ ॥ १०० ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें श्रेयांसनाथ तीर्थकर त्रिष्टुटनारायण, विजयबलभद्र और अश्वमीव प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ



१ अत्र छन्दोभङ्गः, 'विहतप्रतापकः' इति पाठो भवेत् ।

## अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व

१ वासोरिन्द्रस्य पूज्योऽयं वसुपूज्यस्य वा सुतः । वासुपूज्यः सतां पूज्यः स ज्ञानेन पुनातु नः ॥ १ ॥  
 पुष्करार्द्धेन्द्रदिग्मेरुसीतापागवत्सकावती- १ विषये ख्यातरत्नादिपुरे पद्मोत्तरः पतिः ॥ २ ॥  
 कीर्तिगुणमयी वाचि मूर्तिः पुण्यमर्याक्षणे । वृत्तिर्धर्ममयी चित्ते सर्वेषामस्य भूभुजः ॥ ३ ॥  
 साम वाचि दया चित्ते धाम देहे नयो मतौ । धनं दाने जिने भक्तिः प्रतापस्तस्य शत्रुषु ॥ ४ ॥  
 पाति तस्मिन् भुवं भूपे न्यायमार्गानुवर्तिनि । वृद्धिमेव प्रजाः प्राप्सुर्मुनौ समितयो यथा ॥ ५ ॥  
 ३ गुणास्तस्य धनं लक्ष्मीस्तदीयापि ४ गुणप्रिया । तथा सह ततो दीर्घं निर्द्वन्द्वं मुखमाप्नुवन् ॥ ६ ॥  
 स कदाचित् समासीनं मनोहरगिरौ जिनम् । युगन्धराह्वयं स्तोत्रैरुपास्य खलु भक्तिमान् ॥ ७ ॥  
 श्रुत्वा सप्रश्रयो धर्ममनुप्रेक्षानुचिन्तनात् । जातत्रिभेदनिर्वेगः ५ पुनश्चेत्यप्यचिन्तयत् ॥ ८ ॥  
 श्रियो माया सुखं दुःखं १ विश्रसावधि जीवितम् । संयोगो विप्रयोगान्तः कार्योऽयं ० सामयः खलुः ॥ ९ ॥  
 कात्र प्रानिरहं जन्मपञ्चावर्तान्महाभयात् । निर्गच्छाम्यवलम्ब्यैतां काललब्धिमुपस्थिताम् ॥ १० ॥  
 ततो राज्यभरं पुत्रे धनमित्रे नियोज्य सः । मर्हाशैर्बहुभिः सार्द्धमर्दाक्षिष्टात्मशुद्धये ॥ ११ ॥  
 अधीन्वैकादशाङ्गानि श्रद्धानायाससम्पदा । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते संन्यस्य शुद्धिः ॥ १२ ॥

जो वासु अर्थान् इन्द्रके पूज्य हैं अथवा महाराज वसुपूज्यके पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं ऐसे वासुपूज्य भगवान् अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ॥ १ ॥ पुष्करार्ध द्वीपके पूर्व मेरुकी ओर सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्सकावती नामका एक देश है । उसके अतिशय प्रसिद्ध रत्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था ॥ २ ॥ उस राजाकी गुणमयी कीर्ति सबके वचनोंमें रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रोंमें रहती थी, और धर्ममयी वृत्ति सबके चित्तोंमें रहती थी ॥ ३ ॥ उसके वचनोंमें शान्ति थी, चित्तोंमें दया थी, शरीरमें तेज था, बुद्धिमें नीति थी, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवान्में भक्ति थी और शत्रुओंमें प्रताप था अर्थात् अपने प्रतापसे शत्रुओंको नष्ट करता था ॥ ४ ॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले मुनिमें समितियाँ बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले उस राजाके पृथिवीका पालन करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी ॥ ५ ॥ उसके गुण ही धन था तथा उसकी लक्ष्मी भी गुणोंसे प्रेम करनेवाली थी इसलिए वह उस लक्ष्मीके साथ बिना किसी प्रतिबन्धके विशाल सुख प्राप्त करता रहता था ॥ ६ ॥ किसी एक दिन मनोहर नामके पर्वत पर युगन्धर जिनराज विराजमान थे । पद्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक अनेक स्तोत्रोंसे उनकी उपासना की ॥ ७ ॥ विनयपूर्वक धर्म सुना और अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन किया । अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे उसे संसार, शरीर और भोगोंसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया । वैराग्य होने पर वह इस प्रकार पुनः चिन्तन करने लगा ॥ ८ ॥ कि यह लक्ष्मी माया रूप है, सुख दुःखरूप है, जीवन मरण पर्यन्त है, संयोग-वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है ॥ ९ ॥ अतः इन सबमें क्या प्रेम करना है ? अब तो मैं उपस्थित हुई इस काललब्धिका अवलम्बन लेकर अत्यन्त भयानक इस संसार रूपी पञ्च परावर्तनोंसे बाहर निकलता हूँ ॥ १० ॥ ऐसा विचार कर उसने राज्यका भार धनमित्र नामक पुत्रके लिए सौपा और स्वयं आत्म-शुद्धिके लिए अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली ॥ ११ ॥ निर्मल बुद्धिके धारक पद्मोत्तर मुनिने ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, दर्शनविशुद्धि

१ वासुना इन्द्रेण पूज्यः वासुपूज्यः, अथवा वसुपूज्यस्य अपत्यं वासुपूज्यः । २ विषयख्यात ख० । ३ गुणस्तस्य ग०, ल० । ४ तद्वायापि ल० ( ? ) । ५ निर्वेदः ल० । ६ मरणावधि । ७ सामयः सतोगः ।

महाशुकविमानेऽभूमहाशुक्रोऽमराधिपः । षोडशाब्धिप्रमाणायुश्चतुर्हस्तशरीरभाक् ॥ १३ ॥  
 पद्मलेख्यः श्रस्मान्सात्सैरष्टमिस्तुष्टमानसः । षोडशाब्दसहस्रान्ते मानसाहारमाहरन् ॥ १४ ॥  
 सदा शब्दप्रवीचारश्चतुर्थक्षमागतावधिः । प्रमावधिरिवैतस्य विक्रियाबलतेजसाम् ॥ १५ ॥  
 तत्रामरीकलालापगीतवाद्यादिमोदिते । चोदिते कालपर्यायैस्तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १६ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते चम्पानगरेऽङ्गनराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपः ख्यातो वसुपूज्योऽस्य भामिनी ॥ १७ ॥  
 प्रिया जयावती प्राप्तवसुधारादिमानना । भापादकृष्णपृष्ठ्यन्ते चतुर्विंशर्क्षलक्षिते ॥ १८ ॥  
 दृष्ट्वा स्वमान् फलं तेषां पत्युर्ज्ञात्वाऽतितोषिणी । अष्टौ मासान् क्रमात्कृत्वा प्राप्तफाल्गुनमासिका ॥ १९ ॥  
 कृष्णायां <sup>१</sup>वारुणे योगे चतुर्दश्यां सुरोत्तमम् । सर्वप्राणिहितं पुत्रं सुखेनेयमजीजनत् ॥ २० ॥  
 सुराः सौधर्ममुख्यास्तं सुराद्रौ क्षीरसागरात् । घटैरानीय पानीयं स्रपयित्वा प्रसाधनम् ॥ २१ ॥  
 विधाय वासुपूज्यं च नामादाय पुनर्गृहम् । नीत्वा वासान् स्वकीयांस्ते जग्मुर्जातमहोत्सवाः ॥ २२ ॥  
 श्रेयस्तीर्थान्तरे पञ्चाशच्चतुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यत्रिभागोऽस्मिन् व्युच्छित्तौ <sup>२</sup>धर्मसन्ततेः ॥ २३ ॥  
 तदभ्यन्तरवर्त्यायुः सोऽभवच्चापससतिः । पञ्चशून्यद्विसप्तसप्तद्विजितः कुंकुमच्छविः ॥ २४ ॥  
 इष्ट्याष्टादशधान्यानां बीजानां वृद्धिकारणम् । <sup>३</sup>भेकलेखमिव क्षेत्रं गुणानामेष भूपतिः ॥ २५ ॥  
 धियमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सत्फलदायिनः । समां वृष्टिरिवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्धिताः ॥ २६ ॥

आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया और अन्तमें संन्यास धारण किया ॥ १२ ॥ जिससे महाशुक विमानमें महाशुक नामका इन्द्र हुआ । सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी और चार हाथ ऊँचा शरीर था ॥ १३ ॥ पद्मलेख्या थी, आठ माहमें एक बार श्रास लेता था, सदा संतुष्टचित्त रहता था और सोलह हजार वर्ष वीतने पर एक बार मानसिक आहार लेता था ॥ १४ ॥ सदा शब्दमे ही प्रवीचार करता था अर्थात् देवाङ्गनाओंके मधुर शब्द सुनने मात्रसे उसकी कामवाधा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, और चतुर्थ पृथिवी तक ही उसकी विक्रिया बल और तेजकी अवधि थी ॥ १५ ॥ वहाँ देवियोंके मधुर वचन, गीत, वाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था । अन्तमें काल द्रव्यकी पर्यायोंसे प्रेरित होकर जब वह यहाँ आनेवाला हुआ ॥ १६ ॥

तब इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें वसुपूज्य नामका अङ्गदेशका राजा रहता था । वह इक्ष्वाकुवंशी तथा काश्यपगोत्री था । उसकी प्रिय स्त्रीका नाम जयावती था, जयावतीने रत्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था । तदनन्तर उसने आपादकृष्ण पृष्ठीके दिन चौबीसवें शतभिषा नक्षत्रमें सोलह स्वप्न देखे और पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्नोप प्राप्त किया । क्रम-क्रमसे आठ माह वीत जानेपर जब नौवाँ फाल्गुन माह आया तब उसने कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन वारुण योगमें सब प्राणियोंका हित करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रको सुखसे उत्पन्न किया ॥ १७-२० ॥ सौधर्म आदि देवोंने उसे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए जलके द्वारा उसका जन्माभिषेक किया, आभूषण पहिनाये, वासुपूज्य नाम रक्खा, घर वापिस लाये और अनेक महोत्सव कर अपने अपने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया ॥ २१-२२ ॥ श्री श्रेयांसनाथ तीर्थकरके तीर्थसे जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर वीत चुका था और अन्तिम पत्युके तृतीय भागमें जब धर्मकी सन्तिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवान्का जन्म हुआ था । इनकी आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, वहत्तर लाख वर्षकी उनकी आयु थी और कुङ्कुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥ २३-२४ ॥ जिस प्रकार मेंढकोंके द्वारा आस्वादन करने योग्य अर्थात् सजल क्षेत्र अटारह प्रकारके इष्ट धान्योंके बीजोंकी वृद्धिका कारण होता है उसी प्रकार यह राजा गुणोंकी वृद्धिका कारण था ॥ २५ ॥ जिस प्रकार संसारका हित करनेवाले सब प्रकारके धान्य, समा नामकी इच्छित्त वषाणों पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण

त्रयः साक्षाहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः । षष्टिरातपमेघानामेववृष्टिः<sup>१</sup> समा मता ॥ २७ ॥  
 अगुरुगुणा गुणीभावमन्येष्वस्मिन्सु मुख्यताम् । आश्रयः कस्य वैशिष्ट्यं विशिष्टो न प्रकल्पते ॥ २८ ॥  
 गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तज्ञान इष्यते । इति बुद्ध्वा सुधीः सर्वान् गुणान् सम्यगपालयत् ॥ २९ ॥  
 अष्टादशसमाः लक्षाः कौमारे प्राप्य संसृतेः । निर्विद्यात्मगतं धीमान् यायात्म्यं समचिन्तयत् ॥ ३० ॥  
 विधीविषयसंसक्तो<sup>२</sup> बन्धनत्मानमात्मना । बन्धैश्चतुर्विधैर्दुःखं भुञ्जानश्च चतुर्विधम् ॥ ३१ ॥  
 अनादौ जन्मकान्तारे भ्रान्त्वा कालादिलब्धतः । सन्मार्गं प्राप्तवाँस्तेन प्रगुणं यामि सद्गतिम् ॥ ३२ ॥  
 अस्तु कायः शुचिः स्थास्तुः प्रेक्षणीयो निरामयः । आयुश्चिरमनाबाधं सुखं<sup>३</sup> सन्ततसाधनम् ॥ ३३ ॥  
 किन्तु ध्रुवो विद्योगोऽत्र रागात्मकमिदं सुखम् । रागां बध्नाति कर्माणि बन्धः संसारकारणम् ॥ ३४ ॥  
 चतुर्गतिमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुखावहाः । ततः किममुनेत्येतत्याज्यमेव विचक्षणैः ॥ ३५ ॥  
 इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो लौकान्तिकैः कृतः । सुरा निष्क्रमणज्ञानभूषणाद्युत्सवं व्यधुः ॥ ३६ ॥  
 शिविकां देवसंरूढामारुह्य पृथिवीपतिः । वने मनोहरोद्याने चतुर्थोपोषितं वहन् ॥ ३७ ॥  
 विशाखर्षे चतुर्दश्यां सायाह्ने कृष्णफाल्गुने । सामायिकं समादाय तुर्यज्ञानोऽप्यभूदुत्तु ॥ ३८ ॥  
 सह तेन महीपालाः षट्सप्ततिमिताहिताः । प्रब्रज्यां प्रत्यपद्यन्त परमार्थविदो मुदा ॥ ३९ ॥  
 द्वितीये दिवसेऽविश्वन् महानगरमन्धसे । सुन्दराख्यो नृपस्तस्मै सुवर्णाभोऽदिताशनम् ॥ ४० ॥  
 आश्रयपञ्चकं चापि तेन छाद्यस्थयवन्सरे । गते श्रीवासुपूज्येशः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४१ ॥

इस राजाकी बुद्धिका पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले हो गये थे ॥ २६ ॥ सात दिन तक मेघोंका बरसना त्रय कहलाता है, अस्सी दिन तक बरसना कणशीकर कहलाता है और बीच-बीचमें आतप-धूप प्रकट करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक बरसना समावृष्टि कहलाती है ॥ २७ ॥ गुण, अन्य हरि-हरादिकमें जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवान्में वही गुण मुख्यताको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते ? ॥ २८ ॥ चूँकि सब पदार्थ गुणमय हैं—गुणोंमें तन्मय हैं अतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदार्थका भी नाश हो जावेगा यह विचार कर ही बुद्धिमान् वासुपूज्य भगवान् समस्त गुणोंका अच्छी तरह पालन करते थे ॥ २९ ॥ जब कुमारकालके अठारह लाख वर्ष बीत गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान् भगवान् अपने मनमें पदार्थके यथार्थ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३० ॥ यह निर्वुद्धि प्राणी विषयोंमें आसक्त होकर अपनी आत्माको अपने ही द्वारा बाँध लेता है तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकारका दुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-वनमें भ्रमण कर रहा है । अब मैं कालादि लब्धियोंसे उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मार्गको प्राप्त हुआ हूँ अतः मुझे मोक्ष रूप सद्गति ही प्राप्त करना चाहिए ॥ ३१-३२ ॥ शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनीय—सुन्दर हो, नीरोग हो, आयु चिरकाल तक बाधासे रहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें परन्तु यह निश्चित है कि इन सबका वियोग अवश्यभावी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोंको बाँधता है, बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियाँ दुःख तथा सुखको देनेवाली हैं अतः मुझे इस संसारसे क्या प्रयोजन है ? यह तो बुद्धिमानोंके द्वारा छोड़ने योग्य ही है ॥ ३३-३५ ॥ इधर भगवान् ऐसा चिन्तन कर रहे थे उधर लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति करना प्रारम्भ कर दी । देवोंने दीक्षा-कल्याणके समय होनेवाला अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥ ३६ ॥ महाराज वासुपूज्य देवोंके द्वारा उठाई गई पालकी पर सवार होकर मनोहरोद्यान नामक वनमें गये और वहाँ दो दिनोंके उपवासका नियम लेकर फाल्गुनकृष्ण चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सामायिक नामका चारित्र ग्रहण कर साथ ही साथ मनःपर्यय-ज्ञानके धारक भी हो गये ॥ ३७-३८ ॥ उनके साथ परमार्थको जाननेवाले छह सौ छिहत्तर राजाओंने भी बड़े हर्षसे दीक्षा प्राप्त की थी ॥ ३९ ॥ दूसरे दिन उन्होंने आहारके लिए महानगरमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर नामके राजाने उन्हें आहार दिया ॥ ४० ॥ और पञ्चाश्वर्य प्राप्त

१ षष्टिरातपमेघानां मेघवृष्टिः ६०, ६०। मेघा वृष्टिः ६०। २ संशक्तो ल०। ३ सन्ततसाधनम् ग०, ख०।

कदम्बवृक्षमूलस्थः सोपवासोऽपराह्णके । मावज्योत्स्नाद्वितीयायां विशाखर्षेऽभवज्जिनः ॥ ४२ ॥  
 सौधर्ममुख्यदेवेन्द्रास्तदैवैनमपूजयन् । तत्कल्याणं न विस्तार्य नाम्नोऽन्यस्योदये यतः ॥ ४३ ॥  
 पट्पटिमितधर्मादिगणभृद्बृन्दवन्दितः । खट्वयद्वयैकविज्ञातपूर्वधराहृतः ॥ ४४ ॥  
 खट्वयद्विनवान्युकशिक्षकाभिष्टुतक्रमः । शून्यद्वयचतुःपद्मप्रोक्तावधिबुधश्रितः<sup>१</sup> ॥ ४५ ॥  
 शून्यत्रिकर्तुविलयातश्रुतकेवलवीक्षणः । खचतुष्कैकनिर्णतविक्रियद्विबिभूषितः ॥ ४६ ॥  
 पट्सहस्रचतुर्ज्ञानमानितक्रमपद्मजः । खट्वयद्विचतुःप्रोक्तवादिसाधितमच्छ्रुतिः ॥ ४७ ॥  
 शून्यत्रयद्विसप्तोक्तपिण्डिताखिलमण्डितः । शून्यत्रयर्तुशून्यैकसेनार्याधार्थिकादिष्टत् ॥ ४८ ॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेतः श्राविकातुर्यलक्षकः । पूर्वोक्तदेवदेवीड्यस्तियंक्सङ्ख्यातसंस्तुतः ॥ ४९ ॥  
 स तैः सह विहन्याखिलार्षेत्राणि तर्पयन् । धर्मवृष्ट्या क्रमात्प्राप्य चम्पामन्दसहस्रकम् ॥ ५० ॥  
 स्थित्वाऽत्र निष्कियं मासं नद्या रजतमालिका- । सञ्ज्ञायाश्चित्तहारिण्याः<sup>२</sup> पर्यन्तावनिवर्तिनि ॥ ५१ ॥  
 अग्रमन्दरशैलस्य सानुस्थानविभूषणे । वने मनोहरोद्याने फलयङ्कासनमाश्रितः ॥ ५२ ॥  
 मासे भाद्रपदे ज्योत्स्नाचतुर्दश्यापराह्णके । विशाखायां ययौ मुक्ति चतुर्णवतिसयनैः ॥ ५३ ॥  
 परिनिर्वाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवैः । अर्वन्दिपत ते देवं देवाः सेवाविचक्षणाः ॥ ५४ ॥  
 विजिगीषोर्गुणैः<sup>४</sup> षड्भिः<sup>५</sup> सिद्धिश्चेत्सुप्रयोजितैः । मुमुक्षोः किं न<sup>६</sup> सामीभिः<sup>७</sup> लक्ष्मचतुरशीनिगैः ॥ ५५ ॥

किये । तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाका एक वर्ष बीत जानेपर किमी दिन वामुपूज्य स्वामी अपने दीक्षा-  
 वनमें आयें ॥ ४१ ॥ वहाँ उन्होंने कदम्ब वृक्षके नीचे बैठकर उपवासका नियम लिया और माघशुक्ल  
 द्वितीयाके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंका नष्ट करकेवलज्ञान प्राप्त किया ।  
 अब वे जिनराज हो गये ॥ ४२ ॥ सौधर्म आदि इन्द्रोंने उम्मी समय आकर उनकी पूजा की । चूँकि  
 भगवानका वह दीक्षा-कल्याणक नामकर्मके उदयमें हुआ था अतः उसका विस्तारके साथ वर्णन  
 नहीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥ वे धर्मको आदि लेकर छयासठ गदाधरोंके समूहमें वन्दित थे, बारह  
 सौ पूर्वधारियोंसे घिरे रहते थे, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुति करते थे, पाँच  
 हजार चार सौ अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दश हजार  
 विक्रिया ऋद्धिकों धारण करनेवाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके  
 चरण-कमलोंका आदर करते थे और चार हजार दो सौ वादी उनकी उत्तम प्रसिद्धिकों बढ़ा रहे थे ।  
 इस प्रकार सब मिलकर बह्मर हजार मुनियोंसे वे मुशोभित थे, एक लाख छह हजार सेना आदि  
 आर्थिकाओंको धारण करते थे, दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे युक्त थे,  
 असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात निर्यञ्चोंसे स्तुत थे ॥ ४४-४६ ॥ भगवानने इन सब-  
 के साथ समस्त आर्यक्षेत्रोंमें विहार कर उन्हें धर्मवृष्टिसे संतृप्त किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरीमें  
 आकर एक हजार वर्ष तक रहे । जब आयुमें एक मास शेष रह गया तब योग-निरोधकर रजत-  
 मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वर्तमान, मन्दरगिरिकी शिखरको मुशोभित करनेवाले  
 मनोहरोद्यानमें पर्यङ्कासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपदशुक्ल चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा  
 नक्षत्रमें चौरानवे मुनियोंके साथ मुक्तिकी प्राप्त हुए ॥ ५०-५३ ॥ सेवा करनेमें अत्यन्त निपुण देवोंने  
 निर्वाणकल्याणककी पूजाके बाद बड़े उत्सवमें भगवानकी वन्दना की ॥ ५४ ॥ जब कि विजयकी  
 इच्छा रखनेवाले राजाका, अच्छी तरह प्रयोगमें लाये हुए सन्धि-विग्रह आदि छह गुणोंसे ही सिद्धि  
 ( विजय ) मिल जाती है तब मोक्षाभिलाषी भगवानका चौरासी लाख गुणोंसे सिद्धि ( मुक्ति ) क्यों  
 नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ॥ ५५ ॥

१ स्मृतः ल० । २ रजतमालिका क०, घ० । रजतमालिका ख०, ग० । रजतमौलिका ल० । ३ पर्य  
 न्तावनिवर्तनः ग० । ४ सन्धि-विग्रहादिभिः पट्गुणैः । ५ सफलता-विजयः । ६ सा सिद्धिः अमोभिः गुणैः ।  
 ७ चतुरशीतिलक्षप्रमितोत्तरगुणैः ।



### मालिनी

सदसदुभयमेतेनैकशब्देन वाच्ये  
 त्रितयमपि पृथक्त्तर्यभङ्गेन युज्यात् ।  
 इति सकलपदार्थासप्तभङ्गी त्वयोक्ता  
 कथमवितथवाक्त्वं वासुपूज्यो न पूज्यः ॥ ५६ ॥

### वसन्ततिलका

धर्मो दया कथमसौ सपरिग्रहस्य  
 वृष्टिर्धरातलहिता किमवग्रहेऽस्ति ।  
 तस्मात्त्वया द्वयपरिग्रहमुक्तिरुक्ता  
 तद्वासनासुमहितो जिन वासुपूज्यः ॥ ५७ ॥  
 पद्मोत्तरः प्रथमजन्मानि पार्थिवेशः  
 शुक्रं महत्यमरपटपदपद्मपादः ।  
 यो वासुपूज्ययुवराट् त्रिजगत्प्रपूज्यः  
 राज्ये जिनः स दिशतादतुलं सुखं वः ॥ ५८ ॥

### अनुष्टुप्

नार्थे श्रांवासुपूज्यस्य द्विपृष्ठो नाम भूपतिः । त्रिखण्डाधिपतिजातो द्वितीयः सोऽर्द्धचक्रिणाम् ॥ ५९ ॥  
 वृत्तकं तस्य वक्ष्यामो जन्मत्रयसमाश्रितम् । श्रुतेन येन भव्यानां भवेद् भूयो भवाद्वयम् ॥ ६० ॥  
 द्विपेऽस्मिन् भारते वर्षे कनकाद्रिपुराधिपः । सुषेणो नाम तस्यास्मील्लर्तकी गुणमञ्जरी ॥ ६१ ॥  
 रूपिणी <sup>१</sup>सुभगानृत्यर्गातवाद्यादिश्रुता । सरस्वती द्वितीयेव सर्वभूपाभिवाञ्छिता ॥ ६२ ॥  
 अस्ति तत्रैव देशोऽन्यो मलयाख्यो मनोहरः । विन्ध्यशक्तिः पतिस्तस्य नृपां विन्ध्यपुरे वसन् ॥ ६३ ॥

पदार्थ कथंचित् सन् है, कथंचित् असन् है, कथंचित् सन्-असन् उभयरूप है, कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् सन् अवक्तव्य है, कथंचित् असन् अवक्तव्य है, और कथंचित् सदसद-वक्तव्य है, इस प्रकार हे भगवन्, आपने प्रत्येक पदार्थके प्रति सप्तभङ्गीका निरूपण किया है और इसीलिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध है फिर हे वासुपूज्य देव ! आप पूज्य क्यों न हों ? अवश्य हों ॥ ५६ ॥ धर्म दया रूप है, परन्तु वह दयारूप धर्म परिग्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है ? यथा पृथिवीतलका कल्याण करनेवाली है परन्तु प्रतिवन्धके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसीलिए आपने अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग—दोनों परिग्रहोंके त्यागका उपदेश दिया है । हे वासुपूज्य जिनेन्द्र ! आप इसी परिग्रह-त्यागकी वासनासे पूजित हैं ॥ ५७ ॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महा-शुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोंके लिए कमलके समान थे और फिर त्रिजगत्पूज्य वासुपूज्य जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालब्रह्मचारी रह कर ही राज्य किया था, वे बारहवें तीर्थकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें ॥ ५८ ॥

अथानन्तर—श्री वासुपूज्य स्वामीके तीर्थमें द्विपृष्ठ नामका राजा हुआ जो तीन खण्डका स्वामी था और दूसरा अर्धचक्रा ( नारायण ) था ॥ ५९ ॥ यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता हूँ जिसके सुननेसे भव्य-जीवोंकी संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा ॥ ६० ॥ इसी जन्मवृद्धीपके भरत क्षेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है । उसके राजाका नाम सुषेण था । सुषेणके एक गुणमञ्जरी नामकी नृत्यकारिणी थी ॥ ६१ ॥ वह नृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा बाजे बजाने आदि कलाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसीलिए सब राजा उसे चाहते थे ॥ ६२ ॥ उसी भरतक्षेत्रमें एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके विन्ध्य-

स रक्तो गुणमञ्जयाः प्रेक्षायामिव षट्पदः । चूतप्रसवमञ्जया मापुर्वरसरञ्जितः ॥ ६४ ॥  
 रत्नाद्युपायनोपेतं मितार्थं<sup>१</sup> चिचहारिणम् । सुपेणं प्रतिसम्मान्य प्रादिणोन्नतकीप्सया ॥ ६५ ॥  
 दूतोऽपि सत्वरं गत्वा स सुपेणमहीपतिम् । दृष्ट्वा यथोचितं तस्मै दत्त्वोपायनमब्रवीत् ॥ ६६ ॥  
 युष्मद्गृहे महारत्नं नर्तकी किल विश्रुता । विन्ध्यशक्तिर्भवद्बन्धुस्तं द्रष्टुमभिलाषुकः ॥ ६७ ॥  
 तत्प्रयोजनमुद्दिश्य प्रहितांऽहं महीपते । त्वयापि सा प्रहेतव्या प्रत्यानीय समर्पये ॥ ६८ ॥  
 इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । याहि याहि किमश्रव्यैर्वचोभिर्दर्पशालिभिः ॥ ६९ ॥  
 इति निर्भत्सितो भूयः सुपेणेन दुरुक्तिभिः । दूतः प्रत्येत्य तत्सव विन्ध्यशक्तिं<sup>२</sup> व्यजिज्ञपत् ॥ ७० ॥  
 सोऽपि कोपग्रहाविष्टस्तद्वचःश्रवणाद् भृशम् । अस्तु को दोष इत्यात्मगतमालोच्य मन्त्रिभिः ॥ ७१ ॥  
 शूरो लघुसमुत्थानः कृतयुद्धविशारदः । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसांप्रामिकाग्रणीः ॥ ७२ ॥  
 विधाय सङ्गरे भङ्गं तत्कीर्तिमिव नर्तकीम् ।<sup>३</sup> तामाहरद् गते पुण्ये कस्य किं कोऽत्र नाहरत् ॥ ७३ ॥  
 दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य दंष्ट्रभङ्गो गजद्विषः । मानभङ्गो महीभर्तुर्महिमानमपह्लुते ॥ ७४ ॥  
 स तेन मानभङ्गेन स्वगृहाद्भ्रमानसः । पृष्ठभङ्गेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्पदम् ॥ ७५ ॥  
 स कदाचित्सनिर्वेदः<sup>४</sup> सुब्रताख्यजिनाधिपान् । अनगारात्परिज्ञातधर्माङ्गिर्मलचेतसा ॥ ७६ ॥  
 स कोऽपि पापपाकां मे येन तेनाप्यहं जितः । इति सञ्चित्य पापारिं निहन्तुं मतिमातनोत् ॥ ७७ ॥  
 तपस्तनूनपानापतनूकृततनुश्चिरम् । सारिकोपः स संन्यस्य सनिदानः सुरोऽभवत् ॥ ७८ ॥

पुर नगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार मधुरताके रमने अनुरक्त हुआ भ्रमर आम्रमञ्जरीके देग्वनेमें आसक्त होता है, उसी प्रकार वह राजा गुणमञ्जरीके देग्वनेमें आसक्त था ॥ ६४ ॥ उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपेण राजाका सम्मान कर उसके पास रत्न आदिकी भेंट लेकर चित्तको हरण करनेवाला एक दूत भेजा ॥ ६५ ॥ उस दूतने भी शीघ्र जाकर सुपेण महाराजके दर्शन किये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा ॥ ६६ ॥ उसने कहा कि आपके घरमें जो अत्यन्त प्रसिद्ध नर्तकीरूपी महारत्न है, उसे आपका भाई विन्ध्यशक्ति देखना चाहता है ॥ ६७ ॥ हे राजन् ! इसी प्रयोजनका लेकर मैं यहाँ भेजा गया हूँ । आप भी उम नृत्यकारिणीको भेज दीजिए । मैं उसे वापिस लाकर आपका सौंप दूँगा ॥ ६८ ॥ दूतके ऐसे वचन सुनकर सुपेण क्रोधसे अत्यन्त काँपने लगा और कहने लगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकारसे भरे हुए इन वचनोंसे क्या लाभ है ? इस प्रकार सुपेण राजाने खोटे शब्दों द्वारा दूतकी बहुत भारी भर्त्सना की । दूतने वापिस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसे कह दिए ॥ ६९-७० ॥ दूतके वचन सुननेसे वह भी बहुत भारी क्रोधरूपी ग्रहसे आविष्ट हो गया—अत्यन्त कुपित हो गया और कहने लगा कि रहने दो, क्या दोष है ? तदनन्तर मंत्रियोंके साथ उमने कुछ गुप्त विचार किया ॥ ७१ ॥ कृत युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धाओंके आगे चलनेवाला और शूरवीर वह राजा अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला ॥ ७२ ॥ विन्ध्यशक्तिने युद्धमें राजा सुपेणको पराजित किया और उसकी कीर्तिके समान नृत्यकारिणीको जबरदस्ती छीन लिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके चले जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता ? ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार दौतका टूट जाना हाथीकी महिमाको छिपा लेता है, और दाढ़का टूट जाना सिंहकी महिमाको तिरोहित कर देता है उसी प्रकार मान-भङ्ग राजाकी महिमाको छिपा देता है ॥ ७४ ॥ उस मान-भङ्गसे राजा सुपेणका दिल टूट गया अतः जिस प्रकार पीठ टूट जानेसे सर्प एक पद भी नहीं चल पाता है उसी प्रकार वह भी अपने स्थानसे एक पद भी नहीं चल सका ॥ ७५ ॥ किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको जाननेवाले गृह-त्यागी सुव्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना और निर्मल चित्तसे इस प्रकार विचार किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुझे हरा दिया । ऐसा विचार कर उसने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छा की ॥ ७६-७७ ॥ और उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले

विमानेऽनुपमे नाम्ना कल्पे प्राणतनामनि । विशत्यब्ध्युपमायुः सन् स्वष्टद्विकृतसम्मदः ॥ ७९ ॥  
 अत्रैव १ भारते श्रीमान् महापुरमधिष्ठितः । नृपो वायुरथो नाम भुक्त्वा राज्यभ्रियं चिरम् ॥ ८० ॥  
 श्रुत्वा सुव्रतनामार्हन्त्यार्धं धर्मं स तत्प्रवित् । सुतं घनरथं राज्ये स्थापयित्वाऽगमत्तपः ॥ ८१ ॥  
 अधीत्य सर्वशास्त्राणि विधाय परमं तपः । तत्रैवेन्द्रोऽभवत्कल्पे विमानेऽनुचाराह्वये ॥ ८२ ॥  
 ततोऽवतीर्थ वर्षेऽस्मिन् पुरीद्वारावतीपतेः २ । ब्रह्माख्यस्याचलस्तोकः सुभद्रायामभूद्विभुः ॥ ८३ ॥  
 तस्यैवासौ सुपेणाख्योऽप्युपायामात्मजोऽजनि । द्विष्टृष्टाख्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसम्मिता ॥ ८४ ॥  
 द्वासप्ततिसमालक्षाः परमायुनिरन्तरम् । राजभोगानभुक्तोच्चैरिक्ष्वाकूणां कुलाग्रणीः ॥ ८५ ॥  
 कुन्देन्द्रनीलसङ्काशावभातां बलकेशवौ । सङ्गमेन प्रवाहो वा गङ्गायमुनयोरम् ॥ ८६ ॥  
 अविभक्तां महीमेतावभुक्तां पुण्यनायकौ । सरस्वतीं गुरुद्विष्टां समानश्राविकाविव ॥ ८७ ॥  
 अविवेकस्तयोरासीदधीताशेषशास्त्रयोः । अपि श्रीकामिनीयोगे स एव किल शस्यते ॥ ८८ ॥  
 स्थिरावत्युन्नतौ शुक्रनीलौ भातः स्म भूभृताौ । कैलासाब्जनसञ्ज्ञौ वा सङ्गतौ तौ मनोहरौ ॥ ८९ ॥  
 इतः स विन्ध्यशक्त्याख्यो घटीयन्त्रसमाश्रितम् । भ्रान्त्वा संसारवाराशावणीयः पुण्यसाधनः ॥ ९० ॥  
 इहैव श्रीधराख्यस्य भोगवर्द्धनपुःपतेः ३ । अभूदखिलविख्यातस्तनूजस्तारकाख्यया ॥ ९१ ॥  
 बभार भास्वरां लक्ष्मीं भरताद्धै निवासिनीम् । स्वचक्राक्रान्तिसन्त्रासदासीभूत (ख) भूचरः ॥ ९२ ॥

ली । बहुत दिन तक तपरूपी अग्नि के संतापसे उसका शरीर कृश हो गया था । अन्तमें शत्रुपर क्रोध रखता हुआ वह निदान बन्ध सहित संन्यास धारण कर प्राणत स्वर्गके अनुपम नामक विमानमें बीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋद्धियोंसे हर्षित देव हुआ ॥ ७८-७९ ॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान् वायुरथ नामका राजा रहता था । चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके पास धर्मका उपदेश सुना, तत्त्वज्ञानी वह पहलेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रको राज्य देकर तपके लिए चला गया ॥ ८०-८१ ॥ समस्त शत्रुओंका अध्ययन कर तथा उल्लूष्ट तप कर वह उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ ॥ ८२ ॥ वहाँसे चय कर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके राजा ब्रह्मके उनकी रानी सुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हुआ ॥ ८३ ॥ तथा सुपेणका जीव भी वहाँसे चय कर उसी ब्रह्म राजाकी दूसरी रानी उपाके द्विष्टृष्ट नामका पुत्र हुआ । उस द्विष्टृष्टका शरीर सन्तर धनुष ऊँचा था और आयु वहन्तर लाभ वर्षकी थी । इस प्रकार इक्ष्वाकु वंशका अप्रमेय वह द्विष्टृष्ट, राजाओंके उल्लूष्ट भोगोंका उपभोग करता था ॥ ८४-८५ ॥ कुन्द पुष्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान कान्तिवाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गङ्गा और यमुनाके प्रवाहके समान जान पड़ते थे ॥ ८६ ॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सरस्वतीका विना विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भाई विना विभाग किये ही पृथिवीका उपभोग करते थे ॥ ८७ ॥ समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन दोनों भाइयोंमें अभेद था—किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही है क्योंकि उसी अभेदकी प्रशंसा होती है जो कि लक्ष्मी और स्त्रीका संयोग होनेपर भी बना रहता है ॥ ८८ ॥ वे दोनों स्थिर थे, बहुत ही ऊँचे थे, तथा सफेद और नील रङ्गके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलास और अञ्जनगिरि ही एक जगह आ मिले हों ॥ ८९ ॥

इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण करता रहा । अन्तमें जब थोड़ेसे पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसी भरतक्षेत्रके भोगवर्द्धन नगरके राजा श्रीधरके सर्व प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ ॥ ९०-९१ ॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोंका अपना दास बना लिया है ऐसा वह तारक आधे

आस्नामन्यत्र तन्न त्या मन्दमन्दप्रभे रवौ । मन्ये १ विकस्वरा पद्मा पद्मोऽपि न जातुचित् ॥ ९३ ॥  
 २पुराणभूपमार्गस्य सोऽभवत्पारिपन्थिकः । सिंहिकानन्दनो वोप्रः पूर्णमास्यमृतद्युतेः ॥ ९४ ॥  
 गलन्ति गर्भास्तन्नात्रा गर्भिणीनां भयोद्भवात् । घनाघनावलीनां वा क्रूरग्रहविकारतः ॥ ९५ ॥  
 अन्विष्य प्रतियोद्धारमलब्ध्वा क्रुद्धमानसः । स्वप्रतापामिधूमेन दूषितो वा मवीनिभः ॥ ९६ ॥  
 संतप्तसर्वमूर्धन्यः धर्मधर्मांशुदुस्सहः । स पाताभिमुखः किं स्युः स्थावरास्तादृशाः श्रियः ॥ ९७ ॥  
 अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्बहन् । जन्मान्तरागतात्युप्रविरोधाराध्यचोदितः ॥ ९८ ॥  
 द्विष्टाचलयोर्बुद्धिं प्ररूढां सोढुमक्षमः । करदीकृतनिःशेषमहीपालकृपीबलः ॥ ९९ ॥  
 ब्रह्मवत्करदौ नैतौ दुर्मदेनापि दर्पितौ ३ । ४दुष्टमानाविपं गेहं वर्द्धमानं सहेत कः ॥ १०० ॥  
 उच्छेद्यकोटिमारूढौ ममेमौ येन केनचित् । सन्दूष्याहं हनिष्यामि निजप्रकृतिदूषितौ ॥ १०१ ॥  
 ५इत्युपायं विचिन्त्यैकं दुर्वाक्यं कलहप्रियम् । प्राहिणोत्सोऽपि तौ प्राप्य सहसैवाह दुर्मुखः ॥ १०२ ॥  
 इत्यादिशति वां देवस्तारको ६मारको द्विषाम् । युष्मद्गृहे किलैकोऽस्ति ख्यातो गन्धगजो महान् ॥ १०३ ॥  
 आश्वसी मे प्रहेतव्यो नो चेद्युष्मच्छिरोद्वयम् । खण्डाकृत्याहरिष्यामि गजं मज्जयसेनया ॥ १०४ ॥  
 इत्यसन्धमसोऽढ्यं तेनोक्तं कलहार्थिना । ध्रुत्वाऽचलोऽचलो वाञ्छैर्धीरोदात्तोऽप्रवीदिदम् ॥ १०५ ॥  
 गजो नाम कियान् शीघ्रमेत्वसावेव सेनया । तस्मै ददामहेऽन्यच्च येनासौ स्वास्थ्यमाप्नुयात् ॥ १०६ ॥

भरतक्षेत्रमें रहनेवाली देदीप्यमान लक्ष्मीका धारण कर रहा था ॥ ६२ ॥ अन्य जगहकी बात रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि—उसके डरसे सूर्यकी प्रभा भी मन्द पड़ गई थी इसलिये लक्ष्मी कमलौमें भी कभी प्रमत्त नहीं दिखती थी ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार उग्र राहु पूर्णिमाके चन्द्रमाका विरोधी होता है उमी प्रकार उग्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मार्गका विरोधी था ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार किसी क्रूर ग्रहके विकारसे मेघमालाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका नाम लेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे ॥ ६५ ॥ स्याहीके समान श्याम वर्णवाला वह तारक मदा शत्रुओंको दूँहता रहता था और जब किमी शत्रुको नहीं पाता था तब ऐसा जान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अग्निके धुँमे ही काला पड़ गया हो ॥ ६६ ॥ जिसने समस्त क्षत्रियोंको मंत्रण कर रक्खा है और जो ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके समान दुःखसे सहन करने योग्य है ऐसा वह तारक अन्तमें पतनके सम्मुख हुआ सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे लोगोंकी लक्ष्मी क्या स्थिर रह सकती है ? ॥ ६७ ॥ जो अखण्ड तीन खण्डोंका स्वामित्व धारण करता था ऐसा तारक जन्मान्तरसे आये हुए तीव्र विरोधसे प्रेरित होकर द्विष्टनारायण और अचल बलभद्रकी वृद्धिकां नहीं सह सका । वह सोचने लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानोंको कर देनेवाला बना लिया है परन्तु ये दोनों भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते । इतना ही नहीं, दुष्ट गर्भसे युक्त भी हैं । अपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट साँपको कौन सहन करेगा ? ॥ ६८-१०० ॥ ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट किये जाने योग्य शत्रुओंकी श्रेणीमें स्थित हैं तथा अपने स्वभावसे दूषित भी हैं अतः जिस किसी तरह दौप लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट करूँगा ॥ १०१ ॥ इस प्रकार अपायका विचार कर उसने दुर्वचन कहनेवाला एक कलह-प्रेमी दूत भेजा और वह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयोंके पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुओंको मारनेवाले तारक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनोंके शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको ज्वरदस्ती मँगा लूँगा ॥ १०२-१०४ ॥ इस प्रकार उस कलहकारी दूतके द्वारा कहे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर पर्वतके समान अचल, उदार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारक अचल बलभद्र इस तरह कहने लगे ॥ १०५ ॥ कि हाथी क्या चीज है ? तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ्र आवें । हम उनके

१ विकस्वरा ल० । २ पुराण भूतमार्गस्य ल० । ३ दर्पितम् घ० । ४ दुष्टावाशी-ल० । ५ इत्युपायं  
 ल० । ६ वारको क० ।

इत्यादि तेन गम्भीरमभ्युद्य स विसर्जितः । पवमान इव प्राप्य तत्कोपाग्निमदीपयत् ॥ १०७ ॥  
 तच्छ्रुत्वा सोऽपि कोपाग्निप्रदीप्तः पावकप्रभः । तौ पतङ्गायितावित्थं मत्क्रोधाग्नेरवोचनाम् ॥ १०८ ॥  
 इत्यनालोच्य कार्याङ्गं सङ्गतः सचिवैः समम् । स्वयमभ्युत्थितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्नुमन्तकम् ॥ १०९ ॥  
 दुर्णयाभिमुखो मूर्खश्चालथिन्वासखिलामिलाम् । पडङ्गेन बलेनासौ प्राप्य तावुदयोन्मुखौ ॥ ११० ॥  
 समुल्लङ्घितमर्यादः कालान्तजलधिं जयन् । अरुणहारुणस्तूर्णं पुरं स्वबलवेलया ॥ १११ ॥  
 बालवद्धेलया वेलं तन्मेनां निजसेनया । न्यरौत्सीज्जलनिःसारामचलोऽप्यचलस्थितिः ॥ ११२ ॥  
 द्विपृष्ठो मरामातङ्गं सिंहपांत इवोद्धतः । पराक्रमैकसाहाय्यादाक्रमद् बलिनं द्विपम् ॥ ११३ ॥  
 तारकोऽपि चिरं युद्ध्वा तं निराकर्तुमक्षमः । भ्रामयित्वाऽक्षिपच्चक्रं यमचक्रमिवाग्मनः ॥ ११४ ॥  
 तत्परीत्य स्थितं बाहौ दक्षिणे दयितश्रियः । तस्यासौ तेन चक्रेण नरकं तमजीगमत ॥ ११५ ॥  
 द्विपृष्ठः सप्तसद्गन्त्रिखण्डेशस्तदाभवन् । अचलो बलदेवोऽभूत्प्रासरत्नचतुष्टयः ॥ ११६ ॥  
 कृत्वा दिग्विजयं जित्वा प्रतीपाण्ड्यातभूभृतः । नत्वा श्रीवासुपूज्येशं प्रविश्य पुरमात्मनः ॥ ११७ ॥  
 चिरं त्रिखण्डसाम्राज्यं विधाय विविधैः सुखैः । द्विपृष्ठः कालनिष्ठायामवधिष्ठानमाश्रितः ॥ ११८ ॥  
 अचलोऽपि तदुद्वेगाद्वासुपूज्यजिनाश्रयान् । सम्प्राप्य संयमं मोक्षलक्ष्म्या सङ्गमर्मायिवान् ॥ ११९ ॥

### वसन्ततिलका

पुण्यैकवीजमवलम्ब्य महीमिवाप्य लब्धोदर्यौ सममुपाजितसस्वरूपौ ।

एकाङ्गमन् फलितुमङ्कुरवन् किलोद्ध्वं पापां परो विफलमूलसमस्त्वधस्तात् ॥ १२० ॥

लिण वह हाथी तथा अन्य वस्तुएँ दंगे जिमसे कि वे स्वस्थता-कुरालता ( पक्षमें स्वः स्वर्गं तिष्ठ-  
 तीति स्वस्थः शर्परि र्वरि विसर्गलोपो या वक्तव्यः इति वार्तिकेन सकारम्य लोपः । स्वस्थस्य  
 भावः स्वाम्यथ्यम् ) मृत्युको प्राप्त कर सकेंगे ॥ १०६ ॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर अचल  
 बलभद्रने उस दूतको विदा कर दिया और उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपाग्निको प्रदीप्त  
 कर दिया ॥ १०७ ॥ यह सुनकर कोपाग्निसे प्रदीप्त हुआ तारक अग्निके समान प्रज्वलित हो गया  
 और कहने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मरी क्रोधाग्निके पतंगे बन रहे हैं ॥ १०८ ॥ उसने  
 मंत्रियोंके साथ बैठकर किसी कार्यका विचार नहीं किया और अपने आपको सर्वशक्ति-सम्पन्न मान  
 कर मृत्यु प्राप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया ॥ १०९ ॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मूर्ख  
 पडङ्ग सेनासे समस्त पृथिवीको कँपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा  
 पहुँचा । उसने सब मर्यादाका उलंघन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रको भी जीत रहा  
 था । इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी बला ( ज्वारभाटा ) के  
 द्वारा अचल और द्विपृष्ठके नगरको घेर लिया ॥ ११०-१११ ॥ जिस प्रकार कोई पर्वत जलकी लहर-  
 को अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके  
 द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था ॥ ११२ ॥ जिस प्रकार सिंहका बच्चा मत्त  
 हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रकृतिवाले द्विपृष्ठने भी एक पराक्रमकी सहायता-  
 से ही बलवान् शत्रु पर आक्रमण कर दिया ॥ ११३ ॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर  
 तो भी वह द्विपृष्ठका पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो सका । अन्तमें उसने यमराजके चक्रके समान  
 अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥ ११४ ॥ वह चक्र द्विपृष्ठकी प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपतिकी दाहिनी  
 भुजा पर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया ॥ ११५ ॥ उसी समय  
 द्विपृष्ठ, सात उत्तम रत्नोंका तथा तीन खण्ड पृथिवीका स्वामी हो गया और अचल बलभद्र बन गया  
 तथा चार रत्न उसे प्राप्त हो गये ॥ ११६ ॥ दोनों भाइयोंने शत्रु राजाओंको जीतकर दिग्विजय किया  
 और श्री वासुपूज्य स्वामीको नमस्कार कर अपने नगरमें प्रवेश किया ॥ ११७ ॥ चिरकाल तक तीन  
 खण्डका राज्य कर अनेक सुख भोगे । आयुके अन्तमें मरकर द्विपृष्ठ सातवें नरक गया ॥ ११८ ॥  
 भाईके वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपूज्य स्वामीका आश्रय लेकर  
 संयम धारण कर लिया तथा मोक्ष-लक्ष्मीके साथ समागम प्राप्त किया ॥ ११९ ॥ उन दोनों भाइयोंने

## मालिनी

इदमिति विधिपाकाद् वृत्तमस्मिन् द्विवृष्टे  
परिणतमचले च प्रत्यहं चिन्तयित्वा ।  
त्रिपुलमतिभिरार्यैः कार्यमुत्सृज्य पापं  
सकलसुखनिधानं पुण्यमेव प्रतीपम् ॥ १२१ ॥

## पृथ्वी

पुरेऽत्र कनकादिके प्रथितवान् सुषेणो नृपः  
ततोऽनु तपसि स्थितोऽजनि चतुर्दशस्वर्गभाक् ।  
त्रिखण्डपरिपालकोऽभवदतो द्विवृष्टाख्यया  
परिग्रहमहाभरादुपगतः क्षिप्रं सप्तमीम् ॥ १२२ ॥

## वंशस्थवृत्तम्

महापुरे वायुरथो महीपतिः प्रपद्य चारित्रमनुत्तरं ययौ ।  
ततो बलो द्वारवतीपुरेऽचलखिलोकपूज्यत्वमवाप्य निर्धूतः ॥ १२३ ॥


## वसन्ततिलका

त्रिव्यातविन्ध्यनगरेऽजनि विन्ध्यशक्ति-  
भ्रान्त्वा चिरं भववने चितपुण्यलेशः ।

श्रीभोगवर्द्धनपुराधिपतारकाख्यः

प्राप द्विवृष्टरिपुरन्यमहीं १महांहाः ॥ १२४ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपण्डिलक्षणमहापुराणसंग्रहे वासुपूज्यजिनपतिद्विवृष्टाचल-  
तारकपुराणं परिसमाप्तम् अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥



किसी पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी पृथिवी पाई, अनेक विभूतियाँ पाई और साथ ही साथ उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमेंसे एक तो अंबुरके समान फल प्राप्त करनेके लिए ऊपरकी ओर ( मोक्ष ) गया और दूसरा पापसे युक्त होनेके कारण फलरहित जड़के समान नीचेकी ओर ( नरक ) गया ॥ १२० ॥ इस प्रकार द्विवृष्ट तथा अचलका जो भी जीवन-वृत्त घटित हुआ है वह सब कर्मो-दयसे ही घटित हुआ है ऐसा विचार कर विशाल बुद्धिके धारक आर्य पुरुषोंको पाप छोड़कर उसके विपरीत समस्त सुखोंका भंडार जो पुण्य है बर्ती करना चाहिए ॥ १२१ ॥ राजा द्विवृष्ट पहले इसी भरतक्षेत्रके कनकपुर नगरमें सुषेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण कर चौदहवें स्वर्गमें देव हुआ, तदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला द्विवृष्ट नामका अर्धचक्री हुआ और इसके बाद परिग्रहके महान् भारसे मरकर सातवें नरक गया ॥ १२२ ॥ बलभद्र, पहले महापुर नगरमें वायुरथ राजा हुआ, फिर उल्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद-नन्तर द्वारावती नगरीमें अचल नामका बलभद्र हुआ और अन्तमें निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवनके द्वारा पूज्य हुआ ॥ १२३ ॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा हुआ, फिर चिरकाल तक संसार-वनमें भ्रमण करता रहा । कदाचिन् थोड़ा पुण्यका संचय कर श्री भोगवर्द्धन नगरका राजा तारक हुआ और अन्तमें द्विवृष्टनारायणका शत्रु होकर—उन्के हाथसे मारा जाकर महापापके उदयसे अन्तिस पृथिवीमें नारकी उत्पन्न हुआ ॥ १२४ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपण्डिलक्षण महापुराण संग्रहमें श्री वासुपूज्य जिनेन्द्र, द्विवृष्टनारायण, अचल बलभद्र और तारक प्रति-नारायणका वर्णन करनेवाला अष्टावनवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## एकोनषष्टितमं पर्व

विमलेऽब्दसमे बोधे दृश्यते विमलं जगत् । <sup>१</sup>विमलं यस्य मे सोऽद्य विमलं विमलः क्रियात् ॥ १ ॥  
 प्रतीचि धातकीखण्डे देवादृथपरभागभाक् । नदीदक्षिणकूलस्थो विषयो रम्यकावती ॥ २ ॥  
 पद्मसेनो महीशोऽत्र महानगरमास्थितः । प्रजाभ्य इव कल्पागः समीप्सितफलप्रदः ॥ ३ ॥  
<sup>२</sup>तन्त्रावापविभागोक्तनीतिशास्त्रार्थनिश्चये<sup>३</sup> । उदाहरणमित्याहुस्तद्वृत्तं शास्त्रवेदिनः ॥ ४ ॥  
 अर्जनानुभवार्थं प्रजानामात्मवृत्तिभिः । व्यापारो रक्षके तस्मिन् महीशो मर्दितद्विषि ॥ ५ ॥  
 नाक्रामति प्रजा न्यायं तां नाक्रमति भूपतिः । तं त्रिवर्गं त्रिवर्गस्य नान्योन्यातिक्रमः क्वचित् ॥ ६ ॥  
 प्रीतिकरवने <sup>४</sup>सर्वगुप्तकेवलसन्निधौ । धर्मतत्त्वं परिज्ञाय स्वैष्यजन्मद्वयं च सः ॥ ७ ॥  
 तदैव तीर्थकृज्जात इव जातमहोत्सवः । पद्मनाभाय दन्वैश्यं <sup>५</sup>प्रारब्ध परमं तपः ॥ ८ ॥  
 प्रतीकैकादशाङ्गार्थो भावनाहिततीर्थकृत् । शेषपुण्यसमप्रोऽयमाराध्यान्ते चतुष्टयम् ॥ ९ ॥  
 सहस्रारविमानेशन्तन्नामेन्द्रोऽर्जनिष्ट सः । अष्टादशाधिमानायुरेकचापतनुच्छ्रुतिः ॥ १० ॥  
 जघन्यशुक्लद्रव्यभाग् नवमामेषु निःश्वसन् । अष्टादशसहस्राब्दैराहारं मनसाऽऽहरन् ॥ ११ ॥  
 वृत्तौ रूपप्रवीचारात् प्राक्चतुर्थधरावधिः । तावन्मात्रप्रकाशादिशणिमादिगुणोन्नतः ॥ १२ ॥  
 स स्नेहामृतसम्पृक्तमुन्वाम्बुरुहदर्शनात् । सन्तर्पितामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत् ॥ १३ ॥

जिनके दर्पणके समान निर्मल ज्ञानमें सारा संसार निर्मल-स्पष्ट दिखाई देता है और जिनके सब प्रकारके मल्लोका अभाव हो चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मल्लोका अभाव करें—हम सबको निर्मल बनायें ॥ १ ॥ पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर सीता नदीके दक्षिण तट पर रम्यकावती नामका एक देश है ॥ २ ॥ उसके महानगरमें वह पद्मसेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥ ३ ॥ स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कहे हुए नीति-शास्त्र सम्बन्धी अर्थका निश्चय करनेमें उस राजाका चरित्र उदाहरण रूप था ऐसा शास्त्रके जानकार कहा करते थे ॥ ४ ॥ शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अर्जन तथा उपभोग करना ही प्रजाका व्यापार रह गया था ॥ ५ ॥ वहाँकी प्रजा कमी न्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग राजाका उल्लंघन नहीं करता था और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥ ६ ॥ किसी एक दिन राजा पद्मसेनने प्रीतिकर वनमें स्वर्गगुप्त केवलीके समीप धर्मका स्वरूप जाना और उन्हींसे यह भी जाना कि हमारे सिर्फ दो आगामी भव बाकी रह गये हैं ॥ ७ ॥ उसी समय उसने ऐसा उत्सव मनाया मानो मैं तीर्थकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उच्छ्रुत तप तपना शुरू कर दिया ॥ ८ ॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर दृढ़ प्रत्यय किया, दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्रार नामक स्वर्गमें सहस्रार नामका इन्द्रपद प्राप्त किया । वहाँ अठारह सागर उसकी आयु थी, एक धनुष अर्थात् चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावकी अपेक्षा जघन्य शुक्लेश्या थी, वह नौ माहमें एक बार श्वास लेता था, अठारह हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था, देवांगनाओंका रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैल सकती थी, वह अणिमा महिमा आदि गुणोंसे समुन्नत

१ मलस्याभावो विमलम् अन्वयीभावसमासः । २ विभोगोक्त क०, घ० । ३ शास्त्रसमुच्चये ल० ।

४ सर्वतत् ल० । ५ प्रारब्ध ल०, ल० ।

सुरलोकादिमं लोकमिन्द्रेऽस्मिन्नागमिष्यति । क्षेत्रेऽत्र पुरि काम्पिल्ये पुरुदेवान्वयो नृपः ॥ १४ ॥  
 कृतवर्मा महादेवी जयश्यामाऽस्य विश्रुता । देवेन्द्रकृतपूजार्हा वसुधारादिवस्तुभिः ॥ १५ ॥  
 शुचौ कृष्णदशम्यन्तरजन्यामुत्तरादिमे । ऋक्षे भाद्रपदे दृष्ट्वा स्वप्नान् पौडश सत्फलान् ॥ १६ ॥  
 तदानीमेव हर्षान्द्रं विशान्तं वक्त्रवारिजे<sup>१</sup> । व्यलोकित् फलान्येपामवबुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥  
 ततः स्वविष्टराकम्पास्त्रिवेदिततदुत्सवैः । सुरैः स्वर्गात्समायातैराप कल्याणमादिमम् ॥ १८ ॥  
 वर्द्धमानेन गर्भेण तेनावर्द्धत सम्मदः । हृदये बन्धुवर्गस्य दुर्गतस्य धनेन वा ॥ १९ ॥  
 प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भवः । किमुच्यते पुनः सूतेः प्रागानम्रसुरेशिनः ॥ २० ॥  
<sup>२</sup>माघशुक्लचतुर्थ्यां सा तमहिर्बुध्र्यांगतः । त्रिवोधं त्रिजगन्नाथं प्राप्तुं विमलप्रभम् ॥ २१ ॥  
 जन्माभिषेककल्याणप्रान्ते विमलवाहनम् । तमाहुरमराः सर्वे सर्वसंस्तुतिगोचरम् ॥ २२ ॥  
 वासुपूज्येशसन्ताने त्रिशत्सागरसम्मिते । <sup>३</sup>प्रान्तपल्यांपमे धर्मध्वमे तद्गतजीवितः ॥ २३ ॥  
 पण्डितक्षमिताब्दायुः पण्डित्वापतनुप्रभः<sup>४</sup> । अष्टापदप्रभः "सोऽभूत् सर्वपुण्यसमुच्चयः ॥ २४ ॥  
 खपञ्चकेन्द्रियैकाब्दकौमारविरतौ कृता । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥  
 लक्ष्मीः सहचरी तस्य कीर्तिर्जन्मान्तरागता । सरस्वती सहोत्पन्ना वीरलक्ष्म्या स्वयं वृतः ॥ २६ ॥  
 गुणाः सत्यादयस्तस्मिन् वर्द्धन्तं स्म यथा तथा । मुनीन्द्रैरपि सम्प्राथ्यां वर्णना तेषु का परा ॥ २७ ॥

था, स्नेह रूपी अमृतसे सम्पृक्त रहनेवाले उसके मुख-कमलकां देखनेसे देवांगनाओंका चित्त संतुष्ट हो जाता था । इस प्रकार चिरकाल तक उमने गुणोंका अनुभव किया ॥ ६-१३ ॥

वह इन्द्र जत्र स्वर्ग लोकसे चयकर इस पृथिवी लोक पर आनेवाला हुआ तब इसी भरत-क्षेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान् ऋषभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था । जयश्यामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी । इन्द्रादि देवोंने रत्नवृष्टि आदिके द्वारा जयश्यामाकी पूजा की । ॥ १४-१५ ॥ उसने ज्येष्ठकृष्णा दशमीके दिन रात्रिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके रहते हुए सोलह स्वप्न देखे, उसी समय अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, और राजासे इन सबका फल ज्ञान किया ॥ १६-१७ ॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्भ-कल्याणककी सूचना हो गई है ऐसे देवोंने स्वर्गसे आकर प्रथम-गर्भकल्याणक किया ॥ १८ ॥

जिस प्रकार बढ़ते हुए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हृदयमें हर्षकी वृद्धि होने लगती है उसी प्रकार रानी जयश्यामाके बढ़ते हुए गर्भसे बन्धुजनोंके हृदयमें हर्षकी वृद्धि होने लगी थी ॥ १९ ॥ इस संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हर्षका कारण है तब जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र लोग नष्टीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना है ? ॥ २० ॥ माघशुक्ल चतुर्थीके दिन ( ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेक्षा चतुर्दशीके दिन ) अहिर्बुध्न योगमें रानी जयश्यामाने तीन ज्ञानके धारी, तीन जगतके स्वामी तथा निमल प्रभाके धारक भगवान्को जन्म दिया ॥ २१ ॥ जन्माभिषेकके बाद सब देवोंने उनका विमलवाहन नाम रक्खा और सबने स्तुति की ॥ २२ ॥ भगवान् वासुपूज्यके तीर्थके बाद जब तीस सागर वर्ष बीत गये और पत्यके अन्तिम भागमें धर्मका विच्छेद हो गया तब विमलवाहन भगवान्का जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अन्तरालमें शामिल थी ॥ २३ ॥ उनकी आयु साठ लाख वर्षकी थी, शरीर साठ धनुष ऊँचा था, कान्ति सुवर्णके समान थी और वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्योंकी राशि ही हों ॥ २४ ॥ समस्त लोकको पवित्र करनेवाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान् विमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह लाख प्रमाण कुमारकाल बीतजानेपर राज्याभिषेकसे पवित्र हुई थी ॥ २५ ॥ लक्ष्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे साथ आई थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और वीर-लक्ष्मीने उन्हें स्वयं स्वीकृत किया था ॥ २६ ॥ उस राजांमें जो सत्यादिगुण बढ़ रहे थे वे बड़े-बड़े मुनियोंके द्वारा भी प्रार्थनीय थे इससे

१ वारिजम् ख०, ग० । २ माघशुक्लचतुर्दश्यां ख०, ग० । ३ प्रात-ख० । ४ वपुःप्रमः ल० ।  
 ५ सोऽभात् क०, ख०, ग०, ब० ।



सुखस्य तस्य को वेत्ति प्रमां मुक्तिमुखस्य चेत् । १ अनन्तरनितान्तत्वादानन्यादतिशुद्धितः ॥ २८ ॥  
 देवदेवस्तदैवासावासीद् विश्वसुरेश्वरैः । अभ्यर्चिताहिरागन्त्री केवलं केवलात्मता ॥ २९ ॥  
 यशः प्रकाशयत्याशाः १ श्रैशः कुन्देन्दुनिर्मलम् । काशप्रसवनीकाशमाकाशं चाकरोददः ॥ ३० ॥  
 त्रिशाच्छतसहस्राद्वराज्यकालावसानगः । भोगान् विभज्य भुञ्जानो भूयः पङ्क्तुसम्भवान् ॥ ३१ ॥  
 हिमानीपटलच्छन्नदिग्भूभूरुहभूधरे । हेमन्तं हेमनीं लक्ष्मीं विलीनां वीक्ष्य तत्क्षणात् ॥ ३२ ॥  
 विरक्तः संसृतेः पूर्वनिजजन्मोपयोगवान् । रोगीव नितरां त्विन्नो मानभङ्गविमर्शनात् ॥ ३३ ॥  
 सञ्ज्ञानैस्त्रिभिरप्येभिः किं कृत्यमवधौ स्थिते । वीर्येण च किमेतेन यद्यत्कर्ममनासवत् ३ ॥ ३४ ॥  
 चारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानोदयो यतः । बन्धश्चतुर्विधोऽप्यस्ति बहुमोहपरिग्रहः ॥ ३५ ॥  
 प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि निर्जराप्यल्पिकेव सा । अहो मोहस्य माहात्म्यं माधाम्यहमिहेव हि ॥ ३६ ॥  
 साहसं ४ पश्य भुञ्जेऽहं ५ भोगान्भोगानिवोरगान् । पुण्यस्य कर्मणः पाकादेतन्मे सप्रवर्तते ॥ ३७ ॥  
 तस्य यावन्न याम्यन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः । इतीवचित्तो विमलो विमलावगमोद्गमात् ॥ ३८ ॥  
 तदैवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तवः । सुरैस्तृतीयकल्याणे विहिताभिषवोत्सवः ॥ ३९ ॥  
 देवदत्तां समारुह्य शिविकाममरैर्वृतः । विभुः सहेतुकांक्षाने प्रात्राजीद् ध्रुपवासभाक् ॥ ४० ॥  
 माघशुक्लचतुर्थ्याहःप्रान्ते पण्डितशकर्मके । सहस्रनरपैः सार्द्धं प्राप्य तुयावबोधनम् ॥ ४१ ॥

वदकर उनकी और क्या स्तुति हो सकती थी ॥ २७ ॥ अत्यन्त विशुद्धताके कारण थोड़े ही दिन बाद जिन्हें मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होनेवाला है ऐसे विमलवाहन भगवान् के अनन्त सुखका वर्णन भला कौन कर सकता है ? ॥ २८ ॥ जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चरणकमलोंकी पूजा की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे ॥ २९ ॥ लक्ष्मीके अधिपति भगवान् विमलवाहनका कुन्दपुष्प अथवा चन्द्रमाके समान निर्मल यश दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था और आकाशको काशके पुष्पके समान बना रहा था ॥ ३० ॥ इस प्रकार छह ऋतुओंमें उत्पन्न हुए भोगोंका उपभोग करते हुए भगवान् के तीस लाख वर्ष बीत गये ॥ ३१ ॥

एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष और पर्वत बर्फसे ढक रहे थे ऐसी हेमन्त ऋतुमें बर्फकी शांभाको तत्क्षणमें विलीन होता देखा ॥ ३२ ॥ जिससे उन्हें उमी समय संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पूर्व जन्मकी सब वानें याद आ गई और मान-भंगका विशार कर रोगीके समान अत्यन्त खेदविन्न हुए ॥ ३३ ॥ वे सोचने लगे कि इन तीन सस्यज्ञानोंसे क्या होने वाला है क्यों कि इन सभीकी सीमा है—इन सभीका विषय क्षेत्र परिमित है और इस वीर्यसे भी क्या लाभ है ? जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं है ॥ ३४ ॥ चूँकि प्रत्याख्यानाचरण कर्मका उदय है अतः मेरे चारित्रका लेश भी नहीं है और बहुत प्रकारका मोह तथा परिग्रह विद्यमान है अतः चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान है ॥ ३५ ॥ प्रमाद भी अभी मौजूद है और निर्जरा भी बहुत थोड़ी है । अहो ! मोहकी बड़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्हीं संसारकी वस्तुओंमें मत्ता हो रहा हूँ ॥ ३६ ॥ मेरा साहस तो देखो कि मैं अब तक सर्पके शरीर अथवा फणाके समान भयंकर इन भोगोंको भोग रहा हूँ । यह अब भोगोपभोग मुझे पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए हैं ॥ ३७ ॥ सो जब तक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता जब तक मुझे अनन्त सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलवाहन भगवान् ने अपने हृदयमें विचार किया ॥ ३८ ॥ उसी समय आये हुए सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने उनका स्तवन किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव किया ॥ ३९ ॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा धिरे हुए भगवान् देवदत्ता नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ॥ ४० ॥ उन्होंने यह दीक्षा

१ अनन्तरं नितान्तत्वात् क०, घ० । २ श्रिया ईट् तस्य लक्ष्मीश्वरस्य । ३-मनासवान् ग०, झ० ।  
 ४ परिभुञ्जेऽमूत् झ० । ५ सर्पशरीराणीव ।

द्वितीयेऽङ्के पुरं नन्दनाभिर्भुक्तयेऽविशत् । जयो नाम नृपस्तस्मै दत्त्वाऽन्नं कनकप्रभः ॥ ४२ ॥  
 पञ्चाश्रयं समापाप्यं किन्न वा पात्रदानतः । सामायिकं समादाय संयमं शुद्धचेतसा ॥ ४३ ॥  
 त्रिवत्सरमिते याते तपस्येण महामुनिः । निजदीक्षावने जम्बूद्वूममूले ह्युपोषितः ॥ ४४ ॥  
 माघे मासि सिते पक्षे ऋष्यां प्रेष्टोपराहूके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे घातिकर्मविनाशनान् ॥ ४५ ॥  
 केवलान्वगमं प्रापत्सद्यो व्यासचराचरः । तदैवापँश्च देवेन्द्राः स्वानमन्मुकुटाननाः ॥ ४६ ॥  
 देवदुन्दुभिमुख्याष्टप्रातिहार्यादिवैभवम् । प्राप्य तैर्गन्धकुट्यन्तर्गतसिंहासने स्थितः ॥ ४७ ॥  
 मन्दरादिगणाधीशपञ्चपञ्चाशदावृतः । शतोत्तरसहस्रोक्तपूज्यपूर्वधरेर्धृतः ॥ ४८ ॥  
 खत्रिपञ्चर्तुवह्युक्तशिक्षकैरुपलक्षितः । खट्व्याष्टचतुर्मेयत्रिविधावधिवन्दितः ॥ ४९ ॥  
 खट्व्येन्द्रियपञ्चाभिधेयकेवललोचनः । शून्यत्रयनवज्ञातविक्रियद्ध्युपवृंहितः ॥ ५० ॥  
 खट्व्येन्द्रियपञ्चाधिगम्यतुयावबोधनः । खट्व्यर्त्विग्निनिर्णीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥  
 अष्टपट्टिसहस्रोक्तसर्वसंयमिसंस्तुतः । त्रिसहस्रैकलक्षोक्तपद्मायां धार्मिकाचितः ॥ ५२ ॥  
 द्विलक्षश्रावकांपेतो द्विगुणश्राविकाचितः । पूर्वोक्तद्विगुणोपेतो धर्मक्षेत्रेष्वनारतम् ॥ ५३ ॥  
 भवातपपरिस्नानभयसस्याभितर्पकः । सम्मेदपर्वतं प्राप्य मासमेकं गतक्रियः ॥ ५४ ॥  
 खट्व्यर्त्विष्टसम्प्राप्तयतिभिः प्रतिमां गतः । आपादस्योत्तरापादे कृष्णाष्टम्यां निशामुखे ॥ ५५ ॥  
 सद्यः कृत्वा समुद्घातं सूक्ष्मं शुद्धं समाश्रितः । सम्यग्योगादयोगः सन् स्वास्थ्यं रोगीव सोऽगमत् ॥ ५६ ॥

माघशुक्ल चतुर्थीके दिन सायंकालके समय छत्र्यासर्वे—उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ ली थी और उसी दिन वे चौथा—मनःपर्ययज्ञान प्राप्तकर चार ज्ञानके धारी हो गये थे ॥४१॥ दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा कनकप्रभुने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे तपस्या करने लगे ॥ ४२—४३ ॥ जब तीन वर्ष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमें दो दिनके उपवासका नियम ले कर जामुनके वृक्षके नीचे ध्यानारूढ हुए ॥ ४४ ॥ फलस्वरूप माघशुक्ल पट्टीके दिन सायंकालके समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान् विमलवाहनने अपने दीक्षाग्रहणके नक्षत्रमें घातिया कर्मोंका विनाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । अब वे चर-अचर समस्त पदार्थोंको शीघ्र ही जानने लगे । उसी समय अपने मुकुट तथा मुख भुक्ताये हुए देव लोग आये । उन्होंने देवदुन्दुभि आदि आठ मुख्य प्रातिहार्योंका वैभव प्रकट किया । उसे पाकर वे गन्ध-कुटीके मध्यमें स्थित सिंहासनपर विराजमान हुए ॥ ४५—४७ ॥ वे भगवान् मन्दर आदि पंचपन गणधरोसे सदा विरे रहते थे, ग्यारह सौ पूज्य पूर्वधारियोंसे सहित थे, छत्तीस हजार पाँच सौ तीस शिक्षकोंसे युक्त थे, चार हजार आठसौ तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियोंसे वन्दित थे, पाँच हजार पाँचसौ केवलज्ञानी उनके साथ थे, नौ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके संयकी वृद्धि करते थे, पाँच हजार पाँच सौ मनःपर्यय ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार छह सौ वादियोंसे सहित थे, इस प्रकार अड़सठ हजार मुनि उनकी स्तुति करते थे । पद्माको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे लाख श्रावकोंसे सहित थे तथा चार लाख श्रायिकाओंसे पूजित थे । इनके सिवाय दो गणों अर्थात् असंख्यात देव देवियों और संख्यात तिर्यञ्चोंसे वे सहित थे । इस तरह धर्मक्षेत्रोंमें उन्होंने निरन्तर विहार किया तथा संसाररूपी आतपसे मुरझाये हुए भव्यरूपी धान्योंको संतुष्ट किया । अन्तमें वे सम्मेदशिखरपर जा विराजमान हुए और वहाँपर उन्होंने एक माहका योग निरोध किया ॥ ४८—५४ ॥ आठ हजार छह सौ मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण किया तथा आपाद कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तरापाद नक्षत्रमें प्रातःकालके समय शीघ्र ही समुद्घात कर सूक्ष्म-क्रियाप्रतिपाती नामका शुक्लध्यान धारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्था धारण कर उस प्रकार स्वास्थ्य (स्वरूपावस्थान) अर्थात् मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि कोई

तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् पूज्या कालाष्टमी बुधैः । तदेवालम्बनं कृत्वा मिथ्यादृग्भिश्च पूज्यते ॥ ५७ ॥  
कृत्वाऽन्त्येष्टिं तदाभ्येत्य सौधर्मप्रमुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिभिरर्थाभिरवन्दिषत निर्वृतम् ॥ ५८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

सन्तत्या मलसञ्चयः परिणतो हिंसादिभिः सन्ततं  
संसारे सुकृतात्ततो निजगुणा नेयुर्विशुद्धिं कश्चित् ।  
तानद्याहमवाप्य बुद्धिममलां शुद्धिं नयामीत्यथं  
शुक्लध्यानमुपाश्रितोऽतिविमलस्तस्माद्यथार्थाङ्गयः ॥ ५९ ॥

### वसन्ततिलका

श्रद्धानबोधरदनं गुणपुण्यमूर्ति—  
माराधना चरणमायत्तधर्महस्तम् ।  
सन्मार्गवारणमधारिमभिप्रचोद्य  
विध्वंसनाद्विमलवाहनमाहुरेनम् ॥ ६० ॥

### मालिनी

विनिहतपरसेनः पद्मसेनो महीशः  
सुरसमितिसमर्च्यः स्पष्टसौख्योऽष्टमेन्द्रः ।  
विपुलविमलकीर्तिविश्वविश्रम्भरेशो  
विमलजिनपतिः स्तात् सुप्तुतस्तुष्टये वः ॥ ६१ ॥  
स्तिमिततमसमाधिध्वस्तनिःशेषदोषं  
क्रमगमकरणान्तर्द्धानहीनावबोधम् ।  
विमलममलमूर्तिं कीर्तिभाजं ध्रुभाजां  
नमन विमलताप्यै भक्तिभारेण भव्याः ॥ ६२ ॥

रोगी स्वास्थ्य ( नीरोग अवस्था ) प्राप्त करता है ॥ ५५-५६ ॥ उसी समयसे ले कर लोकमें आषाढ कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमीके नामसे विद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गई और इसी निमित्तको पाकर मिथ्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥ ५७ ॥ उसी समय सौधर्म आदि देवोंने आकर उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगवान्की अर्थपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे वन्दना की ॥ ५८ ॥

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीव निरन्तर मलका संचय करता रहता है और पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोंको विशुद्ध बनाना चाहिये—पाप पुण्यके विकल्पसे रहित बनाना चाहिये । आज मैं निर्मल बुद्धि-शुद्धोपयोगकी भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोंको शुद्धि प्राप्त कराना हूँ—पुण्य-पापके विकल्पसे दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ' ऐसा विचार कर ही जा शुक्लध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे विमलवाहन भगवान् अपने सार्थक नामको धारण करते थे ॥ ५९ ॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ही जिसके दो दाँत हैं; गुण ही जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं और विशाल धर्म ही जिसकी सूँड है ऐसे सन्मार्गरूपी हार्थीको पाप-रूपी शत्रुके प्रति प्रेरित कर भगवान् विमलवाहनने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट किया था इसलिए ही लोग उन्हें विमलवाहन ( विमल वाहनं यानं यस्य सः विमलवाहनः—निर्मल सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥ ६० ॥ जो पहले शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करने-वाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे युक्त अष्टम स्वर्गके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विशाल निर्मलकीर्तिके धारक एवं समस्त पृथिवीके स्वामी विमलवाहन जिनेन्द्र हुए, वे तेरहवें विमलनाथ तीर्थकर अच्छी तरह आप लोगोंके संतोषके लिए हों ॥ ६१ ॥ हे भव्य जीवों ! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है, जिनका

तीर्थे विमलनाथस्य सञ्जातौ रामकेशवौ । धर्मस्वयम्भूनामानौ तयोश्चरितमुच्यते ॥ ६३ ॥  
 विदेहेऽस्मिन् प्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति भूभुजः । स्ववशीकृतनिःशेषनिजभांग्यमहीतलः ॥ ६४ ॥  
 प्रजानामेष रक्तत्वात् प्रजाश्चास्य प्रपालनात् । सर्वदा वृद्धयेऽभूवन् भवेत्स्वार्था परार्थता ॥ ६५ ॥  
 स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचक्रं च धीमतः । चक्रबुद्धेः स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात् ॥ ६६ ॥  
 अतृष्यदेश भूपालस्तर्पयित्वाऽखिलाः प्रजाः । परोपकारवृत्तीनां परतृप्तिः स्वतृप्तये ॥ ६७ ॥  
 स कदाचित्समासाद्य सुव्रतं जिनपुङ्गवम् । श्रुत्वा धर्मं सुधीर्मत्वा स्वाङ्गभोगादि भंगुरम् ॥ ६८ ॥  
 अङ्गिनो वत सीदन्ति सङ्गभादाहितांहसः । निःसङ्गतां न गच्छन्ति किं गतं न विदन्त्यमी ॥ ६९ ॥  
 इति निर्विघ्न संसाराद् गृहीत्वा संयमं परम् । संन्यस्यागात् त्रयस्त्रिंशद्बुद्धिस्थितिरनुत्तरम् ॥ ७० ॥  
 ततो द्वारवतीपुर्या सुतो भद्रमहीपतेः । सुभद्रायाश्च धर्माख्यः सोऽभूत्स्वस्वपूर्वकम् ॥ ७१ ॥  
 अमुस्मिन् भारते वर्ये कुणालविषये पुरम् । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूत्सुकेतुर्भोगतत्परः ॥ ७२ ॥  
 कामजे व्यसने द्यूते संसक्तः कर्मचोदितः । निपिद्धो मन्त्रिभिर्बन्धुवैश्च बहुशो हिनैः ॥ ७३ ॥  
 चोदितो वा स तैर्भूयो दीव्यन् दैवविलोमतः । राष्ट्रं वित्तं बलं देवी सर्वमस्थापहारितम् ॥ ७४ ॥  
 क्रोधजेषु त्रिपृक्तेषु कामजेषु चतुर्थे च । नापरं व्यसनं द्यूताञ्चिकृष्टं प्राहुरागमाः ॥ ७५ ॥

ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका शरीर अत्यन्त निर्मल है और देव भी जिनकी कीर्तिका गान करते हैं ऐसे विमलवाहन भगवान्को निर्मलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो ॥ ६२ ॥

अथानन्तर श्री विमलनाथ भगवान्के तीर्थमें धर्म और स्वयंभू नामके बलभद्र तथा नारायण हुए इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है ॥ ६३ ॥ इसी भरतक्षेत्रके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें एक मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी ॥ ६४ ॥ प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह प्रजाकी वृद्धिके लिए था और यह प्रजाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी वृद्धिके लिए थी—राजा और प्रजा दोनों ही सदा एक दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही है क्योंकि परोपकारके भीतर स्वोपकार भी निहित रहता है ॥ ६५ ॥ उस बुद्धिमानके लिए शत्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी और जिमकी बुद्धि चक्रके समान फिरा करती थी—चंचल रहती थी उसके लिए क्रमका उल्लंघन होनेसे स्वसेना भी शत्रुसेनाके समान हो जाती थी ॥ ६६ ॥ यह राजा समस्त प्रजाका संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था सो ठीक ही है क्योंकि परोपकार करनेवाले मनुष्योंके दूसरोंको संतुष्ट करनेसे ही अपना संतोष होता है ॥ ६७ ॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान् सुव्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुँचा और वहाँ धर्मका स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्वर मानने लगा ॥ ६८ ॥ वह सोचने लगा—बड़े दुःखकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिग्रहके समागमसे ही पापोंका संचय करते हुए दुःखी हो रहे हैं फिर भी निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त नहीं होते—सब परिग्रह छोड़ कर दिग्म्बर नहीं होते। बड़ा आश्चर्य है कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥ ६९ ॥ इस प्रकार संसारसे विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अन्त समयमें संन्यास धारण कर अनुचर विमानमें तैतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ ७० ॥

वहाँसे चयकर द्वारावती नगरीके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके शुभ स्वप्न देखनेके बाद धर्म नामका पुत्र हुआ ॥ ७१ ॥ इसी भारतवर्षके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था वहाँ पर भोगोंमें तल्लीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था ॥ ७२ ॥ अशुभ कर्मके उदयसे वह बहुत कामी था, तथा द्यूत व्यसनमें आसक्त था। यद्यपि हित चाहनेवाले मन्त्रियों और कुटुम्बियोंने उसे बहुत बार रोका पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुणके समान वह बार-बार जुआ खेलता रहा और कर्मोदयके विपरीत होनेसे वह अपना देश-धन-बल और रानी सब कुछ हार गया ॥ ७३-७४ ॥ क्रोधसे उत्पन्न

महागुणेषु यत्सत्यमुक्तं प्राग् हार्थते हि तत् । द्यूतासक्तेन लज्जाभिमानं पश्चालकुलं सुखम् ॥ ७६ ॥  
 सौजन्यं बन्धवो धर्मो द्वयं क्षेत्रं गृहं यशः । पितरौ दारका दाराः स्वयं चातिप्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥  
 न ज्ञानं भोजनं स्वापो निरोधाद्रोगमुच्छति । न याल्यर्थान् वृथा क्लेशे बहुदोषं चिनोत्यधमं ॥ ७८ ॥  
 करोति कुत्सितं कर्म जायते पारिपन्थिकः । याचतेऽन्येषु <sup>१</sup>वार्थार्थमकार्येषु प्रवर्तते ॥ ७९ ॥  
 बन्धुभिः स परित्यक्तो राजभिर्याति यातनाम् । इति द्यूतस्य को दोषानुद्देशुमपि शक्नुयात् ॥ ८० ॥  
 सुकेतुरेव दृष्टान्तो येन राज्यं च हारितम् । तस्माद्दोषद्वयं वाञ्छन् दूरतो द्यूतमुत्सृजेत् ॥ ८१ ॥  
 सुकेतुरिति सर्वस्वहानिशोकाकुलीकृतः । गत्वा सुदर्शनाचार्य<sup>२</sup>पादमूलं श्रुतागमः ॥ ८२ ॥  
 सद्यो निविद्य संसारात्प्रव्रज्याप्यशुभाशयः<sup>३</sup> । शोकादन्नं समुत्सृज्य तपांभिरतिदुष्करैः ॥ ८३ ॥  
 दीर्घकालमलं तप्त्वा कलागुणविदग्धता । बलं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुषः क्षये ॥ ८४ ॥  
 कृत्वा निदानं संन्यस्य लान्तवकल्पमास्थितः । तत्र दिव्यमुखं प्रापत्स चतुर्दशसागरम् ॥ ८५ ॥  
 ततः सोऽन्यवतीर्यात्र भद्रस्यैव महीभुजः । वभूव पृथिवीदेव्यां स्वयम्भूः मनुषु प्रियः ॥ ८६ ॥  
 धर्मो बलः स्वयम्भूश्च केशवस्तौ परस्परम् । अभूतां प्रीतिसम्पन्नावन्भूतां श्रियं चिरम् ॥ ८७ ॥  
 सुकेतुजातौ द्यूतेन निजिन्य बलिना हृष्टान् । स्वीकृतं येन तद्राज्यं सोऽभूद्दत्तपुरे मधुः ॥ ८८ ॥  
 तज्जन्मवैरसंस्कारसमेतनाधुनामुना । तन्नामश्रुतिमात्रेण सकोपेन स्वयम्भुवा ॥ ८९ ॥

होनेवाले मद्य, मांस और शिकार इन तीन व्यसनोमें तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुआ, चोरी, वेश्या और पर-स्त्रीमेवन इन चार व्यसनोमें जुआ खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं है ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं ॥ ७५ ॥ जो सत्य महागुणोमें कहा गया है जुआ खेलनेमें आसक्त मनुष्य उसे म्वसे पहले हारता है । पीछे लज्जा, अभिमान, कुल, सुख, सज्जनता, बन्धुवर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, यश, माना-पिता, बाल-बच्चे, स्त्रियाँ और स्वयं अपने आपको हारता है—नष्ट करता है । जुआ खेलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन आवश्यक कार्योंका रोध हो जानेसे रोगी हो जाना है । जुआ खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो बात नहीं, वह व्यर्थ ही क्षोभ उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्य कार्य कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे लोगोंसे याचना करने लगता है और धनके लिए नहीं करने योग्य कर्मोमें प्रवृत्ति करने लगता है । बन्धुजन उसे छोड़ देते हैं—घरसे निकाल देते हैं, एवं राजाकी आरसे उसे अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं । इस प्रकार जुआके दोषोंका नामोल्लेख करनेके लिए भी कौन समर्थ है ? ॥ ७६-८० ॥ राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त है क्योंकि वह इस जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था । इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकोंका भला चाहता है वह जुआको दूरसे ही छोड़ देवे ॥ ८१ ॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वस्व हार चुका तब शोकसे व्याकुल होकर सुदर्शनाचार्यके चरण-मूलमें गया । वहाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली । यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था । उसने शोकसे अन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया ॥ ८२-८३ ॥ इस प्रकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमें निदान किया कि इस तपके द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो ॥ ८४ ॥ ऐसा निदान कर वह संन्यास-भरणसे मरा तथा लान्तव स्वर्गमें देव हुआ । वहाँ चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप-भोग करता रहा ॥ ८५ ॥ वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी पृथिवी रानीके स्वयंभू नामका पुत्र हुआ । यह पुत्र राजाको सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था ॥ ८६ ॥ धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था । दोनोंमें ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों ही चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे ॥ ८७ ॥ सुकेतुकी पर्यायमें जिस बलवान् राजाने जुआमें सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मर कर रत्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था ॥ ८८ ॥ पूर्व जन्मके

१ वा अर्थार्थं वनार्थम् । २ सुदर्शनाचार्यपाद ल० । ३-प्यशुभाशयं ग०, घ०, क०, ।

मधोः केनापि भूपे च प्रहितं प्राभृतं स्वयम् । वातयित्त्वोभयोर्दूतौ साधिक्षेपमगृह्यत ॥ ९० ॥  
 प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्नः संस्कारो जायते स्थिरः<sup>१</sup> । तस्मादप्रीतिमात्मज्ञो न कुर्यात्कापि कस्यचित् ॥ ९१ ॥  
 आकर्ण्य नारदाद् दूतमृत्युमावेशितक्रुधा । यथावभिमुखं योद्धुं रामकेशवयोर्मधुः ॥ ९२ ॥  
 तौ च संग्रामसन्नद्धौ कुद्भौ युद्धविशारदौ । प्रापतुः सहसा हन्तुं तं यमानलसन्निभौ ॥ ९३ ॥  
 सैन्ययोरुभयोरसीत् संग्रामः संहरन्निव । परस्परं चिरं घोरः शूरयोर्भीरुभीप्रदः ॥ ९४ ॥  
 स्वयम्भुवं समुद्दिश्य तदा सोढा मधुः क्रुधा । ज्वलच्चक्रं विवर्त्यांशु न्यक्षिपत्तज्जिघांसया ॥ ९५ ॥  
 तद्भ्रत्वाऽऽशु परीत्यैनं भुजाग्रे दक्षिणे स्थितम् । अवतीर्य मरुन्मार्गाद्भास्करस्येव मण्डलम् ॥ ९६ ॥  
 तदेवादाय सक्रोधः स्वयम्भूर्विद्विषं प्रति । <sup>२</sup>प्रहित्यादादसूस्तस्य किं न स्यात् सुकृतोदयात् ॥ ९७ ॥  
 आधिपत्यं तदावाप्य भरतार्द्धस्य केशवः । वासवो वोऽन्वभूद्भोगान्निविष्टं स्वाप्रजान्वितः ॥ ९८ ॥  
 मधुः सत्त्वं समुत्सृज्य भूयः <sup>३</sup>संश्रितवान् रजः । बद्ध्वायुर्नारकं प्रापन्निरयं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥  
 केशवोऽपि तमन्वेष्टमिव वैरानुबन्धनात् । तदेव <sup>४</sup>नरकं पश्चात्प्राविशत् पापपाकतः ॥ १०० ॥  
 बलोऽपि तद्वियोगोत्थशोकसन्तप्तमानसः । निविद्य संसृतेः प्राप्य जिनं विमलवाहनम् ॥ १०१ ॥  
 सामायिकं समादाय संयमं संयताग्रणीः । <sup>५</sup>विग्रहे <sup>६</sup>विग्रहीवोमं निर्व्यग्रमकरोत्तपः ॥ १०२ ॥  
 सद्दृत्तस्तेजसो मूर्तिर्धुन्वन्नभ्युदितस्तमः । असम्बाधमगादूर्ध्वं भास्वानिव बलोऽमलः ॥ १०३ ॥

वैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम मुनने मात्रसे कुपित हो जाता था ॥ ८९ ॥ किसी समय किसी राजाने राजा मधुके लिए भेंट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनोंके दूतोंको मारकर तिर-स्कारके साथ वह भेंट स्वयं छीन ली ॥ ९० ॥ आचार्य कहते हैं कि प्रेम और द्वेषसे उत्पन्न हुआ संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यको कहीं किसीके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए ॥ ९१ ॥ जब मधुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करनेके लिए बलभद्र और नारायणके सन्मुख चला ॥ ९२ ॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुपित बलभद्र और नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज और अधिकी समानता रखनेवाले वे दोनों राजा मधुको मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे ॥ ९३ ॥ दोनों शूरकी सेनाओंमें परस्परका संहार करनेवाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान युद्ध हुआ ॥ ९४ ॥ अन्तमें राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूका मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही जलता हुआ चक्र घुमा कर फेंका ॥ ९५ ॥ वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी दाहिनी भुजाके अग्रभाग पर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशसे उतरकर सूर्यका विम्ब ही नीचे आ गया हो ॥ ९६ ॥ उसी समय राजा स्वयंभूने कुपित होकर वह चक्र शत्रुके प्रति फेंका सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता ? ॥ ९७ ॥ उसी समय स्वयंभू-नारायण, आर्धे भरतक्षेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान अपने बड़े भाईके साथ उसका निर्विघ्न उपभोग करने लगा ॥ ९८ ॥ राजा मधुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर-कायु बाँध कर तमस्तम नामक सातवें नरकमें गया ॥ ९९ ॥ और नारायण स्वयंभू भी वैरके संस्कारसे उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १०० ॥ स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था ऐसा बलभद्र धर्म भी संसारसे विरक्त होकर भगवान विमलनाथके समीप पहुँचा ॥ १०१ ॥ और सामायिक संयम धारण कर संयमियोंमें अग्रसर हो गया। उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके साथ विद्वेष ही ठान रक्खा हो ॥ १०२ ॥ उस समय बलभद्र ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्दृत्त अर्थात् गोलाकार होता है उसी प्रकार बलभद्र भी सद्दृत्त सदाचार से युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजकी मूर्ति स्वरूप होता है उसी प्रकार बलभद्र भी तेजकी मूर्ति स्वरूप

१ स्थितिः ग० । २ प्रहित्य अदात् असून् तस्य इति पदच्छेदः । ३ संसृतिबीजजम् ल० । ४ नारकं क०, घ० । ५ विग्रहे शरीरे । ६ विग्रही विद्वेषी ।

### वसन्ततिलका

धृतेन मोहविहितेन विधीः स्वयम्भुः

यातो मधुश्च नरकं दुरिती दुरन्तम् ।

धर्मादिकं त्रितयमेव कुमार्गवृत्त्या

हेतुः श्रितं भवति दुःखपरम्परायाः ॥ १०४ ॥

क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि भवेन्नदानं

तत्स्याद् दुरन्तदुरितोजितदुःखहेतुः ।

तेनाप मुक्तिपथगोऽप्यपथं सुकेतु-

स्याज्यं ततः खलसमागमवन्निदानम् ॥ १०५ ॥

### मालिनी

द्युतिविनिहतमिश्रां मित्रनन्दी क्षितीशां

यमसमितिसमग्रोऽनुत्ताराधीश्वरोऽभूत् ।

अनुधरणिमितः सन् द्वारवत्यां सुधर्मः

परमपदमवापत्साधिनात्मस्वरूपः ॥ १०६ ॥

### पृथ्वी

कुणालविषयं सुकेतुरधिराडभृद् दुर्मति-

स्तनः कृततपाः सुरोऽजनि सुखालये लान्तवे ।

कृतान्तसदृशो मधोरनुबभूव चक्रेश्वर-

स्तनश्च दुरितोदयाक्षितिमगात्स्वयम्भुरथः ॥ १०७ ॥

जितस्याम्येव तीर्थेऽस्यौ गणेशौ मेरुमन्दरौ । तुङ्गौ स्थिरौ सुरैः मेन्यां वक्ष्यामश्चरितं तयोः ॥ १०८ ॥

थे, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बलभद्रने मुनि होते ही अन्तरङ्गके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी कर्ममलके नष्ट हो जानेसे निर्मल थे और जिस प्रकार सूर्य बिना किसी रुकावटके ऊपर आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तीन लोकके अग्रभाग पर जा विराजमान हुए ॥ १०३ ॥ देखो, मांढ वश किये हुए जुआसे मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पापका संचय कर दुखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि धर्म, अर्थ, काम इन तीनका याद कुमार्ग वृत्तिसे सेवन किया जावे तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥ १०४ ॥ कोई उत्तम तपश्चरण करे और क्रोधादिके दशीभूत हो निदान-बन्ध कर ले तो उसका वह निदान-बन्ध अतिशय पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है । देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षमार्गका पथिक था तो भी निदान-बन्धके कारण कुगतिको प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूरसे ही छोड़ने योग्य है ॥ १०५ ॥ धर्म, पहले अपनी कान्तिसे सूर्यको जीतनेवाला मित्रनन्दी नामका राजा हुआ, फिर महाव्रत और समितियोंसे सम्पन्न होकर अनुत्तरविमानका स्वामी हुआ, वहाँसे चयकर पृथिवीपर द्वारावती नगरीमें सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्धकर मोक्ष पदको प्राप्त हुआ ॥ १०६ ॥ स्वयंभू पहले कुणाल देशका मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्चरण कर सुखके स्थान-स्वरूप लान्तव स्वर्गमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं पृथिवीमें गया ॥ १०७ ॥

अथानन्तर—इन्हीं विमलवाहन तीर्थकरके तीर्थमें अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देवोंके द्वारा सेवनीय मेरु और मन्दर नामके दो गणधर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं ॥ १०८ ॥

द्वीपेऽपरविदेहेऽस्मिन् सीतोदानद्युदक्ते । विषये गन्धमालिन्यां वीतशोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥  
 वैजयन्तो नृपस्तस्य देव्याः सर्वाश्रियः सुतौ । संजयन्तजयन्ताख्यौ राजपुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥  
 तावन्व्येद्युरशोकाख्यवने तीर्थं कृतोऽन्तिके । धर्मं स्वयम्भुवः श्रुत्वा भोगनिर्वेदचोदितौ ॥ १११ ॥  
 संजयन्ततनूजाय वैजयन्ताय धीमते । दत्त्वा राज्यं समं पित्रा संयमं समवापतुः ॥ ११२ ॥  
 सप्तमे संयमस्थाने क्षीणाशेषकपायकः । सामरस्यं समाप्याप वैजयन्तो जिनेशिताम् ॥ ११३ ॥  
 पितुः कैवल्यसम्प्राप्तिकल्याणे , धरणेशिनः । जयन्तो बीक्ष्य सौन्दर्यमैश्वर्यं च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥  
 धरणेन्द्रोऽभवन्मृत्वा दुर्भलिः स निदानतः । अत्यल्पं बहुमौल्येन गृह्णतो न हि दुर्लभम् ॥ ११५ ॥  
 अन्येषुः सञ्जयन्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम् । मनोहरपुराभ्यर्णं भीमारण्यान्तरे यतिम् ॥ ११६ ॥  
 विद्युहंप्टाङ्गयो विद्याधरो वीक्ष्याक्षमो रुपा । १ पूर्ववैरानुसन्धानस्मृत्युद्भूतातिवेगया ॥ ११७ ॥  
 उद्धृत्येलाख्ययाप्यद्रेर्भरतेऽपागिदगाश्रिता । नदी कुमुमवत्याख्या हरवत्यभिधा परा ॥ ११८ ॥  
 मुवर्णागजवत्यौ च चण्डवेगा च पञ्चमी । न्यक्षिपत्सङ्गमे तासामगाधे सलिले खलः ॥ ११९ ॥  
 अयं पापी महाकायो दानवो मानवाशनः । सर्वानस्मान् पृथग्दृष्ट्वा स्वादितुं निभृतं स्थितः ॥ १२० ॥  
 शरकुन्तादिशस्त्रौर्धनिर्घृणं सर्वभक्षणम् । वयं सर्वेऽपि सम्भूय हनामोऽखिलविद्विपम् ॥ १२१ ॥  
 उपेक्षितोऽयमद्यैव भुङ्क्ते भुङ्क्ते भुङ्क्ते भुङ्क्ते । भक्षयेहक्षिप्तोऽवश्यं निशायां स्त्रीः शिशून्पशून् ॥ १२२ ॥  
 तस्मान्मद्वचनं यूयं प्रतीत किमहं वृथा । मृषा भाषे किमेतेन वैरमस्यत्र मे पृथक् ॥ १२३ ॥  
 हति तेन खगा मुग्धाः पुनः सर्वेऽपि नादिताः । तथेति मृत्युसन्त्रस्ताः समस्ताः शस्त्रसंहर्ताः ॥ १२४ ॥  
 आदाय साधुमूर्धन्यं समाहितमहाधियम् । समन्ताद्धन्तुमारब्धा विश्रब्धं लुब्धकोपमाः ॥ १२५ ॥

जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उचार तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है उसके वीतशोक नगरमें वैजयन्त राजा राज्य करता था । उसकी सर्वश्री नामकी रानी थी और उन दोनोंके संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सहित थे ॥ १०९-११० ॥ किसी दूसरे दिन अशोक वनमें स्वयंभू नामक तीर्थकर पधारं । उनके समीप जाकर दोनों भाइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दोनों ही भागोंमें विरक्त हो गये ॥ १११ ॥ उन्होंने संजयन्तके पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशय बुद्धिमान था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ११२ ॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात् बारहवें गुणस्थानमें समस्त कपायोंका क्षय कर जिन्होंने समरसपना—पूर्ण वीतरागता प्राप्त कर ली है ऐसे वैजयन्त मुनिराज जिनराज अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ ११३ ॥ पिताके केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा धरणेन्द्र भी आया । धरणेन्द्रके सौन्दर्य और बहुत भारी ऐश्वर्यको देखकर जयन्त मुनिने धरणेन्द्र होनेका निदान किया । उस निदानके प्रवाहसे वह दुर्बुद्धि मर कर धरणेन्द्र हुआ सो ठीक ही है क्योंकि बहुत मूल्यसे अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुर्लभ नहीं है ॥ ११४-११५ ॥ किसी एक दिन संजयन्त मुनि, मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे ॥ ११६ ॥ वहींसे विद्युहंप्टाङ्ग नामका विद्याधर निकला । वह पूर्वभवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीव्र वेगसे युक्त क्रोधसे आगे बढ़नेके लिए असमर्थ हो गया । वह दुष्ट उन मुनिराजको उठा लाया तथा भरतक्षेत्रके इला नामक पर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर जहाँ कुमुमवती, हरवती, मुवर्णवती, गजवती और चण्डवेगा इन नदियोंका समागम होता है वहाँ उन नदियोंके अगाध जलमें छोड़ आया ॥ ११७-११८ ॥ इतना ही नहीं उसने भोले-भाले विद्याधरोंको निम्नाङ्कित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया । वह कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मनुष्योंको खानेवाला पापी राक्षस है, यह हम सबको अलग-अलग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्यको हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्रोंके समूहसे मारें, देखो, यह भूखा है, भूखसे इसका पेट फुका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही स्त्रियों-बच्चों



सोऽपि सर्वसहिष्णुः सन् ब्रह्मकायोऽचलाकृतिः । निश्चलो निर्बृति यातः शुक्लध्यानेन शुद्धधीः ॥ १२६ ॥  
 सर्वे निर्वाणकल्याणपूजां कर्तुं सुराधिपाः । चतुर्विधाः समं प्रापंस्तदा तद्भक्तिकोदिताः ॥ १२७ ॥  
 स्वाग्रजाङ्गक्षणोद्भूततृतीयावगमः क्रुधा । नागेन्द्रो नागपाशेन तान् बधन्धाखिलान् खगान् ॥ १२८ ॥  
 नास्माकं देव दोषोऽस्ति विद्युद्दंष्ट्रेण पापिना । विदेहाद्मुमानोय भयं चास्मात्खचारिणाम् ॥ १२९ ॥  
 प्रतिपाद्य जनैरेभिरकारि विविधो मुधा । महोपसर्गं इत्याहुस्तेषु केचिद्विचक्षणाः ॥ १३० ॥  
 क्षुत्वा तन्नागराजोऽपि तेषु कालुष्यमुत्सृजन् । विद्युद्दंष्ट्रं पयोराशौ सबन्धुं क्षेप्तुमुद्यतः ॥ १३१ ॥  
 आदित्याभस्तदा देवो गुणहेतुस्तयोरभूत् । मध्ये ज्ञातानुबन्धो वा धातुप्रत्यययोः परः ॥ १३२ ॥  
 कृतदोषोऽस्त्ययं नागनाथ किन्वनुरोधतः । ममास्य शम्यतां क्षुद्रे कः कोपस्त्वाहशां पणौ ॥ १३३ ॥  
 पुरादित्तीर्थकृत्काले भवदवंशसमुद्भवैः । वंशोऽस्य निर्मितो दत्त्वा विद्या विद्याधरेशिनाम् ॥ १३४ ॥  
 'संबन्ध' विषयं च छेत्तुं स्वयमवैतु कः । इत्यावालप्रसिद्धं किं न वेत्सि विषभृत्यते ॥ १३५ ॥  
 इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः प्रत्युवाच तपोधनम् । मदग्रजमयं दुष्टो निर्हेतुकममीमरन् ॥ १३६ ॥  
 तद्भुवं मम हन्तव्यो न निषेधं त्वयाधितम् । मयेति सहसा देवस्तमाह मतिमान् वृथा ॥ १३७ ॥  
 वैरं वहसि ते भ्राता जानौ जातोऽयमेव किम् । विद्युद्दंष्ट्रां न किं भ्राता सज्जातः संसृतौ भ्रमन् ॥ १३८ ॥

तथा पशुओंको खा जावेगा । इसलिए आप लोग मेरे वचनों पर विश्वास करो, मैं वृथा ही भूठ क्यों बाँटूँगा ? क्या इसके साथ मेरा द्वेष है ? इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्युसे डर गये और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र अनुष्यको ठग लोग मारने लगते हैं उस प्रकार शस्त्रोंका समूह लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब ओरसे मारने लगे ॥ १२०-१२५ ॥ जयन्त मुनिराज भी इस समस्त उपसर्गको सह गये, उनका शरीर वस्त्रके समान मुट्ठ था, वे पर्वतके समान निश्चल खड़े रहे और शुक्लध्यानके प्रभावे निर्मल ज्ञानके धारी मांशको प्राप्त हो गये ॥ १२६ ॥ उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिसे प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणकर्ता पूजा करनेके लिए आये ॥ १२७ ॥ सब देवोंके साथ पूर्वोक्त धरणेन्द्र भी आया था, अपने बड़े भाईका शरीर देखनेसे उसे अबधिज्ञान प्रकट हो गया जिससे वह बड़ा कुपित हुआ । उसने उन समस्त विद्याधरोंको नागपाशसे बाँध लिया ॥ १२८ ॥ उन विद्याधरोंमें कोई-कोई बुद्धिमान भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव ! इस कार्यमें हम लोगोंका दोष नहीं है, पापी विद्युद्दंष्ट्र इन्हें विदेह क्षेत्रमें उठा लाया और विद्याधरोंको इसने बतलाया कि इनसे तुम सबको बहुत भय है । ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब लोगोंसे व्यर्थ ही यह महान् उपसर्ग करवाया है ॥ १२९-१३० ॥ विद्याधरोंकी प्रार्थना सुनकर धरणेन्द्रने उन पर क्रोध छोड़ दिया और परिवारसहित विद्युद्दंष्ट्रको समुद्रमें गिराने का उद्यम किया ॥ १३१ ॥ उसी समय वहाँ एक आदित्याभ नामका देव आया था जो कि विद्युद्दंष्ट्र और धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-लाभका उस प्रकार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी धातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध गुण—व्याकरणमें प्रसिद्ध संज्ञा विशेषका हेतु होता हो ॥ १३२ ॥ वह कहने लगा कि हे नागराज ! यद्यपि इस विद्युद्दंष्ट्रने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिये । आप जैसे महापुरुषोंका इस लुट्ट पशु पर क्रोध कैसा ? ॥ १३३ ॥ बहुत पहले, आदिनाथ तीर्थकरके समय आपके वंशमें उत्पन्न हुए धरणेन्द्रके द्वारा विद्याधरोंकी विद्याएं देकर इसके वंशकी रचना की गई थी । लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-वृक्षको भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज ! आप क्या यह बात नहीं जानते ? ॥ १३४-१३५ ॥ जब आदित्याभ यह कह चुका तब नागराज-धरणेन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्वी बड़े भाईको अकारण ही मारा है अतः यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जावेगा । इस विषयमें आप मेरी इच्छाको रोक नहीं सकते ।' यह सुनकर बुद्धिमान देवने कहा कि—'आप वृथा ही वैर धारण कर

१ 'विषवृक्षेऽपि संबन्ध' स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्' इति कुमारसंभवे काशिदासमहाकवेः ।

बन्धुः कः को न वा बन्धुः बन्धुताबन्धुताद्वयम् । संसारे परिवर्तेत १ विदामत्राग्रहः कुतः ॥ १३९ ॥  
 कृतापराधे भ्राता ते विद्युद्दंष्ट्रमदण्डयत् । ततोऽयं स्मृततज्जन्मा मुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥  
 अग्रजं तव पापोऽयं प्राक्तजन्मचतुष्टये । महावैरानुबन्धेन २ लोकात्तरमजीगमत् ॥ १४१ ॥  
 अस्मिन् जन्मन्यशुं मन्ये मुनेरस्योपकारकम् । खगमेतत् कृतं सोढायन्मुक्तिप्रयमेयिवान् ॥ १४२ ॥  
 आस्तां तावदिदं भद्रं भद्रं निर्वृत्तिकारणम् । प्राक्तनस्यापकारस्य वद केन प्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥  
 हत्याकर्ण्यं फणीन्द्रस्तत्कथ्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुक्तासावादित्याभं समुत्सुकाः ॥ १४४ ॥  
 शृणु वैरं विसृज्यास्मिन् बुद्धिमन् शुद्धचेतसा । तत्प्रपञ्चं वदामीति देवो विस्पष्टमभ्यधात् ॥ १४५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो मर्हीपतिः । सिंहसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताऽभवत्सती ॥ १४६ ॥  
 श्रीभूतिः सत्यघोषाङ्गो मन्त्री तस्य मर्हीपतेः । श्रुतिस्मृतिपुराणादिशास्त्रविद् ब्राह्मणोत्तमः ॥ १४७ ॥  
 पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठिसुदत्ताख्यसुमित्रयोः । भद्रमित्रः सुतो रत्नद्वीपे पुण्योद्यात्स्वयम् ॥ १४८ ॥  
 उपाजितपराधोऽरत्नः सिंहपुरे स्थिरम् । तिष्ठसुर्मन्त्रिणं दृष्ट्वा सर्वमावेद्य तन्मतात् ॥ १४९ ॥  
 तस्य हस्ते स्वरत्नानि स्थापयित्वा स बान्धवान् । आनेतुं पद्मखण्डाख्यं गत्वा तस्मान्निवर्त्य सः ॥ १५० ॥  
 पुनरभ्येत्य रत्नानि सत्यघोषमयाचत । सोऽपि नद्रत्नमोहेन न जानामीत्यपाङ्कत ॥ १५१ ॥  
 भद्रमित्रोऽपि प्लकारं सर्वतो नगरेऽकरोत् । सत्यघोषोऽपि पापिष्ठैरेष चौरैरभिद्रुतः ॥ १५२ ॥

रहे हैं । इस संसारमें क्या यही तुम्हारा भाई है ? और संसारमें भ्रमण करना हुआ विद्युद्दंष्ट्र  
 क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ । इस संसारमें कौन बन्धु है ? और कौन बन्धु नहीं है ?  
 बन्धुता और अबन्धुता दोनों ही परिवर्तनशील हैं—आज जो बन्धु है वह कल अबन्धु हो सकता  
 है और आज जो अबन्धु है वह कल बन्धु हो सकता है अतः इस विषयमें विद्वानोंको आग्रह क्यों  
 होना चाहिये ? ॥ १३६-१३६ ॥ पूर्व जन्ममें अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयन्तने विद्युद्दंष्ट्रके  
 जीवका दण्ड दिया था, आज इसे पूर्वजन्मका वह वात याद आ गई अतः इसने मुनिका अपकार  
 किया है ॥ १४० ॥ इस पापीने तुम्हारे बड़े भाईका पिछले चार जन्मोंमें भी महावैरके संस्कारसे  
 परलोक भेजा है—मारा है ॥ १४१ ॥ इस जन्ममें तो मैं इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार  
 करनेवाला मानता हूँ क्योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसर्गको सहकर ही ये मुक्तिको प्राप्त हुए हैं  
 ॥ १४२ ॥ हे भद्र ! इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जाने दीजिये । आप यह कहिये कि पूर्व-  
 जन्ममें किये हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ? ॥ १४३ ॥

यह मुनकर धरगन्धर्वने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार है ? आप  
 मुझसे कहिये ॥ १४४ ॥ वह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान ! इस विद्युद्दंष्ट्र पर वैर छोड़कर  
 शुद्ध हृदयसे सुनो, मैं वह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहना हूँ ॥ १४५ ॥

इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी राजा सिंहसेन था उसकी रामदत्ता नामकी  
 पतिव्रता रानी थी ॥ १४६ ॥ उस राजाका श्रीभूति नामका मंत्री था, वह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि  
 शास्त्रोंका जाननेवाला था, उत्तम ब्राह्मण था और अपने आपको सत्यघोष कहता था ॥ १४७ ॥ उसी देशके  
 पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी सुमित्रा स्त्रीसे मद्रमित्र नामका पुत्र हुआ  
 उसने पुण्योदयसे रत्नद्वीपमें जाकर स्वयं बहुतसे बड़े-बड़े रत्न कमाये । उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर आया  
 और वहाँ स्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने लगा । उसने श्रीभूति मंत्रीसे मिलकर सब बात कही और  
 उसकी संमतिसे अपने रत्न उसके हाथमें रखकर अपने भाई-बन्धुओंको लेनेके लिए वह पद्मखण्ड नगरमें  
 गया । जब वहाँसे वापिस आया तब उसने सत्यघोषसे अपने रत्न माँगे परन्तु रत्नोंके मोहमें पड़कर  
 सत्यघोष बदल गया और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता ॥ १४८-१५१ ॥ तब मद्रमित्रने  
 सब नगरमें रोना-चिल्लाना शुरू किया और सत्यघोषने भी अपनी प्रामाणिकता बनाये रखनेके  
 लिए लोगोंको यह बतलाया कि पापी चोरोंने इसका सब धन छूट लिया है । इसी शोकसे इसका

सर्वस्वहरजोद्भूतशोकन्याकुलिताशयः । प्रलापीति जनानेतत् स्वप्रामाण्यादजिग्रहत् ॥ १५३ ॥  
 समक्षं भूपतेरात्मशुद्धयर्थं शपथं च सः । धर्माधिकृतनिर्दिष्टं चकाराचारदूरगः ॥ १५४ ॥  
 भद्रमित्रोऽपि पापेन बन्धितोऽहं निजातिना । द्विजातिनेत्यनाथोऽपि नामुञ्चन् पृथुर्कतिं मुहुः ॥ १५५ ॥  
 चतुर्विधोपधा शुद्धं युक्तं जात्यादिभिर्गुणैः । त्वां सत्यं सत्यघोषाङ्गं मत्वा मन्त्रिगुणोत्तमम् ॥ १५६ ॥  
 यथा न्यासीकृतं हस्ते तव रत्नकरण्डकम् । किमेवमपलापेन हेतुं तद्ब्रूहि युज्यते ॥ १५७ ॥  
 सिंहसेनमहाराजप्रसादेन न तेऽस्ति किम् । छत्रसिंहासने मुक्त्वा ननु राज्यमिदं तव ॥ १५८ ॥  
 धर्मं यशो महत्त्वं च किं वृथैव विधातयेः । न्यासापह्नवदोषं किं न वेत्सि स्मृतिपूर्वितम् ॥ १५९ ॥  
 एतदेवार्थशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम् । यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयते परैः ॥ १६० ॥  
 इत्यत्र परशब्दार्थे विपर्येयि परो मतः । तत्र शत्रुरहं किं भोः सत्यघोष रिपुस्तव ॥ १६१ ॥  
 सद्भावप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता । अङ्गमारुह्य सुसस्य हन्तुः किं नाम पौरुषम् ॥ १६२ ॥  
 महामोहप्रहस्त-श्रीभूते भाविजन्मना । त्वं तन्मा नीनशो देहि मह्यं रत्नकरण्डकम् ॥ १६३ ॥  
 ईदृश्येतत्प्रमाणानि जातिस्तेषामिदं स्वयम् । जानंश्च मम रत्नानि किमित्येवमपह्नुषे ॥ १६४ ॥  
 पृथं नित्यं निशाप्रान्ते रांरौत्थारुह्य भूरुहम् । कृत्ये कृच्छ्रेऽपि सत्त्वाढ्या न त्यजन्ति समुद्यमम् ॥ १६५ ॥  
 यमुहुसुहृत्सदाकर्ण्य महादेव्या मनस्यभूत् । जानेऽहं नायमुन्मत्तः सर्वदानुगतं वदन् ॥ १६६ ॥  
 इति सावेध भूपालं द्यूतोपायेन मन्त्रिणम् । जित्वा यज्ञोपवीतेन सार्द्धं तन्नाममुद्रिकाम् ॥ १६७ ॥  
 दत्त्वा निपुणमन्याव्यधार्त्राकरतले मिथः । प्रहितं मन्त्रिणा देहि भद्रमित्रकरण्डकम् ॥ १६८ ॥

चित्त व्याकुल हो गया है और उमा दशामं वह यह सब बक रहा है ॥ १५२-१५३ ॥ सदाचारसे दूर रहने वाले उस सत्यघोषने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजाके समक्ष धर्माधिकारियों— न्यायाधीशोंके द्वारा बतलाई हुई शपथ खाई ॥ १५४ ॥ भद्रमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो भी उमने अपना रोना नहीं छोड़ा, वह बार-बार यही कहता था कि इस पापी धिजाति ब्राह्मणने मुझे ठग लिया ॥ १५५ ॥ हे सत्यघोष ! मैंने तुझे चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मंत्रियोंके उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा सचमुच ही सत्यघोष समझा था इसलिए ही मैंने अपना रत्नोंका पिटारा तेरे हाथमें सौंप दिया था, अब इस तरह तू क्यों बदल रहा है, इस बदलनेका कारण क्या है और यह सब करना क्या ठीक है ? महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं हैं ? छत्र और सिंहासनको छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है ॥ १५६-१५८ ॥ फिर धर्म, यश और वृद्धपनको व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है ? क्या तू स्मृतियोंमें कहे हुये न्यासापहारके दोषको नहीं जानता ? ॥ १५९ ॥ तूने जो निरन्तर अर्थशास्त्रका अध्ययन किया है क्या उसका यही फल है कि तू सदा दूसरोंको ठगता है और दूसरोंके द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता ॥ १६० ॥ अथवा तू पर शब्द का अर्थ विपरीत समझता है—पर का अर्थ दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सो हे सत्यघोष ! क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ ? ॥ १६१ ॥ सद्भावनासे पासमें आवे हुए मनुष्योंको ठगनेमें क्या चतुराई है ? गोद आकर सोये हुएको मारने वालेका पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ है ? हे श्रीभूति ! तू महामोह रूपी पिशाचसे ग्रस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवनको नष्ट मत कर, मेरा रत्नोंका पिटारा मुझे दे दे ॥ १६२-१६३ ॥ मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े हैं और उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है फिर क्यों इस तरह उन्हें छिपाता है ? ॥ १६४ ॥ इस प्रकार वह भद्रमित्र प्रति दिन प्रातः कालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार रोता था सो ठीक ही है क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्यमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥ १६५ ॥ बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूँकि 'यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पड़ता है ॥ १६६ ॥ रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये और मंत्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत तथा उसके नामकी अंगूठी जीत ली ॥ १६७ ॥ तदनन्तर उसके

१ स्मृतिनिन्दितम् ख०, ग० । स्मृतिदूषितम् ल० । २ सुप्तानां हेतुः (?) ल० । ३ नित्ये ल० ।  
 ४ च-पुस्तकेऽयं श्लोक उज्जितः ।

अभिज्ञानं च तस्यैतदित्युक्त्वा सास्त्रिधानुतः । तदानयेति सन्दिश्य १ धात्रीमाननीयत्तदा ॥ १६९ ॥  
 तत्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिभुजा स्वयम् । भद्रमित्रं समाहूय रहस्येतद्भवेत्तव ॥ १७० ॥  
 २ इत्युक्तः स भवेदेव ममैव तत्करण्डकम् । किन्तु रत्नान्यनर्घ्याणि मिश्रितान्यत्र कानिचित् ॥ १७१ ॥  
 एतानि सन्ति मे नैव ममैतानीति शुद्धधीः । स्वरत्नान्येव सत्योक्तिर्जग्राहोत्काप्रणीः सताम् ॥ १७२ ॥  
 सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै सत्यघोषाङ्कसङ्गतम् । ज्येष्ठं श्रेष्ठिपदं मद्रमित्रायादित वेदिता ॥ १७३ ॥  
 सत्यघोषो मृषावादी पापी पापं समाचरन् । धर्माधिकरणोक्तेन दण्ड्यतामिति भूभुजा ॥ १७४ ॥  
 प्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वज्रमुष्टाख्यमल्लस्थ त्रिशदूर्जिताः ॥ १७५ ॥  
 कांस्यपात्रत्रयापूर्णनवगोमयभक्षणम् । इति त्रिविधदण्डेन न्यगृह्णन्<sup>३</sup> पुररक्षकाः ॥ १७६ ॥  
 नृपेऽनुबन्धवैरः सन् मृत्वात्तंध्यानदूषितः । द्विजिह्वोऽगन्धनो नाम भाण्डागारेऽजनिपट सः ॥ १७७ ॥  
 अन्यायेनान्यवित्तस्य स्वीकारश्रौर्यमुच्यते । नैसर्गिकं निमित्तोत्थं ४ तदेवं द्विविधं स्मृतम् ॥ १७८ ॥  
 आद्यमाजन्मनो लोभनिकृष्टस्पर्द्धकोदयात् । सत्यप्यर्थे गृहे स्वस्य कोटीकांठ्यादिसङ्ख्यया ॥ १७९ ॥  
 न चौर्येण विना तोपः सत्याये सति च व्यये । तद्वत्स्तादृशो भावः सर्वेषां वा क्षुधादितः<sup>५</sup> ॥ १८० ॥  
 ६ स्त्रीसुतादिव्ययाशक्तेर्विनार्थादितरद्भवेत् । तच्च लोभोदयेनैव दुर्विपाकेन केनचित् ॥ १८१ ॥

निपुणमनी नामकी धायके हाथमें दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमें समझाया कि 'तू श्रीभूति मंत्रीके घर जा और उनकी स्त्रीसे कह कि मुझे मंत्रीने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्रको पिटारा दे दे । पहिचानके लिए उन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं इस प्रकार भूठ-भूठ ही कह कर तू वह रत्नोंका पिटारा ले आ, इस तरह सिखला कर रानी रामदत्ताने धाय भेजकर मंत्रीके घरमें वह रत्नोंका पिटारा बुला लिया ॥ १६८-१६९ ॥ राजाने उस पिटारमें और दूसरे रत्न डालकर भद्रमित्रको स्वयं एकान्तमें बुलाया और कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥ १७० ॥ राजाके ऐसा कहने पर भद्रमित्रने कहा कि हे देव ! यह पिटारा तो हमारा ही है परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला दिये गये हैं ॥ १७१ ॥ इनमें ये रत्न मेरे नहीं हैं और ये मेरे हैं इस तरह कहकर सच बोलनेवाले, शुद्धबुद्धिके धारक तथा सज्जनोंमें श्रेष्ठ भद्रमित्रने अपने ही रत्न ले लिये ॥ १७२ ॥ यह जान कर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने भद्रमित्रके लिए सत्यघोष नामके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट सेठका पद दे दिया—भद्रमित्रको राजश्रेष्ठी बना दिया और उसका 'सत्यघोष' उपनाम रख दिया ॥ १७३ ॥ सत्यघोष मंत्री भूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं इसलिये इसे दण्डित किया जावे इस प्रकार धर्माधिकारियोंके कहे अनुसार राजाने उसे दण्ड दिये जानेकी अनुमति दे दी ॥ १७४ ॥ इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षकोंने श्रीभूति मंत्रीके लिए तीन दण्ड निश्चित किये—१ इसका सब धन छीन लिया जावे, २ वज्रमुष्टि पहलवानके मजबूत तीस घूसे दिये जायें, और ३ कांसेकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया गोबर खिलया जावे, इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया ॥ १७५-१७६ ॥ श्रीभूति राजाके साथ वैर बाँधकर आर्तध्यानसे दूषित होता हुआ मरा और सरकार राजाके भाण्डारमें अगन्धन नामका साँप हुआ ॥ १७७ ॥

अन्यायसे दूसरेका धन ले लेना चोरी कहलाती है वह दो प्रकारकी मानी गई है एक जो स्वभावसे ही होती और दूसरी किसी निमित्तसे ॥ १७८ ॥ जो चोरी स्वभावसे होती है वह जन्मसे ही लोभ कषायके निकृष्ट स्पर्द्धकोंका उदय होनेसे होती है । जिस मनुष्यके नैसर्गिक चोरी करनेकी आदत होती है उसके घरमें करोड़ोंका धन रहने पर भी तथा करोड़ोंका आय-व्यय होने पर भी चोरीके विना उसे संतोष नहीं होता । जिस प्रकार सबको जुधा आदिकी बाधा होती है उसी प्रकार उसके चोरीका भाव होता है ॥ १७९-१८० ॥ जब घरमें स्त्री-पुत्र आदिका खर्च अधिक होता

१ धात्रीमानिषात्तदा (?) ल० । २ इत्युक्ते ख० । ३ निगृह्णन् ल० । ४ तदेव ल० । ५ जुषादिकाः ख० । ६ स्त्रीधृतादि क०, ख०, ग०, घ० ।

द्वयेन तेन बभूवति दुरायुर्दुष्टचेष्टया । दुर्गतौ तच्चिरं दुःखं दुरन्तं ह्यनुभावयेत् ॥ १८२ ॥  
 सौजन्यं हन्यते अंशो विश्रम्भस्य धनादिषु । विपत्तिः प्राणपर्यन्ता मित्रबन्धादिभिः सह ॥ १८३ ॥  
 गुणप्रसवसन्देहा कीर्तिरम्लानमालिका । लतेव दावसंश्लिष्टा सद्यश्चौर्येण हन्यते ॥ १८४ ॥  
 इतीदं जानता सर्वं सत्यघोषेण दुर्धिया । आद्यांशकेन चौर्येण साहसं तदनुष्ठितम् ॥ १८५ ॥  
 सद्यो मन्त्रिपदाद् भ्रष्टो निग्रहं तादृशं गतः । दुर्गतिं च पुनः प्राप्तो महापापानुबन्धिनाम् ॥ १८६ ॥  
 इत्यमात्यस्य दुर्बलं राजाऽऽत्मनि विचिन्तयन् । धर्मिलाख्याय विप्राय तत्साचिव्यपदं ददौ ॥ १८७ ॥  
 काले गच्छति सत्येवमन्येद्युरसनाटवी- । पर्यन्तविमलाद्युक्तिकान्तारक्ष्माभृति स्थितम् ॥ १८८ ॥  
 वरधर्मयतिं प्राप्य भद्रमित्रवर्णिग्वरः । श्रुत्वा धर्मं धनं दाने त्यजन्तमतिमात्रया ॥ १८९ ॥  
 तस्य माता सुमित्राख्यासहमानातिकोपिनी । काले मृत्वासनाटव्यां शार्दूलभूयमागता ॥ १९० ॥  
 यदच्छया वनं यातमवलोक्य दुराशया । साऽत्वादस्त्वसुतं कोपाच्चित्रं किं उनादयमङ्गिनाम् ॥ १९१ ॥  
 स स्नेहाद्रामदत्तायाः सिंहचन्द्रः सुतांऽभवन् । पूर्णचन्द्रोऽनुजस्तस्य भूपतेस्तावतिप्रियौ ॥ १९२ ॥  
 भाण्डागारावलोकार्थं कदाचिन्नुपतिं गतम् । दृशति स्म निजक्रोधाक्षुब्धःश्रुतिरगन्धनः ॥ १९३ ॥  
 तदा गरुडदण्डेन सर्पानाहूय मन्त्रतः । निर्दोषांऽमुं प्रविश्या मे निर्गतः शुद्धिमाप्नुयात् ॥ १९४ ॥  
 अन्यथा निग्रहीष्यामीत्युक्ता विपधराः परे । जलाशयादिवाक्कुंशाभ्रियान्ति स्म हुताशनान् ॥ १९५ ॥

हे और घरमें धनका अभाव होता है तब दूसरी तरहकी चोरी करनी पड़ती है वह भी लोभ कपाय अथवा किसी अन्य दुष्कर्मके उदयसे होती है ॥ १८१ ॥ यह जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे अशुभ आयुका बन्ध करता है और अपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गतिमें चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है ॥ १८२ ॥ चोरी करनेवालेकी मज्जत न नष्ट हो जाती है, धनादिके विषयमें उसका विश्वास चला जाता है, और मित्र तथा भाई-बन्धुओंके साथ उसे प्राणान्न विपत्ति उठानी पड़ती है ॥ १८३ ॥ जिस प्रकार दावान्तसे छुई छुई लता शाँत्र ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलोंसे गुंथी छुई कीर्तिरूपी ताजी माला चोरीसे शाँत्र ही नष्ट हो जाती है ॥ १८४ ॥ यह सब जानते हुए भी मूर्ख सत्यघोष ( श्रीभूति ) ने पहली नैसर्गिक चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥ १८५ ॥ इस चोरीके कारण ही वह मंत्री पदसे शाँत्र ही भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्वोक्त कठिन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पापसे बैरी छुई दुर्गतिमें जाना पड़ा ॥ १८६ ॥ इस प्रकार अपने हृदयमें मंत्रीके दुराचारका चिन्तन करते हुए राजा सिंहसेनने उसका मंत्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मणके लिए दे दिया ॥ १८७ ॥

इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसीदिन असना नामके वनमें विमलकान्तार नामके पर्वत पर विराजमान वरधर्म नामके मुनिराजके पास जाकरसेठ भद्रमित्रने धर्मका स्वरूप मुना और अपना बहुत-सा धन दानमें दे दिया। उसकी माना सुमित्रा इसके इतने दानको न सह सकी अतः अत्यन्त क्रुद्ध हुई और अन्त में मरकर उसी असना नामके वनमें व्याघ्री हुई ॥ १८८-१८९ ॥ एकदिन भद्रमित्र अपनी इच्छासे असना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभिप्रायवाली व्याघ्रीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया सो ठीक ही है क्योंकि क्रोधसे जीवोंका क्या भय नहीं हो जाता ? ॥ १८९ ॥ वह भद्रमित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ। ये दोनों ही पुत्र राजाको अत्यन्त प्रिय थे ॥ १९० ॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना भाण्डागार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्यघोषके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकीय क्रोधसे डस लिया ॥ १९१ ॥ उस गरुडदण्ड नामक गरुडने मन्त्रसे सब सर्पोंको बुलाकर कहा कि तुम लोगोंमें जो निर्दोष हो वह अग्निमें प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करें ॥ १९२ ॥ अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं दण्डित करूँगा। इस प्रकार कहने पर अगन्धनको छोड़ बाकी सब सर्प उस अग्निसे क्लेशके बिना ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल

अगन्धनस्तु तद्वह्नौ भस्मितः कोपमानवान् । कालकाल्ये वने जज्ञे सलोभश्चमरो मृगः ॥ १९६ ॥  
 सिंहसेनोऽपि कालान्ते सामजः सल्लकीवने । सम्भूयाशनिघोषाल्यां समवाप मदोद्भुरः ॥ १९७ ॥  
 सिंहचन्द्रोऽभवद्राजा यौवराज्येऽजनीतरः । भुञ्जानयोस्तयोर्लक्ष्मीं काले क्षण इवायति ॥ १९८ ॥  
 कदाचित्सिंहसेनोपरतवानाश्रुतेरिते<sup>१</sup> । द्रष्टुं दान्तहिरण्यादिमती संयमसंयुते ॥ १९९ ॥  
 समीपे रामदत्तापि तयोः संयममाददौ । तच्छोकात्सिंहचन्द्रोऽपि पूर्णचन्द्रयति श्रितः ॥ २०० ॥  
 श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म यदि याति वृथा नृणाम् । कुतः पुनरिहोत्पत्तिर्शान्तिरेवेति चिन्तयन् ॥ २०१ ॥  
 कृत्वा राज्येऽनुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे<sup>२</sup> । गुणस्थानं विशुद्धयन्<sup>३</sup> स<sup>४</sup> प्रमादपरिवर्जनान् ॥ २०२ ॥  
 खचारणत्वं तुर्यावगमोत्कर्षं च लब्धवान् । रामदत्ता कदाचित् दृष्ट्वा सञ्जातसम्मदा ॥ २०३ ॥  
 मनोहरवनोद्याने वन्दित्वा विधिपूर्वकम् । तत्तापोविन्नसम्प्रश्नपर्यन्ते पुत्रवत्सला ॥ २०४ ॥  
 पूर्णचन्द्रः परित्यज्य धर्मं भोगे कृतादरः । प्रत्येत्युत न वा धर्ममसाविन्यन्वयुङ्क्त सा ॥ २०५ ॥  
 प्रत्याह सिंहचन्द्रोऽपि युष्मद्धर्मं ग्रहीष्यति । मा भूत्वेदः कथां चास्य शृणुतान्यभवाश्रिताम् ॥ २०६ ॥  
 कौशले विषये वृद्धप्रामे नाम्ना मृगायणः । विप्रस्तस्याभवद्धर्मपत्नी च मधुराह्वया ॥ २०७ ॥  
 तन्सुता वारुणीसञ्जा जीवितान्ते मृगायणः । साकेताधीशिनो दिव्यबलस्य सुमतेश्च सः ॥ २०८ ॥  
 सुता हिरण्यवत्यासीत्सुरस्यविषये पुरे । पोदनेऽधीशिनो पूर्णचन्द्रायादायि सा सती ॥ २०९ ॥

आये हों ॥ १९५ ॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानमे भरा था अतः उस अग्निमें जल गया और मरकर कालक नामक वनमें लोभ सहित चमरी जातिका मृग हुआ ॥ १९६ ॥ राजा सिंहसेन भी आयुके अन्तमें मरकर सल्लकी वनमें अशनिघोष नामका मदान्तमत्त हाथी हुआ ॥ १९७ ॥

इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ और पूर्णचन्द्र युवराज बना । राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते हुए उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया ॥ १९८ ॥ तब एक दिन राजा सिंहसेनकी मृत्युके समाचार सुननेमें दान्तमणि और हिरण्यमणि नामकी संयम धारण करनेवाली आर्यिकाएँ रानी रामदत्ताके पास आई ॥ १९९ ॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप संयम धारण कर लिया । इस शोकमें राजा सिंहचन्द्र पूर्णचन्द्र नामक मुनिराजके पास गया और धर्मोपदेश सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना भ्रम मात्र है अथवा नाना योनियोंमें भटकना ही बाकी रह जाता है ॥ २००-२०१ ॥ इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचन्द्रको राज्यमें नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली । वह प्रमादको छोड़कर विशुद्ध होता हुआ संयमके द्वितीय गुणस्थान अर्थात् अप्रमत्त विरत नामक सप्रम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥ २०२ ॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ । किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिको देखकर बहुत ही हर्षित हुई ॥ २०३ ॥ उसने मनोहरवन नामके उद्यानमें विधि पूर्वक उनकी वन्दना की, तपके निर्विघ्न होनेका समाचार पूछा और अन्तमें पुत्रस्नेह के कारण यह पूछा कि पूर्णचन्द्र धर्मको छोड़कर भोगोंका आदर कर रहा है वह कभी धर्मको प्राप्त होगा या नहीं ? ॥ २०४-२०५ ॥ सिंहचन्द्र मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्मको ग्रहण करेगा । मैं इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखने वाली कथा कहता हूँ सो मुनो ॥ २०६ ॥

कोशल देशके वृद्ध नामक ग्राममें एक मृगायण नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मधुरा था ॥ २०७ ॥ उन दोनोंके वारुणी नामकी पुत्री थी, मृगायण आयुके अन्तमें मरकर साकेत-नगरके राजा दिव्यबल और उसकी रानी मुमतिके हिरण्यवती नामकी पुत्री हुई । वह सती

१ मरणवार्ताश्रवणात् इते— प्राप्ते समागतवत्यौ इत्यर्थः । २ संयमम् क०, ग०, घ० ! ३ सन् क०, ख०, ग०, घ०, स०, ल० । ४ प्रमादपरिवर्जनात् क०, घ० ।

मधुराऽपि तयोर्जाता रामदत्ता त्वमुत्तमा । भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रस्ते स्नेहतोऽभवत् ॥ २१० ॥  
 वारुणी पूर्णचन्द्रोऽयं त्वल्पिता भद्रबाहुतः । गृहीतसंयमोऽद्यात्र संवृत्तो गुरूवायोः ॥ २११ ॥  
 माता ते दान्तमत्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरथ ते । सिंहसेनोऽहिना दष्टः करीन्द्रोऽशनिघोषकः ॥ २१२ ॥  
 भूत्वा वने भ्रमन्मत्तो मामालोच्य जिघांसया । धावति स्म मयाऽऽकाशे स्थित्वाऽसौ प्रतिबोधितः ॥ २१३ ॥  
 पूर्वसम्बन्धमाख्याय सर्वं सम्यक् प्रबुद्धवान् । संयमासंयमं भव्यः स्वयं सद्यः समग्रहीत् ॥ २१४ ॥  
 शान्तचित्तः स निर्वेदो ध्यायन् कायाद्यसारताम् । कृत्वा मासोपवासादीन् शुष्कपत्राणि पारयन् ॥ २१५ ॥  
 कुर्वन्नेवं महासत्त्वश्चिरं घोरतरं तपः । 'यूपकेसरिणीनामसरिणीथे' कृशो जलम्<sup>१</sup> ॥ २१६ ॥  
 पातुं प्रविष्टस्तं वीक्ष्य स सर्पश्चमरः पुनः<sup>३</sup> । जातः 'कुक्कुटसर्पोऽत्र तदास्यारुह्य मस्तकम् ॥ २१७ ॥  
 दशति स्म गजोऽप्येतद्विषेण विगतासुकः । समाधिमरणाज्ज्ञे सहस्रारे रविप्रिये ॥ २१८ ॥  
 विमाने श्रीधरो देवो धर्मिलश्चायुषः क्षये । तत्रैव वानरः सोऽभूत्सख्या तेन गजेशिनः ॥ २१९ ॥  
 हतः 'कुक्कुटसर्पोऽपि<sup>२</sup> तृतीयनरकेऽभवत् । गजस्य रदनौ मुक्ताश्चादायाधिकतेजसः ॥ २२० ॥  
 व्याधः शृगालवन्नाम धनमित्राय दत्तवान् । राजश्रेष्ठी च तौ ताश्च पूर्णचन्द्रमहीभुजे ॥ २२१ ॥  
 ददौ दन्तद्वयेनासौ व्यधात्पादचतुष्टयम् । पत्यङ्गस्यात्मनो मुक्ताभिश्च हारमधाश्च तम् ॥ २२२ ॥  
 ईदृशं संसृतेर्भावं भावयन् को विधीर्न<sup>४</sup> चेत् । रतिं तनोति भोगेषु भवाभावमभावयन्<sup>५</sup> ॥ २२३ ॥

हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गई-व्याही गई ॥ २०८-२०९ ॥ भृगायण ब्राह्मणकी स्त्री मधुरा भी मर कर उन दोनों-पूर्णचन्द्र और हिरण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री हुई थी, सेठ भद्रमित्र तरे स्नेहमे सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ था और वारुणीका जीव यह पूर्णचन्द्र हुआ है । तुम्हारे पिताने भद्रवाहुसे दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥ २१०-२११ ॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की थी और फिर हिरण्यवती मातासे तूने दीक्षा धारण की है । आज तुम्हे सब प्रकारकी शान्ति है । राजा सिंहसेनको साँपने डस लिया था जिससे मर कर वह वनमें अशनिघोष नामका हाथी हुआ । एक दिन वह मद्दोन्मत्त हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुझे देखकर वह मारनेकी इच्छासे दौड़ा, मुझे आकाशकारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूर्वभवका सम्बन्ध बताकर उसे समझाया । वह ठीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम-देशव्रत ग्रहण कर लिया ॥ २१२-२१४ ॥ अब उसका चित्त विलकुल शान्त है, वह सदा विरक्त रहता हुआ शरीर आदि की निःसारताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है ॥ २१५ ॥ इस प्रकार महान् धैर्यका धारक वह हाथी चिरकाल तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुर्बल हो गया । एक दिन वह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे पानी पीनेके लिए घुसा । उसे देखकर श्रीभूति-सत्यघोषके जीवने जो मरकर चमरी मृग और वादमें कुक्कुट सर्प हुआ था उस हाथीके मस्तक पर चढ़कर उसे डस लिया । उसके खिपसे हाथी मर गया, वह चूँकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्रार स्वर्गके रविप्रिय नामक विमानमें श्रीधर नामका देव हुआ । धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मन्त्री बनाया था आयुके अन्तमें मर कर उसी वनमें वानर हुआ था । उस वानरकी पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता थी अतः उसने उस कुक्कुट सर्पको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुआ । इधर शृगालवान् नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा धनमित्र नामक सेठके लिए दिये । राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पूर्णचन्द्रके लिए दिये ॥ २१६-२२१ ॥ राजा पूर्णचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये और मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना ॥ २२२ ॥ वह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा

१ पयःकेसरिणी ख० । २ कृशोवल्गः ख०, ल० । ३ पुरः ल० । ४ कुक्कुट ख०, ग० । ५ कुक्कुट ग० । ६ तृतीये नरके ख० । ७ विगता धीर्यस्य स विभीः मूर्ख इत्यर्थः । ८ अचिन्तयन् ।

इत्यसौ सिंहचन्द्रोक्तं रामदत्ताऽवबुध्य तत् । पुत्रस्नेहात्स्वयं गत्वा पूर्णचन्द्रमजिज्ञपत् ॥ २२४ ॥  
 गृहीतधर्मतत्त्वोऽसौ चिरं राज्यमपालयत् । रामदत्तापि तस्नेहात्सनिदानायुषोऽवधौ ॥ २२५ ॥  
 महाशुकं विमानेऽभूद् भास्करे भास्कराङ्गयः । पूर्णचन्द्रोऽपि तत्रैव वैदूर्यं तत्कृताङ्गयः ॥ २२६ ॥  
 सिंहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि सम्यगाराध्य शुद्धधीः । प्रीतिकरविमानेऽभूद्दूर्ध्वप्रैवेयकोर्ध्वके ॥ २२७ ॥  
 रामदत्ता ततश्च्युत्वा धरणीतिलके पुरे । अत्रैव दक्षिणश्रेण्यामतिवेगाखगेशिनः ॥ २२८ ॥  
 श्रीधराख्या सुता जाता माताऽस्याः स्यात्सुलक्षणा । दत्तेयमलकाधीशे \*दर्शकाय खगेशिने ॥ २२९ ॥  
 वैदूर्याधिपतिश्चायं दुहिताऽभूद्यशोधरा । \*पुष्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ॥ २३० ॥  
 \*राजा श्रीधरदेवोऽपि रश्मिवेगस्तथोरभूत् । कदाचिन्मुनिचन्द्राख्यमुनिधर्मानुशासनात् ॥ २३१ ॥  
 सूर्यावर्ते \*तपो याते श्रीधरा च यशोधरा । दीक्षां समग्रहीषातां गुणवत्यायिकान्तिके ॥ २३२ ॥  
 कदाचिद्दक्षिणवेगोऽगात्सिद्धकूटजिनालयम् । हरिचन्द्राङ्गयं \*तत्र दृष्ट्वा चारणसंयतम् ॥ २३३ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं च सम्यक्त्वं संयमं प्रतिपद्य सः । चारणत्वं च सम्प्राप्तः सद्योगगनगोचरम् ॥ २३४ ॥  
 काञ्चनाख्यगुहायां तं कदाचिदवलोक्य ते । वन्दित्वा तिष्ठतां तत्र श्रीधरा च यशोधरा ॥ २३५ ॥  
 प्राक्तनो तारकस्तस्मान्प्रच्युत्याधविपाकतः । चिरं भ्रमित्वा संसारे महानजगरोऽभवत् ॥ २३६ ॥

संसारके अभावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला कौन मनुष्य है जो विषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानेवाला हो ? ॥ २२३ ॥ इस तरह सिंहचन्द्र मुनिके समझाने पर रामदत्ताको बोध हुआ, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूर्णचन्द्रके पास गई और उसे सब बातें कहकर समझाया ॥ २२४ ॥ पूर्णचन्द्रने धर्मके तत्त्वको समझा और चिरकाल तक राज्यका पालन किया । रामदत्ताने पुत्रके स्नेहसे निदान किया और आयुके अन्तमें मरकर महाशुक स्वर्गके भास्कर नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया । तथा पूर्णचन्द्र भी उसी स्वर्गके वैदूर्य नामक विमानमें वैदूर्य नामका देव हुआ ॥ २२५-२२६ ॥ निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह ममाधिमरण कर नौवें प्रैवेयके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र हुए ॥ २२७ ॥ रामदत्ताका जीव महाशुक स्वर्गसे चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिवेग विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुआ । वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था । यह श्रीधरा पुत्री अलकानगरीके अधिपति दर्शक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गई । पूर्णचन्द्रका जीव जो कि महाशुक स्वर्गके वैदूर्य विमानमें वैदूर्य नामक देव हुआ था वहाँसे चयकर इसी श्रीधराके यशोधरा नामकी वह कन्या हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूर्यावर्तके लिए दी गई थी ॥ २२९-२३० ॥ राजा सिंहसेन अथवा अशनिघोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनों—सूर्यावर्त और यशोधराके रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ । किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्मोपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तपके लिए चले गये और श्रीधरा तथा यशोधराने गुणवती आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २३१-२३२ ॥ किसी समय रश्मिवेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन-मन्दिरके दर्शनके लिए गया था, वहाँ उसने चारण-ऋद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके दर्शन कर उनसे धर्मका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यग्दर्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण ऋद्धि प्राप्त कर ली ॥ २३३-२३४ ॥ किसी दिन रश्मिवेग मुनि काञ्चन नामकी गुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा और यशोधरा आर्यिकाएँ उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गई ॥ २३५ ॥

इधर सत्यवोधका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँसे निकल कर पापके उदयसे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा और अन्तमें उसी वनमें महान् अजगर हुआ ॥ २३६ ॥

१ दशिताय ख० । २ भास्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ख०, ग० । ३ गजः श्रीधर ख०, ग० । गजः पाठान्तरं इति क-पुस्तके सूचितम् । ४ तपो जाते क०, ग०, घ० । ५ यत्र क०, ख० । ६ चारणसंयमम् ख० । ७ गमनगोचरम् ल० ।



ते च तं च निरीक्ष्यैष स सूर्यप्रतिमं क्रुधा । सहागिलत् समाराध्य ते कापिष्ठे बभूवतुः ॥ २३७ ॥  
 रुचकालये विमानेऽयं मुनिश्चार्कप्रभाङ्गये । देवः पङ्कप्रभां प्रापत् पापाद्भ्रजरोऽपि सः ॥ २३८ ॥  
 सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य द्वीपेऽस्मिन् चक्रपुःपतेः । अपराजितराजस्य सुन्दर्याश्च सुतोऽभवत् ॥ २३९ ॥  
 चक्रायुधस्ततांऽस्यैव रश्मिवेगश्च्युतो दिवः । सञ्जातश्चित्रमालायां सुतो वज्रायुधाङ्गयः ॥ २४० ॥  
 श्रीधरा चागता नाकात् पृथिवीतिलके पुरे । सुताऽभूत् प्रियकारिण्यामतिवेगमहीपतेः ॥ २४१ ॥  
 सर्वलक्षणसम्पूर्णा<sup>१</sup> रत्नमालातिविश्रुता । वज्रायुधस्य सा देवी समजायत<sup>२</sup> सम्मुद्रे ॥ २४२ ॥  
 यशोधरा तयो रत्नायुधः सूनुज्जायत । एवमेते स्वपूर्वायफलमन्त्रापुरन्वहम् ॥ २४३ ॥  
 श्रुत्वाऽपराजितो धर्ममन्वेद्युः पिहितास्त्रवान् । चक्रायुधाय साम्राज्यं दत्त्वाऽदीक्षिष्ट धीरधीः ॥ २४४ ॥  
 वज्रायुधे समारोप्य राज्यं चक्रायुधो नृपः । प्राव्राजीत् स्वपितुः पार्श्वे स तज्जन्मनि मुक्तिभाक् ॥ २४५ ॥  
 अधिरत्नायुधं राज्यं कृत्वा चक्रायुधान्तिके । वज्रायुधोऽप्यगार्दीक्षां किं न कुर्वन्ति सार्त्विकाः ॥ २४६ ॥  
 सक्तो रत्नायुधो भोगे त्यक्त्वा धर्मकथामपि । सोऽन्वभूदति<sup>३</sup> गृध्नुत्वात्सुखानि चिरमन्यदा ॥ २४७ ॥  
 मनोरममहोद्याने वज्रदन्तमहामुनि । व्यावर्ण्यमानलोकानुयोगश्रवणद्वन्द्वधीः ॥ २४८ ॥  
 पूर्वजन्मस्मृतेर्मैघविजयो ष्योगधारणः । मांसादिकवल<sup>४</sup> नादाद् ध्यायन् संसृतिदुःस्थितिम् ॥ २४९ ॥  
<sup>१</sup> राजाऽत्र व्याकुलीभूय मन्त्रिवैद्यवरान् स्वयम् । पप्रच्छ को विकारोऽस्य गजस्येत्याहितादरः ॥ २५० ॥

उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्यिकाओंको और सूर्यके समान दीप्तिवाले उन रश्मिवेग मुनिराजको देखकर उस अजगरने क्रोधसे एक ही साथ निगल लिया । समाधिभरण कर आर्यिकाएँ तो कापिष्ठ नामक स्वर्गके रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हुई और मुनि उसी स्वर्गके अर्कप्रभ नामक विमानमें देव उत्पन्न हुए । वह अजगरभी पापके उदयसे पङ्कप्रभा नामक चतुर्थ पृथिवीमें पहुँचा ॥ २३७-२३८ ॥ सिंहचन्द्रका जीव स्वर्गसे चय कर इसी जम्बूद्वीपके चक्रपुर नगरके स्वामी राजा अपराजित और उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥ २३९ ॥ उसके कुछ समय बाद रश्मिवेगका जीव भी स्वर्गसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥ २४० ॥ श्रीधरा आर्यिका स्वर्गसे चयकर धरणीतिलक नगरके स्वामी अतिवेग राजाकी प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूर्ण रत्नमाला नामकी अत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुई । यह रत्नमाला आगे चलकर वज्रायुधके आनन्दको बढ़ानेवाली उसकी प्राणप्रिया हुई ॥ २४१-२४२ ॥ और यशोधरा आर्यिका स्वर्गसे चयकर इन दोनों—वज्रायुध और रत्नमालाके रत्नायुध नामका पुत्र हुई । इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन अपने-अपने पूर्व पुण्यका फल प्राप्त करने लगे ॥ २४३ ॥

किसी दिन धीरबुद्धिके धारक राजा अपराजितने पिहितास्त्रव मुनिसे धर्मोपदेश सुना और चक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली ॥ २४४ ॥ कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वज्रायुध पर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये और उसी जन्ममें मोक्ष चले गये ॥ २४५ ॥ अब वज्रायुधने भी राज्यका भार रत्नायुधके लिए सौंपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि सत्त्वगुणके धारक क्या नहीं करते ? ॥ २४६ ॥ रत्नायुध भोगोंमें आसक्त था । अतः धर्मकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताके साथ वह चिरकाल तक राज्यके सुख भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामके महोद्यानमें वज्रदन्त महामुनि लोकानुयोगका वर्णन कर रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मैघविजय नामक हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि मास लेना छोड़ दिया और संसारकी दुःखमय स्थितिका वह विचार करने लगा ॥ २४७-२४८ ॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़े बड़े मन्त्रवादियों तथा वैद्योंको बुलाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पूछा कि इस हाथीको क्या विकार हो गया

१ संपूर्ण ल० । २ संपदे क०, ग०, घ० । संमदे ख० । ३-दतिष्ठन्वात् ग० । ४ योगधारणः ख० ।  
 पागवारणः ग० । जागवारणः क०, घ० । ५ मांसादिकवलात्नादाद् ग० । ६ राजा तु ल० ।

विचार्य ते त्रिदोषोत्थविकारानबलोकनात् । अनुमानादयं<sup>१</sup> धर्मश्रुतेर्जातिस्मरोऽभवत् ॥ २५१ ॥  
 इति सत्यान्ननिष्पन्नशुद्धाहारं घृतादिभिः । मिश्रितं न्यक्षिपक्षिसं तमभुङ्क्त द्विपोत्तमः ॥ २५२ ॥  
 तदा सविस्मयो राजा गत्वाऽवधिविलोचनम् । वज्रदन्तं तदाख्याय तद्धेतुं पृच्छति स्म सः ॥ २५३ ॥  
 मुनिर्बभाषे भो भूय शृणु तत्संविधानकम् । भरतेऽस्मिन्नृपः प्रीतिभद्रः छत्रपुराधिपः ॥ २५४ ॥  
 सुन्दर्यामभवत्तस्य सुतः प्रीतिकाराङ्गयः । मन्त्री चित्रमतिस्तस्य कमला कमलोपमा ॥ २५५ ॥  
 गृहिणी तुम्बभूवास्या विचित्रमतिराख्यया । नृपमन्त्रिसुतौ श्रुत्वा धर्मं धर्मरुचेर्यतः ॥ २५६ ॥  
 तदैव भोगनिविण्णौ द्वावप्याददनुस्तपः । क्षीरास्त्रवर्द्धिरुपज्ञा प्रीतिकारमहामुनेः ॥ २५७ ॥  
 साकेतपुरमन्येषुर्जम्भतुस्तौ यथाक्रमम् । विहरन्तावुपोप्यास्त<sup>२</sup> तत्र मन्त्रिसुतो यतिः ॥ २५८ ॥  
 प्रीतिकारः पुरे चर्यां यान्तं स्वगृहसन्निधौ । गणिका बुद्धिपेणाख्या प्रणम्य विनयान्विता ॥ २५९ ॥  
 दानयोग्यकुला नाहमस्मीत्यात्मानमुच्छुचा । निन्दन्ती वाढमप्राक्षीन्मुने कथय जन्मनाम् ॥ २६० ॥  
 कुलरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मद्यमांसादिकत्यागादित्युदीर्य मुनिश्च सः ॥ २६१ ॥  
 ततः प्रत्यागतः कस्मात् स्थितो हेतांश्विरं पुरे । भवानिति तमप्राक्षाद्विचित्रमतिरादरात् ॥ २६२ ॥  
 सोऽपि तद्गणिकावार्तां यथावृत्तं न्यवेदयत् । परंशुर्मन्त्रितुग् भिक्षावेलायां गणिकागृहम् ॥ २६३ ॥  
 प्राविद्यात्सापि तं दृष्ट्वा समुत्थाय ससम्भ्रमम् । वन्दित्वा पूर्ववद्धर्ममन्वयुङ्क्त कृतादरा ॥ २६४ ॥  
 कामरागकथामेव व्याजहार स दुर्मतिः । तद्विज्ञितज्ञयावज्ञा तथा तस्मिन्वधीयत ॥ २६५ ॥  
 प्राप्तापमानेन रुपा सूपशास्त्रोक्तिसंस्कृतात् । मांसात्तन्नगराधांशं गन्धमित्रमर्हापतिम् ॥ २६६ ॥

है ? ॥ २५० ॥ उन्होंने जब बात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे विचारकर कहा कि धर्मश्रवण करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे वर्तनमें बना तथा घृत आदिसे मिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रखवा जिसे उस गजराजने खा लिया ॥ २५१-२५२ ॥ यह देख राजा बहुत ही आश्चर्यको प्राप्त हुआ । वह वज्रदन्त नामक अवधिज्ञानी मुनिराजके पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा ॥ २५३ ॥ मुनिराजने कहा कि हे राजन् ! मैं सब कारण कहता हूँ तू मुन । इसी भरतक्षेत्रमें छत्रपुर नगरका राजा प्रीतिभद्र था । उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिकार नामक पुत्र हुआ । राजाके एक चित्रमति नामक मंत्री था और लक्ष्मीके समान उसकी कमला नामकी स्त्री थी ॥ २५४-२५५ ॥ कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुआ । एक दिन राजा और मंत्री दोनोंके पुत्रोंने धर्मरुचि नामके मुनिराजसे धर्मका उपदेश सुना और उसी समय भोगोंसे उदास होकर दोनोंने तप धारण कर लिया । महामुनि प्रीतिकारको क्षीरास्त्रव नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गई ॥ २५६-२५७ ॥ एक दिन वे दोनों मुनि क्रम-क्रमसे विहार करते हुए साकेतपुर पहुँचे । उनमेंसे मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनि उपवासका नियम लेकर नगरके बाहर रह गये और राजपुत्र प्रीतिकारमुनि चर्याके लिए नगरमें गये । अपने घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिपेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनयसे प्रणाम किया ॥ २५८-२५९ ॥ और मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है इसलिए बड़े शोकसे अपनी निन्दा करती हुई उसने मुनिराजसे पूछा कि हे मुने, आप यह बताइये कि प्राणियोंको उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे होती है ? 'मद्य मांसादिके त्यागसे होती है' ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापिस लौट आये । दूसरे विचित्रमति मुनिने उनसे आदरके साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ? ॥ २६०-२६२ ॥ उन्होंने भी वेश्याके साथ जो बात हुई थी वह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी । दूसरे दिन मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनिने भिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया । वेश्या मुनिको देखकर एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी ॥ २६३-२६४ ॥ परन्तु दुर्बुद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग सम्बन्धी कथाएँ ही कीं । वेश्या उनके अभिप्रायको समझ गई अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥ २६५ ॥ विचित्रमति

बन्धीकृत्य ततो बुद्धिभेगा चाल्मकृतामुना । स विचित्रमतिर्कृत्वा तवायमभवद्गजः ॥ २६७ ॥  
 अस्मिन् त्रिलोकप्रज्ञसिद्धिवर्णाज्जातिसंस्थितेः । निर्विण्णोऽथ समासञ्जविनेयो नामहीद्विधाम् ॥ २६८ ॥  
 त्यागो भोगाय धर्मस्य काचायैव महामणोः । जनन्या इव दास्यर्थं तस्मात्तादृक् त्यजेद् बुधः ॥ २६९ ॥  
 इति तद्भूभुगाकर्ण्यं धिक्कामं धर्मदूषकम् । धर्म एव परं मिश्रमिति धर्मरतोऽभवत् ॥ २७० ॥  
 तदैव दत्त्वा स्वं राज्यं स्वपुत्रायैत्य संयमम् । मात्रा सहायुपः प्रान्ते कल्पेऽन्तेऽनिमिषो<sup>१</sup>ऽभवत् ॥ २७१ ॥  
 प्राक्तनो नारकः पङ्कप्रभाया निर्गतश्चिरम् । नानायोनिषु सम्भ्रम्य नानादुःखानि निर्विशन् ॥ २७२ ॥  
 इह क्षत्रपुरे दारुणास्थस्य तनयोऽभवत् । मङ्गथां व्याधस्य पापेन प्राक्तनेनातिदारुणः ॥ २७३ ॥  
 वने प्रियङ्गुखण्डाख्ये प्रतिमायोगधारिणम् । वज्रायुधं खलस्तस्मिह्लोकान्तरमजीगमत् ॥ २७४ ॥  
 सोऽवा व्याधकृतं तीव्रमुपसर्गमसौ मुनिः । धर्मध्यानेन सर्वार्थसिद्धिं संप्रापदिद्धधीः ॥ २७५ ॥  
 सप्तमीं पृथिवीं पापाद्ध्युवासातिदारुणः । प्राग्भागे धातकीखण्डे विदेहे पश्चिमे महान् ॥ २७६ ॥  
 देशोऽस्ति गन्धिलस्तस्मिन्नयोध्यानगरे नृपः । अर्हद्दासोऽभवत्तस्य सुव्रता सुखदायिनी ॥ २७७ ॥  
 रत्नमाला तयोरासीत्सुनुर्वातभयाह्वयः । तस्यैव जिनदत्तायामभूद्वन्यायुधः सुतः ॥ २७८ ॥  
 नाम्ना विभीषणो जातो ताडुभौ रामकेशवौ । अविभज्य श्रियं दीर्घकालं भुक्त्वा यथोचितम् ॥ २७९ ॥  
 कालान्ते केशवोऽयासीद्वद्भवायुः शर्कराप्रभाम् । स हल्यपि निवृत्यन्तेवासित्वा लान्तवं ययौ ॥ २८० ॥  
 आदित्याभः स एवाहं द्वितीयपृथिवीस्थितम् । प्रविश्य नरकं स्नेहाद्विभीषणमबोधयत्<sup>२</sup> ॥ २८१ ॥

वश्यासे अपमान पाकर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने मुनिपता छोड़ दिया और राजाकी नौकरी कर ली। वहाँ पाकशास्त्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमित्रको अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिपेणाको अपने आधीन कर लिया। अन्न में वह विचित्रमति मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है ॥ २६६-२६७ ॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रज्ञमिका पाठ कर रहा था उसे सुनकर इसे जाति-स्मरण हुआ है। अब यह संसारसे विरक्त है, निकट भव्य हैं और इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है ॥ २६८ ॥ भोगके लिए धर्मका त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए विद्वानोंको चाहिये कि वे भोगोंका सदा त्याग करें ॥ २६९ ॥ यह सुनकर राजा कहने लगा कि 'धर्मको दूषित करनेवाले कामको धिक्कार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र है' ऐसा कहकर वह धर्ममें तत्पर हो गया ॥ २७० ॥ उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और माताके साथ संयम धारण कर लिया। तपश्चरण कर मरा और आयुके अन्तमें सोलहवें स्वर्गमें देव हुआ ॥ २७१ ॥

सत्यघोषका जीव जो पङ्कप्रभा नामक चौथे नरकमें गया था वहाँसे निकलकर चिरकाल तक नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख भोगता रहा ॥ २७२ ॥ एक बार वह पूर्वकृत पापके उदयसे इसी क्षत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक स्त्रीसे अतिदारुण नामका पुत्र हुआ ॥ २७३ ॥ किसी एक दिन प्रियङ्गुखण्ड नामके वनमें वज्रायुध मुनि प्रतिमायोग धारण कर विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया—मार डाला ॥ २७४ ॥ तीक्ष्ण बुद्धिके धारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीव्र उपसर्ग सहकर धर्मध्यानसे सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए ॥ २७५ ॥ और अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ।

पूर्व धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें राजा अर्हद्दास रहते थे, उनकी सुख देने वाली सुव्रता नामकी स्त्री थी। रत्नमालाका जीव उन दोनोंके वीतभय नामका पुत्र हुआ। और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रत्नायुधका जीव विभीषण नामका पुत्र हुआ। वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीर्घकाल तक विभाग किये बिना ही राजलक्ष्मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे ॥ २७६-२७८ ॥ अन्तमें नारायण तो नरकायुका बंध कर शर्कराप्रभामें गया और बलभद्र अन्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तव स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥ २८० ॥ मैं वही आदित्याभ नामका देव हूँ, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ

बुद्ध्वा ततः स निर्वातो द्वीपेऽस्मिन् विजये पुरे । ऐरावते महत्यासीद्दयोध्या तदधीश्वरः ॥ २८२ ॥  
 श्रीवर्माऽस्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽभवत् । श्रीधर्मासावनन्ताख्यमुनेरादाय संयमम् ॥ २८३ ॥  
 ब्रह्मकल्पेऽभवद् देवो दिव्याष्टगुणभूषितः । सर्वार्थसिद्धिजः संजयन्तो वज्रायुधोऽभवत् ॥ २८४ ॥  
 ब्रह्मकल्पादिहागत्य त्वं जयन्तो निदानतः । मोहाद्रिलुप्तसम्यक्त्वोऽजनिष्ट नागनायकः ॥ २८५ ॥  
 प्राक्तनो नारकः प्रान्तपृथिवीतो विनिर्गतः । जघन्यायुरहिर्भूत्वा नृतीयां पृथिवीं गतः ॥ २८६ ॥  
 ततो निर्गत्य तिर्यक्षु त्रसेषु स्थावरेषु च । भ्रान्त्वाऽस्मिन् भरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥  
 ऐरावतीनदीतीरे मृगशृङ्गसुतोऽभवत् । गोशृङ्गतापसाधीशः शङ्खिकायां विरक्तधीः ॥ २८८ ॥  
 स पञ्चाधितपः कुर्वन् दिव्यादितिलकाधिपम् । खगं वीक्ष्यांशुमालाख्यं निदानमकरोत्कुधीः ॥ २८९ ॥  
 मृत्वाऽत्र खगशैलोदकश्रेण्यां गगनवल्लभे । वज्रदंष्ट्रखगिणस्य प्रिया विद्युत्प्रभा तयोः ॥ २९० ॥  
 विद्युदंष्ट्रः सुतो जातः सोऽयं वैरानुबन्धतः । बद्ध्वा कर्म चिरं दुःखमापदाप्स्यति चापरम् ॥ २९१ ॥  
 एषं कर्मवशाजन्तुः संसारे परिवर्तते । पिता पुत्रः सुतो माता माता भ्राता स च स्वसा ॥ २९२ ॥  
 स्वसा नप्ता भवेत्का वा बन्धुसम्बन्धसंस्थितिः । कस्य को नापकर्ताऽत्र नोपकर्ता च कस्य कः ॥ २९३ ॥  
 तस्माद्द्वैरानुबन्धेन मा कृथाः पापबन्धनम् । मुञ्च वैरं महानाग ! विद्युदंष्ट्रश्च मुच्यताम् ॥ २९४ ॥  
 इति तदेववाक्सौधवृष्या सन्तपितोऽहिराट् । देवाहं त्वत्प्रसादेन सद्धर्मं श्रद्धे स्म भोः ॥ २९५ ॥  
 किन्तु विद्याबलादेश विद्युदंष्ट्रोऽघमाचरत् । तस्मादन्यान्वयस्यैव महाविद्यां छिनद्म्यहम् ॥ २९६ ॥  
 इत्याहैतद्वचः श्रुत्वा देवो मदनुरोधतः । त्वया नैतद्विघ्नानव्यमित्याख्यन्फणिनां पतिम् ॥ २९७ ॥

रहनेवाले विभीषणको सम्बन्धा था ॥ २८१ ॥ वह प्रतिबोधको प्राप्त हुआ और वहाँसे निकलकर इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीवर्माकी मुसीमा देवीके श्रीधर्मा नामका पुत्र हुआ । और वयस्क होने पर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम ग्रहण कर ब्रह्मस्वर्गमें आठ दिव्य गुणोंसे विभूषित देव हुआ । वज्रायुधका जीव जो सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था वहाँसे आकर संजयन्त हुआ ॥ २८२-२८४ ॥ श्रीधर्माका जीव ब्रह्मस्वर्गसे आकर तू जयन्त हुआ था और निदान बाँधकर मोह-कर्मके उदयसे धरणीन्द्र हुआ ॥ २८५ ॥ सत्यवचोपका जीव सातवीं पृथिवीसे निकल कर जघन्य आयुका धारक साँप हुआ और फिर तीमरे नरक गया ॥ २८६ ॥ वहाँसे निकल कर त्रस स्थावर रूप तिर्यच गतिमें भ्रमण करता रहा । एक बार भूतरमण नामक वनके मध्यमें ऐरावती नदीके किनारे गोशृङ्ग नामक तापसकी शङ्खिका नामक स्त्रीके मृगशृङ्ग नामका पुत्र हुआ । वह विरक्त होकर पञ्चाधि तप कर रहा था कि इतनेमें वहाँसे दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका विद्याधर निकला उसे देखकर उस मूर्खने निदान बन्ध किया ॥ २८७-२८९ ॥ अन्तमें मर कर इसी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवल्लभ नगरके राजा वज्रदंष्ट्र विद्याधरको विद्युत्प्रभा रानीके विद्युदंष्ट्र नामका पुत्र हुआ । इसने पूर्व वैरके संस्कारसे कर्मबंध कर चिरकाल तक दुःख पाये और आगे भी पावेगा ॥ २९०-२९१ ॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यह जीव परिवर्तन करता रहता है । पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन हो जाता है और बहन नाती हो जाती है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धु-जनोके सम्बन्धकी स्थिरता ही क्या है ? इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने किसका उपकार नहीं किया ? इसलिए वैर बाँधकर पापका बन्ध मत करो । हे नागराज—हे धरणेन्द्र ! वैर छोड़ो और विद्युदंष्ट्रको भी छोड़ दो ॥ २९२-२९४ ॥ इस प्रकार उस देवके वचनरूप अमृतकी वर्षासे धरणेन्द्र बहुत ही संतुष्ट हुआ । वह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज मैं समीचीन धर्मका श्रद्धान करता हूँ ॥ २९५ ॥ किन्तु इस विद्युदंष्ट्रने जो यह पापका आचरण किया है वह विद्याके बलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंशकी महाविद्याको छीन लेता हूँ यह कहा ॥ २९६ ॥ उसके वचन सुनकर वह देव धरणेन्द्रसे फिर कहने लगा कि आपको

सोऽपि यद्येवमैतस्य वंशानां मासिधन् महा- । विद्याः पुंसां स्त्रियः सञ्जयन्तमहारकान्तिके ॥ २९८ ॥  
साध्यन्त्वन्वयथा दर्पादिमे दुष्टाः कुचेष्टिताः । भविष्यतां च साधूनां पापाः कुर्वन्त्युपद्रवम् ॥ २९९ ॥  
एषोऽपि पर्वतो विद्याधरहीक्रीडितः परः । ह्रीमन्नामेत्युदीयांस्मिन् भ्रातृप्रतिनिधिं व्यधात् ॥ ३०० ॥  
विद्युहंष्टं च सामोक्तैर्धर्मन्यायानुयायिभिः । कृत्वा 'प्रशान्तकालुष्यं देवं चाभ्यर्च्य यातवान् ॥ ३०१ ॥  
देवोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मिन्नुषारे मथुरापुरे । अनन्तवीर्यराड्मेरुमालिन्यां मेरुनामभाक् ॥ ३०२ ॥  
तस्यैवामितवत्यां स धरणीन्द्रोऽपि मन्दरः । समभूतां सुतावेताविव शुक्रवृहस्पती ॥ ३०३ ॥  
तावासन्नविनेयत्वात् श्रित्वा विमलवाहनम् । श्रुत्वा स्वभवसम्बन्धमजायेतां गणेशिनौ ॥ ३०४ ॥  
इह प्रत्येकमेतेषां नामग्रहणपूर्वकम् । गतिभेदावली व्याख्या सङ्कलश्राभिधीयते ॥ ३०५ ॥  
सिंहसेनोऽशनिघोषप्रान्तः श्रीधरसञ्जकः । रश्मिवेगः प्रभातार्को वज्रायुधमहानृपः ॥ ३०६ ॥  
सर्वार्थसिद्धौ देवेन्द्रः सञ्जयन्तः ततश्च्युतः । इत्यष्टजन्मभिः प्रापत्सिंहसेनः श्रियः पदम् ॥ ३०७ ॥  
मथुरा रामदत्तानु भास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमालाऽच्युते देवस्ततो वीतभयाङ्गयः ॥ ३०८ ॥  
आदित्याभस्ततो मेरुर्गणेशो विमलेशिनः । सप्तद्विसमवेतः सन् प्रायासीत्परमं पदम् ॥ ३०९ ॥  
वारुणी पूर्णचन्द्राख्यो वैडूर्यस्माद्यशोधरा । कापिष्ठकल्पेऽनल्पद्विर्देवोऽभूद्रुचकप्रभः ॥ ३१० ॥  
रत्नायुषोऽन्त्यकल्पोत्थस्ततश्च्युत्वा विभीषणः । द्वितीये नरके पापी श्रीधर्मा ब्रह्मकल्पजः ॥ ३११ ॥  
जयन्तो धरणाधीशो मन्दरो गणनायकः । चतुर्ज्ञानधरः पारमवापजन्मवारिषेः ॥ ३१२ ॥  
श्रीभूतिसचिवो नागश्चमरः कुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दुःखी शयुः पङ्कप्रभोज्जवः ॥ ३१३ ॥

स्वयं नहीं तो मेरे अनुरोधसे ही ऐसा नहीं करना चाहिये ॥ २९७ ॥ धरणेन्द्रने भी उस देवके वचन मुनकर कहा कि यदि ऐसा है तो इसके वंशके पुरुषोंका महाविद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी परन्तु इस वंशकी स्त्रियाँ संजयन्त स्वामीके समीप महाविद्याओंको सिद्ध कर सकती हैं । यदि इन अपराधियों को इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खांटी चेष्टाएँ करने लगेंगे तथा आगे जाने वाले मुनियों पर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ॥ २९८-२९९ ॥ इस घटनासे इस पर्वत परके विद्याधर अत्यन्त लज्जित हुए थे इसलिए इसका नाम 'हीमान्' पर्वत है ऐसा कहकर उसने उस पर्वत पर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवाई ॥ ३०० ॥ धर्म और न्यायके अनुसार कहे हुए शान्त वचनोंमे विशुद्धद्वंशको कालुष्यरहित किया और उस देवकी पूजा कर अपने स्थान पर चला गया ॥ ३०१ ॥ वह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीर्य राजा और मेरुमालिनी नामकी रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ ॥ ३०२ ॥ तथा धरणेन्द्र भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्दर नामका पुत्र हुआ । ये दोनों ही भाई शुक्र और बृहस्पतिके समान थे ॥ ३०३ ॥ तथा अत्यन्त निकट भन्व्य थे इसलिए विमलवाहन भगवान्के पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गये ॥ ३०४ ॥ अब यहाँ इनमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति और भवोंके समूहका वर्णन करता हूँ—॥ ३०५ ॥

सिंहसेनका जीव अशनिघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्मिवेग, अर्कप्रभदेव, महाराज वज्रायुध, सर्वार्थसिद्धिमें देवेन्द्र और वहाँसे चयकर सञ्जयन्त केवली हुआ । इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवमें मोक्षपद पाया ॥ ३०६-३०७ ॥ मथुराका जीव रामदत्ता, भास्करदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, वीतभय और आदित्यप्रभदेव होकर विमलवाहन भगवान्का मेरु नामका गणधर हुआ और सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर उसी भवसे मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ ३०८-३०९ ॥ वारुणीका जीव पूर्णचन्द्र, वैडूर्यदेव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करने-वाला रुचकप्रभ नामका देव, रत्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, ब्रह्मस्वर्गका देव, जयन्त, धरणेन्द्र और विमलनाथका मन्दर नामका गणधर हुआ और चार ज्ञानका धारी होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥ ३१०-३१२ ॥ श्रीभूति—( सत्यघोष ) मंत्रीका जीव

त्रसस्थावरसम्भान्तः पश्चात्प्रातोऽतिदारुणः । ततस्तमस्तमस्यासीत्सर्पस्तस्मान् नारकः ॥ ३१४ ॥  
 बहुयोनिपरिभ्रान्तो मृगशृङ्गो मृतस्ततः । विद्युद्वृष्टः खगाधीशः पापी पश्चात् प्रसन्नवान् ॥ ३१५ ॥  
 भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रः प्रीतिकरः सुरः । चक्रायुधो विधूताष्टकर्मा निर्वाणमापिवान् ॥ ३१६ ॥

### वसन्ततिलका

एवं चतुर्गतिषु ते चिरमुच्चनीच-

स्थानानि कर्मपरिपाकवशात् प्रपद्य ।

सौख्यं क्वचित् क्वचिदयाचितमुप्रदुःख-

मापंस्त्रयोऽत्र परमाल्मपदं प्रसन्नाः ॥ ३१७ ॥

### मालिनी

खलखगमकृतोऽप्रोपद्रवं कस्यचिद्वा

मनसि शमरसत्वान्मन्यमानो महेच्छः ।

शुचितरवरशुक्लध्यानमध्यास्य शुद्धिं


समगमदमलो यः सञ्जयन्तः स वोऽज्यात् ॥ ३१८ ॥

### रथोद्धता

मेरुमन्दरमहाभिधानकौ स्तामिनेन्दुविजयाद्बृहतीजसौ ।

पूजितौ मुनिगणाधिनायकौ नायकौ नयमयागमस्य वः ॥ ३१९ ॥

हृत्कार्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलतीर्थकर-धर्म-स्वयम्भू-मधु-  
 सञ्जयन्त-मेरुमन्दरपुराणं परिसमाप्तम् एकोनपष्टितमं पर्व ॥ ५९ ॥



सर्प, चमर, कुकुट सर्प, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, छजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस और  
 स्थावरोंके बहुत भव अनि दारुण, सातवें नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियोंमें भ्रमण कर  
 मृगशृङ्ग और फिर मरकर पापी विद्युद्वृष्ट विद्याधर हुआ एवं पीछेसे वैररहित-प्रसन्न भी हो गया  
 था ॥ ३१३-३१५ ॥ भद्रमित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और चक्रायुधका भव धारण कर  
 आठों कर्मोंको नष्ट करना हुआ निर्वाणको प्राप्त हुआ था ॥ ३१६ ॥

इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोंदयके वश चिरकाल तक उच्च-नीच स्थान  
 पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे और कहीं बिना माँगे हुए तीव्र दुःख भोगते रहे परन्तु  
 अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥ ३१७ ॥ जिन महानुभावने हृदयमें समता  
 रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको 'यह किसी विरले ही  
 भाग्यवान्को प्राप्त होता है' इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यन्त निर्मल शुक्ल-  
 ध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥३१८॥  
 जिन्होंने सूर्य और चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है, जो मुनियोंके समूहके स्वामी हैं,  
 तथा नयोंसे परिपूर्ण जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरु और मंदर नामके गणधर सदा आपलोगोंसे पूजित  
 रहें—आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥ ३१९ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें  
 विमलनाथ तीर्थकर, धर्म, स्वयंभू, मधु, संजयन्त, मेरु और मंदर गणधरका  
 वर्णन करनेवाला उन- सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥



## षष्ठितमं पर्व

अनन्तोऽनन्तद्रोषाणां हन्ताऽनन्तगुणाकरः । हन्त्वन्तर्ध्वान्तसन्तानमन्तातीतं जिनः स नः ॥ १ ॥  
 धातकीखण्डप्रागभागेरुदग्विपथे महत् । रम्यं पुरमरिष्टाख्यमैकध्यमिव सम्पदाम्<sup>१</sup> ॥ २ ॥  
<sup>१</sup>पतिः पद्मरथस्तस्य पद्मासन्न स्वयं गुणैः । यस्मिन् महीं चिरं पाति प्रापन्प्रीतिं परां प्रजाः ॥ ३ ॥  
 पुण्योदयात्सुरूपादिसामग्रीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्कलोऽस्ति निरगलः ॥ ४ ॥  
 तदिन्द्रियार्थसान्निध्यसमुद्भूतसुखेन सः । शक्रवत्सुष्टु<sup>३</sup> सन्नृप्यन्संसारसुखमन्वभूत् ॥ ५ ॥  
 अधान्यदा समासाद्य स्वयम्प्रभजिनाधिपम् । सप्रश्रयमभिष्टुत्य श्रुत्वा धर्मं सुनिर्मलम् ॥ ६ ॥  
 संयोगो देहिनां देहैरक्षाणां च स्वगोचरैः । अनित्योऽन्यतराभावे सर्वेषामाजवञ्जवे ॥ ७ ॥  
 आहितान्यमताः सन्तु देहिनो मांहिताशयाः । अहं<sup>४</sup> निहतमोहारिमाहात्म्यार्हकमाश्रयः ॥ ८ ॥  
 करवाणि कथङ्कारं मतिमेतेषु निश्चलाम् । इति मोहमहाग्रन्थिमुद्दिद्यास्योद्ययौ मतिः ॥ ९ ॥  
 ततः परीतदावाप्तिशिखासन्नासिनैषवत् । चिरोपितां च संसारमथलीं हानुं कृतोद्यमः ॥ १० ॥  
 सूतौ घनरथे राज्यं नियोज्यादाय संयमम् । एकादशाङ्गवाराशिपारगो बद्धतीर्थकृत् ॥ ११ ॥  
 प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत् पर्यन्तकल्पेन्द्रः पुष्पोत्तरविमानजः ॥ १२ ॥  
 द्वाविंशत्यन्विधमानायुर्हस्ताब्जौनधनुस्तनुः । शुक्लेश्यः श्वसत्रेकादशमासैस्तु सङ्ख्यया ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अनन्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वरूप हैं ऐसे श्री अनन्तनाथ भगवान् हम सबके हृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्वकारकी सन्तानको नष्ट करें ॥१॥ धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाओंके रहनेका एक स्थान ही हो ॥ २ ॥ उस नगरका राजा पद्मरथ था, वह अपने गुणोंमें पद्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक पृथिवीका पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको प्राप्त होती रही ॥ ३ ॥ जीवोंको सुख देनेवाली उत्तम रूप आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती है और राजा पद्मरथके वह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा बाधारहित था ॥ ४ ॥ इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके सान्निध्यसे उत्पन्न होने वाले सुखसे वह इन्द्रके समान संतुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥ ५ ॥ किसी एक दिन वह स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया । वहाँ उसने विनयके साथ उनकी स्तुति की और निर्मल धर्मका उपदेश सुना ॥ ६ ॥ तदनन्तर वह चिन्तन करने लगा कि 'जीवोंका शरीरके साथ और इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीवोंके आत्मा और शरीर तथा इन्द्रियाँ और उनके विषय इनमेंसे एकका अभाव होता ही रहता है ॥७॥ यदि अन्य मतावलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शत्रुके माहात्म्यको नष्ट करनेवाले अर्हन्त भगवान्के चरण-कमलोंका आश्रय प्राप्त किया है। मैं इन विषयोंमें अपनी बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ—इन विषयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ' इस प्रकार इसकी बुद्धि मोहरूपी महागाँठको खोलकर उद्यम करने लगी ॥ ८-९ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार चारों ओर लगी हुई वनाग्निकी ज्वालाओंसे भयभीत हुआ हरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको छोड़नेका उद्यम करने लगा ॥ १० ॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर लिया और ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीर्थकर प्रवृत्तिका बन्ध किया ॥ ११ ॥ अन्तमें सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा और अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया ॥ १२ ॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्लेश्या थी, वह

१ सम्पदा ग०, घ० । २ पतिपद्मरथस्तस्य ग० । ३ संतुय क०, ग०, घ० । ४ विहत क०, घ० ।

खत्रयायनपक्षोक्तवर्षैराहारमाहरत् । सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः प्राग्गतावधिः ॥ १४ ॥  
 तस्मान्बलस्तेजोविक्रियाभ्यां च तत्प्रभः । चिरं तत्र सुखं भुक्त्वा तस्मिन्न्रागमिष्यति ॥ १५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणे भागे साकेतनगरेधरः । इक्ष्वाकुः काश्यपः सिंहसेनो नाम महानृपः १६ ॥  
 जयश्यामा महादेवी तस्यास्या वेश्मनः पुरः । वसुधारां सुराः सारां मासपट्कीमपीपतन् ॥ १७ ॥  
 कार्तिके मासि रेवत्यां प्रभातेऽह्नि तदादिमे । निरीक्ष्य षोडश स्वप्नान् विशन्तं वाऽऽननं गजम् ॥ १८ ॥  
 अवगम्य फलं तेषां भूभुजोऽवधिलोचनात् । गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासौ परितोपमगात्परम् ॥ १९ ॥  
 ततः स्वर्गावतरणकल्याणाभिपवं सुराः । सम्पाद्य वस्त्रमाल्योरुभूपणैस्तावपूजयन् ॥ २० ॥  
 सुखगर्भा जयश्यामा ज्येष्ठमास्यसिते सुतम् । द्वादश्यां <sup>१</sup>पूषयोगेऽसौ सपुण्यमुदपादयत् ॥ २१ ॥  
 तदागत्य मरुमुख्या <sup>२</sup>मेरुशैलेऽभिषिच्य तम् । अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विदधुर्मुदा ॥ २२ ॥  
 नवाभ्युपमसन्ताने पल्यपादत्रये स्थिते । धर्मेऽतीतार्हते ध्वस्ते तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २३ ॥  
 त्रिशल्लक्षसमालाभुः पञ्चाशशपसम्मितः । कनकनकसङ्काशः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ २४ ॥  
 खचतुष्केन्द्रियैर्द्धयैर्देष्वतीतेष्वभिषेचनम् । राज्यस्यालभताभ्यर्च्यस्स <sup>३</sup> नृपेशमरुद्वरैः ॥ २५ ॥  
 खपञ्चकेन्द्रियैकोक्तवर्षे राज्यव्यतिक्रमे । कदाचिदुल्का <sup>४</sup>पतनहेतुनोत्पन्नबोधिकः ॥ २६ ॥  
 अज्ञानर्बाजसंरूढामसंयममहीधृताम् । प्रमादवारिसंसिक्तां कषायस्कन्धयष्टिकाम् ॥ २७ ॥  
 योगालम्बनसंबुद्धां तिर्यग्गतिपृथक्कृताम् । जराकुसुमसंछन्नां बह्नामयपलाशिकाम् ॥ २८ ॥

ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, वाईस हजार वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था, मानसिक प्रवीचारासे सुखी रहता था, तमःप्रभा नामक छठवीं पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था और वहीं तक उसका बल, विक्रिया और तेज था । इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह इस मध्यम लोकमें आनेके लिए समुख्ख हुआ ॥ १३-१५ ॥

उस समय इस जम्बूद्वीपके दक्षिणभरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यपगोत्री महाराज सिंहसेन राज्य करते थे ॥ १६ ॥ उनकी महारानीका नाम जयश्यामा था । देवोंने उसके घरके आगे छह माह तक रत्नोंकी श्रेष्ठ धारा बरसाई ॥ १७ ॥ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुँहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥ १८ ॥ अवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना । उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें आकर स्थित हुआ जिसे वह बहुत भारी सन्तोषका प्राप्त हुई ॥ १९ ॥ तदनन्तर देवोंने गर्भकल्याणकका अभिषेक कर वस्त्र, माला और बड़े-बड़े आभूषणोंसे महाराज सिंहसेन और रानी जयश्यामाकी पूजा की ॥ २० ॥ जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढ़ने लगा । नव माह व्यतीत होने पर उसने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशीके दिन पूषायोगमें पुण्यवान् पुत्र उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका मेरु पर्वत पर अभिषेक किया और बड़े हर्षसे अनन्तजिन् यह सार्थक नाम रखा ॥ २२ ॥ श्रीविमलनाथ भगवान्के बाद नौ सागर और पौन पल्य बीत जाने पर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद हो जाने पर भगवान् अनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी ॥ २३ ॥ उनकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुष ऊँचा था, देदीप्यमान सुवर्णके समान रङ्ग था और वे सब लक्षणोंसे सहित थे ॥ २४ ॥ मनुष्य, विद्याधर और देवोंके द्वारा पूजनीय भगवान् अनन्तनाथने सान लाख पचास हजार वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक प्राप्त किया था ॥ २५ ॥ और जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ २६ ॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी बल अज्ञानरूपी बीजसे उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी पृथिवीके द्वारा धारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सींची गई है, कषाय ही इसकी स्कन्धयष्टि है—बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बढ़ी हुई है, तिर्यञ्च

१ पूष-ल० । २ मुख्यशैले ल०, ग०, ल० । ३-भ्यर्च्यस्स नृपेशमरुद्वरैः ल० ।-भ्यर्च्यस्स नृपेशमनुद्वरैः ल० । ४-उल्कापातेन ग० ।



दुःखदुःफलसन्नत्रां दुष्कर्मविषवलरीम् । शुद्धध्यानासिनामूलं चिच्छित्सुः स्वान्मसिद्धये ॥ २९ ॥  
लौकान्तिकैः समभ्येत्य प्रस्तुवद्भिः प्रपूजितः । अनन्तविजये राज्यं नियोज्य विजयी तुजि ॥ ३० ॥  
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिखुडवान् । यानं सागरदत्ताख्यं सहेतुकवनान्तरे ॥ ३१ ॥  
ज्येष्ठे षष्ठोपवासेन रेवत्यां द्वादशादिने । सहस्रेणासिते राज्ञामदीक्षिण्यापराङ्गके ॥ ३२ ॥  
सम्प्राप्तोपान्त्यसंज्ञानः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽह्नि स चर्यायै साकेतं समुपेयिवान् ॥ ३३ ॥  
विशाखभूपतिस्तस्मै दत्त्वाऽञ्जं कनकच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं प्राप ज्ञापकं स्वर्गमोक्षयोः ॥ ३४ ॥  
रत्नत्सरद्वये याते छाद्यस्थये प्राक्तने वने । अश्वत्थपादपोपान्ते कैवल्यमुदपीपदत् ॥ ३५ ॥  
चैत्रेऽमामास्यहःप्रान्ते रेवत्यां सुरसत्तमाः । तदैव तुर्यकल्याणपूजां च निरवर्तयन् ॥ ३६ ॥  
जयाख्यमुख्यपञ्चाशद्गणभृद्बृंहितात्मवाक् । सहस्रपूर्वभृद्वन्द्यः खद्वयद्वयमिवाद्यधीट् ॥ ३७ ॥  
खद्वयेन्द्रियरन्ध्राग्निसङ्ख्यालक्षितशिक्षकः । शून्यद्वयत्रिवाघ्युक्ततृतीयज्ञानपूजितः ॥ ३८ ॥  
शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तकेवलावगमान्वितः । शून्यत्रयवसूहिष्टविक्रियद्विद्विभूषितः ॥ ३९ ॥  
शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तमनःपर्ययबोधनः<sup>१</sup> । पिण्डीकृतोक्तपट्षष्टिसहस्रमुनिमानितः<sup>२</sup> ॥ ४० ॥  
सलक्ष्याप्तसहस्रोक्तसर्वश्रयाद्यार्थिकागणः । द्विलक्षश्रावकाभ्यर्च्यो द्विगुणश्राविकास्तुतः ॥ ४१ ॥  
असह्य देवदेवीञ्च स्तिर्यक्सङ्ख्यातसेविनः । इति द्वादशविख्यातभव्यवृन्दारकाग्रणीः ॥ ४२ ॥  
सदसद्वादसद्भावमाविष्कुर्वन्ननन्तजित् । विहृत्य त्रिश्रुतान् देशान् विनेयान्योजयन् पथि ॥ ४३ ॥  
सम्मेदगिरिमासाद्य विहाय विहृतिं स्थितः । मासं शताधिकैः पङ्भिः सहस्रैः मुनिभिः सह ॥ ४४ ॥

गनिके द्वारा कैली हुई है, वृद्धावस्थारूपी फूलोंसे ढकी हुई है, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं, और दुःखरूपी दुष्ट फलोंसे भुक्त रही है। मैं इस दुष्ट कर्मरूपी बेलको शुद्ध ध्यानरूपी तलवारके द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ ॥ २७-२८ ॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति करते हुए लौकान्तिक देव आ पहुँचे। उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवान्ने अपने अनन्तविजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने तृतीय—दीक्षा-कल्याणककी पूजा की, भगवान् सागरदत्त नामक पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ बेलका नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥ ३०-३२ ॥ जिन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सहित हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए साकेतपुरमें गये ॥ ३३ ॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्ति वाले विशाख नामक राजाने उन्हें आहार देकर स्वर्ग तथा मोक्षकी सूचना देनेवाले पंचाश्रय प्राप्त किये ॥ ३४ ॥ इस प्रकार तपश्रवण करते हुए जब छद्मस्थ श्रवस्थाके दो वर्ष बीत गये तब पूर्वोक्त सहेतुक वनमें अश्वत्थ—पीपल वृक्षके नीचे चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने कैवलज्ञान उत्पन्न किया। उसी समय देवोंने चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥ ३५-३६ ॥

जय आदि पचास गणधरोके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक हजार पूर्वधारियोंके द्वारा वन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद करनेवाले मुनियोंके स्वामी थे, उनतालीस हजार पाँच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलज्ञानियोंसे सहित थे, आठ हजार विक्रियाऋद्धिके धारकोंसे विभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार मुनि उनकी पूजा करते थे। सर्वश्रीको आदि लेकर एक लाख आठ हजार आर्थिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख श्रावक उनकी पूजा करते थे और चार लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा स्तुत थे और संख्यात तिर्यञ्चोंसे सेवित थे। इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान भव्य समूहके अग्रणी थे ॥ ३७-४२ ॥ पदार्थ कथंचित् सदरूप है और कथंचिद् असदरूप है इस प्रकार विधि और निषेध पक्षके सद्भावको प्रकट करते हुए भगवान् अनन्तजित्ने प्रसिद्ध देशोंमें बिहार कर भव्य जीवोंको सन्मार्गमें लगाया ॥ ४३ ॥ अन्तमें सम्मेद शिखर पर जाकर उन्होंने

प्रतिभायोगधारी सख्मावस्याप्ररात्रिभाक् । तुरीयध्यानयोगेन सम्प्रापत्परमं पदम् ॥ ४५ ॥  
सद्यो<sup>१</sup> द्युसत्समूहोऽपि सम्प्राप्यान्नेष्टिमादरात् । विधाय विधिवत्स्वीकः स्वर्लोकं सर्वतो ययौ ॥ ४६ ॥

### मालिनी

कुनयघनतमोऽन्धं कुश्रुतोल्लङ्घविद्विद्  
सुनयमयमयुखैः विश्वमाशु प्रकाशय ।  
प्रकटपरमदीप्तिर्बोधयन् भव्यपद्मान्  
प्रदहतु स<sup>२</sup> जिनेनोऽनन्तजिद् तुष्कृतं वः<sup>३</sup> ॥ ४७ ॥

### वसन्ततिलका

प्राक्पालकः प्रथितपद्मरथः पृथिव्याः<sup>४</sup>  
पश्चाद्विनिश्चितमतिस्तपसाच्युतेन्द्रः ।  
तस्माच्च्युतोऽभवदनन्तजिदन्तकान्तो

यः सोऽवताद् द्रुतमनन्तभवान्तकाद् वः ॥ ४८ ॥

तत्रैव सुप्रभो रामः केशवः पुरुषोत्तमः । व्यावर्ण्यते भवेपूषैः त्रिषु वृत्तकमेतयोः ॥ ४९ ॥  
एतस्मिन् भारते वर्षे पौदनाधिपतिः नृपः । वसुषेणो महादेवी तस्य नन्देव्यनिन्दिता ॥ ५० ॥  
देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां स राजा प्रेमनिर्भरः । रमे वसन्तमञ्जर्यां चञ्चरीक इवोत्सुकः ॥ ५१ ॥  
मलयाधीश्वरो नाम्ना कदाचिच्चण्डशासनः । आजगामं नृपं द्रष्टुं तत्पुरं मित्रतां गतः ॥ ५२ ॥  
नन्दासन्दर्शनेनासौ मोहितः पापपाकवान् । आहत्य तामुपायेन स्वदेशमगमत्कुर्वीः ॥ ५३ ॥  
वसुषेणोऽप्यशक्तत्वात्तत्पराभवदुःखितः । चिन्तान्तकसमाकृष्यमाणप्राणः स्मृतं बलात् ॥ ५४ ॥

विहार करना छोड़ दिया और एक माहका योग निरोध कर छह हजार एकसौ मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया । तथा चैत्र कृष्ण अमावास्याके दिन रात्रिके प्रथम भागमें चतुर्थ शुक्ल ध्यानके द्वारा परमपद प्राप्त किया ॥ ४४-४५ ॥ उसी समय देवोंके समूहने आकर बड़े आदरसे विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे सब और अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ ४६ ॥ जिन्होंने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरें हुए समस्त लोकको मस्यङ्क नयरूपी किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शास्त्ररूपी उल्लुआंमे ड्रॉप करनेवाले हैं, जिनकी उत्कृष्ट दीप्ति अत्यन्त प्रकाशमान है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले हैं ऐसे श्री अनन्तजित् भगवान्रूपी सूर्य तुम सबके पापको जलायें ॥ ४७ ॥ जो पहले पद्मरथ नामके प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशङ्क बुद्धिके धारक अच्युतेन्द्र हुए और फिर वहाँसे चयकर मरणको जीतनेवाले अनन्तजित् नामक जिनेन्द्र हुए वे अनन्त भवोंमें हानेवाले मरणसे तुम सबकी रक्षा करें ॥ ४८ ॥

अथानन्तर—इन्हीं अनन्तनाथके समयमें सुप्रभ बलभद्र और पुरुषोत्तम नामक नारायण हुए हैं इसलिए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ॥ ४९ ॥ इसी भरत क्षेत्रके पौदनपुर नगरमें राजा वसुषेण रहते थे उनकी महारानीका नाम नन्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥ ५० ॥ उस राजा के यद्यपि पाँच सौ स्त्रियाँ थी तो भी वह नन्दाके ऊपर ही विशेष प्रेम करता था सो ठीक ही है क्यों कि वसन्त ऋतु में अनेक फूल होने पर भी भ्रमर आक्रमजरी पर ही अधिक उत्सुक रहता है ॥ ५१ ॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा वसुषेणका मित्र था इसलिए वह किसी समय उसके दर्शन करनेके लिए पौदनपुर आया ॥ ५२ ॥ पापके उदयसे प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्दाको देखनेसे उसपर मोहित हो गया अतः वह दुर्बुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया ॥ ५३ ॥ राजा वसुषेण असमर्थ था अतः उस पराभवसे बहुत दुःखी हुआ, चिन्ता रूपी यमराज

१ दिवि स्वर्गे सौदन्तीति द्युसदस्तेषां समूहः देवसमूहः । २ जिनसूर्यः । ३ तत् क०, घ० । ४ पृथिव्यां ल०, ख० ।

श्रेयोगणधरं प्राप्य प्रब्रज्यां प्रतिपद्य सः । सिंहनिःक्रीडिताद्युग्रं तपस्तप्त्वा महाबलः<sup>१</sup> ॥ ५५ ॥  
यदि विधेत ब्रह्म्याः फलमन्यत्र जन्मनि । अलङ्घ्यशासनः कान्तो भवामीत्यकरोन्मतिम् ॥ ५६ ॥  
ततो विहितसंन्यासः सहस्रारं जगाम सः । अष्टादशसमुद्रायुद्वादर्शं कल्पमुत्तमम् ॥ ५७ ॥  
अथ जम्बूमति द्वीपे प्राग्विदेहे महर्द्धिके । नन्दनाल्ये पुरे प्राभून्नराधीशो महाबलः<sup>१</sup> ॥ ५८ ॥  
प्रजानां पालको भोक्ता सुखानामतिधामिकः । श्रीमान् दिक्प्रान्तविश्रान्तकीर्तिरतिहरोऽर्थिनाम् ॥ ५९ ॥  
स कदाचिच्छरीरादियाथाख्यावगमोदयात् । विरक्तस्तेषु निवाणपदवीप्रापणोत्सुकः ॥ ६० ॥  
दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रजापालार्हदन्तिके । गृहीतसंयमः सिंहनिःक्रीडिततपः श्रितः ॥ ६१ ॥  
संन्यस्यन्ति सहस्रारं प्राप्याष्टादशसागर- । स्थिति भोगांश्चिरं भुक्त्वा तदन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥  
अथेह भारते द्वारवत्यां सोमप्रभप्रभोः । जयवत्यामभूत्सुतुः सुरूपः सुप्रभाह्वयः ॥ ६३ ॥  
महायतिः समुत्तुङ्गः सुरविद्याधराश्रयः । श्वेतिमानं दधत् सोऽभाद् विजयार्द्धं इवापरः ॥ ६४ ॥  
कलङ्कविकलः कान्तः सन्ततं सर्वचिन्ताहृत् । पद्मानन्दविधायीत्थमतिशेते विभुं च सः ॥ ६५ ॥  
तस्यैव सुषेणाल्यः सीतायां पुरुषोत्तमः । तोकोऽजनि जनानन्दविधायी विविधैर्गुणैः ॥ ६६ ॥

उमके प्राण स्वीच रहा था परन्तु उसे शास्त्रज्ञानका बल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक गणधरके पास जाकर दीक्षित हो गया । उस महाबलवान्ने सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तपकर यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्रया का कुछ फल हो तो मैं अन्य जन्ममें ऐसा राजा होऊँ कि जिसकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन न कर सके ॥ ५४-५६ ॥ तदनन्तर संन्यासमरणकर वह सहस्रार नामक वारहवें स्वर्ग गया । वहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी ॥ ५७ ॥

अथानन्तर-जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर है । उसमें महाबल नामका राजा राज्य करता था । वह प्रजाकी रक्षा करता हुआ सुखोंका उपभोग करता था, अत्यन्त धर्मात्मा था, श्रीमान था, उसकी कीर्ति दिशाओंके अन्त तक फैली थी, और वह याचकोंकी पीड़ा दूर करनेवाला था—बहुत दानी था ॥ ५८-५९ ॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका बोध हो गया जिससे वह उनसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हो गया ॥ ६० ॥ उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया और प्रजापाल नामक अर्हन्तके समीप संयम धारण कर सिंहनिष्क्रीडित नामका तप किया ॥ ६१ ॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी स्थितिवाले सहस्रार स्वर्गमें उत्पन्न हुआ । वहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा । जब अन्तिम समय आया तब शान्तचित्त होकर मरा ॥ ६२ ॥ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी द्वारवती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयवतीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ ॥ ६३ ॥ वह सुप्रभ दूसरे विजयार्थके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयार्थ महायति—बहुत लम्बा है उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति—उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्थ समुत्तुङ्ग—ऊँचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी समुत्तुङ्ग—उदार प्रकृति का था, जिस प्रकार विजयार्थ देव और विद्याधरोंका आश्रय—आधार—रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रभ भी देव और विद्याधरोंका आश्रय—रक्षक था और जिस प्रकार विजयार्थ श्वेतिमा—शुक्लवर्णका धारण करता है उसी प्रकार सुप्रभ भी श्वेतिमा शुक्लवर्ण अथवा कीर्ति सम्बन्धी शुक्लताको धारण करता था ॥ ६४ ॥ यही नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलङ्कसहित है परन्तु सुप्रभ कलङ्करहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त—सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता—चकवा आदिको प्रिय नहीं लगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्तको हरण करता था—सर्वप्रिय था, और चन्द्रमा पद्मानन्दविधायी नहीं है—कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्दविधायी था—लक्ष्मीको आनन्दित करनेवाला था ॥ ६५ ॥ उसी राजाकी सीता नामकी रानीके वसुषेणका जीव पुरुषोत्तम नामका पुत्र

सेव्यस्तेजस्विभिः सर्वैरविलङ्घ्यमहोन्नतिः । महारत्नसमुद्भासी सुमेरुरिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥  
 शुक्लकृष्णत्वियौ लोकव्यवहारप्रवर्तकौ । पक्षाविव विभातः स्म युक्तौ तौ रामकेशवौ ॥ ६८ ॥  
 पञ्चाशद्गुरुच्छ्रायौ त्रिंशद्दक्षसमायुयौ । समं समसुखौ कालं समजीगमतां चिरम् ॥ ६९ ॥  
 अथ भान्त्वा भवे दीर्घं प्राक्तनश्चण्डशासनः । चण्डांशुरिव चण्डोऽभूद्दण्डितारातिमण्डलः ॥ ७० ॥  
 काशिदेशे नृपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दाख्यो विख्यातबलविक्रमः ॥ ७१ ॥  
 तौ तदोदयिनौ श्रुत्वा नारदादसहिष्णुकः । त्व मे प्रेषय प्रार्थ्यगजरत्नादिकं करम् ॥ ७२ ॥  
 तदाकर्णनकालान्तवातोद्धृतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकदुःप्रेक्ष्यश्चुक्रोध पुरुषोत्तमः ॥ ७३ ॥  
 सुप्रभोऽपि प्रभाजालं विकिरन् दिक्षु चक्षुषोः । ज्वालावलिमिव क्रोधपावकाचिस्तताशयः ॥ ७४ ॥  
 न ज्ञातः कः करो नाम किं करो येन भुज्यते । तं दास्यामः स्फुरत्क्वङ्गं शिरसाऽसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥  
 एतु गृह्णातु को दोष इत्याविष्कृततेजसौ । उभाववोचतामुच्चैर्नारदं परुषोक्तिभिः ॥ ७६ ॥  
 ततस्तदवगम्यायात् संक्रुद्धो मधुसूदनः । हन्तुं तौ तौ च हन्तुं तं रोषादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥  
 सेनयोरुभयोरासीत्संप्रामः संहारनिव । सर्वांनर्हस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुषोत्तमः ॥ ७८ ॥

हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंको आनन्दित करने वाला था ॥ ६६ ॥ वह पुरुषोत्तम सुमेरु-पर्वतके समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरुपर्वत समस्त तेजस्वियों—सूर्य चन्द्रमा आदि देवोंके द्वारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों—प्रतापी मनुष्योंके द्वारा सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी महोन्नति—भारी ऊँचाईका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तमकी महोन्नति—भारी श्रेष्ठता अथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत महारत्नों—वड़े-वड़े रत्नोंसे सुशोभित है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी महारत्नों—बहुमूल्य रत्नों अथवा श्रेष्ठ पुरुषोंसे सुशोभित था ॥ ६७ ॥ वे बलभद्र और नारायण क्रमशः शुक्ल और कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवहारके प्रवर्तक थे अतः शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे ॥ ६८ ॥ उन दोनोंका पचास धनुष ऊँचा शरीर था, तीस लाख वर्षकी दोनोंकी आयु थी और एक समान दोनोंका मुख था अतः साथ ही साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय वित्त दिया ॥ ६९ ॥

अथानन्तर—पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हैं वह अनेक भवोंमें घूमकर काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ । वह सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुओंके समूहको दण्डित कर दिया था तथा उसका बल और पराक्रम बहुत ही प्रसिद्ध था ॥ ७०-७१ ॥ नारदसे उस असहिष्णुने उन बलभद्र और नारायणका वैभव सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि कर स्वरूप भेजो ॥ ७२ ॥ उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी समुद्र ऐसा लुभित हो गया मानो प्रलय-कालकी वायुसे ही लुभित हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्प्रेक्ष्य हो गया और अत्यन्त क्रोध करने लगा ॥ ७३ ॥ बलभद्र सुप्रभ भी दिशाओंमें अपने नेत्रोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार बिल्वेरेने लगा मानो क्रोधरूपी अग्निकी ज्वालाओंके समूहको ही बिल्वेरे रहा हो ॥ ७४ ॥ वह कहने लगा—मैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्या हाथ को कर कहते हैं ? जिससे कि खाया जाता है । अच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ऐसा कर—हाथ दूँगा वह सिरसे उसे स्वीकार करे ॥ ७५ ॥ वह आवे और कर ले जावे इसमें क्या हानि है ? इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाले दोनों भाइयोंने कटुक शब्दोंके द्वारा नारदको उच्च स्वरसे उत्तर दिया ॥ ७६ ॥ तदनन्तर यह समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ और उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए चला तथा वे दोनों भाई भी क्रोधसे उसे मारनेके लिए चले ॥ ७७ ॥ दोनों सेनाओंका ऐसा संग्राम हुआ मानो सबका संहार ही करना चाहता हो । शत्रु—मधुसूदनने पुरुषोत्तमके ऊपर चक्र चलाया परन्तु वह चक्र पुरुषोत्तमका कुछ नहीं बिगाड़ सका । अन्तमें पुरुषोत्तमने उसी चक्रसे मधुसूदनको

त्रिरुण्डाधिपतित्वं तौ चतुर्थौ रामकेशवौ । ज्योतिर्लोकधिनाथत्वमन्वभूतामिवेन्द्रिनौ<sup>१</sup> ॥ ७९ ॥  
 केशवो जीवितान्तेऽगावधस्थानमायुषाम्<sup>२</sup> । सुप्रभस्तद्वियोगोत्थशोकानलसमन्वितः ॥ ८० ॥  
 प्रबोधितः प्रसन्नात्मा सोमप्रभजिनेशिनः । दीक्षित्वा श्रेणिमारुह्य स मोक्षमगमत्सुधीः ॥ ८१ ॥

### वसन्ततिलका

सम्भूय पोदनपुरे वसुषेणनामा कृत्वा तपः सुरवरोऽजनि शुक्लेश्यः ।  
 तस्माच्छ्रुतोऽर्द्धभरताधिपतिर्हृत्तारिः प्रापान्तिमां क्षितिमधः पुरुषोत्तमाख्यः ॥ ८२ ॥

### वियोगिनी


मलयाधिपचण्डशासनो नृपतिः<sup>३</sup> पापमतिर्धर्मशिरम् ।  
 भववारिनिधावभूदधः खलु गन्ता मधुसूदनाभिधः ॥ ८३ ॥

### वंशस्थवृत्तम्

महाबलाख्यः पुरि नन्दने नृपः महातपा द्वादशकल्पजः सुरः ।  
 पुनर्बलः सुप्रभसंज्ञयाऽगमत् परं पदं प्रास्तसमस्तसङ्गकः ॥ ८४ ॥

### आर्या


साम्राज्यसारसौख्यं सुप्रभपुरुषोत्तमौ समं भुक्त्वा ।  
 प्रथमो निर्वाणमगादपरोऽधो वृत्तिवैचित्र्यम् ॥ ८५ ॥  
 इत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अनन्ततीर्थकर—सुप्रभपुरुषोत्तम-  
 मधुसूदनपुराणं समाप्तं षष्ठितमं पर्व ॥ ६० ॥



मार डाला ॥ ७८ ॥ दोनों भाई चौथे बलभद्र और नारायण दृष्ट तथा तीन खण्डके आधिपत्यका इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका अनुभव करते हैं ॥ ७९ ॥ आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठवें नरक गया और सुप्रभ बलभद्र उसके वियोगसे उत्पन्न शंकररूपी अग्निसे बहुत ही संतप्त हुआ ॥ ८० ॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे समझाया जिससे प्रसन्नचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली और अन्तमें क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ होकर उस बुद्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ८१ ॥

पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमें वसुषेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्लेश्याका धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अर्धभरतक्षेत्रका स्वामी, तथा शशुओंका नष्ट करनेवाला पुरुषोत्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अधोलोकमें सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ ॥ ८२ ॥ मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ मधुसूदन हुआ और तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हुआ ॥ ८३ ॥ सुप्रभ पहले नन्दन नामक नगरमें महाबल नामका राजा था फिर महान् तप कर चारहवें स्वर्गमें देव हुआ, तदनन्तर सुप्रभ नामका बलभद्र हुआ और समस्त परिग्रह छोड़कर उसी भवसे परमपदको प्राप्त हुआ ॥ ८४ ॥ देखो, सुप्रभ और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोंका उपभोग करते थे परन्तु उनमेंसे पहला—सुप्रभ तो मोक्ष गया और दूसरा—पुरुषोत्तम नरक गया, यह सब अपनी वृत्ति-प्रवृत्तिकी विचित्रता है ॥ ८५ ॥

इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अनन्तनाथ तीर्थकर, सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रति-नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला साठवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।



## एकपष्टितमं पर्व

धर्मं यस्मिन् समुद्भूता धर्मा दश सुनिर्मलाः । स धर्मः शर्म मे दद्यादधर्ममपहृत्य नः ॥ १ ॥  
 धातकीखण्डप्राग्भागे प्राग्विदेहे सरिचटे । दक्षिणे वत्सविषये सुसीमानगरं महत् ॥ २ ॥  
 पतिर्दशरथस्तस्य प्रज्ञाविक्रमदैववान् । स्ववशीकृतसर्वारिः निर्व्यायामः समे स्थितः ॥ ३ ॥  
 सुखानि धर्मसाराणि प्रजापालनलालसः । बन्धुभिश्च सुहृद्भिश्च सह विश्रब्धमन्वभूत् ॥ ४ ॥  
 माधवे शुक्लपक्षान्ते सम्प्रवृत्तजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमालोक्य सद्यो निर्विण्णमानसः ॥ ५ ॥  
 कान्तः कुवलयारहादी कलाभिः परिपूर्णवान् । ईदृशस्यापि चेदीदृगवस्थाऽन्यस्य का गतिः ॥ ६ ॥  
 इति मत्वा सुते राज्यभारं कृत्वा महारथे । नैःसङ्ग्याल्लाघवोपेतमङ्गीकृत्य स संयमम् ॥ ७ ॥  
 एकादशाङ्गधारी सन् भाविनद्वयप्टकारणः । निबद्धतीर्थकृत्पुण्यः स्वाराध्यान्ते विशुद्धधीः ॥ ८ ॥  
 त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुः एकहस्ततनुच्छ्रितः । पञ्चरन्ध्रचतुर्मानदिनैरुच्छ्वासवान् मनाक् ॥ ९ ॥  
 लोकनाल्यन्नरच्यापि विमलावधिवाधनः । तत्क्षेत्रविक्रियतेजोबलसम्पत्समन्वितः ॥ १० ॥  
 त्रिसहस्राधिकत्रिंशत्सहस्राब्देः समाहरन् । सुहूर्ते मानसाहारं शुक्लेश्याद्वयश्रिरम् ॥ ११ ॥  
 सर्वार्थसिद्धौ सन्सौख्यं निःप्रवीचारमन्वभूत् । ततो नृलोकमेतस्मिन् पुण्यभाज्यागमिष्यति ॥ १२ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते रत्नपुरार्धाशो मर्हापतेः । कुरुवंशस्य गोत्रेण काश्यपस्य महौजसः ॥ १३ ॥  
 देव्या भानुमहारजसंज्ञस्य विपुर्लाश्रयः । सुप्रभायाः सुरार्नातवमुधारादिसम्पदः ॥ १४ ॥

जिन धर्मनाथ भगवान्मे अत्यन्त निर्मल उत्तमक्षमा आदि दश धर्म उत्पन्न हुए वे धर्मनाथ भगवान् हमलोगोंका अधर्म दूर कर हमारे लिए मुख प्रदान करें ॥ १ ॥ पूर्व धानकीखण्ड द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है । उसमें मुसीमा नामका महानगर है ॥२॥ वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था, वह बुद्धि, बल और भाग्य तीनोंसे सहित था । चूँकि उसने समस्त शत्रु अपने बश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे रहित होकर वह शान्तिसे रहता था ॥ ३ ॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी और वह बन्धुओं तथा मित्रोंके साथ निश्चिन्ततापूर्वक धर्म-प्रधान सुखोंका उपभोग करता था ॥ ४ ॥ एक बार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन मवलोग उत्सव मना रहे थे उसी समय चन्द्र ग्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥ ५ ॥ यह चन्द्रमा सुन्दर है, कुवलयों—नीलकमलों ( पक्षमें—महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है और कलाओंसे परिपूर्ण है । जब इसकी भी ऐसी अवस्था हुई है तब अन्य पुरुषकी क्या अवस्था होगी ॥ ६ ॥ ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिए राज्यभार सौपा और स्वयं परिग्रहरहित होनेसे भारहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥ ७ ॥ उसने ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन कर सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तन किया, तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपनी बुद्धिको निर्मल बनाया ॥ ८ ॥ अब वह सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ, तैतीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सौ निन्यानवे दिन अथवा साढ़े सोलह माहमें एक बार कुञ्ज श्वास लेता था ॥ ९ ॥ लोक नाड़ीके अन्त तक उसके निर्मल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी ही दूर तक फलनेवाली विक्रिया तेज तथा बलरूप सम्पत्तिसे सहित था ॥ १० ॥ तीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार लेता था, द्रव्य और भाव सम्बन्धी दोनों शुक्लेश्याओंसे युक्त था ॥११॥ इसप्रकार वह सर्वार्थ-सिद्धिमें प्रवीचार रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था । वह पुण्यशाली जब वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें जन्म लेनेके लिए तत्पर हुआ ॥ १२ ॥ तब इस जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर था उसमें कुरुवंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी और महालक्ष्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य करते थे उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, देवीने रत्नवृष्टि आदि सम्पदाओंके द्वारा उसका सम्मान

सितपक्षत्रयोदश्यां वैशाखे रेवतीविधौ । निशान्ते षोडशस्वप्नाः समभूवन् एतोः स्फुटाः ॥ १५ ॥  
 सा प्रबुध्य फलान्यात्मपतेरवधिलोचनात् । तेषां विज्ञाय सम्भूतसुतेवासीत्ससम्मदा ॥ १६ ॥  
 तदैतानुत्तरादस्यादस्या गर्भेऽभवद्विभुः । सुरेन्द्राश्चादिकल्याणमकुर्वत<sup>१</sup> समागताः ॥ १७ ॥  
 धवले नवमासान्ते गुरुर्योगे त्रयोदशी । दिने माघे सुतं मासे साऽमृतावधिलोचनम् ॥ १८ ॥  
 तदैवानिमिषाधीशास्तं नीत्वाऽमरभुधरे । क्षीराब्धिवारिभिर्भूरिकार्तस्वरघटोद्घृतैः ॥ १९ ॥  
 अभिषिच्य विभूष्योच्चैर्धर्माख्यमगदन्मुदा । सर्वभूतहितश्रीमत्सद्धर्मपथदेशनात् ॥ २० ॥  
 अनन्तजिनसन्ताने चतुःसागरसम्मिते । काले पर्यन्तपलयोपमाद्वै धर्मेऽस्तमीयुषि ॥ २१ ॥  
 तदभ्यन्तरवत्यायुर्धर्मनामोदयादि सः । दशलक्षसमाजीवी तप्तकाञ्चनसच्छविः ॥ २२ ॥  
 खाण्डैकहस्तसहो<sup>३</sup> वयः कौमारमुद्गहन् । सार्द्धलक्षद्वयादन्ते लब्धराज्यमहोदयः ॥ २३ ॥  
 तुङ्गत्वादिशुद्धत्वात्प्रेक्ष्यत्वात्स्वाश्रयान्ततः । अशेषोपकत्वाच्च मेघान्तजलदोषमः ॥ २४ ॥  
 भद्रत्वात् बहुदानत्वात्सौलक्षण्यान्महत्त्वतः । सुकरत्वान्मुरेभत्वादपरो वा गजोत्तमः ॥ २५ ॥  
 निग्रहानुग्रहौ तस्य न द्वेषेच्छाप्रवर्तिनौ । गुणदोषकृतौ तस्मान्निगृह्णन्नपि पूज्यते ॥ २६ ॥  
 कान्तिस्तस्य लता सत्यं नो चेद्विश्वविसर्पिणी । कथं कविवचोवारिषेकादद्यापि वर्द्धते ॥ २७ ॥  
 धरित्री मुखसम्भोग्या तस्य स्वगुणरञ्जिता । नायिकेवोत्तमा काममर्भाष्टफलदायिनी ॥ २८ ॥

वढ़ाया था । रानी मुग्रभाने वैशाख शुक्ल त्रयोदशीके दिन रेवती नक्षत्रमें प्रातःकालके समय सोलह स्वप्न देखे ॥ १३-१५ ॥ जागकर उमने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल मालूम किया और ऐसा हर्षका अनुभव किया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥ १६ ॥ उसी समय अन्तिम अनुत्तरविमानमे —मर्यादामिद्विमे चयकर वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अवनीर्ण हुआ । इन्द्रोंने आकर गर्भकन्याणकका उन्मव किया ॥ १७ ॥ नव माह वीत जाने पर माघ शुक्ला त्रयोदशीके दिन गुरुर्योगमें उमने अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंके धारक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ उसी समय इन्द्रोंने गुमेरु पर्यन्त पर ले जाकर बहुत भारी मुवर्ण-कलशोंमें भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक कर आभूषण पहिनाये तथा हर्षमे धर्मनाथ नाम रक्खा ॥ १९ ॥ जब अनन्तनाथ भगवान्के वाद चार सागर प्रमाण काल वीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धर्मरहित हो गया तब धर्मनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इन्हीं अन्तरालमें शामिल थी । उनकी आयु दशलक्षा वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति मुवर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सौ अस्सी हाथ थी । जब उनके कुमारकालके अर्द्धाईलाख वर्ष वीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था ॥ २०-२३ ॥ वे अत्यन्त ऊँचे थे, अत्यन्त शुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम आश्रय देने वाले थे, और सबका पोषण करनेवाले थे अतः शरद्वृत्तके मेघके समान थे ॥ २४ ॥ अथवा किसी उत्तम हाथीके समान थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार बहुत दान—बहुत मदमे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहुत दान—बहुत दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार मुलक्षण—अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी मुलक्षण—अच्छे सामुद्रिक चिह्नोंसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान् होता है उसी प्रकार वे भी महान्—श्रेष्ठ थे, उत्तमहाथी जिस प्रकार सुकर—उत्तमसूँइसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुकर—उत्तम हाथीसे सहित थे, और उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ—उत्तम शब्दसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुरेभ—उत्तम-मधुर शब्दोंसे सहित थे ॥ २५ ॥ वे दुर्जनोका निग्रह और सज्जनोका अनुग्रह करते थे सो द्वेष अथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण और दोषकी अपेक्षा करते थे अतः निग्रह करते हुए भी वे प्रजाके पूज्य थे ॥ २६ ॥ उनकी समस्त संसारमें फैलने-वाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो वह कवियोंके प्रवचनरूपी जलके सेकले आज भी क्यों बढ़ रही है ॥ २७ ॥ मुखसे संभोग करनेके योग्य तथा अपने गुणोंसे अनुरक्त पृथिवी उनके लिए उत्तम

१ प्रबुद्धा ल० । २-मकुर्वन्त ल० । ३ स्वयं ल० । वयं क०, ख०, ग० ।

धर्मादस्मादवाप्स्यन्ति कर्मारानिनिवर्हणात् । शर्म चेन्निर्मलं भव्याः शर्मास्य किमुवर्ण्यते ॥ २९ ॥  
 पञ्चलक्षसमारार्यकालेऽतीते कदाप्यसौ । उल्कापातसमुद्भूतवैराग्यादित्यचिन्तयन् ॥ ३० ॥  
 कथं क्व कस्माज्जातो मे १ किमयः कस्य २ भाजनम् । किं भविष्यति कायोऽथमिति चिन्तामकुर्वता ॥ ३१ ॥  
 दुर्विदग्धेन साङ्गत्यमनेन सुचिरं कृतम् । अश्रुता दुःखमावर्ज्यं पापं पापविपाकतः ॥ ३२ ॥  
 दुःखमेव सुखं मत्वा दुर्मतिः कर्मचोदितः । शर्मं शाश्वतमप्राप्य श्रान्तोऽहं जन्मसन्ततौ ॥ ३३ ॥  
 बोधाद्यो गुणाः स्वेऽमी ममैतदविकल्पयन् । रागादिकान् गुणान्मत्वा धिग्मां मतिविपर्यान् ॥ ३४ ॥  
 स्नेहमोहग्रहप्रस्तो मुहुर्बन्धुधनान्यलम् ३ । पोषयन्नर्जयन्पापसञ्चयाद् दुर्गतीर्गतः ॥ ३५ ॥  
 एवमेतं स्वयं बुद्धं मत्वा लौकान्तिकाः सुराः । तुष्टुवुनिष्ठितार्थस्त्वं देवाद्येन्यातिभक्तिकाः ॥ ३६ ॥  
 सुधर्मनाम्नि स ज्येष्ठे पुत्रे निहितराज्यकः । ४ प्रासनिष्कमणारम्भकल्याणाभिपवोत्सवः ५ ॥ ३७ ॥  
 शिबिकां नागदत्ताख्यामारुह्य सुरसरामैः । सह शालवनोद्यानं गत्वा पष्टोपवासवान् ॥ ३८ ॥  
 माघज्योत्स्नात्रयोदश्यामपराह्णे नृपैः ६ समम् । सहस्रेण स पुण्यक्षे दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत् ॥ ३९ ॥  
 चतुर्थज्ञानसम्पन्नो द्वितीयेऽह्नविश्वपुरीम् । भोक्तुं पाटलिपुत्राख्यां समुनद्धपताक्रिकाम् ॥ ४० ॥  
 ७ धन्यपेणमहीपालां दत्त्वाऽस्मै कनकद्युतिः । दानमुत्तमपात्राय प्रापदाश्रयपञ्चकम् ॥ ४१ ॥  
 तथैकवर्षच्छद्यमकालेऽतीते पुरातने । वने सप्तच्छदस्याधः कृतपष्टोपवासकः ॥ ४२ ॥  
 पूर्णमास्यां च पुण्यक्षे सायाह्णे प्राप केवलम् । आससाद् च सत्पुजां तुर्यकल्याणमूर्चिनीम् ॥ ४३ ॥

नायिकाके समान इच्छानुसार फल देने वाली थी ॥ २८ ॥ जब अन्य भव्य जीव इन धर्मनाथ भगवानके प्रभावसे अपने कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे तब इनके सुखका वर्णन कैसे किया जा सकता है ? ॥ २९ ॥

जब पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया । चिरक होकर वे इस प्रकार चिन्तन करने लगे—'मेरा यह शरीर कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है ? किमात्मक है, किसका पात्र है और आगे चलकर क्या होगा' ऐसा विचार न कर मुझ मूर्खने इसके साथ चिरकाल तक संगति की । पापका संचय कर उसके उदयसे मैं आज तक दुःख भोगना रहा । कर्मसे प्रेरित हुए मुझ दुर्मतिने दुःखको ही सुख मानकर कभी शाश्वत—स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया । मैं व्यर्थ ही अनेक भ्रमोंमें भ्रमण कर थक गया । ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानना रहा । स्नेह तथा मोहरूपी ग्रहोंसे प्रसा हुआ यह प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोषण करना हुआ पाप उपाजन करता है और पापके संचयसे अनेक दुर्गनियोंमें भटकता है । इस प्रकार भगवानको स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिक देव आये और बड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देव ! आज आप कृतार्थ—कृतकृत्य हुए ॥ ३०-३६ ॥ उन्होंने मुधर्म नामके ज्येष्ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर ज्येष्ठ देवोंके साथ शालवनके उद्यानमें जाकर दो दिनके उपवासका नियम लिया और माघशुक्ल त्रयोदशीके दिन सार्यकालके समय पुण्य नक्षत्रमें एकहजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥ ३७-३९ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहार लेनेके लिए पताकाओंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ॥ ४० ॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले धन्यपेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ४१ ॥ तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाका एक वर्ष बीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन वनमें सप्तच्छद वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर योग धारण किया और पौषशुक्ल पूर्णिमाके दिन सार्यकालके समय पुण्य

१ किमात्मकः । २ भाजनः क०, घ० । भाजने ख० । ३ धनायलम् ल० । ४ प्रातः ल० ।

५-सवम् ल० । ६ सह ख० । ७ धान्यपेण क०, घ० ।



अरिष्टसेनाद्यनलयुगमानगणाधिपः । शून्यद्वयनवप्रोक्तसर्वपूर्वधरावृतः ॥ ४४ ॥  
 शून्यद्वयद्विंशून्याब्धिमितशिक्षकलक्षितः । षट्शतत्रिसहस्रोक्तत्रिविधावधिलोचनः ॥ ४५ ॥  
 शून्यद्वयेन्द्रियान्मोधिप्रोक्तकेवलवीक्षणः । शून्यत्रिकमुनिज्ञातविक्रियद्विविभूषितः ॥ ४६ ॥  
 केवलज्ञानिमानोक्तमनःपर्ययविद्यूतः<sup>१</sup> । खद्वयाप्यद्विविज्ञातवादिद्वन्द्वभिबन्दिनः ॥ ४७ ॥  
 पिण्डीकृतचतुःषष्टिसहस्रमुनिसाधनः । खखाब्धिपक्षपट्प्रोक्तसुव्रताद्यायिकाचितः ॥ ४८ ॥  
 द्विलक्षश्रावकोपेतो द्विगुणश्राविकावृतः । पूर्वांक्तदेवसन्दोहतिर्यक्सङ्ख्यातसंश्रितः ॥ ४९ ॥  
 इति द्वादशभेदोक्तगणसम्पत्समचितः<sup>२</sup> । धर्मो धर्ममुपादिक्षद्धर्मध्वजविराजितः ॥ ५० ॥  
 विहारमन्ते संहृत्य सम्भेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाप्यशनसंयतैः ॥ ५१ ॥  
 शुषिशुक्लचतुर्थ्यन्त<sup>३</sup> रात्रौ ध्याति पृथग्द्वयीम् । आपूर्य पुष्यनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीमुपागमत् ॥ ५२ ॥  
 तदामृताशानाधीशाः सहसाऽऽगत्य सर्वतः । कृत्वा निर्वाणकल्याणमवन्दित तं जिनम् ॥ ५३ ॥

### आर्या

निर्जित्य दशरथः स रिपून्नृपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्वा ।

धर्मः स पातु पापैर्धर्मा युधि यस्य दशरथायन्ते ॥ ५४ ॥

### मालिनी

निहतसकलघाती निश्चलाग्रावबोधो

गदितपरमधर्मो धर्मनामा जिनेन्द्रः ।

त्रितयतनुविनाशा<sup>४</sup>न्निर्मलः शर्मसारो

दिशतु सुखमनन्तं शान्तसर्वात्मको वः ॥ ५५ ॥

नक्षत्रमें केवलज्ञान प्राप्त किया । देवोंने चतुर्थ कल्याणककी उत्तम पूजाकी ॥४२-४३॥ वे अरिष्टसेनको आदि लेकर नैतालीस गणधरोंके स्वामी थे, नौ सौ ग्यारह पूर्वधारियोंसे आवृत थे, चालीस हजार सात सौ शिक्षकोंसे सहित थे, तीन हजार छह सौ तीन प्रकारके अवधिज्ञानियोंसे युक्त थे, चार हजार पाँच सौ केवलज्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाकृदिके धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, चार हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेर रहे थे, दो हजार आठ सौ वादियोंके समूह उनकी वन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चौंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुव्रताको आदि लेकर बासठ हजार चार सौ आर्याकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे आवृत थे, असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यश्चोंसे सेवित थे ॥४४-४६॥ इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्मकी ध्वजासे मुशोभित भगवान्ने धर्मका उपदेश दिया ॥५०॥ अन्तमें विहार बन्द कर वे पर्वतराज सम्भेदशिखर पर पहुँचे और एक माहका योग निरोध कर आठ सौ नौ मुनियोंके साथ ध्यानारूढ़ हुए । तथा ज्येष्ठशुक्ला चतुर्थीके दिन रात्रिके अन्त भागमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्लध्यानको पूर्ण कर पुष्य नक्षत्रमें मांक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए ॥ ५१-५२ ॥ उसी समय सब ओरसे देवोंने आकर निर्वाण कल्याणकका उत्सव किया तथा वन्दना की ॥ ५३ ॥ जो पहले भवमें शत्रुओंको जीतनेवाले दशरथ-राजा हुए, फिर अहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए दश धर्म पापोंके साथ युद्ध करनेमें दश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवान् तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५४ ॥ जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जिनका केवलज्ञान अत्यन्त निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्मका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निर्मल हैं, जो स्वयं अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं और जिन्होंने समस्त आत्माओंको शान्त कर दिया है ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सुख प्रदान करें ॥ ५५ ॥

अस्मिन्नेवाभवतीर्थे बलः श्रीमान् सुदर्शनः । केशवः सिंहशब्दान्तपुरुषः परिषद्वलः ॥ ५६ ॥  
 तथोराख्यानकं वक्ष्ये भवत्रयसमाश्रयम् । इह राजगृहे राजा सुमित्रो नाम गवितः ॥ ५७ ॥  
 १महामहो बहुन् जित्वा लब्धपूजः परीक्षकैः । तृणायमन्यमानोऽन्यानमाद्यद् दुष्टदन्तिवत् ॥ ५८ ॥  
 कदाचिद्राजसिंहाख्यः महीनाथो मदोद्धतः । तदर्पशातनायागात्तां पुरीं मलयुद्धवित् ॥ ५९ ॥  
 सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो निजितः सुचिराद्यथा । उल्खातदन्तदन्तीव तदास्थादतिदुःखिनः ॥ ६० ॥  
 मानभङ्गेन भद्रः सन्नसौ राज्यभराक्षमः । नियुक्तवान् सुतं राज्ये मानप्राणा हि मानिनः ॥ ६१ ॥  
 कृष्णाचार्यं समासाद्य श्रुत्वा धर्मं १यथोदितम् । प्रवत्राजातिनिर्विण्णस्तद्धि योयं मनस्विनाम् ॥ ६२ ॥  
 क्रमेणांभ्रं तपः कुर्वन् सिंहनिःक्रीडितादिकम् । स्वपराजयसंक्लेशादिति प्रान्ते व्यचिन्तयन् ॥ ६३ ॥  
 फलं चेदस्ति चर्यायास्तस्या सोऽन्यत्र जन्मनि । ३मम स्तां विद्विषो जेतुं महाबलपराक्रमौ ॥ ६४ ॥  
 तथैव संन्यस्याभूच्च माहेन्द्रे सप्तसागर- । स्थितिर्देवश्चिरं भोगान् भुञ्जानः सुखमास्थितः ॥ ६५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् मन्दरप्राचि ४वीतशोकापुरीपतिः । नरादिवृषभो राजाऽजनि जातमहोदयः ॥ ६६ ॥  
 भुक्त्वा कोपद्वयापेतं राज्यमूर्जितसौख्यभाक् । सद्यः सञ्जातनिर्वेदोऽत्यजहमवरान्तिके ॥ ६७ ॥  
 स घोरतपसा दीर्घं गमयित्वाऽऽयुरात्मनः । सहस्रारं जगामाष्टदशसागरसंस्थितः ६ ॥ ६८ ॥  
 फलं ५स्वानिमिषत्वस्य प्राप्यानारतलोकनान् । प्राणप्रियाणां पर्यन्ते शान्तचेता निजायुपः ॥ ६९ ॥  
 अस्मिन् खगपुराधीशसिंहासेनमहीपतेः । इक्ष्वाकोविजयाथाश्च तन्जोऽभूत्सुदर्शनः ॥ ७० ॥

अथानन्तर इन्हीं धर्मनाथ भगवान्के तीर्थम श्रीमान् सुदर्शन नामका बलभद्र तथा सभामें सबसे बलवान् पुरुषमिंह नामका नारायण हुआ ॥ ५६ ॥ अतः यहाँ उनका तीन भवका चरित कहता हूँ । इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, वह बड़ा अभिमानी था, बड़ा मल्ल था, उसने बहुत मल्लोंको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते थे—उसे पूज्य मानते थे, वह सदा दूमरोंको तृणके समान तुच्छ मानता था, और दुष्ट हाथीके समान मदोन्मत्त था ॥ ५७-५८ ॥ किसी समय मद्रसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जानने वाला राजसिंह नामका राजा उसका गर्व शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥ ५९ ॥ उसने बहुत देर तक युद्ध करनेके बाद रङ्गभूमिमें स्थित राजा सुमित्र को हरा दिया जिससे वह दौत उखाड़े हुए हाथीके समान बहुत दुःखी हुआ ॥ ६० ॥ मान भङ्ग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, वह राज्यका भार धारण करनेमें समर्थ नहीं रहा अतः उसने राज्य पर पुत्रको नियुक्त कर दिया सो ठीक ही है ; क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण है ॥ ६१ ॥ निर्वेद भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णाचार्यके पास पहुँचा और उनके द्वारा कहें हुए धर्मोपदेशको सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥ ६२ ॥ यद्यपि उसने क्रम-क्रमसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप किये तो भी उसके हृदयमें अपने पराजयका संक्लेश बना रहा अतः अन्तमें उसने ऐसा विचार किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुझे ऐसा महान् बल और पराक्रम प्राप्त होवे जिससे मैं शत्रुओंको जीत सकूँ ॥ ६३-६४ ॥ ऐसा निदान कर वह संन्याससे मरा और माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी स्थिति वाला देव हुआ । वह वहाँ भोगोंको भोगता हुआ चिरकाल तक सुखसे स्थित रहा ॥ ६५ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतके पूर्वकी आंर वीतशोकापुरी नामकी नगरी है उसमें ऐश्वर्यशाली नरवृषभ नामका राजा राज्य करता था । उसने बाह्याभ्यन्तर प्रकृतिके कोपसे रहित राज्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे और अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग दिया और दमवर मुनिराजके पास दिग्म्बर दीक्षा धारण कर ली ॥ ६६-६७ ॥ अपनी विशाल आयु कठिन तपसे बिताकर वह सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुआ ॥ ६८ ॥ प्राणप्रिय देवाङ्गनाओंको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया

१ महामहो ग० । २ यथोचितम् ल० । ३ समस्तान् ल० । ४ पराक्रमे ल० । ५ इतशोकापुरीपतिः ग० । ६ संस्थितः क०, ब० । ७ फलं स्वनिमिषत्वस्य ल० ।

अम्बिकायां सुतोऽस्यैव सुमित्रः केशवोऽभवत् । पञ्चाब्धिधनुस्सेधौ दशलक्षासमायुषौ ॥ ७१ ॥  
 परस्परानुकूल्येन मतिरूपबलान्वितौ । परानाक्रम्य सर्वान् स्वान् रजयामासतुर्गुणैः ॥ ७२ ॥  
 अविभक्तापि दोषाय भुज्यमाना तयोरभूत् । न लक्ष्मीः शुद्धचित्तानां शुद्धयै निखिलमप्यलम् ॥ ७३ ॥  
 अथाम्बुद्धारते क्षेत्रे <sup>१</sup>विषये कुरुजाङ्गले । हास्तिनाख्यपुरार्धाशां मधुक्तीडो महीपतिः ॥ ७४ ॥  
 राजसिंहचरो लङ्घिताखिलारातिसंहतिः । असहैरतौ <sup>२</sup>समुद्यन्तौ तेजसा बलकेशवौ ॥ ७५ ॥  
 करं परार्धरत्नानि याचित्वा प्राहिणोद्गली । दण्डगर्भाभिधानाभिशालिनं सचिवाग्रिमम् ॥ ७६ ॥  
 तद्वचःश्रवणात्तौ च गजकण्ठरवश्रुतेः । कण्ठीरवौ वा संक्रुद्धौ रुद्ध्वाऽहर्षिततेजसौ ॥ ७७ ॥  
 क्रीडितुं याचते भूढो गर्भव्यालं जडः करम् । समीपवर्तां चेत्तस्य समवर्ते तु दीयते ॥ ७८ ॥  
 इत्युक्तवन्तौ तत्कांपकठारोक्या स सत्वरम् । गत्वा तत्कार्यपर्यायमधुक्तीडमजिज्ञप्तुम् ॥ ७९ ॥  
 सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा कोपारुणितविग्रहः । विग्रहाय सहैताभ्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ॥ ८० ॥  
 अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारदः । अच्छिन्नतस्य चक्रेण शिरः सद्यः स केशवः ॥ ८१ ॥  
 तौ त्रिखण्डाधिपत्येन लक्ष्मीमनुवभूवतुः । अवधिस्थानमापन्नः केशवो जीवितावधौ ॥ ८२ ॥  
 हलायुधोऽपि तच्छोकाद्धर्मतीर्थकरं श्रितः । प्रव्रज्य प्रादुधुताधौघः प्राप्नोति स्म परं पदम् ॥ ८३ ॥

### मालिनी

प्रतिहतपरसैन्यां मानशोण्डौ प्रचण्डौ

फालितसुकृतसारौ नावखण्डत्रिणखंडौ ।

और आयुके अन्तमें शान्तचित्त होकर इसी जम्बूद्वीपके खगपुर नगरके इक्ष्वाकुवंशी राजा सिंहसेनकी विजया रानीमें मुदर्शन नामका पुत्र हुआ ॥ ६६-७० ॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी दूसरी रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ । वे दोनों भाई पैतृलीस धनुष ऊँचे थे और दश लाख वर्षकी आयुके धारक थे ॥ ७१ ॥ एक दूसरेके अनुकूल बुद्धि, रूप और बलसे सहित उन दोनों भाइयोंने समस्त शत्रुओं पर आक्रमण कर आत्मीय लोगोंका अपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया था ॥ ७२ ॥ यद्यपि उन दोनोंकी लक्ष्मी अविभक्त थी—परस्पर बाँटी नहीं गई थी तो भी उनके लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करनी थी सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए सभी वस्तुएँ शुद्धताके लिए ही होती हैं ॥ ७३ ॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके कुरुजांगल देशमें एक हास्तिनापुर नामका नगर है उसमें मधुक्तीड़ नामका राजा राज्य करता था । वह सुमित्रको जीतनेवाले राजसिंहका जीव था । उसने समस्त शत्रुओं के समूहको जीत लिया था, वह तेजसे बढ़ते हुए बलभद्र और नारायणको नहीं सह सका इसलिए उस बलवान्ने कर-स्वरूप अनेकों श्रेष्ठ रत्न माँगनेके लिए दण्डगर्भ नामका प्रधानमंत्री भेजा ॥ ७४-७६ ॥ जिस प्रकार हार्थिके कण्ठका शब्द सुनकर सिंह क्रुद्ध हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यके समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमंत्रीके शब्द सुनकर क्रुद्ध हो उठे ॥ ७७ ॥ और कहने लगे कि वह मूर्ख खेलनेके लिए साँपों भरा हुआ कर माँगता है सो यदि वह पास आया तो उसके लिए वह कर अवश्य दिया जावेगा ॥ ७८ ॥ इस प्रकार क्रोधसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे और उस मंत्रीने शीघ्र ही जाकर राजा मधुक्तीड़को इसकी खबर दी ॥ ७९ ॥ राजा मधुक्तीड़ भी उनके दुर्वचन सुनकर क्रोधसे लाल शरीर हो गया और उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बड़ी सेना लेकर चला ॥ ८० ॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिरकाल तक उसके साथ युद्ध किया और अन्तमें उसीके चलाये हुए चक्रसे शीघ्र ही उसका शिर काट डाला ॥ ८१ ॥ दोनों भाई तीन खण्डके अधीश्वर बनकर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे । उनमें नारायण, आयुका अन्त होने पर सातवें नरक गया ॥ ८२ ॥ उसके शोकसे बलभद्रने धर्मनाथ तीर्थकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली और पापोंके समूहको नष्ट कर परम पद प्राप्त किया

किल खल्विधिर्नैवं पश्य विशलेपितौ धिग्  
दुरितपरवशत्वं केशवस्यैव मोहात् ॥ ८४ ॥

### वसन्ततिलका

प्राग्भूभुजः (?) प्रथितराजगृहं सुमित्रो

माहन्द्रकल्पजसुरदच्युतवाँस्ततोऽस्मिन् ।

भूपोऽभवत्खगपुरे पुरुपादिसिंहः

पश्चात्ससप्तममर्ही च जगाम भीमाम् ॥ ८५ ॥

प्रोहर्षदन्तिदमनोऽजनि राजसिंहो

भान्त्वा चिरं भववनेषु विनष्टमार्गः ।

दृष्टानुमार्गमजनिष्ट स हास्तिनाख्ये

क्रीडाक्षरान्तमधुराप गतिं दुरन्ताम् ॥ ८६ ॥

### पृथ्वी

नरादिदृष्टभः पुरे विदिनवाँतशोके महीट

तपश्चिरमुपास्य घोरमभवत्सहस्रारके ।

ततः खगपुरे बलः क्षयितशत्रुपक्षोऽगमत

क्षमैकनिलयो विलीनविलयः सुखं क्षायिकम् ॥ ८७ ॥

तर्त्तार्थस्यान्तरे चक्री तृतीयो मघवानभूत् । आनृतीयभवात्स्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥ ८८ ॥

वासुपूज्यजिनेशस्य तीर्थेऽभून्नृपतिर्महान् । नाम्ना नरपतिर्भुक्त्वा भोगान् भाग्यसमपितान् ॥ ८९ ॥

वैराग्यकाष्ठामारुह्य कृतोऽकृष्टतपा १व्यसुः । ग्रैवेयकेऽभवत्पुण्यादहमिन्द्रेषु मध्यमे ॥ ९० ॥

सप्तविंशतिवाद्ध्ययुदिव्यभोगान्मनोहरान् । अनुभूय ततश्च्युत्वा धर्मतीर्थकरान्तरे ॥ ९१ ॥

कोशले विषये रम्ये साकेतनगरीपतेः । इक्ष्वाकोः स सुमित्रस्य भद्रायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ९२ ॥

मघवान्नाम पुण्यात्मा भविष्यन् भरताधिपः । पञ्चलक्षसमाजीवी कल्याणपरमायुषा ॥ ९३ ॥

॥ ८३ ॥ देखां, दोनों ही आई शत्रुसेनाको नष्ट करने वाले थे, अभिमान्तीं थे, शूर वीर थे, पुण्यके फलका उपभोग करनेवाले थे, और तीन खण्डके स्वामीं थे फिर भी इस तरह दुष्ट कर्मके द्वारा अलग-अलग कर दिये गये । मोहके उदयसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त हुआ इसलिए पापोंकी अधीनताको धिक्कार है ॥ ८४ ॥ पुरुषसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें सुमित्र नामका राजा था, फिर माहन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर इस खगपुर नगरमें पुरुषसिंह नामका नारायण हुआ और उसके पश्चात् भयंकर सातवें नरकमें नारकी हुआ ॥ ८५ ॥ मधुकीड़ प्रतिनारायण पहले मदोन्मत्त हाथियोंको वश करने वाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग-भ्रष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनमें भ्रमण करता रहा, तदनन्तर धर्ममार्गका अवलम्बन कर हस्तिनापुर नगरमें मधुकीड़ हुआ और उसके पश्चात् दुर्गतिको प्राप्त हुआ ॥ ८६ ॥ सुदर्शन बलभद्र, पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगरमें नरवृषभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे चय कर खगपुर नगरमें शत्रुओंका पक्ष नष्ट करनेवाला बलभद्र हुआ और फिर क्षमाका घर होता हुआ मरणरहित होकर क्षायिक सुखको प्राप्त हुआ ॥ ८७ ॥

इन्हीं धर्मनाथ तीर्थकरके तीर्थमें तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर उनका पुराण कहता हूँ ॥ ८८ ॥ श्रीवासुपूज्य तीर्थकरके तीर्थमें नरपति नामका एक बड़ा राजा था वह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपश्चरण कर मरा । अन्तमें पुण्योदयसे मध्यम ग्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ ॥ ८९-९० ॥ सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगोंको भोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और धर्मनाथ तीर्थकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर

सार्द्धद्विचत्वारिंशत्षापोच्छ्रितः कनकद्युतिः । षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं प्रतिपाल्य प्रतापवान् ॥ ९४ ॥  
 चतुर्दशमहारत्नभूषणो विधिनायकः । नृसेचरसुराधीशान्नमयन् क्रमयोर्युगम् ॥ ९५ ॥  
 स्वोक्तप्रमाणदेवीभिरनुभूय यथेप्सितम् । दशाङ्गभोगान् भूयिष्ठान् सुनिष्ठितमनोरथः ॥ ९६ ॥  
 सुधीर्मनोहरोद्याने स कदाचिद्यदृच्छया । विलोक्याभयघोषाल्यं केवलावगमद्युतिम् ॥ ९७ ॥  
 त्रिःपरान्याभिवन्द्यैर्न श्रुत्वा धर्मं तदन्तिके । विदित्वा तत्त्वसद्भावं विरज्य विषयेष्वलम् ॥ ९८ ॥  
 प्रियमित्राय पुत्राय दत्त्वा साम्राज्यसम्पदम् । स बाह्याभ्यन्तरग्रन्थोस्त्यक्त्वा संयममाददौ ॥ ९९ ॥  
 शुद्धश्रद्धानचारित्रः श्रुतसम्पत्समन्वितः । द्वितीयशुक्लध्यानेन घातिभ्रयविघातकृत् ॥ १०० ॥  
 नवकेवललब्धांशो धर्मवद्धर्मदेशनात् । विनेयनायकानीत्वा निर्वाणपदवीं पराम् ॥ १०१ ॥  
 ध्यानद्वयसमुन्मूर्च्छिताघातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिर्मोक्षादक्षयं मोक्षमाक्षिपत् ॥ १०२ ॥

### मालिनी

नरपतिरिह नाम्ना वामुपूज्यस्य तीर्थे

सशमगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रा महद्विः ।

अभवदखिलपुण्यश्चक्रवर्ती तृतीय-

सन्दनु च भववाच्यो मुख्यसौख्यं समापत् ॥ १०३ ॥

समनन्तरमेवास्य विनातालगरेशिनः । नृपस्यानन्तवीर्यस्य सूर्यवंशशिखामणेः ॥ १०४ ॥

सहदेव्याश्च सम्भूतः कल्पादागत्य पांडवान । म्नुः सनत्कुमाराख्यः प्रियश्चक्राङ्कितश्रियः ॥ १०५ ॥

लक्षत्रयायुःपूर्वाक्तचक्रवर्तिसमुच्छ्रितः । चामीकरच्छावः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धरः ॥ १०६ ॥

देशकी अयोध्यापुरीके स्वामी इह्वाकुवर्गी राजा गुमित्रकी भद्रारानीमे मधवान् नामका पुण्यात्मा पुत्र हुआ । यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चक्रवर्ती होगा । उसने पाँच लाख वर्षकी कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की थी । साढ़े चालीस धनुष ऊँचा उसका शरीर था, सुवर्णके समान शरीरकी कान्ति थी । वह प्रतापी ब्रह्म खण्डोंसे गुशाभिन पृथिवीका पालनकर चौदह महारत्नोंमे विभूषित एवं नौ निधियोंका नायक था । वह मनुष्य, विद्याधर और इन्द्रोंको अपने चरण-युगलमें भुक्ता था । चक्रवर्तियोंकी विभूतिके प्रमाणमें कहीं हुई—छायानबे हजार देवियोंके साथ इच्छानुसार दश प्रकारके भोगोंका भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था । किसी एक दिन मनोहर नामक उद्यानमें अकस्मान् अभयघोष नामक केवली पधार । उस बुद्धिमान्ने उनके दर्शन कर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, धर्मका स्वरूप गुना, उनके समीप तत्त्वोंके सद्भावका ज्ञान प्राप्त किया, विषयोंमे अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी विभूति प्रदान की और बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर संयम धारण कर लिया ॥ ९१-९६ ॥ वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा निर्दोष चरित्रका धारक था, शास्त्रज्ञान रूपी सम्पत्तिसे सहित था, उसने द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका विघात कर दिया था ॥ १०० ॥ अब वे नौ केवललक्षियोंके स्वामी हो गये तथा धर्मनाथ तीर्थ-करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवी प्राप्त कराने लगे ॥ १०१ ॥ अन्तमें शुक्लध्यानके तृतीय और चतुर्थ भेदके द्वारा उन्होंने अघाति चतुष्कका क्षय कर दिया और पुण्य-पाप कर्मोंसे विनिमुक्त होकर अचिनाशी मोक्ष प्राप्त किया ॥ १०२ ॥ तीसरा चक्रवर्ती मधवा पहले वामुपूज्य स्वामीके तीर्थमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे युक्त श्रेष्ठ चरित्रके प्रभावसे बड़ी ऋद्धिका धारक अहमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यसे युक्त मधवा नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चान् मोक्षके श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ ॥ १०३ ॥

अथानन्तर—मधवा चक्रवर्तीके बाद ही अयोध्या नगरीके अधिपति, सूर्य वंशके शिरोमणि राजा अनन्तवीर्यकी सहदेवी रानीके सोलहवें स्वर्गसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र हुआ । वह चक्रवर्तीकी लक्ष्मीका प्रिय वल्लभ था ॥ १०४-१०५ ॥ उसकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, और

दशाङ्गभोगसम्भोगयोगसन्तपितेन्द्रियः । 'समर्थिताथिसङ्कल्पाऽनल्पकल्पमहीरुहः ॥ १०७ ॥  
हिमवत्सागराघाटमहीमध्यमहीभुजाम् । आधिपत्यं समातन्वन्नन्वभूदधिकां श्रियम् ॥ १०८ ॥  
प्रपात्येवं सुखेनास्य काले सौधर्मसंसदि । सनत्कुमारदेवेन्द्ररूपस्यास्त्यत्र जित्वरः ॥ १०९ ॥  
कोऽपीति देवैः समृष्टः सौधर्मेन्द्रोऽब्रवीदिदम् । सनत्कुमारश्चक्रेशो वाढं सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ ११० ॥  
स्वप्नेऽपि केनचित्तादृष्टपूर्वः कदाचन । नास्तीति तद्वचः श्रुत्वा सद्यः सञ्जातकौतुकी ॥ १११ ॥  
द्वौ देवौ भुवमागत्य तद्रूपालोकेच्छया । दृष्ट्वा तं शक्रसम्प्रोक्तं सत्यमित्यासासम्मदौ ॥ ११२ ॥  
सनत्कुमारचक्रेशं निजागमनकारणम् । बोधयित्वा सुधीश्चक्रिन् शृणु चित्तं समादधन् ॥ ११३ ॥  
यदि रोगजरादुःखमृत्यवो न स्युरत्र ते । सौन्दर्येण त्वमत्रैवमतिशेषे जिनानपि ॥ ११४ ॥  
इत्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्तं स्वधाम सहसा गतौ । काललब्धेव तद्वाचा प्रबुद्धो भूसुजां पतिः ॥ ११५ ॥  
रूपयौवनसौन्दर्यसम्पत्सौख्यादयो नृणाम् । विद्युलतावितानाच्च मन्ये प्रागेव नश्वराः ॥ ११६ ॥  
इत्वरिः सम्पदस्त्यक्त्वा जित्वरोऽहमिहैनसाम् । सत्वरं तनुमुक्त्वा गत्वारोऽस्मीत्यकायताम् ॥ ११७ ॥  
स्मरन् देवकुमाराख्ये मुने राज्यं नियोज्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दीक्षां बहुभिराददे ॥ ११८ ॥  
पद्मभिः सद्ब्रतैः पूज्यः पालितेर्यादिपञ्चकः । पडावश्यकवश्यात्मानिरुद्धेन्द्रियसन्ततिः ॥ ११९ ॥  
निश्चेलः कृतभूवासं दन्तधावनवर्जितः । उत्थार्यैकदाभोजी स्फुरन्मूलगुणैरलम् ॥ १२० ॥

शरीरकी ऊँचाई पूर्व चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईके समान सादे व्यालीस धनुष थी । मुखर्णके समान कान्तिवाले उस चक्रवर्तीने समस्त पृथिवीको अपने अधीन कर लिया था ॥ १०६ ॥ दश प्रकारके भोगके समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्तुप्त हुई थीं । वह याचकोंके संकल्पको पूर्ण करनेवाला मानो बड़ा भारी कल्पवृक्ष ही था ॥ १०७ ॥ हिमवान पर्यतमे लेकर दक्षिण समुद्र तककी पृथिवीके बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करता हुआ वह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभाग करता था ॥ १०८ ॥


इस प्रकार इधर इनका समय मुखमे व्यतीत हो रहा था उधर सौधर्म इन्द्रकी सभामें देवोंने सौधर्मेन्द्रसे पूछा कि क्या कोई इस लोकमें सनत्कुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधर्मेन्द्रने उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वाङ्ग सुन्दर है । उसके समान रूपवाला पुरुष कभी किसीने स्वप्नमें भी नहीं देखा है । सौधर्मेन्द्रके वचन सुनकर दो देवोंको कौतूहल उत्पन्न हुआ और वे उसका रूप देखनेकी इच्छासे पृथिवीपर आये । जब उन्होंने सनत्कुमार चक्रवर्तीको देखा तब 'सौधर्मेन्द्रका कहना ठीक है' ऐसा कहकर वे बहुत ही हर्षित हुए ॥ १०९-११२ ॥ उन देवोंने सनत्कुमार चक्रवर्तीको अपने आनेका कारण बतलाकर कहा कि हे बुद्धिमन् ! चक्रवर्तिन् ! चित्ताको सावधानकर सुनिये—यदि इस संसारमें आपके लिए राग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना न हो तो आप अपने सौन्दर्यसे तीर्थङ्करको भी जीत सकते हैं—११३-११४ ॥ ऐसा कहकर वे दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थानपर चले गये । राजा सनत्कुमार उन देवोंके वचनोंसे ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ मानो काललब्धिने ही आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥ ११५ ॥ वह चिन्तवन करने लगा कि मनुष्योंके रूप, यौवन, सौन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि विजलीरूप लताके विस्तारसे पहले ही नष्ट हो जानेवाले हैं ॥ ११६ ॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोंको जीतनेवाला बनूँगा और शीघ्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होऊँगा ॥ ११७ ॥ ऐसा विचारकर उन्होंने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनोन्द्रके समीप अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली ॥ ११८ ॥ वे अहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंसे पूज्य थे, ईर्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, ब्रह्म आवश्यकोंसे उन्होंने अपने आपको वश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्ततिको रोक लिया था, वस्त्रका त्यागकर रखा था, वे पृथिवीपर शयन करते थे, कभी दातौन नहीं करते थे; खड़े-खड़े एक बार भोजन करते थे । इस प्रकार अष्टाईस मूलगुणोंसे अत्यन्त शोभायमान थे ॥ ११९-१२० ॥

त्रिकालयोगवीरासनैकपाश्यादिभाषितैः । उररैश्च गुणैर्नित्यं यथायोग्यं समाचरन् ॥ १२१ ॥  
क्षमावान् क्षमाविभागो वा वारि वा श्रिततापनुत् । शिरीश इव निःकम्पो निःसङ्गः परमाणुवत् ॥ १२२ ॥  
निल्लेपोऽम्बुदमागो<sup>१</sup> वा गम्भीरो वाऽऽपगापतिः । शशीव सर्वसंह्लादी भानुमानिव<sup>२</sup> भास्वरः ॥ १२३ ॥  
बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः सुधौतकलधौतवत् । आदर्शवत्समादर्शी सङ्कोची कूर्मसन्निभः ॥ १२४ ॥  
अहिर्वा स्वाकृतावासः करीवाशब्दयानकः । शृगालवत्पुरालोकी स शूरो राजसिंहवत् ॥ १२५ ॥  
सदा विनिद्रो मृगवत्सोढाशेषपरीषहः । उपसर्गसहो विक्रियाद्युक्तविविधद्विकः ॥ १२६ ॥  
क्षपकश्रेणिमारुह ध्यानद्वयसुसाधनः । घातिकर्माणि निर्धूय कैवल्यमुदपादयन् ॥ १२७ ॥  
पुनर्विहृत्य सद्धर्मदेशनाद्विषयान् बहून् । विनेयान् मुक्तिसन्मार्गं दुर्गं दुर्मार्गवर्तिनाम् ॥ १२८ ॥  
पञ्चादन्तर्मुहूर्तायुर्योगं रुद्ध्वा त्रिभेदकम् । सर्वकर्मक्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम् ॥ १२९ ॥

### वसन्ततिलका


जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्रसनत्कुमार-  
माक्रम्य विक्रमबलेन दिशां च चक्रम् ।  
चक्रेण धर्मविहितेन हताघचक्रो  
दिद्यात्स वः श्रियमिहाशु सनत्कुमारः ॥ १३० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मतीर्थकर-सुदर्शन-पुरुषसिंहमधु-  
क्रीडमधवनसनत्कुमारपुराणं परिसमाप्तम् एकषष्टितमं पर्व ॥ ६१ ॥



तीन कालमें योगधारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवटसे सोना  
आदि शास्त्रोंमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे ॥ १२१ ॥ वे पृथिवीके  
समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंके सन्तापको दूर करते थे, पर्वतके समान  
अकम्प थे, परमाणुके समान निःसङ्ग थे, आकाशके समान निल्लेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे,  
चन्द्रमाके समान सबको आह्लादित करते थे, सूर्यके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुवर्णके  
समान भीतर-बाहर शुद्ध थे, दर्पणके समान समदर्शी थे, कलुषके समान सङ्कोची थे, साँपके समान  
कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हाथीके समान चुपचाप गमन करते थे, शृगालके समान  
सामने देखते थे, उत्तम सिंहके समान शूरवीर थे और हरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते  
थे । उन्होंने सब परिषह जीत लिये थे, सब उपसर्ग सह लिये थे और विक्रिया आदि अनेक ऋद्धियां  
प्राप्त कर ली थीं ॥ १२२-१२६ ॥ उन्होंने क्षपकश्रेणीपर आरूढ़ होकर दो शुकृध्यानोंके द्वारा  
घातिया कर्मको नष्टकर केवलज्ञान उत्पन्न किया था ॥ १२७ ॥ तदनन्तर अनेक देशोंमें विहारकर  
अनेक भव्य जीवोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया और कुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंके लिए दुर्गम  
मोक्षका समीचीन मार्ग सबको बतलाया ॥ १२८ ॥ जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्तकी रह गई तब  
तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मोंके क्षयसे प्राप्त होनेवाला अविनाशी मोक्षपद प्राप्त  
किया ॥ १२९ ॥ जिन्होंने अपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्कुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने  
अपने पराक्रमके बलसे दिशाओंके समूह पर आक्रमण किया और धर्मचक्र द्वारा पापोंका समूह  
नष्ट किया वे श्रीसनत्कुमार भगवान् तुम सबके लिए शीघ्र ही लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १३० ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें  
तीर्थकर, सुदर्शन बलभद्र, पुरुषसिंह नारायण, मधुक्रीड प्रतिनारायण, मधवा और  
सनत्कुमार चक्रवर्ती के पुराणका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



१ गिरीन्द्र क०, घ० । २ आकाश इव । ३ भास्करः ल० । ४ अहिर्वा स्वकृता ल० ।

## द्विपष्टितमं पर्व

बुध्वा सपर्ययं सर्वं बोध्याभावान्नवच्छिदः । यस्यावबोधो विश्रान्तः स शान्तिः शान्तयेऽस्तु वः ॥ १ ॥  
 वक्त्रश्रोतृकथाभेदान् वर्णयित्वा पुरा बुधः । पश्चाद्धर्मकथां ब्रूयाद् गम्भीरार्था यथार्थदृक् ॥ २ ॥  
 विद्वत्त्वं सच्चरित्रत्वं दयालुत्वं प्रगल्भता । वाक्सौभाग्येङ्गितज्ञत्वे प्रभक्षोदसहिष्णुता ॥ ३ ॥  
 सौमुख्यं लोकविज्ञानं ख्यातिपूजाद्यभीक्षणम् । मिताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरि ॥ ४ ॥  
 तत्त्वज्ञेऽप्यपचारित्रे वक्तव्यैतत्कथं स्वयम् । न चरेदिति तत्प्राक्तं न गृह्णन्ति पृथग्जनाः ॥ ५ ॥  
 सच्चारित्रेऽप्यशास्त्रज्ञे वक्तव्यल्पश्रुतोद्धता- । सहासयुक्तं सन्मार्गं विदधन्व्यवधीरणाम् ॥ ६ ॥  
 विद्वत्त्वसच्चरित्रत्वे मुख्यं वक्तरि लक्षणम् । अबाधितस्वरूपं वा जीवस्य ज्ञानदर्शने ॥ ७ ॥  
 युक्तमेतदयुक्तं चेत्युक्तं सम्यग्विचारयन् । स्थाने कुर्वन्नुपालम्भं भक्त्या सूक्तं समाददन् ॥ ८ ॥  
 असारप्राग्ग्रहीतार्थविशेषाविहितादरः । अहसन्स्वलितस्थाने गुरुभक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥  
 संसारभीरुराप्रोक्तवाग्धारणपरायणः । शुक्रमृद्धसंसंप्रोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥  
 जीवाजीवादिनत्त्वार्थां यत्र सम्यग्निरूप्यते । तनुसंसृतिभोगेषु निर्वेदश्च हितैषिणाम् ॥ ११ ॥  
 दानपूजातपःशीलविशेषाश्च विशेषतः । बन्धमोक्षौ तयोर्हेतुफले वाऽसुभृतां पृथक् ॥ १२ ॥  
 घटामटति युक्त्यैव सदसत्त्वादिकल्पना । ख्याता प्राणिदया यत्र मातैव हितकारिणी ॥ १३ ॥

संसारको नष्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवानका ज्ञान, पर्याय सहित समस्त द्रव्योंको जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान् तुम सबकी शान्तिके लिए हैं ॥ १ ॥ पदार्थके यथार्थस्वरूपको देखनेवाला विद्वान् पहले वक्ता, श्रोता तथा कथाके भेदोंका वर्णन कर पीछे गम्भीर अर्थसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥ २ ॥ विद्वान् होना, श्रेष्ठ चारित्र्य धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमान होना, बोलनेमें चतुर होना, दूसरोंके इशारोंको समझ लेना, प्रश्नोंके उपद्रवको सहन करना, मुख अच्छा होना, लोक-व्यवहारका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा पूजामें युक्त होना और थोड़ा बोलना, इत्यादि धर्मोपदेश देने वालेके गुण हैं ॥ ३-४ ॥ यदि वक्ता तत्त्वोंका जानकार होकर भी चारित्र्यमें रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको ग्रहण नहीं करेंगे ॥ ५ ॥ यदि वक्ता सम्यक् चारित्र्यमें युक्त होकर भी शास्त्रका ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़ेसे शास्त्र ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योंके हास्ययुक्त वचनोंसे समीचीन मोक्षमार्गकी हँसी करावेगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीवका अबाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्वत्ता और सच्चरित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण है ॥ ७ ॥ 'यह योग्य है ? अथवा अयोग्य है ?' इस प्रकार वही हुई बातका अच्छी तरह विचार कर सकता हो, अवसर पर अयोग्य बातके दोष कह सकता हो, उत्तम बातको भक्तिसे ग्रहण करता हो, उपदेश-श्रवणके पहले ग्रहण किये हुए उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल हो जाने पर जो हँसी नहीं करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान हो, संसारसे डरनेवाला हो, कहे हुए वचनोंको धारण करनेमें तत्पर हो, तोता मिट्टी अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो वह श्रोता कहलाता है ॥ ८-१० ॥ जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थोंका अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, हितेच्छु मनुष्योंको शरीर, संसार और भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान पूजा तप और शीलकी विशेषताएँ विशेषताके साथ बतलाई जाती हों, जीवोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण और फलोंका पृथक्-पृथक् वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत् और असत्की कल्पना युक्तिसे की जाती हो, जहाँ माताके समान हित करनेवाली दयाका मूढ़ वर्णन हो और जिसके मुननेसे प्राणी सर्वपरि-



सर्वसङ्गपरित्यागाद्यत्र यान्यङ्गिनः शिवम् । तत्त्वधर्मकथा सा स्यान्नाम्ना धर्मकथापरा ॥ १४ ॥  
 एवं पृथग्विनिर्दिश्य वक्त्रादित्रयलक्षणम् । अतः परं प्रवक्ष्यामि शान्तीशर्चरितं महत् ॥ १५ ॥  
 अथास्य द्वीपनाथस्य जम्बूद्वीपमहीपतेः । लवणाग्भोधिनीलाग्भो लसद्विपुलवाससः ॥ १६ ॥  
 वक्त्रलीलां दधद्राष्टमभीष्टं भरताङ्कयम् । षट्खण्डमण्डितं वाङ्महिमबन्मध्यसंश्रितम् ॥ १७ ॥  
 भोगभूभूतभोगादिर्दशाङ्गश्रक्रिणामपि । तत्र तीर्थकृतां वैदयं सिद्धिआघातिसंक्षयात् ॥ १८ ॥  
 तस्मात्ताकलोकान् वरिष्ठं वर्णयते बुधैः । ऐरावतसमं वृद्धिहानिभ्यां परिवर्तनात् ॥ १९ ॥  
 मध्ये तस्य गिरिर्भाति भरताङ्गविभागकृत् । पूर्वापरायतस्तुङ्गो यशोराशिरवोऽञ्जलः ॥ २० ॥  
 स्वर्गलोकजयाज्जालतोषाया वसुधास्त्रियः । पुञ्जीभूतः प्रहासो वा राजते राजताचलः ॥ २१ ॥  
 सफला सर्वदा वृष्टिर्ममोपरि न जानुचिन् । युष्माकमिति शैलेन्द्रान् हसतीव स्वतेजसा ॥ २२ ॥  
 चलस्वभावे कुटिले जलाब्धे जलधिप्रिये । गृहास्यादिति नद्यौ योऽवमीदिति जुगुप्सया ॥ २३ ॥  
 देवविद्याधरैः सेव्यः सदा स्वाश्रयवर्तिभः । सर्वेन्द्रियसुखस्थानमेव चक्रिणमन्वान् ॥ २४ ॥  
 अपाच्यां चक्रवालान्तं पूःश्रेण्यां रथनूपुरम् । सवलाकमिव व्योम कुर्वती तत्र केतुभिः ॥ २५ ॥  
 वेष्टिता रत्नशालेन या पयोधरबुम्बिना । रत्नवेदिकयेवेयं जम्बूद्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥  
 बद्धन्ते यत्र धर्मार्थकामाः संहर्षणादिव । यस्यां दरिद्रशब्दस्य बर्हरङ्गार्थनिहुतिः ॥ २७ ॥

प्रह्लादा त्याग कर भोग प्राप्त करते हो वह तत्त्वधर्म कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्मकथा भी है ॥ १४-१४ ॥ इस प्रसार वक्ता, श्रोता और धर्मकथाके पृथक् पृथक् लक्षण कहें । अब इसके आगे शान्तिनाथ भगवानका विस्तृत चरित्र कहता हूँ ॥ १५ ॥

अथानन्तर—जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है और लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसके वड़े शोभायमान वस्त्र हैं ऐसे जम्बूद्वीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाका धारण करनेवाला, छह खण्डों से सुशोभित, लवणसमुद्र तथा हिमवान् पर्वतके मध्यमें स्थित भरत नामका एक अभीष्ट क्षेत्र है ॥ १६-१७ ॥ वहाँ भोगभूमिमें उत्पन्न होने वाले भोगोंको आदि लेकर चक्रवर्ती दश प्रकारके भोग, तीर्थकरोंका ऐश्वर्य और अघातिया कर्मोंके भयसे प्रकट होनेवाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त होती है इसलिए विद्वान लोग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ कहते हैं । उस क्षेत्रमें ऐरावत क्षेत्रके समान वृद्धि और ह्रासके द्वारा परिवर्तन होता रहता है ॥ १८-१९ ॥ उसके ठीक बीचमें भरतक्षेत्रका आधा विभाग करनेवाला, पूर्वसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयार्थ पर्वत सुशोभित होता है जो कि उज्ज्वल यशके समूहके समान जान पड़ता है ॥ २० ॥ अथवा चाँदीका बना हुआ वह विजयार्थ-पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है ऐसी पृथिवी रूपी स्त्रीका इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो ॥ २१ ॥ हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा सफल होती है और तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार वह पर्वत अपने तेजसे सुमेरु पर्वतोंकी मानो हँसी ही करता रहता है ॥ २२ ॥ ये नदियाँ चञ्चल स्वभाववाली हैं, कुटिल हैं, जलसे ( पश्चिममें जड़-मूर्खोंसे ) आहत-सहित हैं, और जलधि-समुद्र ( पश्चिममें जड़धि-मूर्ख ) को प्रिय हैं इसलिए घृणासे ही मानो उसने गङ्गा-सिन्धु इन दो नदियोंको अपने गृहारूपी मुखसे बमन कर दिया था ॥ २३ ॥ वह पर्वत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंके द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने-अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंसे सदा सेवित था और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान था ॥ २४ ॥ उस विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो अपनी पताकाओंसे आकाशको मानो षलाकाओंसे सहित ही करती रहती है ॥ २५ ॥ वह मेघोंको चूमने वाले रत्नमय कोटसे घिरी हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रत्नकी वेदिकासे घिरी हुई जम्बूद्वीपकी भूमि ही हो ॥ २६ ॥ वहाँ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्षसे बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं

प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यदुर्गमैः । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरैर्यावभासते ॥ २८ ॥  
 अशीलभूषण यत्र न सन्ति कुलयोषितः । वाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचारित्रदेशिकाः ॥ २९ ॥  
 ज्वलनादिजटी तस्याः पतिः खगपतिः कृती । मणीनामिव धाराशिर्गुणिनामाकरोऽभवत् ॥ ३० ॥  
 प्रतापाद्विद्विषो यस्य मन्त्रुर्वाक्यस्य पल्लवाः । वृष्याऽवर्द्धन्त वल्लर्यो वा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥ ३१ ॥  
 तेन स्थाने यथाकालं शालयो वा सुयोजिताः । सामादयः सदोपायाः प्राफलन् बहुभोगतः ॥ ३२ ॥  
 अतीतान् विश्वभूषेशान् सङ्घ्यभेदानिवोत्तरः । गुणस्थानकवृद्धिभ्यां विजित्य स महानभूत् ॥ ३३ ॥  
 उभयायत्तसिद्धित्वाद् दैवपौरुषयोगतः । कोपद्वयव्यपेतत्वात्तन्त्रावापविमर्शनात् ॥ ३४ ॥  
 शक्तिसिद्धयनुगामित्वाद्योगक्षेमसमागमात् । षड्गुणानुगुणत्वाच्च तद्राज्यमुदितोदितम् ॥ ३५ ॥  
 तिलकान्तदिवीत्यासीत्पुरं तत्र महीपतिः । चन्द्राभस्तत्प्रिया नाम्ना सुभद्रेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥  
 वायुवेगाजितानोपवेगिविद्याधराधिप । स्ववेगविद्यया प्रोद्यद्विद्युदुद्योतजिदुद्युतिः ॥ ३७ ॥  
 तस्य त्रिवर्गनिष्पत्तै सा विश्वगुणभूषणा । भूता पुरुषकारस्य सदैवस्येव शैमुषी ॥ ३८ ॥  
 प्रतिपच्चन्द्ररेखेव सा सर्वजनसंस्तुता । द्वितीयेव धरारक्ता भोग्या तेन स्वपौरुषान् ॥ ३९ ॥  
 लक्ष्मीः परिकरस्तस्या व्यधायि विविधाद्विका । तत्प्रेमप्रेरणात्तेन वा लभ्ये न करोति किम् ॥ ४० ॥

दिखाई देता था—सदा लुपा रहता था ॥ २७ ॥ जिस प्रकार अन्य मतावलम्बियोंके लिए दुर्गम—  
 कठिन प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुयोग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थोंकी परीक्षा सुशोभित होती है  
 उसी प्रकार शत्रुओंके लिए दुर्गम—दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोंसे वह नगरी सुशोभित हो  
 रही थी ॥ २८ ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की विद्यामें अचारित्र—असंयमका उपदेश देनेवाले  
 वचन नहीं हैं उसी प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूषणसे रहित कुलवती स्त्रियाँ नहीं थीं ॥ २९ ॥  
 ज्वलनजटी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था और जिस प्रकार मणियोंका  
 आकर—खान समुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्योंका आकर था ॥ ३० ॥ जिस प्रकार सूर्यके  
 प्रतापसे नये पत्ते मुरझा जाते हैं उसी प्रकार उसके प्रतापसे शत्रु मुरझा जाते थे—कान्ति हीन हो  
 जाते थे और जिस प्रकार वर्षासे लताएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उसकी नीतिसे प्रजा सफल  
 होकर बढ़ रही थी ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं  
 उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते  
 थे ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संख्याओंसे बड़ी होती है उसी प्रकार वह राजा  
 पिछले समस्त राजाओंको अपने गुणों और स्थानोंसे जीतकर बड़ा हुआ था ॥ ३३ ॥ उसकी  
 समस्त सिद्धियाँ देव और पुरुषार्थ दोनोंके आधीन थीं, वह मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा  
 आदि बाह्य प्रकृतिके क्रोधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मन्त्र  
 शक्ति और प्रभुत्वशक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होने वाली तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे  
 उसे सदा योग और क्षेमका समागम होता रहता था, साथ ही वह सन्धि विग्रह यान आदि छह  
 गुणोंकी अनुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही रहता था ॥ ३४-३५ ॥

उसी विजयार्थ पर श्रुतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता  
 था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके वायुवेगा नामकी पुत्री थी। उसने अपनी वेग  
 विद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओंको जीत लिया था। उसकी कान्ति चमकती हुई  
 बिजलीके प्रकाशको जीतने वाली थी ॥ ३६-३७ ॥ जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्यकी  
 बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित वह वायुवेगा  
 राजा ज्वलनजटीकी त्रिवर्गसिद्धिका कारण हुई थी ॥ ३८ ॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके समान  
 वह सब मनुष्योंके द्वारा स्तुत्य थी। तथा अनुरागसे भरी हुई द्वितीय भूमिके समान वह अपने  
 ही पुरुषार्थसे राजा ज्वलनके भोगने योग्य हुई थी ॥ ३९ ॥ वायुवेगाके प्रेमकी प्रेरणासे ज्वलन-

कौलीन्यादनुरक्तत्वादभूत्सैकपतिः सती । भूपतेश्चैकभार्यत्वं प्रेमाधिभ्याजगुर्जनाः ॥ ४१ ॥  
रूपादिगुणसम्पत्तिस्तस्याः किं कथ्यते पृथक् । तस्य चेच्छक्रवच्छक्र्यां तस्यां प्रीतिरमानुषी ॥ ४२ ॥  
दयावबोधयोर्मोक्ष इव सूनुस्तयोरभूत् । अर्ककीर्तिः स्वकीत्याभाप्रभासितजगत्त्रयः<sup>१</sup> ॥ ४३ ॥  
नीतिविक्रमयोर्लक्ष्मीरिव सर्वमनोहरा । स्वयम्प्रभाभिधानाऽऽसीत्प्रभेव विधुना सह ॥ ४४ ॥  
मुखेनाम्भोजमक्षिभ्यामुत्पलं मणिदर्पणम् । त्विषा कान्त्या विधुं जित्वा बभौ सा भूपताकया ॥ ४५ ॥  
उत्पन्नं यौवनं तस्यां लतिकायां प्रसूनवत् । खगकामिषु पुष्पेषुज्वरश्रोत्रापातस्तया ॥ ४६ ॥  
आपाण्डुगण्डभाभासिवक्त्रलोलविलोचना । मध्याङ्गकार्यसम्भूतसम्भ्रान्त्येव स्वयम्प्रभा ॥ ४७ ॥  
तन्भ्या रोमावलीं तन्वीं हरिनीलरुचिर्व्यभात् । आरुरुक्षुरिवोद्धत्या तुङ्गपीनघनस्तनी ॥ ४८ ॥  
अनालीढमनोजापि व्यक्ततद्विक्रियेव सा । सम्पन्नयौवनेनैव जनानामगमदृशम् ॥ ४९ ॥  
अथान्येद्युर्जगन्नन्दनाभिनन्दनचारणौ । स्थितौ मनोहराद्याने ज्ञात्वा पतिनिवेदकात् ॥ ५० ॥  
चतुरङ्गलोपेतः सपुत्रोऽन्तःपुरादृतः । गत्वाभिवन्द्य सद्धर्मश्रवणानन्तरं परम् ॥ ५१ ॥  
सम्यग्दर्शनमादाय दानशीलादि वादरात् । प्रणम्य चारणौ भक्त्या प्रत्येत्य प्राविशत्पुरम् ॥ ५२ ॥  
स्वयम्प्रभापि सद्धर्मं तत्रादायैकदा मुदा । पर्वोपवासप्रम्लानतनुरभ्यर्च्यं वार्हतः ॥ ५३ ॥

जटीने अनेक ऋद्धियोसे युक्त राजलक्ष्मीको उसका परिकर-दासी बना दिया था सो ठीक ही है क्योंकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥ ४० ॥ बड़े कुलमें उत्पन्न होनेसे तथा अनुरागसे युक्त होनेके कारण उस पतिव्रताके एक पतिव्रत था और प्रेमकी अधिकतासे उस राजाके एकपत्नीव्रत था ऐसा लोग कहते हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है उसी प्रकार उसमें ज्वलनजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोंका पृथक् पृथक् क्या वर्णन किया जावे ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार दया और सम्यग्ज्ञानके मोक्ष होता है उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीर्तिकी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाला अर्ककीर्तिके नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार नीति और पराक्रमके लक्ष्मी होती हैं उसी प्रकार उन दोनोंके सबका मन हरनेवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई जो अर्ककीर्तिके साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा बढ़ती है ॥ ४४ ॥ वह मुखसे कमलको, नेत्रोंसे उत्पलको, आभासे मणिमय दर्पणको और कान्तिसे चन्द्रमाको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भौंहरूप पताका ही फहरा रही हो ॥ ४५ ॥ लतामें फूलके समान ज्योंही उसके शरीरमें यौवन उत्पन्न हुआ त्योंही उसने कामी विद्याधरोंमें कामज्वर उत्पन्न कर दिया ॥ ४६ ॥ कुछ कुछ पीले और सफेद कपालोंकी कान्तिसे सुशोभित मुखमण्डल पर उसके नेत्र बड़े चञ्चल हो रहे थे जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमरको पतली देख उसके दूट जानेके भयसे ही नेत्रोंको चञ्चल कर रही हो ॥ ४७ ॥ उस दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील मणि के समान कान्तिवाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उछलकर ऊँच स्थूल और निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो ॥ ४८ ॥ यद्यपि कामदेवने उसका स्पर्श नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए यौवनसे ही वह कामदेवके विकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंके दृष्टिगोचर हो रही थी ॥ ४९ ॥

अथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन और नाभिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनके आगमनकी खबर देनेवाले वनपालसे यह समाचार जानकर राजा चतुरङ्ग सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनके समीप गया । वहाँ वन्दना कर उसने श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यग्दर्शन तथा दान शील आदि व्रत ग्रहण किये, तदनन्तर भक्तिपूर्वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंको प्रमाण कर वह नगरमें वापिस आ गया ॥ ५०-५२ ॥ स्वयंप्रभाने भी वहाँ समीचीन धर्म ग्रहण किया । एक दिन उसने पर्वके समय

तत्पादपङ्कजदलेषापवित्रां पापहां नृजम् । चित्रां पित्रेऽदित द्वाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥ ५३ ॥  
 तामादाय महीनाथो भक्त्यापश्यत्स्वयम्प्रभाम् । उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसर्ज्य ताम् ॥ ५५ ॥  
 यौवनापूर्णसर्वाङ्गरमणीया प्रियात्मजा । कस्मै देयेयमित्येवमात्मन्येव वितर्कयन् ॥ ५६ ॥  
 'मन्त्रिवर्गं समाहूय प्रस्तुतार्थं न्यवेदयत् । श्रुत्वा तत्सुश्रुतः प्राह परीक्षयात्मनि निश्चितम् ॥ ५७ ॥  
 अमुस्मिन्नुत्तरश्रेण्यामलकाख्यापुरेशितुः । मयूरग्रीवसंज्ञस्य प्रिया नीलाञ्जना तयोः ॥ ५८ ॥  
 अश्वग्रीवांऽग्रिमो नीलरथः कण्ठान्तनीलसु । वज्राख्याताख्यः सर्वेऽप्यभूवन् पञ्च सूनवः ॥ ५९ ॥  
 अश्वग्रीवस्य कनकचित्रा देवी सुतास्तयोः । ते ग्रीवाङ्गदचूडान्तरत्ना रत्नरथादिभिः ॥ ६० ॥  
 शतानि पञ्च मन्त्रस्य हरिश्मश्रुः श्रुताञ्जुधिः । शतबिन्दुश्च नैमित्तिकोऽप्टाङ्गनिपुणो महान् ॥ ६१ ॥  
 इति सम्पूर्णराज्याय खगश्रेणीद्वयेशिने । अश्वग्रीवाय दातव्या कन्येत्येतद्विचारयन् ॥ ६२ ॥  
 अस्येव सुश्रुताख्यातं सर्वमित्यवनीपतिम् । इदं बहुश्रुतोऽवोचदुत्तरं स्वमनांगतम् ॥ ६३ ॥  
 स्वाभिजात्यमरोगत्वं वयः शीलं श्रुतं वपुः । लक्ष्मीः पक्षः परिवारो वरं नव गुणाः स्मृताः ॥ ६४ ॥  
 अश्वग्रीवे त एतेऽपि सन्ति किन्तु वयोऽधिकम् । तस्मात्कोऽपि वरोऽन्योऽस्तु सवयास्तद्गुणान्वितः ॥ ६५ ॥  
 राजा सिंहरथः ख्यातः पुरे गगनबल्लभे । परः पद्मरथो मेघपुरे चित्रपुराधिराट् ॥ ६६ ॥  
 अरिञ्जयाख्यस्त्रिपुरे खगेशो ललिताङ्गदः । कनकादिरथो विद्याकुशलः श्वपुरेश्वरः ॥ ६७ ॥  
 महारत्नपुरे विश्वखगार्थाशो धनञ्जयः । कन्यैत्वेकतमायेयं दानव्येति विनिश्चितम् ॥ ६८ ॥  
 अवधार्य वचस्तस्य विचार्य श्रुतसागरः । स्मृतिचक्षुरिमां वाचं व्याजहार मनोहराम् ॥ ६९ ॥

उपवास किया जिससे उसका शरीर कुछ म्लान हो गया । उसने अर्हन्त भगवान्की पूजा की तथा उनके चरण-कमलोंके संपर्कमें पवित्र पापहारिणी विचित्र माला धिनयसे भुक्कर दोनों हाथोंसे पिताके लिए दी ॥ ५३-५४ ॥ राजाने भक्ति पूर्वक वह माला ले ली और उपवासमें थकी हुई स्वयंप्रभाकी ओर देख, 'जाओ पारण करो' यह कर उसे विदा किया ॥ ५५ ॥ पुत्रीके चले जाने पर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवनमें परिपूर्ण समस्त अङ्गोंसे सुन्दर है ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिये ॥ ५६ ॥ उसने उसी समय मन्त्रिवर्गको बुलाकर प्रकृत बात कही, उसे सुनकर सुश्रुत नामका मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्चय कर बोला ॥ ५७ ॥ कि इसी विजयार्थकी उत्तर श्रेणीमें अलका नगरीके राजा मयूरग्रीव हैं, उनकी स्त्रीका नाम नीलाञ्जना है, उन दोनोंके अश्वग्रीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, मुकुण्ठ और वज्रकण्ठ नामके पाँच पुत्र हैं । इनमें अश्वग्रीव सबसे बड़ा है ॥ ५८-५९ ॥ अश्वग्रीवकी स्त्रीका नाम कनकचित्रा है उन दोनोंके रत्न-ग्रीव, रत्नाङ्गद, रत्नचूड तथा रत्नरथ आदि पाँच सौ पुत्र हैं । शास्त्रज्ञानका सागर हरिश्मश्रु इसका मंत्री है तथा शतबिन्दु निमित्तज्ञानी है—पुराहित है जो कि अप्टाङ्ग निमित्तज्ञानमें अतिशय निपुण है ॥ ६०-६१ ॥ इस प्रकार अश्वग्रीव सम्पूर्ण राज्यका अधिपति है और दोनों श्रेणियोंका स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिये ॥ ६२ ॥ इसके बाद सुश्रुत मंत्रीके द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री राजासे अपने हृदयकी बात कहने लगा । वह बोला कि सुश्रुत मंत्रीने जो कुछ कहा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नाङ्कित बात विचारणीय है । कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रुत, शरीर, लक्ष्मी, पक्ष और परिवार, वर के ये नौ गुण कहे गये हैं । अश्वग्रीवमें यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्याके समान हो और गुण अश्वग्रीवके समान हों, खोजना चाहिये ॥ ६३-६५ ॥ गगनबल्लभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता है, चित्रपुरका स्वामी अरिञ्जय है । त्रिपुरनगरमें विद्याधरोका राजा ललिताङ्गद रहता है, अश्व-पुरका राजा कनकरथ विश्वामें अत्यन्त कुशल है, और महारत्नपुरका राजा धनञ्जय समस्त विश्वाधरोका स्वामी है । इनमेंसे किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिये यह निश्चय है ॥ ६६-६८ ॥ बहुश्रुतके

कुलारोग्यवयोरूपाद्युपैताय यदीष्यते । दातुं कन्या मया किञ्चिदुच्यते श्रूयतां मनाक् ॥ ७० ॥  
 पुरं सुरेन्द्रकान्तारमुदकक्षेत्र्यां तदीश्वरः । मेघवाहननामास्य प्रियाभून्मेघमालिनी ॥ ७१ ॥  
 तयोर्विद्युत्प्रभः सूनुज्योतिर्मालामला सुता । खगाधीशो ननन्दाभ्यामिवायेन धिया च सः ॥ ७२ ॥  
 सिद्धकूटमगास्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तत्र दृष्ट्वाऽर्वाधज्ञानं वरधर्माख्यचारणम् ॥ ७३ ॥  
 वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्य स्वसूनोः प्राक्तनं भवम् । पप्रच्छ शृणु विद्याभृत्प्रणिधायेति सोऽब्रवीत् ॥ ७४ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । पुरी प्रभाकरो राजा नन्दनः सुन्दराकृतिः ॥ ७५ ॥  
 सूनुविजयभद्रोऽस्य जयसेनोदरोदितः । सोऽन्यदा फलितं चूतं वने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥  
 विफलं तत्समुद्भूतवैराग्यः पिहिताश्रवात् । गुरो सहस्रैर्भूपालैश्चतुभिः संयमं ययौ ॥ ७७ ॥  
 प्रान्ते माहेन्द्रकल्पेऽभूद्भिमाने चक्रकाङ्क्षये । सप्ताब्धिजीवितो दिव्यभोगास्तत्रान्वभूश्चिरम् ॥ ७८ ॥  
 ततः प्रच्युत्य सूनुस्तेऽजायतार्यं प्रयाति च । निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छूतम् ॥ ७९ ॥  
 तस्मै वरगुणैः सर्वैः पूर्णायैयं प्रदीयताम् । ज्योतिर्मालां च गृहणीम सपुण्यामर्ककीर्तये ॥ ८० ॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा सुमतिर्मन्त्रितमः । कन्यां सप्रार्थयन्तेऽमी खगाधीशाः पृथक् पृथक् ॥ ८१ ॥  
 तस्मान्नास्मै प्रदातव्या बहुवैरं भवेत्ततः । स्वयंवरविधिः श्रेयानित्युक्त्वा विरराम सः ॥ ८२ ॥  
 तदेवानुमतं सर्वैस्ततः सम्पूज्य मन्त्रिणः । विसर्ज्य खेचराधीशः सम्भिन्नश्रोतृसंज्ञकम् ॥ ८३ ॥

वचन हृदयमें धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेत्रको धारण करनेवाला श्रुत नामका तीसरा मन्त्री निम्नाङ्कित मनोहर वचन कहने लगा ॥ ६६ ॥ यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप आदिसे सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हों तो मैं कुछ कहता हूँ उसे थोड़ा मुनिये ॥ ७० ॥

इसी विजयार्थ पर्यन्तकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका नाम मेघवाहन है । उसके मेघमालिनी नामकी वल्लभा है । उन दोनोंके विद्युत्प्रभ नामका पुत्र और ज्योतिर्माला नामकी निर्मल पुत्री हैं । खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा समृद्धिमान-सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और मुनुद्धिसे होता है । अर्थात् पुत्र पुण्यके समान था और पुत्री वृद्धिके समान थी ॥ ७१-७२ ॥ किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट गया था । वहाँ वरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारणश्रद्धिधारी मुनिकी वन्दना कर उसने पहले तो धर्मका स्वरूप सुना और बादमें अपने पुत्रके पूर्व भव पूछे । मुनिने कहा कि हे विद्याधर ! चित्त-लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ ॥ ७३-७४ ॥

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है वहाँ सुन्दर आकार वाला नन्दन नामका राजा राज्य करता था ॥ ७५ ॥ जयसेना स्त्रीके उदरसे उत्पन्न हुआ विजयभद्र नामका इसका पुत्र था । उस विजयभद्रने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान-में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्षको फलरहित देखा । यह देख उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहितान्त्रव गुरुसे चार हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ७६-७७ ॥ आयुके अन्तमें माहेन्द्र स्वर्गके चक्रक नामक विमानमें सातसागर की आयु-बाला देव हुआ । वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभोग करता रहा ॥ ७८ ॥ वहाँसे च्युत-होकर यह तुम्हारा पुत्र हुआ है और इसी भवसे निर्वाणको प्राप्त होगा । श्रुतसागर मन्त्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें वटधर्म नामक चारण मुनिके पास गया था वहीं यह सव मैंने सुना है ॥ ७९ ॥ इस प्रकार विद्युत्प्रभ वरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी बहिन ज्योतिर्मालाको हमलोग अर्ककीर्तिके लिए स्वीकृत करें ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रुतसागरके वचन सुनकर विद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमति नामका मन्त्री बोला कि इस कन्याको पृथक्-पृथक् अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्युत्प्रभको कन्या नहीं देनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे बहुत राजाओंके साथ वैर हो जानेकी सम्भावना है मेरी समझसे तो स्वयंवर करना ठीक होगा । ऐसा कहकर वह चुप हो गया ॥ ८१-८२ ॥ सब लोगोंने यही बात स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सव मन्त्रियोंको विदा कर दिया और संभिन्नश्रोतृ नामक

स्वयंप्रभायाः कश्चेतोवल्लभो भवतेति तम् । अपृच्छत् स पुराणार्थवेदीर्थं प्रत्युवाच तम् ॥ ८४ ॥  
 गुरुः प्रथमचक्रेशं प्राक्पुराणनिरूपणे । आदिकेशवसम्बद्धमित्यवोचत्कथान्तरम् ॥ ८५ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् पुष्कलावत्यां विषये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्यां मधुके वने ॥ ८६ ॥  
 पुरुरवा वनाधीशो मार्गभ्रष्टस्य दर्शनात् । मुनेः सागरसेनस्य पथः सञ्चितपुण्यकः ॥ ८७ ॥  
 मद्यमांसनिवृत्तेः कृतसौधर्मसम्भवः । ततः प्रच्युत्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ८८ ॥  
 मरीचिरेष दुर्मागंदिशनानिरतश्चिरम् । भान्त्वा संसारचक्रेऽस्मिन् सुरम्यविषये पुरम् ॥ ८९ ॥  
 पोदनाकथं पतिस्तस्य प्रजापतिमहानृपः । स तनूजो मृगावत्यां त्रिपृष्टोऽस्य भविष्यति ॥ ९० ॥  
 अग्रजोऽस्यैव भद्राया विजयो भविता सुतः । तावेतौ श्रेयसस्तीर्थे हत्वाऽश्वग्रीवविद्विषम् ॥ ९१ ॥  
 त्रिखण्डराज्यभागेशौ प्रथमौ बलकेशवौ । त्रिपृष्टः संसृतौ भान्त्वा भावी तीर्थकरोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥  
 भवतोऽपि नमः कच्छसुतस्यान्वयसम्भवात् । वंशजे नास्ति सम्बन्धस्तेन बाहुबलीशितुः ॥ ९३ ॥  
 त्रिपृष्टाय प्रदातव्या त्रिखण्डश्रीसुखेशिने । भस्तु तस्य मनोहर्त्री कन्या कल्याणभागिनी ॥ ९४ ॥  
 तेनैव भवतो भावि विश्वविद्याधरेशिता । निश्चित्येतदनुष्ठेयमादितीर्थकरोदितम् ॥ ९५ ॥  
 इति तद्वचनं चित्ते विधाय तमसौ मुदा । नैमित्तिकं समाप्य रथनूपुरभूपतिः ॥ ९६ ॥  
 सुदूतमिन्दुनामानं सुलेखोपायान्वितम् । प्रजापतिमहाराजं प्रतिसम्प्राहिणोत्तदा ॥ ९७ ॥  
 स्वयंप्रभापतिर्भावी त्रिपृष्ट इति भूपतिः । नैमित्तिकाद्विदित्वैतजयगुप्तपुरैव सः ॥ ९८ ॥  
 खचराधिपदूतं खादवतीर्णं महोत्सवः । प्रतिगृह्य ससन्मानं वने पुष्पकरण्डके ॥ ९९ ॥

निमित्तज्ञानीसे पूछा कि स्वयंप्रभाका हृदयवल्लभ कौन होगा ? पुराणोंके अर्थको जाननेवाले निमित्त-  
 ज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ८३-८४ ॥ वह कहने लगा कि भगवान् ऋषभदेयने  
 पहले पुराणोंका वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्तीसे, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा  
 कही थी । जो इस प्रकार है—

इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी  
 नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरुरवा नामका भीलोंका राजा रहता था । किसी एक दिन  
 मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दर्शन कर उसने मार्गमें ही पुण्यका  
 संचय किया तथा मद्य मांस मधुका त्याग कर दिया । इस पुण्यके प्रभावसे वह सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न  
 हुआ और वहांसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी रानीके मरीचि नामका पुत्र हुआ है । यह  
 मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर  
 सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराजकी मृगावती रानीसे त्रिपृष्ट नामका पुत्र  
 होगा ॥ ८५-८६ ॥ उन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी भद्राके एक विजय नामका पुत्र होगा जो  
 कि त्रिपृष्टका बड़ा भाई होगा । ये दोनों भाई श्रेयान्सनाथ तीर्थकरके तीर्थमें अश्वग्रीव नामक शत्रुको  
 मार कर तीन खण्डके स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे । त्रिपृष्ट संसारमें भ्रमण  
 कर अन्तिम तीर्थकर होगा ॥ ८७-८८ ॥ आपका भी जन्म राजा कच्छके पुत्र नमिके वंशमें हुआ है  
 अतः बाहुबली स्वामीके वंशमें उत्पन्न होनेवाले उस त्रिपृष्टके साथ आपका सम्बन्ध है ही ॥ ८९ ॥  
 इसलिए तीन खण्डकी लक्ष्मी और सुखके स्वामी त्रिपृष्टके लिए यह कन्या देनी चाहिये, यह कल्याण  
 करने वाली कन्या उसका मन हरण करनेवाली हो ॥ ९० ॥ त्रिपृष्टको कन्या देनेसे आप भी समस्त  
 विद्याधरोंके स्वामी हो जावेंगे इसलिए भगवान् आदिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निश्चय कर  
 आपको यह अवश्य ही करना चाहिये ॥ ९१ ॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानीके वचनों की हृदयमें  
 धारण कर रथनूपुर नगरके राजाने बड़े हर्षसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजाकी ॥ ९२ ॥ और उसी  
 समय उत्तम लेख और भेंटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापति महाराजके पास भेजा ॥ ९३ ॥  
 'यह त्रिपृष्ट स्वयंप्रभाका पति होगा' यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानीसे  
 पहले ही जान ली थी इसलिये उसने आकाशसे उतरते हुए विद्याधरराजके दूतका, पुष्पकरण्डक

स दूतो राजगोहं स्वं स्वयंविश्य सभागृहे । निजासने समासीनः प्राभृतं सचिवापितम् ॥ १०० ॥  
 विलोक्य रागाद् भूयेन स्वानुरागः समर्पितः । प्राभृतेनैव तुष्टाः स्म इति दूतं प्रतोषयन् ॥ १०१ ॥  
 श्रीत्रिपृष्ठः कुमारानां वरिष्ठः कन्ययाऽनया । स्वयम्प्रभाल्यया लक्ष्म्येवाद्यालकृत्क्रियतामिति ॥ १०२ ॥  
 श्रुत्वा यथार्थमस्याविभूतद्विगुणसम्मदः । वाचिकं च समाकर्ण्य भुजाप्राक्रान्तमस्तकः ॥ १०३ ॥  
 स्वयमेव खगाधीशः स्वजामातुर्महोदयम् । इमं विधातुमन्यञ्च सचिन्तस्तत्र के वयम् ॥ १०४ ॥  
 इति दूतं तदायातं कार्यसिद्धया प्रसाधयन् । प्रपूज्य प्रतिदत्तं च प्रदायाश्च व्यसर्जयत् ॥ १०५ ॥  
 स दूतः सत्वरं गन्वा रथनूपुरनायकम् । प्राप्य प्रणम्य कल्याणकार्यसिद्धिं व्यजिज्ञपत् ॥ १०६ ॥  
 तच्छ्रुत्वा खेधराधीशः प्रप्रमोदप्रचोदितः । न कालहरणं कार्यमिति कन्यासमन्वितः ॥ १०७ ॥  
 महाविभूत्या सम्प्राप्य नगरं पोदनाह्वयम् । उद्बद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छदमुत्सुकम् ॥ १०८ ॥  
 केतुमालाचलहोभिराह्वयद्रातिसम्भ्रमात् । प्रतिपातः स्वसम्पत्त्या महीशः प्राविशान्मुदा ॥ १०९ ॥  
 प्रविश्य स्वोचितस्थाने तेनैव विनिवेशितः । प्राप्तप्रापूर्णाकाचारप्रसन्नहृदयाननः ॥ ११० ॥  
 विवाहोचितविन्यासैस्तपिताशेषभूतलः । स्वयम्प्रभां प्रभां वान्यां त्रिपृष्ठाय प्रदाय ताम् ॥ १११ ॥  
 सिंहाहिविद्विद्वाहिन्यौ विद्ये साधयितुं ददौ । ते तत्र सर्वे सम्भूय व्यगाहन्त सुखाम्बुधिम् ॥ ११२ ॥  
 इतोऽश्वग्रीवचक्रेशो विनाशपिशुनः पुरे । उत्पातस्त्रिविधः प्रोक्तः सद्यः सममुद्युयौ ॥ ११३ ॥  
 अभूतपूर्वं तं दृष्ट्वा सहसा भीतिमान् जनः । पल्योपमाष्टभागावशेषे वा भोगभूभुवः ॥ ११४ ॥

नामके वनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥ ६८-६९ ॥ महाराज उस दूतके साथ अपने राजभवनमें प्रविष्ट होकर जब सभागृहमें राजसिंहासन पर विराजमान हुए तब मन्त्रीने दूतके द्वारा लाई हुई भेंट समर्पित की । राजाने उस भेंटको बड़े प्रेमसे देखकर अपना अनुराग प्रकट किया और दूतको सन्तुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंटसे ही सन्तुष्ट हो गये ॥ १००-१०१ ॥ तदनन्तर दूतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान् त्रिपृष्ठ समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ है अतः इसे लक्ष्मीके समान स्वयम्प्रभा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जावे । इस यथार्थ सन्देशको सुनकर प्रजापति महाराजका हर्ष दुगुना हो गया । वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरोंके राजा स्वयं ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित हैं तब हमलोग क्या चीज हैं ? ॥ १०२-१०४ ॥ इस प्रकार उस समय आये हुए दूतको महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदलेकी भेंट देकर शीघ्र ही विदा कर दिया ॥ १०५ ॥ वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रथनूपुरनगरके राजाके पास पहुँचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होनेकी खबर दी ॥ १०६ ॥ यह सुनकर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हर्षसे प्रेरित हुआ और सोचने लगा कि 'इस कार्यमें विलम्ब करना योग्य नहीं है' यह विचार कर वह कन्या सहित बड़े ठाट-बाटसे पोडनपुर पहुँचा । उस समय उस नगरमें जगह-जगह तोरण बांधे गये थे, चन्दनका छिड़काव किया था, सब जगह उत्सुकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी, और पताकाओंकी पंक्ति रूप चञ्चल भुजाओंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो । महाराज प्रजापतिने अपनी सम्पत्तिके अनुसार उसकी अगवानी की । इस प्रकार उसने बड़े हर्षसे नगरमें प्रवेश किया ॥ १०७-१०९ ॥ प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठहराया और पाहुनेके योग्य उसका सत्कार किया । इस सत्कारसे उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गये ॥ ११० ॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त पृथिवी तलको सन्तुष्ट किया और दूसरी प्रभाके समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रिपृष्ठके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहाहिनी और गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ दीं । इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने लगे ॥ १११-११२ ॥ इधर अश्वग्रीव प्रतिनारायणके नगरमें विनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारके उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ हाने लगे ॥ ११३ ॥ जिस प्रकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका

अश्वघ्रीवश्च सम्भ्रान्तः समन्त्रं पृष्टवान् पृथक् । शतबिन्दुं निमित्तिज्ञं किमेतदिति तत्फलम् ॥ ११५ ॥  
 येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे रूढपराक्रमः । अहारि प्राभृतं येन त्वां प्रति प्रहितं हठात् ॥ ११६ ॥  
 रथनूपुरनाथेन भवद्योग्यं प्रदायि च । यस्मै खीरत्नमेतस्मात्संक्षोभस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥  
 तत्सूचकमिदं सर्वं कुर्वंतस्य<sup>१</sup> प्रतिक्रियाम् । इति नैमित्तिकेनोक्तं कृत्वा हृदि खगाधिपः ॥ ११८ ॥  
 अरेर्गदस्य चात्मज्ञः प्रादुर्भावनिषेधनम् । विदधाति तदस्याभिविस्मृतं सम्प्रयैर्बुधा ॥ ११९ ॥  
 हृदानीमप्यसौ दृष्टो युष्माभिरविलम्बितम् । विषाङ्कुरवदुच्छेद्य इत्यवादीत्स्वमन्त्रिणः ॥ १२० ॥  
 तेऽपि तत्सर्वमन्विष्य स्वगूढप्रहितैश्वरैः । नैमित्तिकोक्तं निश्चिन्य तस्य सिंहवधादिकम् ॥ १२१ ॥  
 त्रिपृष्ठो नाम दपिष्ठः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीशानाक्रम्य विक्रमाद्विजिगीषते ॥ १२२ ॥  
 परीक्षितव्यः सोऽस्मासु कीदृश इति दक्षिणैः । दूतैरिति खगाधीशमवाचन्मन्त्रिणः पृथक् ॥ १२३ ॥  
 तदाकर्ण्य तदैवासौ चिन्तागतिमनोगती । दूतौ सम्प्रेषयामास त्रिपृष्ठं प्रति विद्वरौ ॥ १२४ ॥  
 गत्वा तौ स्वागतिं पूर्वं निवेद्यानुमतौ नृपम् । दृष्ट्वा यथोचितं दत्त्वा प्राभृतं विनयान्वितौ ॥ १२५ ॥  
 अश्वघ्रीवेण देवेन त्वमद्याज्ञापितोऽस्यहम् । रथावर्त्ताद्रिमेप्यामि तमायातु भवानिति ॥ १२६ ॥  
 आवां त्वामागतौ नेतुमाज्ञामारोप्य मस्तकम् । आगन्तव्यं त्वयेत्युच्चैरूचतुः सोऽपि कौपवान् ॥ १२७ ॥  
 अश्वघ्रीवाः खरघ्रीवाः क्रौञ्चघ्रीवास्तथापरे । दृष्ट्वाः क्रमेलकघ्रीवा नापूर्वो नः<sup>२</sup> स पश्यताम् ॥ १२८ ॥  
 इत्याह तौ च किं युक्तमवमन्तुं खगेश्वरम् । विश्वरूपसमभ्यर्च्य तं भवत्पक्षपातिनम् ॥ १२९ ॥

आठवाँ भाग बाकी रहने पर नई नई बातोंको देखकर भागभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातोंको देखकर वहाँके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥ ११४ ॥ अश्वघ्रीव भी घबड़ा गया । उसने सलाह कर एकान्तमें शतबिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे 'यह क्या है ?' इन शब्दों द्वारा उनका फल पूछा ॥ ११५ ॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजा हुआ भेंट जवर्दस्ती छीन ली और रथनूपुर नगरके राजा ज्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य खीरत्न दे दिया है उसमें आपको क्षोभ होगा ॥ ११६-११७ ॥ ये सब उत्पात उसीके सूचक हैं । तुम इसका प्रतिकार करो । इस प्रकार निमित्तज्ञानीके द्वारा कही बातको हृदयमें रखकर अश्वघ्रीव अपने मन्त्रियोंसे कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोगको उत्पन्न होने ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यर्थ ही अहंकारी रहकर यह बात मुला दी ११८-११९ ॥ अब भी यह दुष्ट आप लोगोंके द्वारा त्रिपके अंकुरके समान शीघ्र ही छेदन कर देनेके योग्य है ॥ १२० ॥ उन मन्त्रियोंने भी गुप्त रूपसे भेजे हुए दूतोंके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली और निमित्तज्ञानीने जिन सिंहवध आदिकी बातें कही थीं उन सबका पता चला कर निश्चय कर लिया कि इस पृथिवी पर प्रजापतिका पुत्र त्रिपृष्ठ ही बड़ा अहंकारी है । वह अपने पराक्रमसे सब राजाओं पर आक्रमणकर उन्हें जीतना चाहता है ॥ १२१-१२२ ॥ वह हम लोगोंके त्रिपयमें कैसा है ?—अनुकूल प्रतिकूल कैसे विचार रखता है इस प्रकार सरल चित्त—निष्कपट दूत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये' मन्त्रियोंने ऐसा पृथक्-पृथक् राजासे कहा ॥ १२३ ॥ उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्तागति और मनोगति नामके दो विद्वान् दूत त्रिपृष्ठके पास भेजे ॥ १२४ ॥ उन दूतोंने जाकर पहले अपने आनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर यथा योग्य भेंट दी ॥ १२५ ॥ फिर कहने लगे कि राजा अश्वघ्रीवने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि मैं रथावर्त्त नामके पर्वत पर जाता हूँ आप भी आइये ॥ १२६ ॥ हम दोनों तुम्हें लेनेके लिए आये हैं । आपको उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिये । ऐसा उन दोनोंने जोरसे कहा । यह सुनकर त्रिपृष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ और वहने लगा कि अश्वघ्रीव ( घोड़े जैसी गर्दनवाले ) खरघ्रीव, ( गधे जैसी गर्दन वाले ) क्रौञ्चघ्रीव ( क्रौञ्च पक्षी जैसे गर्दन वाले ) और क्रमेलक घ्रीव ( ऊँट जैसी गर्दनवाले ) ये सब मैंने देखे हैं । हमारे लिए वह अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे ॥ १२७-१२८ ॥ जब वह त्रिपृष्ठ कह चुका तब दूतोंने फिरसे कहा कि वह अश्वघ्रीव सब विद्याधरोंका स्वामी है, सबके



हत्याहतुः स्वगेशोऽस्तु पक्षपाती न वार्यते । नाहमेष्यामि तं द्रष्टुमिति प्रत्यब्रवीदसौ ॥ १३० ॥  
 द्वापादिदं न वक्तव्यमदृष्ट्वा चक्रवर्तिनम् । देहेऽपि न स्थितिर्भूमौ कः पुनः स्यातुमर्हति ॥ १३१ ॥  
 इति श्रुत्वा वचो राज्ञा तयोश्चक्रेण वर्तितुम् । शीलोऽसौ किं घटादीनां कारकः कारकाग्रणीः ॥ १३२ ॥  
 तस्य किं प्रेक्ष्यमिष्युक्तौ तौ सकोपावबोचताम् । कन्यारत्नमिदं चक्रिभोग्यं किं तेऽद्य जीर्यते ॥ १३३ ॥  
 रथनूपुरराजाऽसौ ज्वलनादिजटी कथम् । प्रजापतिश्च नामापि सन्धत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३४ ॥  
 इति सद्यस्ततो दूतौ निरपत्य<sup>१</sup> द्रुतगामिनौ । प्राप्याश्वघ्रीवमानस्य प्रोचतुस्तद्विजृम्भणम् ॥ १३५ ॥  
 स्वगेशरोऽपि तत्क्षन्तुमक्षमो रूक्षवीक्षणः । भेरीमास्फालयामास रणप्रारम्भसूचिनीम् ॥ १३६ ॥  
 तदध्वनिष्यां पदिक्प्रान्तान् हत्वा दिग्दन्तिनां मदम् । चक्रवर्तिनि संकुद्धे महान्तः के न विभ्यति ॥ १३७ ॥  
 चतुरङ्गबलेनासौ रथावर्तमगान् गिरिम् । पेतुरुल्काश्चालैला दिक्षु दाहा जजृम्भरं ॥ १३८ ॥  
 प्रजापतिसुतौ चैतद्विदित्वा विततौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापभिस्मितनारीन्धनोच्चयौ ॥ १३९ ॥  
 उभयोः सेनयांस्तत्र संग्रामः समभून्महान् । समक्षयात्तयोः प्रापदन्तकः समवर्तिताम् ॥ १४० ॥  
 युद्ध्वा चिरं पदातीनां वृथा किं क्रियते क्षयः । इति त्रिप्रष्टो युद्धार्थमभ्यश्वघ्रीवमेयिवान् ॥ १४१ ॥  
 हयघ्रीवांऽपि जन्मान्तरानुबद्धोरुर्वैरतः । आच्छादयदतिशुद्धः शरवर्षैर्विरोधिनम् ॥ १४२ ॥  
 द्रुहयुद्धेन तौ जेतुमक्षमाचिनरेतरम् । मायायुद्धं समारब्धौ महाविद्याबलोद्धतौ ॥ १४३ ॥  
 युद्ध्वा चिरं हयघ्रीवश्चक्रं न्यक्षिपदभ्यरिम् । तदैवादाय तद्घ्रीवामच्छिदन् केशवः क्रुधा ॥ १४४ ॥

द्वारा पूजनीय है और आपका पक्ष करता है, इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है ॥ १२६ ॥ यह सुनकर त्रिप्रष्टने कहा कि वह स्वर्ग अर्थान् पक्षियोंका ईश है—स्वामी है, इसलिए पक्ष अर्थान् पंखोंमें चले इसके लिए मनाई नहीं है परन्तु मैं उसे देखनेके लिए नहीं जाऊंगा ॥ १३० ॥ यह सुनकर दूतोंने फिर कहा कि अहंकारसे ऐसा नहीं कहना चाहिये। चक्रवर्तीके देखे बिना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥ १३१ ॥ दूतोंके वचन सुनकर त्रिप्रष्टने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्या वह घट आदिको बनाने वाला ( कुम्भकार ) कर्ता कारक है, उसका क्या देखना है ? यह सुनकर दूतोंको क्रोध आ गया। वे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्न जो कि चक्रवर्तीके भोगने योग्य है क्या अब तुम्हें हजम हो जावेगा ? और चक्रवर्तीके कुपित होने पर रथनूपुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा। इतना कह वे द्रुत वहाँसे शीघ्र ही निकल कर अश्वघ्रीवके पास पहुँचे और नमस्कार कर त्रिप्रष्टके वैभवका समाचार कहने लगे ॥ १३२-१३५ ॥ अश्वघ्रीव यह सब सुननेके लिए असमर्थ हो गया, उसकी आंखें रूखी हो गई और उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देने वाली भेरी बजवा दी ॥ १३६ ॥ उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद नष्टकर दिशाओंके अन्त तक व्याप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि चक्रवर्तीके कुपित होने पर ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं होते हों ॥ १३७ ॥ वह अश्वघ्रीव चतुरङ्ग सेनाके साथ रथावर्त पर्वत पर जा पहुँचा, वहाँ उल्काएँ गिरने लगीं, पृथिवी हिलने लगी और दिशाओंमें दाह दोंप होने लगे ॥ १३८ ॥ जिनका ओज चारों ओर फैल रहा है और जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है ऐसे प्राजपतिके दोनों पुत्रोंको जब इस बातका पता चला तो इसके संमुख आये ॥ १३९ ॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें महान् संग्राम हुआ। दोनों सेनाओंका समान क्षय हो रहा था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता—मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था ॥ १४० ॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद त्रिप्रष्टने सोचा कि सैनिकोंका व्यर्थ ही क्षय क्यों किया जाता है। ऐसा सोचकर वह युद्धके लिए अश्वघ्रीवके सामने आया ॥ १४१ ॥ जन्मान्तरसे बंधे हुए भारी वैरके कारण अश्वघ्रीव बहुत क्रुद्ध था अतः उसने बाण-वर्षाके द्वारा शत्रुको आच्छादित कर लिया ॥ १४२ ॥ जब वे दोनों द्रुहयुद्धसे एक दूसरेको जीतनेके लिए समर्थ न हो सके तब महा-विद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥ १४३ ॥ अश्वघ्रीवने

तावर्कविधुसङ्गाशौ त्रिपृष्ठविजयौ विभू । भरतार्द्धाधिपत्येन भातः स्म ध्वस्तविद्विषौ ॥ १४५ ॥  
 नृपेन्द्रैः खेचराधीशैर्भ्यन्तरैर्मागधादिभिः । कृताभिषेकः सम्प्राप त्रिपृष्ठः पृष्ठतां क्षितेः ॥ १४६ ॥  
 आधिपत्यं द्वयोः श्रेण्योविततारादिकेशवः । हृष्टः स्वयम्प्रभापित्रे न स्यात्किं श्रीमदाश्रयात् ॥ १४७ ॥  
 असिः शङ्खो धनुश्चाक्रं शक्तिर्दण्डो गदाभवन् । रत्नानि सप्त चक्रेशां रक्षितानि मरुद्गणैः ॥ १४८ ॥  
 रत्नमाला हलं भास्वद्रामस्य मुसलं गदा । महारत्नानि चत्वारि बभूवुर्भाविनिर्घृतेः ॥ १४९ ॥  
 देव्यः स्वयंप्रभामुख्याः सहस्राण्यस्य षोडश । बलस्याष्टसहस्राणि कुलरूपगुणान्विताः ॥ १५० ॥  
 अर्ककीर्तिः कुमारस्य ज्योतिर्मालां स्वगाधिपः । प्राजापत्यविवाहेन महत्या सम्पदाग्रहात् ॥ १५१ ॥  
 तयोरमिततेजाश्च सुतारा चाभवत्सुता । प्रतिपच्चन्द्रयोः शुक्लपक्षरेखेव चैन्द्री ॥ १५२ ॥  
 विष्णोः स्वयम्प्रभायां च सुतः श्रीविजयोऽजनि । ततो विजयभद्राख्यः सुता ज्योतिःप्रभाह्वया ॥ १५३ ॥  
 प्रजापतिमहाराजः 'भूरिप्राप्तमहोदयः । कदाचिज्जातसंवेगः सम्प्राप्य पिहिताश्रवम् ॥ १५४ ॥  
 आदाज्जैनेश्वरं रूपं त्यक्त्वाऽशेषपरिग्रहम् । येन सम्प्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥ १५५ ॥  
 बाह्येतरद्विषद्भेदतपस्यविरतोद्यमः । चिरं तपस्यन् सञ्चितमायुरन्ते समादधत् ॥ १५६ ॥  
 मिथ्यात्वं संयमाभावं प्रमादं सकषायताम् । कैवल्यं स सयोगत्वं त्यक्त्वाऽभूत्परमः क्रमात् ॥ १५७ ॥  
 खेचरोऽपि तच्छ्रुत्वा राज्यं दत्त्वाऽर्ककीर्तये । निर्ग्रन्थरूपमापन्नो जगन्नन्दनसार्द्धौ ॥ १५८ ॥  
 अयाचितमनादानमार्जवं त्यागमस्पृहाम् । क्रोधादिहापनं ज्ञानाभ्यासं ध्यानं च सोऽन्वयात् ॥ १५९ ॥

चिरकाल तक युद्धकर शत्रुके सन्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिपृष्ठने वही चक्र लेकर क्रोधसे उसकी गर्दन छेद डाली ॥ १४४ ॥ शत्रुओंके नष्ट करने वाले त्रिपृष्ठ और विजय आधे भरत क्षेत्रका आधिपत्य पाकर सूर्य और चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १४५ ॥ भूमिगोचरी राजाओं, विद्याधर राजाओं और मागधादि देवोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था ऐसे त्रिपृष्ठ नारायण पृथिवीमें श्रेष्ठताको प्राप्त हुए ॥ १४६ ॥ प्रथम नारायण त्रिपृष्ठने हर्षित होकर स्वयंप्रभाके पिताके लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमानोंके आश्रयसे क्या नहीं होता है ? ॥ १४७ ॥ असि, शङ्ख, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा ये सात नारायणके रत्न थे । देवोंके समूह इनकी रक्षा करते थे ॥ १४८ ॥ रत्नमाला, देदीप्यमान हल, मुसल और गदा ये चार मोक्ष प्राप्त करने वाले बलभद्रके महारत्न थे ॥ १४९ ॥ नारायणकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स्त्रियाँ थीं और बलभद्रकी कुलरूप तथा गुणोंसे युक्त आठ हजार रानियाँ थीं ॥ १५० ॥ ज्वलनजटी विद्याधरने कुमार अर्ककीर्तिके लिए ज्योतिर्माला नामकी कन्या बड़ी विभूतिके साथ प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत की ॥ १५१ ॥ अर्ककीर्ति और ज्योतिर्मालाके अमिततेज नामका पुत्र तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई । ये दोनों भाई-बहिन ऐसे सुन्दर थे मानो शुक्र पक्षके पडिवाके चन्द्रमाकी रेखाएँ ही हों ॥ १५२ ॥ इधर त्रिपृष्ठ नारायणके स्वयंप्रभा रानीसे पहिले श्रीविजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ फिर, ज्योतिप्रभा नामकी पुत्री हुई ॥ १५३ ॥ महान् अभ्युदयको प्राप्त हुए प्रजापति महाराजको कदाचित् वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे पिहिताश्रव गुरुके पास जाकर उन्होंने समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया और श्रीजिनेन्द्र भगवान्का वह रूप धारण कर लिया जिससे मुख स्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है ॥ १५४-१५५ ॥ छह बाह्य और छह आभ्यन्तरके भेदसे बारह प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापति मुनिने चिरकाल तक तपस्या की और आयुके अन्तमें चित्तको स्थिर कर क्रम से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकषायता तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्था—मोक्ष पद प्राप्त किया ॥ १५६-१५७ ॥ विद्याधरोंके राजा ज्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्होंने अर्ककीर्तिके लिए राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥ १५८ ॥ याचना नहीं करना, बिना दिये कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीजकी इच्छा नहीं रखना,

ततो निःशेषमंहासि निहृत्य निरूपोपधिः । निराकारोऽपि साकारो निर्वाणमगमस्परम् ॥ १६० ॥  
 त्रिप्रष्टो निष्ठुरारातिविजयो विजयानुगः । त्रिखण्डाखण्डगोमिन्याः कामं कामान्समन्वभूत ॥ १६१ ॥  
 स कदाचित्स्वजामातुः सुतयाऽमिततेजसः । स्वयंवरविधानेन मालामासञ्जयद्वले ॥ १६२ ॥  
 अनेनैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीद्वक्षस्थलनिवासिनी ॥ १६३ ॥  
 इत्यन्योन्यान्वितापत्यसम्बन्धाः सर्वबान्धवाः । स्वच्छाम्भःपूर्णसस्कुलसरसः श्रियमभ्ययुः ॥ १६४ ॥  
 आयुरन्तेऽवधिस्थानप्राप्तेऽर्द्धभरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम् ॥ १६५ ॥  
 दत्त्वा विजयभद्राय यौवराज्यपदं च सः । चक्रिशोकसमाक्रान्तस्वान्तो हन्तुमघद्विषम् ॥ १६६ ॥  
 सहस्रैः सप्तभिः सार्द्धं राजभिः संयमं ययौ । सुवर्णकुम्भमभ्येत्य मुनिमभ्यर्णनिर्द्विषतिः ॥ १६७ ॥  
 घातिकर्माणि निर्मूल्य कैवल्यं चोदपादयत् । अभून्निलिम्पसःपूज्यो व्यपेतागारकेवली ॥ १६८ ॥  
 तदाकर्णार्ककीर्तिश्च निधायामिततेजसम् । राज्ये त्रिपुलमत्याख्याञ्चारणाद्रगमत्तपः ॥ १६९ ॥  
 नष्टकर्माष्टकोऽभीष्टामसावापाष्टमीं महीम् । अनाप्यं नाम किं त्यक्तं व्यक्तमाशावधीरिणाम् ॥ १७० ॥  
 तयोरविकलप्रीत्या याति काले निराकुलम् । सुखेनामितशब्दादितेजःश्रीविजयाख्ययोः ॥ १७१ ॥  
 फश्चिच्छ्रीविजयाधीनां साशीर्वादः कदाचन । उपेत्य राजंश्चितं त्वं प्रणिधेहि ममोदिते ॥ १७२ ॥  
 पोदनधिपतेर्भूर्निर्घ्नं पतितेऽतोऽह्नि सप्तमे । महाशनिस्ततश्चिन्त्यः प्रतीकारोऽस्य सत्वरम् ॥ १७३ ॥  
 इत्यब्रवीत्तदाकर्ण्य युवराजोऽरुणेक्षणः । वद किं पतिता सर्वविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥  
 इति नैमित्तिकं दृष्ट्वा प्राक्षीत्सोऽप्याह मूर्ध्नि मे । रत्नवृष्टिः पतेत्साकमभिपेकेण हीत्यदः ॥ १७५ ॥

क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना और ध्यान करना—इन सब गुणोंका वे प्राप्त हुए थे ॥ १५६ ॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निर्द्वन्द्व हुए । निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निर्वाण पदको प्राप्त हुए ॥ १६० ॥

इधर विजय बलभद्रका अनुगामी त्रिप्रष्ट कठिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना हुआ तीन खण्डकी अखण्ड पृथिवीके भोगोंका इच्छानुसार उपभोग करना रहा ॥ १६१ ॥ किसी एक दिन त्रिप्रष्टने स्वयंवरकी विधिसे अपनी कन्या ज्यातिःप्रभाके द्वारा जामाना अमिततेजके गलेमें धरमाला डलवाई ॥ १६२ ॥ अनुरागसे भरी सुतारा भी इसी स्वयंवरकी विधिसे श्रीविजयके वक्षःस्थल पर निवास करनेवाली हुई ॥ १६३ ॥ इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोंके सम्बन्ध किये हैं ऐसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुल्लित सरोवरकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥ १६४ ॥ आयुके अन्तमें अर्धचक्रवर्ती त्रिप्रष्ट तो सातवें नरक गया और विजय बलभद्र श्री-विजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयभद्रको युवराज बनाकर पापरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए उद्यत हुए । यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था तथापि निकट समयमें मोक्षगामी होनेसे उन्होंने सुवर्णकुम्भ नामक मुनिराजके पास जाकर सात हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १६५-१६७ ॥ घातिया कर्म नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया और देवोंके द्वारा पूज्य अनगरकेवली हुए ॥ १६८ ॥ यह सुनकर अर्ककीर्तिने अमित-तेजको राज्यपर बैठायी और स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप धारण कर लिया ॥ १६९ ॥ कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मोंको नष्ट कर अभिवाञ्छित अष्टम पृथिवी प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कौन-सी वस्तु अप्राप्य है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ १७० ॥ इधर अमिततेज और श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम था, दोनोंका काल विना किसी आकुलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥ १७१ ॥ किसी दिन कोई एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि हे राजन् ! मेरी बात पर चित्त लगाइये ॥ १७२ ॥ आज से सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तक पर महावज्र गिरेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतीकारका विचार कीजिये ॥ १७३ ॥ यह सुनकर युवराज क्रुपित हुआ, उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गईं । वह उस निमित्तज्ञानीसे बोला कि यदि तू सर्वज्ञ है तो बता कि उस समय तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा ? ॥ १७४ ॥ निमित्तज्ञानीने भी कहा कि उस समय मेरे मस्तक पर अभि-

सावष्टम्भं वषाः श्रुत्वा तस्य राजा सविस्मयः । भद्रं त्वयाऽऽस्यतामस्मिन्नासने किञ्चिदुच्यते ॥ १७६ ॥  
 किंगोत्रः किंगुरुर्ग्रीहे किशास्त्रः किनिमित्तकः । किनाम किनिमित्तोऽयमादेश इति पृष्टवान् ॥ १७७ ॥  
 कुण्डलाख्यपुरे राजा नाम्ना सिंहरथो महान् । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥ १७८ ॥  
 तच्छिष्येण निमित्तानि प्रव्रज्य हलिना सह । मयाऽष्टाङ्गान्यधीतानि सोपदेशश्रुतानि च ॥ १७९ ॥  
 अष्टाङ्गानि निमित्तानि कानि किलक्षणानि चेत् । शृणु श्रीविजयायुष्मन् यथाप्रश्नं ब्रवीमि ते ॥ १८० ॥  
 अन्तरिक्षसभौमाङ्गस्वरव्यञ्जनलक्षणः । छिन्नस्वप्नविभेदेन प्रोक्तान्यागमवेदिभिः ॥ १८१ ॥  
 तात्त्व्यात्साहचर्याद्वा उद्योतिषामन्तरिक्षवाक् । चन्द्रादिपञ्चभेदानामुदयास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥  
 जयः पराजयो हानिर्बुद्धिर्मन्युः सजीवितः । लाभालाभौ निरूप्यन्ते यत्रान्यानि च तत्त्वतः ॥ १८३ ॥  
 भूमिस्थानादिभेदेन हानिर्बुद्ध्यादिबोधनम् । भूम्यन्तः स्थितरन्नादिकथनं भौममिष्यते ॥ १८४ ॥  
 अङ्गप्रत्यङ्गसंस्पर्शदर्शनादिभिरङ्गिनाम् । अङ्गकालत्रयोत्पन्नशुभाशुभनिरूपणम् ॥ १८५ ॥  
 मृदङ्गादिगजेन्द्रादिचेतनेतरसुस्वरैः । दुःस्वरैश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टप्रापणसूचनः ॥ १८६ ॥  
 शिरोमुखदिशंजाततिललक्ष्मणणादिभिः । व्यञ्जनं स्थानमानैश्च लाभालाभादिवेदनम् ॥ १८७ ॥  
 श्रीवृक्षस्वस्तिकाद्यष्टशताङ्गतलक्षणैः । भोगैश्वर्यादिसम्प्राप्तिकथनं लक्षणं मतम् ॥ १८८ ॥  
 देवमानुषरक्षोविभागेर्वैष्णवादिषु । मूषकादिकृतच्छन्दैः छिन्नं तत्फलभाषणम् ॥ १८९ ॥  
 शुभाशुभविभागोक्तस्वप्नसन्दर्शनान्तरूपम् । स्वप्नो वृद्धिविनाशादियाथात्म्यकथनं मतः ॥ १९० ॥

षेकके साथ रत्नवृष्टि पडंगी ॥ १७५ ॥ उसके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर राजको आश्चर्य हुआ । उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसन पर बैठो, मैं कुछ कहता हूँ ॥ १७६ ॥ कहां तो महीं, आपका गंगत्र क्या है ? गुरु कौन है, क्या-क्या शास्त्र आपने पढ़े हैं, क्या-क्या निमित्त आप जानते हैं, आपका क्या नाम है ? और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है ? यह सब राजाने पूछा ॥ १७७ ॥ निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर नगरमें सिंहरथ नामका एक बड़ा राजा है । उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान् है ॥ १७८ ॥ किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्यके साथ अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है और उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया है ॥ १७९ ॥ अष्टाङ्ग निमित्त कौन हैं और उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह आप जानना चाहते हैं तो हे आयुष्मन् विजय ! तुम मुनां, मैं तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहता हूँ ॥ १८० ॥ आगमके जानकार आचार्योंने अन्तरिक्ष, भौम, अङ्ग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न इनके भेदसे आठ तरहके निमित्त कहे हैं ॥ १८१ ॥ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी आकाशमें रहते हैं अथवा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष-आकाश कहते हैं । इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जो जय-पराजय, हानि, वृद्धि, शोक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरूपण होता है उसे अन्तरिक्षनिमित्त कहते हैं ॥ १८२-१८३ ॥ पृथिवीके जुदे-जुदे स्थान आदिके भेदसे किसीकी हानि वृद्धि आदिका बतलाना तथा पृथिवीके भीतर रखे हुए रत्न आदिका कहना सो भौमनिमित्त है ॥ १८४ ॥ अङ्ग-उपाङ्गके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंके तीन कालमें उत्पन्न होनेवाले शुभ-अशुभका निरूपण होता है वह अङ्ग-निमित्त कहलाता है ॥ १८५ ॥

मृदङ्ग आदि अचेतन और हाथी आदि चेतन पदार्थोंके सुस्वर तथा दुःस्वरके द्वारा इष्ट-अनिष्ट पदार्थकी प्राप्तिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है ॥ १८६ ॥ शिर मुख आदिमें उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका लाभ अलाभ आदि बतलाना सो व्यञ्जन-निमित्त है ॥ १८७ ॥ शरीरमें पाये जानेवाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक आदि एक सौ आठ लक्षणोंके द्वारा भोग ऐश्वर्य आदिकी प्राप्तिका कथन करना लक्षण-निमित्त ज्ञान है ॥ १८८ ॥ वस्त्र तथा शस्त्र आदिमें मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देव, मानुष और राक्षसके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं ॥ १८९ ॥ शुभ-अशुभके भेदसे स्वप्न दो प्रकारके कहे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्यों की वृद्धि तथा हानि आदि का यथार्थ कथन करना

इत्युक्त्वा क्षुत्पिपासादिद्वाविंशतिपरीषहैः । पीडितोऽसहमानोऽहं पद्मिनीखेटमाययौ ॥ १९१ ॥  
 तत्र तन्मातुलः सोमशर्मा चन्द्राननां 'सुताम् । हिरण्यलोमासम्भूतां प्रीत्या मह्यं प्रदत्तावान् ॥ १९२ ॥  
 द्रव्यार्जनं परित्यज्य निमिराभ्यासतत्परम् । सा मां निरीक्ष्य निविण्णा पितृदत्तधनक्षयात् ॥ १९३ ॥  
 भोजनावसरेऽन्योद्युर्धनमेतत्त्वदजितम् । इति पात्रेऽक्षिपद्रोपात्नमद्राटकसञ्चयम् ॥ १९४ ॥  
 रञ्जितस्फटिके तत्र तपस्त्राभीषुसन्निधिम् (?) । कान्ताक्षिसकरक्षालनाम्बुधारां च पश्यता ॥ १९५ ॥  
 मयाऽर्थलाभं निश्चित्य तोषाभिवषवपूर्वकम् । अमोघजिह्वनाम्नाऽऽपमादेशस्तेऽधुना कृतः ॥ १९६ ॥  
 इत्यन्वाख्यत् स तच्छ्रुत्वा सयुक्तिकमसौ नृपः । चिन्ताकुलो विसर्ज्यैनमुक्तवानिति मन्त्रिणः ॥ १९७ ॥  
 इदं प्रत्येयमस्योक्तं विचिन्त्येत्प्रतिक्रियाः । अभ्यर्णे मूलनाशे कः कुर्यात् कालविलम्बनम् ॥ १९८ ॥  
 तच्छ्रुत्वा मुमतिः प्राह त्वामम्भोधिजलान्तरे । लोहमञ्जूषिकान्तस्थं स्थापयामेति रक्षितुम् ॥ १९९ ॥  
 मकरादिभयं तत्र विजयार्द्धगुहान्तरे । निदधाम इति श्रुत्वा स सुबुद्धिरभाषत ॥ २०० ॥  
 तद्वचोऽवसितौ प्राज्ञः पुरावित्तकवित्तदा । अथाख्यानकमित्याख्यत्प्रसिद्धं बुद्धिसागरः ॥ २०१ ॥  
 दुःशास्त्रश्रुतिद्विषष्टः सोमः सिंहपुरे वसन् । परिव्राट् स विवादारथे जिनदासेन निजितः ॥ २०२ ॥  
 मृत्वा 'तत्रैव कालान्ते सम्भूय महियो महान् । वणिग्लवणदुभारचिरवाहवशीकृतः ॥ २०३ ॥  
 प्राक् पांष्यद्विनिःशक्तिरिति पश्चादुपेक्षितः । जानिस्मरः पुरे बद्धवैरोऽप्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥

स्वप्ननिमित्तक कहलाना हे ॥ १६० ॥ यह कहकर वह निमित्तज्ञानी कहने लगा कि लुधा प्यास आदि  
 वार्डस परिपहोसे मैं पीडित हुआ, उन्हें सह नहीं सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्मिनीखेट नामके  
 नगरमें आ गया ॥ १६१ ॥ वहाँ सोमशर्मा नामके मेरे मामा रहते थे । उनके हिरण्यलोमा नामकी  
 स्त्रीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुख वाली एक चन्द्रानना नामकी पुत्री थी । वह उन्होंने मुझे दी  
 ॥ १६२ ॥ मैं धन कमाना छोड़कर निरन्तर निमित्तशास्त्रके अध्ययनमें लगा रहता था अतः धीरे-  
 धीरे चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया हुआ धन समाप्त हो गया । मुझे निर्धन देख वह बहुत विरक्त  
 अथवा ग्विन्न हुई ॥ १६३ ॥ मैंने कुछ कौड़ियां इकट्ठी कर रक्खी थीं । सूर दिन भोजनके  
 समय 'यह तुम्हारा दिया हुआ धन है' ऐसा कह कर उमने क्रोधवश वे सब कौड़ियां हमारे  
 पात्रमें डाल दीं ॥ १६४ ॥ उनमेंसे एक अच्छी कौड़ी स्फटिक-मणिके बने हुए सुन्दर थालमें  
 जा गिरी, उसपर जलाई हुई अग्निके फुलित्ते पड़ रहे थे (?) उसी समय मेरी स्त्री मेरे  
 हाथ धुलानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देख कर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे  
 संतोष पूर्वक अवश्य ही धनका लाभ होगा । आपके लिए यह आदेश इस समय अमोघजिह्व  
 नामक मुनिराजने किया है । इसप्रकार निमित्तज्ञानीने कहा । उसके युक्तिपूर्ण वचन सुन कर राजा  
 चिन्तासे व्यग्र हो गया । उमने निमित्तज्ञानीको तां विदा किया और मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा—  
 कि इस निमित्तज्ञानीकी व्रान पर विश्वास करो और इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्योंकि मूलका  
 नाश उपस्थित होने पर विलम्ब कौन करना है ? ॥ १६५-१६८ ॥ यह सुनकर मुमति मन्त्री बोला  
 कि आपकी रक्षा करनेके लिए आपको लोहेकी सन्दूकके भीतर रखकर मसुद्रके जलके भीतर बैठाये  
 देते हैं ॥ १६६ ॥ यह सुनकर मुबुद्धि नामका मंत्री बोला कि नहीं, वहाँ तां मगरमच्छ आदिका  
 भय रहेगा इसलिए विजयार्थ पर्वतकी गुफामें रख देते हैं ॥ २०० ॥ मुबुद्धिकी बात पूरी होते ही  
 बुद्धिमान् तथा प्राचीन वृत्तान्तको जानने वाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक  
 कहने लगा ॥ २०१ ॥

इस भरत क्षेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशास्त्रोंके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका  
 परिव्राजक रहता था । उसने जिनदासके साथ वादविवाद किया परन्तु वह हार गया ॥ २०२ ॥  
 आयुके अन्तमें मर कर उसी नगरमें एक बड़ा भारी भैंसा हुआ । उसपर एक वैश्य चिरकाल तक  
 नमकका बहुत भारी बोझ लादता रहा ॥ २०३ ॥ जब वह बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके

श्मशाने राक्षसः पापी तस्मिन्नेवोपपद्यत । तत्पुराधीशिनौ कुम्भभोगौ कुम्भस्य पाचकः ॥ २०५ ॥  
 रसायनादिपाकाख्यस्तद्भोग्यपिशितेऽसति । शिशोर्व्यसोस्तदा मांसं स कुम्भस्य न्ययोजयत् ॥ २०६ ॥  
 तत्स्वादलोलुपः पापी तदाप्रभृति खादितुम् । मनुष्यमांसमारब्ध सम्प्रेप्सुनारकीं गतिम् ॥ २०७ ॥  
 प्रजानां पालको राजा तावत्तिष्ठतु पालने । खादत्ययमिति त्यक्तः स त्याज्यः सचिवादिभिः २०८ ॥  
 तन्मांसजीवितः क्रूरः कदाचिन्नजपाचकम् । हत्वा साधिततद्विद्यः संक्रान्तप्रोक्तराक्षसः ॥ २०९ ॥  
 प्रजाः स भक्षायामस प्रत्यहं परितो भ्रमन् । ततः सर्वेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम् ॥ २१० ॥  
 नगरं प्राविशन् कारकटं नाम महाभिया । तत्राप्यागत्य पापिष्ठः कुम्भाख्योऽभक्षयस्तराम् ॥ २११ ॥  
 'ततः प्रभृति तत्प्राहुः कुम्भकारकटं पुरम् । यथादृष्टुं भक्षित्वाद्भीतवैकशकटौदनम् ॥ २१२ ॥  
 खादैकमानुषं चेति प्रजास्तस्य स्थितिं व्यधुः । तत्रैव नगरे चण्डकौशिको नाम विप्रकः ॥ २१३ ॥  
 सोमश्रीस्तन्प्रिया भूतसमुपासनतश्चिरम् । मौण्डकौशिकनामानं तनयं तावचापतुः ॥ २१४ ॥  
 कुम्भाहाराय यातं तं कदाचिन्मुण्डकौशिकम् । शकटस्योपरि क्षिप्तं नीत्वा भूतैः प्रयायिभिः ॥ २१५ ॥  
 कुम्भेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रम्य तर्जितैः । भयाद्विले विनिक्षिप्तं जगाराजगरो द्विजम् ॥ २१६ ॥  
 विजयार्द्धगुहायां तन्निक्षेपणमयुक्तकम् । पथ्यं तद्वचनं श्रुत्वा मूक्षमधीर्मतिसागरः ॥ २१७ ॥  
 भूपतेरशनेः पातां नोक्तो नैमित्तिकेन तन् । पोदनाधिपतिः कश्चिदन्वोऽवस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥

पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी—खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया । कारण वश उसे जाति-स्मरण हो गया और वह नगर भरके साथ वेंर करने लगा । अन्नमें मर कर वहींके श्मशानमें पापी राक्षस हुआ । उस नगरके कुम्भ और भीम नामके दो अधिपति थे । कुम्भके रसाइयाका नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभोजी था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसाइयाने कुम्भको मरे हुए बन्चेका मांस गिला दिया ॥ २०४-२०६ ॥ वह पापी उसके स्वादसे लुभा गया इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह वास्तवमें नरक गति प्राप्त करनेका उत्सुक था ॥ २०७ ॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जब तक प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ है तभी तक राजा रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंका खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा विचार कर मन्त्रियोंने उस राजाको छोड़ दिया ॥ २०८ ॥ उसका रसाइया उसे नर-मांस देकर जीवित रखना था परन्तु किसी समय उस दृष्टने अपने रसाइयाका ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्षसको वश कर लिया ॥ २०९ ॥ अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घूमना हुआ प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरका छोड़कर बहुत भारी भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु अत्यन्त पापी कुम्भ राजा उस नगरमें भी आकर प्रजाका खाने लगा ॥ २१०-२११ ॥ उसी समयसे लोग उस नगरका कुम्भकारकटपुर कहने लगे । मनुष्योंने देखा कि यह नरभक्षी है इसलिए डर कर उन्होंने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रति दिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्यको खाया करो । उसी नगरमें एक चण्डकौशिक नामका ब्राह्मण रहता था । सोमश्री उसकी स्त्री थी, चिरकाल तक भूतोंकी उपासना करनेके बाद उन दोनोंने मौण्डकौशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २१२-२१४ ॥ किसी एक दिन कुम्भके आहारके लिए मौण्डकौशिककी बारी आई । लोग उसे गाड़ी पर डाल कर ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे, कुम्भने हाथमें दण्ड लेकर उन भूतोंका पीछा किया, भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकौशिकको भयसे एक विलमें डाल दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस ब्राह्मणको निगल लिया ॥ २१५-२१६ ॥ इसलिए महाराजको विजयार्धकी गुहामें रखना ठीक नहीं है । बुद्धिसागरके ये हितकारी वचन सुनकर सूक्ष्म बुद्धिका धारी मत्तिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानीने यह तो कहा नहीं है कि महाराजके ऊपर ही वज्र गिरेगा । उसका तो कहना है कि जो पोदनपुरका राजा होगा उस पर वज्र गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राजा बना देना

जगाद भवता प्रोक्तं युक्तमित्यभ्युपेत्य ते । सम्भूय मन्त्रिणो यक्षप्रतिबिम्बं नृपासने ॥ २१९ ॥  
निवेद्य पोदनाधीशस्त्वमित्येनमपूजयत् । महीशोऽपि परित्यक्तराज्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥  
प्रारब्धपूजादानादिनिजप्रकृतिमण्डलः । जिनचैत्यालये शान्तिकर्म कुर्वन्नुपाविशत् ॥ २२१ ॥  
ससमेऽहनि यक्षस्य प्रतिमायां महाध्वनिः । न्यपतन्नित्दुरं मूर्ध्नि सहसा भीषणोऽशनिः ॥ २२२ ॥  
तस्मिन्नुपद्रवे शान्ते प्रमोदात्पुरवासिनः । वर्द्धमानानकध्वानैरकुर्वन्नुत्सवं परम् ॥ २२३ ॥  
'नैमित्तिकं समाहूय राजा सम्पूज्य दत्तवान् । तस्मै ग्रामशतं पद्मिनीखेटेन ससम्मदः ॥ २२४ ॥  
विधाय विधिवद्भक्त्या शान्तिपूजापुरस्सरम् । महाभिषेकं लोकेशामर्हतां सचिवोत्तमाः ॥ २२५ ॥  
अष्टापदमयैः कुम्भैरभिषिच्य महीपतिम् । सिंहासनं समारोप्य सुराज्ये प्रत्यतिष्ठपत् ॥ २२६ ॥  
एवं सुखसुखेनैव काले गच्छति सोऽन्यदा । विद्यां स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम् ॥ २२७ ॥  
सुतारया सह ज्योतिर्वनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तत्र सलीलं कान्त्या स्थितः ॥ २२८ ॥  
इतश्चमरचञ्चाल्यपुरेशोऽशनिघोषकः । आसुर्याश्च सुतो लक्ष्म्या महानिन्द्राशनेः खगः ॥ २२९ ॥  
विद्यां स भ्रामरीं नाम्ना प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम् । सुतारां वीक्ष्य जातेच्छस्तामादातुं कृतोद्यमः ॥ २३० ॥  
कृत्रिमैणच्छलात्समादपनीय महीपतिम् । तद्रूपेण निवृत्त्यैत्य सुतारां दुरिताशयः ॥ २३१ ॥  
मृगोऽगाद् वायुवेगेन तं ग्रहीतुमवारयन् । आगतोऽहं प्रयात्यस्तमर्को यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥  
इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेटो विमानमगमत्<sup>१</sup> शठः । गत्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यशालिना दक्षितं निजम् ॥ २३३ ॥  
रूपमालोक्य तत्कोऽयमिति सा विह्वलाऽभवत् । इतस्तत्प्रोक्तवैतालीं सुतारारूपधारिणीम् ॥ २३४ ॥

चाहिये ॥ २१७-२१८ ॥ उमकी यह बात सजने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है । अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासन पर एक यक्षका प्रतिबिम्ब रख दिया और 'तुम्हीं पोदनपुरके राजा हो' यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भोग उपभोग सब छोड़ दिये, पूजा दान आदि सत्कार्य प्रारम्भ कर दिये और अपने स्वभाव वाली मण्डलीको साथ लेकर जिन-चैत्यालयमें शान्ति कर्म करता हुआ बैठ गया ॥ २१९-२२१ ॥ सातवें दिन उस यक्षकी मूर्ति पर बड़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर चञ्च अकस्मान् बड़ी कठोरतासे आ पड़ा ॥ २२२ ॥ उस उपद्रव-के शान्त होने पर नगरवासियोंने बड़े हर्षसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे बहुत भारी उत्सव किया ॥ २२३ ॥ राजाने बड़े हर्षके साथ उस निमित्तज्ञानीका बुलाकर उसका सत्कार किया और पद्मिनी-खेटके साथ-साथ उसे मौ गाँव दिये ॥ २२४ ॥ श्रेष्ठ मंत्रियोंने तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान्-की विधि-पूर्वक मक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया और राजाको सिंहासन पर बैठा कर सुर्वणमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥ २२५-२२६ ॥ इसकेबाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन उसने अपनी मातासे आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुताराके साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिर्वनकी ओर गमन किया । वह वहाँ अपनी इच्छानुसार लीला-पूर्वक विहार करना हुआ रानीके साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपरका राजा इन्द्राशनि, रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिघोष नामका विद्या-धरपत्र भ्रामरी विद्याको सिद्ध कर अपने नगरको लौट रहा था । बीचमें सुताराको देख कर उसपर उसकी इच्छा हुई और उसे हरण करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२७-२३० ॥ उसने एक कृत्रिम हरिण-के छलसे राजाको सुताराके पाससे अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर सुतारा-के पास लौट कर वापिस आया ॥ २३१ ॥ कहने लगा कि हे प्रिये ! वह मृग तो वायुके समान वेग-से चला गया । मैं उसे पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अतः लौट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए हम दोनों अपने नगरकी ओर चलें ॥ २३२ ॥ इतना कहकर उस धूर्त विद्याधरने सुताराको विमान पर बैठाया और वहाँसे चल दिया । बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देख कर 'यह कौन है' ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत ही विह्वल हुई । इधर उसी अशनिघोष विद्याधरके

स्थितां कुक्कुटसर्पेण दष्टाहमिति सम्भ्रमात् । अत्रियमाणाभिवालोक्ष्य विनिवृत्त्यागतः स्वयम् ॥ २३५ ॥  
 अहार्यं तद्विषं ज्ञात्वा मणिमन्त्रौपधादिभिः । सुक्लिग्धः पोदनाधीशो मर्तुं सह तयोत्सुकः ॥ २३६ ॥  
 सूर्यकान्तसमुद्भूतदहनज्वलितेन्धनः । चितिकां कान्तया सार्द्धमारुरोह शुचाकुलः ॥ २३७ ॥  
 तदैव खेचरौ कौचित् तत्र सन्निहितौ तयोः । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्मृत्यैकेन महौजसा ॥ २३८ ॥  
 हताऽसौ भीतवैताली वामपादेन दक्षितः । स्वरूपास्य पुरः स्थातुमशक्ताऽगाददृश्यताम् ॥ २३९ ॥  
 तद्विलोक्ष्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोचतं खचरश्चाह तत्कथाम् ॥ २४० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणश्रेण्यां भरते खचराचले । ज्योतिःप्रभुधराधीशः सन्निभश्चोऽहं मम प्रिया ॥ २४१ ॥  
 संज्ञया सर्वकल्याणी सूनूर्दीपशिखाङ्गयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनूपुरभूभुजा ॥ २४२ ॥  
 विहर्तुं विपुलोद्याने नलान्तशिखरश्रुते । ततो निवर्तमानः सन् स्वयानकविमानगाम् १ ॥ २४३ ॥  
 क्व मे श्रीविजयः स्वामी रथनूपुरभूपते । क्व मां पाहीति साक्रोशम्बनितां करणस्वनम् ॥ २४४ ॥  
 श्रन्वाहं तत्र गत्वाऽऽख्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमूम् । इत्यसौ चाह सक्रोधं चञ्चान्तचमराधिपः ॥ २४५ ॥  
 खगेशोऽशनिघोषाख्यो हठादेनां नयाग्यहम् । भवतो यदि सामर्थ्यमस्येहोहीति मोचय ॥ २४६ ॥  
 तच्छ्रुत्वा मध्यभारेया नीयते तेन सानुजा । सामान्यवक्त्रं यामि हन्येनमिति निश्चयात् ॥ २४७ ॥  
 योद्धुं प्रक्रममाणं मां निवार्यानेन मा कृथाः । वृथेति युद्धं निर्बन्धात्पोदनाख्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥  
 ज्योतिर्वने विद्योगेन मम शोकानलाहनः । वर्तते तत्र गत्वा तं मदवस्थां निवेद्य ॥ २४९ ॥

द्वारा प्रेरित हुई वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर बैठ गई ॥ २३३-२३४ ॥ जब श्रीविजय वापिस लौटकर आया तब उसने कहा कि मुझे कुक्कुटसर्पने डस लिया है । इतना कह कर उसने थड़े संप्रमसे ऐसी चेष्टा बनाई जैसे मर रही हो । उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र तथा औषधि आदिसे दूर नहीं हो सकता । अन्तमें निराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस कृत्रिम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया । उसने एक चिता बनाई, सूर्यकान्तमणिसे उत्पन्न अग्निके द्वारा उसका इन्धन प्रज्वलित किया और शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुताराके साथ चिता पर आरूढ़ हो गया ॥ २३५-२३७ ॥ उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे थे उनमें एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत वैतालीको बायें पैरसे ठाकर लगाई जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया । अब वह श्री-विजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समर्थ न हो सकी अतः अदृश्यताको प्राप्त हो गई ॥ २३८-२३९ ॥ यह देख राजा श्रीविजय बहुत भारी आश्चर्यको प्राप्त हुए । उन्होंने कहा कि यह क्या है ? उत्तरमें विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥ २४० ॥

इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिःप्रभ नामका नगर है । मैं वहाँका राजा संभिन्न हूँ, यह सर्वकल्याणी नामकी मेरी स्त्री है और यह दीपशिख नामका मेरा पुत्र है । मैं अपने स्वामी रथनूपुर नगरके राजा अमिततेजके साथ शिखरनल नामसे प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विहार करनेके लिए गया था । वहाँसे लौटते समय मैंने मार्गमें सुना कि एक स्त्री अपने विमान पर बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि 'मेरे स्वामी श्रीविजय कहाँ हैं ? हे रथनूपुरके नाथ ! कहाँ हो ? मेरी रक्षा करो ।' इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं वहाँ गया और बोला कि तू कौन है ? तथा किसे हरण कर ले जा रहा है ? मेरी बात सुन कर वह बोला कि मैं चमरचञ्च नगरका राजा अशनिघोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबर्दस्ती लिए जा रहा हूँ, यदि आप में शक्ति है तो आओ और इसे छोड़ाओ ॥ २४१-२४६ ॥ यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमिततेजकी छोटी बहिनको ले जा रहा है । मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चला जाऊँ ? इसे अभी मारता हूँ । ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही था कि उस स्त्रीने मुझे रोककर कहा कि आग्रह बश वृथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा ज्योतिर्वनमें



इति स्वल्कान्तया राजन् प्रेषितोऽहमिहागतः । इयं त्वद्वैरिनिर्दिष्टदेवतेत्यादराद्धितः ॥ २५० ॥  
 श्रुत्वा तत्प्योदनाधीशो सत्कृतं कथ्यतामिदम् । कृशान्तं सत्वरं गत्वा सन्मित्रेण स्वयाऽधुना ॥ २५१ ॥  
 मज्जनन्यनुजादीनामित्युक्तोऽसौ नभश्चरः । सुतं द्वीपशिखं सद्यः प्राहिणोत्पोदनं प्रति ॥ २५२ ॥  
 अभवत्पोदनाख्येऽपि बहुत्पातविजृम्भणम् । तद्दृष्ट्वाऽमोघजिह्वाख्यो जयगुप्तश्च सम्भ्रमात् ॥ २५३ ॥  
 उत्पन्नं स्वामिनः किञ्चिद् भयं तदपि निर्गतम् । आगमिष्यति चाद्यैव कश्चिक्कुशलवार्तया ॥ २५४ ॥  
 स्वस्थास्तिष्ठन्तु तरात्रभवन्तो मा गमन् भयम् । इति स्वयम्प्रभादींस्तानाश्वासं नयतः स्म तान् ॥ २५५ ॥  
 तथैव गगनादीपशिखोऽप्यागम्य भूतलम् । स्वयम्प्रभां सुतं चाख्याः प्रणम्य विविधवत्सुधीः ॥ २५६ ॥  
 क्षेमं श्रीविजयाधीशो भवद्भिस्स्यज्यतां भयम् । इति तद्वृत्तकं सर्वं यथावस्थं न्यवेदयत् ॥ २५७ ॥  
 मद्द्वार्ताकर्णनाहावपरिम्लानलोपमा । निर्वाणाभ्यर्णदीपस्य शिखेव विगतप्रभा ॥ २५८ ॥  
 श्रुतप्रावृड्यनप्यानकलहंसीव शोकिनी । स्याद्वाद्वादिविध्वस्तदुःश्रुतिवाकुलाकुला ॥ २५९ ॥  
 तदानीमेव निर्गत्य चतुरङ्गबलान्विता । स्वयम्प्रभाऽगात् सखगा ससुता तद्वनान्तरम् ॥ २६० ॥  
 आयान्तीं दूरतो दृष्ट्वा मातरं स्वानुजानुगाम् । प्रतिगत्यानमत्तस्याः पादयोः पोदनाधिपः ॥ २६१ ॥  
 स्वयम्प्रभा च तं दृष्ट्वा वाष्पाविलविलोचना । उत्तिष्ठ पुत्र दृष्टोऽसि मत्पुण्याच्चिरजीवितः ॥ २६२ ॥  
 इति श्रीविजयं दोभ्यामुत्थाप्यास्पृश्य तोषिणी । सुखासीनमथापृच्छसुताराहरणादिकम् ॥ २६३ ॥  
 खगः सम्भिन्ननामाऽयं सेवकोऽमिततेजसः । अनेनोपकृतियाऽद्य कृता साऽम्ब त्वयापि न ॥ २६४ ॥

मेरे वियोगक कारण शाकाग्रिस पीडित हो रहे हैं तुम वहाँ जाकर उनसे मेरी दशा कह दो । इस प्रकार हे राजन्, मैं तुम्हारी स्त्रीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ । यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञा-कारिणी वैताली देवी हैं । ऐसा उस हितकारी विद्याधरने बड़े आदरसे कहा । इस प्रकार संभिन्न विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पोदनपुरके राजाने बड़े आदरसे सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया । आप मेरे सन्मित्र हैं अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा छोटे भाई आदिसे कह दीजिये । ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिख नामक पुत्रको शीघ्र ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया ॥ २५७-२५९ ॥ उधर पोदनपुरमें भी बहुत उत्पातोंका विस्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोघजिह्व और जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानी बड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीको कुछ भय उत्पन्न हुआ था परन्तु अब वह दूर हो गया है, उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आवेगा । इसलिए आप लौग स्वस्थ रहें, भयका प्राप्त न हों । इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रभा आदिको धीरज बँधा रहे थे ॥ २५३-२५५ ॥ उसी समय दीपशिख नामका बुद्धिमान् विद्याधर आकाशमे पृथिवी-तलपर आया और विधि-पूर्वक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविजयकी सब प्रकारकी कुशलता है, आप लोग भय छोड़िये, इस प्रकार सब समाचार ज्यों कहे दिये ॥ २५६-२५७ ॥ उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, अथवा बुझनेवाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतुके मेघका शब्द सुननेवाली कलहंसी जिस प्रकार शोक-युक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वादी विद्वान्के द्वारा विध्वस्त हुई दुःश्रुति ( मिथ्या-शास्त्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार स्वयंप्रभा भी म्लान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा अत्यन्त आकुल हो गई थी ॥ २५८-२५९ ॥ वह उस विद्याधरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस वनके बीच पहुँच गई ॥ २६० ॥ पोदनाधिपतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा और सामने जाकर उसके चरणोंमें नमस्कार किया ॥ २६१ ॥ पुत्रको देखकर स्वयंप्रभाके नेत्र हर्षाश्रुओंसे व्याप्त हो गये । वह कहने लगी कि हे पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये, तू चिरंजीव रह' इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयको अपनी दोनों भुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी संतोषका अनुभव किया । अथानन्तर—जब श्रीविजय सुखसे बैठ गये तब उसने सुताराके हरण आदिका समाचार पूछा ॥ २६२-२६३ ॥ श्री विजयने कहा कि यह संभिन्न

ममेति शेषमप्याह ततोऽसावप्यनृद्धवम्<sup>१</sup> । तनूजं पुररक्षायै निर्वर्त्याप्रजान्विता ॥ २६५ ॥  
 रथनूपुरमुद्दिश्य गता गगनवर्त्मना । स्वदेशचरचारोक्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥  
 महाविभूत्या प्रत्येस्य ममिका परितुष्यता । प्रवेशिता सकेतुष्वैः पुरमाबद्धतोरणम् ॥ २६७ ॥  
 प्राघूर्णकविधिं विश्वं विधाय विधिवत्तयोः । तदागममकार्यं च ज्ञात्वा विद्याधराधिपः ॥ २६८ ॥  
 दूतं मरीचिनामानमिन्द्राशनिमुतं प्रति । प्रहित्य तन्मुखात्तस्य विदित्वा दुस्सहं वचः ॥ २६९ ॥  
 भालोच्य मन्त्रिभिः सार्द्धमुच्छेतुं तं मदोद्धतम् । मैथुनाय महेच्छाय निजायात्र समागतम् ॥ २७० ॥  
 युद्धवीर्यं प्रहरणावरणं बन्धमोचनम् । इति विद्यात्रयं शत्रुध्वंसार्थमदितादरात् ॥ २७१ ॥  
 रश्मिवेगसुवेगादिसहस्राद्धात्मजैः सह । पौदनेशं व्रजेत्युक्त्वा शत्रोरूपरि दपिणः ॥ २७२ ॥  
 सहस्ररश्मिना सार्द्धं ज्यायसा स्वात्मजेन सः । महाज्वालाह्वयां<sup>२</sup> सर्वविद्याच्छेदनसंयुताम् ॥ २७३ ॥  
 सम्जयन्तमहाचैत्यमूले साधयितुं गतः । ह्रीमन्तं पर्वतं विद्यां विद्यानां साधनास्पदम् ॥ २७४ ॥  
 रश्मिवेगादिभिः सार्द्धं श्रुत्वा श्रीविजयागमम् । युद्धायाशनिघोषेण प्रेषिताः स्वसुताः क्रुधा ॥ २७५ ॥  
 सुघोषः शतघोषाख्याः स सहस्रादिघोषकः । युद्ध्वाऽन्येऽपि च मासाद्धं सर्वे भङ्गमुपागमन् ॥ २७६ ॥  
 तद् बुद्ध्वा क्रोधसन्तप्तो योद्धुं स्वयमुपैषिवान् । स्वनाशापशुनाशेषघोषणोऽशनिघोषकः ॥ २७७ ॥  
 युद्धे श्रीविजयोऽप्येनं विधातुं प्राहरद् द्विषा । भ्रामरी विद्यया सोऽपि द्विरूपः समजायत ॥ २७८ ॥  
 चतुर्गुणत्वमायातौ पुनस्तौ तेन खण्डितौ । संग्रामोऽशनिघोषकमायाऽभूदिति खण्डनात् ॥ २७९ ॥

नामक विद्याधर अमिततेजका सेवक है । हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुझने भी नहीं किया ॥ २६४ ॥ ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनाई । तदनन्तर स्वयंप्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए वापिस लौटा दिया और बड़े पुत्रको साथ लेकर वह आकाशमार्गसे रथनूपुर नगरको चली । अपने देशमें घूमनेवाले गुप्तचरोंके कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़े वैभयके साथ उसकी अगवाणी की तथा संतुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और तारण बाँधे गये हैं ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश कराया ॥ २६५-२६७ ॥ उस विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्राशनिके पुत्र अशनिघोषके पास मरीचि नामका दूत भेजा । उसने दूतसे असह्य वचन कहे । दूतने वापिस आकर वे सब वचन अमिततेजसे कहे । उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिघोषको नष्ट करनेका हृद् निश्चय कर लिया । उच्च अभिप्राय वाले अपने वहनोईको उसने शत्रुओंका विध्वंस करनेके लिए वंशपरम्परागत युद्धवीर्य, प्रहरणावरण और बन्धमोचन नामकी तीन विद्याएँ बड़े आदरसे दीं ॥ २६८-२७१ ॥ तथा रश्मिवेग सुवेग आदि पाँचसौ पुत्रोंके साथ-साथ पौदनपुरके राजा श्रीविजयसे अहंकारी शत्रुपर जानेके लिए कहा ॥ २७२ ॥ और स्वयं सहस्ररश्मि नामक अपने बड़े पुत्रके साथ समस्त विद्याओंका छेदनेवाली महाज्वाला नामकी विद्याको सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्ध करनेकी जगह ह्रीमन्त पर्वत पर श्री सञ्जयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया ॥ २७३-२७४ ॥ इधर जब अशनिघोषने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रश्मिवेग आदिके साथ आ रहा है तब उसने क्रोधसे सुघोष, शतघोष, सहस्रघोष आदि अपने पुत्र भेजे । उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुए । जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशको सूचित करनेवाली हैं ऐसे अशनिघोषने जब यह समाचार सुना तब वह क्रोधसे सन्तप्त होकर स्वयं ही युद्ध करनेके लिए गया ॥ २७५-२७७ ॥ इधर युद्धमें श्रीविजयने अशनिघोषके दो टुकड़े करनेके लिए प्रहार किया उधर भ्रामरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयने नष्ट करनेके लिए उन दोनोंके दो-दो टुकड़े किये तो उधर अशनिघोषने चार रूप बना लिये । इस प्रकार वह सारी

तदा साधितविद्यः सन् रथनूपुरनायकः । ए-(इ)-त्यादिशन्महाज्वालविद्यां तां सोढुमक्षमः ॥ २८० ॥  
 मासाद्भक्तसंप्रामो विजयाख्यजिनेशिनः । नाभेयसीमनामाद्रिगजध्वजसमीपगाम् ॥ २८१ ॥  
 सभां भीत्वा खगेशोऽगात्कोपात्पेन्यनुयायिनः । मानस्तम्भं निरीक्ष्यासन् प्रसीदञ्चित्तवृथायः ॥ २८२ ॥  
 जिन् प्रदक्षिणीकृत्य त्रिः प्रणम्य जगत्पतिम् । वान्तवैरविपाः सर्वे तत्रासिषत ते समम् ॥ २८३ ॥  
 तदागत्यासुरी देवी सती शीलवती स्वयम् । सुतारां द्रुतमानीय परिम्लानलतोपमाम् ॥ २८४ ॥  
 मत्पुत्रस्य युवां क्षन्तुमपराधनमर्हतः । इत्युदीर्यार्पयत्सा श्रीविजयामिततेजसोः ॥ २८५ ॥  
 तिरश्चामपि चेद्वैरमहायं जातिहेतुकम् । विनश्यति जिनाभ्याशे मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥  
 कर्माण्यनादिवद्धानि मुच्यन्ते यदि संस्मृतेः । जिनानां सन्निधौ तेषां नाश्चर्यं वैरमोचनम् ॥ २८७ ॥  
 अन्तको दुर्निवारोऽत्र वार्यते सोऽपि हेलया । जिनस्मरणमात्रेण न वार्योऽन्यः स को रिपुः ॥ २८८ ॥  
 तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयो मनीषिभिः । जगत्त्रयैकनाथोऽर्हन् पुरेह च हितावहः ॥ २८९ ॥  
 अथ विद्याधराधीशः प्रणम्य प्राञ्जलिजिनम् । भक्त्या सद्धर्ममप्राक्षीत्स तत्त्वार्यंबुभुत्सया ॥ २९० ॥  
 महादुःखोमिसङ्कीर्णदुःसंसारपयोनिधेः । स्फुरत्कपायनकृत्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१ ॥  
 प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि तीर्णसंसारसागरः । त्वमेवैको जगद्बन्धो विनेयाननुशाधि नः २ ॥ २९२ ॥  
 भवज्ञापावृहन्नावा रत्नत्रयमहाधनाः । स्वस्थानं जन्मवारानो र्वापन्सुखसाधनम् ॥ २९३ ॥

सेना अशनिघोषकी मायासे भर गई ॥ २७८-२७९ ॥ इतनेमें ही रथनूपरका राजा अमिततेज विद्या सिद्ध कर आ गया और आने ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याका आदेश दिया । अशनिघोष उस विद्याको सह नहीं सका ॥ २८० ॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और भयसे नाभेयसीम नामके पर्वत पर गजध्वजके समीपवती विजय तीर्थकरके समवसरणमें जा घुसा । अमिततेज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी समवसरणमें जा पहुँचे । वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्तियाँ शान्त हो गईं । सवने जगत्पति जिनेन्द्र भगवान्की तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और वैररूपी विपका उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ बैठ गये ॥ २८१-२८३ ॥ उसी समय शीलवती आसुरीदेवी मुरझाई हुई लताके समान सुताराका शीघ्र हीलाई और श्रीविजय तथा अमिततेजको समर्पण कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्रका अपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैं ॥ २८४-२८५ ॥ तिर्यञ्चोंका जो जन्मजात वैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनेन्द्र भगवान्के समीप आकर छूट जाता है तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना है ? ॥ २८६ ॥ जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरणसे अनादि कालके बंधे हुए कर्म छूट जाते हैं तब उनके समीप वैर छूट जावे इसमें आश्चर्य ही क्या है ? ॥ २८७ ॥ जो बड़े दुःखसे निवारण किया जाता है ऐसा यमराज भी जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोक न जा सके ? ॥ २८८ ॥ इसलिए बुद्धिमानोंको यमराजका प्रतिकार करनेके लिए तीनों लोकोंके नाथ अर्हन्त भगवान्का ही स्मरण करना चाहिये । वही इस लोक तथा परलोकमें हितके करनेवाले हैं ॥ २८९ ॥

अथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवान्को नमस्कार किया और तत्त्वार्थको जाननेकी इच्छासे सद्धर्मका स्वरूप पूछा ॥ २९० ॥ जिसमें कषायरूपी भगरमच्छ तैर रहे हैं और जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है ऐसे संसाररूपी विकराल सागरका पार कौन पा सकता है ? यह बात जिनेन्द्र भगवान्से ही पूछी जा सकती है किसी दूसरे से नहीं क्योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरको पार कर पाया है । हे भगवन् ! एक आप ही जगत्के बन्धु हैं अतः हम सब शिष्योंको आप सद्धर्मका स्वरूप बतलाइये ॥ २९१-२९२ ॥ रत्नत्रय रूपी महाधनको धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि रूपी बड़ी भारी नावके द्वारा ही इस संसार-

१ जगत्त्रैलोक्यनाथोऽर्हन् ग० । २-ननु शास्मि नः ग० ।-ननुसाधि नः ॥० । ३ सस्थानं ॥० ।

४-वापत् ॥० ।

इति तं च ततो देवो वाचा प्रोवाच दिव्यथा । सन्तर्प्यन्ते यथा भव्याः प्राच्या वृष्ट्येव चातकाः ॥ २९४ ॥  
 शृणु भव्य भवस्यास्य कारणं कर्म कर्मणः । हेतवो हे खगाधीश मिथ्यात्वासंयमादयः ॥ २९५ ॥  
 मिथ्यात्वोदयसम्भूतपरिणामो विपर्ययम् । ज्ञानस्य जनयन् विद्धि मिथ्यात्वं बन्धकारणम् ॥ २९६ ॥  
 अज्ञानसंशयैकान्तविपरीतविकल्पनम् । विनयैकान्तजं चेति तज्ज्ञस्तत्पञ्चधा मतम् ॥ २९७ ॥  
 पापधर्माभिधानावबोधदूरेषु जन्तुषु । मिथ्यात्वोदयपर्यायो मिथ्यात्वं स्यात्तदादिमम् ॥ २९८ ॥  
 'आत्मागमादिनानात्वात्सत्त्वे दोलायमानता । येन संशयमिथ्यात्वं तद्विद्धि बुधसत्तम' ॥ २९९ ॥  
 द्रव्यपर्यायरूपेऽर्थे अङ्गे चाक्षयसाधने । तत्स्यादेकान्तमिथ्यात्वं येनैकान्तावधारणम् ॥ ३०० ॥  
 यो ज्ञानज्ञायकज्ञेयथात्स्ये निर्णयोऽन्यथा । स येनात्मनि तद्विद्धि मिथ्यात्वं विपरीतजम् ॥ ३०१ ॥  
 मनोवाङ्मायवृत्तेनप्रणतौ सर्ववस्तुषु । मुक्त्युपायमतिर्येन मिथ्यात्वं स्यात् तदन्तिमम् ॥ ३०२ ॥  
 अत्रतस्त्व मनःकायवचोवृत्तिरसंयमः । तज्ज्ञैः सोऽपि द्विधा प्रोक्तः प्राणीन्द्रियसमाश्रयात् ॥ ३०३ ॥  
 अप्रत्याख्यानमोहानामुदयो यावदङ्गिनाम् । आ चतुर्थगुणस्थानात्तावत्स बन्धकारणम् ॥ ३०४ ॥  
 कायवाक्चेतसां वृत्तिर्ब्रतानां मलकारिणी । या सा षष्ठगुणस्थाने प्रमादो बन्धवृत्तये ॥ ३०५ ॥  
 प्रोक्ताः पञ्चदशैतस्य भेदाः संज्वलनोदयात् । चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ ३०६ ॥  
 यः संज्वलनसंशयस्य चतुष्कस्योदयान्नवेत् । गुणस्थानचतुष्के स कषायो बन्धहेतुकः ॥ ३०७ ॥  
 स यः षोडशभेदेन कषायः कथितो जिनैः । उपशान्तादितो हेतुर्बन्धे स्थित्यनुभागयोः ॥ ३०८ ॥

रूपी समुद्रसे निकल कर मुख देने वाले अपने स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ २९३ ॥ ऐसा विद्याधरों-  
 के राजाने भगवान्से पूछा । तदनन्तर भगवान् दिव्यध्वनिके द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि  
 जिस प्रकार पूर्व वृष्टिके द्वारा चातक पक्षी संतोषको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्वनि-  
 के द्वारा संतोषको प्राप्त होते हैं ॥ २९४ ॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म हैं और  
 कर्मके कारण मिथ्यात्व असंयम आदि हैं ॥ २९५ ॥ मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परि-  
 णाम ज्ञानको भी विपरीत कर देता है उसे मिथ्यात्व जानो । यह मिथ्यात्व बन्धका कारण है  
 ॥ २९६ ॥ अज्ञान, संशय, एकान्त, विपरीत और विनयके भेदसे ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्वको  
 पांच प्रकारका मानते हैं ॥ २९७ ॥ पाप और धर्मके नामसे दूर रहनेवाले जीवोंके मिथ्यात्व कर्मके उदय-  
 से जो परिणाम होता है वह अज्ञान मिथ्यात्व है ॥ २९८ ॥ आप्र तथा आगम आदिके नाना होने  
 के कारण जिसके उदयसे तत्त्वके स्वरूपमें दोलायमानता—चञ्चलता बनी रहती है उसे हे श्रेष्ठ  
 विद्वान् ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥ २९९ ॥ द्रव्य पर्यायरूप पदार्थमें अथवा मोक्षका साधन  
 जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र हैं उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय  
 करना सो एकान्त मिथ्यादर्शन है ॥ ३०० ॥ आत्मामें जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक और  
 ज्ञेयके यथार्थ स्वरूपका विपरीत निर्णय होता है उसे विपरीत मिथ्यादर्शन जानो ॥ ३०१ ॥ मन,  
 वचन और कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है और समस्त पदार्थोंको मोक्षका उपाय  
 माना जाता है उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं ॥ ३०२ ॥ अत्ररहित पुरुषकी जो मन वचन कायकी  
 क्रिया है उसे असंयम कहते हैं । इस विषयके जानकार मनुष्योंने प्राणी-असंयम और इन्द्रिय-  
 असंयमके भेदसे असंयमके दो भेद कहे हैं ॥ ३०३ ॥ जब तक जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण चारित्र  
 मोहका उदय रहता है तब तक अर्थात् चतुर्थगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया  
 है ॥ ३०४ ॥ छठवें गुणस्थानोंमें व्रतोंमें संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उसे  
 प्रमाद कहते हैं । यह प्रमाद छठवें गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है ॥ ३०५ ॥ प्रमादके पन्द्रह  
 भेद कहे गये हैं । ये संज्वलन कषायका उदय होनेसे हाते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना और  
 परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंसे युक्त जीवके प्रायश्चित्तके कारण बनते हैं ॥ ३०६ ॥ सातवेंसे  
 लेकर दशवें तक चार गुणस्थानों में संज्वलन क्रोध मान माया लोभके उदयसे जो परिणाम होते हैं  
 उन्हें कषाय कहते हैं । इन चार गुणस्थानों यह कषाय ही बन्धका कारण है ॥ ३०७ ॥ जिनेन्द्र

आत्मप्रदेशसञ्चारो योगो बन्धविधायकः । गुणस्थानत्रये ज्ञेयः सद्बोधस्य स एककः ॥ ३०९ ॥  
 मानसः स चतुर्भेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्वं द्वयबन्धकृत् ॥ ३१० ॥  
 पञ्चभिर्बन्धते मिथ्यावादिभिर्वर्णितैः सदा । स विंशतिशतेनार्यकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥  
 जन्तुस्तैर्भ्रम्यते भूयो भूयो गत्यादिपर्ययः । आश्रितादिगुणस्थानसर्वजीवसमासकः ॥ ३१२ ॥  
 श्र्यज्ञानदर्शनोपेतस्त्रिभावा वीतसंयमः । भव्योऽभव्यश्च संसारचक्रकावर्तगर्तगः ॥ ३१३ ॥  
 जन्ममृत्युजरारोगसुखदुःखादिभेदभाक् । अतीतानादिकालेऽत्र कश्चिक्कालादिलब्धितः ॥ ३१४ ॥  
 करणत्रयसंशान्तसप्तप्रकृतिसञ्चयः । प्राप्तविच्छिन्नसंसारः शमसम्भूतदर्शनः ॥ ३१५ ॥  
 अप्रत्याख्यानमिश्राख्यभावासद्वादशव्रतः । प्रत्याख्यानख्यमिश्राख्यभावावाप्तमहाव्रतः ॥ ३१६ ॥  
 सप्तप्रकृतिनिर्नाशलब्धक्षायिकदर्शनः । मोहारातिविधानोत्थक्षायिकाचारभूपितः ॥ ३१७ ॥  
 द्वितीयशुक्लसद्धानो घातित्रितयघातकः । नवकेवलभावाप्त्या स्नानकः सर्वैपूजितः ॥ ३१८ ॥  
 तृतीयशुक्लसद्धाननिरुद्धशेषयोगकः । समुच्छिन्नक्रियायोगाद्विच्छिन्नाशेषबन्धकः ॥ ३१९ ॥  
 एवं त्रिरूपसन्मार्गात् क्रमाप्तान्नववारिधिम् । भव्यो भवाद्देशो भव्य समुत्तीर्येधते सदा ॥ ३२० ॥  
 हृति तां जन्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनभापिताम् । श्रुत्वा पीतामृतो वाऽसौ विश्वविद्याधरेश्वरः ॥ ३२१ ॥

भगवान्ने इस कषायके सोलह भेद कहें हैं। यह कषाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी ओर स्थितिवन्ध तथा अनुभागवन्धका कारण माना गया है ॥ ३०८ ॥ आत्माके प्रदेशोंमें जो संचार होता है उसे योग कहते हैं। यह योग ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें सातावंदनीयके वन्धका कारण माना गया है। इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है ॥ ३०९ ॥ मनोयोग चार प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है और काय-योग सात प्रकारका है। ये सभी योग यथायोग्य जहाँ जितने संभव हो उनमें प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण हैं। हे आर्य ! जिनका अभी वर्णन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचके द्वारा यह जीव अपने अपने योग्य स्थानोंमें एक सौ बीस कर्मप्रकृतियोंसे सदा बँधता रहता है ॥ ३१०-३११ ॥ इन्हीं प्रकृतियोंके कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव समक्ष होते हैं, वहाँ यह जीव तीन अज्ञान और तीन अदर्शनोंसे सहित होता है, उसके औद्यिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका अभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है और कोई अभव्य होता है। इस प्रकार संसारचक्रके भँवरूपी गड्ढोंमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख आदि विविध भेदोंको प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे इस संसारमें निवास कर रहा है। इनमेंसे कोई जीव कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर अधःकरण अपूर्वकरण और अनिष्टिकरण रूप परिणामोंसे मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। तदनन्तर अप्रत्याख्यान-वरण कषायके क्षयोपशमसे श्रावकके बारह व्रत ग्रहण करता है। कभी प्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशमसे महाव्रत प्राप्त करता है। कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। कभी मोहकर्मरूपी शत्रुके उच्छेदसे उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्रसे अलंकृत होता है। तदनन्तर द्वितीय शुक्लध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मोंका क्षय करता है, उस समय नव केवल-लब्धियोंकी प्राप्तिसे अर्हन्त होकर सबके द्वारा पूज्य हो जाता है। कुछ समय बाद तृतीय शुक्ल ध्यानके द्वारा समस्त योगोंको रोक देता है और समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके प्रभावसे समस्त कर्मबन्धको नष्ट कर देता है। इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-क्रमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्मार्गके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता है ॥ ३१२-३२० ॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी अमिततेज, श्रीजिनेन्द्र भगवान्के द्वारा

कालाद्युक्तचतुर्भेदप्रायोग्यप्रापणात्तदा । सन्यक्श्रद्धानसंशुद्धः श्रावकव्रतभूषितः ॥ ३२२ ॥  
 भगवन् किञ्चिदिच्छामि प्रष्टुमन्यच्च चेतसि । स्थितं मेऽशनिघोषोऽयं प्रभावं तन्वतोऽवयन् ॥ ३२३ ॥  
 सुतारां मेऽनुजामेव हतवान् केन हेतुना । इत्यब्राक्षीजिनेन्द्रोऽपि हेतुं तस्यैवमब्रवीत् ॥ ३२४ ॥  
 जम्बूपलक्षिते द्वीपे विपये मगधाह्वये । अचलग्रामवास्तव्यो ब्राह्मणो धरणीजटः<sup>१</sup> ॥ ३२५ ॥  
 अग्निला गृहिणी तोकौ भूत्यन्तेद्राग्निसंज्ञकौ । कपिलस्तस्य दासेरस्तद्वेदाध्ययने स्वयम् ॥ ३२६ ॥  
 वेदान्स सूक्ष्मशुद्धित्वादासीद् ग्रन्थतोऽर्थतः । तं ज्ञात्वा ब्राह्मणः क्रुद्ध्वा त्वयाऽयोग्यमिदं कृतम् ॥ ३२७ ॥  
 इति दासीसुतं गोहात्तदैव निरजीगमत् । कपिलोऽपि विषण्णत्वात्तस्माद्गर्नं पुरं ययौ ॥ ३२८ ॥  
 श्रुत्वाऽध्ययनसम्पन्नं योग्यं तं वीक्ष्य सत्यकः । विप्रः स्वतनुजां जम्बूसमुत्पन्नां समर्पयत् ॥ ३२९ ॥  
 स राजपूजितस्तत्र सर्वशास्त्रार्थसारविन् । व्याख्यामखण्डितां कुर्वन्ननयत्कतिचित्समाः ॥ ३३० ॥  
 तस्य विप्रकुलायोग्यदुश्चरित्रविमर्शान् । तन्नार्या सत्यभामाऽयं<sup>२</sup> कस्येत्यायत्तसंशय ॥ ३३१ ॥  
 वार्तापरम्पराज्ञातस्वकीयप्रभावं<sup>३</sup> द्विजम् । स्वदारिद्र्यापनोदार्थं स्वान्तिकं समुपागतम् ॥ ३३२ ॥  
 दूरात् कपिलको दृष्ट्वा दुष्टात्मा धरिणीजटम्<sup>४</sup> । कुपितोऽपि मनस्यस्मै प्रत्युत्थायाभिवाद्य च ॥ ३३३ ॥  
 समुच्चासनमारोप्य मातुर्भात्रोश्च किं मम । कुशलं ब्रूत मद्भाग्याद्युयमत्रैवमागताः ॥ ३३४ ॥

कही हुई जन्मसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी प्रक्रियाको मुनकर ऐसा संतुष्ट हुआ मानो उसने अमृतका ही पान किया हो ॥ ३२१ ॥ ऊपर कही हुई कालादि चार लब्धियोंकी प्राप्तिसे उस समय उसने सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होकर अपने आपको श्रावकोंके व्रतसे विभूषित किया ॥ ३२२ ॥ उसने भगवान्से पूछा कि हे भगवन् ! मैं अपने चित्तमें स्थित एक दुमरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ । बात यह है कि इस अशनिघोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छांटी बहिन सुताराका हरण किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान् भी उसका कारण इस प्रकार कहने लगे ॥ ३२३-३२४ ॥

जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका ग्राम है । उममें धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता था ॥ ३२५ ॥ उसकी स्त्रीका नाम अग्निला था और उन दोनोंके इन्द्रभूति तथा अग्निभूति नामके दो पुत्र थे । इनके सिवाय एक कपिल नाम दासीपुत्र भी था । जब वह ब्राह्मण अपने पुत्रोंको वेद पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूक्ष्मबुद्धि था कि उसने अपने आप ही शब्द तथा अर्थ-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था । जब ब्राह्मणको इस बातका पता चला तब उसने कुपित होकर 'तूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दासी-पुत्रको उसी समय घरसे निकाल दिया । कपिल भी दुःखी होता हुआ वहाँसे रत्नपुर नामक नगरमें चला गया ॥ ३२६-३२८ ॥ रत्नपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था । उसने कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी ॥ ३२९ ॥ इस प्रकार राजपूज्य एवं समस्त शास्त्रोंके सारपूर्ण अर्थके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगरमें कुछ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान् अवश्य था परन्तु उसका आचरण ब्राह्मण कुलके योग्य नहीं था अतः उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुश्चरितका विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है ? ॥ ३३१ ॥ इधर धरिणीजट दरिद्र हो गया । उसने परम्परासे कपिलके प्रभावकी सब बातें जान लीं इसलिए वह अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया । उसे आया देख कपिल मन ही मन बहुत कुपित हुआ परन्तु बाह्यमें उसने उठकर अभिवादन-प्रणाम किया । उच्च आसन पर बैठाया और कहा कि कहिये मेरी माता तथा भाइयोंकी कुशलता तो है न ? मेरे सौभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह

१ धरणीजटः ख०, ल० । २ कस्येत्यायत्तसंशयं क०, घ० । कस्येत्यायत्तसंशयः ल० । ३ द्विजः श० । ४ धरिणीजटं ख० ।

इति पृष्ठा प्रतोष्यैर्न स्नानवस्त्रासनादिभिः । स्वजात्युद्भेदभीतत्वात् सम्यक् तस्य मनोऽग्रहीत् ॥ ३३५ ॥  
सोऽपि विप्रोऽतिदारिद्र्याभिद्रुतः पुत्रमेव तम् । प्रतिपद्याचरत्यायो नाथिनां स्थितिपालनम् ॥ ३३६ ॥  
दिनानि कानिचिद्यातान्येवं संवृतवृत्तयोः । तयोः कदाचित्तं विप्रं सत्यभामाधनाधितम् ॥ ३३७ ॥  
अप्राक्षीत्तत्परोक्षेऽयं किं सत्यं व्रत वः सुतः । एतत्कुन्तिसतचारित्राञ्च प्रत्येमीति पुत्रताम् ॥ ३३८ ॥  
स सुवर्णवसुर्गेहं यियामुश्चेतसा द्विपन्<sup>१</sup> । गदित्वाऽगाद्यथावृत्तं दुष्टानां नास्ति दुष्करम् ॥ ३३९ ॥  
अथ तन्नगराधीशः श्रुपेणः सिंहनन्दिताऽ- । निम्दिता च प्रिये तस्य तयोरिन्द्रेन्दुसखिभौ ॥ ३४० ॥  
इन्द्रोऽपेन्द्रादिमेतान्तौ तन्जौ मनुजोऽमौ । ताभ्यामतिविनीताभ्यां पितरः प्रीतिमागमन् ॥ ३४१ ॥  
पापस्वपनिना सत्यभामा सान्वयमानिर्ना । सहवासमनिच्छन्ती भूपति शरणं गता ॥ ३४२ ॥  
ततः<sup>२</sup> कपिलकं शोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम् । स्वोपान्तोपेतमन्यायघोषणं कृतकद्विजम् ॥ ३४३ ॥  
वीक्ष्य<sup>३</sup> विज्ञानवृत्तान्तं स श्रुपेणमर्हापतिः । पापिष्ठानां विजातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥ ३४४ ॥  
एतदर्थं कूर्वानानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् । आदिमध्यावसानेषु न ते यान्यन्ति विक्रियाम् ॥ ३४५ ॥  
स्वयंरक्तो विरक्तायां योऽनुरागं प्रयच्छति । हरिनीलमणौ वासौ तेजः काङ्क्षन्ति लोहितम् ॥ ३४६ ॥  
इत्यादि चिन्तयन् सद्यम्नं दुराचारमात्मनः । देशाक्षिराकरोद्धर्म्यां न सहन्ते स्थितिक्षितिम् ॥ ३४७ ॥  
कदाचिन्न महार्हापालः चारणद्वन्द्वमागतम् । प्रतीक्ष्यादित्यगत्याग्यमरिञ्जयमपि स्वयम् ॥ ३४८ ॥

अच्छा किया इस प्रकार पूजकर स्नान वस्त्र आसन आदिमे उभे संतुष्ट किया और कहीं हमारी जातिका रोड़ खुन न जावे इस भयमे उमने उमके मनको अच्छी तरह ग्रहण कर लिया ॥ ३३२-३३५ ॥ दरिद्रतामे पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करने लगा सो ठीक है क्योंकि स्वार्थी मनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥ ३३६ ॥ इस प्रकार आपने समाचारोंको द्विपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये । एक दिन कपिलके परोक्षमे सत्यभामाने ब्राह्मणको बहुत-सा धन देकर पृष्ठा कि आप सत्य कहिये । क्या यह आपका ही पुत्र है ? इसके दुश्चरित्रमे मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है । धरिणी-जट हृदयमें तो कपिलके साथ द्वेष रखता ही था और इधर सत्यभामाके दिये हुए सुवर्ण तथा धनको साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि दृष्ट मनुष्योंके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है ॥ ३३७-३३८ ॥

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीपेण था । उसके सिंहनन्दिता और अनिन्दिता नामकी दो रानियां थीं । उन दोनोंको इन्द्र और चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन और उपेन्द्र-मेन नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र अन्यन्त नम्र थे अतः माता-पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे ॥ ३४०-३४१ ॥ सत्यभामाको अपने वंशका अभिमान था अतः वह अपने पापी पतिके साथ सहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गई ॥ ३४२ ॥ उस समय अन्यायकी घोषणा करने वाला वह वनावटी ब्राह्मण कपिल राजाके पास ही बैठा था, शोकके कारण उसने अपना हाथ अपने मस्तक पर लगा रक्खा था, उसे देखकर और उमका सय हाल जानकर श्रीपेण राजाने विचार किया कि पापी विजातीय मनुष्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है । इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्योंका संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अन्तमें कभी भी विकारको प्राप्त नहीं होते ॥ ३४३-३४५ ॥ जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्त्रीमें अनुरागकी इच्छा करता है वह इन्द्रनील मणिमें लाल तेजकी इच्छा करता है ॥ ३४६ ॥ इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुरा-चारीको शीघ्र ही अपने देशसे निकाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादाकी हानि-को सहन नहीं करते ॥ ३४७ ॥ किसी एक दिन राजाने घर पर आये हुए आदित्यगति और अरिञ्जय नामके दो चारण मुनियोंको पडिगाह कर स्वयं आहार दान दिया, पञ्चाश्रय प्राप्त किये

दत्त्वात्प्रदानमेताभ्यामवाप्याश्रयप्रसन्नकम् । उदक्कुर्वायुरग्रन्यात्<sup>१</sup> दशाङ्गतर्हभागदम् ॥ ३४९ ॥  
 देव्यौ दानानुमोदेन सत्यभामा च सत्क्रिया । तदेवायुरवापुस्ताः किं न स्यात्साधुसङ्गमात् ॥ ३५० ॥  
 अथ कौशारम्यधीशस्य महाबलमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुता नाम्ना श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥ ३५१ ॥  
 राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ । तथा सहागतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥ ३५२ ॥  
 पुत्रयोपेन्द्रसेनस्य साङ्गत्यं स्नेहनिर्भरम् । अभूद्भूष तद्धेतोस्तयोरुद्यानवर्तिनोः ॥ ३५३ ॥  
 युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य तौ निवारयितुं नृपः । गत्वा कम्पानुरौ क्रुद्धावसमर्थः प्रियात्पुत्रजः ॥ ३५४ ॥  
 सादुं तनुजयोर्दुःखमार्द्राशयतया स्वयम् । अनाक्रुवन् समाग्राय विपपुष्पं मृत्तिं ययौ ॥ ३५५ ॥  
 तदेव पुष्पमाग्राय<sup>२</sup> समीयुर्विगतासुताम् । तद्देव्यौ सत्यभामा च विचित्रा विधिचोदना ॥ ३५६ ॥  
 धातकीखण्डपूर्वाङ्कुरुपूतारनामसु । दम्पती नृपतिः सिंहनन्दिता च बभूवतुः ॥ ३५७ ॥  
 अभूदनिन्दिताऽऽर्योऽयं सत्यभामा च बल्लभा । तस्थुः सर्वेऽपि ते तत्र भोगभूभोगभागिनः ॥ ३५८ ॥  
 अथ कश्चित्खगो मध्ये प्रविश्य नृपपुत्रयोः । वृथा किमिति युद्धयेतामनुजा युवयोरियम् ॥ ३५९ ॥  
 इत्याह तद्भ्रूचः श्रुत्वा कुमारभ्यां सविस्मयम् । कथं तदिति समृष्टः प्रत्याह गगनेचरः ॥ ३६० ॥  
 धातकीखण्डप्रागभाग<sup>३</sup>मन्दरप्राच्यपुष्कला- । वती खगाद्रयपाकश्रेणीगतादित्याभपूर्जुजः ॥ ३६१ ॥  
 तनूजो मित्रसेनायां सुकुण्डलिखगोशिनः । मणिकुण्डलनामाहं कदाचित्पुण्डरीकिणाम् ॥ ३६२ ॥  
 गतोऽमितप्रबार्हद्भ्यः श्रुत्वा धर्मं सनातनम् । मत्पूर्वं भवसम्बन्धमप्राक्षमवदंश्च ते ॥ ३६३ ॥

और दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके भोग प्रदान करने वाली उत्तरकुरूकी आयु बांधी । राजाकी दोनों रानियोंने तथा उत्तम कार्य करनेवाली सत्यभामाने भी दानकी अनुमोदनासे उसी उत्तरकुरूकी आयुका बन्ध किया सो ठीक ही है क्योंकि साधुओंके समागमसे क्या नहीं होता ? ॥ ३४९-३५० ॥

अथानन्तर कौशाम्बी नगरी में राजा महाबल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी रानी थी और उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी । वह श्रीकान्ता मानो मुन्दरनाकी सीमा ही थी ॥ ३५१ ॥ राजा महाबलने वह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपूर्वक इन्द्रसेनके लिए दी थी । श्रीकान्ताके साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण स्त्री भी गई थी । उसके साथ उपेन्द्रसेनका स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेवाले दोनों भाइयोंमें युद्ध होनेकी तैयारी हो गई । जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये परन्तु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रहे । राजाको दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे । साथ ही उनके परिणाम अत्यन्त आर्द्र-कामल थे अतः वे पुत्रोंका दुःख सहनमें समर्थ नहीं हो सके । फल यह हुआ कि वे विप-पुष्प सूँघ कर मर गये ॥ ३५२-३५५ ॥ वही विप-पुष्प सूँघकर राजाकी दोनों स्त्रियाँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो गईं सो ठीक ही है क्योंकि कर्मोंकी प्रेरणा विचित्र होती है ॥ ३५६ ॥ धातकीखण्डके पूर्वार्ध भागमें जो उत्तरकुरू नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिंह-नन्दिता दोनों दम्पती हुए और अनिन्दिता नामकी रानी आर्य तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई । इस प्रकार वे सब वहाँ भोगभूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे ॥ ३५७-३५८ ॥

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों भाइयोंके बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हो ? यह तो तुम्हारी छोटी बहिन है । उसके वचन सुनकर दोनों कुमारोंने आश्चर्यके साथ पूछा कि यह कैसे ? उत्तरमें विद्याधरने कहा ॥ ३५९-३६० ॥ कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वभागमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर एक पुष्कलावती नामका देश है । उसमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणी पर आदित्याभ नामका नगर है । उसमें मुकुण्डली नामका विद्याधर राज्य करता है । मुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम मित्रसेना है । मैं उन दोनोंका मणिकुण्डल नामका पुत्र हूँ । मैं किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जिनेन्द्रसे सनातनधर्मका स्वरूप

१ -ग्रन्थत् ग०।-ग्रस्थान् ल० । २ समापुर्विगतासुताम् ख० । समीयुर्विगतासुकाम् ल० ।



तृतीये पुष्कराख्यातद्वीपऽपरसुराचलात् । प्रतीच्यां वीतशोकाख्यं सरिद्विषयमध्यगम् ॥ ३६४ ॥  
 पुरं चक्रध्वजस्तस्य पतिः कनकमालिका । देवी कनकपद्मादिलते जाते तयोः सुते ॥ ३६५ ॥  
 विद्युन्मत्याश्च तस्यैव देव्याः पद्मावती सुता । याति काले सुखं तेषां कदाचित्काललब्धितः ॥ ३६६ ॥  
 प्रपीतामितसेनाख्यागणिनीवाप्रसायना । सुते कनकमाला च कल्पेऽजनिपतादिमे ॥ ३६७ ॥  
 सुराः पद्मावती वीक्ष्य गणिकां कामुकद्वयम् । प्रसाध्यमानां तस्मिन्नाऽभूत्तत्र सुरलज्जिका ॥ ३६८ ॥  
 ततः कनकमालैत्य त्वमभूर्मणिकुण्डली । सुताद्वयं च तद्वत्नपुरेऽभूतां नृपात्मजौ ॥ ३६९ ॥  
 स्वश्च्युत्वाऽनन्तमत्याख्या सुरवेश्याप्यजायत । तद्धेतोर्वतते युद्धमद्य तद्राजपुत्रयोः ॥ ३७० ॥  
 इति जैनीभिर्मां वाणीमाकर्ण्यान्यायकारिणौ । युवामज्ञातधर्माणौ निषेद्धमहमागतः ॥ ३७१ ॥  
 इति तद्ब्रह्मनाद्वीतकलहौ जातसर्विदौ । सद्यः सम्भूतनिर्वेगौ सुधर्मगुरुसन्निधौ ॥ ३७२ ॥  
 दीक्षामादाय निवाणमार्गपर्यन्तागमिनौ । क्षायिकानन्तबोधार्दिगणौ निर्द्वैतिमापनुः ॥ ३७३ ॥  
 तदानन्तमतिश्रान्तः<sup>१</sup> सम्पूर्णश्रावकव्रता । नाकलोकमवापाप्यं न किं वा सदनुग्रहात् ॥ ३७४ ॥  
 सौधर्मकल्पे श्रीषेणो विमाने श्रीप्रभोऽभवत् । देवी श्रीनिलयेऽविद्युत्प्रभाऽभूत् सिंहनन्दिता ॥ ३७५ ॥  
 ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां विमाने विमलप्रभे । देवी शुक्लप्रभा नाम्ना देवांस्त्र विमलप्रभः ॥ ३७६ ॥  
 पञ्चपत्योपमप्रान्ते श्रीषेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककीर्तेः सुतः श्रीमानजनिष्ठा<sup>२</sup>स्वमीदृशः ॥ ३७७ ॥  
<sup>४</sup>तव ज्योतिःप्रभा कान्ताऽजनि सा सिंहनन्दिता । आसीदनिन्दिता चायं देवी श्रीविजयाह्वयः ॥ ३७८ ॥

गुनकर मैंने अपने पूर्वभव पूछे । उत्तरमें वे कहने लगे—॥ ३६१-३६३ ॥ किं तासरं पुष्करवर द्वीपमें पश्चिम मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर सरिद् नामका एक देश है । उसके मध्यमें वीतशोक नामका नगर है । उसके राजाका नाम चक्रध्वज था, चक्रध्वजकी स्त्रीका नाम कनकमालिका था । उन दोनोंके कनकलता और पद्मलता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं ॥ ३६४-३६५ ॥ उसी राजाकी एक विद्युन्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सबका समय सुखसे बीत रहा था । किमी दिन काललब्धिके निमित्तमे रानी कनकमाला और उसकी दोनों पुत्रियोंने अमितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों ही मरकर प्रथम स्वर्गमें देव हुए । इधर पद्मावतीने देखा कि एक वेश्या दो कामियोंको प्रसन्न कर रही है उसे देख पद्मावतीने भी वैसे ही होनेकी इच्छा की । मरकर वह स्वर्गमें अप्सरा हुई ॥ ३६६-३६८ ॥ तदनन्तर कनकमालाका जीव, वहाँसे चयकर मणिलुण्डली नामका राजा हुआ है और दोनों पुत्रियोंके जीव रत्नपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं । जिस अप्सराका उल्लेख ऊपर आ चुका है वह स्वर्गमे चय कर अनन्तमति हुई है । इसी अनन्तमतिको लेकर आज तुम दोनों राजपुत्रोंका युद्ध हो रहा है ॥ ३६९-३७० ॥ इस प्रकार जिनेंद्रदेवकी कही हुई वाणी गुनकर, अन्याय करने वाले और धर्मको न जाननेवाले तुम लोगोंको रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ ॥ ३७१ ॥ इस प्रकार विद्याधरके वचनोंसे दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दोनोंने सुधर्मगुरुके पास दीक्षा ले ली, दोनों ही मोक्षमार्गके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक हुए और दोनों ही अन्तमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥ ३७२-३७३ ॥ तथा अनन्तमतिये भी हृदयमें श्रावकके सम्पूर्ण व्रत धारण किये और अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके अनुग्रहसे कौन-सी वस्तु नहीं मिलती ? ॥ ३७४ ॥ राजा श्रीषेणका जीव भोगभूमिसे चलकर सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ, रानी सिंहनन्दिताका जीव उसी स्वर्गके श्रीनिलय विमानमें विद्युत्प्रभा नामकी देवी हुई ॥ ३७५ ॥ सत्यभामा ब्राह्मणी और अनिन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलप्रभ विमानमें शुक्लप्रभा नामकी देवी और विमलप्रभ नामके देव हुए ॥ ३७६ ॥ राजा श्रीषेणका जीव पांच पत्य प्रमाण आयुके अन्तमें वहाँसे चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अर्ककीर्तिका पुत्र हुआ है ॥ ३७७ ॥ सिंहनन्दिता तुम्हारी

१ तदानन्तमतिश्राव ल०, ग० । २ श्रीप्रभेऽभवत् ल० । ३-नजनिष्ठा-ल० । ४ तव ज्योतिः क०, घ०, भवज्योतिः ल० ।

सत्यभामा सुताराऽभूत्प्राक्तनः कपिलः खलः । सुचिरं दुर्गतिं धात्वा संभूतरमणे वने ॥ ३७९ ॥  
 ऐरावतीनदीतीरे समभूत्तापसाश्रमे । सुतश्चपलवेगायां कौशिकान्मृगशृङ्गाक् ॥ ३८० ॥  
 कुतापसप्रतं दीर्घमनुष्ठाय दुराशयः । श्रियं चपलवेगस्य विलोक्य खचरेशिनः ॥ ३८१ ॥  
 निदानं मनसा मूढो विधाय बुधनिन्दितम् । जनित्वाऽशनिघोपोऽयं सुतारां स्नेहतोऽग्रहीत् ॥ ३८२ ॥  
 भवे भाव्यन्न नवमे पञ्चमश्चक्रवर्तिनाम् । १ तीर्थेशां षोडशः शान्तिर्भवान् शान्तिप्रदः सताम् ॥ ३८३ ॥  
 इति तज्जिनशीतांशुवाग्ज्योत्स्नाप्रसरप्रभा । प्रसङ्गाद्व्यकसत्खेचरेन्द्रहृत्कुमुदाकरः ॥ ३८४ ॥  
 तदैवाहनिघोषाख्यां माता चास्य स्वयम्प्रभा । सुतारा च परे १ वापन्नविष्णाः संयमं परम् ॥ ३८५ ॥  
 अभिनन्द्य जिनं सर्वे त्रिःपरीत्य यथांचितम् । जग्मुश्चक्रितनृजाद्यास्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥  
 अर्ककीर्तिसुतः कुर्वन्नभुक्तिं सर्वपर्वसु । स्थितिभेदे च तद्योग्यं प्रायश्चित्तं समाचरन् ॥ ३८७ ॥  
 महापूजां सदा कुर्वन् पात्रदानादि चादरात् । ददद्धर्मकथां शृण्वन् भव्यान् धर्मं प्रबोधयन् ॥ ३८८ ॥  
 निःशङ्कादिगुणांस्तन्वन्दष्टिमांहानपोहयन् । ३ इतो वाऽमिततेजाः सन् सुखप्रेक्ष्योऽमृतांशुवत् ॥ ३८९ ॥  
 संयमीव शमं यातः पालकः पितृवत्प्रजाः । लोकद्वयहितं धर्म्यं कर्म प्रावर्तयत्सदा ॥ ३९० ॥  
 प्रज्ञप्तिकामरूपिण्यावथाग्निस्तम्बिनी परा । उदकस्तम्बिनी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिनी ॥ ३९१ ॥  
 अप्रतीघातगामिन्या सहान्याकाशगामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशीकरणी श्रुता ४ ॥ ३९२ ॥  
 आवेशिनी दशम्यन्या मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी प्रहरणी संक्रामण्याख्ययोऽदिता ॥ ३९३ ॥  
 आवर्तनी संग्रहणी भञ्जनी च विपाटनी । प्रावर्तनी प्रमोदिन्या सहान्यापि प्रहापणी ॥ ३९४ ॥

ज्योतिःप्रभा नामकी स्त्री हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा हुई है और पहलेका दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियोंमें भ्रमण कर संभूतरमण नामक वनमें ऐरावती नदीके किनारे तापसियोंके आश्रममें कौशिक नामक तापसका चपलवेगा स्त्रीसे मृगशृङ्गा नामका पुत्र हुआ है ॥ ३७९-३८० ॥ वहाँ पर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तापसियोंके व्रत पालन किये । किसी एक दिन चपलवेग विद्याधरकी लक्ष्मी देखकर उस सूर्यने मनमें, विद्वान् जिसकी निन्दा करते हैं, ऐसा निदान बन्ध किया । उसीके फलसे यह अशनिघोष हुआ है और पूर्व स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है ॥ ३८१-३८२ ॥ तेरा जीव आगे होनेवाले नौवें भवमें सज्जनोंको शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती और शान्तिनाथ नामका सोलहवाँ तीर्थकर होगा ॥ ३८३ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फैली हुई वचनरूपी चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंमें भरा सरोवर खिल उठा ॥ ३८४ ॥ उसी समय अशनिघोष, उसकी माता स्वयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने ही लोगोंने विरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण किया ॥ ३८५ ॥ चक्रवर्तीके पुत्रका आदि लेकर वार्तिके सब लोग जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अमिततेजके साथ यथायोग्य स्थान पर चले गये ॥ ३८६ ॥ इधर अर्ककीर्तिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वोंमें उपवास करता था, यदि कदाचित् ग्रहण किये हुए व्रतकी मर्यादाका भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित्त लेता था, सदा महापूजा करता था, आदरसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा सुनता था, भव्योंको धर्मापदेश देता था, निःशङ्कित आदि गुणोंका विस्तार करता था, दर्शनमोहकों नष्ट करता था, सूर्यके समान अपरिमित तेजका धारक था और चन्द्रमाके समान सुखसे देखने योग्य था ॥ ३८७-३८८ ॥ वह संयमीके समान शान्त था, पिताकी तरह प्रजाका पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंकी निरन्तर प्रवृत्ति रखता था ॥ ३८९ ॥ प्रज्ञप्ति, कामरूपिणी, अग्निस्तम्बिनी, उदकस्तम्बिनी, विश्वप्रवेशिनी, अप्रतीघातगामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीयप्रस्थापिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संक्रामणी, आवर्तनी, संग्रहणी, भञ्जनी, विपाटिनी, प्रावर्तकी, प्रमोदिनी,

प्रभावती प्रलापिन्या निक्षेपिण्या च या स्मृता । शवरी परा चाण्डाली मातङ्गीति च कीर्तिता ॥३९५॥  
 गौरी पडङ्गिका श्रीमत्कन्या च शतसंकुला । कुभाण्डीति च विख्याता तथा विरलवेगिका ॥३९६॥  
 रोहिण्यतो मनोवेगा महावेगाह्वयापि च । चण्डवेगा सचपलवेगा लघुकरीति च ॥ ३९७ ॥  
 पर्णलम्बाख्यका वेगावतीति प्रतिपादिता । शानोष्णदे च वेताल्यौ महाज्वालाभिधानिका ॥३९८॥  
 छेदनी सर्वविद्यानां युद्धवीर्येति चादिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता प्रहारावरणी तथा ॥३९९॥  
 भ्रामर्या भोगिनीत्यादिकुलजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामयं पारं गत्वा योगीव निर्बभौ ॥४००॥  
 श्रेणीद्वयाधिपत्येन विद्याधरधराधिपः । प्राप्य तच्चक्रवर्तित्वं चिरं भोगानभुङ्क्त सः ॥ ४०१ ॥  
 कदाचित्त्वचराधीशश्चरणाय यथाविधि । दानं दमवराख्याय दत्त्वाऽऽप्राश्रयपञ्चकम् ॥ ४०२ ॥  
 अन्यदाऽमिततेजःश्रीविजयौ विनताननौ । नत्वाऽमरगुरुं देवगुरुं च मुनिपुङ्गवम्<sup>३</sup> ॥ ४०३ ॥  
 दृष्ट्वा धर्मस्य यथात्म्यं<sup>४</sup> पीत्वा तद्वचनामृतम् । अजरामरतां प्राप्ताविव तोषमुपेतुः ॥ ४०४ ॥  
 पुनः श्रीविजयोऽप्राक्षीद्वसम्बन्धमात्मनः । पितुः स भगवान् प्राह प्रथमः<sup>५</sup> प्रास्तकल्पमः ॥४०५॥  
 साकल्येन तदाख्यातं विश्वनन्दिभवाद्दितः । समाकर्ण्य तदाख्यानं भोगे कृतनिदानकः ॥ ४०६ ॥  
 किञ्चिकालं समासाद्य खभूचरमुवामृतम् । विपुलादिमतेः पार्श्वं विमलादिमतेश्च तौ ॥ ४०७ ॥  
 महीभुजौ निशर्म्यैकमासमात्रान्मजीविनम् । दत्त्वाऽर्कतेजसे राज्यं श्रीदत्ताय च सादरम् ॥ ४०८ ॥  
 कृताप्टाह्निकसंपूर्जौ मुनीनाञ्जनने वने । समीपे नन्दनाख्यस्य त्यक्त्वा सङ्गं तयोः स्वगेत् ॥४०९॥  
 प्रायोपगमसंन्यासविधिनाराध्य शुद्धधीः । नन्धावर्तेऽभवत्कल्पे रविचूलस्त्रयोदशे ॥ ४१० ॥  
 अभूर्च्छाविजयांऽप्यत्र स्वस्तिके मणिचूलकः । विशल्यदध्युपमायुष्यौ जीवितावसितौ ततः ॥ ४११ ॥

प्रदापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेपणी, शवरी, चांडाली, मातङ्गी, गौरी, पडङ्गिका, श्रीमत्कन्या, शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चण्डवेगा, चपलवेगा, लघुकरि, पर्णलघु, वेगावती, शानदा, उष्णदा, वेताली, महाज्वाला, सर्वविद्याद्वेदिनी, युद्धवीर्या, बन्धमोचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल और जातिमें उत्पन्न हुई अनेक विद्यापै सिद्ध कीं । उन सब विद्याओंका, पारगामी होकर वह योगिके समान मुशोभित हो रहा ॥ ३९१-४०० ॥ दोनों श्रृणियोंका अधिपति होनेसे वह सब विद्याधरोंका राजा था और इसप्रकार विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोगा भोगता रहा ॥ ४०१ ॥ किसी एक दिन विद्याधरोंके अधिपति अमित-तेजसे दमवर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपूर्वक आहार दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ४०२ ॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीविजयने मस्तक भुकाकर अमरगुरु और देवगुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियोंको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनामृतका पान किया और ऐसा संतोप प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ४०३-४०४ ॥ तदनन्तर श्रीविजयने अपने तथा पिताके पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट करनेवाले पहले भगवान् अमरगुरु कहने लगे ॥ ४०५ ॥ उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लेकर समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भोगोंका निदानवन्ध किया ॥ ४०६ ॥ अमिततेज तथा श्रीविजय दोनोंने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि-गोचरियोंके सुवामृतका पान किया । तदनन्तर दोनोंने विपुलमति और विमलमति नामके मुनियोंके पास 'अपनी आयु एक मास मात्रकी रह गई है' ऐसा सुनकर अर्कतेज तथा श्रीदत्ता नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़े आदरसे आश्राह्निक पूजा की तथा नन्दन नामक मुनिराजके समीप चन्दनवनमें सब परिग्रहका त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया । अन्तमें समाधिभरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरोंका राजा अमित-तेज तेरहवें स्वर्गके नन्धावर्त विमानमें रविचूल नामका देव हुआ और श्रीविजय भी इसी स्वर्गके स्वस्तिक विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ दोनोंकी आयु बीस सागरकी थी । आयु समाप्त होने पर वहाँसे च्युत हुए ॥ ४०७-४११ ॥

द्वीपेऽभिन्मन् प्राग्विदेहस्थविलसद्भस्कावती । देशे प्रभाकरीपुर्या पतिस्तिमितसागरः ॥ ४१२ ॥  
 देवी वसुन्धरा जातस्तयारादित्यचूलवाक् । देवोऽपराजितः सूनूर्नन्द्यावर्ताद् दिवश्च्युतः ॥ ४१३ ॥  
 तस्यैवानुमतौ देव्यां मणिचूलोऽप्यभूत्सुतः । श्रीमाननन्तवीर्याख्यो दिविजः स्वस्तिकाच्युतः ॥ ४१४ ॥  
 कान्त्या कुवलयान्हादात्तृष्णातापापनोदनात् । कलाधरत्वाद्भ्रातः स्म जम्बूद्वीपविधूपमौ ॥ ४१५ ॥  
 पद्मानन्दकरौ भास्वद्भूपौ ध्वस्ततामसौ । नित्यादयौ जगन्नेत्रे तावाधौ वा दिवाकरौ ॥ ४१६ ॥  
 न वद्वकौ कलावन्तौ सप्रतापौ न दाहकौ । करद्वयव्यपंतौ तौ सत्करौ रेजनुस्तराम् ॥ ४१७ ॥  
 नोपमानस्तयोः कामो रूपेणानङ्गतां गतः । नीत्या नान्यान्यजेतारौ गुरुशुक्रौ च तत्समौ ॥ ४१८ ॥  
 हीयते वर्द्धते चापि भास्करेण विनिर्मिता । वर्द्धते तत्कृता छाया वर्द्धमानस्य वा तरोः ॥ ४१९ ॥  
 न तयोर्विग्रहो यानं तथाप्यरिमहीभुजः । तत्प्रतापभयात्ताभ्यां स्वयं सन्धानुमुत्सुकाः ॥ ४२० ॥

उनमेंसे रविचूल नामका देव नन्द्यावर्त विमानसे च्युत होकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागर और उनकी रानी वसुन्धराके अपराजित नामका पुत्र हुआ ॥ मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर उसी राजाकी अनुमति नामकी रानीसे अनन्तवीर्य नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुआ ॥ ४१२-४१४ ॥ वे दोनों ही भाई जम्बूद्वीपके चन्द्रमाओंके समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उच्च कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुवलय-नील कमलोंको आह्लादित करता है उसी प्रकार वे भी कुवलय-पृथिवी-मण्डलको आह्लादित करते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्ण-तृषा और आतापको दूर करता है उसी प्रकार वे भी तृष्णा रूपी आताप-दुःखको दूर करते थे और जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलाओंका धारक होता है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं—अनेक चतुराइयोंके धारक थे ॥ ४१५ ॥ अथवा वे दोनों भाई बालसूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लक्ष्मीको आनन्दित करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य भास्वद्भूप—देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार बालसूर्य ध्वस्ततामस-अन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य नित्यादय होते हैं—उनका उद्गमन निरन्तर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्यादय थे—उनका ऐश्वर्य निरन्तर विद्यमान रहता था और जिस प्रकार बालसूर्य जगन्नेत्र-जगच्चक्षु नामको धारण करनेवाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नेत्र-जगत्के लिए नेत्रके समान थे ॥ ४१६ ॥ वे दोनों भाई कलावान् थे परन्तु कभी किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सहित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करों—दोनों प्रकार के टैक्सोंसे ( आयात और निर्यात करोंसे ) रहित होनेपर भी सत्कार-उत्तम कार्य करनेवाले अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ ४१७ ॥ रूपकी अपेक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह अशरीरताको प्राप्त हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे । भावार्थ—लोकमें सुन्दरताके लिए कामदेवकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं थी क्योंकि वे दोनों शरीरसे सहित थे और कामदेव शरीरसे रहित था । इसी प्रकार लोकमें नीतिविज्ञताके लिए गुरु—बृहस्पति और शुक्र-शुक्राचार्यकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले थे परन्तु वे दोनों परस्परमें एकदूसरेको नहीं जीत सकते थे ॥ ४१८ ॥ सूर्यके द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती ही रहती है ॥ ४१९ ॥ वे न कभी युद्ध

अवद्विषातां तावेव राज्यलक्ष्मीकटाक्षगौ । नवं वयः समासाद्य शुक्लाप्टम्यमृतांशुवत् ॥ ४२१ ॥  
 पर्यायो राज्यभोग्यस्य योग्ययोर्मत्तानूजयोः । इतीव रतिमच्छैत्सीन्द्रोग्न्वेतत्पिताऽन्यदा ॥ ४२२ ॥  
 तदैव तौ समाहूय कुमारवमरोपमौ । अभिषिच्यार्पयद्राज्यं यौवराज्यं च सोऽस्पृहः ॥ ४२३ ॥  
 स्वयं स्वयम्प्रभाख्यानजिनपादोपसेवनम् । संयमेन समासाद्य धरणेन्द्रद्विदर्शनात् ॥ ४२४ ॥  
 निदानदूषितो बालतपा लोलुतया सुखे । स्वकालान्ते विशुद्धात्मा जगाम धरणेशिताम् ॥ ४२५ ॥  
 १तत्पदे तौ समासाद्य बीजमूलाङ्गराविव । नीतिवारीपरीपेकासुभूमौ वृद्धिर्मायतुः ॥ ४२६ ॥  
 अभ्युद्यतास्तयोः पूर्वं सप्रतापनयांशिवः । आक्रम्य मस्तके चक्रुरास्पदं सर्वभूमृताम् ॥ ४२७ ॥  
 लक्ष्म्यौ नवे युवानौ यौ तत्प्रीतिः समसंगमान् । भोगासक्तिं व्यधाद्वाढं तयोरुद्धतपुण्ययोः ॥ ४२८ ॥  
 नर्तकी वर्वरीत्येका ख्यातान्या च त्रिलातिका । नृत्यविद्येव सामर्थ्याद् रूपद्वयमुपागता ॥ ४२९ ॥  
 भूपती तौ तयोर्नृत्यं कदाचिज्जातसम्मदौ । विलोकमानावासानावागमज्ञारदस्तदा ॥ ४३० ॥  
 सूर्याचन्द्रमसौ सैहिकेयो वा जनिताशुभः । नृत्तासङ्गात्कुमाराभ्यां क्रुरः सोऽविहितादरः ॥ ४३१ ॥  
 जाज्वल्यमानकोपाग्निशिखासंसमानतसः । चण्डांशुरिव मध्याह्ने जज्वाल शुचिसङ्गमान् ॥ ४३२ ॥  
 स तदैव सभामध्याङ्गिर्गत्य कलहप्रियः । द्राक्प्रापत्कोपवेगेन नगरं शिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥

करते थे और न कर्मा शत्रुओं पर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शत्रु राजा उन दोनोंके साथ सदा सन्धि करनेके लिए उत्सुक बने रहते थे ॥ ४२० ॥ इस तरह जिन्हें राज्य-लक्ष्मी अपने कटाक्षोंका विषय बना रही है ऐसे वे दोनों भाई नवीन अवस्थाका पाकर शुक्तपक्षकी अशुर्माके चन्द्रमाके समान बढ़ते ही रहते थे ॥ ४२१ ॥ 'अब मेरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अवस्था राज्यका उपभोग करनेके योग्य हो गई, ऐसी विचार कर किमी एक दिन इनके पिताने भोगोंमें प्रीति करना छोड़ दिया ॥ ४२२ ॥ उर्मा समग इच्छा रहित राजाने देव तुल्य दोनों भाइयोंको बुलाकर उनका अभिषेक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेको युवराज बना दिया ॥ ४२३ ॥ तथा स्वयं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्रके चरणोंके समीप जाकर संयम धारण कर लिया । धरणेन्द्रकी ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध किया । उसमें दूषित होकर बालतप करना रहा । वह सामारिक मुख प्राप्त करनेका इच्छुक था । आयुके अन्तमें विशुद्ध परिणामोंमें मरा और धरणेन्द्र अवस्थाका प्राप्त हुआ ॥ ४२४-४२५ ॥

इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उसमें उत्पन्न हुए अंकुर जलके सिंचनसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद पाकर नीति रूप जलके सिंचनसे वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४२६ ॥ जिस प्रकार सूर्यकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पर्वतोंके मस्तकों-शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सर्वप्रथम समस्त राजाओंके मस्तकों पर अपना स्थान जमाया था ॥ ४२७ ॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है ऐसे दोनों भाइयोंकी राजलक्ष्मियाँ नई थीं और स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिए सट्टश समागमके कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भोगासक्तिको ठीक ही बढ़ा दिया था ॥ ४२८ ॥ उनके वर्वरी और चिलातिका नामकी दो नृत्यकारिणी थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानों नृत्य-विद्याने ही अपनी सामर्थ्यसे दो रूप धारण कर लिये हों ॥ ४२९ ॥ किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्षके साथ उन नृत्यकारिणियोंका नृत्य देखते हुए मुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये ॥ ४३० ॥ दोनों भाई नृत्य देखनेमें आसक्त थे अतः नारदजीका आदर नहीं कर सके । वे क्रूर तो पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया । वे उन दोनों भाइयोंके समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य और चन्द्रमाके समीप राहु आ रहा हो । अत्यन्त जलती हुई क्रोधाग्नि की शिखाओंसे उनका मन संतप्त हो गया । जिस प्रकार जेठके महीनेमें दोपहरके समय सूर्य जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे—अत्यन्त कुपित हो रहे थे । कलहप्रेमी नारदजी उसी समय सभाके

दमितारिं १सभामध्ये सञ्चिविष्टं स्वविष्टरे । अस्तमस्तकभास्वन्तमिव प्रपतनोन्मुखम् ॥ ४३४ ॥  
 सद्यो विलोक्य सोऽप्यात्रु प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । प्रतिगुह्य प्रणम्योच्चैविष्टरे सञ्चिवेश्य तम् ॥ ४३५ ॥  
 दत्ताशिरं किमुद्दिश्य भवन्तो मामुपागताः । सम्पदं किं ममादेष्टुं प्राप्ताः किं वा महापदम् ॥ ४३६ ॥  
 इत्यप्राक्षीदसौ वास्य विकासिवदनाम्बुजः । सम्पदं जनयन् वाचमवोचत्प्रीतिवर्द्धिनीम् ॥ ४३७ ॥  
 सारभूतानि वस्तूनि तवान्वेष्टुं परिभ्रमन् । नर्तकीद्वयमद्राक्षं प्रेक्षायोग्यं तवैव तत् ॥ ४३८ ॥  
 अस्थानस्थं समीक्ष्यैवमनिष्टं सोढुमक्षमः । आगतोऽहं कथं सद्वा पादे चूडामणिस्थितिः ॥ ४३९ ॥  
 सम्प्रत्यप्रतिमल्लौ वा नूतनश्रीमदोद्धतौ । प्रभाकरीपुराधीशौ व्यलीकाविजिगीषुकौ ॥ ४४० ॥  
 ससव्यसनसंसक्तौ सुखोच्छेद्यौ प्रमादिनौ । तयोर्गृहे सुखग्राह्यं जगत्सारमवस्थितम् ॥ ४४१ ॥  
 तद्दूतप्रेषणादेव तवाद्यायाति हेलया । कालहानिर्न कर्तव्या हस्तासन्नेऽतिदुर्लभे ॥ ४४२ ॥  
 इत्येवं प्रेरितस्तेन सपापेन यमेन वा । दमितारिः समासन्नमरणः श्रवणं ददौ ॥ ४४३ ॥  
 तदैव नर्तकीवार्ताश्रुतिव्यामुग्धचेतनः । दूतं सोपायनं प्रस्तुतार्थसम्बन्धवेदिनम् ॥ ४४४ ॥  
 प्राहिणोद्गत्सकावत्याः महीशौ शौर्यशालिनौ । प्रति सोऽपि नृपादेशानन्तरेऽहान्यहापयन् ॥ ४४५ ॥  
 गत्वा जिनगृहे प्रोपधोपवाससमन्वितम् । अपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम् ॥ ४४६ ॥  
 दृष्ट्वाऽमात्यमुखाद्दूतो निवेदितनिजागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुधीः ॥ ४४७ ॥  
 ज्वलत्यस्य प्रतापान्निदिव्यायस्तिण्डभास्वरः । कृतदोषान् व्यलीकाभिमानिनो दहनि द्रुतम् ॥ ४४८ ॥

बीचमें बाहर निकल आये और क्रोधजन्य वगसे शीघ्र ही शिवमन्दिरनगर जा पहुँचे ॥ ४३१-४३३ ॥  
 वहाँ सभाके बीचमें राजा दमितारि अपने आसनपर बैठे था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ता-  
 चलकी शिखरपर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही हो ॥ ४३४ ॥ उसने नारदजीको आना हुआ देख  
 लिया अतः शीघ्र ही उठकर उनका पङ्क्तिगाहन किया, प्रणाम किया और ऊँचे सिंहासनपर बैठाया  
 ॥ ४३५ ॥ जब नारदजी आशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पूछा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे  
 यहाँ पधारें हैं ? क्या मुझे सम्पत्ति देनेके लिए पधारें हैं अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करनेके  
 लिए आपका समागम हुआ है ? यह सुनकर नारदजीका मुखवामल खिल उठा । वे राजाको हर्ष  
 उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ानेवाले बचन कहने लगे ॥ ४३६-४३७ ॥ उन्होंने कहा कि हे राजन ! मैं  
 तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुएँ खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रहता हूँ । मैंने आज दो नृत्यकारिणी  
 देखी हैं जो आपके ही देखने योग्य हैं ॥ ४३८ ॥ वे इस समय ठीक स्थानोंमें स्थित नहीं हैं । मैं  
 ऐसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समर्थ नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्या कभी चूडामणिकी  
 स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है ? ॥ ४३९ ॥ इस समय जिनसे कोई लड़नेवाला  
 नहीं है, जो नवीन लक्ष्मीके मदसे उद्धत हो रहें हैं और जो भूटभूटके ही विजिगीषु बने हुए हैं ऐसे  
 प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तवीर्य हैं । वे सप्त-व्यसनमें आसक्त होकर  
 प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किए जा सकते हैं । संसारका सारभूत वह नृत्यकारिणियों-  
 का जोड़ा इन्हींके घरमें अवस्थित है । उसे आप मुखसे ग्रहण कर सकते हैं, दूत भेजनेसे वह आज  
 ही लीलामात्रमें तुम्हारे पास आ जावेगा इसलिए अत्यन्त दुर्लभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्य-  
 मान है तब समय बिताना अच्छा नहीं ॥ ४४०-४४२ ॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने  
 जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसका मरण अत्यन्त निकट है ऐसा दमितारि नारदकी बातमें आ गया  
 ॥ ४४३ ॥ नृत्यकारिणीकी बात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया । उसने उसी समय वत्सकावती  
 देशके पराक्रमी राजा अपराजित और अनन्तवीर्यके पास प्रकृत अर्थको निवेदन करनेवाला दूत भेंटके  
 साथ भेजा । वह दूत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं बिताता हुआ—शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी  
 पहुँचा । उस समय दोनों ही भाई प्रोपधोपवासका व्रत लेकर जिनमंदिरमें बैठे हुए थे । उन्हें देखकर  
 बुद्धिमान् दूतने मन्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई भेंट दोनों  
 भाइयोंके लिए यथायोग्य समर्पण की ॥ ४४४-४४७ ॥ वह कहने लगा कि दिव्य लोहेके पिण्डके

तस्य नामैव निभिन्नहृदयाः प्राकृतद्विषः । वमन्ति वैरमखां वा विनम्रा भयविह्वलाः ॥ ४४९ ॥  
 न सन्ति सहजास्तस्य शत्रवः शुद्धचेतसः । विभज्यान्वयजैर्विद्वैस्तद्वाज्यं भुज्यते यतः ॥ ४५० ॥  
 कृत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूभुजः । मालेवाज्ञा हतावज्ञैरुह्यते यदि मूर्खैर्भिः ॥ ४५१ ॥  
 विनम्रविश्वविधेशमुकुटाग्रमणित्विपा । स पादपीठपर्यन्ते विधत्ते धनुरामरम् ॥ ४५२ ॥  
 यशः कुन्देन्दुनिर्भासि तस्यारातिजयाजितम् । कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदन्तपर्यन्तके कलम् ॥ ४५३ ॥  
 दुर्दमा विद्विषस्तेन <sup>१</sup>दान्ता यन्त्रेव दन्तिनः । दमितारिनि ह्यातिं सन्धत्तेऽन्वर्धपेशलम् ॥ ४५४ ॥  
 तस्य शौर्यान्लो भस्मिताखिलारानिरिन्धनः । जाज्वलीति तथाप्यग्निकुमारामरभीषणः ॥ ४५५ ॥  
 \* प्रेषितः श्रीमता तेन देवेनाहं युवां प्रति । प्रीतये याचितुं तस्माद्दातव्यं नर्तकीद्वयम् ॥ ४५६ ॥  
 युष्मदीयं भुवि ख्यातं योग्यं तस्यैव तद्यतः । युवयोः स हि तद्दद्यात्सुप्रसन्नः फलिष्यति ॥ ४५७ ॥  
 इत्यब्रवीददः श्रुत्वा तमोवामं प्रहिय तौ । किं कार्यमिति पृच्छन्तौ स्थितावाहूय मन्त्रिणः ॥ ४५८ ॥  
 तयोः पुण्यादयान्सद्यस्तूर्तायभवदेवताः । सुनिरूप्य स्वरूपाणि <sup>२</sup>ताः स्वयं समुपाश्रयन् ॥ ४५९ ॥  
 वयं युवाभ्यां संयोज्या <sup>३</sup>निजाभिप्रेतकर्मणि । <sup>४</sup>अस्थाने माकुर्लाभूतामिन्याहुश्चाहितादराः ॥ ४६० ॥  
 श्रुत्वैतद्वाज्यभारं स्वं निधाय निजमन्त्रिषु । नर्तकीवेपमादाय राज्ञाऽऽवां प्रेषिते ततः ॥ ४६१ ॥

समान देदीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है, वह अपराधी तथा भूतभूतके अभिमानी मनुष्योंको शीघ्र ही जला डालती है ॥ ४४८ ॥ उसका नाम लेते ही स्वभावसे वैरी मनुष्योंका हृदय फट जाता है। वे भयमे इतने विह्वल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही वैर तथा अस्र दोनों ही छोड़ देते हैं ॥ ४४९ ॥ उसका चित्त बड़ा निर्मल है, वह अपने वंशके सब लोगोंके साथ विभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए परिवारमें उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं ॥ ४५० ॥ जब निरस्कायका न चाहनेवाले लोग उसकी आज्ञाको मालाके समान अपने मस्तक पर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम शत्रु नां हो ही कैसे सकते हैं ? ॥ ४५१ ॥ वह अपने चरणपीठके समीप नश्रीभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटके अग्रभागमें मणियोंकी किरणोंसे इन्द्र-धनुष बनाया करता है ॥ ४५२ ॥ शत्रुओंको जीतनेसे उत्पन्न हुआ उसका यश कुन्द पुष्प तथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके ऐमे मनोहर यशका कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निरन्तर गाना रहती हैं ॥ ४५३ ॥ जिस प्रकार महावनोंके द्वारा बड़े-बड़े दुर्जेय हाथी वश कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े-बड़े दुर्जेय राजा वश कर लिये गये थे इसलिए उसका 'दमितारि' यह नाम सार्थक प्रसिद्धिका धारण करता है ॥ ४५४ ॥ यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शत्रुरूपी इन्धनको जला डाला है तो भी अग्निकुमारदेवके समान भयंकर दिग्बनेवाली उसकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है ॥ ४५५ ॥ उसी श्रीमान दमितारि राजाने दोनों नृत्यकारिणियों माँगनेके लिए मुझे आपके पास भेजा है सो प्रीति बढ़ानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए ॥ ४५६ ॥ आपकी नृत्यकारिणियों पृथिवीमें प्रसिद्ध हैं अतः उसीके योग्य हैं। नृत्यकारिणियोंके देनेसे वह तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस दूतने कहा। राजाने उसे सुनकर दूतको तो विश्राम करनेके लिए भेजा और मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा कि इस परिस्थितिमें क्या करना चाहिए ? ॥ ४५७-४५८ ॥ उनके पुण्य कर्मके उदयसे तीसरे भवकी विद्यादेवताएँ शीघ्र ही आ पहुँची और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग आपके द्वारा अपने इष्ट कार्यमें लगानेके योग्य हैं। आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों—ऐसा उन्होंने बड़े आदरसे कहा ॥ ४५९-४६० ॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपना राब्यका भार अपने मन्त्रियोंपर रखकर नर्तकियोंका वेप धारण किया और दूतसे कहा कि चलो चलें,

१ दाता यन्त्रेव (!) ल० । २ तौ ल० । ३ निजाभिप्रेत-ल० । ४ आस्थाने ल० ।

यामेति <sup>१</sup>दूतेनाल्प्य सम्प्राप्य शिवमन्दिरम् । समालोचितगूढार्थौ प्रविश्य नृपमन्दिरम् ॥४६२॥  
 दृष्टवन्तौ खगाधीशं <sup>२</sup>यथौचित्यं प्रतुष्य सः । सम्भाष्य सामवाक्सारः पूजयित्वा दिने परे ॥४६३॥  
 अङ्गहारैः सकरणैः रसैर्भविर्मनोहरैः । नृत्यं तयोर्विलोक्याससम्मदः परितोषितः ॥ ४६४ ॥  
 भवन्नृत्यकलां <sup>३</sup>कल्यां वासु <sup>४</sup>शिक्षयतां सुताम् । मदीयामित्यदाकन्यामेताभ्यां कनकश्रियम् ॥४६५॥  
 "आदाय तां यथायोग्यं" <sup>५</sup>नर्तयन्तौ नृपात्मजाम् । पेटनुर्गुणसंहृद्य <sup>६</sup>मिति ते भाविचक्रिणः ॥४६६॥

### पृथ्वीच्छन्दः

गुणैः कुलबलादिभिर्भुवि विजित्य विश्वान् नृपान्-  
 मनोजमपि लज्जयन् भववरो वपुःसम्पदा ।

विदग्धवनिताविलासललितावलोकालयः

क्षितेः पतिरनन्तवीर्यं इति विश्रुतः पानु वः ॥ ४६७ ॥

### अनुष्टुप्

तदा तच्छ्रुतिमात्रेण मदनाविष्टविग्रहा । स्तूयते यः स को ब्रूतमित्यप्राक्षीन्नुपात्मजा ॥ ४६८ ॥  
 प्रभाकरीपुरार्थाशोऽजनिस्तिमितसागरात् । महामणिरिव क्षमाभृन्मौलिवृद्धामर्णाथितः ॥ ४६९ ॥  
 कान्ताकल्पलनारोहरभ्यकल्पमहीरुहः । कामिनीभ्रमरीभोग्यमुग्धाम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥  
 इति <sup>७</sup>तद्द्वयतद्गुणलावण्याद्यनुवर्णनात् । द्विगुणीभूतसम्प्रीतिरित्युवाच स्वगात्मजा ॥ ४७१ ॥  
 किमसौ लभ्यते द्रष्टुं कन्यके सुन्दु लभ्यते । त्वयेत्यनन्तवीर्यस्य रूपं साक्षात्प्रदर्शितम् ॥ ४७२ ॥

राजाने हम दोनोंका भेजा है । इस प्रकार दूतके साथ वार्तालाप कर वे दोनों शिवमन्दिरनगर पहुँचे और किसी गूढ़ अर्थकी आलोचना करते हुए राजभवनमें प्रविष्ट हुए ॥ ४६१-४६२ ॥ वहाँ उन्होंने विद्याधरके राजा दमिनारिके यथायोग्य दर्शन किये । राजा दमिनारिने संतुष्ट होकर उनके साथ शान्तिपूर्ण शब्दोंमें संभाषण किया, उनका आदर-भक्तकार किया, दूसरे दिन मनका हरण करनेवाले अङ्गहार, करण, रस और भावोंसे परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हर्ष तथा मनोपका अनुभव किया ॥ ४६३-४६४ ॥ एक दिन उसने उन दोनोंमें कहा कि 'हे मुन्दरियाँ ! आप अपनी मुन्दर नृत्यकला हमारी पुत्रीको मित्वला दीजिये' यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री उन दोनोंके लिए सौंप दी ॥ ४६५ ॥ वे दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे । एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्तीके गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया ॥ ४६६ ॥ 'जिसने अपने कुल बल आदि गुणोंके द्वारा पृथिवी पर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीरकी सम्पत्तिसे कामदेवको भी लज्जित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो मुन्दर स्त्रियोंके विलास तथा मनोहर चित्रचनोंका घर है, ऐसा अनन्तवीर्य इम नामसे प्रसिद्ध पृथिवीका स्वामी तुम सबकी रक्षा करें' ॥ ४६७ ॥ उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवने प्रवेश किया है ऐसी राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि 'जिसकी स्तुति की जा रही है वह कौन है ?' यह कहिये ॥ ४६८ ॥ उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'वह प्रभाकरीपुत्रीका अधिपति है, राजा स्तिमिनसागरसे उत्पन्न हुआ है, महामणिके समान राजाओंके मस्तक पर स्थित चूड़ामणिके समान जान पड़ता है, स्त्रीरूपी कल्पलताके चढ़नेके लिए मानो कल्पवृक्ष ही है, और स्त्रीरूपी भ्रमरीके उपभोग करनेके योग्य मुखकमलसे सुशोभित है' ॥ ४६९-४७० ॥ इस प्रकार उन दोनोंके द्वारा अत्यन्तवीर्यके रूप तथा लावण्य आदिका वर्णन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गई है ऐसी विद्याधरकी पुत्री कनकश्री बोली 'क्या वह देखनेको मिल सकता है ?' उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'हे कन्ये ! तुझे अच्छी तरह मिल सकता है' । ऐसा

१ दूतमालप्य ख०, ग०, ल० । २ यथोचितं ल० । ३ कल्यामाशु शिष्ययतां सुताम् ख०, म०, घ०, म० । कुलाकल्यामाशु क० । ४ हे मुन्दर्यौ ! ५ आदीय ल० । ६ नृत्तयन्तौ ल० । ७ संदग्ध ख० । संदोष्ट ल० । ८ तयोर्द्वयं तद्द्वयं तेन तस्य रूपलावण्याद्यनुवर्णनात् ।



तद्दर्शनसमुद्भूतमदनज्वरविह्वलाम् । नर्तक्यौ तां समादाय जग्मतुर्मरुतः पथा ॥ ४७३ ॥  
 तद्गतां खेचराधीशः धत्वाऽन्तर्वेशिकोदितान् । स्वभटान्प्रेपयामास तद्द्वयानयनं प्रति ॥ ४७४ ॥  
 तदागमनमालोक्य स निवर्त्य हली बली । न्ययुज्यतानुजं दूरे स्थापयित्वा सकन्यकम् ॥ ४७५ ॥  
 ते तेन सुचिरं युद्ध्वा कृतान्तोपान्तमाश्रिताः । दमितारिः पुनः क्रुद्ध्वा युद्धशौण्डान् समादिशत् ॥ ४७६ ॥  
 तेऽपि तत्त्वङ्गधारोरुवारिराशाविवाद्रयः । निमज्जन्ति स्म तच्छृन्वा खगाधीशः सविस्मयः ॥ ४७७ ॥  
 नर्तक्योर्न प्रभावोऽर्थं किमेतद् ब्रूत मन्त्रिणः । इत्याह ते च तत्तत्त्वं स्वयं ज्ञात्वा न्यवेदयन् ॥ ४७८ ॥  
 तदा लब्धेन्धनो वाग्निः क्रुद्धो वा गजविद्विपः । दमितारिः स्वयं योद्धुं चचाल स्वबलान्वितः ॥ ४७९ ॥  
 एककोऽपि हली सर्वान् विद्याविक्रमसाधनः । दमितारिं विमुच्येतान् देहशेषांश्चकार सः ॥ ४८० ॥  
 दमितारिं यमं वैकं हन्तुमाथान्तमग्रजम् । अनन्तवीर्यस्तं दृष्ट्वा केसरीव मद्द्विपम् ॥ ४८१ ॥  
 अभ्येत्यानेकधा युद्ध्वा विद्याबलमदाद्धनम् । विमर्दाकृत्य निस्पन्दं व्यधादधिकविक्रमः ॥ ४८२ ॥  
 खगेशश्चक्रमादाय क्षिपति स्माभिर्भूभुजम् । दक्षिणाग्रकराभ्यर्णे नत्थिवत्तपरीत्या तम् ॥ ४८३ ॥  
 मृत्युं वा धर्मचक्रेण योगी तं खेचराधिपम् । अहंस्तेनैव चक्रंण विक्रमी भाविकेशवः ॥ ४८४ ॥  
 इति युद्धान्तमासाद्य गगने गच्छतोस्तयोः । पूज्यातिक्रमभीत्येव विमाने सहसा स्थिते ॥ ४८५ ॥  
 केनचित् कीलितो वेतो न यातः केन हेतुना । इति नौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्यं व्यलोक्ष्यत ॥ ४८६ ॥

कहकर उन्होंने अनन्तवीर्यका साक्षान् रूप दिखा दिया ॥ ४७१-४७२ ॥ उसे देखकर कनकश्री कामज्वरमें विह्वल हो गई और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली गई ॥ ४७३ ॥ विद्याधरोके स्वामी दमितारिने यह बात अन्नःपुरके अधिकारियोंके कहनेसे सुनी और उन दोनोंको वापिस लानेके लिए अपने योद्धा भेजे ॥ ४७४ ॥ बलवान् बलभद्रने योद्धाओंका आगमन देख, कन्या सहित छोट्टे भाईको दूर रक्त्वा और स्वयं लौटकर युद्ध किया ॥ ४७५ ॥ जब बलभद्रने चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओंको यमराजके पास भेज दिया तब दमितारिने कुपित होकर युद्ध करनेमें ममथ दूसरे योद्धाओंको आज्ञा दी ॥ ४७६ ॥ वे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें पहाड़ डूब जाते हैं उसी प्रकार बलभद्रकी शङ्खधाराके विशाल पानीमें डूब गये । यह सुनकर दमितारिको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४७७ ॥ उसने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा कि 'यह प्रभाव नृत्यकारिणियोंका नहीं हो सकता, ठीक बात क्या है ? आप लोग कहें ? मन्त्रियोंने सब बात ठीक-ठीक जानकर राजासे कही ॥ ४७८ ॥ उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी कुपित हो स्वयं युद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ लेकर चला ॥ ४७९ ॥ परन्तु विद्या और पराक्रमसे युक्त एक बलभद्रने ही उन सबको मार गिराया सिर्फ दमितारिको ही बाकी छोड़ा ॥ ४८० ॥ इधर जिस प्रकार मदान्मत्त हाथीके ऊपर सिंह आ दूटता है उसी प्रकार बड़े भाईको मारनेके लिए आते हुए यमराजके समान दमितारिको देखकर अनन्तवीर्य उस पर दूट पड़ा ॥ ४८१ ॥ अधिक पराक्रमी अनन्तवीर्यने उसके साथ अनेक प्रकारका युद्ध किया, तथा विद्या और बलके मदसे उद्धत उस दमितारिको मद रहित कर निश्चेष्ट बना दिया था ॥ ४८२ ॥ अबकी बार विद्याधरोके राजा दमितारिने चक्र लेकर राजा अनन्तवीर्यके सामने फेंका परन्तु वह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके दाहिने कन्धेके समीप ठहर गया ॥ ४८३ ॥ जिस प्रकार योगिराज धर्मचक्रके द्वारा मृत्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके द्वारा दमितारिको नष्ट कर दिया—मार डाला ॥ ४८४ ॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाशमें जा रहे थे कि पूज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जावे इस भयसे ही मानो उनका विमान सहसा रुक गया ॥ ४८५ ॥ यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे नहीं जा रहा है ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे । देखते ही उन्हें समवसरण

मानस्तम्भा सरांस्येतान्येतद्गन्धतुष्टयम् । मध्येगन्धकुटी नूनं जिनेन्द्रः कोऽपि तिष्ठति ॥ ४८७ ॥  
 इति तन्नावतीर्थेषु शिवमन्दिरनायकः । सुतः कनकपुङ्खस्य जयदेव्याश्च निश्चितः ॥ ४८८ ॥  
 दमितारैः पिता कीर्तिधरा नाम्ना विरक्तवान् । प्राप्य शान्तिकराभ्यासे ब्रज्यां पारमेश्वरीम् ॥ ४८९ ॥  
 १संवत्सरं समादाय प्रतिमायोगमागम ॥ केवलावगमं भक्त्या सुनासीरादिपूजितः ॥ ४९० ॥  
 इत्युक्तवैव परीत्य त्रिः प्रप्रणम्य जिनेश्वरम् । श्रुतधर्मकथौ तत्र तस्थतुर्ध्वस्तकल्मषौ ॥ ४९१ ॥  
 कनकश्रीः सहाभ्येत्य ताभ्यां भक्त्या पितामहम् । वन्दित्वा घातिहन्तारमप्राक्षीत्स्वभवान्तरम् ॥ ४९२ ॥  
 इति पृष्टो जिनाधीशो निजवागमृतम्बुभिः । तां तर्पयितुमित्याह परार्थैकफले हितः ॥ ४९३ ॥  
 अत्र जम्बूद्वालक्ष्यद्वीपेऽस्यां भरतावनौ । शङ्खालयनगरे वैश्यो देविलस्तसुताभवः ॥ ४९४ ॥  
 बन्धुश्रियां २त्वमेवैका श्रीदत्ता ज्यायसी सती । सुताः पराः कनीयस्यः कुटी पङ्क कुणी<sup>३</sup> तथा ॥ ४९५ ॥  
 वधिरा कुञ्जका काणा खञ्जा पोपिका स्वयम् । त्वं कदाचिन्मुनि सर्वयशसं सर्वशैलगम् ॥ ४९६ ॥  
 अभिवन्द्य शमं याता हिंसाविरमणव्रतम् । गृहीत्वा धर्मचक्राल्यमुपवासं च शुद्धधीः ॥ ४९७ ॥  
 अन्यदा सुव्रताख्यायै गणिन्वै विधिपूर्वकम् । दत्त्वाऽन्नदानमेतस्या वमने सत्युपोषितात् ॥ ४९८ ॥  
 सम्यक्त्वाभावतस्तत्र विचिकित्सामगात्ततः । सौधर्मं जीवितस्यान्ते भूत्वा सामानिकामरी ॥ ४९९ ॥  
 ततो मन्दरमालिन्यां दमितारैः सुताभवः । पुण्याद् व्रतोपवासान्ताद्विचिकित्साफलं त्विदम् ॥ ५०० ॥  
 सबलं पितरं हत्वा धृत्वा नीतासि दुःखिनी । विचिकित्सां न दुर्वन्ति नम्मान्साधौ सुधीधनाः ॥ ५०१ ॥

दिखाइ दिया ॥ ४८६ ॥ 'ये मानस्तम्भ हैं, ये सरोवर हैं, ये चार वन हैं और ये गन्धकुटीके बीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं' ऐसा कहते हुए अनन्तवीर्य और उनके भाई बलदेव वहाँ उतरे । उतरते ही उन्हें मालूम हुआ कि 'ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी हैं, राजा कनकपुङ्ख और रानी जयदेवीके पुत्र हैं, दमितारिके पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है । इन्होंने विरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी । एक वपका प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देवोंने बड़ी भक्तिसे इनकी पूजा की थी । ऐसा कह कर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बार बार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनीं और अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँ पर बैठ गये ॥ ४८७-४९१ ॥ कनकश्री भी उनके साथ गई थी । उसने अपने पितामहको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले उक्त जिनराजसे अपने भवान्तर पूछे ॥ ४९२ ॥ ऐसा पूछने पर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओंका फल है ऐसे जिनेन्द्रदेव अपने वचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको संतुष्ट करनेके लिए इस प्रकार कहने लगे ॥ ४९३ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रकी भूमि पर एक शङ्ख नामका नगर था । उसमें देविल नामका वैश्य रहता था । उसकी बन्धुश्री नामकी स्त्रीमें नू श्रीदत्ता नामकी बड़ी और सती पुत्री हुई थी । तैरी और भी छोटो बहिनें थीं जो कुप्री, लँगड़ी, टांटी, बहरी, कुबड़ी, कानी और खंजी थीं । तू इन सबका पालन स्वयं करता था । तूने किसी समय सर्वशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वयश मुनिराजकी वन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा व्रत लिया, और परिणाम निर्मल कर धर्मचक्र नामका उपवास किया ॥ ४९४-४९७ ॥ किसी दूसरे दिन तूने सुव्रता नामकी आर्यिकाके लिए विधिपूर्वक आहार दिया, उन आर्यिकाने पहले उपवास किया था इसलिए आहार लेनेके बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यग्दर्शन न होनेसे तूने उन आर्यिकासे घृणा की । तूने जो अहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके अन्तमें मर कर सौधर्म स्वर्गमें सामानिक जातिकी देवी हुई और वहाँसे चय कर राजा दमितारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी पुत्री हुई है । तूने आर्यिकासे जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान् पिताको मारकर तुम्हें जबरदस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया । यही कारण है कि बुद्धिमान् लोग कभी

१ संवत्सरं घ० । २ त्वमेकैव क०, घ०, ग० । त्वमेवैक-ख० । ३ कुणिस्तथा क०, ख०, घ० । कुणीस्तथा ग० ।

श्रुत्वैतदतिशोकार्ता वन्दित्वा जिनपुङ्गवम् । प्रभाकरीमगात्ताभ्यां सह सा खेचरात्मजा ॥ ५०२ ॥  
 सुघोषविद्युद्गङ्गाख्यौ भारतौ कनकश्रियः । तत्पुरेऽनन्तसेनेन युध्यमानौ बलोद्धतौ ॥ ५०३ ॥  
 विलोक्य विहितक्रोधौ बभ्रतुर्बलकेशवौ । तन्निशम्य खगाधीशतनूजा सोढुमक्षमा ॥ ५०४ ॥  
 प्रवृद्धतेजसा यूना भानुनेव हतद्युतिः । युताऽसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षबलाद्दिना ॥ ५०५ ॥  
 शोकदावानलम्लाना दूनेव बनवल्लरी । व्युच्छिन्नकामभोगेच्छा चिच्छित्पुर्दुःखसन्ततिम् ॥ ५०६ ॥  
 मोचयित्वानुबुध्यैतौ सम्प्रार्थ्य बलकेशवौ । स्वयम्प्रभाख्यतीर्थे शाल्पीतधर्मरसायना ॥ ५०७ ॥  
 सुप्रभागिनीपार्श्वे दीक्षित्वा जीवितावधौ । सौधर्मकल्पे देवोऽभूच्चित्रं विलसितं विधेः ॥ ५०८ ॥

### हरिणी

सुविहितमहोपायौ विद्याबलाद्बहुपुण्यकौ  
 बुधजननुतौ सुप्रारम्भौ परस्परसङ्गतौ ॥  
 हतपृथुरिपुशान्तात्मनौ यथानयविक्रमौ  
 सममविशतां सिद्धार्थौ तौ पुरीं परमात्सवाम् ॥ ५०९ ॥

### वसन्ततिलका

जित्वा प्रसिद्धस्वचरान् खचराधिभर्तु-  
 रध्यास्य तद्वलधरत्वमलङ्घ्यशक्तिः ।  
 व्यक्ताचकार सुचिरादपराजितत्वं  
 भावेन चैतदिति नैव निजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥  
 चक्रेण तस्य युधि तं दमितारिशक्तिं  
 हत्वा त्रिगण्डपतितां समवाप्य तस्मात् ।

साधुओंमें घृणा नहीं करते हैं ॥ ४९८-५०१ ॥

यह मुनकर विशाधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुई । अनन्तर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर नारायण और बलभद्रके साथ प्रभाकरीपुरीको चली गई ॥ इधर सुघोष और विद्युद्गङ्गा कनकश्रीके भाई थे । वे बलसे उद्धत थे और शिवमन्दिरनगरमें ही नारायण तथा बलभद्रके द्वारा भेजे हुए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे । यह देख कर बलभद्र तथा नारायणको बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनोंको बाँध लिया । यह मुनकर कनकश्री उनके दुःखको सहन नहीं कर सकी और जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूर्यसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार वह भी पक्षवलके बिना कान्तिहीन तथा क्षीण हो गई ॥ ५०२-५०५ ॥ शोकरूपी दावानलसे मुरझाकर वह बनलताके समान दुःखी हो गई । उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड़ दी, वह केवल भाइयों का दुःख दूर करना चाहती थी । उसने दोनों भाइयोंको समझाया तथा बलभद्र और नारायणको प्रार्थना कर उन्हें बन्धनसे छुड़ाया । स्वयंप्रभनामक तीर्थकरसे धर्म रूपी रसायन का पान किया और सुप्रभ नामकी गणिनीके समीप दीक्षा धारण कर ली । अन्तमें आयु समाप्त होने पर सौधर्मस्वर्गमें देव पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि कर्मका उदय बड़ा विचित्र है ॥ ५०६-५०८ ॥ जिन्होंने विद्याके बलसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यवान् हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े-बड़े शत्रुओंको मारकर जिनकी आत्माएं शान्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंने कृतकृत्य हो कर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥ ५०९ ॥ अलंघ्य शान्तिको धारण करने वाले अपराजितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याधरोंको जीत कर विद्याधरोंके स्वामीका पद तथा बलभद्रका पद प्राप्त किया और इस तरह केवल नामसे ही नहीं किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया ॥ ५१० ॥ शत्रुओंकी शक्ति

वीर्येण सूर्यविजयीत्थमनन्तवीर्यो

धुर्योऽभवद् भुवि स शौर्यपरेषु शूरः ॥ ५११ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगतः स्फूर्जत्प्रतापानल-

ज्वालाभस्मितवैरिवंशगहनस्त्वं चक्रिणामग्रणीः ।

यस्त्वां कोपयति क्षणादरिरसौ कालज्वलज्ज्वालाना

लीढो लिङ्घत एव लक्ष्यत इति स्तुत्यस्तदा<sup>१</sup> वन्दिभिः ॥ ५१२ ॥

### मालिनीच्छन्दः


गतघनरिपुरोधः स्वाम्रजोद्दिष्टमार्गः

समुपगतविशुद्धिः काललब्ध्या स चक्री ।

रविरिव निजदीप्त्या व्यासदिक्चक्रवालः

शरदमिव पुरीं स्वामध्युवासोऽग्रतेजाः ॥ ५१३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अपराजितानन्तवीर्याभ्युदयवर्णनं  
नाम द्विपष्टितमं पर्व ॥ ६२ ॥



को दमन करने वाले दमितारिको जिसने युद्धमें उसीके चक्रसे मारकर उसमें तीन गण्डका राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीर्यमें सूर्यको जीतता था तथा शूरवीरोमें अत्यन्त शूर था ऐसा अनन्तवीर्य पृथिवी में सर्व श्रेष्ठ था ॥ ५११ ॥ वन्दी जन उस अनन्तवीर्य नारायणकी उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान प्रतापामिकी ज्वालाआसे तूने शत्रुओंके वंश रूपी बांमोंके वनको भस्म कर डाला है, तू सब नारायणोंमें श्रेष्ठ नारायण है; जो शत्रु तुझे लुपित करता है वह क्षणभरमें यमराजकी जलती हुई ज्वालाआसे आलीढ— व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥ ५१२ ॥ जिसके शत्रु रूपी बादलोंका उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाईके बतलाये हुए मार्गपर चलता है, काललक्ष्मिसे जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई है, जिसने अपनी दीप्तिसे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज अत्यन्त उग्र है ऐसा वह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरदऋतु में निवास करता है ॥ ५१३ ॥

इस प्रकार आप्तनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अपराजित बलभद्र और अनन्तवीर्य नारायणके अभ्युदयका वर्णन करने वाला वासठवां पर्व समाप्त हुआ ।



## त्रिषष्टितमं पर्व

सिंहासने समासीनो <sup>१</sup>वीज्यमानप्रकीर्णकः । अर्द्धचक्री व्यराजिष्ट यथा षट्खण्डमण्डितः ॥ १ ॥  
 अथापराजितोऽप्यात्मयोग्यरत्नाद्यधीश्वरः । बलदेवपदं प्राप्य प्रत्यहं वृद्धिमाननोत् ॥ २ ॥  
 एवं भवान्तरायद्विवृद्धस्नेहयोस्तयोः । काले गच्छन्विच्छिन्नस्वच्छन्दसुखसारयोः ॥ ३ ॥  
 विजयायां हलेशस्य बभूव सुमतिः सुता । ज्याल्स्नेव प्रीणिताशेषा शुक्लाक्षेन्दुरस्त्रयोः ॥ ४ ॥  
 सान्वहं कुर्वती वृद्धिं स्वस्याः पित्रोरपि स्वयम् । गुणैराह्लादनैः प्रीतिं व्यधात्कुवलयेऽपिसताम् ॥ ५ ॥  
 दानाहमवराख्याय चारणाय यथोचितम् । साश्रयंपञ्चकं प्राप तत्र दृष्ट्वा निजान्मजाम् ॥ ६ ॥  
 रूपेण केवलेनेयं भूपिता यौवनेन च । वरं प्रार्थयते बाला संश्रिता कालदेवताम् ॥ ७ ॥  
 इति सञ्चिन्त्य तौ श्रावितस्वयंवरघोषणौ । कृत्वा स्वयंवृतेः शालां प्रवेदयात्र वरोत्तमान् ॥ ८ ॥  
 मुनां च स्यन्दनारूढां सुर्गीनां तस्थतुस्तदा । काचिद्विमानमारुह्य <sup>२</sup>स्वागता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥  
 अभिजानासि किं देवलंकेऽहं त्वं च कन्यके । <sup>३</sup>वत्स्यावस्तत्र संज्ञानात्समभूत् स्थितिरावयोः ॥ १० ॥  
 या प्रागवतरद्दार्त्रीं तामन्या बोधयन्विति । ब्रुवे नौ भवसम्बन्धं सन्निधाय मनः शृणु ॥ ११ ॥  
 पुष्करद्वीपपूर्वाद्भरते नन्दने पुरं । नयविक्रमसम्पन्नो महीशोऽमितविक्रमः ॥ १२ ॥  
 एतस्यानन्दमन्याश्च धनानन्ताश्रयौ मुते । भूत्वा वां सिद्धकृत्स्थनन्दनाख्ययतीश्वरात् ॥ १३ ॥

जिसपर चमर दुर रहे हैं ऐसा सिंहासनपर बैठे हुए अर्द्धचक्री-नारायण अनन्तवीर्य इस प्रकार मुशोभित हो रहा था मानो बहुत खण्डों में मुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्रका पद प्राप्तकर प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥ २ ॥ जिनका स्नेह दूसरे भयोंमें सम्बद्ध होनेके कारण निरन्तर बढ़ता रहता है और जो स्वच्छन्द रीतिमें अखण्ड श्रेष्ठ सुखका अनुभव करते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंका काल क्रमसे व्यतीत हो रहा था ॥ ३ ॥ कि बलभद्रकी विजया रानीमें सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । वह शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी रत्नाश्रयों उत्पन्न चांदनीके समान सवका प्रसन्न करती थी ॥ ४ ॥ वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्लादकारी गुणोंके द्वारा माता-पिताके भी कुवलये-पिसत—पृथिवीमण्डलमें इष्ट अथवा कुमुदोंको इष्ट प्रेमको बढ़ाती थी ॥ ५ ॥ किसी एक दिन राजा अपराजितने दमदरनामक चारणकृद्धिधारी मुनिको आहार दान दे कर पञ्चाश्रय प्राप्त किये । उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूपसे ही विभूषित है किन्तु यौवनेसे भी विभूषित हो गई है । इस समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर वरकी प्रार्थना कर रही है अर्थात् विवाहके योग्य हो गई है ॥ ६-७ ॥ ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्वयंवरकी घोषणा सवको सुनवाई और स्वयंवरशाला बनवा कर उसमें अच्छे-अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया ॥ ८ ॥ पुत्रीको रखपर बैठे कर स्वयंवरशालामें भेजा और आप दोनों भाई भी वहीं बैठ गये । कुछ समय बाद एक देवी विमानमें बैठ कर आकाशमार्गमें आई और सुमति कन्यासे कहने लगी ॥ ९ ॥ क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्गमें रहा करती थीं । उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पृथिवीपर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समझावेगी । मैं दोनोंके भयोंका सम्बन्ध कहती हूँ सो तुम चित्त स्थिर कर मुना ॥ १०-११ ॥

पुष्कर द्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके नन्दनपुर नामक नगरमें वय और पराक्रमसे मुशोभित एक अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था । उसकी आनन्दमती नामकी रानीसे हम दोनों धनश्री

श्रुत्वा धर्मं व्रतैः सार्द्धमुपवासांश्च संविदा । समग्रहीष्टां नौ दृष्ट्वा कदाचिन् त्रिपुराधिपः ॥ १४ ॥  
मनोहरवनेऽगच्छत् सहवज्राङ्गदः खगः । कान्तया वज्रमालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ १५ ॥  
पुरीं प्रापय्य कान्तां स्वां सहसा पुनरागतः । गृहीत्वाऽऽवां व्रजजाञ्चु निजाभिप्रायवेदिनीम् ॥ १६ ॥  
आगतामन्तरे दृष्ट्वा दूरात्तां वज्रमालिनीम् । त्यक्त्वा वेणुवने भ्रात्या तस्याः स्वपुरमायिवान् ॥ १७ ॥  
आवां संन्यस्य तत्रैव सौधर्मेन्द्रस्य शुद्धधीः । व्रतोपवासपुण्येन देवी नवमिकाभवत् ॥ १८ ॥  
त्वं च देवी कुबेरस्य रत्याख्या समजायथाः । अन्योन्यमवगत्यैत्य नन्दीश्वरमहामहम् ॥ १९ ॥  
अथ मन्दरपर्यन्तवने निर्जन्तुके स्थितम् । चारणं धृतिपेणाख्यं समाश्रित्य प्रणम्य १ तम् ॥ २० ॥  
आवामप्रभयावेदं कदा स्यान्मुक्तिरावयोः । इत्यथो मुनिरप्याह जन्मनीतश्रुतुर्थके ॥ २१ ॥  
अवश्यं युवयोर्मुक्तिरिति तस्मान्महामते । सुमते नाकिनां लोकात्वां बोधयितुमागता ॥ २२ ॥  
इत्यवोचत्तदाकर्ण्य सुमतिर्नाम सार्थकम् । कुर्वती पितृनिर्मुक्ता २ प्राजाजीत्सुव्रतान्तिके ॥ २३ ॥  
३ कन्यकाभिः शतैः सार्द्धं सप्तभिः सा महातपाः । त्यक्तप्राणानते कल्पे देवोऽभवदनृदिशे ॥ २४ ॥  
आधिपत्यं त्रिलण्डस्य विधाय विविधैः सुखैः । प्राविशत्केशवः पापान् प्रान्ते रत्नप्रभां क्षितिम् ॥ २५ ॥  
तच्छोकात्सारपाणिश्च राज्यलक्ष्मीं प्रबुद्धधीः । प्रदायानन्तसेनाय यशोधरमुर्नाश्वरात् ॥ २६ ॥  
आदाय संयमं प्राप्य तृतीयावगमं शमी । त्रिंशद्विंशससंन्यासादच्युतार्थीश्वरोऽभवत् ॥ २७ ॥  
धरणेन्द्रात् पितुर्बुध्वा प्राप्तसम्यक्वरत्नकः । संख्यातवपैः प्रच्युत्य नरकाद् दुरितच्युतः ॥ २८ ॥

तथा अनन्तश्री नामकी दा पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं । किसी एक दिन हम दोनोंने मिद्वकूटमें विराजमान नन्दन नामके मुनिराजमें धर्मका स्वरूप सुना, व्रत ग्रहण किये तथा सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये । किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी वज्राङ्गद विद्याधर अपनी वज्रमालिनी स्त्रीके साथ मनोहर नामक वनमें जा रहा था कि वह हम दोनोंको देखकर आम्क हो गया । वह उसी समय लौटा और अपनी स्त्रीका अपनी नगरमें भेजकर शीघ्र ही वापिस आ गया । इधर वह हम दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उधरसे उसका अभिप्राय जाननेवाली वज्रमालिनी आ धमकी । उसे दूरसे ही आनी देख वज्राङ्गद डर गया अतः वह हम दोनोंको वंश-वनमें छोड़कर अपने नगरकी ओर चला गया ॥ १२-१७ ॥ हम दोनोंने उसी वनमें संन्यासग्रहण किया । जिसमें शुद्ध बुद्धिको धारण करने वाली मैं तो व्रत और उपवासके पुण्यसे सौधर्मेन्द्रकी नवमिका नामकी देवी हुई और तू कुबेरकी रति नामकी देवी हुई । एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नन्दीश्वर द्वीपमें महामह यज्ञ देखनेके लिए गई थीं वहाँ से लौटकर भेरुपर्वतके निकटवर्ती जन्तुरहित वनमें विराजमान धृतिपेण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थीं और उनसे हम दोनोंने यह प्रश्न किया था कि हे भगवन् ! हम दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लोगोंका प्रश्न सुननेके बाद मुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्ममें तुम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति होगी । हे बुद्धिमती सुमते ! मैं इस कारण ही तुम्हें समझानेके लिए स्वर्गलोकसे यहाँ आई हूँ ॥ १८-२२ ॥ इस प्रकार उस देवीने कहा । उसे सुन कर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे लुट्टी पाकर सुव्रता नामकी आर्थिकाके पास सात सौ कन्याओंके साथ दीक्षित हो गई । दीक्षित हो कर उसने बड़ा कठिन तप किया और आयुके अन्तमें मर कर आनत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुदिश विमान में देव हुई ॥ २३-२४ ॥

इधर अनन्तवीर्य नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा और अन्तमें पापोदयसे रत्नप्रभा नामकी पहिली पृथिवीमें गया ॥ २५ ॥ उसके शोकसे बलभद्र अपराजित, पहले तो बहुत दुःखी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराजसे संयम धारण कर लिया । वे तीसरा अवधिज्ञान प्राप्तकर अत्यन्त शान्त हो गये और तीस दिनका संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए ॥ २६-२७ ॥ अपराजित और

द्वीपेऽस्मिन्भारते खेचराद्रयुदक्षेत्रेणिविश्रते । मेघवाहनविद्याधरेशो गगनवल्लभे ॥ २९ ॥  
 देव्यां तुमेघमालिन्यां मेघनादः खगाधिपः । श्रेणीद्वयाधिपत्येन भोगांश्चिरममुद्धतः सः ॥ ३० ॥  
 कदाचिन्मन्दरे विद्यां प्रशंसि नन्दने वने । साधयन्मेघनादोऽयमच्युतेशेन बोधितः ॥ ३१ ॥  
 लब्धबोधिः समाश्रित्य <sup>१</sup>सुरामरगुरुं यमम् । <sup>२</sup>सुगुप्तिसमितीः सम्यगादाय चिरमाचरन् ॥ ३२ ॥  
 अन्येद्युर्नन्दाना<sup>३</sup>ख्याद्रौ प्रतिमायोगमागमत् । अश्वप्रीवानुजो भ्रान्त्वा सुकण्ठाख्यो भवार्णवे ॥ ३३ ॥  
 असुरत्वं समासाद्य दृष्ट्वैनं मुनिसत्तमम् । विधाय बहुधा क्रोधादुपसर्गानवारयन् ॥ ३४ ॥  
 महायोगात्प्रतिज्ञातात्<sup>४</sup> स्थिरं चालयितुं खलः । <sup>५</sup>लज्जातिरस्करिण्येव सोऽन्तर्धानमुपागतः ॥ ३५ ॥  
 मुनिः संन्यस्य कालान्ते सोऽच्युतेऽगत्प्रतीन्द्रताम् । इन्द्रेण सह सम्प्रीत्या सप्रवीचारभोगभाक् ॥ ३६ ॥  
 प्राक्प्रच्युत्याच्युताधीशो द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहके । विषये मङ्गलावत्यां स्थानीये रत्नसञ्चये ॥ ३७ ॥  
 राज्ञः क्षेमकराख्यस्य कृतपुण्योऽभवत्सुतः । श्रीमान् कनकचित्रायां भासो वा मेघविद्युतोः ॥ ३८ ॥  
 आधानप्रीतिसुप्रीतिधृतिमोदप्रियोद्भव । प्रभृत्युक्तक्रियोपेतो धीमान् वज्रायुधाङ्गयः ॥ ३९ ॥  
 नन्मातरीव तज्जन्मतोपः सर्वेष्वभूद् बहुः । भवेच्छचीशदिनयेव किं प्रकाशोऽशुमालिनः ॥ ४० ॥  
 अवाधिप्ट वपुस्तस्य सार्द्धं रूपादिसम्पदा । भूषितोऽ<sup>६</sup>निमिषो वासौ भूषणैः सहजैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

अनन्तवीर्यका जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ था । उसने नरकमें जाकर अनन्तवीर्यको समझाया जिससे प्रतिबुद्ध हो कर उसने सम्यग्दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया । संख्यान वर्षकी आयु पूरी कर पापका उदय कम होनेके कारण वह वहाँसे च्युत हुआ और जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगनवल्लभ नगरके राजा मेघवाहन विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ । वह दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य पाकर चिरकालतक भोगोंको भोगता रहा ॥ २९-३० ॥ किसी समय यह मेघनाद मेरु पर्वतके नन्दन वनमें प्रज्ञप्ति नामकी विद्या मिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीव अच्युतेन्द्रेने उसे समझाया ॥ ३१ ॥ जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया । उसने सुरामरगुरु नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा उत्तम गुप्तियों और समितियोंको लेकर चिर कालतक उनका आचरण करता रहा ॥ ३२ ॥ किसी एक दिन यही मुनिराज नन्दन नामक पर्वतपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे । अश्वप्रीव का छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी समुद्रमें चिर काल तक भ्रमणकर असुर अवस्था को प्राप्त हुआ था । वह वहाँसे निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्रोधके वश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता रहा ॥ ३३-३४ ॥ परन्तु वह दृष्ट उन दृढ़प्रतिज्ञ मुनिराजको ग्रहण किये हुए व्रतसे रंच मात्र भी विचलित करनेमें जब समर्थ नहीं हो सका तब लज्जारूपी परदाके द्वारा ही मानो अन्तर्धानको प्राप्त हो गया—छिप गया ॥ ३५ ॥ वे मुनिराज संन्यासमरणकर आयुके अन्तमें अच्युतस्वर्गके प्रतीन्द्र हुए और इन्द्रके साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ॥ ३६ ॥ अपराजित का जीव जो इन्द्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेहक्षेत्रके रत्नसंचय नामक नगरमें राजा क्षेमकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी विजलीसे प्रकाशके समान पुण्यात्मा श्रीमान् तथा बुद्धिमान् वज्रायुध नामका पुत्र हुआ । जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीति सुप्रीति धृति-मोह प्रियोद्भव आदि क्रियाएं की गई थीं ॥ ३७-३८ ॥ उसके जन्मसे उसकी माताके ही समान सबको बहुत भारी संतोष हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश क्या केवल पूर्व दिशा में ही होता है ? भावार्थ—जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका प्रकाश सब दिशाओंमें फैल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्राके ही हुई थी परन्तु उससे हर्ष सभीको हुआ था ॥ ४० ॥ रूप आदि सम्पदाके साथ उसका शरीर बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक

१ सुरामरगुरूपमात् क०, ख०, घ० । सुरामरगुरुं पुमान् ग० । २ सुगुप्तिसमिति म० । सुगुप्ति समिति ल० ।  
 ३ नन्दनाख्येऽद्रौ ल०, म० । ४ प्रतिज्ञानात् ख०, म०, घ० । ५ उपानेपत्येन । ६ देव इव ।

जनानुरागः प्रागेव तस्मिन्स्तस्योदयादभूत् । सन्ध्याराग इवाकस्य महाभ्युदयसूचनः ॥ ४२ ॥  
 विश्वाशा व्यानशे तस्य यशो विशदयद् भृशम् । काशप्रसवसङ्काशमाभासितजनश्रुति ॥ ४३ ॥  
 राज्यलक्ष्म्या व्यभाल्लक्ष्मीमत्याम्वाप्यनवं वयः । असौ पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्स्नयावाप्य वा विभुः ॥ ४४ ॥  
 सुनुस्तयोः प्रतीन्द्रोऽभूत्सहस्रायुधनामभाक् । वासरादेः प्रतीच्यां वा घर्मदीप्तिः कनद्युतिः ॥ ४५ ॥  
 श्रीषेणायां सुतस्तस्य शान्तान्तकनकोऽजनि । एवं क्षेमङ्करः पुत्रपौत्रादिपरिवारितः ॥ ४६ ॥  
 अप्रतीपप्रतापोऽर्थान्तभूपकदम्बकः । कदाचिर्द्वीज्यमानोऽस्थाब्धामरैः सिंहविष्टरे ॥ ४७ ॥  
 तदामरसदस्यासीदीशानस्तुतिगोचरः । वज्रायुधो महासम्यग्दर्शनाधिष्यतः कृती ॥ ४८ ॥  
 देवो विचित्रचूलाख्यस्तत् स्तवं सोढुमक्षमः । अभिवज्रायुधं प्रापस्वलो ह्यन्यस्तवासहः ॥ ४९ ॥  
 इष्टा रूपपरावृत्त्या महीनाथं यथोचितम् । वादकण्डूययाऽबोचत्सौत्रान्तिकमते स्थितः ॥ ५० ॥  
 त्वं जीवादिपदार्थानां विद्वान् किल विचारणे । वद पर्यायिणो भिन्नः पर्यायः किं विपर्ययः ॥ ५१ ॥  
 भिन्नश्चेच्छून्यताप्राप्तिस्तयोराधारहानितः । तथा चाव्यपदेशन्वाज्ञायं पक्षो घटामटेन ॥ ५२ ॥  
 ऐकत्वसङ्गरेऽप्येतन्न युक्तिपदवीं व्रजेत् । अन्यान्यगोचरैकत्वानानात्वान्तसङ्करान् ॥ ५३ ॥  
 अस्ति चेद् द्रव्यमेकंते पर्यायाः बहवो मताः । एकात्मकमपीत्येव सङ्गरो भङ्गमाप्नुयात् ॥ ५४ ॥  
 नित्यत्वेऽपि तयोः पुण्यपापपाकात्मताच्युतेः । तद्धेतुबन्धनाभावान्माक्षाभावां न वार्यते ॥ ५५ ॥

गुणोसे वह सुशोभित होने लगा ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार सूर्यके महाभ्युदयको सूचित करने वाली उषाकी लालिमा सूर्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्युदयको सूचित करने वाला मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था ॥ ४२ ॥ मन्व लोगोंके कानोंको आश्वासन देने वाला और काशके फूलके समान फैला हुआ उसका उज्वल यश समस्त दिशाओंमें फैल गया था ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्रपक्ष को पाकर कान्ति तथा चन्द्रिकासे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह वज्रायुध भी नूतन-नरुण अवस्था पाकर राज्यलक्ष्मी तथा लक्ष्मीमती नामक स्त्रीसे सुशोभित हो रहा था ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशासे देदीप्यमान सूर्यका उदय होना है उसी प्रकार उन दोनों—वज्रायुध और लक्ष्मीमतीके अनन्तवीर्य अथवा प्रतीन्द्रका जीव सहस्रायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४५ ॥ सहस्रायुधके श्रीषेणा स्त्रीसे कनकशान्त नामका पुत्र हुआ । इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र पौत्र आदि परिवारसे परिवृत हो कर राज्य करते थे । उनका प्रताप प्रतिद्वन्द्वीसे रहित था, और अनेक राजाओंके समूह उन्हें नमस्कार करते थे । किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उनपर चमर डाले जा रहे थे ॥ ४६-४७ ॥ ठीक उसी समय देवोंकी सभामें ऐशान स्वर्गके इन्द्रने वज्रायुधकी इस प्रकार स्तुति की—इस समय वज्रायुध महासम्यग्दर्शनकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान् है ॥ ४८ ॥ विचित्रचूल नामका देव इस स्तुति को नहीं सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए वज्रायुधकी ओर चला सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन नहीं कर सकता ॥ ४९ ॥ उसने रूप बदल कर राजाके यथायोग्य दर्शन किये और शास्त्रार्थ करनेकी सुजलामें सौत्रान्तिक मतका आश्रय ले इस प्रकार कहा ॥ ५० ॥ हे राजन् ! आप जीव आदि पदार्थोंके विचार करनेमें विद्वान् हैं इसलिए कहिये कि पर्याय पर्यायीसे भिन्न है कि अभिन्न ? ॥ ५१ ॥ यदि पर्यायीसे पर्याय भिन्न है तो शून्यताकी प्राप्ति होती है क्योंकि दोनोंका अलग-अलग कोई आधार नहीं है और यह पर्यायी है यह इसका पर्याय है इस प्रकारका व्यवहार भी नहीं बन सकता अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ॥ ५२ ॥ यदि पर्यायी और पर्यायको एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि परस्पर एकपना और अनेकपना दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है ॥ ५३ ॥ यदि द्रव्य एक है और पर्यायें बहुत हैं ऐसा आपका मत है तो दोनों एक स्वरूप भी हैं इस प्रतिज्ञाका भङ्ग हो जावेगा ॥ ५४ ॥ यदि द्रव्य और पर्याय दोनोंको नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मोंका उदय नहीं हो सकेगा, कर्मोंके उदयके बिना बन्धके कारण राग द्वेष आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे, उनके अभावमें कर्मोंका



अगत्या क्षणिकत्वं चैतद्योरभ्युपगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्च मे भवेत् ॥ ५६ ॥  
 ततो भवन्मतं भद्रं बौद्धकैः परिकल्पितम् । १ कल्पनामात्रमत्रस्थं मा कृथास्त्वं वृथा श्रमम् ॥ ५७ ॥  
 इत्याकर्ण्य तदोक्तं तद्बुधो वज्रायुधोऽभणत् । शृणु चित्तं निधायोच्चैर्माध्यस्थं प्राप्य सौगत २ ॥ ५८ ॥  
 जिनेन्द्रवदनेन ह्यस्याद्वादाद्भूतपायिनाम् । स्वकर्मफलभोगादिभ्यवहारविरोधिनम् ॥ ५९ ॥  
 क्षणिकैकान्तदुर्वादमवलम्ब्य प्ररूपितः । त्वया दोषो न बाधायै कल्पते धर्मधामिणोः ॥ ६० ॥  
 संज्ञाप्रज्ञास्वचिह्नादिभेदैर्भिन्नत्वमेतयोः । एकत्वं चापृथक्त्वाप्येव नयैकावलम्बनात् ॥ ६१ ॥  
 कार्यकारणभावेन कालत्रितयवतिनाम् । स्कन्धानामव्यवच्छेदसन्तानोऽभ्युपगम्यते ॥ ६२ ॥  
 स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि ३ सद्भावात्कृतकर्मणः । युक्तः फलोपभोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥  
 एतेन परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम् । वातारितरुबन्धेन रोधो वा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ ॥  
 सन्तानिभ्यः ससन्तानः पृथक् किंवा ऽपृथग्मतः । पृथक्त्वे किं न पश्यामः सन्तानिभ्यः पृथक् न तत् ॥ ६५ ॥  
 भ्येष्टोऽव्यतिरेकेण सन्तानिभ्यः स्वकल्पितः । सन्तानः शून्यतां तस्य सुगतोऽपि न वारयेत् ॥ ६६ ॥

बन्ध नहीं हो सकेगा और जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावको कौन रोक सकेगा ? ॥ ५५ ॥  
 यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं तो आपके गृहीत पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी ॥ ५६ ॥ इसलिए हे भद्र ! आपका मत नीच बौद्धके द्वारा कल्पित है तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ ही परिश्रम न करें ॥ ५७ ॥

इस प्रकार उसका कहा मुनकर विद्वान् वज्रायुध कहने लगा कि 'हे सौगत ! चित्तको ऊंचा रखकर तथा माध्यस्थ्य भावको प्राप्त होकर सुन ॥ ५८ ॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फलको भोगना आदि व्यवहारसे विरोध रखने वाले क्षणिकैकान्तरूपी मिथ्यामतको लेकर तूने जो दांप बनलाया है वह जिनेन्द्र भगवान्के मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याद्वाद रूपी अमृतका पान करने वाले जैनियोंको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता । क्योंकि धर्म और धर्मीमें—गुण और गुणीमें संज्ञा-नाम तथा बुद्धि आदि चिह्नोंका भेद होनेसे भिन्नता है और 'गुण गुणी कभी अलग नहीं हो सकते' इस एकत्व नयका अवलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता है—एकता है । भावार्थ—द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथवा पर्याय और पर्यायीमें अभेद है—एकता है परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोंमें भेद है । अनेकता है ॥ ५९-६१ ॥ भूत भविष्यत् वर्तमान रूप तीनों कालोंमें रहने वाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्य भाव रहता है अर्थात् भूत कालके स्कन्धोंसे वर्तमान कालके स्कन्धोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्ध कारण हुए और वर्तमान कालके स्कन्ध कार्य हुए । इसी प्रकार वर्तमान कालके स्कन्धोंसे भविष्यत् काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत् कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य हुए । इस प्रकार कार्य-कारण भाव होनेसे इनमें एक अखण्ड सन्तान मानी जाती है । स्कन्धोंमें यद्यपि क्षणिकता है तो भी सन्तानकी अपेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है । जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है' । ऐसा यदि आपका मत है तो इस परिहारसे आपको अपने पक्षकी रक्षा करना एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथीके बांधनेके समान है । भावार्थ—जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बांधा जा सकता उसी प्रकार इस परिहारसे आपके पक्षकी रक्षा नहीं हो सकती ॥ ६२-६४ ॥ हम पूछते हैं कि जो संतान स्कन्धोंसे उत्पन्न हुई है वह संतान संतानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो हम उसे सन्तानीसे पृथक् क्यों नहीं देखते हैं ? चूंकि वह हमें पृथक् नहीं दिखाई देती है इसलिए संतानीसे भिन्न नहीं है ॥ ६५ ॥ यदि आप अपनी कल्पित संतानको संतानीसे अभिन्न मानने हैं तो फिर उसकी शून्यताको बुद्ध भी नहीं रोक सकते; क्योंकि संतानी क्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी क्षणिक ही

प्रध्वंसाद्वास्थ्यशिक्रान्तः क्षणो भाव्यप्यनुज्ञवात् । भवत्क्षणस्वरूपासिध्यासौ नामोसि सन्ततिम् ॥ ६७ ॥  
 यदि कश्चिच्चतुर्थोऽस्ति सन्तानस्य तवास्तु सः । ततः सन्तानवादोऽयं भवव्यसनसन्ततिः ॥ ६८ ॥  
 इति देवोऽप्यसौ तस्य वाग्वज्रेण विचूर्णितम् । वचो विचिन्त्य स्वं भ्रममानः कालादिलब्धितः ॥ ६९ ॥  
 सद्यः सम्यक्त्वमादाय सम्पूज्य धरणीश्वरम् । निजागमनवृत्तान्तमभिधाय दिवं गतः ॥ ७० ॥  
 अथ क्षेमङ्करः पृथ्व्याः क्षेमं योगं च सन्दधत् । लब्धबोधिमतिज्ञानक्षयोपशमनावृतः ॥ ७१ ॥  
 वज्रायुधकुमारस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् । प्राप्तलौकान्तिकस्तोत्रः परनिष्क्रम्य गेहतः ॥ ७२ ॥  
 अनावरणमस्थानमप्रमादमनुष्क्रमम् । असङ्गमकृताहारम<sup>१</sup>नाहार्यमनेकधा ॥ ७३ ॥  
 अकषायमनारम्भमनवद्यमखण्डितम् । अनारतश्रुताभ्यासं प्रकुर्वन् स तपश्चरम् ॥ ७४ ॥  
 निर्ममं निरहङ्कारं निःशाठ्यं निजितेन्द्रियाम् । निःक्रोधं निश्चलं चित्तं निर्वृत्त्यै निर्मलं व्यधात् ॥ ७५ ॥  
 क्रमाल्कैवल्यमप्याप्य व्याहृतपुरुहूतकम् । गणान् द्वादश वाऽऽत्वीयान् चाग्निसर्गादतीतृपत् ॥ ७६ ॥  
 वज्रायुधेऽथ भूनाथे सुपुण्यफलितां महीम् । पात्यागमन्मधुर्मासो मदनोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥  
 कोकिलानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽलिनाम् । अहरत्काममन्त्रो<sup>२</sup> वा प्राणान् प्रोषितयांपिताम् ॥ ७८ ॥

रहेगी । इस तरह अभेदवादमें सन्तानकी शून्यता बलात् सिद्ध होती है । जो क्षण व्रीत चुका है उसका अभाव हो गया है जो आगे आने वाला है उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है और जो वर्तमान क्षण है वह अपने स्वरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों क्षणोंसे सन्तानकी उत्पत्ति संभव नहीं है । यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे सन्तानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु चौथा क्षण आप मानते नहीं हैं क्योंकि चौथा क्षण माननेसे तीन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जावेगा । इस प्रकार आपका यह सन्तानवाद संसारके दुःखोंकी सन्तति मालूम होती है ॥ ६६-६८ ॥

इस प्रकार उस देवने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्रायुधके वचनरूपा वज्रसे खण्ड-खण्ड हो गये हैं तब उसका समस्त मान दूर हो गया । उसी समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका वृत्तान्त कहा और फिर वह स्वर्ग चला गया ॥ ६९-७० ॥ अथानन्तर क्षेमंकर महाराज योग और क्षेमका समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे । तदनन्तर किसी दिन उन्होंने मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ ७१ ॥ वज्रायुधकुमारका राज्याभिषेक किया, लौकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त की और घरसे निकल कर दीक्षा धारण कर ली ॥ ७२ ॥ उन्होंने निरन्तर शास्त्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका तपश्चरण किया । वे तपश्चरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित निवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्रविहित क्रमका उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपवास रखकर आहारका त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभूषण नहीं पहिनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, और गृहीत प्रतिज्ञाओंको कभी खण्डित नहीं करते थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त करनेके लिए अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चञ्चलतारहित, और निर्मल बना लिया था ॥ ७३-७५ ॥ क्रम-क्रम से उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणके उत्सवमें आये और दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी बारहों सभाओंको संतुष्ट कर दिया ॥ ७६ ॥

इधर राजा वज्रायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई पृथिवीका पालन करने लगे । धीरे-धीरे कामके उन्मादको बढ़ाने वाला चैतका महीना आया । कोयलौका मनोहर आलाप और भ्रमरोंका मधुर शब्द कामदेवके मंत्रके समान विरहिणी स्त्रियोंके प्राण हरण करने लगा । समस्त प्रकारके फूल

बनान्यपि मनोजाय त्रिजगद्विजिगीषवे । यस्मिन् पुष्पकरे स्वैरं ददुः सर्वस्वमात्मनः ॥७९॥  
 तस्मिन् काले वने रन्तुं <sup>१</sup>स्वदेवरमणे मतिम् । ज्ञात्वा सुदर्शनावक्त्राद्धारिण्याद्यात्मयोषिताम् ॥८०॥  
 भौत्सुक्यात्तद्वनं गत्वा सुदर्शनसरोवरे । जलक्रीडां स्वदेवीभिः प्रवर्तयति भूभुजि <sup>२</sup> ॥ ८१ ॥  
 अपिधाय सरः सद्यः कश्चिद्विद्याधरः खलः । शिलया नागपाशेन तमबभ्रान्नुपोऽप्यसौ ॥ ८२ ॥  
 शिलां हस्ततलेनाहत्सा गता शतखण्डताम् । विद्याधरोऽपि दुष्टात्मा तदानीं प्रपलायितः ॥८३॥  
 एष पूर्वभवे शत्रुविद्युद्दंष्ट्राभिधानकः । वज्रायुधोऽपि देवीभिः सह स्वपुरमागतम् ॥ ८४ ॥  
 एवं सुखेन भूभर्तुः काले गच्छत्ययोदयात् <sup>३</sup> । निधयो नव रत्नानि चतुर्दश तदाऽभवन् ॥८५॥  
 चक्रवर्तिश्रियं <sup>४</sup> प्राप्य निविष्टं सिंहविष्टरे । कश्चिद्विद्याधरो भीतः शरणं तमुपागतः ॥ ८६ ॥  
 तस्यैवानुपदं काचिदुत्खातासिलता खगी । क्रोधानलशिखेवागात् द्योतयन्ती <sup>५</sup>सभावनीम् ॥८७॥  
 तस्याश्चानुपदं कश्चित्स्थविरः स गदाधरः । समागत्य महाराज दुरात्मैष खगाधमः ॥ ८८ ॥  
 त्वं दुष्टनिग्रहं शिष्टपालने च निरन्तरम् । <sup>६</sup>जागर्ति निग्रहः कार्यस्वव्याप्त्यान्यायकारिणः ॥ ८९ ॥  
 कोऽसावन्याय इत्येतत् ज्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत् । वदामि देव सम्यक् त्वं प्रणिधाय मनः शृणु ॥९०॥  
<sup>७</sup>जम्बूद्वीपमुकच्छाख्यविषये <sup>८</sup>खचराचले । श्रेण्यामुत्तरदिग्जायां शुक्रप्रभपुराधिपः ॥ ९१ ॥  
 खगाधीन्दन्द्रदत्ताख्यः प्रिया तस्य यशोधरा । तयोरहं सुतो वायुवेगो विद्याधरर्मतः ॥ ९२ ॥  
 तत्र किन्नरगीताख्यनगराधिपतिः खगः । <sup>९</sup>चित्रचूलः सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाऽभवत् <sup>१०</sup> ॥९३॥

उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके महीनेमें फूलोंसे लदे हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगद्विजयी कामदेवके लिए अपना सर्वस्व ही दे रहे हों ॥ ७९-७९ ॥ उस समय उसने सुदर्शना रानीके मुखसे तथा धारिणी आदि अपनी स्त्रियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय इनकी अपने देवरमण नामक वनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस वनमें जाकर सुदर्शन नामक सरोवरमें अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा ॥ ८०-८१ ॥ उसी समय किसी दुष्ट विद्याधरने आकर उस सरोवरको शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया और राजाको नागपाशसे बाँध लिया । राजा वज्रायुधने भी अपने हाथकी दथेलीसे उस शिला पर ऐसा आघात किया कि उसके सौ टुकड़े हो गये । दुष्ट विद्याधर उमी समय भाग गया । यह विद्याधर और कोई नहीं था—पूर्वभवका शत्रु विद्युद्दंष्ट्र था । वज्रायुध अपनी रानियोंके साथ अपने नगरमें वापिस आ गया । इस प्रकार पुण्योदयसे राजाका काल मुखसे बीत रहा था । कुछ समय बाद नौ निधियाँ और चौदह रत्न प्रकट हुए ॥ ८२-८५ ॥ वह चक्रवर्तीकी विभूति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुआ एक विद्याधर उसकी शरणमें आया ॥ ८६ ॥ उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमें तलवार लिये क्रोधाग्निकी शिखाके समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुई आई ॥ ८७ ॥ उस विद्याधरीके पीछे ही हाथमें गदा लिये एक वृद्ध विद्याधर आकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याधर दुष्ट नीच है, आप दुष्ट मनुष्योंके निग्रह करने और सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते हैं इसलिए आपको इस अन्याय करने वालेका निग्रह अवश्य करना चाहिये ॥ ८८-८९ ॥ इसने कौन-सा अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको अच्छी तरह स्थिर कर सुनें ॥ ९० ॥

जम्बूद्वीपके मुकच्छ देशमें जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्रप्रभ नामका नगर है । वहाँ विद्याधरोंके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम यशोधरा था । मैं उन दोनोंका पुत्र हूँ, वायुवेग मेरा नाम है और सब विद्याधर मुझे मानते हैं ॥ ९१-९२ ॥ उसी देश में किन्नरगीत नामका एक नगर है । उसके राजाका नाम चित्रचूल है । चित्रचूलकी पुत्री सुकान्ता

१ त्वे देव-क०, ख०, ग०, घ०, म०, । २ भूभुजे ल० । ३ पुण्योदयात् । ४ चक्रवर्तिश्रियः म०, ल० । ५ सभावनीम् ग० । सभापतिम् ल० । ६ जागर्ति ल० । ७ जम्बूद्वीपे क०, ख०, ग०, घ०, म० । ८ खेचराचले ख०, ग०, म० । खेचरालये ल० । ९ चित्रसेनः म०, ल० । १० भवेत् क०, ग०, घ० ।

सुता मम सुकान्तायाश्चैषा शान्तिमतिः सती । विद्याः साधयितुं याता मुनिसागरपर्वतम् ॥९४॥  
 विद्यासाधनविद्यार्थं पापीऽयं समुपस्थितः । पुण्योदयात्तदैवास्या विद्या सिद्धिमुपागता ॥९५॥  
 तद्गयात्स्वामयं पापकर्मकृत्समुपाश्रयत् । <sup>१</sup>विद्यापूजां समादाय तदैवाहं समागमम् ॥ ९६ ॥  
 अदृष्ट्वा मत्सुतां तत्र तन्मार्गं क्षिप्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सर्वं श्रुत्वाऽवचिविलोचनः ॥ ९७ ॥  
 जानाम्यहं महश्चास्य विद्याया विप्रकारणम् । इति वज्रायुधो व्यक्तमेवं प्रोवाच तां कथाम् ॥ ९८ ॥  
 अस्मिन्नैरावतेऽख्याते गान्धारविषये नृपः । विन्ध्यसेनः पतिविन्ध्यपुरस्य विलसन् गुणैः ॥९९॥  
 सुलक्षणयां तस्याभूत्सुनुर्नलिनकेतुकः । तत्रैव धनमित्रस्य श्रीदत्तायां सुतो वणिक् ॥ १०० ॥  
 सुदत्तो नाम तस्यासीद्गार्वा प्रीतिङ्कराह्वयात् । दृष्ट्वा नलिनकेतुस्तां कचिद्वनविहारिणीम् ॥१०१॥  
 मदनानलसन्तसतदाहं <sup>२</sup>सोढुमक्षमः । न्यायवृत्तिं समुल्लङ्घ्य यलादहत दुर्मतिः ॥१०२॥  
 सुदशस्तेन निविण्णः सुव्रताख्यजिनान्तिके । प्रव्रज्य सुचिरं घोरं तपः कृत्वाऽऽयुषोऽवधौ ॥१०३॥  
 संन्यस्येक्षानकल्पेऽभूदेकसागरजीवितः । तत्र भोगोऽश्विरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥१०४॥  
 जम्बूद्वीपसुकच्छाख्यविजयाद्वाचलोत्तर- । श्रेण्यां पुरेऽभवत्काञ्चनाद्यन्ततिलकाह्वये ॥ १०५ ॥  
 महेन्द्रविक्रमस्येष्टतनूजोऽजितसेनवाक् । <sup>३</sup>अभवच्चीलवेगायां विद्याविक्रमदुर्गतः ॥ १०६ ॥  
 हृतो नलिनकेतुश्च वीक्ष्योल्कापातमात्मवान् । निर्विद्यं प्राक्तनात्मीयं दुश्चरित्रं विनिन्दयन् ॥१०७॥  
 सीमङ्करमुनिं श्रित्वा दीक्षामादाय शुद्धधीः । क्रमात्कैवल्यमुत्पाद्य सम्प्रापक्षितिमष्टमीम् ॥१०८॥

मेरी स्त्री है ॥ ६३ ॥ मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई हैं । यह विद्या सिद्ध करनेके लिए मुनिसागर नामक पर्वतपर गई थी ॥ ६४ ॥ उसी समय यह पापी इसकी विद्या सिद्ध करनेमें विप्र करनेके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्मके उदयसे इसकी विद्या सिद्ध हो गई ॥ ६५ ॥ यह पापी विद्याके भयसे ही आपके शरण आया है । मैं विद्याकी पूजाकी सामग्री ले कर उसी समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीका न देख शीघ्र ही उसी मार्गसे इनके पीछे आया हूँ । इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधरने कहा । यह सब सुनकर अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले राजा वज्रायुध कहने लगे । कि 'इसकी विद्यामें विप्र हानेका जो बड़ा भारी कारण है उसे मैं जानता हूँ' ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ॥ ६६-६८ ॥

उन्होंने कहा कि 'इसी जम्बूद्वीपके पेर्राघत क्षेत्रमें एक गान्धार नामका देश है उसके विन्ध्यपुर नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था । उसकी सुलक्षणा रानीसे नलिनकेतु नामका पुत्र हुआ था । उसी नगरमें एक धनमित्र नामका वणिक् रहता था । उसकी श्रीदत्ता स्त्रीसे सुदत्ता नामका पुत्र हुआ था । सुदत्तकी स्त्रीका नाम प्रीतिकरा था । एक दिन प्रीतिकरा किसी वनमें विहार कर रही थी । उसी समय राजपुत्र नलिनकेतुने उसे देखा और देखते ही कामाग्निसे ऐसा संतप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमर्थ हो गया । उस दुर्बुद्धिने न्यायवृत्तिका उल्लङ्घन कर बलपूर्वक प्रीतिकराका हरण कर लिया ॥ ६६-१०२ ॥ सुदत्त इस घटनासे बहुत ही विरक्त हुआ । उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा ले ली और चिर काल तक घोर तपश्चरण कर आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ । वह पुण्यात्मा चिर काल तक भोग भोग कर वहाँसे च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके विजयायार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर काञ्चनतिलक नामक नगरमें राजा महेन्द्रविक्रम और नीलवेगा नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पुत्र हुआ । यह विद्या और पराक्रमसे दुर्जेय है ॥१०३-१०६॥

इधर नलिनकेतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया । उसने विरक्त हो कर अपने पिछले दुश्चरित्रकी निन्दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धिको निर्मल बनाया, क्रम क्रमसे कैवलज्ञान उत्पन्न किया और अन्तमें अष्टम भूमि—मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०८॥

प्रीतिकरापि १निर्वेगात्संश्रिता सुव्रतान्तिकम् । गृहसङ्गपरित्यागात्कृत्वा चान्द्रायणं परम् ॥१०९॥  
 प्राप्ते संन्यस्य सा प्रायात्कल्पमीशाननामकम् । तत्र स्वायुःस्थितिं नीत्वा दिव्यैर्भोगैस्ततश्च्युता ॥११०॥  
 १तदाजनि तन्जयेयमथं विद्याविधातङ्कत् । तत्सम्बन्धादिति प्रोक्तं सर्वमाकर्ण्य भूयुजा ॥१११॥  
 निर्विद्य संसृतेः शान्तिमती क्षेमङ्कराह्वयात् । तीर्थेशाद्धर्ममासाद्य सद्यः प्राप्य सुलक्षणाम् ॥११२॥  
 गणिनीं संयमं श्रित्वा संन्यस्येशानसंज्ञके । नाके निलिम्पो भूत्वा स्वकायपूजार्थमागमत् ॥११३॥  
 तदानीमेव कैवल्यं प्रापत् पवनवेगवाक् । सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजां तयोरयात् ॥ ११४ ॥  
 तथा चक्रधरे राज्यलक्ष्म्यालिङ्गितविग्रहे । दशाङ्गभांगसाद्भूते पाति षट्खण्डमण्डलम् ॥११५॥  
 विद्याधराद्रथपागभागे शिवमन्दिरभूपतिः । मेघवाहननामास्य विमलाख्या प्रिया तयोः ॥११६॥  
 सुता कनकमालेति कल्याणविधिपूर्वकम् । जाता कनकशान्तेः सा झपकेतुं सुखावहा ॥ ११७ ॥  
 तथा ३वस्त्वोकसारारख्यपुराधीशखगेशिनः । सुता समुद्रसेनस्य जयसेनोदरोदिता ॥११८॥  
 प्रिया वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीयसी । ताभ्यां निर्वृतिमापासौ दृष्टिचर्याद्वयेन वा ॥११९॥  
 ४कोकिलाप्रथमालापैराहूत इव कौतुकात् । अयाद्वनविहाराय कदाचित्स सहप्रियः ॥ १२० ॥  
 कन्दमूलफलान्वेषी निधिं वा सुकृतोदयात् । कुमारो मुनिमद्राक्षीद्विपिने विमलप्रभम् ॥१२१॥  
 तं त्रिः परीन्य वन्दित्वा ततस्तत्त्वं प्रबुद्धवान् । मनोरजः समुद्भूय बुद्धिं बुद्धेरुपासदत् ॥१२२॥  
 तदानीमेव तं दीक्षालक्ष्मीश्च स्ववशं व्यधात् । शम्फलीव वसन्तश्रीरजायन तपःश्रियः ॥१२३॥

प्रीतिकरा भी विरक्त हो कर मुत्रना आर्थिकाके पास गई और घर तथा परिग्रहका त्याग कर चान्द्रायण नामक श्रेष्ठ तप करने लगी । अन्तमें संन्यासमरण कर ऐशान स्वर्गमें देवी हुई । वहाँ दिव्य भोगोंके द्वारा अपनी आयु पूरी कर वहाँसे च्युत हुई और अब तुम्हारी पुत्री हुई है । पूर्व पर्यायके सम्बन्धमें ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामें विप्र किया था । इस प्रकार राजा वज्रायुधके द्वारा कही हुई सब बात मुनिकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गई । उसने ज्ञेयकर नामक तीर्थकरसे धर्म श्रवण किया और शीघ्र ही मुलक्षणा नामकी आर्थिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया । अन्तमें संन्यास मरण कर वह ऐशान स्वर्गमें देव हुई । वह अपने शरीरकी पूजाके लिए आई थी उसी समय पवनवेग और अजितमेन मुनिका केवलज्ञान प्राप्त हुआ सो उनकी पूजा कर वह अपने स्थान पर चली गई ॥ १०९-११४ ॥ इस प्रकार जिनका शरीर राज्यलक्ष्मीसे आलिङ्गित हो रहा है ऐसे चक्रवर्ती वज्रायुध दश प्रकारके भोगोंके आधीन होकर जब छहों खण्ड पृथिवी का पालन करते थे ॥ ११५ ॥ तत्र विजयार्थ पर्वतको दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघवाहन राज्य करते थे उनकी स्त्रीका नाम विमला था । उन दोनोंके कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी । उसके जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे । तरुणी होनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करने वाली हुई थी अर्थात् उसके साथ विवाही गई थी ॥ ११६-११७ ॥ इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हुई वसन्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी स्त्री थी । जिसप्रकार दृष्टि और चर्या—सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे निर्वृति-निर्वाण-मोक्ष प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दोनों स्त्रियोंसे राजा कनकशान्ति निर्वृति-सुख प्राप्त कर रहा था ॥ ११८-११९ ॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाये हुंके समान कौतुक वश अपनी स्त्रियोंके साथ वनविहारके लिए गया था ॥ १२० ॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल ढूँढने वालेको पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनमें विमलप्रभ नामके मुनिराज दीख पड़े ॥ १२१ ॥ उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और अपने मनकी धूलि उड़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया ॥ १२२ ॥ उसी समय दीक्षा-लक्ष्मीने उसे अपने वश कर लिया अर्थात् उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि वसन्त-लक्ष्मी मानो तपोलक्ष्मीकी दृती ही थी । भावार्थ—जिसप्रकार दूती, पुरुषका स्त्रीके साथ समागम

१ प्रीतिकरातिनिर्वेगात् ख० । प्रीतिकरापि संवेगात् म०, ल० । २ तदाजनि म० । ३ वास्त्वोकसारख्य-क०, ग०, घ०, वस्त्वौक-म० । ४ कोकिलप्रथमा-क०, ख०, घ० । ५ तपःश्रियम् क०, घ० ।

देव्यौ विमलमत्थाख्यगणिनीं ते समाश्रिते । अदीक्षितां सहैतेन युक्तं तत्कुलयोषिताम् ॥१२४॥  
 सिद्धाचले कदाचित् प्रतिमायोगधारिणम् । खगो वसन्तसेनाया बद्धवैरेण मैथुनः ॥१२५॥  
 विद्योक्त्य चित्रचूलाख्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिप्सुरूपसर्गाय तर्जितः<sup>१</sup> खचरेश्वरैः<sup>२</sup> ॥१२६॥  
 अन्यदा रत्नसेनाख्यो नृपो रत्नपुराधिपः । दत्त्वाऽऽप पञ्चकाश्रयं भिक्षां कनकशान्तये ॥१२७॥  
<sup>३</sup>चित्रचूलः पुनश्चास्य प्रतिमायोगधारिणः । वने सुरनिपाताख्ये विघातं कर्तुमुद्यतः ॥१२८॥  
 तस्मिन् कोपं परित्यज्य घातिघाता यतीश्वरः । केवलावगमं प्रापत्काऽपि कोपो न धीमताम् ॥१२९॥  
 देवागमनमालोक्य भीत्वा स खगपापकः । तमेव शरणं यातो नीचायां वृत्तिरीदृशी ॥१३०॥  
 अथ वज्रायुधाधीनो<sup>४</sup> नप्तुकैवल्यदर्शनात् । लब्धबोधिः सहस्रायुधाय राज्यं प्रदाय तत् ॥१३१॥  
 दीक्षां क्षेमङ्कराख्यान<sup>५</sup> तीर्थकर्तुरुपान्तगः । प्राप्य सिद्धिगिरौ वर्षप्रतिमायोगमास्थितः ॥१३२॥  
 तस्य पादौ समालम्ब्य वाल्मीकं बह्ववर्तत । वर्द्धयन्ति महात्मानः पादलम्भानपि द्विपः ॥१३३॥  
 व्रतिनं तं व्रतस्थोऽपि मादर्वं वा समीप्सवः । गाढं रूढाः समासेदुराकण्ठमभितस्तनुम् ॥१३४॥  
 अश्वप्रीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधाभिधौ । भ्रान्त्वा<sup>६</sup> जन्मन्यतिबलमहाबलसमाख्यया ॥१३५॥  
 भूत्वाऽसुरौ तमभ्येत्य तद्विघातं चिकीर्षुकौ । रम्भातिलोत्तमे दृष्ट्वा तर्जयित्वाऽतिभक्तितः ॥१३६॥

करा देती है उसी प्रकार वसन्तलक्ष्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा दिया था ॥ १२३ ॥ इमीके साथ इसकी दांनों स्त्रियोंने भी विमलमती आर्थिकके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि कुलीन स्त्रियोंका ऐसा करना उचित ही है ॥ १२४ ॥ किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वही पर उनकी स्त्री वसन्तसेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया । पृथ्वजन्मके बंधे हुए वैरके कारण उसकी आँखे क्रोधसे लाल हो गईं । वह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोके अधिपतिने ललकार कर उसे भगा दिया ॥ १२४-१२६ ॥ किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेनने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पञ्चकाश्रय प्राप्त किये ॥ १२७ ॥ किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नामके वनमें प्रतिमायोग धारणकर विराजमान थे । वह चित्रचूल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हुआ ॥ १२८ ॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि घातिया कर्मका नाशकर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंको किसी पर क्रोध करना उचित नहीं है ॥ १२९ ॥ केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए देवोंका आगमन हुआ । उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केवली भगवानकी शरणमें पहुँचा सो ठीक ही है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है ॥ १३० ॥

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वज्रायुध महाराजको भी आत्मज्ञान हो गया जिससे उन्होंने सहस्रायुधके लिए राज्य दे दिया और क्षेमंकर तीर्थंकरके पास पहुँचकर दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पर्वतपर एक वर्षके लिए प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥ १३१-१३२ ॥ उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुतसे बमीठे तैयार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुष चरणोंमें लगे शत्रुओंको भी बढाते हैं ॥ १३३ ॥ उनके शरीरके चारों ओर सवन रूपसे जमी हुई लताएं भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करनेके लिए ही उन मुनिराजके पास तक जा पहुँची थीं ॥ १३४ ॥ अश्वप्रीवके रत्नकण्ठ और रत्नायुध नामके जो दा पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण कर अतिबल और महाबल नामके असुर हुए । वे दोनों ही असुर उन मुनिराजका विघात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और तिलोत्तमा नामकी देवियोंने देख लिया अतः डाँटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की । पूजाके बाद वे देवियां स्वर्ग चली गईं । देखो कहाँ दो स्त्रियाँ और

१ तर्जितं ख० । २ खचरेश्वरैः ख० । ३ रत्नचूलः ख० । ४ नप्तुकैवल्य-ख० । ५-ख्यात-ख० । ६ जम्भानि ख० ।

गन्धादिभिर्विति दिव्यैरभ्यर्च्यै दिवमीयतुः । क्व वा ते काऽसुरौ पुण्ये सति किं न घटामटेत् ॥१३७॥  
 किञ्चिक्कारणमुद्दिश्य वज्रायुधसुतोऽपि तत् । राज्यं शतबलिन्युद्धैर्निधाय निहतस्यूहः ॥१३८॥  
 संयमं सन्ध्यागादाय मुनीन्द्रान् पिहिताश्रवात् । योगावसाने स प्रापद्वज्रायुधमुनीश्वरम् ॥१३९॥  
 तातुभौ सुचिरं कृत्वा प्रब्रज्यां सह दुःस्सहाम् । वैभारपर्वतस्याग्रे विग्रहेऽप्यकृताग्रहौ ॥१४०॥  
 ऊर्ध्वप्रैवेयकस्याधोऽभूतां सौमनसाह्वये । एकाक्षत्रिंशदब्ध्यायुषौ विमाने महद्भिकौ ॥१४१॥  
 ततोवज्रायुधश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहगे । विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥१४२॥  
 पतिर्घनरथस्तस्य देवी कान्ता मनोहरा । तयोर्मैघरथाख्योऽभूदाधानाद्याससत्क्रियः ॥१४३॥  
 तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि सुतो दृढरथाह्वयः । जातो मनोरमायां ताविव चन्द्रदिवाकरौ ॥१४४॥  
 तयोः पराक्रमप्रज्ञाप्रश्रयप्रभावक्षमाः । सत्यत्यागादयोऽन्ये च प्रादुरासन् गुणाः स्थिराः ॥१४५॥  
 सुतो तौ यौवनापूर्णौ प्राप्तैश्वर्याविव द्विपौ । विलोक्य तद्विवाहार्थं महीशो विहितस्मृतिः ॥१४६॥  
 ज्येष्ठमूर्त्तौ विवाहेन प्रियमित्रामनोरमे । कर्नायसोऽपि सुमतिं विदधे चित्तवल्लभाम् ॥१४७॥  
 अभवन्प्रियमित्रायां तनूजो नन्दिवर्धनः । सुमत्यां वरमेनाख्यः सुतो दृढरथस्य च ॥१४८॥  
 इति स्वपुत्रपौत्रादिसुखसाधनसंयुतः । सिंहविष्टरमध्यास्य शकलीलां समावहन् ॥१४९॥  
 तदात्र प्रियमित्रायाः सुषेणा नाम चेटिका । कृकवाकुं समानीय घनतुण्डाभिधानकम् ॥१५०॥  
 दर्शयित्वाऽऽह यद्येनं जयेयुः कृकवाकृकाः । परेषां प्रददे तेभ्यां दीनाराणां सहस्रकम् ॥१५१॥  
 इति देव्या कर्नायस्याः श्रुत्वा तद्रणिकाऽऽनयत् । काञ्चना वज्रतुण्डाख्यं कुक्कुटं योधने तयोः ॥१५२॥

कहाँ दो अमुर फिर भी उन स्त्रियोंने अमुरोंको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौनसा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ? ॥ १३५-१३७ ॥

इधर वज्रायुधके पुत्र सहस्रायुधको भी किसी कारणसे वैराग्य हो गया, उन्होंने अपना राज्य शतबलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इच्छाएं छोड़ दीं और पिहितान्त्रव नामके मुनिराजसे उत्तम संयम प्राप्त कर लिया । जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता-वज्रायुध मुनिराजके समीप जा पहुँचे ॥ १३८-१३९ ॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें वे वैभार पर्वतके अग्रभागपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने शरीरमें भी अपना आयुह छोड़ दिया अर्थात् शरीरसे स्नेहरहित हो कर संन्यासमरण किया और ऊर्ध्वप्रैवेयकके नीचेके सौमनस नामक विमान में बड़ी ऋद्धिके धारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी ॥ १४०-१४१ ॥

इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे । उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी । वज्रायुधका जीव प्रैवेयकसे च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ । उसके जन्मके पहले गर्भाधान आदि क्रियाएं हुई थीं ॥ १४२-१४३ ॥ उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी । दूसरा अहमिन्द्र (सहस्रायुध का जीव) उसीके गर्भसे दृढरथ नामका पुत्र हुआ । ये दोनों ही पुत्र चन्द्र और सूर्यके समान जान पड़ते थे ॥ १४४ ॥ उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे ॥ १४५ ॥ दोनों ही पुत्र पूर्ण युवा हो गये और ऐश्वर्य प्राप्त गजराजके समान सुशोभित होने लगे । उन्हें देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी ओर गया ॥ १४६ ॥ उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा और मनोरमाके साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृदय-वल्लभा बनाया था ॥ १४७ ॥ कुमार मेघरथकी प्रियमित्रा स्त्रीसे नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुआ और दृढरथकी सुमति नामकी स्त्रीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ ॥ १४८ ॥ इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि सुखके समस्त साधनोंसे युक्त राजा घनरथ सिंहासन पर बैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था ॥ १४९ ॥ उसी समय प्रियमित्राकी सुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली कि यदि दूसरोंके मुर्गे इसे जीत लें तो मैं एक हजार दीनार दूँगी । यह सुनकर छोटी स्त्रीकी काञ्चना नामकी दासी एक वज्रतुण्ड नामका मुर्गा ले आई । दोनोंका युद्ध होने लगा, वह युद्ध

अन्योन्यदुःखहेतुत्वादेतयोः पश्यतामपि । हिंसानन्दादिकं द्रष्टुमयोग्यं धर्मवेदिनाम् ॥१५३॥  
 इति स्मरंश्च भव्यानां बहूनामुपशान्तये । स्वकीयपुत्रमाहात्म्यप्रकाशनधिया च तत् ॥ १५४ ॥  
 युद्धं घनरथावीशो लोकमानो दृढक्रुधोः । स मेघरथमप्राक्षीत् बलमेतत्कुतोऽनयोः ॥१५५॥  
 इति तेन स पृष्ठः सन् विशुद्धावधिलोचनः । तयोस्तादृशयुद्धस्य हेतुमेवमुदाहरत् ॥१५६॥  
 अस्मिन्नैरावते रत्नपुरे शाकटिकौ क्रुधा । सोदर्यौ भद्रधन्याख्यौ बलीवर्दानिमित्ततः ॥१५७॥  
 पापिष्ठौ श्रीनदीतीरं हत्वा मृत्वा परस्परम् । काञ्चनाख्यसरित्तीरे श्वेतताम्रादिकर्णकौ ॥१५८॥  
 स्वपूर्वजन्मपापेन जायेतां वनचारणौ । तत्रापि भवसम्बद्धक्रोधाद्युध्वा मृत्तिं गतौ ॥१५९॥  
 अयोध्यापुरवास्तव्यो नन्दिमित्रोऽस्ति बल्लवः । महिषीमण्डले तस्य जज्ञाते गवलोत्तमौ ॥१६०॥  
 दसौतत्रापि संरम्भसम्भृतौ तौ परस्परम् । बभूवतुश्चिरं युद्ध्वा शृङ्गाप्राकृष्टर्जावितौ ॥१६१॥  
 तस्मिन्नेव पुरे शक्तिवरशब्दादिसेनयोः । मेपावभतां तौ राजपुत्रयोर्वज्रमस्तकौ ॥१६२॥  
 युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ सञ्जातौ कुक्कुटाविमौ । स्वविद्याध्यासितावेतौ गूढौ योधयतः खगौ ॥१६३॥  
 कारणं किं तयोः कौ च तौ चेच्छृणु महीपते । जम्बूपलक्षिते द्वीपे भरते खचराचले ॥१६४॥  
 पुरेऽभूदुत्तरश्रेण्यां कनकादिनि भूपतिः । खगो गरुडवेगाख्यां धृतिपेणास्य बल्लभा ॥ १६५॥  
 गिलकान्तादिवाश्वन्द्वतिलकश्च सुती तयोः । सिद्धकूटे समासीनं चारणद्वन्द्वमाश्रितौ ॥१६६॥  
 स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं सप्रश्रयमपृच्छताम् । ज्येष्ठां मुनिस्तयोरिवं तत्प्रपञ्चमभाषत ॥१६७॥

दोनो मुर्गोके लिए दुःखका कारण था तथा देखने वालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रौद्रध्यान करने वाला था अतः धमात्माओंके देखने योग्य नहीं है ॥ १५०-१५३ ॥ ऐसा विचार कर बहुतसे भव्य जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशन करनेकी लुब्धिसे राजा घनरथ उन दोनों क्राधी मुर्गोका युद्ध देखते हुए मेघरथमे पृष्ठने लगे कि इनमें यह बल कहाँसे आया ? ॥ १५४-१५५ ॥ इस प्रकार घनरथके पृष्ठने पर विशुद्ध अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करने वाला मेघरथ, उन दोनों मुर्गोके वैसे युद्धका कारण कहने लगा ॥ १५६ ॥ उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें एक रत्नपुर नामका नगर है उसमें भद्र और धन्य नामके दो सगे भाई थे । दोनों ही गाड़ी चलानेका कार्य करते थे । एक दिन वे दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे वैलके निमित्तमे लड़ पड़े और परस्पर एक दूसरेको मार कर मर गये । अपने पूर्व जन्मके पापसे मर कर वे दोनों काञ्चन नदीके किनारे श्वेतकर्ण और ताम्रकर्ण नामके जंगली हाथी हुए । वहाँपर भी वे दोनों पूर्व भवके बंधे हुए क्रोधमे लड़कर मर गये ॥ १५७-१५८ ॥ मर कर अयोध्या नगरमें रहने वाले नन्दिमित्र नामके गोपालकी भैंसोंके झुण्डमें दो उत्तम भैंसे हुए ॥ १६० ॥ दोनों ही अहंकारी थे अतः परस्परमें बहुत ही क्रुपित हुए और चिरकाल तक युद्धकर सींगोंके अग्रभाग की चोटसे दोनोंके प्राण निकल गये ॥ १६१ ॥ अथकी वार वे दोनों उमा अयोध्या नगरमें शक्तीवरसेन और शब्दवरसेन नामके राजपुत्रोंके मेढा हुए । उनके मस्तक वज्रके समान मजबूत थे । मेढे भी परस्परमें लड़े और मर कर ये मुर्गे हुए हैं । अपनी अपनी विद्याओंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिप कर इन्हें लड़ा रहे हैं ॥ १६२ - १६३ ॥ उन विद्याधरोंके लड़नेका कारण क्या है ? और वे कौन हैं ? हे राजन्, यदि यह आप जानना चाहते हैं तो मुनें । इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नामका नगर है । उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था । धृतिपेणा उमकी स्त्रीका नाम था । उन दोनोंके दिवितिलक और चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र थे । एक दिन ये दोनों ही पुत्र सिद्धकूट पर विराजमान चारणयुगलके पास पहुँचे ॥ १६४-१६६ ॥ और स्तुति कर बड़ी विनयके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्ध पृष्ठने लगे । उनमें जो बड़े मुनि थे वे इस प्रकार विस्तारसे कहने लगे ॥ १६७ ॥



धातकीखण्डप्रागभागे पुरमैरावते भुवि । निलकाख्यं पतिस्तस्य बभूवाभयघोषवाक् ॥१६८॥  
 सुवर्णतिलका तस्य देवी जातौ सुतौ तयोः । विजयोऽन्यो जयन्तश्च सम्पन्ननयविक्रमौ ॥१६९॥  
 खगाद्रिदक्षिणश्रेणीमन्दाराख्यपुरेशिनः । शङ्खस्य जयदेव्याश्च पृथिवीतिलका सुता ॥१७०॥  
 तस्य त्वभयघोषस्य साऽभवत्प्राणवल्लभा । १ एकं संवत्सरं तस्यामेवासक्तेऽन्यदा विभौ ॥१७१॥  
 सुवर्णतिलका साह्रं विहंतुं भवता वनम् । २ वप्यानि नृपतिं चञ्चत्कान्त्यादिनिलकोऽवदन् ॥१७२॥  
 तच्चटिकावचः श्रुत्वा तदेप्सुमभिधाय तम् ३ । पृथिवीतिलका रम्यं वनमत्रैव दर्शये ॥१७३॥  
 इति तत्कालजं सर्वं वनवस्तु प्रदर्शय सा । तेन शकनुवती रोद्धुं मानभङ्गेन पीडिता ॥१७४॥  
 सुमतिं गणिनीं प्राप्य प्रब्रज्यामाददे सती । हेतुरासन्नभव्यानां मानश्च हितसिद्धये ॥१७५॥  
 भक्त्या दमवराख्याय दत्त्वा दानं महीपतिः । आश्चर्यपञ्चकं प्राप्य कदाचिदभयाह्वयः ॥१७६॥  
 अवाप्य सह सृनुभ्यामनन्तगुरुस्त्रिधिम् । लब्धवोधिः समादत्त दुस्सहं स महाव्रतम् ॥१७७॥  
 कारणं तीर्थकृन्नाम्नो भावयित्वाऽऽयुषोऽवधौ । सम्यगाराध्य पुत्राभ्यामच्युतं कल्पमात्मवान् ॥१७८॥  
 द्वाविंशत्यन्धिमनानुयुर्भुक्त्वा भोगांश्च तौ ततः । जीवितान्ते भवन्तौ तौ जातौ नृपकुमारकौ ॥१७९॥  
 इति तत्सम्यगाकर्ण्य भगवन्नावयोः पिता । बवेति पृष्टो मुनिस्ताभ्यामब्रवीदिति तत्कथाम् ॥ १८० ॥  
 ततः प्रच्युत्य ४ कल्पान्ताद् हेमाङ्गदमर्हापतेः । सुतोऽभून्मेघमालिन्यां देव्यां घनरथाह्वयः ॥ १८१ ॥  
 इदानीं पुण्डरीकिण्यां युद्धं कुक्कुटयोरसौ । ५ प्रेक्षमाणः स्थितः श्रीमान् देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐरावत क्षेत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका नगर है । उसके स्वामीका नाम अभयघोष था और उनकी स्त्रीका नाम सुवर्णतिलक था । उन दोनोंके विजय और जयन्त नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रमसे सम्पन्न थे । इसी क्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित मन्दारनगरके राजा शङ्ख और उनकी रानी जयदेवीके पृथिवीतिलका नामकी पुत्री थी ॥ १६८-१७० ॥ वह राजा अभयघोषकी प्राणवल्लभा हुई थी । राजा अभयघोष उसमें आसक्त होनेसे एक वर्ष तक उसीके यहाँ रहे आये ॥ १७१ ॥ एकदिन चञ्चत्कान्ति-निलका नामकी दासी आकर राजामे कहने लगी कि रानी सुवर्णतिलका आपके साथ वनमें विहार करना चाहती हैं ॥ १७२ ॥ चेटकी वचन सुनकर राजा वहाँ जाना चाहता था परन्तु पृथिवीतिलका राजामे मनोहर वचन बोली और कहने लगी कि वह यहीं दिखलाये देती हूँ ॥ १७३ ॥ ऐसा कह कर उसने उस समयमें होनेवाली वनकी सब वस्तुएँ दिखला दीं और इस कारण वह राजाको रोकनेमें समर्थ हो सकी । रानी सुवर्णतिलका इस मानभङ्गसे बहुत दुःखी हुई । अन्तमें उस सतीने सुमति नामक आर्थिकाके पास दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजीवोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है ॥ १७४-१७५ ॥ अभयघोष राजाने किसी दिन दमवर नामक मुनिराजके लिए भक्तिपूर्वक दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ १७६ ॥ वह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अन्त नामक गुरुके समीप गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर लिये ॥ १७७ ॥ तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन किया और आयुके अन्तमें समाधिभरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ अच्युतस्वर्गमें देव हुआ ॥ १७८ ॥ बाईस सागरकी आयु पाकर वे तीनों वहाँ मनोवाञ्छित भाग भोगते रहे । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर दोनों ही विजय और जयन्त राजकुमारके जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो ॥ १७९ ॥ यह सब अच्छी तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पूछने लगे—कि हे भगवन् ! हमारे पिता कहाँ हैं ? ऐसा पूछे जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे— ॥ १८० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताका जीव अच्युतस्वर्गसे च्युत होकर हेमाङ्गद राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरथ नामका पुत्र हुआ है वह श्रीमान् इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें सुर्गोंका युद्ध

१ एक म०, ल० । २ वश कान्तौ कामयते इच्छतीत्यर्थः । ३ ताम् क०, ख०, ग०, घ०, म०, ल० । ४ कल्पान्ते ल० । ५ प्रेक्षमाणः ख० ।

तदाकर्ण्य भवन्तीत्या खगौ तावागताविमौ । इति मेघरथात्सर्वमाकर्ण्यामीयविग्रहम् ॥ १८३ ॥  
 प्रकटीकृत्य तौ भूपं कुमारं चाभिपूज्य तम् । गत्वा गोवर्द्धनोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापताम् ॥ १८४ ॥  
 स्वपूर्वभवसम्बन्धं विदित्वा कुक्कुटौ च तौ । मुक्त्वा परस्पराब्जद्वैरं संन्यस्य साहसात् ॥ १८५ ॥  
 अभूतां भूतदेवादिर्मणान्तवनद्वये । ताम्नादिचूलचूलान्तकनकौ भूतजातिजौ ॥ १८६ ॥  
 तदैवागत्य तौ देवौ प्रीत्या मेघरथाङ्गयम् । सम्पूज्याख्याय सम्बन्धं स्वजन्मान्तरजं स्फुटम् ॥ १८७ ॥  
 मानुषोत्तरमृद्धान्तर्वर्तिं विश्वं विलोक्य । एष एव तवावाभ्यामुपकारो विधीयताम्<sup>१</sup> ॥ १८८ ॥  
 ह्यसुदीर्यं कुमारं तं स्यात्तथेति प्रतिश्रुतम् । साद्धं स्वाहैः समारोप्य विमानं विविधद्विकम् ॥ १८९ ॥  
 सम्प्राप्य गगनाभोगं मेघमालाविभूषितम् । दर्शयामास तुर्यान्तौ कान्तान् देशान्यथाक्रमम् ॥ १९० ॥  
 भरतः प्रथमो देशस्ततो हैमवतः परः । हरिवर्षो विदेहश्च रम्यकः पञ्चमो मतः ॥ १९१ ॥  
 हैरण्यवतसंज्ञश्च परश्वैरावताङ्गयः । पश्यैते सप्त भूभृत्सि<sup>२</sup> विभक्ताः सप्तभिर्विभो ॥ १९२ ॥  
 हिमवान् महाहिमवान् निषधो मन्दरो महान् । नीलो रुक्मी शिखर्याख्यो विख्याताः कुलपर्वताः ॥ १९३ ॥  
 इमा रम्या महानद्यश्चतुर्दशसमुद्रगाः । पद्मादिहृदसम्भूता नानास्रोतस्विनीयुताः ॥ १९४ ॥  
 गङ्गा सिन्धुश्च रांहिश्च रोहितास्या<sup>३</sup> हरित्परा । हरिकान्ता परा सीता सीतोदा चाएमी नदी ॥ १९५ ॥  
 नारी च नरकान्ता च कूलान्ता<sup>४</sup> स्वर्णसंज्ञिका । ततोऽन्या रूप्यकूलाख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥ १९६ ॥  
 हृदाः षोडशसङ्ख्याः स्युः कुशेशयविभूषिताः । पद्म पद्मो महापद्मस्तिगण्डः केसरी महा- ॥ १९७ ॥  
 पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निषधनामकः । परो देवकुरुः सूर्यः<sup>५</sup> सुलसो दशमः स्मृतः ॥ १९८ ॥  
 विद्युत्प्रभाङ्गयः ख्यातो नीलवान् कुरुत्तरः । चन्द्रश्वैरावतो माल्यवांश्च विख्यातसंज्ञकः ॥ १९९ ॥  
 तेषामाद्येषु षट्सु स्युस्ताः श्रीर्हीयतिकीर्तयः । बुद्धिर्लक्ष्मीश्च शक्रस्य व्यन्तर्यो वल्लभाङ्गनाः ॥ २०० ॥

देखता हुआ बैठा है ॥ १८१-१८२ ॥ उन मुनिराजसे ये सब बातें सुनकर ये दोनों ही विद्याधर आपके प्रेमसे यहाँ आये हैं । इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोंने अपना स्वरूप प्रकट किया, राजा धनरथ और कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली ॥ १८३-१८४ ॥ उन दोनों मुर्गीने भी अपना पूर्वभवका सम्बन्ध जानकर परस्पर का बंधा हुआ बैर छोड़ दिया और अन्तमें साहसके साथ संन्यास धारण कर लिया । और भूतरमण तथा देवरमण नामक यन्में ताम्रचूल और कनकचूल नामके भूतजातीय व्यन्तर हुए ॥ १८५-१८६ ॥ उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमें आये और बड़े प्रेमसे मेघरथकी पूजा कर अपने पूर्व जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥ १८७ ॥ अन्तमें उन्होंने कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वतके भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीजिये । हमलोगोंके द्वारा आपका कमसे कम यही उपकार हो जावे ॥ १८८ ॥ देवोंके ऐसा कहनेपर कुमारने जब तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली तब देवोंने कुमारको उसके आप्तजनोंके साथ अनेक ऋद्धियोंसे युक्त विमानपर बैठाया और मेघमालासे विभूषित आकाशमें ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, मुन्दर देश दिखलाये ॥ १८९-१९० ॥ वे बतलाते जाते थे कि यह पहला भरतक्षेत्र है, यह उसके आगे हैमवत क्षेत्र है, यह हरिवर्ष क्षेत्र है, यह विदेह क्षेत्र है, यह पंचवाँ रम्यक क्षेत्र है, यह हैरण्यवत क्षेत्र है और यह ऐरावत क्षेत्र है । इस प्रकार हे स्वामिन् ! सातः कुलाचलोंसे विभाजित ये सात क्षेत्र हैं ॥ १९१-१९२ ॥ हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, महामेरु, नील, रुक्मी और शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं १९३ ॥ ये पद्मआदि सरोवरोंसे निकलने वाली, समुद्रकी ओर जानेवाली, अनेक नदियोंसे युक्त, मनोहर चौदह महानदियाँ हैं, ॥ १९४ ॥ गङ्गा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम हैं ॥ १९५-१९६ ॥ देखो, कमलोंसे सुशोभित ये सोलह हृद-सरोवर हैं । पद्म, महापद्म, तिगण्ड, केसरी, महा-पुण्डरीक, पुण्डरीक, निषध, देवकुरु, सूर्य, दशवाँ सुलस, विद्युत्प्रभ, नीलवान्, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत और माल्यवान् ये उन सोलह हृदोंके नाम हैं ॥ १९७-१९८ ॥ इनमेंसे आदिके छह हृदोंमें क्रमसे श्री,

१ विधीयते ल० । २ विभुक्ताः ल० । ३ रोहिताख्या ल० । ४ सुवर्ण ल० । ५ सुलभोः ल० ।

नागाः क्षेत्रेषु तन्नामधेयाः सन्ततवासिनः । पदयामी च महाभाग प्रेक्ष्या वक्षारपर्वताः ॥ २०१ ॥  
 चित्रपद्मादिकूटाख्यौ कूटान्तनलिनः परः । एकशैलत्रिकूटश्च कूटो वैश्रवणादिक<sup>१</sup>ः ॥ २०२ ॥  
 अञ्जनात्माञ्जनौ श्रद्धावांश्च विजया<sup>२</sup>वती । आशीविषाभिधानश्च सुखावहसमाह्वयः ॥ २०३ ॥  
 चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो नागादिमालवाक् । देवमालः परो गन्धमादनो माल्यवानपि ॥ २०४ ॥  
 विद्युत्प्रभः सौमनसः प्रलयोत्पत्तिदूग्गाः । विभङ्गनद्यो ह्येताश्च स्वच्छाम्बुपरिपूरिताः ॥ २०५ ॥  
 हृदाहृदवतीसंज्ञे परा पङ्कवतीति च । तप्तमत्तजलाभ्याञ्च सहोन्मत्तजलाह्वया ॥ २०६ ॥  
 क्षीरोदा च सशीतोदा स्रोतोऽन्तर्वाहिनी परा । <sup>३</sup>गन्धादिमालिनी फेनमालिन्युर्म्यादिमालिनी ॥ २०७ ॥  
 अमी च विषयाः कच्छसुकच्छपरिभाषितौ । महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावर्तलाङ्गलाः ॥ २०८ ॥  
 पुष्कला पुष्कलावत्यो वत्सा नाम्ना च कीर्तिता । सुवत्सा च महावत्सा विख्याता वत्सकावती ॥ २०९ ॥  
 रम्या च रम्यकाख्या रमणीया मङ्गलावती । पद्मा सुपद्मा महापद्मा <sup>४</sup>पद्मावत्यभिख्यया ॥ २१० ॥  
 शङ्खा च नलिनान्या<sup>५</sup> च कुमुदा सरिता परा । वप्रा सुवप्रा च महावप्रा वप्रकावती ॥ २११ ॥  
 गन्धा सुगन्धा <sup>६</sup>गन्धावत् सुगन्धा गन्धमालिनी । एताश्च राजधान्योऽत्र कुमारालोकयस्फुटम् ॥ २१२ ॥  
 क्षेमा क्षेमपुरी चान्याऽरिष्टाऽरिष्टपुरी परा । खड्गाख्यया च मञ्जूषा <sup>७</sup>वौषधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥  
 सुसीमा कुण्डला सार्द्धमपराजितसंज्ञया । प्रभङ्गराङ्गवत्याख्या पद्मावत्यभिधोदिता ॥ २१४ ॥  
 शुभा<sup>८</sup> शब्दाभिधाना च नगरी रत्नसञ्चया । अश्वसिंहमहापुर्यो विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥  
 अरजा विरजाश्चैवमशोका वीतशोकावक् । विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २१६ ॥  
 अथ चक्रपुरी खड्गपुर्योऽप्या च वर्णिता । अवध्येन्यथ सीतां चराभागान्मेरुसन्निधेः ॥ २१७ ॥  
 प्रादक्षिण्येन वक्षाराम् दार्दींश्च प्रतिपादितान् । समुद्रादिवनादीनि भूतोद्दिष्टानि भुभुजा ॥ २१८ ॥

ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये इन्द्रकी वह्नुभा व्यन्तर देवियों रहती हैं ॥ २०० ॥ बाकीके दश हृदोंमें उमी नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं । हे महाभाग ! इधर देखो, ये देखने योग्य वक्षार पर्वत हैं ॥ २०१ ॥ चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वैश्रवणकूट, अञ्जनात्म, अञ्जन, श्रद्धावान्, विजयावती, आशीविष, सुखावह, चन्द्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं । इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान्, विद्युत्प्रभ और सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं । ये सब पर्वत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते हैं—अनादिनिधन हैं । इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभङ्ग नदियाँ हैं ॥ २०२-२०५ ॥ हृदा, हृदवती, पङ्कवती, तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतोदा, स्रोतोऽन्तर्वाहिनी, गन्धमालिनी, फेनमालिनी और ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं ॥ २०६-२०७ ॥ हे कुमार ! स्पष्ट देखिये, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लाङ्गला, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मङ्गलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शङ्खा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, सुगन्धा, गन्धावत्सुगन्धा और गन्धमालिनी ये बत्तीस विदेहक्षेत्रके देश हैं । तथा क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्ग, मञ्जूषा, औषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभङ्करा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्नसञ्चया, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियाँ उन देशोंकी राजधानियाँ हैं । ये वक्षार पर्वत, विभङ्ग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उचारकी और मेरु पर्वतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे वर्णन किये हैं । इनके सिवाय उन व्यन्तर देवोंने समुद्र, वन आदि जो जो दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे । इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा और उसके बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे । अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी

१ वैश्रवणादिमः ल० । २ विकटावती ग० । विजयावता ल० । ३ गम्भीरमालिनी ग०, ल०, म० ।

४ पद्मकावत्यभिख्यया ख० । पद्मावत्यभिधोदिताम् ग० । ५ नलिनाख्या च ल० । ६ गन्धवती शब्दा ल० ।

७ वौषधी ख० ।—न्यौषधी घ० । वौषधि म० । ८ शुभशब्दाभिधाना च ल०, ग० ।

पद्मयतान्यानि च स्वैरं मानुषोत्तरभूभृतः । मध्यवर्तीनि सर्वाणि प्रीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥  
 अकृत्रिमजिनागाराण्यभ्यर्च्य स्तुतिभिश्चिरम् । <sup>१</sup>स्तुत्वाऽर्थ्याभिर्निवृत्त्यापि स्वपुरं परमोत्सवम् ॥ २२० ॥  
 दिव्याभरणदानेन परिपूज्य महीपतिम् । सामोक्तिभिश्च तौ व्यन्तरेणैवावासमीयतुः ॥ २२१ ॥  
 यः कर्मव्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत् । स जीवन्नपि निर्जीवो <sup>२</sup>निर्गन्धप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥  
 कृकवाकू च चेदेवमुपकारविदौ कथम् । मनुष्यो जरयत्यङ्गे न चेदुपकृतं खलः ॥ २२३ ॥  
 कदाचित्काललाभेन नृपो घनरथाह्वयः । चोदितः स्वगतं धीमानिति देहाद्यचिन्तयत् ॥ २२४ ॥  
 धिक्कष्टमिष्टमित्येतत् शरीरं जन्तुरावसेत् । <sup>३</sup>अवस्करगृहाच्चैनं नापैत्यतिजुगुप्सितम् ॥ २२५ ॥  
 तर्पकाणि सुखान्याहुः कानि तान्यत्र देहिनाम् । मोहः कोऽप्यनिदुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ॥ २२६ ॥  
 जन्माथन्तमुहूर्तं चेज्जीवितं निश्चितं ततः । न क्षणे च कुतो जन्मी जायेत न हिते रतः ॥ २२७ ॥  
 बन्धवो बन्धनान्येते सम्पदो विपदोऽङ्गिनाम् <sup>४</sup> । न चेदेवं कुतः सन्तो वनान्तं <sup>५</sup> प्राक्तनाः गताः ॥ २२८ ॥  
 वितर्कयन्तमित्येनं प्राप्य लौकान्तिकामराः । विज्ञायावधिविज्ञानादनुवक्तुं तदीप्सितम् ॥ २२९ ॥  
 देव देवस्य को वक्ता देव एवावगच्छति । साधु हेयमुपादेयं चार्थमित्यादिस्तवैः ॥ २३० ॥  
 स्तुत्वा सतामभिष्टुत्यमभ्यर्च्य प्रसवैर्निजेः । नियोगमनुपाल्य स्वं स्वं धामैतुं नभोऽगमन् ॥ २३१ ॥  
 ततो मेघ<sup>६</sup>रथो राज्यमभिषेकपुरस्सरम् । नियोज्याभिषवं देवैः स्वयं चाप्याप संयमम् ॥ २३२ ॥

प्रीतिसे अकृत्रिम जिन-मन्दिरांकी पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियोंसे स्तुति की और तदनन्तर बड़े उत्सवों-से युक्त अपने नगरमें वापिस आ गये ॥ २०८-२२० ॥ वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोंने दिव्य आभरण देकर तथा शान्तिपूर्ण शब्द कहकर राजाकी पूजा की और उसके बाद वे निवासस्थान पर चले गये ॥ २२१ ॥ जो मनुष्य बदलेके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं निरता है अर्थान् उपकारी मनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करना है वह गन्ध रहित फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान है ॥ २२२ ॥ जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें जीर्ण क्यों होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है ॥ २२३ ॥

किसी एक दिन कालनन्दिने प्रेरित हुए बुद्धिमान् राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादिका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २२४ ॥ इस जीवको धिक्कार है । बड़े दुःखकी बात है कि यह जीव शरीरको इष्ट समझकर उसमें निवास करता है परन्तु यह इस शरीरका विष्टाके घरमें भी अधिक घृणास्पद नहीं जानता ॥ २२५ ॥ जो संतोष उत्पन्न करनेवाले हों उन्हें सुख कहते हैं । परन्तु ऐसे सुख इस संसारमें प्राणियोंको मिलते ही कहाँ हैं ? यह कोई मांहका ही उदय समझना चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोंको सुख समझने लगता है ॥ २२६ ॥ जन्मसे लेकर अन्तमुहूर्त पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निश्चय होता तो भी ठीक है परन्तु यह क्षणभर भी जीवित रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नहीं है तब यह जीव आत्महित करनेमें तत्पर क्यों नहीं होता ? ॥ २२७ ॥ ये भाई-बन्धु एक प्रकारके बन्धन हैं और सम्पदाएँ भी प्राणियोंके लिए विपत्ति रूप हैं । यदि ऐसा न होता तो पहलेके सज्जन पुरुष जङ्गलके मध्य क्यों जाते ? ॥ २२८ ॥ इधर महाराज घनरथ ऐसा चिन्तन कर रहे थे कि उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर लौकान्तिक देव उनके इष्ट पदार्थका समर्थन करनेके लिए आ पहुँचे ॥ २२९ ॥ वे कहने लगे कि हे देव ! आपके लिए हितका उपदेश कौन दे सकता है ? आप स्वयं ही हेय उपादेय पदार्थको जानते हैं । इस प्रकार सज्जनोंके द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान् घनरथकी लौकान्तिक देवोंने स्तुति की । स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी पूजा की, अपना नियोग पालन किया और यह सब कर वे अपने-अपने स्थान पर जानेके लिए आकाशमें जा पहुँचे ॥ २३०-२३१ ॥ तदनन्तर भगवान् घनरथने अभिषेक-पूर्वक मेघरथके लिए राज्य दिया, देवोंने उनका अभिषेक किया और इस तरह उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया

१ स्तुत्वार्याभिर्निवृत्त्याविशत्पुरं ल० । २ निर्गन्धकुसुमोपमः ल० । ३ अवास्करगृहाच्चैतन्नानेत्यति-सा० ।

४ विपदाङ्गिनाम् ल० । ५ वनान्ते ख०, ग० । ६ मेघरथे ल० ।

मनोवाक्कायसंशुद्धिं विदधद्विजितेन्द्रियः । कषायविषम<sup>१</sup>स्वन्तमव<sup>२</sup>मोहं वमन् सुधीः ॥ २३३ ॥

<sup>३</sup>भायश्रेणीं समास्त्रु क्रमात्कर्माणि निर्ममः । निर्मूल्य निर्मलं भावमवापावगमस्य सः ॥ २३४ ॥

तदा कैवल्यसम्प्राप्तिं<sup>४</sup>प्रभावात्कम्पितासनाः । निलिम्पाः सर्वसम्पत्त्या पत्युः पूजामकुर्वत ॥ २३५ ॥

स देवरमणोद्याने समं मेघरथोऽन्यदा । स्वदेवीभिर्विहृत्यास्थाच्चन्द्रकान्तशिलातले ॥ २३६ ॥

निविष्टं तं समाक्रम्य गच्छन्कश्चिन्नभश्चरः । गण्डोपल इव व्योम्नि सरुद्धसुविमानकः ॥ २३७ ॥

शिलां दृष्ट्वा<sup>५</sup> नृपारूढामुत्थापयितुमुद्यतः । नृपाङ्गुष्ठाग्रनिभुंशशिलाभारप्रपीडितः ॥ २३८ ॥

तत्सोढुमक्षमो गाढमाक्रन्दकहणस्वनम्<sup>६</sup> । तदा तत्त्वचरी प्राप्य नाथानाथाऽस्मि<sup>७</sup>नाथ्यसे ॥ २३९ ॥

पतिभिर्क्षां ददस्वेति<sup>८</sup> प्राह प्रोत्थापितक्रमः । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्टः प्रियमित्रया ॥ २४० ॥

विजयाद्बालकाख्येशो विद्युद्दंष्ट्रगगाधिपः । प्राणेशाऽनिलवेगाऽस्य सुतः सिंहस्थस्तयोः ॥ २४१ ॥

अभिवन्द्य जिनाधीशमायन्नमितवाहनः<sup>९</sup> । ममोपरि विमाने स्वे रुद्धे नायाति केनचित् ॥ २४२ ॥

<sup>१०</sup>दिशो विलोक्य मां दृष्ट्वा स्वदपात् कोपवेपितः । <sup>११</sup>अस्मान् शिलातलेनामा<sup>१२</sup> प्रोत्थापयितुमुद्यमी ॥

पीडितोऽयं मदङ्गुष्ठेनैवाप्यस्य<sup>१३</sup> मनोरमा । इत्यब्रवीत्तदाकर्ण्य किं कोपस्यास्य कारणम् ॥ २४३ ॥

॥ २३२ ॥ उन्होंने मन-वचन कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंको जीत लिया था, जिसका फल अच्छा नहीं ऐसे नीच कहे जानेवाले कषाय रूपी विषको उगल दिया था, उच्चम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी, क्षपकश्रेणीपर चढ़कर क्रम-क्रमसे सब कर्मोंको उखाड़ कर दूर कर दिया था और केवलज्ञान प्राप्त करनेके योग्य निर्मल भाव प्राप्त किये थे ॥ २३३-२३४ ॥ उस समय भगवान्को केवलज्ञान प्राप्त होनेसे देवोंके आसन कम्पित हो गये । उन्होंने आकर सर्व वैभवके साथ उनकी पूजा की ॥ २३५ ॥

किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोंके साथ विहारकर देवरमण नामक उद्यानमें चन्द्रकान्त मणिके शिलातलपर बैठ गया ॥ २३६ ॥ उर्मी समय उसके ऊपरसे कोई विद्याधर जा रहा था । उसका विमान आकाशमें ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चट्टानमें अटक गया हो ॥ २३७ ॥ विमान रुक जानेसे वह बहुत ही कुपित हुआ । राजा मेघरथ जिस शिलापर बैठे थे वह उसे उठानेके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा मेघरथने अपने पैरके अंगूठासे उस शिलाको दबा दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ ॥ २३८ ॥ जब वह शिलाका भार सहन करनेमें असमर्थ हो गया तब करुण शब्द करना हुआ चिह्नाने लगा । यह देख, उसकी स्त्री विद्याधरी आई और कहने लगी कि हे नाथ ! मैं अनाथ हुई जाती हूँ, मैं याचना करती हूँ, मुझे पति-भिन्ना दीजिये । ऐसी प्रार्थना की जानेपर मेघरथने अपना पैर ऊपर उठा लिया । यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे पूछा कि हे नाथ ! यह सब क्या है ? ॥ २३९-२४० ॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयाधरपर्वतपर अलका नगरीका राजा विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर है । अनिलवेगा उसकी स्त्रीका नाम है । यह उन दोनोंका सिंहस्थ नामका पुत्र है । यह जिनन्द्र भगवान्की वन्दनाकर अमित नामक विमानमें बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका । जब उसने सब दिशाओंकी ओर देखा तो मैं दिख पड़ा । मुझे देख अहंकारके कारण उनका शरीर क्रोधसे काँपने लगा । वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंको उठानेके लिए उद्यम करने लगा । मैंने पैरका अंगूठा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा । यह उसकी मनोरमा नामकी स्त्री है । राजा मेघरथने यह कहा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूछा कि इसके इस क्रोधका

१ न विद्यते मुष्टु अन्तो यस्य तत् अस्वन्तम । २ नीचैरिति निगाद्यमानम् । ३ क्षपकश्रेणीम् । ४ प्राभवात् क०, घ० । ५ दृष्ट्वा ल० । ६ करुणम्बरम् ल० । ७ नाथसे घ० । नाथ्यसे ल० । ८ प्राहोत्थापित-ल० । ९ वाहनम् ल० । १० दिशां ल० । ११ अस्मिन् क०, ख०, घ० । १२ शिलातलेन श्रमा सह इति पदच्छेदः । १३ नैपोऽप्यस्य ल० ।

इदमेव किमस्थान्यद्वान्यत्रापि १नेत्यसौ । तयोक्तो नान्यदित्यस्य प्राग्जन्मेत्युपदिष्टवान् ॥२४५॥  
 द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मिन्नैरावतसमाह्वये । देशे शङ्खपुरे राजा १राजगुप्तोऽस्य शङ्खिका ॥२४६॥  
 भार्या तौ शङ्खशैलन्थात्सर्वगुप्तमुनीश्वरात् । आसौ जिनगुणख्यातिमुपोषितविधि समम् ॥२४७॥  
 भिक्षाचरमथान्येष्टुर्धृतिपेणयतीश्वरम् । निरीक्ष्य भिक्षां दत्त्वाऽस्मै वसुधाराद्यवापताम् ॥२४८॥  
 समाधिगुप्तमासाद्य संन्यस्याभूत्स भूपतिः । ब्रह्मेन्द्रः स्वायुषोऽकृष्टः तस्मात् सिंहरथोऽजनि ॥२४९॥  
 शङ्खिका च परिभ्रम्य संसारे तपसाऽगमत् । देवलोकं ततश्च्युत्वा खगभूभृदपाकतटे ॥२५०॥  
 वस्वालयपुरे सेन्द्रकेतोरासीदियं सुता । सती मदनवेगाख्या सुप्रभाया स तच्छ्रुतेः ॥२५१॥  
 परितुष्य नृपं श्रित्वा पूजयित्वा यथोचितम् । सुवर्णतिलके राज्यं नियोज्य बहुभिः सह ॥२५२॥  
 दीक्षां घनरथाभ्यर्ण्ये जैनीं सिंहरथोऽग्रहीत् । प्रियमित्राभिधां प्राप्य गणिनीं गुणसन्निधिम् ॥२५३॥  
 सुधीर्मदनवेगा च कृच्छ्रमुच्चाचरत्तपः । कोपोऽपि काऽपि कोपोपलेपनापनुदे मतः ॥२५४॥  
 अथ स्वपुण्यकर्मासप्राज्यराज्यमहोदयान् । त्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपूर्णमनोरथम् ॥२५५॥  
 शुद्धश्रद्धानसम्पन्नं ३ व्रतशीलगुणान्वितम् ॥सप्रश्रयं श्रुताभिज्ञं प्रगल्भं वल्भभाषिणम् ४ ॥२५६॥  
 सुसप्तपरमस्थानभागिनं भव्यभास्करम् । नृपं मेघरथं दारदारकादिनिषेवितम् ॥२५७॥  
 कृत्वा नान्दीश्वरीं पूजां जैनधर्मोपदेशिनम् ५ । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः तं सवेपथुः ॥२५८॥

कारण क्या है ॥ २४१-२४४ ॥ यही है कि और कुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म सम्बन्धी ? प्रियमित्राके ऐसा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है । अन्य नहीं है, इतना कहकर वह उसके पूर्वभव कहने लगा ॥ २४५ ॥

दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्वार्धभागमें जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शङ्खपुर नगरमें राजा राजगुप्त राज्य करता था । उसकी स्त्रीका नाम शङ्खिका था । एक दिन इन दोनों ही पति-पत्नियोंने शङ्खशैल नामक पर्वतपर स्थित सर्वगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक उपवास साथ-साथ ग्रहण किया । किसी दूसरे दिन धृतिपेण नामके मुनिराज भिक्षाके लिए घूम रहं थे । उन्हें देख दोनों दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देकर रत्नवृष्टि आदि पञ्चाभ्यर्ण्य प्राप्त किये ॥ २४६-२४८ ॥ तदनन्तर राजा राजगुप्तने समाधिगुप्त मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिसमे उत्कृष्ट आयुका धारक ब्रह्मेन्द्र हुआ । वहाँसे चयकर सिंहरथ हुआ है । शङ्खिका भी संसारमें भ्रमणकर तपके द्वारा स्वर्ग गई । वहाँसे च्युत होकर विजयार्धपर्वतके दक्षिण तटपर वस्वालय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेतु और उसकी सुप्रभा नामकी स्त्रीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई है ॥ २४९-२५१ ॥ यह सुनकर राजा सिंहरथ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुवर्ण-तिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया और बहुतसे राजाओंके साथ घनरथ तीर्थकरके समीप जैना, दीक्षा ग्रहण कर ली । इधर बुद्धिमती मदनवेगा भी गुणोंकी भाण्डार स्वरूप प्रियमित्रा नामकी आर्थिकाके पास जाकर कठिन तपश्चरण करने लगी । सो ठीक ही है क्योंकि कहींपर क्रोध भी क्रोधका उपलेप दूर करनेवाला माना गया है ॥ २५२-२५४ ॥

अथानन्तर—अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिवर्गके फलकी प्राप्ति पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न हैं, व्रतशील आदि गुणोंसे युक्त हैं, विनय सहित हैं, शास्त्रको जाननेवाला हैं, गम्भीर हैं, सत्य बोलनेवाला हैं, सात परम स्थानोंको प्राप्त हैं, भव्य जीवोंमें देदीप्यमान हैं तथा स्त्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा राजा मेघरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजाकर जैनधर्मका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवासका नियम लेकर बैठा था कि इतनेमें काँपता हुआ एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे चलनेवाला एक गीध आया । वह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! मैं बहुत भारी भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रहा हूँ इसलिए आप, आपकी शरणमें आया हुआ यह मेरा भक्ष्य

तस्यानुपदमेवान्यो गृध्रो बद्धजवः पुरः । स्थित्वा नृपस्य <sup>१</sup>देवाहं महाक्षुद्धेदनातुरः ॥२५९॥  
 ततः कपोतमेतं मे भक्ष्यं त्वच्छरणागतम् । ददस्व दानशूर त्वं न चेद्विद्वद्यत्र मां मृतम् ॥२६०॥  
 इत्यवादीतादाकर्ण्य युवा दृढरथोऽब्रवीत् । पूज्य ब्रूहि वदत्येपे गृध्रः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥  
 इति स्वानुजसम्प्रभ्रादित्यवोचन्मर्हापतिः । <sup>२</sup>इह जम्बूद्वीपे क्षेत्रे मेरोरुदगते ॥२६२॥  
 नगरे पद्मिनीखेटे वणिक् सागरसेनवाक् । तस्यामितमतिः प्रीता तयोर्लघुतरौ सुतौ ॥२६३॥  
 धनमित्रोऽभवन्नन्दिपेणः स्वधनहेतुना । हत्वा परस्परं मृत्वा खगावेतौ बभूवतुः ॥२६४॥  
 देवः सन्निहितः कश्चित् गृध्रस्योपरि कः स चेत् । त्वया हेमरथो नाम्ना दमितारिणो हतः ॥२६५॥  
 परिभ्रम्य भवे भूयः कैलासाद्रितटेऽभवत् । <sup>३</sup>पर्णकान्तानदीतीरे धीमांश्चन्द्राभिधानकः ॥२६६॥  
 श्रीदत्तायां कुशाश्रजस्तनूजः सोमतापसात् । <sup>४</sup>तपः पञ्चाग्नि सन्तप्य <sup>५</sup>ज्योतिर्लोकैः समरोऽजनि ॥२६७॥  
 स कदाचिद्विंशं गत्वा द्वितीयेन्द्रसभासदैः । दाता मेघरथाच्चान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम् ॥२६८॥  
 श्रुत्वा प्रोचदमर्वेण मां परीक्षितुमागतः । शृणु चेतः समाधाय भातर्दानादिलक्षणम् ॥२६९॥  
 अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं विदोऽवदन् । अनुग्रहोऽपि स्वान्योपकारित्वमभिधीयते ॥२७०॥  
 दाता च शक्तिविज्ञानश्रद्धादिगुणलक्षितः । देयं वस्त्वप्यपीडाभाक् तद्द्वयार्गुणवर्द्धनम् ॥२७१॥  
 साधनं क्रमशो मुक्तेराहारो भेषजं श्रुतम् । सर्वप्राणिदया शुद्धं देयं सर्वज्ञभाषितम् ॥२७२॥  
 मोक्षमार्गं स्थितः पाता स्वस्यान्येषां च संस्तुतेः । पात्रं दानस्य सोऽभीष्टो निष्ठितार्थैर्निरञ्जैः ॥२७३॥  
 कृतार्थः <sup>६</sup>सन् जगत्प्राप्तं निरवधं वचोऽवदत् । भव्येभ्यः स हि दाता तद्देयं तत्प्राप्तमुत्तमम् ॥२७४॥

कवृत्तर मुक्ते दे दीजिये । हे दानवीर ! यदि आप यह कवृत्तर मुक्ते नहीं देते हैं तो वरा, मुक्ते मरा ही समझिये ॥ २५५-२६० ॥ गीधके यह वचन सुनकर युवराज दृढरथ कहने लगा कि हे पूज्य ! कहिये तो, यह गीध इस प्रकार क्यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो मुक्ते बड़ा आश्चर्य हो रहा है । अपने छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतके उत्तरकी ओर स्थित ऐरावत क्षेत्रके पद्मिनीखेट नामक नगरमें सागरसेन नामका वैश्य रहता था । उसकी स्त्रीका नाम अमितमति था । उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र धनमित्र और नन्दिपेण थे । अपने धनके निमित्तसे दोनों लड़ पड़े और एक दूसरेको मारकर ये कवृत्तर तथा गीध नामक पक्षी हुये हैं ॥ २६१-२६४ ॥ गीधके ऊपर कोई एक देव स्थित है । वह कौन है ? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था वह संसारमें भ्रमणकर कैलाश पर्वतके तटपर पर्णकान्ता नदीके किनारे सोम नामक तापस हुआ । उसकी श्रीदत्ता नामकी स्त्रीके मिथ्याशास्त्रियोंको जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हुआ । वह पञ्चाग्नि तप तपकर ज्योतिर्लोकमें देव उत्पन्न हुआ ॥ २६५-२६७ ॥ वह किसी समय स्वर्ग गया हुआ था वहाँ ऐशानेन्द्रके सभासदोंने स्तुति की कि इस समय पृथिवीपर मेघरथसे बढ़कर दूसरा दाता नहीं है । मेरी इस स्तुतिको सुनकर इसे बड़ा क्रोध आया । यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आया है । हे भाई ! चित्तको स्थिरकर दान आदिका लक्षण सुनो ॥ २६८-२६९ ॥ अनुग्रह करनेके लिए जो कुछ अपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कहा है और अनुग्रह शब्दका अर्थ भी अपना और दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है ॥ २७० ॥ जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त होता है वह दाता कहलाता है और जो वस्तु देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके गुणोंको बढ़ानेवाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते हैं ॥ २७१ ॥ सर्वज्ञ देवने यह देय चार प्रकारका बतलाया है आहार, औषधि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना । ये चारों ही शुद्ध देय हैं तथा क्रम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं ॥ २७२ ॥ जो मोक्षमार्गमें स्थित है और अपने आपकी तथा दूसरोंकी संसार भ्रमणसे रक्षा करता है वह पात्र है ऐसा कर्ममल रहित कृतकृत्य जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ २७३ ॥ अथवा जो कृतकृत्य होकर जगत्की रक्षा करनेके लिए भव्य जीवोंको

१ देवाह ल० । २ अत्र जम्बूमति द्वीपे ल० । ३ पर्णकाशनदी ल०, ग०, म० । ४ ततः ख । ५ ज्योतिर्लोकैः समरो म०, ल० । ६ स ल० ।

न तु मांसादिकं देयं पात्रं नास्य प्रतीच्छकः । तदातापि न दातेमौ ज्ञेयी नरकनायकौ ॥ २७५ ॥  
 ततो गृध्रो न तत्पात्रं नायं १देयः कपोतकः । तथा मैघरथी वाणीमाकर्ण्य ज्योतिषामरः २ ॥२७६॥  
 असि दानविभागज्ञो दानशूरश्च पाथिवः । इति स्तुत्वा प्रदर्श्य स्वं तं ३पूज्य जगाम सः ॥२७७॥  
 द्विजद्वयमपि ज्ञात्वा तदुक्तं त्यक्तदेहकम् । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकौ ॥ २७८ ॥  
 देवौ मेघरथं पश्चात्प्रसादात्कुयोनिनतः । निरगाव नृपेत्युक्त्वा पूज्यं सम्पूज्य जग्मतुः ॥२७९॥  
 कदाचित्स नृपो दानं दत्त्वा दमवरोशिने ४ । चारणाय परिप्रासपञ्चाश्चर्यविधिः सुधीः ॥२८०॥  
 नन्दीश्वरं ५ महापूजां विधायोपोषितं श्रितः । निशायां प्रतिमायोगे ध्यायन्नस्थादिवादिराट् ॥२८१॥  
 ईशानेन्द्रो ६ विदित्वैतन्मरुत्सदसि शुद्धदक् । धैर्यसारस्वमेवाद्य चित्रमित्यत्रवीन्मुदा ॥२८२॥  
 स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा देवैः कस्य स्तुतिः सनः । त्वयाऽकारोत्यसौ पृष्टः प्रत्याहेति सुरान् प्रति ॥२८३॥  
 धीरो मेघरथो नाम शुद्धदक् पाथिवाग्रणीः । प्रतिमायोगधार्यद्य तस्य भक्त्या स्तुतिः कृता ॥२८४॥  
 तदुदीरितमाकर्ण्य तत्परीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपासुरूपाख्ये देव्यावागत्य भूपतिम् ॥२८५॥  
 विलासैविभ्रमैर्हावैर्भावैर्गीतैः प्रजल्पितैः । अन्यैश्च मदनोन्मादहेतुभिस्तन्मनोबलम् ॥ २८६ ॥  
 विद्युल्लतेव देवाद्रि ते चालत्रियमक्षमे । सत्यमीशानसम्प्रांक्तमिति स्तुत्वा ७ स्वरीयतुः ॥ २८७ ॥

निर्दोष वचन कहते हैं वही उत्तम दाता है, वही उत्तम देय है और वही उत्तम पात्र है ॥ २७४ ॥  
 मांस आदि पदार्थ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं है, और इनका देनेवाला दाता नहीं है । ये दोनों तो नरकके अधिकारी हैं ॥ २७५ ॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका पात्र नहीं है और यह कवृत्तर देने योग्य नहीं है । इस प्रकार मेघरथकी वाणी सुनकर वह ज्योतिषी देव अपना असली रूप प्रकटकर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे राजन् ! तुम अचर्य ही दानके विभागको जाननेवाले हो तथा दानके शूर हो । इस तरह पूजाकर चला गया ॥ २७६-२७७ ॥ उन गीध और कवृत्तर दोनों पक्षियोंने भी मेघरथकी वही सब बातें ससभी और अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों देवरमण नामक वनमें गुरुप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर देय हुए ॥ २७८ ॥ तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे राजन् ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुयोनिमें निकल सके हैं । ऐसा कटकर तथा पूज्य मेघरथकी पूजाकर वे दोनों देव यथास्थान चले गये ॥ २७९ ॥

किसी समय उस बुद्धिमान राजाने चारण ऋद्धिधारी दमवर स्वामीके लिए दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ २८० ॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नन्दीश्वर पर्वमें महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वतके समान विराजमान था ॥ २८१ ॥ उसी समय देवोंकी सभामें ईशानेन्द्रने यह सब जानकर बड़े हर्षसे कहा कि अहा ? आश्चर्य है आज संसारमें तू ही शुद्ध सम्यग्दृष्टि है और तू ही धीर-वीर है ॥ २८२ ॥ इस तरह अपने आप की हुई स्तुतिको सुनकर देवोंने ईशानेन्द्रसे पूछा कि आपने किस सज्जनकी स्तुति की है ? उत्तरमें इन्द्र देवोंमें इस प्रकार कहने लगा कि राजाओंमें अग्रणी मेघरथ अत्यन्त धीरवीर है, शुद्ध सम्यग्दृष्टि है, आज वह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है । मैंने उसीकी भक्तिसे स्तुति की है ॥ २८३-२८४ ॥ ईशानेन्द्रकी उक्त बातको सुनकर उसकी परीक्षा करनेमें अत्यन्त चतुर अतिरूपा और गुरुपा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आईं और विलास, विभ्रम, हाव-भाव, गीत, बातचीत तथा कामके उन्मादको बढ़ानेवाले अन्य कारणोंसे उसके मनोबलको विचलित करनेका प्रयत्न करने लगीं परन्तु जिस प्रकार विजलीरूपी लता सुमेरु पर्वतको विचलित नहीं कर सकती उसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकीं । अन्तमें वे ईशानेन्द्रके द्वारा कहा हुआ सच है इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गईं ॥ २८५-२८७ ॥

१ देयं कपोतकम् घ० । देयं कपोतकः ल० । २ ज्योतिषोऽमरः म०, ल० । ३ संपूज्य क०, ख०, घ० । ४ दमवरोशिनः ख० । ५ नन्दीश्वर ख०, ल० । ६ विदित्वैनं ग० । ७ स्वः स्वर्ग ईयतुः जग्मतुः ।



१ अन्यदेशानकल्पेशो मरुन्मध्ये यदृच्छया । समस्तौत्प्रियमित्राया रूपमाकर्ण्यं तत्स्तवम् ॥२८८॥  
 रतिषेणा रतिश्चेत्य देव्यौ तद्रूपमीक्षितुम् । ऐतां मञ्जनवेलायां गन्धतैलाक्तदेहिकाम् ॥२८९॥  
 निरूप्येन्द्रवचः सम्यक् श्रद्धायाप्यभिभाषितुम् । तथा सहैव कन्याकृती धृत्वा तां समूचतुः ॥२९०॥  
 त्वामिध्यकन्यके २ द्रष्टुमैतामिति सखीमुखात् । ताभ्यामुक्तं समाकर्ण्यं प्रमदादस्तु तिष्ठताम् ॥२९१॥  
 तावदित्यात्मसंस्कारं कृत्वाऽऽहूयाभ्यदर्शयत् । तां निशम्याहस्तुस्ते च प्राग्वत्कान्तिर्न चायुना ॥२९२॥  
 इति सा तद्रुचः श्रुत्वा प्रियमित्रा महीपतेः । वक्त्रं व्यलोकयत् प्राह साऽपि कान्ते तथेति ताम् ॥२९३॥  
 देव्यौ ३ स्वं रूपमादाय निजागमनवृत्तकम् । निवेद्य रूपमस्याश्च धिग्विलक्षणभङ्गुरम् ॥२९४॥  
 अत्र नाभङ्गुरं किञ्चिदिति निवेद्य चेतसा । तां सम्पूजयेयतुः स्वर्गं स्वदीप्त्याप्तदिकृतं ॥२९५॥  
 ४ देवीं तद्धेतुना ५ स्त्रिणां नित्यानित्यात्मकं जगत् । सर्वमन्तः शुचं मा गा इत्याश्वास्य महीपतिः ॥२९६॥  
 राज्यभोगैः स्वकान्ताभिर्नितान्तं निर्वृतिं व्रजन् । गत्वा मनोहरोद्यानमन्येधुः स्वगुरुं जिनम् ॥२९७॥  
 सिंहासने समासीनं सुरासुरपरिष्कृतम् । समस्तपरिवारेण त्रिःपरीत्याभिवन्द्य च ॥२९८॥  
 सर्वभयहितं वाञ्छन् प्रपच्छोपासकक्रियाम् ६ । ७ प्रायः कल्पद्रुमस्येव परार्थं चेष्टितं सताम् ॥२९९॥  
 प्रागुक्तैकादशोपासकस्थानानि विभागतः । उपासकक्रियावद्भोपासकाध्ययनाह्वयम् ॥३००॥  
 ८ अङ्गं सप्तममाख्येयं श्रावकाणां हितैषिणाम् । इति न्यावर्णयामास तीर्थकृतप्रार्थितार्थकृतम् ॥३०१॥  
 गर्भान्वयक्रियाः पूर्वं ततो दीक्षान्वयक्रियाः । कर्मान्वयक्रियाश्चान्या स्तत्सङ्ख्याश्रानु ९ तत्त्वतः ॥३०२॥

किसी दूसरे दिन ऐशानेन्द्रने देवीकी मन्त्राभिसे अपनी इच्छासे राजा मेघरथकी रानी प्रियमित्राके रूपकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिषेणा और रति नामकी दो देवियों उसका रूप देखनेके लिए आईं । वह स्नानका समय था अतः प्रियमित्राके शरीरमें मुगन्धित तेलका मर्दन हो रहा था । उस समय प्रियमित्राको देखकर देवियोंने इन्द्रके वचन सत्य समझे । अनन्तर उसके साथ बातचीत करनेकी इच्छासे उन देवियोंने कन्याका रूप धारण कर सर्वािके द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक कन्याएँ—सेठकी पुत्रियों आपके दर्शन करना चाहती हैं । उनका कहा सुनकर प्रियमित्राने हर्षसे कहा कि 'बहुत अच्छा, ठहरे' इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्राने अपनी सजावट की । फिर उन कन्याओंको बुलाकर अपने आपको दिखलाया—उनसे भेंट की । रानीको देखकर दोनों देवियों कहने लगी कि 'जैसी कान्ति पहले थी अब वैसी नहीं है' । कन्याओंके वचन सुनकर प्रियमित्रा राजाका मुख देखने लगी । उत्तरमें राजाने भी कहा कि हे प्रिये ! बात ऐसी ही है ॥ २८८-२९३ ॥ तदनन्तर देवियोंने अपना असली रूप धारण कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलक्षण किन्तु नश्वर रूपको धिक्कार हो । इस संसारमें कोई भी वस्तु अभङ्गुर नहीं है इस प्रकार हृदय से विरक्त हो रानी प्रियमित्राकी पूजा कर वे देवियों अपनी दीप्तिसे दिशाओंके तटको व्याप्त करती हुई स्वर्गको चली गई ॥ २९४-२९५ ॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त संसार ही नित्यानित्यात्मक है अतः हृदयमें कुछ भी शोक मत करो' इस प्रकार राजाने उसे समझा दिया ॥ २९६ ॥ इस तरह अपनी स्त्रियोंके साथ राज्यका उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनन्दको प्राप्त हो रहे थे । किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने सिंहासन पर विराजमान तथा देव और धरणेन्द्रोंसे परिवृत अपने पिता घनरथ तीर्थकरके दर्शन किये । समस्त परिवारके साथ उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की और समस्त भव्य जीवोंके हितकी इच्छा करते हुए श्रावकोंकी क्रिया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी चेष्टा कल्पवृक्षके समान प्रायः परोपकारके लिए ही होती है ॥ २९७-२९८ ॥ हे देव ! जिन श्रावकोंके ग्यारह स्थान पहले विभाग कर वतलाये हैं उन्हीं श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण करनेवाला उपासकाध्ययन नामका सातवाँ अङ्ग, हितकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंके लिए कहिए । इस प्रकार राजा मेघरथके पूछने पर मनोरथको पूर्ण करनेवाले घनरथ तीर्थकर निम्न प्रकार वर्णन करने लगे ॥ ३००-३०१ ॥ उन्होंने कहा

१ अन्यदेशान—ख०, ग०, म० । २ वनाध्यकन्यके । ३ स्वरूप-ल० । ४ देवी ल० । ५ स्त्रिणां ल० । ६ क्रियाः म०, ल० । ७ प्राप्य ल० । ८ अङ्गसप्तम ल० । ९ तत्सङ्ख्यास्य तु ल० ।

गर्भाधानादिनिर्वाणपर्यन्ताः प्रथमक्रियाः । प्रोक्ताः 'प्राक्तास्त्रिपञ्चाशत्सम्यग्दर्शनशुद्धिषु ॥ ३०३ ॥  
 दीक्षान्वयक्रियाश्चाष्टचत्वारिंशत् प्रकीर्तिता । अवतारादिक<sup>२</sup>निर्भृत्यन्ता निर्वाणसाधिकाः ॥ ३०४ ॥  
 सद्गृहि<sup>३</sup>त्वादिसिद्धयन्ताः सप्त कर्त्रन्वयक्रियाः । सम्यक् स्वरूपमेतासां विधानं फलमप्यदः ॥ ३०५ ॥  
 तमुपासकसद्धर्मं श्रुत्वा घनरथोदितम् । नत्वा मेघरथो भक्त्या मुक्त्यै शान्तान्तरङ्गकः ॥ ३०६ ॥  
 शरीरभोगसंसारदौःस्थित्यं चिन्तयन्मुहुः । संयमाभिमुखो राज्ये तिष्ठत्य<sup>४</sup>नुजमादिशत् ॥ ३०७ ॥  
 त्वया राज्यस्य यो दोषो दृष्टोऽदृशि मयाऽप्यसौ । त्याज्यं तच्चेद् गृहीत्वाऽपि प्रागेवाग्रहणं वरम् ॥ ३०८ ॥  
 प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं 'वरम् । इति तस्मिंस्तदादानविमुखत्वमुपागते ॥ ३०९ ॥  
 सुताय मंघसेनाय दत्त्वा राज्यं यथाविधि । सहस्रैः सप्तभिः सार्द्धं सानुजो जगतीपतिः ॥ ३१० ॥  
 नृपैः दीक्षां समादाय क्रमादेकादशाङ्गवित् । प्रत्ययास्तीर्थकृत्नाम्नः षोडशैतान<sup>५</sup>भावयत् ॥ ३११ ॥  
 जिनोपदिष्टनिर्ग्रन्थमोक्षमार्गं रुचिर्मता । निःशङ्कतादिकाष्टाङ्गा विशुद्धिर्दर्शनस्य सा ॥ ३१२ ॥  
 मार्गोऽस्मिन्वर्तमानस्य यदुक्तं तद्ववेक्ष वा । इति शङ्कापरित्यागं<sup>६</sup> शङ्कारहिततां विदुः ॥ ३१३ ॥  
 द्विलोकभोगमिथ्यादृक्काङ्क्षाव्यावृत्तिरागमे । द्वितीयमङ्गमाख्यातं वि<sup>७</sup>शुद्धिर्दर्शनाश्रिता ॥ ३१४ ॥  
 देहाद्यशुचिसद्भावमवगम्य शुचीति यः । सङ्कल्पस्तस्य सन्त्यागः सा स्यान्निरिचिकिन्सता ॥ ३१५ ॥

कि 'श्रावकोंकी क्रियाएँ गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वयकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं इनकी संख्या इस प्रकार है ॥ ३०२ ॥ पहली गर्भान्वय क्रियाएँ गर्भाधानको आदि लेकर निर्वाण पर्यन्त होती हैं इनकी संख्या त्रेपन है, ये सम्यग्दर्शनकी शुद्धताको धारण करनेवाले जीवोंके होती हैं तथा इनका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥ ३०३ ॥ अवनारसे लेकर निर्वाण पर्यन्त होनेवाली दीक्षान्वय क्रियाएँ अड़तालीस कही गई हैं । ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली हैं ॥ ३०४ ॥ और सद्गृहित्वको आदि लेकर सिद्धि पर्यन्त सात कर्त्रन्वय क्रियाएँ हैं । इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह है, करनेकी विधि यह है तथा फल यह है । इस प्रकार घनरथ तीर्थकरने विस्तारसे इन सब क्रियाओंका वर्णन किया । इस तरह राजा मेघरथने घनरथ तीर्थकरके द्वारा कहा हुआ श्रावक धर्मका वर्णन मुन कर उन्हें भक्ति-पूर्वक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्त बना लिया ॥ ३०५-३०६ ॥ शरीर, भोग और संसारकी दुर्दशाका बार-बार विचार करते हुए वे संयम धारण करनेके सम्मुख हुए । उन्होंने छोटे भाई दृढरथसे कहा कि तुम राज्य पर बैठो । परन्तु दृढरथने उत्तर दिया कि आपने राज्यमें जो दोष देखा है वही दोष मैं भी तो देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य ग्रहण कर बादमें छोड़नेके ही योग्य है तब उसका पहलेसे ही ग्रहण नहीं करना अच्छा है । लोकमें कहावत है कि कीचड़को धोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है । ऐसा कह कर जब दृढरथ राज्य ग्रहण करनेसे विमुख हो गया तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्वक राज्य दे दिया और छोटे भाई तथा सात हजार अन्य राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली । वे क्रम-क्रमसे ग्यारह अङ्गके जानकार हो गये । उसी समय उन्होंने तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत निम्नांकित सोलह कारण भावनाओंका चिन्तयन किया ॥ ३०७-३११ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गमें रुचि होना सो दर्शनविशुद्धि है । उसके निःशङ्कता आदि आठ अङ्ग हैं ॥ ३१२ ॥ मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है वह होता है या नहीं इस प्रकारकी शंकाका त्याग निःशङ्कता कहलाती है ॥ ३१३ ॥ मिथ्यादृष्टि जीव इस लोक और पर-लोक सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगममें निःकाञ्चित नामका दूसरा अङ्ग बतलाया है । इससे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता होती है ॥ ३१४ ॥ शरीर आदिमें अशुचि-अपवित्र पदार्थोंका सद्भाव है ऐसा जानते हुए भी 'मैं अपवित्र हूँ' ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग

१ प्रोक्ताः सत्यस्त्रिपञ्चाशत् म०, ल० । २ अवतारादिका निर्भृत्यन्ता क०, ख०, घ०, म०, ।

३ सद्गृहीशादि । ४ तिष्ठत्वनुज-ल० । ५ यथा ल०, क०, ग०, घ० । ६-नभाषयत् ल० । ७ परित्यागः ल० ।

८ विशुद्धेर्दर्शनश्रियः म० ।

अथवाऽर्हन्मते नेदं चेत्सर्वं युक्तमित्यसन्<sup>१</sup> । आप्रहः क्वापि तस्यागः सा स्यात्त्रिविचिकित्सा ॥ ३१६ ॥  
 तत्त्ववद्भासमानेषु बहुदुर्णयवल्मसु । युक्ति<sup>२</sup>भावाद्विमोहत्वमाहुर्दृष्टेरमूढताम् ॥ ३१७ ॥  
 वृद्धिक्रियात्मधर्मस्य भावनाभिः क्षमादिभिः । अभीष्टं दर्शनस्याङ्गं सुदृग्भिरुपबृंहणम् ॥ ३१८ ॥  
 धर्मध्वंसनिमित्तेषु या<sup>३</sup> कपायोदयादिषु । धर्मव्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥ ३१९ ॥  
 जिनप्रणीतसद्धर्मांशानुरागता । वात्सल्यं मार्गमाहात्म्यभावना<sup>४</sup> स्यात्प्रभावना ॥ ३२० ॥  
 ज्ञानादिषु च तद्वत्सु चादरो निःकपायता । तद्द्वयं विनयस्याहुः सन्तः सम्पन्नतां स्फुटम् ॥ ३२१ ॥  
 व्रतशील<sup>५</sup>निविष्टेषु भेदेषु निरवद्यता । शीलव्रतानतीचारः<sup>६</sup> प्राक्तः सूक्तविदां वरैः ॥ ३२२ ॥  
 ज्ञानोपयोगाऽभीक्ष्णोऽसौ या नित्यश्रुतभावना । संवेगः संसृतेर्दुःखाद् दुस्सहाजित्यभीरुता ॥ ३२३ ॥  
 आहारादित्रयोत्सर्गः पात्रेभ्यस्त्याग इष्यते । यथागमं यथावीर्यं कायक्लेशस्तपो भवेत् ॥ ३२४ ॥  
 कदाचिन्मुनिसङ्घस्य बाह्याभ्यन्तरहेतुभिः । सन्धारणं समाधिः स्यात्प्रत्यूहे तपसः सति ॥ ३२५ ॥  
 गुणितानं निरवद्येन विधिना दुःखनिवृत्तिम् । वैयावृत्यं क्रिया प्रायः साधनं तपसः परम् ॥ ३२६ ॥  
 जिनेषु गणनाथेषु बहुशास्त्रेषु चागमे । भाव<sup>७</sup>शुद्धयानुरागः स्याद्भक्तिः कायादिगोचरा ॥ ३२७ ॥  
 सामायिकादिपट्कस्य यथाकालं प्रवर्तनम् । भवेदावश्यकाहानिर्यथोक्तविधिना मुनेः ॥ ३२८ ॥  
<sup>८</sup>ज्ञानेन तपसा जैनपूजयाऽन्येन चापि वा । धर्मप्रकाशनं प्राज्ञाः प्राहुर्मार्गप्रभावनाम् ॥ ३२९ ॥

करना निर्विचिकित्सा नामका अङ्ग है ॥३१५॥ यदि यह बात अर्हन्तक मनमें न होती तो सब ठीक होता इस प्रकारका आप्रह मिथ्या आप्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अङ्ग है ॥३१६॥ जो वास्तवमें तत्त्व नहीं है किन्तु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित होते हैं ऐसे बहुतसे मिथ्यानयके मार्गोंमें 'यह ठीक है' इस प्रकार मोहका नहीं होना अमूढ दृष्टि अङ्ग कहलाता है ॥ ३१७ ॥ क्षमा आदिकी भावनाओंसे आत्म धर्मकी वृद्धि करना सो सम्यग्दृष्टियोंकी प्रिय सम्यग्दर्शनका उपबृंहण नामका अङ्ग है ॥ ३१८ ॥ कपायका उदय आदि होना धर्मनाशका कारण है । उसके उपस्थित होनेपर अपनी या दूसरकी रक्षा करना अर्थात् दोनोंको धर्मसे च्युत नहीं होने देना सो स्थितिकरण अङ्ग है ॥ ३१९ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्मरूपी अमृतमें निरन्तर अनुराग रखना सो वात्सल्य अङ्ग है और मार्गके माहात्म्यकी भावना धरना—जिन-मार्गका प्रभाव फैलाना सो प्रभावना अङ्ग है ॥ ३२० ॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोंका आदर करना और कपाय रहित परिणाम रखना इन दोनोंको सज्जन पुरूप विनयसम्पन्नता कहते हैं ॥ ३२१ ॥ व्रत तथा शीलसे युक्त चारित्रके भेदोंमें निर्दोषता रखना—अतिचार नहीं लगाना, शास्त्रके उत्तमज्ञाता पुरुषोंके द्वारा शीलव्रतानतीचार नामकी भावना कही गई है ॥ ३२२ ॥ निरन्तर शास्त्रकी भावना रखना सो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है । संसारके दुःसह दुःखसे निरन्तर डरते रहना संवेग कहलाता है ॥ ३२३ ॥ पात्रोंके लिए आहार, अभय और शास्त्रका देना त्याग कहलाता है । आगमके अनुकूल अपनी शक्तिके अनुसार कायक्लेश करना तप कहलाता है ॥ ३२४ ॥ किसी समय बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे मुनिसंघके तपश्चरणमें विघ्न उपस्थित होनेपर मुनिसंघकी रक्षा करना साधुसमाधि है ॥ ३२५ ॥ निर्दोष विधिसे गुणियोंके दुख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन वैयावृत्य है ॥ ३२६ ॥ अरहन्त देव, आचार्य, बहुश्रुत तथा आगममें मन वचन कायसे भावोंकी शुद्धतापूर्वक अनुराग रखना क्रमसे अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति भावना है ॥ ३२७ ॥ मुनिके जो सामायिक आदि छह आवश्यक बतलाये हैं उनमें यथा समय आगमके कहे अनुसार प्रवृत्त होना सो आवश्यकपरिहाणि नामक भावना है ॥ ३२८ ॥ ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजासे, अथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानेको विद्वान् लोग मार्गप्रभावना कहते हैं ॥ ३२९ ॥

१-मित्यम् ल०, ग० । २ युक्तिर्भव- म० । ३ कपायोपपादिषु ल० । ४ भावनं क०, घ०, म० । ५ निवद्धेषु ल० । ६ प्राहुः ल० । ७ भावः शुद्धयानु-त्व० । ८ दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः । आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव ॥ पुरुषार्थसिद्धयुपायेऽमृतचन्द्रसुरैः ।

वत्से धेनोरिव स्नेहो यः सधर्मण्यकृत्रिमः । तद्वात्सल्यं प्रशंसन्ति प्रशंसापारमाश्रिताः ॥ ३३० ॥  
 ह्येतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः । कारणान्यामनन्त्यन्यनामनः षोडश बन्धने ॥ ३३१ ॥  
 एतद्भावनाया बद्धवा तीर्थकृन्नाम निर्मलम् । येन त्रैलोक्यसङ्क्षोभस्तत् स मेघरथो मुनिः ॥ ३३२ ॥  
 क्रमेण विहरन्देशान् प्राप्तवान् श्रीपुराह्वयम् । श्रीषेणस्तत्पतिस्तस्मै दत्त्वा भिक्षां यथोचितम्<sup>१</sup> ॥ ३३३ ॥  
 पश्चात्<sup>२</sup> नन्दपुरे नन्दनाभिधानश्च भक्तिमान् । तथैव पुण्डरीकिण्यां सिंहसेनश्च शुद्धहृत् ॥ ३३४ ॥  
 ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपसां पर्ययान् बहून् । सम्यग्बुद्धयते प्रापुः<sup>३</sup> पञ्चाश्रयाणि पार्थिवाः ॥ ३३५ ॥  
 संयमस्य परां कांतिमारुह्य स मुनीश्वरः । दृढो दृढरथेनामा<sup>४</sup> नभस्तिनलकपर्वते ॥ ३३६ ॥  
 मासमात्रं परित्यज्य शरीरं शान्तकल्मषः । प्रायोपगमनेनासः प्राणान्तेनाहमिन्द्रताम् ॥ ३३७ ॥  
 एतौ तत्र त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमजीवितौ । विधुञ्ज्वलतरारत्निशरीरौ शुक्लदेश्यकौ ॥ ३३८ ॥  
 मासैः षोडशभिः सार्द्धमा<sup>५</sup>सैनिःश्वासमीयुषी । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राब्देराहतामृतभांजनौ ॥ ३३९ ॥  
 निःप्रवीचारसौख्याख्यौ लोकनाड्यन्तराश्रित- । स्वगोचरपरिच्छेदप्रमाणावधिलोचनौ ॥ ३४० ॥  
 तत्क्षेत्रमितवीर्याभाविक्त्रियौ सुचिरं स्थितौ । समनन्तरजन्माप्य मोक्षलक्ष्मीसमागमौ ॥ ३४१ ॥  
 अथास्मिन् भारते वर्षे<sup>६</sup> विषयः कुरुजाङ्गलः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सर्वधान्याकरो महान् ॥ ३४२ ॥  
 तत्र ताम्बूलवत्यन्ताः सफलाः क्रमुकद्रुमाः । पुन्दारदारकादलेपसुखं प्रख्यापयन्ति वा ॥ ३४३ ॥  
 महाफलप्रदास्तुङ्गा बद्धमूला मनोहराः । सुराजवद्विराजन्ते सत्पत्राश्रोचभूरुहाः ॥ ३४४ ॥

और बड़ड़में गायके समान सहधर्मी पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगामी पुरुष वात्सल्यभावना कहते हैं ॥ ३३० ॥ श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनाओंको सब मिलकर अथवा अलग अलग रूपमें तीर्थकर नामकर्मके बन्धका कारण मानते हैं ॥ ३३१ ॥ मेघरथ मुनिराजने इन भावनाओंसे उस निर्मल तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोंमें द्योभ हो जाता है ॥ ३३२ ॥ वे क्रम-क्रमसे अनेक देशोंमें विहार करते हुए श्रीपुर नामक नगरमें गये । वहाँके राजा श्रीषेणने उन्हें योग्य विधिसे आहार दिया । इसके पश्चान् नन्दपुर नगरमें नन्दन नामके भक्तिवान् राजाने आहार दिया और तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल सम्यग्बुद्धि सिंहसेन राजाने आहार कराया । वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपकी अनेक पर्यायोंका अच्छी तरह बढ़ा रहे थे । उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओंने पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ३३३-३३५ ॥ अत्यन्त धीर वीर मेघरथने दृढरथके साथ-साथ नभस्तिनलक नामक पर्वतपर श्रेष्ठ संयम धारणकर एक महीने तक प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और अन्तमें शान्त परिणामोंसे शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥ ३३६-३३७ ॥ वहाँ इन दोनोंकी तैतीम सागरकी आयु थी । चन्द्रमाके समान उज्वल एक हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वे साढ़े सोलह माहमें एक बार श्वास लेते थे, तैतीस हजार वर्ष बाद एक बार अमृतमय आहार ग्रहण करते थे, प्रवीचाररहित मुखसे युक्त थे, उनके अवधिज्ञान रूपी नेत्र लोकनाडीके मध्यवर्ती योग्य पदार्थोंको देखते थे, उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रियाका क्षेत्र भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर था । इस प्रकार वे वहाँ चिरकालतक स्थित रहे । वहाँसे च्युत हो एक जन्म धारणकर वे नियमसे मोक्षलक्ष्मीका समागम प्राप्त करेंगे ॥ ३३८-३४१ ॥

अथानन्तर-भरत क्षेत्रमें एक कुरुजाङ्गल नामका देश है, जो आर्य क्षेत्रके ठीक मध्यमें स्थित है, सब प्रकार के धान्योंका उत्पत्तिस्थान है और सबसे बड़ा है ॥ ३४२ ॥ वहाँ पर पानकी बेलोंसे लिपटे एवं फलोंसे युक्त मुपारीके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष और बालकोंके आलिंगनका मुख ही प्रकट कर रहे हों ॥ ३४३ ॥

वहाँ चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समान सुशोभित होते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा महाफल-भोगोपभोगके उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष महा

१ यथोचिताम् ल०, ख०, म० । २-दृत्तपुरे म० ल० । ३ प्रापन् क०, ख०, घ० । ४ दृढरथेनामा ।  
 -दृढरथेन श्रमा सह । दृढरथो नामा ल० । ५ सार्द्धमासनिःश्वास ल० । ६ क्षेत्रे ख०, ग० ।

सदृष्टया सौकुमार्येण छायाया रसवत्तया । कदल्यः सर्वसौन्दर्याः सम्प्रीत्यै रमणीसमाः ॥ ३४५ ॥  
 आत्राः कत्राः फलैर्नत्राः पल्लवप्रसवोज्ज्वलाः । कोकिलालापवाचाला लोलालिकुलसङ्कुलाः ॥ ३४६ ॥  
 स्थूलपक्षफलाः प्रोद्यद् गन्धान्धीकृतपटपदाः । पनसाः प्रचुरा रंजुरामूलाफलदायिनः ॥ ३४७ ॥  
 गुल्मवल्लीदमाः सर्वे प्रसूनभरभङ्गुराः । क्रीडागारनिभाः भान्ति कामनाममहीभुजः ॥ ३४८ ॥  
 निर्भूमिच्छिद्रमच्छिद्रं निःपापाणं निरूसरम् । निर्नष्टाष्टभयं भूरिभूतलं सफलं सदा ॥ ३४९ ॥  
 अप्रमादोरुचारित्राः प्रायश्चित्तमिव द्विजाः । न दण्डभयमृच्छन्ति प्रजाः स्वस्थितिपालनात् ॥ ३५० ॥  
 महाजलाशया नित्यमच्छाः स्वच्छाम्बुसम्भृताः । नानाप्रसवसंछन्ना जहुर्ज्योतिर्जगच्छ्रियम् ॥ ३५१ ॥  
 पुष्पनेत्राः समुत्तुङ्गा विटपायतबाहवः । भूरुहा भूमिपायन्ते सदा चारुफलावहाः १ ॥ ३५२ ॥  
 पल्लवोष्ठाः प्रमूनाढ्यास्तन्वद्भ्योऽलिकुलालकाः । सत्पत्राश्चित्रवलयो रमण्य इव रंजिरे ॥ ३५३ ॥

फल—बड़े-बड़े फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुङ्ग—उदारचित्ता होता है उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष तुङ्ग—ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल—पकी जड़ वाले होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी बद्धमूल—पकी जड़ वाले थे । जिस प्रकार उत्तम राजा मनोहर—अत्यन्त सुन्दर होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी मनोहर—अत्यन्त सुन्दर थे, और जिस प्रकार उत्तम राजा सत्पत्र—अच्छी अच्छी सवारियोंमें युक्त होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी सत्पत्र—अच्छे अच्छे पत्तोंमें युक्त थे ॥ ३४४ ॥ वहाँके केलके वृक्ष स्त्रियोंके समान उत्तमप्रीति करनेवाले थे क्योंकि जिस प्रकार केलके वृक्ष मदह्राष्ट—देखने में अच्छे लगते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी मदह्राष्ट—अच्छी आँखों वाली थीं, जिस प्रकार केलके वृक्ष मुकुमार होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी मुकुमार थीं, जिस प्रकार केलके वृक्ष छाया—अनानपसे युक्त होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी छाया—कान्तिमें युक्त थीं, जिस प्रकार केलके वृक्ष रसीले होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी रसीली—शृङ्गारमें युक्त थीं, और केलके वृक्ष जिस प्रकार सबसे अधिक सुन्दर होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥ ३४५ ॥ वहाँके सुन्दर आमके वृक्ष फलोंसे भुक्त रहें थे, नई नई कोपलों तथा तथा फूलोंमें उज्ज्वल थे, कोकिलाओंके वार्तालापसे सुग्वरित थे, और चञ्चल भ्रमरोंके समूहसे व्यग्र थे ॥ ३४६ ॥ जिनमें बड़े-बड़े पके फल लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अंधे हो रहे थे, और जो मूलमें ही लेकर फल देनेवाले थे ऐसे कटहलके वृक्ष वहाँ अधिक सुशोभित होते थे ॥ ३४७ ॥ फूलोंके भारसे झुकी हुई वहाँकी आँखियाँ, लताएँ और वृक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राजाके क्रीडाभवन ही हों ॥ ३४८ ॥ वहाँकी भूमिमें गड्ढे नहीं थे, छिद्र नहीं थे, पत्थर नहीं थे, ऊपर जमीन नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँकी भूमि सदा फल देती रहती थी ॥ ३४९ ॥ जिस प्रकार प्रमादरहित श्रेष्ठ चारित्रिका पालन करनेवाले द्विज कभी प्रायश्चित्त नहीं प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी दण्डका भय नहीं प्राप्त करती थी ॥ ३५० ॥ जिनमें निरन्तर मच्छ—जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ जलमें भरे हुए हैं, और अनेक प्रकारके फूलोंसे आच्छादित हैं ऐसे वहाँके सरोवर ज्योतिर्लोककी शोभा हरण करते हैं ॥ ३५१ ॥ वहाँके वृक्ष ठीक राजाओंके समान आचरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पुष्पनेत्र—कमलपुष्पके समान नेत्रोंवाले होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी पुष्पनेत्र—पुष्प रूपी नेत्रोंमें युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तुङ्ग—उदाराशय होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी समुत्तुङ्ग—बहुत ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते हैं—शाखाओंके समान लम्बी भुजाओंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी विटपायतबाहवः—शाखाएँ ही जिनकी लम्बी भुजाएँ हैं ऐसे थे और जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी सदा सुन्दर फलोंको धारण करनेवाले थे ॥ ३५२ ॥ वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ स्त्रियोंके समान सुशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंके लाल लाल ओठ होते हैं उसी प्रकार वहाँकी

आमर्ध्यं रसिकामूलात्पर्यन्ते विरसास्ततः । पीड्यन्ते सुतरां यन्त्रैरिक्ष्वो जितदुर्जनाः ॥ ३५४ ॥  
 शब्दनिष्पादने लोपः प्रध्वंसः पापवृत्तिषु । दाहो विरहिवर्गेषु वेधः<sup>१</sup> श्रवणयोर्द्वये ॥ ३५५ ॥  
 दण्डो दारुषु शस्त्रेषु निस्त्रिशोक्तिस्तपस्विषु । निर्धनत्वं विदानत्वं महापाये न दन्तिषु ॥ ३५६ ॥  
 सुरतेषु विलज्जत्वं कान्तकन्यासु याचनम् । तापोऽनलोपजीवेषु मारणं रसवादिषु ॥ ३५७ ॥  
 नाकाण्डमृत्यवः सन्ति नापि दुर्मांगगामिनः । मुक्त्वा विग्रहिणो मुक्तमारणान्तिकविग्रहात् ॥ ३५८ ॥  
 प्राच्यवृत्तिविपर्यासः संयमग्राहिणोऽ<sup>२</sup> भवत् । न षट्कर्मसु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्विषाम् ॥ ३५९ ॥  
 शालयो लीलया वृद्धिमुपेताः सर्वतर्पिणः । विनम्राः फलसम्प्राप्तौ भेजुः सद्भूमिपोपमाम् ॥ ३६० ॥  
 क्षरन्ति वारिदाः काले दुहते धेनवः सदा । फलन्ति भूरुहाः सर्वे पुष्पन्ति च लतास्तताः ॥ ३६१ ॥  
 नित्योत्सवाः निरातङ्गा निर्बन्धा धनिकाः प्रजाः । निर्मला<sup>३</sup> नित्यकर्माणो नियुक्ताः स्वासु वृत्तिषु ॥ ३६२ ॥

लताओंमें लाल पल्लव थे, जिस प्रकार स्त्रियाँ मन्द मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ फूलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ तन्वङ्गी-पतली होनी हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी तन्वङ्गी-पतली थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ काले काले केशोंसे युक्त होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी काले काले भ्रमरोंसे युक्त थीं, और जिस प्रकार स्त्रियाँ सत्पत्र-उत्तमोत्तम पत्र-रचनाओंसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे युक्त थीं ॥ ३५३ ॥ जो मूलसे लेकर मध्यभाग तक रसिक हैं और अन्तमें नीरस हैं एंसे दुर्जनोंको जीननेवाले ईश्व ही वहाँपर यन्त्रों द्वारा अच्छी तरह पीड जाते थे ॥ ३५४ ॥ वहाँपर लोप-अनुबन्ध आदिका अदर्शन शब्दोंके सिद्ध करनेमें होता था अन्य दूसरेका लोप-नाश नहीं होता था, नाश पापरूप प्रवृत्तियोंका होता था, दाह विरही मनुष्योंमें होता था और वेध अर्थात् छेदना दोनों कानोंमें होता था, दूसरी जगह नहीं ॥ ३५५ ॥ दण्ड केवल लकड़ियोंमें था । वहाँके प्रजामें दण्ड अर्थात् जुमाना नहीं था, निस्त्रिशता अर्थात् तीक्ष्णता केवल शस्त्रोंमें थी वहाँकी प्रजामें निस्त्रिशता अर्थात् दुष्टता नहीं थी, निर्धनता अर्थात् निष्परिग्रहता तपस्विचर्योंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें निर्धनता अर्थात् गरीबी नहीं थी और विदानत्व अर्थात् मदका अभाव, मद सूख जानेपर केवल हाथियोंमें ही था वहाँकी प्रजामें विदानत्व अर्थात् दान देनेका अभाव नहीं था ॥ ३५६ ॥ निर्लज्जपना केवल संभोग क्रियाओंमें था, याचना केवल सुन्दर कन्याओंकी होती थी, ताप केवल अग्निसे आजीविका करनेवालों में था और मारण केवल रसवादियोंमें था—रसायन आदि बनानेवालोंमें था ॥ ३५७ ॥ वहाँ कोई असमयमें नहीं मरते थे, कोई कुमार्गमें नहीं चलते थे और मुक्त जीवों तथा मारणान्तिक समुद्रयात करनेवालोंको छोड़कर अन्य कोई विग्रही-शरीर रहित तथा मोड़ासे रहित नहीं थे ॥ ३५८ ॥ मिथ्या नयसे द्वेष रखनेवाले चारों ही वर्णवाले जीवोंके देवपूजा आदि ब्रह्म कर्मोंमें कहीं प्राचीन प्रवृत्तिका उल्लंघन नहीं था अर्थात् देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योंकी जैसी प्रवृत्ति पहलेसे चली आई थी उसीके अनुसार सब प्रवृत्ति करते थे । यदि प्राचीन प्रवृत्तिके क्रमका उल्लंघन था तो संयम ग्रहण करनेवालेके ही था अर्थात् संयमी मनुष्य ही पहलेसे चली आई असंयमरूप प्रवृत्तिका उल्लंघनकर संयमकी नई प्रवृत्ति स्वीकृत करता था ॥ ३५९ ॥ लीलापूर्वक वृद्धिको प्राप्त हुए एवं सबका सन्तुष्ट करनेवाले धान्यके पौधे, फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गये थे—नीचेको झुक गये थे अतः किसी अच्छे राजाकी उपमाको धारण कर रहे थे ॥ ३६० ॥ वहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गायें सदा दूध देती थीं, सब वृक्ष फलते थे और फैली हुई लताएँ सदा पुष्पोंसे युक्त रहती थीं ॥ ३६१ ॥ वहाँकी प्रजा नित्योत्सव थी अर्थात् उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे, निरातङ्ग थी उसमें किसी प्रकारकी बीमारी नहीं होती थी, निर्बन्ध थी हठ रहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उद्योग करती थी और अपने अपने कर्मोंमें लगी रहती थी ॥ ३६२ ॥

हास्तिनाख्या पुरी तस्य शुभा नाभिरिवाबभौ । सृशं देशस्य देहस्य महती मध्यवतिनी ॥ ३६३ ॥  
भूरिनीरभवानेकप्रसूनोदितभूतिभिः । तिसृभिः परिखाभिस्तन्नगरं परिवेष्टितम् ॥ ३६४ ॥  
विभाति गोपुरोपेतद्वाराट्टालकपङ्क्तिभिः । वप्रप्राकारदुर्लङ्घ्यं मुञ्जैः कपिशीर्षकैः ॥ ३६५ ॥  
इन्द्रकाशैर्बृहद्यन्त्रैर्युक्तं देवपथार्दिभिः । महाशुद्राग्रिमद्गैर्वीथिभिर्बहुभिश्च तत ॥ ३६६ ॥  
राजमार्गा विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वगापवर्गमार्गाभाः सञ्चरन्चरुवृत्तयः ॥ ३६७ ॥  
न नेपथ्यादिभिर्भेदस्तद्भुवां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णवचोवोधादिभिर्मिदा ॥ ३६८ ॥  
तत्पुर्या सौधकूटाप्रवद्धध्वजनिरोधनात् । नातपम्य प्रवेशोऽस्ति त्रिवनार्कदिनेष्वपि ॥ ३६९ ॥  
पुष्पाङ्गरागधूपदिसीगन्ध्यान्धीकृतालिभिः । भ्रमद्भिस्तत्र खे प्रावृट्शङ्का गृहशिवण्डिनाम् ॥ ३७० ॥  
रूपलावण्यकान्त्यादिगुणैर्युवतिभिर्युताः । युवानस्तैश्च ताम्स्तत्र तदन्योन्यमुस्खावहाः ॥ ३७१ ॥  
मदनोद्दीपनद्रव्यैर्निसर्गप्रेमनो गुणैः । कान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः प्रीतिस्तत्र निरन्तरम् ॥ ३७२ ॥  
अहिसालक्षणो धर्मा यतयो विगतस्पृहाः । देवोऽहंज्ञैव निर्दोषस्तत्सर्वेऽप्यत्र धार्मिकाः ॥ ३७३ ॥  
यत्किञ्चित् सञ्चितं पापं पञ्चमनादिवृत्तिभिः । पात्रदानादिभिः सद्यस्तद्विलम्पन्त्युपासकाः ॥ ३७४ ॥  
न्याय्यो नृपः प्रजा धर्मा निर्जन्तु क्षेत्रमन्वहम् । स्वाध्यायस्तत्पुरं तस्मान्न त्यजन्ति यतीश्वराः ॥ ३७५ ॥  
नानापुष्पफलानम्रमहीत्रैर्नन्दनैर्वनीः । नन्दनं च विजायेत तत्पुरोपान्तवर्तिभिः ॥ ३७६ ॥

जिस प्रकार शरीरके मध्यमें बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजाङ्गल देशके मध्यमें एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है ॥ ३६३ ॥ अगाध जन्म उत्पन्न हुए अनेक पुष्पों-द्वारा जिनकी शोभा बह रही है ऐसी तीन परिखाओंमें वह नगर घिरा हुआ था ॥ ३६४ ॥ धूलिके ढेर और कोटकी दीवारोंमें दुर्लङ्घ्य वह नगर गोपुरोंमें युक्त दरवाजों, अट्टालिकाओंकी पंक्तियों तथा बन्दरोंके शिर जैमें आकारवाले बुरजोंमें बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥ ३६५ ॥ वह नगर, राज-मार्गमें ही मिलने वाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़े आदिके चित्रों तथा बहुत छोटे दरवाजों वाली बहुत-सी गलियोंमें युक्त था ॥ ३६६ ॥ जो गार वस्तुओंमें महित हैं तथा जिनमें सदाचारी मनुष्य इधरमें उधर टहला करते हैं ऐसे वहाँके राजमार्ग स्वर्ग और मोक्षके मार्गके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७ ॥ वहाँ उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमें श्रेष्ठ वस्तुओंमें उत्पन्न हुए नेपथ्य—वस्त्राभूषणादि से कुछ भी भेद नहीं था केवल कुल, जाति, अवस्था, वर्ण, वचन और ज्ञानकी अपेक्षा भेद था ॥ ३६८ ॥ उस नगरमें राजभवनोंके शिखरोंके अग्रभाग पर जो ध्वजाएँ फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण जब सूर्यपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन दिनोंमें भी धूपका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥ ३६९ ॥ पुष्प, अङ्गराग तथा धूप आदिकी सुगन्धिसे अन्य होकर जो भ्रमर आकाशमें इधर-उधर उड़ रहे थे उनसे घरके मयूरोंका वर्षाक्रतुकी शङ्का हो रही थी ॥ ३७० ॥ वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि गुणोंसे युक्त युवक युवतियोंके साथ और युवतियाँ युवकोंके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक दूसरेको सुख पहुँचाती थीं ॥ ३७१ ॥ वहाँ कामका उद्दीपित करनेवाले पदार्थ, स्वाभाविक प्रेम, तथा कान्ति आदि गुणोंसे स्त्री-पुरुषोंमें निरन्तर प्रीति घनी रहती थी ॥ ३७२ ॥ वहाँ धर्म अहिसा रूप माना जाता था, मुनि इच्छारहित थे, और देव रागादि दोषोंमें रहित अर्हन्त ही माने जाते थे इसलिए वहाँके सभी मनुष्य धर्मात्मा थे ॥ ३७३ ॥ वहाँके श्रावक, चर्की चूला आदि पाँच कार्योंसे जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ॥ ३७४ ॥ वहाँका राजा न्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जीवरहित—ग्रामुक था, और प्रतिदिन स्वाध्याय होता रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरको कभी नहीं छोड़ते थे ॥ ३७५ ॥ जिनके वृक्ष अनेक पुष्प और फलोंसे नम्र हो रहे हैं तथा जो सचका आनन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके सभीपवर्तों

१ महाशुद्राणि रुद्रद्वारैः ख० । महाशुद्राणि रुद्रद्वारैः म०, ग० । महाशुद्रादिसुद्रद्वारैः क०, घ० । २ विभ्रार्कदिनेष्वपि (?) ल० । ३ तत्तेऽन्योन्यमुस्खावहाः क०, घ०, म० । धत्तेऽन्योन्यमुस्खावहाः ग० । सुखावहं ख० । ४ निर्जन्तुः ल० । ५ ततानम्र-ल० ।

निष्पन्नसारवस्तूनां निःशेषाणां निजोद्भव-। स्थानेष्वनुपभोग्यत्वात्तदेवायान्ति सर्वतः ॥ ३७७ ॥  
 तत्रस्थैरेव भुज्यन्ते तानि दानेन चेद्बहिः । निर्यान्ति यान्तु तत्तादृक् त्यागिभोगिजनैश्चितम् ॥ ३७८ ॥  
 तत्र तादात्मिकाः सर्वे तन्न दांपाय कल्पते । तत्पण्यात् सर्ववस्तूनि वर्द्धन्ते प्रत्यहं यतः ॥ ३७९ ॥  
 ब्रह्मस्थानोसारे भागे भुवोऽभूद्राजमन्दिरम् । महामेरुनिभं भास्वद्भद्रशालादिभूषितम् ॥ ३८० ॥  
 यथास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिरम् । उद्धृनि वो ज्वलद्भ्रम्यहर्ष्याण्यन्यानि वा बभुः ॥ ३८१ ॥  
 तद्राजधानीनाथस्य काश्यपान्वयभास्वतः । भूपस्याजितसेनस्य चित्तनेत्रप्रियप्रदा ॥ ३८२ ॥  
 १ बालचन्द्रादिषु स्वप्नदर्शिनी प्रियदर्शना । ब्रह्मकल्पच्युतं सूनुं विश्वसेनमजीजनत् ॥ ३८३ ॥  
 गन्धारविषयख्यात २ गन्धारनगरे शिनः । अजितञ्जयभूमर्तुरजितायां सुता गता ॥ ३८४ ॥  
 सनत्कुमारादैराख्या विश्वसेनप्रियाऽभवत् । श्रीह्रीष्टत्यादिसंसेव्या नभस्ये कृष्ण<sup>३</sup>सप्तमी ॥ ३८५ ॥  
 दिने भरणिनक्षत्रे यामिनीतुर्यभागगा । स्वमान् पांडश साऽऽक्षाक्षीत्साक्षात्पुत्र<sup>४</sup>फलप्रदान् ॥ ३८६ ॥  
 दरनिद्रासमुद्भूतबोधा शुद्धसुवासना । तदनन्तरमैक्षिष्ट प्रविष्टं वदनं<sup>५</sup> गजम् ॥ ३८७ ॥  
 तदैवासौ द्विवो देवस्तनो मेघरथाभिधः । तस्यागवतरद् गर्भं शुक्तौ<sup>६</sup> मुक्ताद्विन्दुवत् ॥ ३८८ ॥  
 तदैव यामभेरी च तत्स्वप्नशुभसूचिनी । जजृम्भे मधुरं मुक्तां बोधयन्तीव सुन्दरीम् ॥ ३८९ ॥  
 पद्मिनीव तदाकर्ण्य विकसन्मुखपङ्कजा । शय्यागृहात्समुत्थाय कृतमङ्गलमज्जना ॥ ३९० ॥

वनोसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था ॥ ३७६ ॥ संसारमें जितनी श्रेष्ठ वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं उन सबका अपनी उपनिन्दके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सब जगहकी श्रेष्ठ वस्तुएँ उसी नगरमें आती थीं और वहाँके रहनेवाले ही उनका उपभोग करते थे । यदि कोई पदार्थ वहाँसे बाहर जाते थे तो दानसे ही बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगर पूर्वोक्त त्यागी तथा भोगी जनोसे व्याप्त था ॥ ३७७-३७८ ॥ उस नगरके सब लोग तादात्मिक थे—मिर्फ वर्तमानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खर्च कर देते थे । उनकी यह प्रवृत्ति दांपादायक नहीं थी क्योंकि उनके पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं ॥ ३७९ ॥ उस नगरमें ब्रह्मस्थानके उत्तरी भूभागमें राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल—उत्तमकोट आदिसे विभूषित था और भद्रशाल आदि वनोसे सुशोभित महामरुके समान जान पड़ता था ॥ ३८० ॥ उस राजमन्दिरके चारों ओर यथायोग्य स्थानों पर जो अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए थे वे मरुके चारों ओर स्थित नक्षत्रोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ३८१ ॥ उस हास्तिनापुर राजधानीमें काश्यपगोत्री देदीप्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे । उनके चित्त तथा नेत्रोंका आनन्द देनीवाली प्रियदर्शना नामकी स्त्री थी । उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर ब्रह्मस्वर्गसे च्युत हुए विश्वसेन नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥ ३८२-३८३ ॥ गन्धार देशके गान्धार नगरके राजा अजितञ्जयके उनकी अजिता रानीसे सनत्कुमार स्वर्गसे आकर ऐरा नामकी पुत्री हुई थी और यही ऐरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हुई थी । श्री ह्री धृति आदि देवियों उसकी सेवा करती थीं । भादों वदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें रात्रिके चतुर्थ भागमें उसने साक्षान् पुत्र रूप फलको देनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ ३८४-३८६ ॥ अल्पनिद्राके बीच जिसे कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखसे शुद्ध सुगन्धि प्रकट हो रही है ऐसी रानी ऐराने सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥ ३८७ ॥ उसी समय मेघरथका जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानी ऐराके गर्भमें आकर उस तरह अवतीर्ण हो गया जिस तरह कि शुक्तिमें मोती रूप परिणमन करनेवाली पानीकी बूँद अवतीर्ण होती है ॥ ३८८ ॥ उसी समय सोती हुई सुन्दरीको जगानेके लिए ही माना उसके शुभ स्वप्नोंको सूचित करनेवाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी ॥ ३८९ ॥ उस भेरीको सुनकर रानी ऐराका मुख-कमल, कमलिनीके समान खिल उठा । उसने शय्यागृहसे उठकर मङ्गल-ज्ञान किया,

१ बाला चन्द्रादि—ल० । २ गन्धार क०, ग०, म०, ल० । ३ सप्तमे ल० । ४ साक्षात्सत्य—ल०, ल०, ग०, म० । ५ वदने ल० । ६ स्वातौ ल० ।



तत्कालोचितनेपथ्या कल्पवल्लीव जङ्गमा । सितातपत्रवित्रासिताकंबालांशुमालिका ॥ ३९१ ॥  
 प्रकीर्णकपरिक्षेपप्रपञ्चितमहोदया । जनैः कतिपर्यैरेव प्रत्यासन्नैः परिष्कृता ॥ ३९२ ॥  
 साऽविशङ्कन्द्रेखाभा सभार्मिव विभावरीम् । कृतोपचारविनयां <sup>१</sup>तामार्द्धासनमापयत् ॥ ३९३ ॥  
 नृपं साभिनिवेद्यान्मदृष्ट<sup>२</sup>स्वप्नावलीं क्रमात् । तत्फलान्यप्यबोधित् राज्ञः सावधिलोचनात् ॥ ३९४ ॥  
 स्वर्गात्तदेव देवेन्द्राः सह देवैश्चतुर्विधैः । स्वर्गावतारकल्याणं सम्प्राप्य ससुपादयन् ॥ ३९५ ॥  
 त्रिविष्टपेश्वरे गर्भे वर्द्धमाने<sup>३</sup> महोदयैः । अभ्येत्य नवमं मासं माता त्रिजगदीशितुः ॥ ३९६ ॥  
 मासान् पञ्चदश प्रास्तरत्नवृष्ट्याऽमरार्चना । शुचौ कृष्णचतुर्दश्यां याम्यथंगे निशात्यये ॥ ३९७ ॥  
 नन्दनं जगदीनन्दसन्दोहमिष सुन्दरम् । असृतामलसद्वाधत्रितयोज्ज्वललोचनम् ॥ ३९८ ॥  
 शङ्खभेरीगजारातिघण्टारावावबोधिताः । जैन<sup>४</sup> जन्मोत्सवं देवाः सम्भूय समवर्द्धयन् ॥ ३९९ ॥  
 तदा शची महादेवी प्रद्योतितदिगन्तरा । गर्भगंहं प्रविश्योच्चैर्मायानिद्रावशीकृताम् ॥ ४०० ॥  
 जिनेन्द्रजननीमैरां कुमारसहितां <sup>५</sup>सतीम् । <sup>६</sup>परीत्य प्रप्रणम्याचर्यां मायाविष्कृतबालका ॥ ४०१ ॥  
 त्रिलोकमातुः पुरतो निवेश्य परमेश्वरम् । कुमारवरमादाय विश्वामरनमस्कृतम् ॥ ४०२ ॥  
 मृदुबाहुयुगाञ्जीत्वा स्वपतेरकरोत्करे । ऐरावतगजस्कन्धमारोप्य मरुतां पतिः ॥ ४०३ ॥  
 पुरेव पुरुदेवं तं सुराद्रैर्मस्तकापितम् । अभिषिच्यारुबुभिः क्षीरमहासागरोनिधिसम्भवैः ॥ ४०४ ॥

उस समयके योग्य वस्त्राभूषण पहने और चलती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान किया । उस समय वह अपने ऊपर लगाये हुए मफेद छत्रसे बालसूर्यकी किरणोंके समूहको भयभीत कर रही थी, दुरते हुए चमरासे अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी, और पासमें रहनेवाले कुछ लोगोंमें सहित थी । जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाकी रेखा प्रवेश करती है उसी प्रकार उसने राजसभामें प्रवेश किया । औपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना आधा आसन दिया ॥ ३९०-३९३ ॥ उसने अपने द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम-क्रमसे राजाको सुनाई और अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे उनका फल माग्यु किया ॥ ३९४ ॥ उसी समय चतुर्णिकायके देवोंके साथ स्वर्गसे इन्द्र आये और आकर गर्भावतारकल्याणक करने लगे ॥ ३९५ ॥ उधर रानीके गर्भमें इन्द्र बड़े अभ्युदयके साथ बढ़ने लगा और इधर त्रिलोकीनाथकी माता रानी पन्द्रह माह तक देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त करती रही । जब नवाँ माह आया तब उसने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन याम्ययोगमें प्रातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया । वह पुत्र ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दका समूह ही हो । साथ ही अत्यन्त निर्मल मति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन उज्ज्वल नेत्रोंका धारक भी था ॥ ३९६-३९८ ॥ शङ्खनाद, भेरीनाद, सिंहनाद और घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्मकी सूचना दी गई है ऐसे चारों निकायोंके देवोंने मिल कर जिनेन्द्र भगवान्का जन्मोत्सव बढ़ाया ॥ ३९९ ॥ उस समय दिशाओंके मध्यको प्रकाशित करनेवाली महादेवी इन्द्राणीने गर्भ-गृहमें प्रवेश किया और कुमारसहित पतिव्रता जिनमाता ऐराको मायामयी निद्राने वशीभूत कर दिया । उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया और एक मायामयी बालक उसके सामने रख कर जिन्हें सर्वदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रेष्ठ कुमार जिन-बालकको उठा लिया तथा अपनी दोनों कोमल भुजाओंसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमें सौंप दिया । इन्द्रने उन्हें ऐरावत हाथीके कन्धे पर विराजमान किया और पहले जिस प्रकार भगवान् आदिनाथको सुमेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका अभिषेक किया था इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका अभिषेक

१ वामार्धासन-ल० । २ दृष्टां स्वप्नावलीं ग०, ख०, म०, ल० । ३ वर्द्धमानमहोदयैः क०, घ० ।

४ जैनजन्मोत्सवं क०, घ०, ख० । जिनजन्मोत्सवं ग० । ५ शची ल०, म०, क०, घ० । ६ परीत्य त्रिः प्रणम्यान्वं मायाविष्कृतबालकम् ल० ।

प्रसाधनविशेषाणामपि चैकं प्रसाधनम् । आचारपालनायैव भूषयित्वा विभूषणैः ॥ ४०५ ॥  
 १ सर्वशान्तिप्रदो देवः शान्तिरित्यस्तु नामभाक् । इति तस्याभिषेकान्ते नामासौ निरवर्तयत् ॥ ४०६ ॥  
 प्रीत्या सुरवरैः सार्द्धं मन्दरादेत्य मन्दिरम् । जनन्याः सर्वमावेद्य जगदीशं समर्पयत् ॥ ४०७ ॥  
 अनृत्यञ्चोदितानन्दो १ बहुभावरसोदयः । सम्मदश्चेदमर्यादः सरागं कं न नर्तयेत् ॥ ४०८ ॥  
 लोकपालांखिलोकानां पालकस्य महात्मनः । बालकस्यास्य कल्पेशः पालकान्पर्यकल्पयत् ॥ ४०९ ॥  
 इति द्वितीयकल्याणसाकल्यसमनन्तरम् । सशक्राः सर्वगीर्वाणाः स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४१० ॥  
 षण्णुविभक्तपल्योपमश्र्यशोनत्रिसागरे । धर्मतीर्थस्य सन्ताने पल्यतुर्यांशोषिते ॥ ४११ ॥  
 व्युच्छिन्ने युक्तिसन्मार्गे तदभ्यन्तरजीवितः । शान्तिः समुदपाद्यानमन्नरामरनायकः ॥ ४१२ ॥  
 लक्षासमायुश्चत्वारिंशच्चत्वारः सुवर्णरुक् । ध्वजतोरणसूर्येन्दुशङ्खचक्रादिलक्षणः ॥ ४१३ ॥  
 पुण्याद् दृढरथो दीर्घमनुभूयाहमिन्द्रताम्र । विश्वसेनाद्यशस्वत्यां सुतश्चक्रायुधोऽभवत् ॥ ४१४ ॥  
 महामणिरिवाम्भोधौ गुणानां वा गणो मुनी । तत्र शान्तिरगाद् वृद्धिं ३ प्रमदो वोदितोदिते ॥ ४१५ ॥  
 वर्द्धन्ते स्म गुणास्तस्मिन् स्पर्द्धेनावयवैः क्रमात् । ४ यथा विधाय सौन्दर्यं कीर्तिर्लक्ष्मीः सरस्वती ॥ ४१६ ॥  
 अभात्तस्यात्तसौन्दर्यं रूपमापूर्णयौवने । विधोर्विभूतवैकल्यमिव पर्वणि मण्डलम् ॥ ४१७ ॥  
 मृद्वस्तनवः स्निग्धाः कृष्णाः केशाः ५ सुकुञ्चिताः । प्राञ्चिताश्चञ्चरीकाभाः शुभास्तनमस्तकस्थिताः ॥ ४१८ ॥  
 शिरो विराजते तस्य शिखरं वा मरुम्मरोः । ललाटान्पट्टभाजोऽस्माद्दहमेवोपरीति वा ॥ ४१९ ॥

किया ॥ ३६६-४०४ ॥ यद्यपि भगवान् स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोंमेंसे एक आभूषण थे तथापि इन्द्रने केवल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हें आभूषणोंसे विभूषित किया था ॥ ४०५ ॥ 'ये भगवान् सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए 'शान्ति' इस नामको प्राप्त हों' ऐसा सोच कर इन्द्रने अभिषेकके बाद उनका शान्तिनाथ नाम रक्खा ॥ ४०६ ॥ तदनन्तर धर्मेन्द्र भव देवोंके साथ बड़े प्रेमसे सुमेरु पर्वतसे राजमन्दिर आया और मानासे सब समाचार कह कर उसने वे त्रिलोकीनाथ मानाका सौप दिये ॥ ४०७ ॥ जिसे आनन्द प्रकट हो रहा है तथा जिसके अनेक भायों और रसोंका उदय हुआ है ऐसे इन्द्रने नृत्य किया सो ठीक ही है क्योंकि जब हर्ष मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यका नहीं नचा देता ? ॥ ४०८ ॥ यद्यपि भगवान् तीन लोकके रक्षक थे तो भी इन्द्रने उन बालक रूपधारी महात्माकी रक्षा करनेके लिए लोकपालोंको नियुक्त किया था ॥ ४०९ ॥ इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ४१० ॥ धर्मनाथ तीर्थकरके बाद पाँच पल्य कम तीन सागर वीत जाने तथा पाच पल्य तक धर्मका विच्छेद हो लेनेपर जिन्हें मनुष्य और इन्द्र नमस्कार करते हैं ऐसे शान्तिनाथ भगवान् उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी ॥ ४११-४१२ ॥ उनकी एक लाख वर्षकी आयु थी, चालीस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान काग्नित थी, ध्वजा, तोरण, सूर्य, चन्द्र, शङ्ख और चक्र आदिके चिह्न उनके शरीरमें थे ॥ ४१३ ॥ पुण्यकर्मके उदयसे दृढरथ भी दीर्घकाल तक अहमिन्द्र-पनेका अनुभवकर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥ ४१४ ॥ जिस प्रकार समुद्रमें महामणि बढ़ता है, मुनिमें गुणोंका समूह बढ़ता है और प्रकट हुए अभ्युदयमें हर्ष बढ़ता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ बढ़ रहे थे ॥ ४१५ ॥ उनमें अनेक गुण, अवयवोंके साथ स्पर्धा करके ही मानो क्रम-क्रमसे बढ़ रहे थे और कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थीं मानो सगी बहिन ही हों ॥ ४१६ ॥ जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता-खण्डावस्थासे रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त होनेपर उनका रूप सौन्दर्य प्राप्तकर अधिक सुशोभित हो रहा था ॥ ४१७ ॥ उनके मस्तकपर इकट्ठे हुए भ्रमरोंके समान, कोमल पतले, चिकने, काले और घूँघरवाले शुभ बाल बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ४१८ ॥ उनका शिर

१ अथ शान्ति म०, ल० । २ चोदितानन्दो ल० । ३ प्रमदो ल० । ४ यथा विधाय क०, ख०, ग०, घ०, म०, । ५ सुकुञ्चिताः ग०, म०, ल०, ।

लक्ष्मीललाटपट्टेऽस्मिन्स्तस्य पट्टद्वयाचिता । राजतामिति वा तुङ्गं विस्तीर्णं च व्यधाद्विधिः ॥ ४२० ॥  
 सुरूपे कुटिले चास्य भ्रुवौ वेदयेव रेजतुः । कुटिलेति न रेखा किं पीयूषांशोत्रिराजते ॥ ४२१ ॥  
 आधिक्यं चक्षुषोः प्राहुः शुभावयवचिन्तका । वीक्ष्य तच्चक्षुषी व्यक्तमितीयसनयोः स्तुतिः ॥ ४२२ ॥  
 कर्णौ तस्य न वर्ण्येते निःश्लेषश्रुतपात्रनाम् । यातौ चेद् दुर्लभं तत्तु शोभान्यत्रापि विद्यते ॥ ४२३ ॥  
 अर्धं विनिजिताशेषं मोहमल्लं विजेत्यते । भास्वत्रैवेति वा तुङ्गा सङ्गता नासिका कृता ॥ ४२४ ॥  
 कपोलफलकौ श्लक्ष्णौ धात्रा वा विपुलौ कृतौ । तद्वक्त्रजसरस्वत्या विनादेन विलेखितुम् ॥ ४२५ ॥  
 स्मितभेदाः सरस्वत्याः किं किं शुद्धाक्षरावलिः । शङ्कामिति सिताः स्निग्धाः घनास्तेनुद्विजाः समाः ४२६ ॥  
 वटविम्बप्रवालादि परेषां भवतूपमा । नास्याधरस्य तनायं स्मर्यते नाधरोऽधरः ॥ ४२७ ॥  
 भवेच्चिबुकमन्येषां भाविशमश्रुकिमप्यदः । सदा हृदयमिदं भात्रादित्यकारीव शोभनम् ॥ ४२८ ॥  
 क्षयी कलङ्की पङ्कोत्थं रजसा दूषितं ततः । नैतद्वक्त्रस्थं साधर्म्यं धत्ताः स्मेन्दुसरोरुहे ॥ ४२९ ॥  
 ध्वनिश्चेन्निरगतस्तस्माद्दिव्यो विश्वार्थदर्पणः । पृथक् सुकण्ठता तस्य कण्ठस्य किमु वर्ण्यते ॥ ४३० ॥  
 स्पर्द्धमानभुजाग्राभ्यां तौङ्ग्येन शिरसा समम् । त्रिकूटहाटकाद्रिर्वा सोऽभास्त्रिभुवनप्रभुः ॥ ४३१ ॥  
 वाहू बहुतरं तस्य भातः स्माजानुलम्बिनौ<sup>१</sup> । धात्रीं सन्धर्तुकामौ वा केयूराद्विभूषणौ ॥ ४३२ ॥  
 व्यधायि वेधसा तस्य विस्तीर्णं वक्षसः स्थलम् । असम्बार्धं वसन्त्वस्मिन्निति वा बहवः श्रियः ॥ ४३३ ॥

मरुपर्वतके शिखरके समान मुशोभित होता था अथवा इस विचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि यद्यपि इनका ललाट राज्यपट्टको प्राप्त होगा परन्तु उसमे ऊँचा तो मैं ही हूँ ॥ ४२६ ॥ उनके इस ललाटपट्टपर धर्मपट्ट और राज्यपट्ट दोनोंमे पूजित लक्ष्मी मुशोभित होगी इस विचारसे ही मानो विधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चौड़ा बनाया था ॥ ४२० ॥ उनकी मुन्द्र तथा कुटिल भौहें वेदयाके समान मुशोभित हो रही थीं । 'कुटिल' है इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा मुशोभित नहीं होती अर्थात् अवश्य होती है ॥ ४२१ ॥ शुभ अवयवोंका विचार करनेवाले लोग नेत्रोंकी दीर्घताको अच्छा कहते हैं सो मालूम पड़ता है कि भगवानके नेत्र देवदेव ही उन्होंने ऐसा विचार स्थिर किया होगा । यही उनके नेत्रोंकी स्तुति है ॥ ४२२ ॥ यदि उनके कान समस्त शास्त्रोंकी पात्रताको प्राप्त थे तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यहाँ एक बात दुर्लभ है । शोभा तो दूसरी जगह भी हो सकती है ॥ ४२३ ॥ 'ये भगवान्, सबको जीतनेवाले मोहरूपी मद्धका जीतेंगे इसलिए ऊँची नाक इन्होंने शोभा दे सकेगी' ऐसा विचारकर ही मानो विधाताने उनकी नाक कुछ ऊँची बनाई थी ॥ ४२४ ॥ उनके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती यिनोदसे कुछ लिंगेगी यह विचार कर ही मानो विधाताने उनके कपोलरूपी पट्टिये चिकने और चौड़े बनाये थे ॥ ४२५ ॥ उनके सफेद चिकने सघन और एक बराबर दांत यही शङ्का उत्पन्न करते थे कि क्या ये सरस्वतीके मन्द हास्यके भेद हैं अथवा क्या शुद्ध अक्षरोंकी पंक्ति ही हैं ॥ ४२६ ॥ वरगदका पका फल, विम्बफल और मूंगा आदि दूसरोंके आंठोंकी उपमा भले ही हो जायें परन्तु उनके आंठकी उपमा नहीं हो सकते इसीलिए इनका अधर—आंठ अधर—नीच नहीं कहलाता था ॥ ४२७ ॥ अन्य लोगोंका चिबुक तो आगे होने वाली डार्डीसे ढक जाता है परन्तु इनका चिबुक सदा दिग्वाई देना था इसमे जान पड़ता है कि वह केवल शोभाके लिए ही बनाया गया था ॥ ४२८ ॥ चन्द्रमा क्षयी है तथा कलङ्कमे युक्त है और कमल कीचड़से उत्पन्न है तथा रजसे दूषित है इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सदृशता नहीं धारण कर सकते ॥ ४२९ ॥ यदि उनके कण्ठसे दर्पणके समान सब पदार्थोंका प्रकट करने वाली दिव्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ? ॥ ४३० ॥ वे त्रिलोकीनाथ ऊँचाईके द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दांतों कन्धोंमे ऐसे मुशोभित होते थे मानो तीन शिखरोंवाला मुखर्णगिरि ही हो ॥ ४३१ ॥ घुटनों तक लम्बी एवं केयूर आदि आभूषणोंसे विभूषित उनकी दोनों भुजाएँ बहुत ही अधिक मुशोभित हो रही थीं और ऐसा जान पड़ती थीं मानो पृथिवीको उठाना ही चाहती हों ॥ ४३२ ॥ बहुत-सी लक्ष्मियाँ

भ्यासमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो व्यधाघाराम् । मध्वीकृतार्कसन्ध्याभ्रहेमाद्रितटसन्निभम् ॥ ४३४ ॥  
 तन्मध्यं मुष्टिसम्मायि विभर्त्यूर्ध्वतनोर्भरम् । गुरुं निराकुलं तस्य तानवं तेन शोभते ॥ ४३५ ॥  
 गम्भीरा दक्षिणावता तस्याभ्युदयसूचिनी । नाभिः सपद्मा मध्यस्था स्यात्पदं न स्तुतेः कुतः ॥ ४३६ ॥  
 कटीतटी कटीसूत्रधारिणी हारिणी भृशम् । सवेदिकास्थली वास्य जम्बूद्वीपस्य भासते ॥ ४३७ ॥  
 वृते श्लक्ष्णे सुखस्पर्शे स्तां रम्भास्तम्भसन्निभे । किन्त्वस्योरू सदादत्तफले गुरुभरक्षमे ॥ ४३८ ॥  
 मर्यादाकारि यद्यस्मात्तदेतस्योरुजङ्घयोः । शस्यं जानुद्वयं सद्भिः सत्किं चिन्न शस्यते ॥ ४३९ ॥  
 नमिताशेषदेवेन्द्रौ पादपद्मौ श्रिया श्रितौ । तयोरुपरि चेज्जङ्घे तस्य का वर्णना परा ॥ ४४० ॥  
 गुल्फयोरिव मन्त्रस्य गूढतेव गुणोऽभवत् । फलदा सा ततः सर्वं फलकृत्वाद् गुणि स्मृतम् ॥ ४४१ ॥  
 कूर्मपृष्ठौ क्रमौ तस्य श्रित्वा तौ सुस्थिता धरा । घृता कूर्मेण धात्रीति ध्रुवं रुढिस्ततोऽभवत् ॥ ४४२ ॥  
 पीनावग्रोन्नतौ सुस्थौ तस्यांगुष्ठौ सुवाकरौ । रेजनुदर्शयन्तौ वा मार्गं स्वगापवर्गायोः ॥ ४४३ ॥  
 अष्टावंगुलयस्तस्य वसुः श्लिष्टाः परस्परम् । कर्माण्यष्टावपह्लोतुं निर्गता एव शक्तयः ॥ ४४४ ॥  
 दशधर्माः पुरैवैनं तद्व्याजनेव सेवितुम् । क्रमौ समाश्रितास्तस्य व्यराजन्त नखाः सुखाः ॥ ४४५ ॥  
 अस्यावयवभावात्ते वासवाद्या नमन्ति नौ । इतीव रागिणौ तस्य पादौ पल्लवसन्निभौ ॥ ४४६ ॥

एक दूसरेकी बाधाके बिना ही इसमें निवास कर सकें यह सोचकर ही मानो विधाताने उनका वक्षः-स्थल बहुत चौड़ा बनाया था ॥ ४३३ ॥ जिसके मध्यमें मणियोंकी कान्तिमें मुशोभित हार पड़ा हुआ है ऐसा उनका वक्षःस्थल, जिमके मध्यमें मंथ्याके लाल लाल बादल पड़े रहें हैं ऐसे हिमाचलके तटके समान जान पड़ता था ॥ ४३४ ॥ मुट्टीमें समानके योग्य उनका मध्यभाग चूँकि उपरिवर्ती शरीरके बहुत भारी बोझको बिना किमी आकुलताके धारण करना था अतः उसका पतलापन ठीक ही शोभा देता था ॥ ४३५ ॥ उनकी नाभि चूँकि गम्भीर थी, दक्षिणावर्तसे सहित थी । अभ्युदय, को सूचित करने वाली थी, पद्मचिह्नमें सहित थी और मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका स्थान—प्रशंसाका पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ॥ ४३६ ॥ करधनीको धारण करनेवाली उनकी सुन्दर कमर बहुत ही अधिक मुशोभित होती थी और जम्बूद्वीपकी वेदीमहिन जगतीके समान जान पड़ती थी ॥ ४३७ ॥ उनके ऊरुकेके स्तम्भके समान गोल, चिकने तथा स्पर्श करने पर सुख देने वाले थे अन्तरकेवल इतना था कि केलेके स्तम्भ एक बार फल देते हैं परन्तु वे बारबार फल देते थे और केलेके स्तम्भ बोझ धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं परन्तु वे बहुत भारी बोझ धारण करनेमें समर्थ थे ॥ ४३८ ॥ चूँकि उनके घुटनोंमें ऊरु और जंघा दोनोंके बीच मर्यादा कर दी थी—दोनोंकी सीमा बांध दी थी इसलिए वे सत्पुराणोंके द्वारा प्रशंसनीय थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे ? अवश्य की जावे ॥ ४३९ ॥ उनके चरणकमल समस्त इन्द्रोंको नमस्कार करते थे तथा लक्ष्मी उनकी सेवा करती थी । जय उनके चरणकमलोंका यह हाल था तब जह्वाँ तो उनके ऊपर थी इसलिए उनका और वर्णन क्या किया जाय ? ॥ ४४० ॥ जिस प्रकार मन्त्रमें गूढ़ता गुण रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों—एड़ीके ऊपरकी गांठोंमें गूढ़ता गुण रहता था परन्तु उनकी यह गुणता फल देने वाली थी सो ठीक ही है क्योंकि सभी पदार्थ फलदायी होनेसे ही गुणी कहलाते हैं ॥ ४४१ ॥ उनके दोनों चरणोंका पृष्ठभाग कञ्चुएके समान था और यह पृथिवी उन्हींका आश्रय पा कर निराकुल थी । जान पड़ता है कि 'पृथिवी कञ्चुएके द्वारा धारण की गई है, यह रूढि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥ ४४२ ॥ उनके दोनों अंगुठे स्थूल थे, आगेको उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखकी खान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा मोक्षका मार्ग ही दिखला रहे हों ॥ ४४३ ॥ परस्परमें एक दूसरेसे सटी हुई उनकी आठों अंगुलियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो आठों कर्मोंका अपह्व करानेके लिए आठ शक्तियाँ ही प्रकट हुई हों ॥ ४४४ ॥ उनके चरणोंका आश्रय लेनेवाले सुखकारी दश नख ऐसे मुशोभित होते थे मानो उन नखोंके बहाने उत्तम क्षमा आदि दशधर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों ॥ ४४५ ॥ हम भगवान्के शरीरके अवयव हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव हम दोनोंको नमस्कार

नामृतांशोनिशासङ्गादुष्णत्वाद्भास्करस्य च । तेजस्तस्योपमानं स्याद् १ भूषणक्षमाजतेजसः ॥ ४४७ ॥  
 कान्तेः का वर्णना तस्य यदि शक्रः सहस्रदक् । शचीवदनपङ्केजविमुखस्तं निरीक्षते ॥ ४४८ ॥  
 भूषणानां कुलं लेभे शोभां तस्याङ्गसङ्गमात् । महामणिनिबद्धेऽसुधौतकलधौतवत् ॥ ४४९ ॥  
 स्वनामश्रुतिसंशुष्यन्मदारिकरिसंहतेः । रवोऽराजत राजेशो राजकण्ठीरवस्य वा ॥ ४५० ॥  
 कीर्तिवह्नी जगत्प्रान्तं प्राप्य प्रागेव जन्मनः । तदीयालम्बनाभावादिच तावति सुस्थिता ॥ ४५१ ॥  
 कुलरूपवयःशीलकलाकान्त्यादिभूषणाः । कन्यकास्तत्पिता तेनायोजयद्गनिदायिनीः ॥ ४५२ ॥  
 कामिनीनीलनीरेजदलोज्ज्वलविलोचनैः । प्रेमामृतास्तुसंसिक्तैर्मुहुराह्लादिताशयः ॥ ४५३ ॥  
 वल्लभावलितालोलीलालसविलोकनैः । स्वमनोधनलुण्टाकैरखण्डं स शमेयिवान् २ ॥ ४५४ ॥  
 ३ पञ्चवर्गसहस्राब्दकाले गतवर्तीशितुः । कौमारेण सुवैरेव दिव्यमानुषगोचरं ॥ ४५५ ॥  
 ततोऽनु तत्प्रमाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येऽप्यच्छिन्नभोगस्य काले विगलिते तदा ॥ ४५६ ॥  
 साम्राज्यसन्धनान्यस्य चक्रादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽभूवन्नव चाविष्कृतौजसः ॥ ४५७ ॥  
 तेषु चक्रातपत्रासिदण्डाः शस्त्रगृहेऽभवन् । काकिणी चर्मचूलादिमणिश्च श्रीनिकेतने ॥ ४५८ ॥  
 पुरोधः स्थपतिः सेनापतिर्गृहपतिश्च ते । हास्तिनाख्यपुरे कन्यामजाश्वः खगभूधरे ॥ ४५९ ॥  
 नवापि निधयः पूज्या नदीसागरसङ्गमे । तदानीमेव देवेशैरानीताः पुण्यचोदितैः ॥ ४६० ॥  
 हृत्याधिपत्यमासाद्य दशभोगाङ्गसङ्गतः । तावत्येव गते काले स्वालङ्कारालयान्तरे ॥ ४६१ ॥

करते हैं यह मोचकर ही मानो नवीन पत्तों के समान उनके दोनों पैर रागी—रागसहित अथवा लालरंगके हो रहे थे ॥ ४४६ ॥ चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है और सूर्य उष्ण है अतः ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नहीं हो सकते । हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज भूषणांग जातिके कल्पवृक्षके तेजके समान था ॥ ४४७ ॥ जब कि हजार नेत्रवाला इन्द्र इन्द्राणीके मुखकमलसे विमुख होकर उनकी ओर देखना रहता है तब उनकी कान्तिका क्या वर्णन किया जावे ? ॥ ४४८ ॥ जिस प्रकार महामणियोंसे निबद्ध देदीप्यमान उज्वल सुवर्ण मुशोभित होता है उसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे आभूषणोंका समूह मुशोभित होता था ॥ ४४९ ॥ अपने नामके सुनने मात्रसे ही जिन्होंने शत्रुस्वी दायियोंके समूहका मद सुखा दिया है ऐसे राजाधिराज भगवान् शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दके समान मुशोभित होता था ॥ ४५० ॥ उनकी कीर्तिरूपी लता जन्मसे पहले ही लोकके अन्त तक पहुँच चुकी थी परन्तु उसके आगे आलम्बन न मिलने से वह वहीं पर स्थित रह गई ॥ ४५१ ॥ उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे विभूषित मुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था—अनेक कन्याओंके साथ उनका विवाह कराया था ॥ ४५२ ॥ प्रेमामृतरूपी जलसे सींचे हुए स्त्रियोंके नीलकमलदलके समान नेत्रोंसे वे अपना हृदय वार-वार प्रसन्न करते थे ॥ ४५३ ॥ अपने मनरूपी धनको लूटनेवाली स्त्रियोंकी तिरछी चञ्चल लीलापूर्वक और आलसभरी चिन्तनासे वे पूर्ण सुखको प्राप्त होते थे ॥ ४५४ ॥ इस तरह देव और मनुष्योंके सुख भोगते हुए भगवान्के जब कुमारकालके पच्चीस हजार वर्ष बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया । क्रम-क्रमसे अखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पच्चीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तब तेजको प्रकट करनेवाले भगवान्के साम्राज्यके साधन चक्र आदि चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई ॥ ४५५—४५७ ॥ उन चौदह रत्नोंमेंसे चक्र, द्धत्र, तलवार और दण्ड, ये आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे, काकिणी, चर्म और चूड़ामणि श्रीगृहमें प्रकट हुए थे, पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति हस्तिनापुरमें मिले थे और कन्या गज तथा अश्व विजयार्थ पर्वत पर प्राप्त हुए थे ॥ ४५८—४५९ ॥ पूजनीय नौ निधियाँ भी पुण्यसे प्रेरित हुए इन्द्रोंके द्वारा नदी और सागरके समागम पर लाकर दी गई थी ॥ ४६० ॥ इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए जब

अलङ्कुर्वन्निजच्छायाद्वयमालोक्य दर्पणे । साश्र्वर्यं चिन्तयन्नेतत्किमित्यन्तर्गतं कृती ॥ ४६२ ॥  
 लब्धबोधिमितिज्ञानक्षयोपशमसम्पदा । स्वजन्मान्तर<sup>१</sup>सन्तानं स्मृत्वा निर्वेदमाप्तवान् ॥ ४६३ ॥  
 धनच्छायासमाः, मूर्धसम्पदः सशराहनि- । विद्युदुदद्युतिचल्लक्ष्मीः कायां मायामयोऽपि वा ॥ ४६४ ॥  
 प्रातःछायायुरात्मीयाः परकीया वियांगवन् । संयोगो हानिवद्वृद्धिर्जन्मेदं पूर्वजन्मवन् ॥ ४६५ ॥  
 इति चेतसि सगपश्यन् सर्वमेतन्महीपतिः । निर्गन्तुमुद्ययौ गेहाद् दूरं कृतदुराशयः ॥ ४६६ ॥  
 तदा लौकान्तिकाः प्राप्य धर्मतीर्थस्य वर्द्धने । कालोऽयं तव देवस्य चिरविच्छिन्नसन्ततेः ॥ ४६७ ॥  
 इत्यवोचन्वचस्तेपामनुमत्य महामतिः । नारायणाय तद्राज्यं सूनुवेऽश्राणयन्मुदा ॥ ४६८ ॥  
 ततः सुरगणाधीशविहिताभिषवोत्सवः । युक्तिमद्वचनैर्बन्धून् मोचयित्वाप्रणाः सताम् ॥ ४६९ ॥  
 सर्वार्थसिद्धिं शिविकामारुह्य स मरुद्वृतम् । सहस्राश्रवणं प्राप्य कमनीयशिलातले ॥ ४७० ॥  
 कुबेरदिङ्मुखो बद्धपल्लवकासनसुस्थितः । ज्येष्ठ्ये मास्यसिते पक्षे चतुर्दशपराह्वके ॥ ४७१ ॥  
 ऋक्षे पद्योपवासेन भरण्यां प्रणिधानवान्<sup>३</sup> । कृतसिद्धनमस्कारस्यक्तवस्त्राद्युपच्छदः ॥ ४७२ ॥  
 पञ्चमुष्टिभिरल्लुञ्च्य केशान् क्लेशानिवायतान् । जातरूपं हसन् दीप्या जातरूपमवाप्य सः ॥ ४७३ ॥  
 सद्यः सामयिकीं शुद्धिं समनःपर्यामगात् । केशांस्तदैव देवेशो ज्वलन्पटलकाश्रितान् ॥ ४७४ ॥  
 यथा बहुगुणीभूतानामोदमिलितालिभिः । पञ्चमाब्धितरङ्गाणां<sup>४</sup> परभागो व्यधात्तराम् ॥ ४७५ ॥  
 चक्रायुधादि तद्राज्ञां सहस्रं सह संयमम् । शान्तिनाथेन सम्प्रापदापदामन्तकारिणा ॥ ४७६ ॥

उनके पच्चीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तब एक दिन वे अपने अलंकार-गृहके भीतर अलंकार धारण कर रहे थे उसी समय उन्हें दर्पणमें अपने दो प्रतिबिम्ब दिग्गे । वे बुद्धिमान भगवान् आश्र्वर्यके साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ? ॥ ४६१-४६२ ॥ उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और मनिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप सम्पदासे वे पूर्व जन्मकी सब बातें जान कर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥ ४६३ ॥ वे विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ मेघोंकी छायाके समान हैं, लक्ष्मी इन्द्रधनुष और विजलीकी चमकके समान हैं, शरीर मायामय है, आयु प्रातःकालकी छायाके समान है—उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने लोग परके समान हैं, संयोग वियांगके समान है, वृद्धि हानिके समान है और यह जन्मपूर्व जन्मके समान है ॥ ४६४-४६५ ॥ ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर घरसे बाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥ ४६६ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर कहा कि हे देव ! जिसकी चिरकालसे सन्तति टूटी हुई है ऐसे इस धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनका आपका यह समय है ॥ ४६७ ॥ महाबुद्धिमान् शान्तिनाथ चक्रवर्तीने लौकान्तिक देवोंकी वाणीका अनुमोदन कर अपना राज्य बड़े हर्षसे नारायण नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥ ४६८ ॥ तदनन्तर देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिषेक किया । इस प्रकार सज्जनोंमें अग्रेसर भगवान् युक्तिपूर्ण वचनोंके द्वारा समस्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर देवताओंके द्वारा उठाई हुई सर्वार्थमिद्धि नामकी पालकीमें आरूढ़ हुए और सहस्राश्रवणमें जाकर सुन्दर शिलातल पर उतरकी ओर मुख कर पर्यकासनसे विराजमान हो गये । उसी समय ज्येष्ठकृष्ण चतुर्दशीके दिन शामके वक्त भरणी नक्षत्रमें बेलाका नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया, सिद्ध भगवान्को नमस्कार किया, वस्त्र आदि सम्पत्त उपकरण छोड़ दिये, पञ्चमुष्टियोंके द्वारा लम्बे क्लेशोंके समान केशोंको उखाड़ डाला । अपनी दीप्तिसे जातरूप—सुवर्णकी हँसी करते हुए उन्होंने जातरूप—दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, और शीघ्र ही सामायिक चारित्र सम्बन्धी विशुद्धता तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया । इन्द्रने उनके केशोंको उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें रख लिया । मुगन्धिके कारण उन केशों पर आकर बहुतसे भ्रमर बैठ गये थे जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वे कई गुणित हो गये हों । इन्द्रने उन केशोंको क्षीरसागरकी तरङ्गोंके उस ओर क्षेप दिया ॥ ४६६-४७५ ॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक हजार राजाओंने भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्री

१ संजानं म० । २ चतुर्दश्यां पराह्वके म०, । चतुर्थ्यामपराह्वके न० । ३ प्रणिप्रणिधानवत् ल० । ४ परं भागं ल० ।

भूयादस्माकमप्येवमित्याशासनतत्पराः । १पुण्यपण्यं समादाय २भक्तिमौल्येन भाक्तिकाः ॥ ४७७ ॥  
 पाकशासनमुख्याश्च नाकलोकोन्मुखा<sup>३</sup> ययुः । ४स्वाशनाद् विश्वलोकेशे पवित्रं मन्दरं पुरम् ॥ ४७८ ॥  
 प्रविष्टाय प्रदात्यान्नं प्रासुकं परमोत्सवात् । सुमित्राख्यमहीपालः प्रापदाश्रयपञ्चकम् ॥ ४७९ ॥  
 क्रमादेवं तपः कुर्वन्नुर्वीं सर्वां पवित्रयन् । तनूकृतकषायः सन् मोहारातिजिगीषया ॥ ४८० ॥  
 बहुभिर्मुनिभिः सार्द्धं श्रीमान् चक्रायुधादिभिः । सहस्राभ्रवनं प्राप्य नन्द्यावर्ततरोरधः ॥ ४८१ ॥  
 श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन ध्रुवले दशमीदिने । पौषे मासि दिनस्यान्ते पल्यङ्गासनमास्थितः ॥ ४८२ ॥  
 प्राङ्मुखो बाह्यसामग्रीं नैर्ग्रन्थ्यादिमवाप्तवान् । कारणत्रयसम्प्राप्तं<sup>५</sup>क्षपकश्रेणिमध्यगः ॥ ४८३ ॥  
 आरूढतुर्यचारित्ररथो ६धर्म्याभिधानभाक् । ध्यानासिंहतमोहारिवीतरागोऽन्त्यसंयमः ॥ ४८४ ॥  
 द्वितीयशुक्लसद्धान्यचक्रविच्छिन्नघातिकः । एवं षोडशवर्षाणि छाद्यस्थे भावमाश्रितः ॥ ४८५ ॥  
 निर्ग्रन्थो नीरजा वीतविभो विरवैकवान्धवः । केवलज्ञानसाम्राज्यश्रियं शान्तामशिश्रियन् ॥ ४८६ ॥  
 तदा तीर्थकराख्योरुपुण्यकर्ममहाभरतु । संक्षोभितचतुर्भेदसुराम्भोधिविजम्भितः ॥ ४८७ ॥  
 स्वसमुद्रभूतसद्भक्तिरङ्गानीतपूजनः । रत्नावलीभिरित्येतं प्रार्थयत्प्राणभृत्पतिम् ॥ ४८८ ॥  
 चक्रायुधाद्यश्चास्य षट्त्रिंशद्गणनायकाः । शतान्यष्टौ समाख्याताः पूर्वाणां पारदर्शिनः ॥ ४८९ ॥  
 शून्यद्वितीयवस्त्रेकचतुर्निमित्तशिक्षकाः । त्रिसहस्रावधिज्ञानसमुज्ज्वलविलोचनाः ॥ ४९० ॥

शान्तिनाथ भगवान्के साथ संयम धारण किया था ॥ ४७६ ॥ हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस प्रकारकी इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीद कर स्वर्गलोकके सन्मुख चले गये ॥ ४७७ ॥

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान् मन्दिरपुर नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ४७८-४७९ ॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त पृथिवीको पवित्र किया और मोहरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कृश किया ॥ ४८० ॥ चक्रायुध आदि अनेक मुनियोंके साथ श्रीमान् भगवान् शान्तिनाथने सहस्राभ्रवनमें प्रवेश किया और नन्द्यावर्त वृक्षके नीचे तैलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये । अत्यन्त श्रेष्ठ भगवान् पौष शुक्ल दशमीके दिन सायंकालके समय पर्यकासनसे विराजमान थे । पूर्वकी ओर मुख था, निर्ग्रन्थता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिष्टुत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई क्षपक श्रेणीके मध्यमें वे अवस्थित थे, सूक्ष्मसाम्पराय नामक चतुर्थ चारित्ररूपी रथ पर आरूढ़ थे, प्रथम शुक्लध्यानरूपी तलवारके द्वारा उन्होंने मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया, अब वे वीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये । अन्नमूर्तृत्वाद उन्होंने द्वितीय शुक्लध्यानरूपी चक्रके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया, इस तरह वे सोलह वर्ष तक दृढ़स्थ अवस्थाको प्राप्त रहे । मोहनीय कर्मका क्षय होनेसे वे निर्ग्रन्थ हो गये, ज्ञानावरण, दर्शनावरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे वीतविभ्र हो गये और समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्त केवलज्ञानरूपी साम्राज्यलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥ ४८१-४८६ ॥ उसी समय तीर्थकर नामका बड़ा भारी पुण्यकर्मरूपी महाबायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको लुभित करता हुआ बड़े वेगसे बढ़ रहा था ॥ ४८७ ॥ अपने आपमें उत्पन्न हुई सद्भक्ति रूपी तरङ्गोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं ऐसे सब लोग रत्नावली आदिके द्वारा, सब जीवोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवान्की पूजा करने लगे ॥ ४८८ ॥

उनके समवसरणमें चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणधर थे, आठ सौ पूर्वोंके पारदर्शी थे, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, और तीन हजार अवधिज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंके धारक थे

१ पुण्यं पण्यं ल० । २ भक्तिमूल्येन ग० । ३ लोकोत्सुका म०, ल० । ४ स्वाश्रमान् विश्वलोकेशः ल० ।

५ सम्प्राप्ति म०, ल० । ६ श्रेण्यां धर्म्यध्यानं न भवति, अतः 'शुक्लाभिधानभाग' इति पाठः सुष्ठु प्रतिभाति ।

चतुःसहस्रसङ्ख्योक्तकेवलावगमेवराः । षट्सहस्राणि सम्प्रोक्तविक्रियांदावभूषिताः ॥ ४९१ ॥  
 मनःपर्ययसद्बोधसहस्राणां चतुष्टयम् । शून्यद्वयचतुःपक्षलक्षिताः पूज्यवादिनः ॥ ४९२ ॥  
 ते द्विपष्टिसहस्राणि शर्वेऽपि मुनयो मताः । आर्यिका हरिवेणाद्याः खद्वयत्रिसषड्मिताः ॥ ४९३ ॥  
 श्रावकाः सुरकीर्त्याद्या लक्षद्वयनिरूपिताः । अर्हद्दास्यादिकाः प्रोक्ताः श्राविका द्विगुणास्ततः ॥ ४९४ ॥  
 देवा देव्योऽप्यसङ्ख्यातास्तिर्यक्काः<sup>१</sup> सङ्ख्ययामिताः । इति द्वादशभिः सार्द्धं गणैः सद्धर्ममादिशन् ४९५  
 विहरन्मासमात्रायुः सम्मेदाचलमागतः । व्यपेतव्याहृतियोगमास्थायाचलितं विभुः ॥ ४९६ ॥  
 ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वरात्रेः कृतक्रियः । तृतीयशुक्लध्यानेन रुद्धयोगो विबन्धनः ॥ ४९७ ॥  
 \*अकारपञ्चकोष्चारमात्रकाले चियोगकः । चतुर्थशुक्लध्यानेन निराकृततनुत्रयः ॥ ४९८ ॥  
 अगान्दरणिनक्षत्रे लोकाम्रं गुणविग्रहः । अतीतकाले ताः सिद्धा यत्रानन्ता निरञ्जनाः ॥ ४९९ ॥  
 चतुर्विधामराः सेन्द्राः निस्तन्द्रा रुद्रभक्तयः । कृत्वान्येष्टि तदागत्य स्वं स्वमावासमाश्रयन् ॥ ५०० ॥  
 चक्रायुधाद्योप्येवमाध्यायान्यतनुत्रयम् । हित्वा नव सहस्राणि निवृत्तिं यतयोऽगमन् ॥ ५०१ ॥

### मालिनी

इति परममवाप्य ज्ञानदृक्सौख्यवीर्य-

स्फुरिततनुनिवासन्याहृतिस्थानमुच्चैः ।

सुरपतिदृढपूज्यः शान्तिभट्टारको वो

दिशतु परमसप्तस्थानसम्प्राप्तिमाप्तः ॥ ५०२ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

कर्माण्यष्ट सकारणानि<sup>१</sup> सकलान्युन्मूल्य नैर्मल्यवान्

सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं निजमजः स्वीकृत्य कृत्यान्तगः ।

॥ ४८६-४९० ॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके स्वामी थे और छह हजार विक्रियाऋद्धिके धारकों-  
 से सुशोभित थे ॥ ४९१ ॥ चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी और दो हजार चार सौ पूज्यवादी उनके साथ  
 थे ॥ ४९२ ॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार तीन सौ  
 हरिवेणा आदि आर्यिकाएँ थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अर्हद्दासीको आदि लेकर  
 चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस प्रकार बारह  
 गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे ॥ ४९३-४९५ ॥ विहार करते-करते जब एक  
 माहकी आयु शेष रह गई तब वे भगवान् सम्मेदशिखर पर आये और विहार बन्द कर वहाँ अचल  
 योगसे विराजमान हो गये ॥ ४९६ ॥ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके पूर्व भागमें उन कृतकृत्य  
 भगवान् शांतिनाथने तृतीय शुक्लध्यानके द्वारा समस्त योगोंका निरोध कर दिया, बन्धका अभाव  
 कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतने समय तक  
 अयोगकेवली अवस्था प्राप्त की । वहीं चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा वे तीनों शरीरोंका नाश कर भरणी  
 नक्षत्रमें लोकके अग्रभाग पर जा विराजे । उम समय गुण ही उनका शरीर रह गया था । अतीत  
 कालमें गये हुए कर्ममलरहित अनन्त सिद्ध जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये  
 ॥ ४९७-४९९ ॥ उसी समय इन्द्र सहित, आलस्यरहित और बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चार  
 प्रकारके देव आये और अन्तिम संस्कार-निर्वाणकल्याणकी पूजा कर अपने-अपने स्थान पर चले  
 गये ॥ ५०० ॥ चक्रायुधको आदि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा  
 औदारिक तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंको छोड़ कर निर्वाणको प्राप्त हो गये ॥ ५०१ ॥

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुख और वीर्यसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें  
 निवास तथा परमौत्कृष्ट विहारके स्थान प्राप्त किये, जो अरहन्त कहलाये और इन्द्रने जिनकी दृढ़  
 पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें ॥ ५०२ ॥ जो

१ तिर्यक्काः ल० । २ इकार ख०, म०, ल० । ३ सफलान्यु-ख०, ग०, म०, ल०, ।



स्वाकारं विगतादिभूतसमये नष्टं समाप्य स्फुटं

शान्तीशस्त्रिजगच्छिखामणिरभूदाविर्भवत्प्राभवः ॥ ५०३ ॥

श्रीषेणः कुरुजः सुरः खगपतिर्देवो हलेशोऽमरो

यो वज्रायुधचक्रभृत्सुरपतिः १प्राप्याहमिन्द्रं पदम् ।

पश्चान्मेघरथो मुनीन्द्रमहितः सर्वार्थसिद्धिं श्रितः

शान्तीशो जगदकशान्तिरतुलां दिश्याच्छिष्यं वश्रिरम् ॥ ५०४ ॥

आदावनिन्दिताभोगभूमिजो विमलप्रभः । ततः श्रीविजयो देशोऽनन्तवीर्योऽनु नारकः ॥ ५०५ ॥

मेघनादः प्रतीन्द्रोऽभूत्सहस्रायुधोऽजनि । ततोऽहमिन्द्रकल्पेशोऽनल्पद्विरभवत्ततः ॥ ५०६ ॥

च्युतो दृढरथो जज्ञे प्राज्ञो मेघरथानुजः । अन्त्यानुत्तरजश्रक्रायुधो गणधरोऽक्षरः ॥ ५०७ ॥

### मालिनी

इति हितकृतवेदी बद्धसौहार्दभावः

सकलजगद्गर्घाशा शान्तिनाथेन सार्द्धम् ।

परमसुखपदं सम्प्राप चक्रायुधाहो २

भवति किमिह नेष्टं सम्प्रयांगान्महद्भिः ॥ ५०८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अन्ये तावदिहासतां भगवतां मध्येऽपि तीर्थेऽग्निनां

कोऽसौ द्वादशजन्मसु प्रतिभवं प्रापत्प्रवृद्धिं पराम् ।

कारणोंसे सहित समस्त आठों कर्मोंका उगवाड़ कर अत्यन्त निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि आठ आत्मीय गुणोंको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके अष्ट महाप्राप्ति-हार्यरूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान् अनादि भूतकालमें जो कमी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वस्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे ॥ ५०३ ॥ जो पहले राजा श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वज्रायुध चक्रवर्ती हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देवोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा पूजित होकर सर्वार्थसिद्धि गये, और फिर वहाँसे आकर जगतको एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री शान्तिनाथ भगवान् हुए वे सोलहवें तीर्थकर तुम सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहें ॥ ५०४ ॥ जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविजय राजा हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवीर्य नारायण हुआ, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्रायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका धारी अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान् दृढरथ हुआ, फिर अन्तिम अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, फिर अन्तमें अक्षर—अविनाशी-सिद्ध हुआ ॥ ५०५-५०७ ॥ इस प्रकार अपने हित और किये हुए उपकारको जाननेवाले चक्रायुधने अपने भाईके साथ सौहार्द धारण कर समस्त जगत्के स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्के साथ-साथ परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता ? ॥ ५०८ ॥ इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिये श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर भगवान् तीर्थकरोंमें भी ऐसा कौन है जिसने बारह भवोंमें से प्रत्येक भवमें बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की हो ? इसलिए हे विद्वान् लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो

मुक्त्वा शान्तिजिनं ततो बुधजनाः ध्यायन्तु सर्वोत्तरं<sup>१</sup>

<sup>२</sup>सर्वं शान्तिजिनेन्द्रमेव सततं शान्तिं स्वयं प्रेप्सवः ॥५०९॥

ध्वस्तो मुक्तिपथः पुरुप्रभृतिभिर्देवैः पुनर्दक्षितः


किन्त्वन्तं प्रथितावधेर्गमयितुं कोऽपि प्रभुर्नाभवत् ।

देवेनाभिहितस्त्वनेन समगादव्याहृतः स्वावधिं

तच्छान्तिं समुपेत तत्रभवतामाद्यं गुरुं धीधनाः ॥५१०॥


इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शान्तिचक्रधरतीर्थकरपुराणं

परिसमाप्तं त्रिषष्टितमं पर्व ॥ ६३ ॥



तो सबसे उत्तम और सबका भला करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । ॥ ५०९ ॥ भोगभूमि आदिके कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका । तदनन्तर भगवान् शान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधाके अपनी अवधिको प्राप्त हुआ । इसलिए हे बुद्धिमान् लोगो ! तुम लोग भी आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान्की शरण लो । भावार्थ—शान्तिनाथ भगवान्ने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया था वही आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान् ही हैं । उनके पहले पन्द्रह तीर्थकरोंने जो मोक्षमार्ग चलाया था वह बीच-बीचमें विनष्ट होता जाता था ॥ ५१० ॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें शान्तिनाथ तीर्थकर तथा चक्रवर्तीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



## चतुःषष्टितमं पर्व

ग्रन्थान् कन्यामिव त्यक्त्वा सद्ग्रन्थान् मोक्षगामिनः ।

रक्षान् सूक्ष्मांश्च कुन्थुभ्यः कुन्थुः पान्थान् स पातु वः ॥ १ ॥

द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्य सीतादक्षिणकूलगे । वत्साख्यविषये<sup>१</sup> राजा सुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥  
 अभूत् सिंहरथो नाम श्रीमान् सिंहपराक्रमः । संहतानपि विद्विष्टान् महिम्नैव वशं नयन् ॥ ३ ॥  
 भयादिव तमहांऽरिर्वृहितन्यायवृत्ताकम् ।<sup>२</sup> दण्डिताखिलभूचक्रं नादौकिष्टातिदूरतः ॥ ४ ॥  
 भोगानुभव एवास्यै शास्त्रमार्गानुसारिणे ।<sup>३</sup> अदितामुत्रिकीं सिद्धिमैहिकीं चास्तविद्विषे ॥ ५ ॥  
 स कदाचिद् दिवोल्कायाः पातमालोक्य कल्पयन् । इयं मोहमहारातिं विधातायेति चेतसा ॥ ६ ॥  
 तदैवापेत्य षनत्वार्पिवृषभं यतिपूर्वकम् । श्रुत्वा तदुदितं भक्त्या<sup>४</sup> धर्मतत्त्वस्य विस्तरम् ॥ ७ ॥  
 स्यां समाहितमोहांऽहं यशुल्कासूचनापदः<sup>५</sup> । ममैवेति विचिन्त्याशु सुधीर्मोहजिहासया ॥ ८ ॥  
 राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीभुजैः (?) । बहुभिः संयमं प्राप्य विदुद्धैकाङ्गदशाङ्गकः ॥ ९ ॥  
 बद्ध्वा तत्कारणैस्तार्थिकरनामादिकं शुभम् । स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममनुत्तरम् ॥ १० ॥  
 अन्वभूदप्रवीचारं सुखं<sup>६</sup> तत्रास्तकौतुकम् । मानसं माननीयं यन्मुनीनां चापरागजम् ॥ ११ ॥  
 इह जम्बूमति द्वीपे भरते कुरुजाङ्गले ।<sup>७</sup> हस्तिनाख्यपुरार्धाशः कौरवः काश्यपान्वयः ॥ १२ ॥

जिन्होंने कन्याके समान सब परिग्रहोंका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करानेवाले सद्ग्रन्थोंकी तथा कुन्थुसे अधिक सूक्ष्म जीवोंकी रक्षा की वे कुन्थुनाथ भगवान् मोक्ष नगर तक जानेवाले तुम सब पथिकोंकी रक्षा करें ॥ १ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेहक्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है । उसके सुसीमानगरमें राजा सिंहरथ राज्य करता था । वह श्रीमान् था, सिंहके समान पराक्रमी था और बहुतसे मिले हुए शत्रुओंको अपनी महिमासे ही वश कर लेता था ॥ २-३ ॥ न्यायपूर्ण आचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त पृथिवीमण्डलको दण्डित करनेवाले उस राजाके सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नहीं पहुँचते थे—दूर-दूर ही बने रहते थे ॥ ४ ॥ शास्त्रमार्गके अनुसार चलनेवाले और शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो भोगानुभव प्राप्त था वही उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था ॥ ५ ॥ वह राजा किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोहरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए ही मानो गिरी है ॥ ६ ॥ उसने उसी समय यतिवृषभ नामक मुनिराजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके द्वारा कहे हुए धर्मतत्त्वके विस्तारको बड़ी भक्तिसे सुना ॥ ७ ॥ वह बुद्धिमान् विचार करने लगा कि मैं मोहसे जकड़ा हुआ था, इस उल्काने ही मुझे आपत्ति की सूचना दी है ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छासे उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सौंप दिया और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया । आयुके अन्तमें समाधिभरण कर वह अन्तिम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥ ८-१० ॥ वहाँ उसने बड़े कौतुकके साथ प्रवीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव किया जो मुनियोंको भी माननीय था तथा बीतरागतासे उत्पन्न हुआ था ॥ ११ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें

१ वत्साख्यविजये (?) ग०, । वत्साख्यनगरे (?) ख० । २ दण्डिताखिल—क०, ख०, घ० ।  
 काङ्क्षिताखिल—म० । ३ अदिता—क०, घ० । ४ नत्वार्पि ख०, ग० । नत्वार्पि ल० । ५ धर्मतीर्थस्य ख० ।  
 ६ सूचितापहः ल० । ७ तत्रास्तकौतुकम् ख० । ८ हास्तिनाख्य ख०, ग०, ल० ।

सूरसेनो महाराजः श्रीकान्ताऽस्याप्रवल्भभा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामासवती सती ॥ १३ ॥  
 १ भागे मनोहरे यामे दशम्यां निशि पश्चिमे । श्रावणे बहुले पक्षे नक्षत्रे कृत्तिकाह्वये ॥ १४ ॥  
 सर्वार्थसिद्धिदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टपोडशसुस्वप्ना गर्जं वक्त्रप्रवेशिनम् ॥ १५ ॥  
 निशम्य यामभेयादिमङ्गलध्वनिबोधिता । कृतनित्यक्रिया स्नात्वा धृतमङ्गलमण्डना ॥ १६ ॥  
 आसैः कतिपयैरेव वृत्ता विद्युद्विलासिनी । द्योतयन्ती सदोच्योम साक्षाहक्ष्मीरिवापरा ॥ १७ ॥  
 कृतानुरूपचिनया भर्तुरर्द्धासने स्थिता । स्वप्नावलीं निवेद्यास्माद्विदित्वावधिर्वीक्षणत् ॥ १८ ॥  
 फलान्यनुकमात्तेषां विकसद्ददनाम्बुजा । नलिनीवाञ्छुसंस्पर्शादुष्णांशोरतुपत्तराम् ॥ १९ ॥  
 तदैवानिमषाधीशाः कल्याणाभिषवं तयोः । विधाय बहुघ्राभ्यर्च्यं तोपयित्वा ययुदिवम् ॥ २० ॥  
 शुक्तिर्मुक्ताविशेषेण नाभूत्सा तेन गर्भिणी । क्रोडीकृता मृताभीपुमेघरेखेव चाबभौ ॥ २१ ॥  
 नवमे मासि वैशाखशुक्लपक्षादिमे दिने । साऽसूताग्नेययोगे वा विधुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥  
 सुरासहं पुरोधाय समभ्येत्य सुरासुराः । सुमेरुमर्भकं नीत्वा क्षीरसैन्धववारिभिः ॥ २३ ॥  
 अभिविच्य विभूष्यैर्न कुन्धुमाहूय संज्ञया । समानीय समर्प्यायन् पित्रोरावासमात्मनः ॥ २४ ॥  
 शान्तीशतीर्थसन्तानकालेऽजनि जिनेश्वरः । पल्योपमार्द्धे पुण्याब्धिस्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २५ ॥  
 समाः पञ्चसहस्रोनलक्षाः संवत्सरस्थितिः । पञ्चत्रिंशद्भुजः कायो निष्टहाष्टापदद्युतिः ॥ २६ ॥  
 खपञ्चमुनिवह्निद्विप्रमसंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव काले च राजताम् ॥ २७ ॥

कौरववंशी काश्यपगोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे । उनकी पट्टारानीका नाम श्रीकान्ता था । उस पतिव्रताने देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी ॥ १२-१३ ॥ श्रावण कृष्ण दशमीके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्यन्धी मनोहर पहर और कृत्तिका नक्षत्रमें जब सर्वार्थसिद्धिके उस अहमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेको आई तब उसने मोलह स्वप्न देखकर अपने मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥ १४-१५ ॥ प्रातःकाल भेरी आदिके माङ्गलिक शब्द सुनकर जगी, नित्य कार्यकर स्नान किया, माङ्गलिक आभूषण पहिने और कुछ प्रामाणिक लोगोंसे परिवृत होकर विजलीके समान सभारूपी आकाशको प्रकाशित करती हुई दूसरी लक्ष्मीके समान राजसभामें पहुँची । वहाँ वह अपनी योग्यताके अनुमार धिनयकर पतिके अर्धासनपर विराजमान हुई । अर्धविज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले पतिको सब स्वप्न सुनाये और उनसे उनका फल मालूम किया । अनुक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उनका मुग्धकमल इस प्रकार ग्विल उठा जिम् प्रकार कि सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमलिनी ग्विल उठती है ॥ १६-१८ ॥ उसी समय देवोंने महाराज सूरसेन और महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक सम्यन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की और सन्तुष्ट होकर स्वर्गकी ओर प्रयाण किया ॥ २० ॥ जिस प्रकार मुक्ताविशेषसे साँप गर्भिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी और जिस प्रकार चन्द्रमाको गोदीमें धारण करनेवाली मेघोंकी रेखा सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पुत्रको गर्भमें धारण करती हुई रानी श्रीकान्ता सुशोभित हो रही थी ॥ २१ ॥ जिस प्रकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाको उदित करती है उसी प्रकार रानी श्रीकान्ताने नव मास व्यतीत होने पर वैशाख शुक्ल प्रतिपदाके दिन आग्नेय योगमें उस पुत्रको उदित किया—जन्म दिया ॥ २२ ॥ उसी समय इन्द्रको आगे कर समस्त देव और धरणेन्द्र आये, उस बालकको सुमेरु पर्वत पर ले गये, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंकृत किया, कुन्धु नाम रखा, बापिस लाये, माता-पिताको समर्पण किया और अन्तमें सब अपने स्थान पर चले गये ॥ २३-२४ ॥ श्रीशान्तिनाथ तीर्थकारके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पल्य बीत गया तब पुण्यके सागर श्रीकुन्धुनाथ भगवान् उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी ॥ २५ ॥ पञ्चानवे हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पैंतीस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी ॥ २६ ॥ तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था

निजजन्मदिने <sup>१</sup>चक्रिलक्ष्मीं सम्प्राप्य सम्मदान् । दशाङ्गभोगाब्धिर्विदधय निःप्रतीपं <sup>२</sup> निरन्तरम् ॥ २८ ॥  
 षडङ्गबलसंयुक्तः कदाचिच्छ्रीडितुं वनम् । गत्वा रंत्वा चिरं स्वैरं निवृत्त्यायन्पुनः पुरम् ॥ २९ ॥  
 मुनिमातपयोगेन स्थितं कश्चिन्निरूपयन् । मन्त्रिणं प्रति तर्जिन्या पदय पश्येति चक्रभृत् ॥ ३० ॥  
 स तं निरीक्ष्य तत्रैव भक्त्यावनतमस्तकः । देवैवं दुष्करं कुर्वन्तपः किं फलमाप्स्यति ॥ ३१ ॥  
 इत्यप्राक्षीन्नुपोऽप्यस्य भूयः स्मेरमुखोऽवदन् । भवेऽस्मिन्नैव निर्मूल्य कर्माण्याप्नोति निर्धृतिम् ॥ ३२ ॥  
 न चेदेवं सुरेन्द्रत्वचक्रवर्तित्वगोचरम् । सुखमभ्युदयं मुक्त्वा क्रमाच्छाश्वतमेप्यति ॥ ३३ ॥  
 अपरित्यक्तसङ्गस्य भवे पर्यटनं भवेत् । इत्युच्चैर्मुक्तिसंसारकारणं <sup>३</sup> परमार्थवित् ॥ ३४ ॥  
 कालो माण्डलिक्वेन यावाव्रतीतः सुखायुषा । तावत्येव समानीय महेश्चक्रवर्तिताम् ॥ ३५ ॥  
 विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखलिप्सया । स्वातीतभवबाधेन लब्धबोधिर्बुधोत्तमः ॥ ३६ ॥  
 सारस्वतादिसंस्तोत्रमपि सम्भाव्य सादरम् । स्वजे नियोज्य राज्यस्य भारं निष्कमगोत्सवम् ॥ ३७ ॥  
 स्वयं सम्प्राप्य देवेन्द्रैः शिबिकां विजयाभिधाम् । आरुह्यामरसंवाह्यां सहेतुकवनं प्रति ॥ ३८ ॥  
 गत्वा पष्ठोपवासेन संयमं प्रत्यपद्यत । जन्ममाःपक्षदिवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमैः ॥ ३९ ॥  
 सहस्रेणाप तुयावबाधं च दिवसात्यये । पुरं हास्तिनमन्येद्युस्तस्मै गतवत्सेऽदित ॥ ४० ॥  
 आहारं धर्ममित्रालयः प्राप चाश्रयपञ्चकम् । कुर्वन्नेवं तपो घोरं नीत्वा षोडशवत्सरान् ॥ ४१ ॥  
<sup>१</sup> निजदीक्षावने पठनोपवासेन शुद्धिभाक् । तिलकद्रुममूलस्थदचैत्रज्योत्स्नापाराङ्गके ॥ ४२ ॥

और इतना ही समय बीत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिके दिन चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिली थी । इसप्रकार वे बड़े हर्षसे वाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे ॥ २७-२८ ॥ किसी समय वे षडङ्ग सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए वनमें गये थे वहाँ चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीडाकर वे नगरका वापिस लौट रहे थे ॥ २९ ॥ कि मार्गमें उन्होंने किसी मुनिको आतप योगसे स्थित देखा और देखते ही मन्त्रीके प्रति तर्जनी अंगुलीसे इशारा किया कि देखो, देखा । मन्त्री उन मुनिराजको देखकर वहाँपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि हे देव ! इस तरहका काठिन तप तपकर ये क्या फल प्राप्त करेंगे ? ॥ ३०-३१ ॥ चक्रवर्ती कुन्थुनाथ हँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोंका नष्टकर निर्वाण प्राप्त करेंगे । यदि निर्वाण न प्राप्तकर सकेंगे तो इन्द्र और चक्रवर्तीके सुख तथा ऐश्वर्यका उपभोगकर क्रमसे शाश्वतपद-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ३२-३३ ॥ जो परिग्रहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारमें परिभ्रमण होता है । इस प्रकार परमार्थको जाननेवाले भगवान् कुन्थुनाथने मोक्ष तथा संसारके कारणोंका निरूपण किया ॥ ३४ ॥ उन महानुभावने मुखपूर्वक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना प्राप्तकर व्यतीत किया था ॥ ३५ ॥ तदनन्तर, अपने पूर्वभक्तका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ भगवान् कुन्थुनाथ निर्वाण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे राज्यभोगोंमें विरक्त हो गये ॥ ३६ ॥ सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने आकर बड़े आदरसे उनका स्तवन किया । उन्होंने अपने पुत्रको राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त किया । तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य विजया नामकी पालकीपर सवार होकर वे सहेतुक वनमें गये । वहाँ तैलाका नियम लेकर जन्मके ही मास पक्ष और दिनमें अर्थात् वैशाखशुक्ल प्रतिपदाके दिन कृत्तिका नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये वहाँ धर्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये । इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह वर्ष बीत गये ॥ ३७-४१ ॥ किसी एक दिन

१ चक्रिलक्ष्मीं इति पाठः शुद्धो भाति । २ निःप्रतीपं इति पाठो भवेत् । ३ कारणं ल० ।

४ जिनदीक्षा ल० ।

कृत्तिकायां तृतीयायां कैवल्यमुदपादयत्<sup>१</sup> । मुदा तत्कालसम्प्राप्तसर्वाभरसमर्थितम्<sup>२</sup> ॥ ४३ ॥  
 प्रार्थ्यं चतुर्थकल्याणपूजाविधिमवाप सः । तस्य स्वयम्भूनामाद्याः पञ्चत्रिंशद्गणेशिनः ॥ ४४ ॥  
 शतानि सप्त पूर्वाणां संविदो मुनिसत्तमाः । खपञ्चैकत्रिवादभ्युक्ताः शिक्षकाः लक्षिताशयाः ॥ ४५ ॥  
 खद्वयेन्द्रियपक्षोक्तास्तृतीयावगमामलाः । शून्यद्वयद्विवह्वयुक्ताः केवलज्ञानभास्वराः<sup>३</sup> ॥ ४६ ॥  
 खद्वयैकेन्द्रियज्ञातविक्रियद्विविभूषणाः । त्रिंशत्त्रिसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥ ४७ ॥  
 पञ्चाशद्द्विसहस्राणि ख्यातानुत्तरवादिनः । सर्वे ते पिण्डिताः पष्टिसहस्राणि यमेश्वराः ॥ ४८ ॥  
 भाविताथार्थिकाः शून्यपञ्चवह्निस्रष्टमिताः । त्रिलक्षाः श्राविका लक्षद्वयं सर्वेऽप्युपासकाः ॥ ४९ ॥  
 \*देवदेव्यस्त्वसङ्ख्यातास्तिर्यञ्चः<sup>४</sup> सङ्ख्यया मिताः । दिव्यध्वनिनामीषां कुर्वन्धर्मोपदेशनाम् ॥ ५० ॥  
 देशान् विहृत्य मासायुः सम्मेदाचलमास्थितः । प्रतिमायोगमादाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ ५१ ॥  
 वैशाखज्यौत्स्त्रपक्षादिदिने रात्रेः पुरातने । भागे कर्माणि निर्मूल्य कृत्तिकायां निरञ्जनः ॥ ५२ ॥  
 प्राप्तगीर्वाणनिर्वाणपूजः प्रापत्परं पदम् । संशुद्धज्ञानवैराग्यसाबाधमविनश्वरम् ॥ ५३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

आसीत् सिंहरथो नृपः पृथुतपाः सर्वार्थसिद्धीश्वरः

कल्याणद्वयभाक् पडङ्गशिविरसौलोक्यमुख्याचितः ।

प्राप्तात्माष्टगुणस्त्रिंशत्पशिस्रष्टाप्रान्नासिचूडामणि-

दिश्यद्दः श्रियमप्रतीपमहिमा कुन्थुजिनः शास्वतीम् ॥ ५४ ॥

विशुद्धताको धारण करनेवाले भगवान् तैलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके वनमें तिलकवृत्तके नीचे विराजमान हुए । वहीं चैत्रशुक्ला तृतीयाके दिन सायंकालके समय कृत्तिका नक्षत्रमें उन्हें केवल-ज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हृषिके साथ सब देव आये । सबने प्रार्थनाकर चतुर्थकल्याणककी पूजा की । उनके स्वयंभूको आदि लेकर पैंतीस गणधर थे, सात सौ मुनिराज पूर्वोके जानकार थे, तैंतालीस हजार एक सौ पचास मर्मवेदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच सौ निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सौ केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार एक सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, तीन हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी थे, दो हजार पचास प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥४२-४८॥ भाविताको आदि लेकर साठ हजार तीन सौ पचास आर्थिकाएँ थीं, तीनलाख श्राविकाएँ थीं, दो लाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियों थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे । भगवान्, दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे ॥ ४९-५० ॥ इस प्रकार अनेक देशोंमें विहारकर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदशिखरपर पहुंचे । वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ल प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मोंको उखाड़कर परमपद प्राप्त कर लिया । अब वे निरञ्जन-कर्मकलङ्कसे रहित हो गये । देवोंने उनके निर्वाण-कल्याणक की पूजा की । उनका वह परमपद अत्यन्त शुद्ध ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण तथा अविनाशी था ॥ ५१-५३ ॥

जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरणकर सर्वार्थसिद्धिके स्वामी हुए, फिर तीर्थंकर और चक्रवर्ती इसप्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओंके स्वामी थे, तीनों लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो तीन लोकके शिखरपर चूडामणिके समान देदीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधासे रहित थी ऐसे


१-मुपपादयत् ल० । २ समर्थितः ख० । ३ भास्कराः ल० । ४ देव्यस्त्वसंख्याता म०, ष०, देवा-  
 देव्योऽप्यसंख्या-ल० । ५ तिर्यग्जाः ग०, ल०, म०, तिर्यक्काः ल० ।

देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः सर्वेऽपि मग्नाः सुरा  
ज्ञानज्योतिषि पञ्चतत्त्वसहितं लग्नं नभश्चाखिलम् ।

लक्ष्मीधामदधद्विभूतविततध्वान्तः स धामद्वय-


पन्थानं कथयत्वन्तगुणभृत्कुन्थुर्भवान्तस्य वः ॥ ५५ ॥

इत्यार्षे त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते कुन्थुचक्रधरतीर्थकरपुराणं  
परिसमाप्तं चतुःषष्टितमं पर्व ॥ ६४ ॥



श्रीकुन्थुनाथ भगवान् तुम सबके लिए अविनाशी-मोक्षलक्ष्मी प्रदान करें ॥ ५४ ॥ जिनके शरीरकी कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पञ्चतत्त्व सहित समस्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मीके स्थान हैं, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया, और जो अतन्तगुणोंके धारक हैं ऐसे श्रीकुन्थुनाथ भगवान् तुम सबके लिए मोक्षका निश्चय और व्यवहार मार्ग प्रदर्शित करें ॥ ५५ ॥

इस प्रकार आर्षे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें कुन्थुनाथ तीर्थकर और चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला चौसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥



## पञ्चषष्टितमं पर्व

सरतारं परं सारं<sup>१</sup> नरनाथकृतानतिम् । अगाधासारसंसारसागरोत्सारकारणम् ॥ १ ॥  
 द्वीपे जम्बूद्वीपस्थिते सीतोत्तरतटाश्रिते । कच्छाख्यविषये क्षेमपुराधीशो मर्हापतिः ॥ २ ॥  
 नाम्ना धनपतिः पाता प्रजानां जनताप्रियः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्धे स्म प्रस्तुतानिशम् ॥ ३ ॥  
 विनार्थिभिरपि त्यागी विनाप्यरिभिरुद्यमी । तपितार्थिनि धृतारौ तस्मिन्स्तौ सहजौ गुणौ ॥ ४ ॥  
 स्ववृत्त्यनुगमेनैव वर्गत्रयनिषेविणः । राजा प्रजाश्च राज्येऽस्मिन्स्तत्र धर्मव्यतिक्रमः ॥ ५ ॥  
 कदाचिद्धरणीधर्ता पीत्वाहर्हन्दतीर्थकृद् । दिव्यध्वनिस्समुद्भूतं<sup>३</sup> धर्मसाररसायनम् ॥ ६ ॥  
 विरज्य राज्यभोगात्तरसाद्राज्यं निजात्मजे । नियोज्य मंक्षु प्रव्रज्यां जैनीं जन्मान्तकारिणीम् ॥ ७ ॥  
 आसाद्यैकादशाङ्गोरुपारावारस्य पारगः । दृश्यत्कारणसम्बद्धतीर्थकृन्नामपुण्यकृत् ॥ ८ ॥  
 प्रायोपगमनेनापत्स जयन्तेऽहमिन्द्रताम् । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रोपमायुर्हस्ततनुप्रमः ॥ ९ ॥  
 शुक्लेश्याद्वयः सार्द्धैर्मासैः षोडशभिः श्वसन् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्तवर्षैर्मानसमाहरन् ॥ १० ॥  
 अमृतं निःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिज्ञाननिर्णीतलोकनाड्यर्थविस्तृतिः ॥ ११ ॥  
 स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतप्रकाशबलविक्रियः । अतिप्रशान्तरागादिरासत्रीकृतनिर्वृतिः ॥ १२ ॥  
 सद्देशोदयसंभूतमन्वभूत् भोगमुत्तमम् । उदितोऽदिनपर्याप्तपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अगाध और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अनेक राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ऐसे अरनाथ तीर्थकरकी तुम सब लोग सेवा करो—उनकी शरणमें जाओ ॥ १ ॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें धनपति नामका राजा राज्य करता था । वह प्रजाका रक्षक था और लोगोंको अत्यन्त प्यारा था । पृथिवीरूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ पूर्ण किया करती थी ॥ २-३ ॥ याचकोंका संतुष्ट करनेवाले और शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उम राजामें ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकोंके विना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओंके न रहने पर भी उद्यम किया करता था ॥४॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार त्रिवर्गका सेवन करते थे इसलिए धर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था ॥ ५ ॥ किसी एक दिन उस राजाने अर्हन्न्दन तीर्थकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रेष्ठधर्मरूपी रसायनका पान किया जिससे राज्यसम्बन्धी भोगोंसे विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्रके लिए दे दिया और शीघ्र ही जन्ममरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा धारण कर ली ॥ ६-७ ॥ ग्यारह अङ्गरूपी महासागरके पारगामी होकर उसने सोलह कारणभावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया । अन्तमें प्रायोपगमन संन्यासके द्वारा उसने जयन्त विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहाँ तैंतीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावके भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्ल लेश्याएँ थीं, वह साढ़े सोलह माहमें एक बार इवास लेता था, और तैंतीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतमय आहार ग्रहण करता था । प्रवीचाररहित सुखरूपी सागरका पारगामी था, अपने अवधिज्ञानके द्वारा वह लोकनाडीके भीतर रहने वाले पदार्थोंके विस्तारको जानता था । ॥ ८-११ ॥ उसके अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और विक्रिया ऋद्धि थी । उसके राग-द्वेष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोक्ष उसके निकट आ चुका था ॥ १२ ॥ वह साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभोग करता था ।

१ नरनाथाकृतानतिम् घ० । २ स्ववृत्त्यानु-ल० । ३ समुद्भूत-ल० । ४ प्रायोपगमनादापत् म०, ल० ।



द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कुरुजाङ्गलः । <sup>१</sup>हस्तिनाख्यं पुरं तस्य पतिर्गोत्रेण काश्यपः ॥ १४ ॥  
सोमवंशसमुद्भूतः <sup>२</sup>सुदर्शनसमाह्वयः । मित्रसेना महादेवी प्राणेश्योऽप्यस्य बलभा ॥ १५ ॥  
वसुधारादिकां पूजां प्राप्य <sup>३</sup>प्रीतानुफल्युने । मासेऽसिततृतीयायां रेवत्यां निशि पश्चिमे ॥ १६ ॥  
भागे जयन्तदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टपोडशसुस्वप्ना फलं तेषु निजाधिपम् ॥ १७ ॥  
अनुयुज्यावधिज्ञानतदुक्तफलसंश्रुतेः । प्रासत्रैलोक्यराज्येन <sup>४</sup>प्रासीदत्परमोदया ॥ १८ ॥  
<sup>५</sup>तदा गतामराधीशकृतकल्याणसम्मदा । निर्वृता निर्मदा नित्यरम्या सौम्यानना शुचिः ॥ १९ ॥  
संवाह्यमाना देवीभिस्तत्कालोचित <sup>६</sup>वस्तुभिः । मेघमालेव सद्गर्भमुद्ब्रहन्ती जगद्धितम् ॥ २० ॥  
मार्गशीर्षे सिते पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशी । तिथौ त्रिविधसद्गोधं तन्जमुदपीपदत् <sup>७</sup> ॥ २१ ॥  
तस्य जन्मोत्सवस्यालं वर्णनाय मरुद्वराः । यदि स्वर्गं समुद्रास्य <sup>८</sup>सर्वेऽप्यत्र सजानयः ॥ २२ ॥  
अत्यल्पं तृप्तिमापन्ना दीनानायवनीपकाः । इतीदमिह सम्प्राप्तं यदि तृप्तिं जगत्त्रयम् ॥ २३ ॥  
कुन्धुतीर्थेऽसन्नान्ने पत्ये तुर्यांशसम्मिमे । सहस्रकोटिवर्षेणै तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २४ ॥  
अरो जिनोऽ <sup>९</sup>जनि श्रीमानशीति चतुरत्तराम् । वत्सराणां सहस्राणि परमायुः समुद्ब्रहन् ॥ २५ ॥  
त्रिंशच्चापनन्त्सेधः चारुचामीकरच्छविः । लावण्यस्य परा कोटिः सौभाग्यस्याकरः परः ॥ २६ ॥  
सौन्दर्यस्य समुद्रोऽयमालयो रूपसम्पदः । गुणाः किमस्मिन् सम्भूताः किं गुणेष्वस्य सम्भवः ॥ २७ ॥

इस तरह प्राप्त हुए भागोंका उपभोग करना हुआ आयुके अन्तिम भागको प्राप्त हुआ—वहाँसे च्युत होनेके सम्मुख हुआ ॥ १३ ॥

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतदेवमें कुरुजांगल नामका देश है। उसके हस्तिनापुर नगरमें सोमवंशमें उत्पन्न हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सुदर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणोंसे भी अधिक प्यारी मित्रसेना नामकी रानी थी ॥ १४-१५ ॥ जब धनपतिके जीव जयन्त विमानके अहमिन्द्रका स्वर्गसे अवतार लेनेका समय आया तब रानी मित्रसेनाने रत्नयुष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बड़ी प्रमन्नतामें फाल्गुन कृष्ण तृतीयाके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पिछले प्रहर सोलह स्वप्न देखे। सबेरों होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल पूछा। तदनन्तर परम वैभवका धारण करनेवाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्नका फल सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥ १६-१८ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने जिसके गर्भकल्याणकका उत्सव किया है, जो अत्यन्त संतुष्ट है, मद् रहित है, निरन्तर रमणीक है, सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तुतियोंके द्वारा देवियों जिसको स्तुति किया करती हैं, और जो मेघमालाके समान जगत्का हित करनेवाला उत्तम गर्भ धारण करती है ऐसी रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्र चतुर्दशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तीन ज्ञानोंसे मुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ १९-२१ ॥ उनके जन्मके समय जो उत्सव हुआ था उसका वर्णन करनेके लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होनेके लिए अपनी-अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खालीकर यहाँ आये थे ॥ २२ ॥ उस समय दीन अनाथ तथा याचक लोग सन्तोषको प्राप्त हुए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्योंकि उस समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए थे ॥ २३ ॥ श्रीकुन्धुनाथ तीर्थकरके तीर्थक वाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पत्यका चौथाई भाग बीत गया था तब श्रीअरनाथ भगवान्का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी। भगवान् अरनाथकी उत्कृष्ट-श्रेष्ठतम आयु चौरासी हजार वर्षकी थी, तीस धनुष ऊँचा उनका शरीर था, सुवर्णके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सौभाग्यकी श्रेष्ठ खान थे, भगवान्को देखकर शङ्का होती थी कि ये सौन्दर्यके सागर हैं या सौन्दर्य सम्पत्तिके घर हैं, गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई है अथवा ये स्वयं गुणमय हैं—गुणरूप

१ हस्तिनाख्यं ख०, ग० । २ समुद्भूतसु-ल० । ३ प्रीत्यानु-ष०, ल० । ४ प्रसीदत् ल० । ५ ततो गर्ता ल० । ६ संस्तुभिः ल० । ७ मुदपीययत् ल० । ८ समुद्रास्य क०, ख०, ग०, घ० । ९ जिनश्री-ल० ।

अभूद्गुणमयः किं वेत्याशङ्कां 'स'नयन् जनान् । अवर्द्धत समं लक्ष्म्या बालकल्पद्रुमोपमः ॥ २८ ॥  
 तस्य शून्यत्रिकैकद्विप्रमाणामितवत्सरैः । गते कुमारकालेऽभूद्भ्राज्यं माण्डलिकोचितम् ॥ २९ ॥  
 तावत्येव गते काले तस्मिन् सकलचक्रिता । भोगान्समन्वभूद्भोगो नृतीये स निजायुषः ॥ ३० ॥  
 कदाचिच्छारदारभोद्विलयप्रतिलोकनात् । समुद्भूतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोत्तमैः ॥ ३१ ॥  
 प्रबोधितोऽनुवादेन दत्त्वा राज्यं स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढामधिष्ठितः ॥ ३२ ॥  
 शिबिकां वैजयन्त्याख्यां सहेतुकवर्नं गतः । दीक्षां पष्ठोपवासेन रेवत्यां दशमीदिने ॥ ३३ ॥  
 शुक्लेऽगान्मार्गशीर्षस्य सायाह्ने भूभुजां<sup>३</sup> सह । सहज्जेण चतुर्ज्ञानधारी च समजायत ॥ ३४ ॥  
 सम्यगोषं तपः कुर्वन् कदाचित्पारणादिने । प्रायाञ्चक्रपुरं तस्मै दत्त्वात्मपराजितः ॥ ३५ ॥  
 महीपतिः सुवर्णाभः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । छान्नस्थ्येनागमंस्तस्य मुनेर्वर्षाणि षोडश ॥ ३६ ॥  
 ततो दीक्षावने मासे कार्तिके द्वादशीदिने । रेवत्यां शुक्लपक्षेऽपराह्णे चूततरोरधः ॥ ३७ ॥  
 पष्ठोपवासेनाहृत्य घातीन्याहर्न्यमासदत् । सुराश्चतुर्थकल्याणे सम्भूयैतमपूजयन्<sup>४</sup> ॥ ३८ ॥  
 कुम्भार्याद्या गणेशोऽस्य त्रिशत्पूर्वाह्णवेदिनः । शून्यैकपट्मिताः ज्ञेया शिक्षकाः सूक्ष्मबुद्धयः ॥ ३९ ॥  
 पञ्चवह्वयष्टपञ्चाभिमितास्त्रिज्ञानधारिणः । शून्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवलज्ञानलोचनाः ॥ ४० ॥  
 तावन्तः खट्व्याग्न्यब्धिनिमिता<sup>५</sup> विक्रियद्विकाः । करणेन्द्रियखट्वयुक्ता मनःपर्ययबोधनाः ॥ ४१ ॥  
 शतानि पट्सहस्रं च तत्रानुत्तरवादिनः । सर्वे ते सञ्चिताः पञ्चाशत् सहस्राणि संयताः ॥ ४२ ॥  
 ज्ञेयाः पष्टिसहस्राणि यक्षिलाप्रमुखार्थिकाः । लक्षाः पष्टिसहस्राणि श्रावका श्राविकाश्च ताः ॥ ४३ ॥

ही हैं। इस प्रकार लोगोंको शङ्का उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले भगवान् लक्ष्मीके साथ-साथ बुद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ २४-२८ ॥ इस प्रकार कुमार अवस्थाके इक्कीस हजार वर्ष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरके योग्य राज्य प्राप्त हुआ था और इसके बाद जब इतना ही काल और बीत गया तब पूर्ण चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ था। इस तरह भोग भोगते हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरद्ऋतुके भेवोंका अकस्मान् विलय हो जाना देखकर अपने जन्मको सार्थक करनेवाला आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय लौकान्तिक देवोंने उनके विचारोंका समर्थनकर उन्हें प्रबोधित किया और वे अरविन्दकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर देवोंके द्वारा लठाई हुई वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार हो महंतुक वनमें चले गये। वहाँ तैलाका नियम लेकर उन्होंने मगधिर शुक्ला दशमीके दिन रेवती नक्षत्रमें सन्ध्याके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करते ही वे चार ज्ञानके धारी हो गये ॥ २९-३४ ॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणाके दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा अपराजितने उन्हें आहार देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये। इस तरह मुनिराज अरनाथके जब छद्मस्थ अवस्थाके सोलह वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ३५-३६ ॥ तब वे दीक्षावनमें कार्तिक शुक्ल द्वादशीके दिन रेवती नक्षत्रमें सायंकालके समय आश्रयवृक्षके नीचे तैलाका नियम लेकर विराजमान हुए। उसी समय घातिया कर्म नष्टकर उन्होंने अर्हन्तपद प्राप्त कर लिया। देवोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकमें उनकी पूजा की ॥ ३७-३८ ॥ कुम्भार्यको आदि लेकर उनके तीस गणधर थे, छहसौ दश ग्यारह अंग चौदह पूर्वके जानकार थे, पैंतीस हजार आठ सौ पैंतीस सूक्ष्म बुद्धिको धारण करनेवाले शिक्तक थे ॥ ३९ ॥ अट्ठाईस सौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, तैनालीस सौ विक्रिया-श्चद्विको धारण करनेवाले थे, बीस सौ पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे ॥ ४०-४१ ॥ और सोलह सौ श्रेष्ठ-वादी थे। इस तरह सब मिलाकर पचासहजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ४२ ॥ यक्षिलाको आदि लेकर साठ हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख साठ हजार श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव थे और संख्यात तिर्यञ्च थे। इस प्रकार इन बारह सभाओंसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान् भगवान्

१ जनयन् ल० । मानयन् ख० । २ विलायप्रतिलोकनात् ग० । विलासप्रतिलोनात् म० । ३ भूयैः  
 क० । ४-मपूजयत् ख०, ग० । ५ प्रमिता म० ।

लक्षं त्रयं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोक्तमानकाः । तिर्यग्भेदाश्च सङ्ख्याता<sup>१</sup>वृत्तो द्वादशभिर्गणैः ॥ ४४ ॥  
 एभिर्धर्मोपदेशार्थं व्यहरद्विपयान्<sup>२</sup> सुधीः । मासमात्रावशेषायुः सम्भेदगिरिमस्तके ॥ ४५ ॥  
 सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमास्थितः । चैत्रकृष्णान्तरेवस्थां पूर्वरात्रेऽगमच्छिवम् ॥ ४६ ॥  
 तदाऽऽगत्य सुराधीशाः कृतनिर्वाणपूजनाः । स्तुत्वा स्तुतिशतैर्भक्त्या स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४७ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

त्यक्तं येन कुलालचक्रमिव तच्चक्रं धराचक्रचित्,  
 श्रीश्चासौ घटदासिकेव परमश्रीधर्मचक्रेप्सया ।  
 युष्मान्भक्तिभरानतान्स दुरितारातरवध्वंसकृत्,  
 पायाद्भव्यजनानरो जिनपतिः संसारभीरून् सदा ॥ ४८ ॥

### वसन्ततिलकावृत्तम्

क्षुत्तूट्भयादिगुरुकर्मकृतोरुदोषा-  
 नष्टादशापि सनिमिरामपास्य शुद्धिम् ।  
 यो लब्धवांस्त्रिभुवनैकगुरुर्गाराया-  
 नष्टादशो दिशानु शीघ्रमरः शिवं वः ॥ ४९ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

प्राग्योऽभृन्नृपतिर्महान् धनपतिः पश्चाद्ब्रतानां पतिः,  
 स्वर्गाग्रे विलसजयन्तजपतिः प्रोचन्मुखानां पतिः ।  
 षट्स्वण्डाधिपतिश्चतुर्दशलसद्भैर्निधीनां पतिः,  
 त्रैलोक्याधिपतिः पुनाम्बरपतिः सन् स श्रितान् वश्विरम् ॥ ५० ॥  
 अथास्मिन्नेव तीर्थेऽभून्सुभौमो नाम चक्रभृत् ।<sup>३</sup> तृतीये जन्मन्यत्रैव भरतेऽसौ भुवः पतिः ॥ ५१ ॥

अरनाथने धर्मोपदेश देनेके लिए अनेक देशोंमें विहार किया । जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब उन्होंने सम्भेदाचलकी शिम्बरपर एकहजार मुनियोंके साथ प्रतिमायाग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमात्रस्याके दिन रेवती नक्षत्रमें रात्रिके पूर्वभागमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥४३-४६ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर निर्वाणकल्याणकी पूजा की । भक्तिपूर्वक सैकड़ों स्तुतियोंके द्वारा उनकी स्तुति की, और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥ ४७ ॥

जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्मचक्रको प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथिवीमण्डलको सञ्चित करनेवाला अपना सुदर्शनचक्र बुम्भकारके चक्रके समान छोड़ दिया और राज्य-लक्ष्मीको षटदासी (पनहारिन) के समान त्याग दिया । तथा जो पापरूपी शत्रुका विध्वंस करनेवाले हैं ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्तिके भारसे नम्रीभूत एवं संसारमें भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी सदा रक्षा करें ॥४८॥ लुधा, तृषा, भय आदि बड़े-बड़े कर्मोंके द्वारा किये हुए लुधा तृषा आदि अठारहों दोषोंको उनके निमित्त कारणोंके साथ नष्टकर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त की थी, जो तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारहवें तीर्थकर अरनाथ तुम लोगोंका शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें ॥ ४९ ॥ जो पहले धनपति नामके बड़े राजा हुए, फिर व्रतोंके स्वामी मुनिराज हुए, तदनन्तर स्वर्गके अभ्यभागमें सुशोभित जयन्त नामके विमानके स्वामी सुखी अहमिन्द्र हुए, फिर छहों खण्डके स्वामी होकर चौदह रत्नों और नौ निधियोंके अधिपति—चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमें तीनों लोकोंके स्वामी अरनाथ तीर्थकर हुए वे अतिशय श्रेष्ठ अठारहवें तीर्थकर अपने आश्रित रहनेवाले तुम सबको चिरकालतक पवित्र करते रहें ॥ ५० ॥

अथानन्तर—इन्हीं अरनाथ भगवान्के तीर्थमें सुभौम नामका चक्रवर्ती हुआ था । वह तीसरे

भूपालो नाम संग्रामे वलिभिर्विजिगीषुभिः । <sup>१</sup>प्राप्ताभिमानभङ्गः सन् भृशं निविष्ट संसृतेः ॥ ५२ ॥  
 दीक्षां जैनेश्वरीमादात्सं<sup>२</sup>भूतगुरुसन्निधौ । कदाचित्स तपः कुर्वन्निदानमकरोत्कुक्षीः<sup>३</sup> ॥ ५३ ॥  
 भूयान्मे चक्रवर्तित्वमिति भोगानुषञ्जनात् । क्षीरं विषेण वा तेन मनसा दूषितं तपः ॥ ५४ ॥  
 स तथैवाचरन् घोरं तपः स्वास्थ्यायुषः क्षये । समाधाय महाशुक्रे संन्यासेनोदपद्यत ॥ ५५ ॥  
 तत्र षोडशवाराशिमानायुः सुखमास्त <sup>४</sup> सः । द्वीपेऽस्मिन् भारते कौशल्याख्ये<sup>५</sup> राष्ट्रे गुणान्विते ॥ ५६ ॥  
 सहस्रबाहुरिक्ष्वाकुः साकेतनगराधिपः । राज्ञी तस्याभवच्चित्रमत्याख्या हृदयप्रिया ॥ ५७ ॥  
<sup>६</sup>कन्याकुञ्जमहीशस्य <sup>७</sup>पारताख्यस्य सात्मजा । तस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपोऽभवत् ॥ ५८ ॥  
 तत्र प्रवर्द्धमानेऽस्मिन्नदमन्यदुदीर्यते । सहस्रभुजभूभर्तुः पितृव्याच्छतबिन्दुतः ॥ ५९ ॥  
 पारताख्य महीशस्य श्रीमत्यस्तनयः स्वसुः । जमदग्निः सरामान्तः कौमारे मातृमृत्युतः ॥ ६० ॥  
<sup>८</sup>निर्वेगात्तापसो भूत्वा पञ्चाग्नितापसि स्थितः । दृढप्राहिमहीशस्य विप्रेण हरिशर्मणा ॥ ६१ ॥  
 अभूदखण्डितं सख्यमेवं काले प्रयात्यसौ । दृढप्राही तपो जैनमग्रहीद् ब्राह्मणोऽपि च ॥ ६२ ॥  
 तापसव्रतमन्तेऽभूज्योतिर्लोकं द्विजोत्तमः । दृढप्राही च सौधर्मं सोऽवधिज्ञानचक्षुषा ॥ ६३ ॥  
 मिथ्यात्वाज्योतिषां<sup>९</sup> लोके समुत्पन्नं द्विजोत्तमम् । विज्ञाय जैनसद्धर्मं तं प्राहयितुमागमत् ॥ ६४ ॥  
 दृष्ट्वा तं तत्र मिथ्यात्वात्वमेवं कुत्सितोऽभवः । <sup>१०</sup>उत्कृष्टं शुद्धसम्यक्त्वाद्देवभूयमहं गतः ॥ ६५ ॥

जन्ममें इसी भरतक्षेत्रमें भूपाल नामका राजा था ॥ ५१ ॥ किसी समय राजा भूपाल, युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले विजिगीषु राजाओंके द्वारा हार गया। मान भंग होनेके कारण वह संसारसे इतना विरक्त हुआ कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उस दुर्बुद्धिने तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट हों। उसने यह सत्र निदान भोगोंमें आसक्ति रखनेके कारण किया था। इस निदानसे उसने अपने तपको हृदयमें ऐसा दूषित बना लिया जैसा कि कोई विपसे दूधको दूषित बना लेता है ॥ ५२-५४ ॥ वह उसी तरह घोर तपश्चरण करता रहा। आयुके अन्तमें चित्तको स्थिरकर संन्याससे मरा जिसने महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुआ ॥ ५५ ॥ वहाँ सालह सागर प्रमाण आयुको धारण करनेवाला वह देव मुखसे निवास करने लगा। इधर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें अनेक गुणोंसे सहित एक कौशल नामका देश है। उसके अयोध्या नगरमें इक्ष्वाकुवंशी राजा सहस्रबाहु राज्य करता था। हृदयको प्रिय लगनेवाली उसकी चित्रमती नामकी रानी थी। वह चित्रमती कन्याकुञ्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी। उत्तम पुण्यके उदयसे उसके कृतवीराधिप नामका पुत्र हुआ ॥ ५६-५८ ॥ जो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कही जाती है जो इस प्रकार है—राजा सहस्रबाहुके काका शतबिन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी स्त्रीके जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारतकी बहिन थी। कुमार अवस्थामें ही जमदग्निकी माँ मर गई थी इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया और पञ्चाग्नि तप तपने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और है। एक दृढप्राही नामका राजा था। उसकी हरिशर्मा नामके ब्राह्मणके साथ अखण्ड मित्रता थी। इस प्रकार उन दोनोंका समय बीतता रहा। किसी एक दिन दृढप्राही राजाने जैन तप धारण कर लिया और हरिशर्मा ब्राह्मणने भी तापसके व्रत ले लिये। हरिशर्मा ब्राह्मण आयुके अन्तमें मरकर ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुआ—ज्योतिषी देव हुआ और दृढप्राही सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे जाना कि हमारा मित्र हरिशर्मा ब्राह्मण मिथ्यात्वके कारण ज्योतिष लोकमें उत्पन्न हुआ है अतः वह उसे समीचीन जैनधर्म धारण करानेके लिए आया ॥ ५९-६४ ॥ हरिशर्माके जीवको देखकर दृढप्राहीके जीवने कहा कि तुम मिथ्यात्वके कारण इस तरह निन्द्यपर्यायमें उत्पन्न हुए हो और

१. प्राप्तोऽ-ल० । २ स भूत-ल० । ३ सुषी ल० । ४ सुखमाप सः ख० । ५ कौशल्याख्ये क०, घ० ।

६ कान्यकुञ्ज ल० । ७ परताख्यस्य क०, घ० । ८ निर्वेदात्तापसो म०, ल० । ९ ज्योतिषां क०, घ०, ज्योतिषे ल० । १० उत्कृष्टशुद्ध ल० ।

तस्मादुपेहि मोक्षस्य मार्गमित्यब्रवीत्ततः । तापसानां तपः कस्मादशुद्धमिति संशयात् ॥ ६६ ॥  
 भन्वयुक्तं स तं सोऽपि दर्शयाम्येहि भूतलम् । इत्यन्योन्यं समालोक्य कीचकद्वन्द्वतागतौ ॥ ६७ ॥  
 जमदग्निमुनेर्दीर्घं १ इमश्वाश्रयमुपाश्रितौ । काञ्चित् कालकलां स्थित्वा सद्दृष्टिः सुरकीचकः ॥ ६८ ॥  
 समभाषत मायाशो ज्योतिष्कामरकीचकीम् । एतद्वनान्तरं गत्वा प्रत्यायास्याम्यहं प्रिये ॥ ६९ ॥  
 प्रतीक्षस्वान्न मां स्थित्वेत्यसौ चाहागमं तव । न श्रद्धामि मे देहि शपथं यदि यास्यसि ॥ ७० ॥  
 इत्यतः सोऽब्रवीद् ब्रूहि पातकेषु किमिच्छसि । पञ्चसु त्वमहं तस्मिन् दास्यामि तदिति स्फुटम् ॥ ७१ ॥  
 साप्याह तेषु मे वान्छा कस्मिंश्चिन्नैव देहि मे । तापसस्यास्य यास्यामि गतिं नैव्याम्यहं यदि ॥ ७२ ॥  
 इतीमं शपथं गन्तुं मुञ्चामि त्वां प्रियेति २ ताम् । तच्छ्रुत्वा कीचकः प्राह मुक्त्वेन किञ्चिद्विप्सितम् ॥ ७३ ॥  
 ब्रूहान्यमिति तद्द्वन्द्वसंवादां स तापसः । श्रुत्वा क्रोधेन सन्तप्तो विधूर्णितविलोचनः ॥ ७४ ॥  
 हस्ताभ्यां हन्तुमु ३ त्कोर्थाद् गृहीत्वा निश्चलं द्विजौ । मद्दुद्धं रतपः प्राप्य भाविलोकोऽनभीप्सितः ॥ ७५ ॥  
 युवाभ्यां केन तद्दायमि ४ त्याहातः खगोऽब्रवीत् । मागमः कोपमेतेन सौजन्यं तव नश्यति ॥ ७६ ॥  
 ५ यदातञ्जनतक्रेण पयोऽल्पेन न किं क्षतिम् । शृणुने दुर्गतिर्हेतुं चिरं घोरं तपस्यतः ॥ ७७ ॥  
 कौमारब्रह्मचारित्वं तत्र सन्तान्तिविच्छिदे । सन्तानघातिनः पुंसः का गतिर्नरकाद्विना ॥ ७८ ॥  
 अपुत्रस्य गतिर्नास्तीत्यापं किं न त्वया श्रुतम् । कुतोऽविचारयन्नो वं क्लिश्नासि जडधीरिति ॥ ७९ ॥

मैं सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देवपर्यायको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ६५ ॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दर्शन है उसे धारण करो। जब दृढ़प्राहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्यों है ? उसने भी कहा कि तुम पृथिवी तलपर चलो मैं सब दिग्वाता हूँ। इस प्रकार सलाहकर दोनोंने चिड़ा और चिड़ियाका रूप बना लिया ॥ ६६-६७ ॥ पृथिवीपर आकर वे दोनों ही जमदग्नि मुनिकी बड़ी-बड़ी दौड़ी और मूँछमें रहने लगे। वहाँ कुछ समयतक ठहरनेके बाद मायाको जाननेवाला सम्यग्दृष्टि चिड़ाका जीव, चिड़ियाका रूप धारण करनेवाले ज्योतिषी देवसे बोला कि हे प्रिये ! मैं इस दूसरे वनमें जाकर अभी वापिस आता हूँ मैं जय तक आता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना। इसके उत्तरमें चिड़ियाने कहा कि मुझे तेरा विश्वास नहीं है यदि तू जाता ही है तो सौगन्ध दे जा ॥ ६८-७० ॥ तब वह चिड़ा कहने लगा कि बोल तू पाँच पापोंमेंसे कितने चाहती है मैं तुम्हें उसीकी सौगन्ध दे जाऊँगा ॥ ७१ ॥ उत्तरमें चिड़िया कहने लगी कि पाँच पापोंमेंसे किसीमें मेरी इच्छा नहीं है। तू यह सौगन्ध दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापसकी गतिको प्राप्त होऊँ ॥ ७२ ॥ हे प्रिय ! यदि तू मुझे यह सौगन्ध देगा तो मैं तुम्हें अन्यत्र जानेके लिए छोड़ूँगी अन्यथा नहीं। चिड़ियाकी बात सुनकर चिड़ियाने कहा कि तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मैं उसकी सौगन्ध दूँगा। इस प्रकार चिड़ा और चिड़ियाका वार्तालाप सुनकर वह तापस क्रोधसे संतप्त हो गया, उसकी आँखें घूमने लगीं, उसने क्रूरता वश दोनों पक्षियोंको मारनेके लिए हाथसे मजबूत पकड़ लिया, वह कहने लगा कि मेरे कठिन तपसे जो भावी लोक होने वाला है उसे तुम लोगोंने किस कारणसे पसन्द नहीं किया ? यह कहा जाय। तापसके ऐसा कह चुकनेपर चिड़ियाने कहा कि आप क्रोध न करें इससे आपकी सज्जन्ता नष्ट होता है ॥ ७३-७६ ॥ क्या थोड़ी सी जामिनकी छाँचसे दूध नष्ट नहीं हो जाता ? यद्यपि आप चिरकालसे घोर तपश्चरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गतिका कारण क्या है ? सो सुनिये ॥ ७७ ॥ आप जो कुमार कालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे हैं वह संतानका नाश करनेके लिए है। संतानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती है ? ॥ ७८ ॥ अरे 'पुत्र रहित मनुष्यकी कोई गति नहीं होती' यह आर्षवाक्य—वेदवाक्य क्या आपने नहीं सुना ? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर क्रोश

१ इन्द्रमागतौ ल० । २ दीर्घश्मश्वाश्रा-क०, ख०, घ० । दीर्घं स्मृत्वाश्रय ख० । ३ तम् म०, ल० । ४-मुक्तोपाद् ल० । ५-मित्यहोतः खगोऽ-ल० । ६ (आतञ्जनतक्रेण अमृततक्रेण दुग्धस्य दधिकरणदेवभूत-तक्रेण, इति 'क' पुस्तके टिप्पणी)

धृत्वा तद्वचनं मन्दमिति निश्चिन्य तत्तथा । वधूजनेषु सक्तानाममज्ञानतपसः क्षितिः ॥ ८० ॥  
ममोपकारकावेताविति मुक्त्वा द्विजद्वयम् । वञ्चितोऽगात्कुधीस्ताभ्यां कन्या<sup>१</sup>कुब्जाधिपं प्रति ॥ ८१ ॥  
स्थास्तु नाज्ञानवैराग्यमित्यन्नावोषयश्चिव । इष्ट्वा पारतभूपालमात्ममातुलमन्नपः ॥ ८२ ॥  
आकारेणैव कन्याथांगमनं स<sup>२</sup> निवेदयन् । आसनद्वयमालोक्य सरागासनमास्थितः ॥ ८३ ॥  
निजागमनवृत्तान्तं महीपतिमजीगमन् । तदाकर्ण्य नृपः खेदाद्विग्धिगज्ञानमित्यमुम् ॥ ८४ ॥  
कन्याज्ञतं ममास्त्यत्र या त्वामिच्छति साऽस्तु ते । इत्यवोचदसौ चागात्कन्यकास्तं निरीक्ष्य ताः ॥ ८५ ॥  
अर्द्धदग्धशवं मत्वा तपोदग्धशरीरकम् । जुगुप्सयाऽपलायन्त काश्चित्काश्चिज्जयाहिताः ॥ ८६ ॥  
ब्रीहया पीडितः सोऽपि तास्त्यक्त्वा बालिकां सुताम् । तस्यैवालोक्य मूढात्मा पांसुर्काडापरायणाम् ॥ ८७ ॥  
कदलीफलमादर्यं प्राह मामिच्छतीति ताम् । वाञ्छामीत्यश्रुवत्सा च मामियं वाञ्छतीति ताम्<sup>३</sup> ॥ ८८ ॥  
<sup>४</sup>नृपं निवेद्य संगृह्य समायासीद्वनं प्रति । पदं प्रति जनैर्निन्द्यमानो दीनतमो जडः ॥ ८९ ॥  
<sup>५</sup>रेणुकात्यभिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रवृत्तिर्धर्मं इत्येषा तदा प्रवृत्ति वागभूत् ॥ ९० ॥  
<sup>६</sup>बोधो भ्रद्धा विशेषस्य भेदो वा तपसो यतेः । बाह्याभ्यन्तरनामानौ तावभूतां सुनौ स्तुतौ ॥ ९१ ॥  
इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तौ <sup>७</sup>चन्द्रादित्यसमत्विपौ । कामार्थौ वा जनाभीष्टौ युक्तौ वा नयविक्रमौ ॥ ९२ ॥  
<sup>८</sup>प्रयात्येवं तयोः काले मुनिरन्येद्युरागतः<sup>९</sup> । अरिजयोऽप्रजो गेहं रेणुक्यास्तद्विदक्षया ॥ ९३ ॥

उठा रहे हैं ? ॥ ७६ ॥ उसके मन्द वचन सुनकर उस तापसने उमका पैसा ही निश्चय कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रीजनोंमें आसक्त रहनेवाले मनुष्योंके अज्ञान तपकी यही भूमिका है ॥ ८० ॥  
'ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले हैं' ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियोंको छोड़ दिया । इस प्रकार उन दोनों देवोंके द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्याकुब्ज नगरके राजा पारतकी ओर चला । वह मानो इस बातकी घोषणा ही करता जाना था कि अज्ञान-पूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता । वहाँ अपने मामा पारतको देखकर उस निर्लज्जने अपने आकार मात्रसे ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ । राजा पारतने उसकी परीक्षाके लिए दो आमन रख्ये—एक रागरहित और दूसरा रागसहित । दोनों आसनोंको देखकर वह रागसहित आसन पर बैठ गया ॥ ८१-८३ ॥ उसने अपने आनेका वृत्तान्त राजाके लिए बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत बड़े खेदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिक्कार हो, धिक्कार हो ॥ ८४ ॥ फिर राजाने कहा कि मेरे सौ पुत्रियाँ हैं इनमेंसे जो तुझे चाहेंगी वह तेरी हो जायगी । राजाके ऐसा कहनेपर जमदग्नि कन्याओंके पास गया । उनमेंसे कितनी ही कन्याएँ जिसका शरीर तपसे जल रहा है ऐसे जमदग्निको अधजला मुर्दा मानकर ग्लानिसे भाग गईं और कितनी ही भयसे पीड़ित होकर चली गईं ॥ ८५-८६ ॥ लज्जासे पीड़ित हुआ वह मूर्ख तापस उन सब कन्याओंको छोड़कर धूलिमें खेलनेवाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया और केलाका फल दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है ? लड़कीने कहा कि हाँ चाहती हूँ । तापसने जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुझे चाहती है । इस प्रकार वह लड़कीको लेकर वनकी ओर चला गया । पद-पद पर लोग उसकी निन्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मूर्ख था ॥ ८७-८९ ॥ जमदग्निने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया । उसी समयसे ऐसी प्रवृत्ति—स्त्रियोंके साथ तपश्चरण करना ही धर्म है यह कहावत प्रसिद्ध हुई है ॥ ९० ॥ जिस प्रकार भ्रद्धा विशेषके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं अथवा किसी मुनिराजके तपके बाह्यतप और आभ्यन्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं उसी प्रकार जमदग्निके इन्द्र और श्वेत्रराम नामके दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लांगोंको प्रिय काम और अर्थ ही हों अथवा मिले हुए नय और पराक्रम ही हों ॥ ९१-९२ ॥ इस प्रकार उन दोनोंका

१ कन्यकुब्जा-ल० । २ सन्निवेदयन् क०, ल०, म० । ३ तम् ल० । ४ नृप्यावेद्य ल० । ५ रेणुकात्यभि-  
ल० । ६ बोधो भ्रद्धा विशेषस्य भेदो वा तपसःपते ल० । ७ इन्द्रादित्य ल० । ८ प्रयात्येवं ल० । ९-राययौ ल० ।

१ इष्ट्वा यथोपचारेण मुनिं भर्तृप्रचोदिता । पूज्य ! महानकाले मे दत्तं किं भवता धनम् ॥ ९४ ॥  
 वदेत्याह ततस्तेन मया दत्तं न किञ्चन । इदानीं दीयते भद्रे त्रिजगत्सकपि दुर्लभम् ॥ ९५ ॥  
 गृहाण येन प्राप्तोपि त्वं सुखानां परम्पराम् । सम्यक्त्वं व्रतसंयुक्तं शीलमालासमुज्ज्वलम् ॥ ९६ ॥  
 इत्युक्त्वा काललब्धेव तद्वाचा चोदिता सती । सम्यग्गृहीतमित्याख्यन्मुनीशश्चातिगुष्टवान् ॥ ९७ ॥  
 कामधेनुभिर्धा विद्यामीप्सितार्थप्रदायिनीम् । तस्यै विश्राणयाञ्चक्रे समन्त्रं परशुं च सः ॥ ९८ ॥  
 अथान्यदा ययौ सार्द्धं कृतवीरेण तत्पिता । तपोवनं सनाभित्वाद् भुक्त्वा गन्तव्यमित्यमुम् ॥ ९९ ॥  
 सहस्रबाहुं सम्भाष्य जमदग्निर्भोजयत् । महाराजकुलेऽप्येषा सामग्री नास्ति भोजने ॥ १०० ॥  
 तपोवननिविष्टानामागता भवतां कुतः । इति स्वमातुरनुजामप्राक्षीद्रेणुकीं ३ मिथः ॥ १०१ ॥  
 कृतवीरोऽब्रवीत्साऽपि तद्विद्यालम्भनादिकम् । सोऽपि मोहोदयाविष्टस्तां धेनुमकृतज्ञकः ॥ १०२ ॥  
 होमधेनुरिथं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनैषा न युक्तेति तदुक्त्वा कोपवेगतः ॥ १०३ ॥  
 परार्द्धं यद्भवं लोके तद्योग्यं पृथिवीमुजाम् । न धेनुरीदृशी भोग्या कन्दमूलफलाशिभिः ॥ १०४ ॥  
 ३ इत्यस्या धेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । ४ अवस्थितं पुरस्तात् जमदग्निं महीपतिः ॥ १०५ ॥  
 हत्वा स्वमार्गमुल्लङ्घ्य कुमारगौं भूषुरोन्मुखः ५ । रुदन्तीं ६ रेणुकीं भर्तृमरणात् प्रहतोदरीम् ॥ १०६ ॥  
 अथ पुत्रौ वनात्पुष्पकन्दमूलफलादिकम् । आदायालोक्य सम्प्राप्तौ किमेतदिति विस्मयात् ॥ १०७ ॥

काल मुखसे वीत रहा था । एक दिन अरिञ्जय नामके मुनि जो रेणुकीके बड़े भाई थे उसे देखनेकी इच्छामें उमके घर आये ॥ ९३ ॥ रेणुकीने विनयपूर्वक मुनिके दर्शन किये । तदनन्तर पतिसे प्रेरणा पाकर उमने मुनिसे पूछा कि हे पूज्य ! मेरे विवाहके समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था ? ॥ ९४ ॥ सो कहो, रेणुकीके ऐसा कहने पर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था । हे भद्रे ! अब ऐसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुर्लभ है । तू उसे ग्रहण कर । उस धनके द्वारा तू मुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी । यह कहकर उन्होंने व्रतसे संयुक्त तथा शीलकी माला उज्ज्वल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान किया और काललब्धिके समान उनके वचनोंसे प्रेरित हुई रेणुकीने कहा कि मैंने आपका दिया सम्यग्दर्शन रूपी धन ग्रहण किया । मुनिराज इस बातसे बहुत ही संतुष्ट हुए । उन्होंने मनोवाङ्मिथित पदार्थ देनेवाली कामधेनु नामकी विद्या और मन्त्र सहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान किया ॥ ९५-९६ ॥ किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहस्रबाहु उस तपोवनमें आया । भाई होनेके कारण जमदग्निने सहस्रबाहुसे कहा कि भोजन करके जाना चाहिये । यह कह जमदग्निने उसे भोजन कराया । कृतवीरने अपनी माँकी छोटी बहिन रेणुकीसे पूछा कि भोजनमें ऐसी सामग्री तो राजाओंके घर भी नहीं होती फिर तपोवनमें रहनेवाले आप लोगोंके लिए यह सामग्री कैसे प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया । मोहके उदयसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतवीरने रेणुकीसे वह कामधेनु विद्या माँगी । रेणुकीने कहा कि हे तात ! यह कामधेनु तुम्हारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदग्निकी होमधेनु है अतः तुम्हारी यह याचना उचित नहीं है । रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया । वह क्रोधके वेगसे कहने लगा कि संसारमें जो भी श्रेष्ठ धन होता है वह राजाओंके योग्य होता है । कन्द मूल तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सकती ॥ ९६-१०४ ॥ ऐसा कह कर वह कामधेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके सामने खड़े हो गये । कुमारगामी राजा कृतवीर जमदग्निको मारकर तथा अपना मार्ग उल्लंघकर नगरकी ओर चला गया । इधर कृशोदरी रेणुकी पतिकी मृत्युसे रोने लगी । तदनन्तर उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर वनसे लौटे तो यह सब देख आश्चर्यसे पूछने लगे कि यह क्या है ? ॥ १०५-१०६ ॥ सब बातको ठीक-ठीक समझ कर उन्हें क्रोध आ गया । स्वाभाविक पराक्रमकी धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकसे भरी हुई माताको

१ यष्ट्वा क०, ष० । २ रेणुकाम् ल०, क०, ष० । ३ इत्युक्त्वा म०, ल० । ४ अङ्कस्थितं ल० ।  
 ५ परोन्मुखः क०, ष० । ६ रेणुकां ल० ।

'दृष्ट्वा विज्ञाय तत्सर्वं सकोपौ शोकनिर्भराम् । निर्वाप्य युक्तिमद्भागिभस्तौ नैसर्गिकविक्रमौ ॥ १०८ ॥  
 ध्वजीकृतनिशातोऽप्रपरश्च यमसन्निभौ । गोम्रहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥ १०९ ॥  
 श्रूयते तथथैवास्तां कः सहेत पितुर्वधम् । इत्युक्त्वातुगततोपधिद्वान्मुनिकुमारकौ ॥ ११० ॥  
 तद्गतं मार्गामन्वेत्य साकेतनगरान्तिकम् । सम्प्राप्य कृतसंभ्रामौ कृतवीरेण भूपतिम् ॥ १११ ॥  
 सहस्रबाहुमाहृत्य सायाह्नेऽविक्षतां पुरम्<sup>१</sup> । हालाहलोपमान्याशु<sup>२</sup>घोराहःस्फूर्जितान्यलम् ॥ ११२ ॥  
 फलन्त्यकार्यचर्याणां दुःसहां दुःखसन्ततिम् । सहस्रबाहुसन्ताननिःशेषीकरणोत्सुकम् ॥ ११३ ॥  
 ज्ञात्वा परशुरामीयमभिप्रायं महीपतिः । भूपालचरदेवेन निदानविषदूषितात् ॥ ११४ ॥  
 समुद्भूतेन तपसो महाशुक्रेऽत्र जन्मिना । राज्ञीं सगर्भां चित्रमतीं<sup>४</sup> तां शाण्डिल्यतापसः ॥ ११५ ॥  
 तदग्रजः समादाय गत्वा विज्ञातचर्याया । स सुबन्ध्वाख्यनिर्ग्रन्थमुनेरवेद्यवृत्तकम् ॥ ११६ ॥  
 तत्समीपे निधायार्थं मठे मे नास्ति कश्चन । 'तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्याम्येषाऽत्र तिष्ठतु ॥ ११७ ॥  
 देवीति गतवांस्तस्मात्तद्देवामूत सा सुतम् । तदानीमेव तं तत्र भविष्यद्भरताधिपः ॥ ११८ ॥  
 बालकोऽयमिति ज्ञानास्वीचक्रुर्वनदेवताः । ताभिः प्रपाल्यमानोऽयमनावाधमवर्द्धत ॥ ११९ ॥  
 दिनानि कानिचिच्चीत्वा महीमाक्षिष्य जातवान् । बालकोऽयं कथम्भावी भट्टारक, शुभाशुभम् ॥ १२० ॥  
 अनुगृह्यास्य वक्तव्यमिति देव्यादितो मुनिः । एष चक्री भवेदम्ब वत्सरं षोडशे ध्रुवम् ॥ १२१ ॥  
 साम्रिचुह्रीगतस्थूल<sup>५</sup> किलासघृतमध्यगान् । उष्णान् पूषानुपादाय भक्षयिष्यति बालकः ॥ १२२ ॥

युक्तिपूर्ण वचनोंसे संतुष्ट किया फिर तीक्ष्ण फरशाकां ध्वजा बनानेवाले, यमतुल्य दोनों भाइयोंने परस्पर कहा कि गायके ग्रहणमें यदि मरण भी हो जाय तो वह पुण्यका कारण है ऐसा शास्त्रोंमें सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनों ही भाई चल पड़े । स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये ॥ १०७—११० ॥ राजा सहस्रबाहु और कृतवीर जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप पहुँच गये । वहाँ कृतवीरके साथ संग्रामकर उन्होंने राजा सहस्रबाहुको मार डाला और सायंकालके समय नगरमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि जो अकार्यमें प्रवृत्ति करते हैं उनके लिए हालाहल विषके समान भयंकर पापोंके परिपाक असह्य दुःखोंकी परम्परा रूप फल शीघ्र ही प्रदान करते हैं । इधर रानी चित्रमतीके बड़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका पता चला कि परशुराम, सहस्रबाहुकी समस्त सन्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है और रानी चित्रमती, निदानरूपी विषसे दूषित तपके कारण महाशुक स्वर्गमें उत्पन्न हुए राजा भूपालके जीव स्वरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात् उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भमें आया है । ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला त्यों ही वह बहिन चित्रमतीको लेकर अज्ञात रूपसे चल पड़ा और सुबन्धु नामक निर्ग्रन्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये । 'हे आर्य ! मेरे मठमें कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ जाकर वापिस आऊंगा । जब तक मैं वापिस आऊँ तब तक यह देवी यहाँ रहेगी' यह कहकर वह चित्रमतीको सुबन्धु मुनिके पास छोड़कर अन्यत्र चला गया ॥ १११—११७ ॥

इधर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया । यह बालक भरतक्षेत्रका भावी चक्रवर्ती है यह विचारकर वन-देवताओंने उसे शीघ्र ही उठा लिया । इस प्रकार वन-देवियों जिसकी रक्षा करती हैं ऐसा यह बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा ॥ ११८—११९ ॥ जब कुछ दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन रानीने मुनिसे पूछा कि हे स्वामिन् ! यह बालक पृथिवीका आश्लेषण करता हुआ उत्पन्न हुआ था अतः अनुग्रह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपण कीजिये । इस प्रकार रानीके कहने पर मुनि कहने लगे कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहवें वर्षमें अवश्य ही चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती होनेका यह चिह्न होगा कि यह बालक अभिसे जलते हुए चूल्हेके ऊपर रखी कढ़ाईके घीके मध्यमें

१ दृष्ट्वा ल० । २ पुरीम् ल० । ३ घोराहःस्फूर्जितान्यलम् ल० । ४ चित्रमतीम् ल० । ५ 'तत्र गत्वा संग्राममिष्याम्येषा तत्र तिष्ठतु' ल० । ६ स्थाल ल० । ७ उष्णान् पूषान् समादाय, क०, ग० । उष्णान्-पूषानादाय ल० । उष्णान् पूषानुपादाय ल०, म० ।



अभिज्ञानमिदं भावि चक्रित्वस्यास्य निश्चितम् । तस्मान्मा स्म भयं यासीरिति तामिति दुःखिताम् १२३  
 सुबन्ध्वास्थो भृशं स्वास्थ्यमनैषीत्करणात्मकः । ततस्तदप्रजोऽभेत्स्य तां नीत्वा <sup>१</sup>गृहमात्मनः ॥ १२४ ॥  
 समुद्भूतोऽयमाश्लिष्य भेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति सम्प्राप्त्या चक्रे नाम कृतोत्सवः ॥ १२५ ॥  
 तत्र शास्त्राणि सर्वाणि सप्रयोगाणि सन्ततम् । सोपदेशं समभ्यस्यन् वदन्ते स्म स गोपितः ॥ १२६ ॥  
 अथ तौ रेणुकीपुत्रौ प्रवृद्धोऽप्रपराक्रमौ । त्रिः ससकृत्वो निर्मूलमापाद्य <sup>२</sup>क्षत्रियान्वयम् ॥ १२७ ॥  
 स्वहस्ताखिलभूपालशिरांसि स्थापनेच्छया । शिलास्तम्भेषु सङ्गृह्य वद्वैरौ गुरोर्वधात् ॥ १२८ ॥  
 सार्वभौमीं श्रियं सम्यक् सम्भूयानुबभूवतुः । निमित्तकुशलं नाम्ना कदाचित्स निमित्तवित् ॥ १२९ ॥  
 भवतः शत्रुरूपकः प्रयजोऽत्र विधीयताम् । कः प्रत्ययोऽस्य चेद्वच्मि <sup>३</sup>विध्वस्ताखिलभूभुजाम् ॥ १३० ॥  
 वन्ता यस्याशनं भूत्वा परिणस्यत्यसौ रिपुः । इतीन्द्ररामं राजानं परश्चीनामबुधुधत् ॥ १३१ ॥  
 श्रुत्वा यथावच्चैमिणिकोक्तं चेतसि धारयन् । कृत्वा परशुरामोऽपि दानशालां सुभोजनाम् ॥ १३२ ॥  
 तत्परीक्षार्थमायान्तु येऽत्र <sup>४</sup>विश्वगनार्थिनः । इत्याघोषयति स्मैतत् श्रुत्वा तेऽपि समागमन् ॥ १३३ ॥  
 तेषां पात्रस्थतद्वन्तान् सम्प्रददर्थ्य परीक्षितुम् । तान् भोजयति भूपाले प्रत्यहं स्वनियोगिभिः ॥ १३४ ॥  
 पितुर्मरणवृत्तान्तं स्वमातुरवबुद्धवान् । स्वचक्रेशित्वसम्प्राप्तिकालायानं च तत्त्वतः ॥ १३५ ॥  
<sup>५</sup>सुसिद्धमुनिनिदिष्टसंबृत्तात्मस्वरूपकः । परिव्राजकवेपेण स्वरहस्यार्भवेदिना ॥ १३६ ॥  
 राजपुत्रसमूहेन सुभौमोऽध्यागमत्पुरम् । सभाग्यांश्चोदयत्येव काले कल्याणकृद्भिधिः ॥ १३७ ॥

स्थित गरम गरम पुत्रोंको निकालकर खा लेगा । इसलिए तू किसी प्रकारका भय मत कर । इस-  
 प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु मुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुखी किया ।

तदनन्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया ।  
 यह बालक पृथिवीको छूकर उत्पन्न हुआ था इसलिये शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेमके साथ  
 उसका सुभौम नाम रक्खा ॥ १२०-१२५ ॥ यहाँ पर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग  
 सहित समस्त शास्त्रोंका अभ्यास करना हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥ १२६ ॥ इधर जिनका उम्र  
 पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रेणुकीके दांतों पुत्रोंने इक्कीस चार क्षत्रिय वंशको निर्मूल नष्ट किया  
 ॥ १२७ ॥ पिताके मारे जानेमें जिन्होंने वैर बाँध लिया है ऐसे उन दांतों भाइयोंने अपने हाथसे  
 मारे हुए समस्त राजाओंके शिरोंको एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खम्भोंमें संगृहीतकर रक्खा  
 था ॥ १२८ ॥ इस तरह दांतों भाई मिलकर समस्त पृथिवीकी राज्यलक्ष्मीका अच्छी तरह उपभोग  
 करते थे । किसी एक दिन निमित्तकुशल नामके निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजा इन्द्ररामसे  
 कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिये । इसका विश्वास कैसे हो ? यदि  
 आप यह जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ । मारे हुए राजाओंके जो दांत आपने इकट्ठे किये हैं वे  
 जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे वही तुम्हारा शत्रु होगा ॥ १२९-१३१ ॥ निमित्त-  
 ज्ञानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें विचार किया और उत्तम भोजन करानेवाली  
 दानशाला खुलवाई ॥ १३२ ॥ साथमें यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलाषी यहाँ आवें उन्हें  
 पात्रमें रखे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे । इस प्रकार शत्रुकी परीक्षाके लिए वह  
 प्रतिदिन अपने नियोगियों—नौकरोंके द्वारा अनेक पुरुषोंको भोजन कराने लगा ॥ १३३-१३४ ॥  
 इधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमें उसका चक्र-  
 वर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुबन्धु मुनिके कहे अनुसार उसे  
 अपने गुप्त रहनेका भी सब समाचार विदित हो गया अतः वह परिव्राजकका वेष रखकर अपने  
 रहस्यको समझनेवाले राजपुत्रोंके समूहके साथ अयोध्या नगरकी ओर चल पड़ा सो ठीक ही है  
 क्योंकि कल्याणकारी दैव भाग्यशाली पुरुषोंको समय पर प्रेरणा दे ही देता है ॥ १३५-१३७ ॥ उस

तदा सक्तेवास्तव्यदेवताक्रन्दनं महत् । महीकम्पो दिवा ताराहृष्यादिरभवत्पुरे ॥ १३८ ॥  
 १तथागत्य कुमारोऽसौ शालां भोक्तुमुपागतः । २तमाहूय निवेशयोच्चैरासने हतभूजाम् ॥ १३९ ॥  
 नियुक्ता दर्शयन्ति स्म दन्तास्तस्यानुभावतः । ३ कलभाञ्च तदासंस्ते तद्दृष्ट्वा परिचारिणः ॥ १४० ॥  
 व्यजिज्ञपन्नपुं सोऽपि स धृत्वा नीयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद् भृत्यांस्तेऽपि तं प्राप्य निष्ठुराः ॥ १४१ ॥  
 आहूतोऽसि महीशेन स्वमेढ्राखिल्युदाहरन् । नाहं यूयमिषास्यादां जीविकां तत्तदन्तिकीम् ॥ १४२ ॥  
 किमित्येष्यामि यातेति तर्जितास्तप्रभावतः । भटा भयज्वरग्रस्ता ययुः सर्वे यथायथम् ॥ १४३ ॥  
 भुत्वा परशुरामस्तत्क्रुद्ध्वा सन्नद्धसाधनः । ४समागतस्तदालोक्य सुभौमोऽभिसुखं ययौ ॥ १४४ ॥  
 बलं परशुरामः ५ स्वं तेन योद्धुं ६सहादिशत् । जन्मप्रभृति तत्पाता भरतव्यन्तराधिपः ॥ १४५ ॥  
 रक्षित्वाऽस्याःकुमारं तं तस्मात्तस्याप्रतो बलम् । स्थातुमक्षममालोक्य स्वयं गजमचोदयत् ॥ १४६ ॥  
 सहसैव सुभौमस्याप्यभवद् गन्धवारणः । चक्रं च सच्चिधौ दिव्यं सार्वभौमत्वसाधनम् ॥ १४७ ॥  
 सहस्रदेवतारक्ष्यं किञ्च स्यात् सन्मुखे विधौ । वारणेन्द्रं समारुह्य पूर्वान्द्रिमिव ७ भास्करः ॥ १४८ ॥  
 सहस्रारं करे कृत्वा कुमारश्चक्रमाबभौ । तं दृष्ट्वा रुष्टवान् हन्तुं जामदग्न्योऽभ्युपागमत् ॥ १४९ ॥  
 चक्रेण तं कुमारोऽपि लोकान्तरमजीगमत् । अकरोच्चान्यसैन्यस्य तदैवाभयघोषणाम् ८ ॥ १५० ॥  
 अरेशतीर्थसन्तानकाले द्विशतकोटिषु । स द्वात्रिंशत्सु जातेऽभूत्सुभौमो वत्सरेष्वयम् ॥ १५१ ॥

समय अयोध्या नगरमें रहनेवाले देवता वड़े जोरसे रोने लगे, पृथिवी काँप उठी और दिनमें तारे आदि दिखने लगे ॥ १३८ ॥ सुभौम कुमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दानशालामें पहुँचे तो वहाँके कर्मचारियोंने लुलाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया और मारें हुए राजाओंके संचित दौत दिखलाये परन्तु सुभौमके प्रभावसे वे सब दौत शालि चावलकों भातरूपी हो गये । यह सब देखकर वहाँके परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी । राजाने भी 'उसे पकड़कर लाया जात्र' यह कहकर मजबूत नौकरोंको भेजा । अत्यन्त क्रूर प्रकृतिवाले भृत्योंने सुभौमके पास जाकर कहा कि तुम्हें राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभौमने उत्तर दिया कि मैं तुम लोगोंके समान इससे नौकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊँ ? तुम लोग जाओ' ऐसा कहकर उसने उनकी तर्जना की, उसके प्रभावसे वे सब नौकर भयरूपी ज्वरसे ग्रस्त हो गये और सब यथास्थान चले गये ॥ १३९-१४३ ॥ यह सुनकर परशुराम बहुत क्रुपित हुआ । वह युद्धके मव साधन तैयार कर आ गया । उसे आया देख सुभौम भी उसके सामने गया ॥ १४४ ॥ परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाको आज्ञा दी । परन्तु भरतक्षेत्रके अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर सुभौमकुमारकी रक्षा की थी उसने उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परशुरामकी सेना उसके सामने नहीं ठहर सकी । यह देखकर परशुरामने सुभौमकी ओर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया परन्तु उसी समय सुभौमके भी एक गन्धराज-मदोन्मत्ता हाथी प्रकट हो गया । यही नहीं, एक हजार देव जिसकी रक्षा करते हैं और जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देवोपनीत चक्ररत्न भी पास ही प्रकट हो गया सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सन्मुख रहते हुए क्या नहीं होता ? जिस प्रकार पूर्वाचल पर सूर्य आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ़ होकर सुभौमकुमार निकला । वह हजार आरेवाले चक्ररत्नको हाथमें लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था । उसे देखकर परशुराम बहुत ही क्रुपित हुआ और सुभौमको मारनेके लिए सामने आया ॥ १४५-१४६ ॥ सुभौम कुमारने भी चक्र-द्वारा उसे परलोक भेज दिया—मार डाला तथा बाकी बची हुई सेनाके लिए उसी समय अभय-घोषणा कर दी ॥ १५० ॥

श्री अरनाथ तीर्थकरके बाद दो सौ करोड़ वत्तीस वर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवर्ती

१ तदागत्य म०, ल० । २ समाहूय क०, घ० । ३ शालिभोजनम् । ४ समागतं तदालोक्य म० । समागमं तदालोक्य ल० । ५ परशुरामस्तत्तेन ल० । ६ समादिशत् ख०, ग०, म० । ७ पूर्वैन्द्र इव ल० । ८ घोषणाम् क०, ख०, ग० ।

अभिभूताखिलारतिरष्टमश्चक्रवर्तिषु । समा पष्टिसहस्रापुरष्टाविंशतिचापमः ॥ १५२ ॥  
जातरूपच्छविः श्रीमानिक्ष्वाकुकुलकेसरी । विराजमानो विस्पष्टचक्रादिशुभलक्षणैः ॥ १५३ ॥  
ततो रत्नानि शेषाणि निधयोऽपि नवाभवन् । पट्लण्डस्याधिपत्येन प्रादुरासीत्स चक्रभृत् ॥ १५४ ॥  
चक्रवर्तित्वसम्प्राप्त्यान् भोगान् दशविधांश्चिरम् । अन्वभूदिव देवेन्द्रो दिवि दिव्याननारतम् ॥ १५५ ॥  
अन्येषुः सूपकारोऽस्य नाम्नाऽमृतरसायनः । रसायनाङ्किकामस्मै मुदाऽदादम्बिकां हितः ॥ १५६ ॥  
तन्नामश्रुतिमात्रेण तद्गुणस्याविचारकः । तद्वैरिचोदितः<sup>१</sup> कोपाद् भूपतिस्तमदण्डयत् ॥ १५७ ॥  
सोऽपि तेनैव दण्डेन म्रियमाणोऽतितीव्ररुः । वध्यासं नृपमित्यात्तनिदानः पुण्यलेशतः ॥ १५८ ॥  
ज्योतिर्लोकैःसरो भूत्वा विभङ्गज्ञानवीक्षणः । अनुस्मृत्य रूपा वैरं जिवांसुः स महीपतिम् ॥ १५९ ॥  
जिह्वालोलुपमालक्ष्य सन्धृत्य वणिगाकृतिम् । सुस्वादुफलदानेन प्रत्यहं तमसेवत ॥ १६० ॥  
निष्ठिता विफलानीति कदाचित्तेन भाषितः<sup>२</sup> । आनेतव्यानि तान्येव गत्वेत्याख्यज्ञपोऽपि तम् ॥ १६१ ॥  
आनेतुं तान्यशक्यानि प्राङ्मयाराध्य देवताम् । तद्वनस्वामिनीं दीर्घं लब्धान्येतानि कानिचित् ॥ १६२ ॥  
आसक्तिस्तेषु चेदस्ति देवस्य<sup>४</sup> तद्वनं मया । सह तत्र त्वमायाहि यथेष्टं तानि भक्ष्य ॥ १६३ ॥  
इति प्रलम्भनं तस्य विश्वास्य<sup>५</sup> प्रतिपन्नवान् । राजा प्रक्षीणपुण्यानां विनश्यति विचारणम्<sup>६</sup> ॥ १६४ ॥  
एतद्राज्यं परित्यज्य रसनेन्द्रियलोलुपः । मत्स्यवर्त्किं विनष्टंति मन्त्रिभिर्वारितोऽप्यसौ ॥ १६५ ॥

उत्पन्न हुआ था ॥ १५१ ॥ यह सुभौम समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला था और चक्रवर्तियोंमें आठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार वर्षकी आयु थी, अट्टाईस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान उसकी कान्ति थी, वह लक्ष्मीमान् था, इक्ष्वाकु वंशका सिंह था—शिरोमणि था, अत्यन्त स्पष्ट दिग्बनेवाले चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे मुशोभित था ॥ १५२-१५३ ॥ तदनन्तर बाकीके राजा तथा नौ निधियाँ भी प्रकट हो गई इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ ॥ १५४ ॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग करता रहता है उसी प्रकार सुभौम चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दश प्रकारके भोगोंका चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥ १५५ ॥ सुभौमका एक अमृतरसायन नामका हितैषी रसोइया था उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कढ़ी परोसी ॥ १५६ ॥ सुभौमने उस कढ़ीके गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्रसे वह कुपित हो गया । इसीके बीच उस रसोइयाके शत्रुने राजाको उल्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवश उसने उस रसोइयाको दण्डित किया । इतना अधिक दण्डित किया कि वह रसोइया उस दण्डसे म्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजाको अवश्य मारूँगा । थोड़ेसे पुण्यके कारण वह मरकर ज्योतिर्लोकमें विभङ्गावधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला देव हुआ । पूर्व वैरका स्मरण कर वह क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा ॥ १५७-१५८ ॥ उसने देखा कि यह राजा जिह्वाका लोभी है अतः वह एक व्यापारीका वेष रख मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा ॥ १६० ॥ किसी एक दिन उस देवने कहा कि महाराज ! वे फल तो अब समाप्त हो गये । राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो फिरसे जाकर उन्हीं फलोंको ले आओ ॥ १६१ ॥ उत्तरमें देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा सकते । पहले तो मैंने उस वनकी स्वामिनी देवीकी आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे ॥ १६२ ॥ यदि आपकी उन फलोंमें आसक्ति है—आप उन्हें अधिक पसन्द करते हैं तो आप मेरे साथ वहाँ स्वयं चलिये और इच्छालुसार उन फलोंको खाइये ॥ १६३ ॥ राजाने उसके मायापूर्ण वचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है ॥ १६४ ॥ यद्यपि मन्त्रियोंने उस राजाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़-

१ रसायनाधिकामस्मै म० । रसायनाङ्किकामस्मै ग० । रसायनाभिधामस्मै ल० । २ चोदितस्तस्मात् क०, घ० । ३ भाषिते म०, ल० । ४ भवतः । ५ विश्वस्य ल० । ६ विचारणा ल० ।

तदुक्तमितिलङ्घ्याजः पोतेनागाहताम्बुधिम् । तदा रजानि तद्गोहान् न्यपेतान्यखिलान्यपि ॥ १६६ ॥  
 सहस्रयक्षरक्षाणि प्रत्येकं निधिभिः समम् । तद्विदित्वा वणिवैरी नीत्वा मध्येऽम्बुधिं १ द्विषम् ॥ १६७ ॥  
 स्वप्राग्जन्माकृतिं तस्य प्रकटीकृत्य दुर्वचः । उक्त्वा वैरानुबन्धं च क्रूरश्चित्रवधं व्यवधात् ॥ १६८ ॥  
 सुभौमोऽपि विपद्यान्ते रौद्रध्यानपरायणः । शार्ङ्गीं गतिं समापन्नो दौर्मत्याक्लिप्त जायते ॥ १६९ ॥  
 छोभात्सहस्रबाहुश्च प्राप तिर्यग्गतिं सतुक् । जमदग्निस्तौ हिंसापरतन्त्रौ गतावधः ॥ १७० ॥  
 तत एव त्यजन्त्येतौ रागद्वेषौ मनीषिणः । तस्यागादामुषन्त्यापन्नाप्सन्ति च परं पदम् ॥ १७१ ॥

### वसन्ततिलका

एकोऽपि सिंहसदृशः सकलावनीसो

हत्वा पितुर्वधकृत्तौ जमदग्निसू ।

कीर्त्या स्वया धवलिताऽखिलदिक् सुभौम-

श्चक्री सुदुर्नयवशास्त्रकेऽष्टमोऽभूत् ॥ १७२ ॥

भूपालभूपतिरसह्यतपोविधायी

शुक्लेऽभवन्महति षोडशसागरायुः ।

च्युत्वा ततः सकलचक्रधरः सुभौमो

रामान्तकृष्णरकनायकतां जगाम ॥ १७३ ॥

नन्दिषेणो बलः पुण्डरीकोऽर्द्धभरताधिपः । राजपुत्राविमौ जातौ तृतीयेऽत्र भवान्तरे ॥ १७४ ॥

सुकेवाश्रयशल्येन तपः कृत्वायुपोऽवधौ । भाद्ये कल्पे समुत्पन्न ततः प्रच्युत्य चक्रिणः ॥ १७५ ॥

पश्चात्षट्छतकोऽप्यन्दातीतौ तत्रैव भारते । राजश्चक्रपुराधीशादिश्वाकोर्वरसेनतः ॥ १७६ ॥

कर क्यों नष्ट होते हों तथापि उस मूर्खने एक न मानी । वह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा समुद्रमें जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्येककी एक-एक हजार यज्ञ रक्षा करते थे ऐसे समस्त रत्न निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये । यह जानकर वैश्यका वेष रखनेवाला शत्रु भूतदेव अपने शत्रु राजाको समुद्रके बीचमें ले गया ॥ १६५-१६७ ॥ वहाँ ले जाकर उस दुष्टने पहले जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वचन कह कर पूर्ववद्ध वैरके संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥ १६८ ॥ सुभौम चक्रवर्ती भी अन्तिम समय रौद्रध्यानसे भर कर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धिसे क्या नहीं होता है ? ॥ १६९ ॥ सहस्रबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तिर्यञ्च गतिमें गया और हिंसामें तत्पर रहनेवाले जमदग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अधोगति—नरकगतिमें उत्पन्न हुए ॥ १७० ॥ इसीलिए बुद्धिमान् लोग इन राग-द्वेष दोनोंको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे ही विद्वान् पुरुष वर्तमानमें परमपद प्राप्त करते हैं, भूतकालमें प्राप्त करते थे और आगामी कालमें प्राप्त करेंगे ॥ १७१ ॥ देखो, आठवाँ चक्रवर्ती सुभौम यद्यपि सिंहके समान एक था—अकेला ही था तथापि वह समस्त पृथिवीका स्वामी हुआ । उसने अपने पिताका वध करनेवाले जमदग्निने दोनों पुत्रोंको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाएँ उज्ज्वल कर दी थीं किन्तु स्वयं दुर्नीतिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुआ था ॥ १७२ ॥ सुभौम चक्रवर्तीका जीव पहले तो भूपाल नामका राजा हुआ फिर असह्य तप-तपकर महाशुक्र स्वर्गमें सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेवाला सुभौम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ और अन्तमें नरकका अधिपति हुआ ॥ १७३ ॥

अथानन्तर इन्हींके समय नन्दिषेण बलभद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए हैं । इनमें से पुण्डरीकका जीव तीसरे भवमें सुकेतुके आश्रयसे शल्य सहित तप कर आयुके अन्तमें पहले स्वर्गमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभौम चक्रवर्तीके बाद छह सौ करोड़ वर्ष बीत जन्ते

वैजयन्त्यां बलो देवो लक्ष्मीमत्यामजायत । पुण्डरीकस्तयोरायुः स्रजयस्वैन्निद्रावाञ्चवत् ॥ १७७ ॥  
 षड्विंशतितनूत्सेधौ धनुषां नियतायुषोः । स्वतपःसञ्चितात्पुण्यात्काले यात्यायुषोः सुखम् ॥ १७८ ॥  
 अन्यदोषेन्द्रसेनाख्यमहीडिन्द्रपुराधिपः । पद्मावतीं सुतां स्वस्य पुण्डरीकाय दत्तवान् ॥ १७९ ॥  
 अथ दर्पी दुराचारः सुकेतुः प्राक्तनो रिपुः । निजोपाजितकर्मानुरूपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥  
 भान्वा क्रमेण सञ्चिष्य शुभं तदनुरोधतः । भूत्वा चक्रपुराधीशो वशीकृतवसुधरः ॥ १८१ ॥  
 ग्रीष्मार्कमण्डलाभत्वादसोढा परतेजसाम् । तद्विवाहश्रुतेः क्रुद्धः सन्नद्धाशेषसाधनः ॥ १८२ ॥  
 निशुम्भो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निर्दयः । १ प्रस्थिताखण्डविक्रान्तः पुण्डरीकं जिघांसुकः ॥ १८३ ॥  
 युद्ध्वा बहुविधेनामा तेनोद्यतेजसा चिरम् । तच्चक्राशनिघातेनः घातितासुरयादधः ३ ॥ १८४ ॥  
 तादुभाविव चन्द्रार्कौ संयुक्तौ लोकपालकौ । स्वप्रभाक्रान्तदिक्चकौ पालयित्वा चिरंधराम् ॥ १८५ ॥  
 अविभक्तश्रियौ प्रीतिं परमां प्रापतुः पृथक् । व्याप्तचक्षुर्विशेषौ वा रम्यैकविषयेऽसौ ॥ १८६ ॥  
 तयोर्भवन्नयायात परस्परसमुद्भवात् । प्रेम्णस्तृप्तेरयात्रांशमपि तृप्तिर्नृपत्वजा ४ ॥ १८७ ॥  
 पुण्डरीकश्चिरं भुक्त्वा भोगास्तत्रातिसक्तितः । बध्वायुनारकं घोरं बह्मरभभपरिग्रहः ॥ १८८ ॥  
 प्रान्ते रौद्राभिसन्धानाद्रदमिथ्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रभां ५ भूत्वा प्राविशत्पापपाकवान् ॥ १८९ ॥

पर इसी भरत क्षेत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इन्द्राक्षुवंशी राजा वरसेनकी लक्ष्मीमती रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी वैजयन्तीसे नन्दिषेण नामका बलभद्र उत्पन्न हुआ था । उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छब्बीस धनुषः ऊँचा था, दोनों की आयु नियत थी और अपने तपसे सञ्चित हुए पुण्यके कारण उन दोनोंकी आयुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥ १७४-१७८ ॥ किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा उपेन्द्रसेनने अपनी पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ॥ १७९ ॥ अथानन्तर पहले भवमें जो सुकेतु नामका राजा था वह अत्यन्त अहङ्कारी दुराचारी और पुण्डरीकका शत्रु था । वह अपने द्वारा उपाजित कर्मके अनुसार अनेक भवोंमें धूमता रहा । अन्तमें उसने क्रम-क्रमसे कुछ पुण्यका सञ्चय किया था उसके अनुरोधसे वह पृथिवीको वश करनेवाला चक्रपुरका निशुम्भ नामका अधिपति हुआ । उसकी आभा ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके मण्डलके समान थी । वह इतना तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल ही सहन नहीं करता था । जब उसने पुण्डरीक और पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत ही क्रुपित हुआ । उसने सब सेना तैयार कर ली, वह शत्रुओं को मारने वाला था, नारकियों से भी कहीं अधिक निर्दय था, और अखण्ड पराक्रमी था । पुण्डरीकको मारनेकी इच्छासे वह चल पड़ा । जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाल तक बहुत प्रकारका युद्ध किया और अन्तमें उसके चक्ररूपी वज्रके घातसे निष्पान होकर वह अधोगतिमें गया—नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ ॥ १८०-१८४ ॥ सूर्य चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो लोकपालोंके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिङ्मण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे ॥ १८५ ॥ वे दोनों ही भाई बिना बाँटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम प्रीतिको प्राप्त थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग-अलग रहनेवाले दो नेत्र ही हों ॥ १८६ ॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भवसे चले आये पारस्परिक प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली तृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी । भावार्थ— उन दोनोंका पारस्परिक प्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं अधिक था ॥ १८७ ॥ पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे और उनमें अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया । वह बहुत आरम्भ और परिग्रहका धारक था, अन्तमें रौद्र ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्व रूप भावना भी जागृत हो उठी जिससे मर कर वह पापोद्यसे तमःप्रभा नामक छठवें नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १८८-१८९ ॥

१ प्रस्थिताखण्डविक्रान्तः म०, ल० । २ बहुविधेनासौ तेनोद्यतेजसा ल० । ३ घातितासुः  
 + अयात् + अच इतिच्छेदः । ४ नृपत्वजाम् ल०, म० । ५ क्रीत्वा ल०, म० । कृत्वा क०, घ० ।

हलभृशद्विभोगेन जातनिर्बेग<sup>१</sup>साहयिः । शिवघोषयति प्राप्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥ १९० ॥

स बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं तपः कृत्वा निराकुलः । मूलोत्तराणि कर्माणि निर्मूल्यावाप निर्द्वैतिम् ॥ १९१ ॥

### वसन्ततिलका


जातौ तृतीयजनने धरणीशपुत्रौ

पश्चात्सुरौ प्रथमकल्पगतावभूताम् ।

श्रीनन्दिषेणहलभृत्सुनिशुम्भशत्रुः

षष्ठस्त्रिखण्डधरणीट्सु च पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥

इत्यार्षे त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतेऽरतीर्थकरचक्रधर-सुभौमचक्रवर्तिनन्दि-  
षेणवलदेव-पुण्डरीकाक्षचक्रवर्तिनिशुम्भनामप्रतिशत्रुपुराणं परिसमाप्तं पञ्चषष्ठितनं पर्व ॥ ६५ ॥



उसके वियोगसे नन्दिषेण बलभद्रको बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ उससे प्रेरित हो उसने शिवघोष नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया ॥ १९० ॥ उसने निर्द्वन्द्व होकर बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया और कर्मोंकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १९१ ॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्वर्गमें देव हुए, तदनन्तर एक तो नन्दिषेण बलभद्र हुआ और दूसरा निशुम्भ प्रतिनारायणका शत्रु पुण्डरीक हुआ । यह तीन खण्डके राजाओं—नारायणोंमें छठवाँ नारायण था ॥ १९२ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अरनाथ तीर्थकर चक्रवर्ती, सुभौम चक्रवर्ती, नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और निशुम्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला पैंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥



## षट्पष्टितमं पर्व

मोहमल्लममल्लं यो ब्यजेष्टानिष्टकारिणम् । करीन्द्रं वा हरिः सोऽथं महिः शल्यहरोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
जम्बूपलक्षितं द्वीपमेरोः प्राक् कच्छकावती । विषये वीतशोकाख्यपुरे <sup>१</sup>वैश्रवणाह्वयः ॥ २ ॥  
महावंशो मही तस्य महागुणमहीयसः । कुम्भकारकरालप्रमृत्स्त्रेव वशवतिनी ॥ ३ ॥  
योगस्ताभ्यो महास्तस्य प्रजानां प्रेमकारिणः । ता यस्मादुपयुज्यन्ते कौशदुर्गाबलादिभिः ॥ ४ ॥  
महाभयेषु सन्धर्तुं सञ्चिनोति धनं प्रजाः । धत्ते दण्डं च सन्मार्गं सम्प्रवर्तयितुं स ताः ॥ ५ ॥  
इति प्रबृद्धपुण्यानुभावसम्पादितं श्रियम् । प्रियामिव नवोढां तामुत्प्रीत्यानुभवंश्रिरम् ॥ ६ ॥  
कदाचित्प्रावृद्धारम्भे जृम्भमाणां वनावलीम् । विलोकितुं पुरस्यायादुपशल्यमुदासधीः ॥ ७ ॥  
तत्र शाखोपशाखाः स्वाः प्रसार्येव नृपो महान् । अवगाह्य महीं तस्थौ न्यग्रोधः सेवितो द्विजैः ॥ ८ ॥  
तं विलोक्य महीपालः पश्य पश्यास्य विमृतिम् । तुङ्गत्वं बद्धमूलत्वं वहन्नन्वेति मामयम् ॥ ९ ॥  
दर्शयन्निति <sup>२</sup>साश्रयं प्रियाणां पार्श्ववतिनाम् । गत्वा वनान्तरे भ्रान्त्वा तेनैवायात् <sup>३</sup> पुनः पथा ॥ १० ॥  
आमूलाद् भस्मितं वीक्ष्य वज्रपातेन तं वटम् । कस्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का वात्र विस्तृतिः ॥ ११ ॥  
कस्य का तुङ्गता नाम यद्यस्यार्पादशी गतिः । इति चिन्तां <sup>४</sup>समापन्नः सन्त्रस्तः संसृतिस्थितेः ॥ १२ ॥

जिस प्रकार सिंह किसी हाथीको जीतना है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनेवाले मोहरूपी मल्लको अमल्लकी तरह जीत लिया वे महिनाथ भगवान् हम सबके शल्यको हरण करनेवाले हों ॥ १ ॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर कच्छकावती नामके देशमें एक वीतशोक नामका नगर है उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था । जिस प्रकार कुम्भकारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़े गुणोंसे शोभायमान उस राजाकी समस्त पृथिवी उसके वश रहती थी ॥ २-३ ॥ प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका उपभोग करना था ॥ ४ ॥ वह किसी महाभयके समय प्रजाकी रक्षा करनेके लिए धनका संचय करता था और उस प्रजाको सन्मार्गमें चलानेके लिए उसे दण्ड देता था ॥ ५ ॥ इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लक्ष्मीका वह नव विवाहिता स्त्रीके समान बड़े हर्षसे चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥ ६ ॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमें बढ़ती हुई वनावलीको देखनेके लिए नगरके बाहर गया ॥ ७ ॥ वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर रहता है और अनेक द्विज—ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं उसी प्रकार एक वटका वृक्ष अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर खड़ा था एवं अनेक द्विज—पक्षीगण उसकी सेवा करते थे ॥ ८ ॥ उस वटवृक्षको देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई और बद्धमूलताको धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥ ९ ॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्योंको आश्रयके साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वनमें चला गया और घूमकर फिरसे उसी मार्गसे वापिस आया ॥ १० ॥ लौट कर उसने देखा कि वह वटवृक्ष वज्र गिरनेके कारण जड़ तक भस्म हो गया है । उसे देख कर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी है ? विस्तार किसका है ? और ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत वट वृक्षकी ऐसी दशा हो गई तब दूसरेका क्या विचार हो सकता है ? ऐसा विचार करता हुआ वह संसार की स्थितिसे भयभीत हो गया । उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्वत

१ विश्रवणाह्वयः ग० । २ चाश्रयं ल० । ३ तेनैवायात् पुरः पथा ल० । ४ चिन्तासमापन्नः ल० ।

प्रदाय राज्यं पुत्राय श्रीनागनगवतिनम् । श्रीनागपतिमासाद्य पीतधर्मरसायनः ॥ १३ ॥  
 राजभिर्बहुभिः सार्द्धमवाप्यायुष्कृतं तपः । अङ्गान्येकादशाङ्गानि विधाय विधिना धिया ॥ १४ ॥  
 सम्पाद्य तीर्थं कृत्वा गोत्रं चोपात्तभावनः । तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिग्रहः ॥ १५ ॥  
 सोऽनुत्तरविमानेषु सम्बभूवापराजिते । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रोपमायुर्हस्तोच्छ्रितः कृती ॥ १६ ॥  
 मासान् षोडश मासार्द्धं चातिवाह्यं मनाक् सकृत् । श्वसित्याहारमादत्ते मनसा योग्यपुद्गलान् ॥ १७ ॥  
 प्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्तवत्सराणां व्यतिक्रमे । भोगोऽस्य निःप्रवीचारो लोकनाल्यन्तरावधेः ॥ १८ ॥  
 तत्क्षेत्रमितभासकविक्रियस्यामरेशितुः । तस्मिन् पण्मासशेषायुष्यागमिष्यति भूतलम् ॥ १९ ॥  
 अत्रैव भरते वङ्गविषये मिथिलाधिपः । इक्ष्वाकुर्भूपतिः कुम्भनामा काश्यपगोत्रजः ॥ २० ॥  
 प्रजावती महादेवी तस्य लक्ष्मीरिवापरा । पीयूषाशिकृताचिन्त्यवसुधारादिबैभवा ॥ २१ ॥  
 चैत्रमासे<sup>१</sup> सिते पक्षे निशान्ते प्रतिपद्दिने । अश्विन्यां षोडश स्वप्नान् व्यलोकित्प्रेष्टसूचिनः ॥ २२ ॥  
 तदैव मङ्गलान्युच्चैः पेटुर्मङ्गलपाठकाः । हता प्रभातभेरी च दरनिद्राविघातिनी ॥ २३ ॥  
 प्रबुध्याधिकसन्तोषान्तात्वा मङ्गलवेषष्टक् । पतिं प्रति गता रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥ २४ ॥  
 संसत्कुमुद्वती<sup>३</sup> सा विकासयन्ती स्वतेजसा । आनन्द्यद्विलोक्यैनामधीशोऽप्यासनादिभिः ॥ २५ ॥  
 सुस्थिताऽर्द्धासने सापि स्वप्नांस्तांस्तमवेदयत् । फलान्यमीपां शुश्रूषुः परितोपकरायतः ॥ २६ ॥  
 यथाक्रमं नृपांऽप्युक्त्वा फलं तेषां पृथक् पृथक् । गजवक्त्रप्रवेशावलोकनाद्भर्माश्रितः ॥ २७ ॥  
 तवाहमिन्द्र इत्येनामानयत्प्रमदं परम् । कुर्वन्तस्तद्वचः सत्यं समन्तादमरेश्वराः ॥ २८ ॥

पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनके धर्मरूपी रसायनका पान किया ॥ ११-  
 १३ ॥ अनेक राजाओंके साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपूर्वक ग्यारह अङ्गोंका अध-  
 यन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया, चिरकाल तक  
 तपस्या की और अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर अनुत्तर विमानोंमेंसे अपराजित नामक विमानमें  
 देव पद प्राप्त किया। वहाँ उस कुशल अहमिन्द्रकी तैतीस सागरकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा शरीर  
 था, साढ़े सोलह माह बीत जाने पर वह एक बार थोड़ी-सी श्वास ग्रहण करता था, तैतीस हजार वर्ष  
 बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था, इसका काम-भोग प्रवीचारसे रहित था,  
 लोकनाडी पर्यन्त उसके अविधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति, शक्ति,  
 तथा विक्रिया श्रद्धि थी। इस प्रकार भोगोपभोग करते हुए उस अहमिन्द्रकी आयु जब छह माहकी  
 शेष रह गई और वह पृथिवी पर आनेके लिए सन्मुख हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके वङ्ग देशमें  
 मिथिला नगरीका स्वामी इक्ष्वाकुवंशी, काश्यपगोत्री, कुम्भ नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०॥  
 उसकी प्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। देवोंने उसका रत्न-  
 वृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रकट किया था ॥ २१ ॥ उसने चैत्रशुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके  
 समय अश्विनी नक्षत्रमें इष्ट फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ २२ ॥ उसी समय  
 मङ्गल पढ़ने वाले लोग उच्च स्वरसे मङ्गल पढ़ने लगे और अल्प निद्राका विघात करनेवाली प्रातः-  
 कालकी भेरी बज उठी ॥ २३ ॥ प्रजावती रानीने जागकर बड़े सन्तोषसे स्नान किया, मङ्गलवेष  
 धारण किया, और चन्द्रमाकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है उसी प्रकार वह अपने  
 पतिके पास पहुँची ॥ २४ ॥ वह अपने तेजसे सभारूपी कुमुदिनीको विकसित कर रही थी। राजाने  
 उसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनन्दित किया ॥ २५ ॥ तदनन्तर अर्धासन पर बैठी हुई  
 रानीने वे सब स्वप्न पतिके लिए निवेदन किये—कह सुनाये क्योंकि वह उनसे उन स्वप्नोंका सुख-  
 दायी फल सुनना चाहती थी ॥ २६ ॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे उन स्वप्नोंका पृथक्-पृथक् फल कहकर  
 बतलाया कि चूँकि तूने सुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है अतः अहमिन्द्र तेरे गर्भमें

१ श्वसित्याहार-क०, घ० । २ चैत्रे मासे क०, घ० । ३ संसत् कुमुदिनी क०, घ० । कुमुद्वती ल० ।

४ इत्येता क०, घ० ।



समागत्य तयोः कृत्वा स्वर्गावतरणोत्सवम् । कल्याणभागिनोः<sup>१</sup> पित्रोर्ययुस्तोषात्स्वमाश्रयम् ॥ २९ ॥  
 उमादाबोधं तस्या निर्बाधं भासते स्म तत् । संक्रान्तपूर्णशीतान्द्रुसम्<sup>२</sup> खीनतलोपमम् ॥ ३० ॥  
 सुखेन नवमे मासि पूर्णे पूर्णेन्दुभास्वरम् । विभक्तसर्वावयवं सर्वलक्षणलक्षितम् ॥ ३१ ॥  
<sup>३</sup>मार्गशीर्षसितैकादशीदिनेऽश्विनीसङ्गमे । त्रिज्ञानलोचनं देवं तं प्रासूत प्रजावती ॥ ३२ ॥  
 तदाभृताशिनः सर्वे संप्राप्य प्राप्तसम्भवाः । तेजःपिण्डं समादाय बालं बालार्कसङ्गिभम् ॥ ३३ ॥  
 गत्वाऽचलेशे संस्थाप्य पञ्चमाग्निपयोजलैः । अभिषिच्य विभूष्योच्चैर्मल्लिनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥  
<sup>४</sup>ते पुनस्तं समानीय नामश्रावणपूर्वकम् । मातुरङ्गे<sup>५</sup> व्यवस्थाप्य स्वञ्चिवासान् प्रपदिरे ॥ ३५ ॥  
 भरेशतीर्थसन्तानकालस्यान्ते स पुण्यभाक् । सहस्रकोटिवर्षस्य तदभ्यन्तरजीव्यभूत् ॥ ३६ ॥  
 समानां पञ्चपञ्चाशत् सहस्राण्यस्य जीवितम् । पञ्चविंशतिवाणासनोच्छ्रितैः<sup>६</sup> कनक<sup>७</sup>द्युतैः ॥ ३७ ॥  
 शतसर्वस्वरे चाते कुमारसमये पुरम् । अलत्सितपताकाभिः सर्वत्रोद्बद्धतोरणैः ॥ ३८ ॥  
 चित्ररङ्गवल्लीभिविकीर्णकुसुमोल्करैः । निजिताभोनिधिध्वानैः प्रध्वनत्पटहादिभिः ॥ ३९ ॥  
 मल्लिर्निजविवाहार्थं भूयो धीक्ष्य विभूषितम् । स्मृत्वापराजितं रम्यं विमानं पूर्वजन्मनः ॥ ४० ॥  
 सा वीतरागता प्रीतिरुजिता महिमा च सा । कुतः कुतो विवाहोऽयं सतां लज्जाविधायकः ॥ ४१ ॥

आया है। इधर यह कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्षित कर रहा था उधर उसके वचनोंको सत्य करते हुए इन्द्र सब ओरसे आकर उन दोनोंका स्वर्गावतरण—गर्भकल्याणकका उत्सव करने लगे। भगवान्के माता-पिता अनेक कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी आर्चा कर देव लोग बड़े सन्तोषसे अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ २७-२६ ॥ माताका उदर जिन-बालकको धारण कर बिना किसी बाधाके ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पूर्ण प्रतिविम्ब पड़ रहा है ऐसा दर्पणका तल ही हो ॥ ३० ॥ मुग्वमे नौ मास व्यतीत होने पर रानी प्रजावतीने भगसिर मुद्दी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें उम देवको जन्म दिया जो कि पूर्ण चन्द्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणोंसे युक्त था और तीन ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला था ॥ ३१-३२ ॥ उसी समय हर्षसे भरं हुए समस्त देव आ पहुँचे और प्रातःकाल के सूर्यके समान तेजके पिण्ड स्वरूप उस बालकको लेकर पर्वतराज मुमेरु पर्वत पर गये। वहाँ उन्होंने जिन-बालकको विराजमान कर चीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पहिनाये और मल्लिनाथ नाम रखकर जारसे स्तवन किया ॥ ३३-३४ ॥

वे देवलोग जिन-बालकको वहाँसे वापिस लाये और इनका 'मल्लिनाथ नाम है' ऐसा नाम सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ ३५ ॥

अरनाथ तीर्थकरके बाद एक हजार करोड़ वर्ष बीत जानेपर पुण्यवान् मल्लिनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ॥ ३६ ॥ पचपन हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी ॥ ३७ ॥ कुमारकालके सौ वर्ष बीत जाने पर एक दिन भगवान् मल्लिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चञ्चल सफेद पताकाएँ फहराई गई हैं तो कहीं तोरण बाँधे गये हैं, कहीं चित्र-विचित्र रङ्गावलियों निकाली गई हैं तो कहीं फूलोंके समूह बिखेरे गये हैं और सब जगह समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें पूर्वजन्मके सुन्दर अपराजित विमानका स्मरण आ गया। वे सोचने लगे कि कहीं तो वीतरागतासे उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे प्रकट हुई महिमा और कहीं सजनोंको लज्जा उत्पन्न करनेवाला यह विवाह? यह एक विडम्बना है,

१- भागिनः ल० । २ संमुखे भवं संमुखीनं दर्पणस्तस्य तल्लस्योपमा यम्य तत् । ३ मार्गशीर्षे ल० ।  
 ४ तैः म०, ल० । ५ मासुरङ्गे ल० । ६- नोच्छ्रितः ल० । ७ कनकद्युतिः ल० । ८ प्रीतिरुजिता महिमा च सः  
 ष० । प्रीतिरुजिता महिमा च सा ख०, ग० । प्रीतिरुजितो महिमा च सः क०, म० । प्रीतिस्तज्जाता महिमे  
 च सा ल० ।

विडम्बनमिदं सर्वं प्रकृतं प्राकृतैर्जनैः । निन्दयन्निति निविद्य सोऽभूच्छिक्कमणोद्यतः ॥ ४२ ॥  
 तदा द्युमुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिविस्तराः<sup>१</sup> । अनुमत्य मर्तं तस्थ ययुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ॥  
 तीर्थकृत्स्वपि केषाञ्चिदेवासीदीदृशी मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारे महतामपि ॥ ४४ ॥  
 इति भक्त्या कृतालापा नभोभागे परस्परम् । परनिःक्रान्तकल्याणमहाभिषवणोत्सवम् ॥ ४५ ॥  
 सोत्सवाः प्रापयन्ति स्म कुमारममरेक्षराः । कुमारोऽपि जयन्ताभिधानं यानमधिष्ठितः ॥ ४६ ॥  
 गत्वा श्वेतवनोद्यानमुपवासद्वयान्वितः । स्वजन्ममासनक्षत्रदिनपक्षसमाश्रितः ॥ ४७ ॥  
 कृतसिद्धनमस्कारः परित्यक्तोपधिद्वयः । सायाह्ने त्रिशतैर्भूपैः सह सम्प्राप्य संयमम् ॥ ४८ ॥  
 संयमप्रत्ययोत्पन्नचतुर्थज्ञानभास्वरः<sup>२</sup> । मार्गोऽयमिति सञ्चिन्त्य सम्यग्ज्ञानप्रचोदितः<sup>३</sup> ॥ ४९ ॥  
 मिथिलां प्राविशत्तस्मै नन्दिषेणनराधिपः<sup>४</sup> । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप द्युभ्रद्युतिः शुभम् ॥ ५० ॥  
<sup>५</sup>दिनषट्के गते तस्य छाद्यस्थे प्राफने वने । अधस्तरोरशोकस्य त्वक्काहद्वितयाद् गतेः ॥ ५१ ॥  
 पूर्वाह्ने जन्मनीवाप्राप्त्यस्य सत्सु दिनादिषु । घातित्रितयनिर्णाशाक्केवलावगमोऽभवत् ॥ ५२ ॥  
 बोधिता इव देवेन्द्राः सर्वे ज्ञानेन तेन ते । सम्भूयागत्य तत्पञ्चामकुर्वन् सर्ववेदिनः ॥ ५३ ॥  
 अष्टाविंशतिरस्थासन् विशाखाद्या गणाधिपाः । स्वपञ्चेन्द्रियमानोक्ता मुनयः पूर्वधारिणः ॥ ५४ ॥  
 शून्यत्रितयरन्ध्रप्रोक्तसङ्ख्यानशिक्षकाः । द्विशतद्विसहस्रोक्ततृतीयावगमस्तुताः ॥ ५५ ॥  
 तावन्तः पञ्चमज्ञानाः खट्वाण्ड्येकवादिनः । शून्यद्वयनवद्व्युक्तविक्रियद्विविभूषिताः ॥ ५६ ॥

साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं बुद्धिमान् नहीं । इस प्रकार विवाहकी निन्दा करते हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके लिए उद्यत हो गये ॥ ३८-४२ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर विस्तारके साथ उनकी स्तुति की, उनके दीक्षा लेनेके विचारका अनुमोदन किया और यह सब कर वे आकाश-मार्गसे अदृश्य हो गये ॥ ४३ ॥ अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो तीर्थकरोंमें भी किहीं तीर्थकरोंकी ही ऐसी बुद्धि होती है सो ठीक ही है क्योंकि कुमारवस्थामें विषयोंका त्याग करना महापुरुषोंके लिए भी कठिन कार्य है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार भक्तिपूर्वक आकाश में वार्तालाप करते एवं उत्सवसे भरे इन्द्रोंने मल्लिनाथ कुमारका दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक-महोत्सव प्राप्त कराया—उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा मल्लिनाथ कुमार भी जयन्त नामक पालकी पर आरूढ़ होकर श्वेतवनके उद्यानमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने दो दिनोंके उपवासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास नक्षत्र दिन और पक्षका आश्रय ग्रहण कर अर्थात् अग्रहन सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सार्यकालके समय सिद्ध भगवान्का नमस्कार किया, बाह्याभ्यन्तर—दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर दिया और तीन सौ राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ४५-४८ ॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हो उठे । 'यह सनातन मार्ग है' ऐसा विचार कर सम्यग्ज्ञानसे प्रेरित हुए महामुनि मल्लिनाथ भगवान् पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्दिषेण नामके राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर शुभ पञ्चाश्रयं प्राप्त किये ॥ ४९-५० ॥ छद्मस्थावस्थाके छह दिन व्यतीत हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त वनमें अशोक वृक्षके नीचे दो दिनोंके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया—दो दिनोंके उपवासका नियम ले लिया । वहीं पर जन्मके समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र आदिमें उन्हें प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ५१-५२ ॥ उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर उन सर्वज्ञ भगवान्की पूजा की ॥ ५३ ॥

उनके समयसरणमें विशाखको आदि लेकर अट्टाईस गणधर थे, पाँच सौ पचास पूर्वधारी थे, उचतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सौ पूज्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, एक हजार चार सौ वादी थे, दो हजार नौ सौ विक्रिया ऋद्धिसे विभूषित थे और एक हजार सात सौ

२ विस्तरैः ख०, ग०, फ० । १ भास्करः ल० । २ सम्यग्ज्ञाने प्रचोदितः ल० । ३ नन्दिषेणो नराधिपः ख० । ४ दिने षट्के ल० ।

शून्यपञ्चमुनी<sup>१</sup>न्द्रैकमनःपर्ययबोधनाः । सत्त्वारिंशत्सहस्राणि सर्वे सङ्कलनां श्रिताः ॥ ५७ ॥  
 खग्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता बन्धुपेणादिकायिकाः । श्रावकाः लक्षमाः प्रोक्ताः श्राविकास्त्रिगुणास्ततः<sup>२</sup> ॥ ५८ ॥  
 देवा देव्यस्त्वसङ्ख्याताः<sup>३</sup> गण्या कण्ठीरवादयः । एवं द्वादशभिर्देवो गणैरेभिः परिष्कृतः ॥ ५९ ॥  
 मुक्तिमार्गं नयन् भव्यपथिकान् प्रथितध्वनिः । विजहार महादेशान् भव्यसत्त्वानुरोधतः ॥ ६० ॥  
 ततो मासावशेषायुःसम्मदेदाचलमाश्रितः । प्रतिमायोगमादाय मुनिभिः सह पञ्चभिः ॥ ६१ ॥  
 सहस्रैर्ध्यानमास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः । फाल्गुनोज्ज्वलपञ्चम्यां तनुवातं समाश्रयत् ॥ ६२ ॥  
 कल्पाभिर्वाणकल्याण<sup>४</sup>मन्वेत्यामरनायकाः । गन्धादिभिः समभ्यर्च्य तस्मिन्मपवित्रयत् ॥ ६३ ॥

### मालिनी

जननमृतितरङ्गाद् दुःखदुर्वारिपूर्णा-

दुपचितगुणरञ्जो दुःस्पृहावर्तगर्तात् ।

स कुमतविशुद्ध्याद् ध्याति नावा भवाब्धे-

रभजत भुवनाग्रं<sup>५</sup> विग्रहग्राहमुक्तः ॥ ६४ ॥

### स्वागता

येन शिष्टमुखवर्त्म<sup>१</sup>विमुक्ते-

यं नमन्ति नमिताखिललोकाः ।

यो गुणैः स्वयमधारि समग्रैः

स श्रियं दिशतु मल्लिरशल्यः ॥ ६५ ॥

### द्रुतविलम्बितवृत्तम्

अत्रनि वैश्रवणो धरणीश्वरः

पुनरनुत्तरनाम्न्यपराजिते ।

पचास मनःपर्ययज्ञानी थे । इस प्रकार सव मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ५४-५७ ॥ बन्धुपेणाका आदि लेकर पचपन हजार आर्यिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे और श्राविकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, और सिंह आदि तिर्यञ्च संख्यात थे । इस प्रकार मल्लिनाथ भगवान् इन बारह सभाओंसे सदा मुशोभित रहते थे ॥ ५८-५९ ॥ जिनकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे भगवान् मल्लिनाथने भव्य जीवरूपी पथिकोंको मुक्तिमार्गमें लगाते हुए, भव्य जीवोंके अनुरोधसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें विहार किया था ॥ ६० ॥ जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदाचल पर पहुँचे । वहाँ पाँच हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया और फाल्गुन शुक्ला सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें सन्ध्याके समय तनुवात बलय—मोक्षस्थान प्राप्त कर लिया ॥ ६१-६२ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने स्वर्गसे आकर निर्वाण-कल्याणकका उत्सव किया और गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर उस क्षेत्रको पवित्र बना दिया ॥ ६३ ॥ जिसमें जन्म-मरणरूपी तरङ्गे उठ रही हैं, जो दुःखरूपी खारे पानीसे लबालब भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएँ रूपी भँवर पड़नेके गड्ढे हैं और जो मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता रहता है ऐसे संसार रूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोंका संचय करनेवाले मल्लिनाथ भगवान् शरीररूपी मगर-मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अग्रभाग पर पहुँचे थे ॥ ६४ ॥ जिन्होंने मोक्षका श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, और जो समग्रगुणोंसे परिपूर्ण थे वे शल्य रहित मल्लिनाथ भगवान् तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६५ ॥ जो पहले वैश्रवण नामके राजा हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए और फिर अतिशय

१ मुनीन्द्रुक्त म०, ल० । २ स्मृताः ख०, ग० । ३ संख्याताः गुण्याः म० । ४-मन्वेत्यामर-ल० ।

५ भुवनाग्रे ल० ।

जितखलाखिलमोहमहारिपु-<sup>१</sup>

दिशतु महिरसावतुलं सुखम् ॥ ६९ ॥

महोत्तमस्य सन्तानेऽभूत्पद्मो नाम चक्रमृत् । द्वीपेऽस्मिन् प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छविषये नृपः ॥ ६७ ॥  
 श्रीपुरेशः प्रजापालस्तृतीयेऽजनि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसम्प्रोक्तगुणानामुत्तमाश्रयः ॥ ६८ ॥  
 सुरास्तस्य नाभून्राज्येऽस्यामुक्तिका<sup>२</sup>दिभिः । प्रजानां पञ्चभिर्बाधास्तद्व<sup>३</sup>र्द्धन्त ताः सुखम् ॥ ६९ ॥  
 शक्तिप्रितयसम्पत्त्या<sup>४</sup> शत्रून्निजित्य जित्वरः । विश्रान्तविग्रहो भोगान् धर्मेणार्थेन चान्वभूत् ॥ ७० ॥  
 स कदाचिद् विलोक्योल्कापातं जातावबोधनः । आपातरमणीयत्वमाकलयेष्टसम्प<sup>५</sup>दम् ॥ ७१ ॥  
 स्थास्तुबुद्धया विमुग्धत्वादन्वभूवमिसांश्विरम् । न चेदुल्काप्रपातोऽयं भूयो भ्रान्तिर्भवाणवे ॥ ७२ ॥  
 इत्यारोप्य सुते राज्यं शिवगुप्तजिनेश्वरम् । प्रपद्य परमं पित्सु<sup>६</sup>रयास्तीत्संयमद्वयम् ॥ ७३ ॥  
 समुत्कृष्टाष्टशुद्धीद्वता<sup>७</sup> रुद्धाशुभाश्रवः । क्रमात्कालान्तमासाद्य सुसमाहितमानसः ॥ ७४ ॥  
 निजराज्येन संक्रीतं स्वहस्तप्राप्तमच्युतम् । तुतोप कल्पमालोक्य जितक्रयो हि तुष्यति ॥ ७५ ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमेयायुः प्रान्तेऽसावच्युतधिपः । द्वीपेऽत्र भरते काशी वाराणस्यां महीभुजः ॥ ७६ ॥  
 इक्ष्वाकोः पद्मनाभस्य रामायाश्चाभवत्सुतः । पद्माभिधानः पद्मादिप्रशस्ताशेषलक्षणः ॥ ७७ ॥  
 त्रिंशद्वर्षसहस्रायुर्द्वाविंशतिधनुस्तनुः । सुरसम्प्रार्थ्यकान्त्यादिः कार्तस्वरविभास्वरः ॥ ७८ ॥

दुष्ट मोहरूपी महारिपुको जीतनेवाले तीर्थकर, हुए वे मल्लिनाथ भगवान् तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करें ॥ ६६ ॥

अथानन्तर-मल्लिनाथ जिनेन्द्रके तीर्थमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है वह अपनेसे पहले तीसरे भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरुपर्वतसे पूर्वकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजापाल नामका राजा था। राजाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कहे गये हैं वह उन सबका उत्तम आश्रय था ॥ ६७-६८ ॥ अच्छे राजाके राज्यमें प्रजाको अयुक्ति आदि पाँच तरहकी बाधाओंमेंसे कोई प्रकारकी बाधा नहीं थी अतः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी ॥ ६९ ॥ उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुओंको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे और धर्म तथा अर्थके द्वारा समस्त भोगोंका उपभोग किया था ॥ ७० ॥ किसी समय उल्कापात देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। अब वह इष्ट सम्पत्तियोंको आपात रमणीय—प्रारम्भमें ही मनोहर समझने लगा ॥ ७१ ॥ वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगोंको स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया। यदि आज यह उल्कापात नहीं होता तो संसार-सागरमें मेरा भ्रमण होना ही रहना ॥ ७२ ॥ ऐसा विचार कर उसने पुत्रके लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वरके पास जाकर परमपद पानेकी इच्छासे निश्चय और व्यवहारके भेदसे दोनों प्रकारका संयम धारण कर लिया ॥ ७३ ॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ प्रकारकी शुद्धियोंसे उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने अशुभ कर्मका आस्रव रोक दिया था और क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंको समाधियुक्त किया था ॥ ७४ ॥ वह अपने राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे—पुरुपाथसे प्राप्त हुए अच्युत स्वर्गको देखकर बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्यकी वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य सन्तुष्ट होता ही है ॥ ७५ ॥ वहाँ बाईस सागरकी उसकी आयु थी। वह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर कहीं उत्पन्न हुआ इसका वर्णन करते हैं—

इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक काशी नामक देश है। उसकी वाराणसी नामकी नगरीमें इक्ष्वाकुवंशीय पद्मनाभ नामका राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रीके पद्म आदि समस्त वस्तुओंसे सहिष्णु पद्म नामका पुत्र हुआ था। तीस हजार वर्षकी उसकी आयु थी, बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, वह सुवर्णके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे

१ मोहरिपुविर्षु—ख०, म०, ग० । २ मुक्तिवादिभिः म० । ३ तदवर्द्धन्त म०, ल० । ४ शत्रु' नि-  
 जित्य क०, घ० । ५ संपदाम् म०, ल० । ६ पत्तुमिच्छुः । ७ तपोरुद्धा क०, म० ।

पुण्योद्दयात्क्रमेणाप्य चक्रित्वं विक्रमाजितम् । दशाङ्गभोगाङ्घ्रिःपङ्कमभङ्गानन्वभूषितम् ॥ ७९ ॥  
 पृथिवीमुन्दरीमुख्यास्तस्याष्टौ पुत्रिकाः सतीः । सुकेतुखचराधीशः<sup>१</sup>पुत्रेभ्योऽदात्प्रसन्नवान् ॥ ८० ॥  
 एवं सुखेन<sup>२</sup>कालेऽस्य याति सत्यम्बुदोऽम्बरे । प्रेक्ष्यः प्रमोदमुत्पाद्य सद्योऽसौ विकृतिं ययौ ॥ ८१ ॥  
 तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य तयाप्येयोऽगमल्लयम् । सम्पत्सु सर्वविद्विद्सु का स्थैर्यास्था विवेकिनः ॥ ८२ ॥  
 इति चक्री समालोच्य संयमेऽभून्नतस्तदा । सुकेतुः कुलबृद्धोऽस्य नाम्ना दुश्चरितोऽभवीत् ॥ ८३ ॥  
 राज्यसम्प्राप्तिकालस्ते कनीयान् नवयौवनः । भोगान् भुङ्क्व न कालोऽयं तपसः किं विधीर्भवेः ॥ ८४ ॥  
 केनापि तपसा कार्यं किं ब्रूयाऽऽयासमात्रकम् । नात्र किञ्चित्फलं नैव परलोकश्च कश्चन ॥ ८५ ॥  
 कथन्न परलोकश्चेदभावात्परलोकिनः । पञ्चभूतात्मके काये चेतना मदशक्तिवत् ॥ ८६ ॥  
 पिष्टकिण्वादिसंयोगे तदात्मोक्तिः खपुष्पवत् । ततः प्रेत्योपभोगादिकाङ्क्षा स्वकृतकर्मणः ॥ ८७ ॥  
 वन्ध्यास्तनन्धयस्येव खपुष्पापीडलिप्सनम् । आग्रहोऽयं परित्याज्यो राज्यं कुरु निराकुलम् ॥ ८८ ॥  
 सत्यप्यात्मनि कौमारे सुकुमारः कथं तपः । सहसे निष्टुरं देव<sup>३</sup>पुष्करैरपि दुष्करम् ॥ ८९ ॥  
 इत्युक्तं तदमात्यस्य स श्रुत्वा शून्यवादिनः । रूपादिरूप एवात्र भूतसह्योऽभिलक्ष्यते ॥ ९० ॥  
 सुखदुःखादिसंवेधं चैतन्यं तद्विलक्षणम् । तद्वान् देहादिहान्योऽयं स्वसंविद्यानुभूयते ॥ ९१ ॥

॥७६-७८॥ पुण्यकं उदयसे उसने क्रमपूर्वक अपने पराक्रमके द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्तीपना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाधा रहित दश प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना ही उपभोग किया था ॥ ७६ ॥ उसके पृथिवीमुन्दरीको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंके लिए प्रदान किया था ॥ ८० ॥ इस प्रकार चक्रवर्ती पद्मका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था । एक दिन आकाशमें एक सुन्दर बादल दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको हर्ष उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥ ८१ ॥ उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई शत्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शत्रु हैं ऐसी सम्पत्तियों में विवेकी मनुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ? ॥ ८२ ॥ ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ ही था कि उसी समय उसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी तुम छोटे हो, नवयौवनके धारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं है, व्यर्थ ही निबुद्धि क्यों हो रहे हो ? ॥ ८३-८४ ॥ किसी भी तपसे क्या कुछ कार्य सिद्ध होता है । व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है ॥ ८५ ॥ परलोक क्यों नहीं है यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो, जब परलोकमें रहनेवाले जीवका ही अभाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार आटा और किण्व आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पञ्चभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदार्थ है ऐसा कहना आकाश-पुष्पके समान है । जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कर्मका फल भोगने आदिकी आकांक्षा करना वन्ध्यापुत्रके आकाश-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है । इसलिए यह तप करनेका आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो ॥ ८६-८८ ॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका अस्तित्व मान भी लिया जाय तो इस कुमारावस्थामें जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं जिसे प्रौढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेंगे ? ॥ ८९ ॥ इस प्रकार शून्यवादी मन्त्रीका कहा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसारमें जो पञ्चभूतोंका समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप है—स्पर्श रस गन्ध और वर्ण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है । मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ इत्यादिके द्वारा जिसका वेदन होता है वह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है—पृथक् है । हमारे इस शरीरमें शरीरसे पृथक् चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव होता है और

१ खचराधीशः पुत्रेभ्यो ग०, म०, ल० । २ कालस्य लः० । ३ अति प्रौढः 'पुष्करस्तु पूर्णभेदे' क०, म०, टिप्पण्यम् । दुष्करैः ल० ।

बुद्धिपूर्वक्रियालिङ्गादन्धन्नाप्यनुमीयते । अस्त्यात्मा भाविलोकश्च सत्त्वाद्यातीतसंस्मृतेः ॥ ९२ ॥  
 इहलोकदिपर्यन्तबीक्षणैर्जन्मिनां सताम् । बुद्धिकारणकार्षीं स्तां चैतन्यान्मद्यधीरिव ॥ ९३ ॥  
 इत्यादि युक्तिवादेन चक्री तं शून्यवादिनम् । अद्याप्यात्मास्तितां सम्यक् कृतबन्धुविसर्जनः ॥ ९४ ॥  
 नियोज्य स्वात्मजे राज्यं सुकेत्वादिमहीभुजैः । जिनात्समाधिगुप्ताख्यात्समं संयममाददौ ॥ ९५ ॥  
 विशुद्धिपरिणामानामुत्तरोत्तरभाविनाम् । प्राप्य क्रमेण पर्यन्तं पर्यन्तं प्राप घातिनाम् ॥ ९६ ॥  
 नवकेवललब्धीद्बुद्धिविद्युद्ग्याहतीश्वरः । काले कायत्रयं हित्वा पदेऽभूत्परमेश्वरे ॥ ९७ ॥  
 उदयाद्बोदयादस्य धरणीधरणीमुदः । तानवं तानवं किञ्चित्सम्पदं सम्पदं श्रितः ॥ ९८ ॥  
 नापन्नापन्नभोगेन मामतो मामतोदयाः । सपद्माख्यः सपद्माख्यः सङ्गमः सङ्गमः सताम् ॥ ९९ ॥  
 मन्दराग इवोत्तुङ्गो मन्दरागोऽरिधारिणाम् । राजते राजतेजोभिर्नवमोऽनवमो मुदा ॥ १०० ॥

बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाती है इस हेतुमे अन्य पुरुषोंके शरीरमें भी आत्मा है—जीव है, यह अनुमानसे जाना जाता है । इसलिए आत्मा नामका प्रथक् पदार्थ है यह मानना पड़ता है साथ ही परलोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि अतीत जन्मका स्मरण देखा जाता है ॥ ६०-६२ ॥ जिस प्रकार मदिरापान करनेसे बुद्धिमें जो विकार होता है वह कहाँसे आता है ? पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जीवोंके जो कारण और कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँसे आती है ? पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होती है इसलिए जीवोंका यद्यपि जन्म-मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामान्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादि सिद्ध है । इत्यादि युक्तिवाद्के द्वारा चक्रवर्तिने उस शून्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारको विदा किया, अपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप्त नामक जिनराजके पास जाकर मुकेतु आदि राजाओंके साथ संयम ग्रहण कर लिया—जिन-दीक्षा ले ली ॥ ६३-६५ ॥ उन्होंने अनुक्रमसे आगे-आगे होनेवाले विशुद्धि रूप परिणामोंकी पराकाष्ठाको पाकर घातिया कर्मोंका अन्त प्राप्त किया—घातिया कर्मोंका त्याग किया ॥ ६६ ॥ अब वे नव केवल-लब्धियोंसे देदीप्यमान हो उठा और विशुद्ध दिव्यध्वनिके स्वामी हो गये । जब अन्तिम समय आया तब औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंको छोड़कर परमेश्वर सम्बन्धी पदमें—सिद्ध क्षेत्रमें अधिष्ठित हो गये ॥ ६७ ॥

अनेक मुकुटबद्ध राजाओंसे हर्षित होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिशय सम्पत्तिको प्राप्त हुए चक्रवर्ती पद्मके पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी कुद्ध भी कृशता उत्पन्न नहीं हुई थी ॥ ६८ ॥ "जिन्हें अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं ऐसे पद्म चक्रवर्तीको केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु कीर्तिके साथ-साथ अनेक अभ्युदय भी प्राप्त हुए थे । इस तरह लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनोंके लिए सन् पदार्थोंका समागम प्राप्त करानेवाले हैं ॥ ६९ ॥ जो मन्दराचलके समान उन्नत थे—उदार थे,

१ सम्यक्कृतविसर्जनः म० । २ परमेश्वरे म०, ख० । परमेश्वरः ल० । ३ उदयादुदयात्तस्य क०, घ० ।  
 ४ धरणीधरा राजानः तान् नयन्ति, इति धरणीधरण्यः श्रेष्ठराजा मुकुटबद्धा इति यावत्, तैर्मोदते इति धरणीधरणी-  
 मुद, तस्य । संसदं समोचीनपदवीम्, संपदं सम्पत्तिम्, श्रितः-श्रयतीति श्रिन् तस्य प्राप्तवतः, अश्रय पद्मचक्रवर्तिनः,  
 उदयात्, उत्कृष्टः अयः उदयः श्रेष्ठपुण्यं तस्मात्, तानवं तनोरिदं तानवं शरीरसम्बन्धि, तानवं कार्यं, न उदयात्  
 न उदितं न प्राप्तमिति यावत् । ५ आपन्नभोगेन प्राप्तभोगेन सह, या लक्ष्मीः, केवलम्, न आपत् न प्राप्ता किन्तु  
 मा लक्ष्मीस्तया मता आहता उदया अभ्युदया अपि आपन् प्राप्ताः, यमिति शेषः । पद्मा च आख्या च इति  
 पद्माख्ये ताभ्यां सहितः सपद्माख्यः लक्ष्मीप्रसिद्धिसहितः, मतः पूजितः, संगमयतीति संगमः समोचीनकर्मप्रापकः,  
 पद्म इति आख्या यस्य स पद्माख्यः पद्मनामधेयः, सः चक्रवर्ती, सतां सज्जनानां, संगमः संगमनशीलः, भवत्विति  
 शेषः । ६ मन्दरश्चासवगश्चेति मन्दरागः सुमेरुरिव, उत्तुङ्गः उन्नतः उदाराशयः, मन्दो रागोयस्य मन्दरागः,  
 अलरागयुक्तः, अनासक्त इति यावत्, अरिधारिणाम् श्वराः सन्ति यस्मिन् स श्वरी चक्रं तद् धस्तीति शीला  
 अरिधारिणस्तेषां चक्रवर्तिनाम्, नवमः नवमसंख्याकः, राजतेजोभिः-राजप्रतापैः, अनवमः नान्यः अनवमः श्रेष्ठ  
 इति यावत्, एवम्भूतः पद्मचक्रवर्ती, मुदा हर्षेण, राजते शोभते ॥

मालिनी

प्रथममजनि राजा यः प्रजापालनामा

शमितकरणकृत्या प्रान्तकल्पेश्वरोऽभूत् ।

सबलभरतनाथः शर्मणः सप्त पद्मः

परमपदमवापत्सोऽमलं शं क्रियाशः ॥ १०१ ॥

तीर्थेऽस्मिन्नेव १ सम्भूती सप्तमौ रामकेशवौ । नृतीये तौ भवेऽभूतां साकेते राजपुत्रकौ ॥ १०२ ॥

अप्रियत्वात्पिता त्यक्त्वा तौ स्नेहेन कनीयसे । भ्रात्रे, स्वस्मै ददौ यौवराज्यं पदमकल्पितम् ॥ १०३ ॥

मन्त्रिणैव कृतं सर्वमिदमित्यतिकोपिनौ । अमात्ये बद्धवैरी तौ धर्मतीर्थान्वयानुगौ ॥ १०४ ॥

शिवगुप्तमुनेरन्तेवासितामेत्ये संयमम् । विधाय सुविशालाख्ये सौधर्मोऽमरतां गतौ ॥ १०५ ॥

ततः प्रच्युत्य भूपस्य वाराणस्यां बभूवतुः । इक्ष्वाकुतिलकस्याग्निशिखस्य तनयौ प्रियौ ॥ १०६ ॥

माताऽपराजिता केशवती च क्रमशस्तयोः । नन्दिमिग्राह्यो ज्येष्ठः कनिष्ठो दत्तसंशकः ॥ १०७ ॥

द्वात्रिंशत्त्रययाब्दानौ द्वाविंशतिधनुस्तनू । चन्द्रेन्द्रनीलसङ्काशाववर्द्धतामनुषारौ ॥ १०८ ॥

ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो भ्रान्त्वा संसारसागरे । क्रमेण विजयार्द्धाद्रिमन्दराख्यपुराधिपः ॥ १०९ ॥

२ बलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः । सोऽन्येषुर्बयोर्भद्रक्षीरोदाख्योऽस्ति विभ्रुतः ॥ ११० ॥

महान्ममैव योगयोऽसौ दीयतां गन्धवारणः । इति दर्पात्प्रतिष्ठर्भो ग्राहिणोऽप्रति तौ वचः ॥ १११ ॥

श्रुत्वा तद्वचनं तौ च तेनावाभ्यां सुते स्वयम् । देये चेद्दीपते दन्ती नोचेत्सोऽपि न दीयते ॥ ११२ ॥

मन्दरागके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजसे श्रेष्ठ थे, और चक्रवर्तियोंमें नौवें चक्रवर्ती थे ऐसे पद्म वड़े हर्षसे सुशोभित होते थे ॥ १०० ॥

जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, तदनन्तर समस्त भरत क्षेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका धर पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर परमपदको प्राप्त हुआ ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे ॥ १०१ ॥

अथानन्तर—इन्हीं महिनाथ तीर्थकरके तीर्थमें सातवें बलभद्र और नारायण हुए थे वे अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥ १०२ ॥ वे दोनों पितानेके लिए प्रिय नहीं थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया । यद्यपि छोटे भाईके लिए युवराज पद देवेनाका निश्चय नहीं था फिर भी राजाने उसे युवराज पद दे दिया ॥ १०३ ॥ दोनों भाइयोंने समझा कि यह सब मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर बहुत क्रुपित हुए और उसपर वैर बाँध कर धर्मतीर्थके अनुगामी बन गये । उन्होंने शिवगुप्त मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया । जिससे आयुके अन्तमें मरकर सौधर्म, स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें देव पदको प्राप्त हो गये ॥ १०४-१०५ ॥ वहाँसे च्युत होकर बनारसके राजा इक्ष्वाकुवंशके शिरोमणि राजा अग्निशिखके प्रिय पुत्र हुए ॥ १०६ ॥ क्रमशः अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ थीं । नन्दिमित्र बड़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था ॥ १०७ ॥ बत्तीस हजार वर्षकी उनकी आयु थी । बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, क्रमसे चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका वर्ण था और दोनों ही श्रेष्ठतम थे ॥ १०८ ॥

तदनन्तर—जिसका वर्णन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण कर क्रमसे विजयार्थ पर्वत पर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुआ । किसी एक दिन बाधा डालनेवाले उस बलीन्द्रने अहंकारवश तुम्हारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनोंके पास जो भद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज है वह हमारे ही योग्य है अतः हमारे लिए ही दिया जावे ॥ १०९-१११ ॥ दूतके वचन सुनकर उन दोनोंने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम

१ सम्भूताम् ल० । २ म पुस्तके एवं पाठः 'सोऽन्येषुर्बयोर्भद्र क्षीरोदाख्योऽतिविभ्रुतः । बलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः' ॥ ११० ॥

इति प्रत्याहतुः कर्णकटुकं तदुदीरितम् । समाकर्ण्य बलीन्द्राख्यो बिभ्रत्कालानुकारिताम् ॥ ११३ ॥  
 योद्धुमाभ्यां समं भीमकोपः सन्नद्धवोस्तदा । खगेन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां<sup>१</sup> सुरकान्तारपुःपतिः ॥ ११४ ॥  
 केशवत्या महाभाता सम्मेदादौ सुसाधिते । सिंहपक्षीन्द्रवाहिनी<sup>२</sup> महाविद्ये यथाविधि ॥ ११५ ॥  
 दत्त्वा ताभ्यां कुमारान्यां नाम्ना केसरिविक्रमः । तदीयकार्यसाहाय्यं बन्धुत्वेनावमन्यत ॥ ११६ ॥  
 तयोस्तुमुल्लयुद्धेन<sup>३</sup> बलथोर्बलिनोरभूत् । संग्रामः क्षयकालो वा संहरन् सकलाः प्रजाः ॥ ११७ ॥  
 तत्र मायामये युद्धे बलीन्द्रतनयं क्रुधा ।<sup>४</sup>मुखं शतबलिं मृत्योः स्तीरपाणिरनीनयत् ॥ ११८ ॥  
 बलीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा समुत्पन्नरुपात्मनः । प्रहितं चक्रमु<sup>५</sup>द्विदय केशवं कौशिकोपमम् ॥ ११९ ॥  
 तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणं, बाहुमाश्रितम् । तदेवादाय दत्तोऽपि हत्वा तं तच्छिरोऽग्रहीत् ॥ १२० ॥  
 युद्धान्ते तौ तदा वीरो प्रदत्ताभयघोषणौ । त्रिखण्डधरणीचक्रं सचक्रं चक्रतुः स्वकम् ॥ १२१ ॥  
 चिरं राज्यसुखं भुक्त्वा स्वयुरन्ते स चक्रभृत् । वद्ध्वायुनारकं घोरम<sup>६</sup>वधिस्थानमेयिवान् ॥ १२२ ॥  
 तन्निर्वेदेन रामोऽपि सम्भूतजिनसन्निधौ । द्वाक्षित्वा बहुभिर्भूपैर्भूद्<sup>७</sup>गृहकेवली ॥ १२३ ॥

### स्रग्धरा

जातौ साकेतपुर्यां प्रथितनृपसुतौ तौ समादाय दीक्षां

प्रान्ते सौधर्मकल्पे प्रणिहितमनसौ देवभावप्रयातौ ।

वाराणस्यामभूतां पुरुकुलतिलकौ नन्दमित्रश्च दत्तो

दत्तोऽसौ सप्तमीं क्ष्मां समगमदपरोऽप्याप कैवल्यलक्ष्मीम् ॥ १२४ ॥

दोनोंके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया जा सकता ॥ ११२ ॥ इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र अत्यन्त क्रुपित हुआ । वह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया । उस समय दक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम नामक विद्याधरोके राजाने जो कि दत्ताकी माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्मेदराखर पर विधिपूर्वक सिंहवाहिनी और गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों कुमारोंके लिए दे दी और भाईपना मानकर उनके कार्यमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥ ११३-११६ ॥ तदनन्तर उन दोनोंकी बलवान् सेनाओंका प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयङ्कर संग्राम हुआ ॥ ११७ ॥ बलीन्द्रके पुत्र शतबलि और बलभद्रमें खूब ही मायामयी युद्ध हुआ । उसमें बलभद्रने शतबलिको क्रोधवश यमराजके मुखमें पहुंचा दिया ॥ ११८ ॥ यह देख, बलीन्द्रको क्रोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रके तुल्य नारायणदत्तको लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भुजा पर आ गया । दत्तानारायणने उसी चक्रको लेकर उसे मार दिया और उसका शिर हाथमें ले लिया ॥ ११९-१२० ॥ युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों वीरोंने अभय घोषणा की और चक्र सहित तीनों खण्डोंके पृथिवी-चक्रको अपने आधीन कर लिया ॥ १२१ ॥ चिरकाल तक राज्य मुख भोगनेके बाद चक्रवर्ती—नारायणदत्त, नरकगति सम्बन्धी भयङ्कर आयुका बन्ध कर सातवें नरक गया ॥ १२२ ॥ भाईके वियोगसे बलभद्रको बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १२३ ॥

जो पहले अयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्तमें सौधर्म-स्वर्गमें देव हुए, वहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इक्ष्वाकु वंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए । उनमेंसे दत्त तो मर कर सातवीं भूमिमें गया और नन्दिमित्र

१ दक्षिणश्रेण्यां क०, घ० । २ महाविद्यौ ल० । ३ बलिनोर्बलिनोरभूत् ल० । ४ मुखे म० ।

५-मुद्यम्य ल० । ६-मनधिस्थान-ल० । ७-रभृद्गृह-ल० ।



वसन्ततिलका

मन्त्री चिरं जननवारिनिधौ भ्रमित्वा

पश्चाद् बलीन्द्र इति नामधरः खगोशः ।

दत्ताववासमरणो नरकं दुरन्तं

प्रापगतः परिहरन्वजुबद्धवैरम् ॥ १२५ ॥

इत्थार्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे मल्लितार्थकर-पद्मचक्रि-नन्दिमित्र-  
बलदेव-दत्तनामवासुदेव-बलीन्द्राख्यप्रतिवासुदेवपुराणं परिसमाप्तम् ॥ ६६ ॥

—:ॐ०ॐ:—

कैवल्य-लक्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥ १२४ ॥ मन्त्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीछे बलीन्द्र नामका विद्याधर हुआ और दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें पहुँचा, इसलिए सज्जन पुरुषोंको वैरका संस्कार छोड़ देना चाहिये ॥ १२५ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें मल्लिनाथवार्थकर, पद्मचक्रवर्ती, नन्दिमित्र बलदेव, दत्त नारायण और बलीन्द्र प्रति-  
नारायणके पुराणका वर्णन करने वाला छयासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

—+ + + +—

## सप्तषष्ठितमं पर्व

निवृत्तौ व्रतशब्दार्थो यस्याभूत् सर्ववस्तुषु । देयाङ्गः स व्रतं स्वस्य सुव्रतो मुनिसुव्रतः ॥ १ ॥  
 मृतीये जन्मनीहासीजिनेन्द्रो मुनिसुव्रतः । भारतेऽङ्गाल्यविषये नृपश्चम्पापुराधिपः ॥ २ ॥  
 हरिवर्माभिधोऽन्येधुरथोद्याने जिनेश्वरम् । अनन्तवीर्यनाम्नासावनगारं विवन्द्युः ॥ ३ ॥  
 गत्वात्मपरिवारेण ससपर्यः परीत्य तम् । त्रिः समभ्यर्च्य वन्दित्वा प्राक्षीद्धर्मं सनातनम् ॥ ४ ॥  
 संसारी मुक्त इत्यात्मा <sup>२</sup>द्विधा कर्मभिरष्टभिः । बद्धं संसारिणं प्राहुस्तैर्मुक्तो मुक्त इष्यते ॥ ५ ॥  
 मूलभेदेन तान्यष्टौ ज्ञानावृत्त्यादिनामभिः । ज्ञेयान्युत्तरभेदेन वस्व<sup>३</sup>ब्ध्येकोकसङ्ख्यया ॥ ६ ॥  
 बन्धश्चतुःप्रकारः स्यात्प्रकृत्यादिविकल्पितः । प्रत्ययोऽपि चतुर्भेदो मिथ्यात्वादिजिनोदितः ॥ ७ ॥  
 उदयादिविकल्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसारः पञ्चधा प्रोक्तो द्रव्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥ ८ ॥  
 रोधो गुप्त्यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिर्जरे । तुरीयशुक्लध्यानेन मोक्षः सिद्धस्ततो भवेत् ॥ ९ ॥  
 कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । <sup>४</sup>मुक्तस्यानुलमत्यन्तरायमात्यन्तिकं सुखम् ॥ १० ॥  
 इत्यादि तत्त्वसर्वस्वं भगवांस्तमब्रुवुषत् । स्ववचोरदिमजालेन भग्न्याब्जानां प्रबोधकः ॥ ११ ॥  
 सोऽपि तत्त्वसत्त्वावमवगम्य यथोदितम् । निविद्य संसृतेर्ज्येष्ठपुत्रे राज्यं नियोज्य तत् ॥ १२ ॥  
 ग्रन्थद्वयपरित्यागे पटुश्चटुलमाययौ । संयमं बहुभिः साद्धं मूर्धन्यैरुर्ध्वगामिभिः ॥ १३ ॥  
 अवादीधरदेकादशाङ्गानि गुरुसङ्गमात् । अबध्नातीर्थकृद्गोत्रं श्रद्धाशुद्ध्यादिभावनः ॥ १४ ॥

जिनके नामके व्रत शब्दका अर्थ समी पदार्थोंका त्याग था और जो उत्तम व्रतके धारी थे ऐसे श्री मुनिसुव्रत भगवान् हम सबके लिए अपना व्रत प्रदान करें ॥ १ ॥ भगवान् मुनिसुव्रतनाथ इस भवसे पूर्व तीसरे भवमें इसी भरतक्षेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमें हरिवर्मा नामके राजा थे । किसी एक दिन वहाँके उद्यानमें अनन्तवीर्य नामके निर्ग्रन्थ मुनिराज पधारे । उनकी वन्दना करने की इच्छासे राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री लेकर उनके पास गये । वहाँ उन्होंने उक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, तीन वार पूजा की, तीनवार वन्दना की और तदनन्तर सनातन धर्मका स्वरूप पृच्छा ॥ २-४ ॥ मुनिराजने कहा कि यह जीव संसारी और मुक्तके भेदसे दो प्रकारका है । जो आठ कर्मोंसे बद्ध है उसे संसारी कहते हैं और जो आठ कर्मोंसे मुक्त है—रहित है उसे मुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ उन कर्मोंके ज्ञानावणादि नामवाले आठ मूल भेद हैं और उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं ॥ ६ ॥ प्रकृति आदिके भेदसे बन्धके चार भेद हैं और मिथ्यात्व अविरति कषाय तथा योगके भेदसे प्रत्यय-कर्मबन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेंद्र भगवान्ने कहा है ॥ ७ ॥ उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके भेदसे कर्मोंकी अवस्था चार प्रकारकी होती है तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है ॥ ८ ॥ गुप्ति आदिके द्वारा उन कर्मोंका संवर होता है तथा तपके द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं । चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा मोक्ष होता है और मोक्ष होनेसे यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण कर्मोंका क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है और एकदेश क्षय होना निर्जरा कही जाती है ! मुक्त जीवका जो सुख है वह अतुल्य अन्तरायसे रहित एव आत्यन्तिक-अन्तातीत होता है ॥ १० ॥ इस प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंकी जालसे भव्यजीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले भगवान् अनन्तवीर्य मुनिराजने राजा हरिवर्माको तत्त्वका उपदेश दिया ॥ ११ ॥ राजा हरिवर्मा भी मुनिराजके द्वारा कहे हुए तत्त्वके सद्भावको ठीक-ठीक समझकर संसारसे विरक्त हो गये । उन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्रके लिए देकर बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर दिया और शीघ्र ही

चिरमेवं तपः कृत्वा प्राप्ते स्वाराधनाविधिः । भविष्यत्पञ्चकल्याणः प्राणतेन्द्रोऽभवद्विशुः ॥ १५ ॥  
सागरोपमविंशत्यामितानुः शुक्ललेखकः । साद्वारत्नित्रयोत्सेधो मासैर्दशभिरुच्छ्वसन् ॥ १६ ॥  
संवत्सरसहस्राणां विंशत्यामाहिताहृतिः । मनाग्मनःप्रवीचारभोगोऽष्टद्विसमन्वितः ॥ १७ ॥  
भापञ्चमावनेरात्मगोचरन्यावृतावधिः । तत्क्षेत्रमितशक्त्यादिशिरं तत्रान्वभूत् सुखम् ॥ १८ ॥  
तस्मिन् षण्मासशेषायुष्यागमिष्यति भूतलम् । जन्मगोहाङ्गणं तस्य रत्नवृष्ट्याचितं सुरैः ॥ १९ ॥  
अत्रैव भरते राजा पुरे राजगृहाङ्गये । सुमित्रो मगधाधीशो हरिवंशशिक्षामणिः ॥ २० ॥  
गोत्रेण काश्यपस्तस्य देवी सोमाङ्गया सुरैः । पूजिता श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रावणे दिने ॥ २१ ॥  
स्वप्नान् कृष्णद्वितीयायां स्वर्गावतरणोमुखे । प्राणताधीश्वरेऽपश्यत् षोडशोऽष्टार्थसूचकान् ॥ २२ ॥  
गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविशन्तं प्रभाविनम् । तेनैव परितोषेण प्रबुद्धा शुद्धवेषधृत् ॥ २३ ॥  
नृपमावेदयत्स्वप्नस्तत्फलश्रवणेच्छया । सावधिः सोऽप्यभाषिष्य सम्भृतिं त्रिजगत्पतेः ॥ २४ ॥  
तद्वाक्श्रावणसन्फुल्लमनोबदनपङ्कजा । तदैवायातदेवेन्द्रकृताभिषवणोत्सवा ॥ २५ ॥  
सुरोपनीतभोगोपभोगैः स्वर्गसुखावहैः । नवमं मासमासाद्य सुखेनासूत सुप्रजाम् ॥ २६ ॥  
संवत्सरचतुःपञ्चाशच्छ्रममितं ब्रजन् । मल्लीशतीर्थसन्तानकालान्तर्गतजीवितम् ॥ २७ ॥  
तज्जन्मसमयायातैः स्वदीप्तिग्यासदिङ्मुखैः । मेरौ सुरेन्द्रेः सम्प्राप मुनिसुव्रतसुश्रुतिम् ॥ २८ ॥

स्वर्ग अथवा मोक्ष जानेवाले राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२-१३ ॥ उन्होंने गुरुके समागममे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर गोत्रका बन्ध किया ॥ १४ ॥ इस तरह चिर कालतक तपकर आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक हानेवाले हैं ऐसा प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ ॥ १५ ॥ वहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्र लेश्या थी, साढे तीन हाथ ऊँचा शरीर था, वह दश माहमें एक बार श्वास लेता था, बीस हजार वर्षमें एक बार आहार ग्रहण करता था, मन-सम्बन्धी थोड़ासा कामभोग करता था, और आठ ऋद्धियोंसे सहित था ॥ १६-१७ ॥ पाँचवीं पृथ्वी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा शक्ति आदिका संचार था । इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक सुखका उपभोग करता रहा । जब उसकी आयु छह-साहकी बाकी रह गई और वह वहाँ पृथिवी तलपर आने वाला हुआ तब उसके जन्मगृहके आंगनकी देवोंने रत्नवृष्टिके द्वारा पूजा की ॥ १८-१९ ॥

इसी भरतक्षेत्रके मगधदेशमें एक राजगृह नामका नगर है । उसमें हरिवंशका शिरामणि सुमित्र नामका राजा राज्य करता था ॥ २० ॥ वह काश्यपगोत्री था, उसकी रानीका नाम सोमा था, देवोंने उसकी पूजा की थी । तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रावण नक्षत्रमें जब पूर्वोक्त प्राण-तेन्द्र स्वर्गसे अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अर्थको सूचित करने वाले सोलह स्वप्न देखे और उनके बाद ही अपने मुहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान् हाथी देखा । इसी वर्षसे वह जाग उठी और शुद्ध वेषको धारणकर राजाके पास गई । वहाँ फल सुननेकी इच्छासे उसने राजाको सब स्वप्न सुनाये ॥ २१-२३ ॥ अवधिज्ञानी राजाने बतलाया कि तुम्हारे तीन जगत्के स्वामी जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होगा ॥ २४ ॥ राजाके वचन सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा । उसी समय देवोंने आकर उसका अभिषेकोत्सव किया ॥ २५ ॥ स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय आनन्दसे बीतने लगा । अमुकमसे नवमा माह पाकर उसने सुखसे उत्तम बालक उत्पन्न किया ॥ २६ ॥ श्रीमल्लिनाथ तीर्थकरके बाद जब चौवन लाख वर्ष बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था, इनकी आयु भी इसीमें शामिल थी ॥ २७ ॥ जन्म-समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त करने वाले इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतपर

त्रिंशत्सहस्रवर्षायुश्चापविंशतिसम्मितः । सर्पाशनगलच्छायः सम्पन्नाखिलक्षणः ॥ २९ ॥  
 खट्वेन्द्रियसप्ताङ्गवैः कौमारनिर्गमे । राज्याभिषेकं सम्प्राप्य प्राप्तानन्दपरम्परः ॥ ३० ॥  
 शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्तसंवत्सरपरिक्षये । गर्जद्घनघटाटोपसमये यागहस्तिनः ॥ ३१ ॥  
 वनस्मरणसप्त्यक्तकवलग्रहणं नृपः । निरोद्ध्यावधिनेत्रेण विज्ञानैतन्मनोगतः ॥ ३२ ॥  
 तत्पूर्वभवसंबद्धं कौतूहलवतां नृणाम् । अवोचद् वृत्तिमित्युच्चैः स मनोहरया गिरा ॥ ३३ ॥  
 पूर्वं तालपुराधीशो नाम्ना नरपतिर्नृपः । महाकुलाभिमानादिदुर्लेश्याविष्टचित्तकः ॥ ३४ ॥  
 पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः कुञ्जानमोहितः । दत्त्वा किमिच्छकं दानं तत्फलात्समभूदिभः ॥ ३५ ॥  
 नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं न राज्यं पूज्यसम्पदम् । कुदानस्य च नैःफल्यं वनं स्मरति दुर्मतिः ॥ ३६ ॥  
 तद्वचःश्रवणोत्पन्नस्वपूर्वभवसंस्मृतेः । संयमासंयमं सद्यो जग्राह गजसत्तमः ॥ ३७ ॥  
 तत्प्रत्ययसमुत्पन्नबोधित्स्यागोन्मुखो नृपः । लौकान्तिकैस्तदैवैत्य प्रस्तुतोक्त्या प्रतिश्रुतः ॥ ३८ ॥  
 स्वराज्यं युवराजाय विजयाय वित्तीयं सः । सुरैः सम्प्राप्तनिःक्रान्तिकल्याणद्रुमधीगुणः ( ? ) ॥ ३९ ॥  
 अपराजितनामोरुशिबिकामधिरूढवान् । रूढकीर्तिः क्षरन्मूढिरूढो नरखगा<sup>३</sup>मरैः ॥ ४० ॥  
 प्राप्य पद्मोपवासेन वनं नीलाभिधानकम् । वैशाखे बहुले पक्षे श्रवणे दशमीदिने ॥ ४१ ॥  
 सहस्रभूयैः सायाह्ने सह संयममग्रहीत् । कैश्यमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वदश्वनः ॥ ४२ ॥

ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया और मुनिसुव्रतनाथ यह नाम रखवा ॥ २८ ॥ उनकी आयु तीस हजार वर्षकी थी, शरीरकी ऊंचाई बीस धनुषकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, और स्वयं वे समस्त लक्षणोंसे सम्पन्न थे ॥ २९ ॥ कुमार कालके सात हजार पाँच सौ वर्ष बीत जानेपर वे राज्याभिषेक पाकर आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए थे ॥ ३० ॥ इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार वर्ष बीत गये तब किसी दिन गर्जती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने वनका स्मरण कर ग्रास उठाना छोड़ दिया—खाना पीना बन्द कर दिया । महाराज मुनिसुव्रतनाथ, अपने अश्रुधौलान् रूपी नेत्रके द्वारा देख कर उस हाथीके मनकी सब बात जान गये । वे कुतूहलसे भरे हुए मनुष्योंके सामने हाथीके पूर्वभवसे सम्बन्ध रखने वाला घृत्नान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३१-३३ ॥ पूर्व भवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था, वहाँ अपने उच्च कुलके अभिमान आदि खोटी-गोटी लेश्याओंसे इसका चिन्त सदा घिरा रहता था, वह पात्र और अपात्रकी विशेषतासे अनभिज्ञ था, मिथ्या ज्ञानसे सदा मोहित रहता था । वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है ॥ ३४-३५ ॥ यह हाथी इस समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर रहा है और न कुदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है ॥ ३६ ॥ भगवान्के वचन सुननेसे उस उत्तम हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया इस लिए उसने शीघ्र ही संयमासंयम धारण कर लिया ॥ ३७ ॥ इसी कारणसे भगवान् मङ्गिनाथको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया जिससे वे समस्त परिग्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्युत्सव हो गये । उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारोंका समर्थन किया ॥ ३८ ॥ उन्होंने युवराज विजयके लिए अपना राज्य देकर देवोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥ ३९ ॥ जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, जिनका माहकर्म दूर हो रहा है, और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं ऐसे वे भगवान् अपराजिन नामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥ ४० ॥ नील नामक वनमें जाकर उन्होंने बेलाके उपवासका नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमीके दिन श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । शाश्वतपद-मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करने वाले सौधर्म इन्द्रने सर्वदर्शी भगवान् मङ्गिनाथके बालोंका समूह पञ्चम-

१ सहसान ल०, म० । सर्पाशनः सहसानश्व, उभयोर्मयूरोऽर्थः । २ युवराज्याय ल० । ३ खगाधिपैः क०, घ० । ४ समं म०, ल० ।

शापवर्तं पदमन्विच्छन् प्रापयत्पञ्चमास्तुभिम । अतुर्धावगमः शुद्धमताप्सीन् सोऽप्यलं तपः ॥ ४३ ॥  
समभावनया नृत्यन् नृत्योऽपि तनुसंस्थितेः । कदाचित्पारणाकाले प्रात्याद्राजगृहं पुरम् ॥ ४४ ॥  
प्रदाय प्रासुकाहारं तस्मै चामीकरच्छबिः । नृपो वृषभसेनाख्यः पञ्चाध्वर्यमवापिवान् ॥ ४५ ॥  
मासोनवत्सरे याते छाद्यस्थे स्वतपोवने । चम्पकद्रुममूलस्थो विहितोपोषितद्वयः ॥ ४६ ॥  
स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने । सायाह्ने केवलज्ञानं सद्ब्यानेनोदपादयत् ॥ ४७ ॥  
तदैवागत्य देवेन्द्रास्तत्कल्याणं व्यधुर्मुदा । मानस्तम्भादिविन्यासविविधद्विविभूषितम् ॥ ४८ ॥  
मल्लिप्रभृतयोऽभूवन्नष्टादशगणेशिनः । द्वादशाङ्गधराः पञ्चशतानि परमेष्ठिनः ॥ ४९ ॥  
शिक्षकास्तस्य सद्बन्धाः सहस्राण्येकविंशतिः । भर्तुरष्टशतं प्रान्तसहस्रमवधीक्षणाः ॥ ५० ॥  
तावन्तः केवलज्ञानाः विक्रियद्विसहस्रद्वयः । द्विशतद्विसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥ ५१ ॥  
<sup>१</sup>सहस्राहं सहस्रं तु वादिनां द्विशताधिकम् । <sup>२</sup>सहस्रं पिण्डितास्त्रिशत्सहस्राणि मुनीधराः ॥ ५२ ॥  
<sup>३</sup>पुष्पदन्तादयः पञ्चाशत्सहस्राणि चार्यिकाः । एककाः श्रावकाः लक्ष्याः त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ५३ ॥  
असहस्र्यातो मरुत्सङ्घः सहस्र्यातो द्वादशो गणः । एषां धर्मं ब्रुवन्नायंक्षेत्राणि व्यहरन्धिरम् ॥ ५४ ॥  
विहृत्य मासमात्रायुः सम्मेदाचलमूर्द्धनि । प्रतिमायोगधारी सन् ससहस्रमुनीश्वराः ॥ ५५ ॥  
फाल्गुने श्रवणे कृष्णद्वादश्यां निशि पश्चिमे । भागे हित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिसुप्रतः ॥ ५६ ॥  
कृत्वा पञ्चमकल्याणसपर्यामूर्जितोदयम्<sup>४</sup> । वन्दित्वा सुरवन्दारुवृन्दं यातं यथायथम्<sup>५</sup> ॥ ५७ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

व्याप्तं त्वत्प्रभया सर्वो विजयते नीलोत्पलानां वनं

ध्वान्तं वाक् च मनोगतं ध्रुतवतीमां भानुजां भासुराम् ।

सागर-क्षीरसागर भेज दिया । दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और इस तरह उन्होंने दीर्घकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया ॥ ४१-४३ ॥ यद्यपि वे समभावसे ही तृप्त रहते थे तथापि किसी-दिन पारणाके समय राजगृह नगरमें गये ॥ ४४ ॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले वृषभनेन नामक राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर पञ्चाध्वर्य प्राप्त किये ॥ ४५ ॥ इस प्रकार तत्परण करने हुए जब छद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह वीत चुके तब वे अपने दीक्षा लेनेके वनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने चम्पक वृक्षके नीचे स्थित हो कर दो दिनके उपवासका नियम लिया और दीक्षा लेनेके मास पक्ष नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात् वैशाख कृष्ण नवमीके दिन श्रवण नक्षत्रमें शामके समय उत्तम ध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥ ४६-४७ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर बड़े हर्षसे ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना तथा अनेक ऋद्धियों—सम्पदाओंसे विभूषित समवसरणकी रचना की ॥ ४८ ॥ उन परमेष्ठ्रीके मल्लिकों आदि ले कर अठारह गणधर थे, पांच सौ द्वादशांगके जानने वाले थे, सज्जनोंके द्वारा वन्दना करनेके योग्य इक्कीस हजार शिक्षक थे, एक हजार आठसौ अथर्विज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पांचसौ मनःपर्ययज्ञानी थे, और एक हजार दो सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ४९-५२ ॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर पचास हजार आर्यिकारण थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकारण थीं, संख्यात तिर्यञ्च और असंख्यात देव देवियोंका समूह था । इस तरह उनकी बारह सभाएँ थीं । इन सबके लिए धर्मका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकालतक आर्य क्षेत्रमें विहार किया । विहार करते-करते जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब सम्मेदशिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ५३-५६ ॥ उसी समय श्रेष्ठ देवोंके समूहने आकर पञ्चमकल्याणककी पूजा की, बड़े वैभवके साथ वन्दना की और तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये ॥ ५७ ॥

१ सद्बन्धेन सहस्रं तु क०, घ० । २ पिण्डिताः पिण्डितास्त्रिशत् ल० । ३ पुष्पदन्तादयः ल० । ४-मूर्जितोदयम् ल० । ५ यथायथम् ल० ।

बोधश्चाखिलजं तमो व्यपहरद् प्रपन्नं जगद्भ्रन्दितं,  
 वन्दे तन्मुनिसुव्रतस्य भगवन्सार्द्धं तवेत्रादिभिः ॥ ५८ ॥  
 कार्यं कारणतो गुणं च १ गुणितो भेदं च सामान्यतो  
 वक्ष्येकः पृथगेव कोऽप्यपृथगित्येकान्ततो न द्वयम् ।  
 तत्सर्वं ध्रुते तत्रैव नयसंबोगासतस्त्वं सता-  
 मासोऽभूर्मुनिसुव्रताय भगवस्तुभ्यं नमः कुर्महे ॥ ५९ ॥  
 प्रागासीद्धरिवर्मनामनृपतिर्लब्ध्वा तपो बद्धवान्  
 नामान्यं बहुभावनः शुचिमतिर्यः प्राणतेन्द्रोऽभवत् ।  
 च्युत्वाऽस्मान्मुनिसुव्रतो हरिकुलज्योमामलेन्दुजिनो  
 भूत्वा भव्यकुमुद्वतीं व्यकचयल्लक्ष्मीं प्रदिश्यात्मनः ॥ ६० ॥  
 ततीर्थं एव चक्रेशो हरिषेणसमाह्वयः । स २ तृतीयभवेऽनन्तजिनतीर्थे नृपो महान् ॥ ६१ ॥  
 कृत्वा तपः समुत्कृष्टं कोऽपि केनापि हेतुना । सनत्कुमारकल्पेऽभूत्सुविशालविमानके ३ ॥ ६२ ॥  
 पद्सागरोपमात्मायुर्भुक्त्वा भोगाननारतम् । ततः प्रच्युत्य तीर्थेऽस्मिन् राज्ये भोगपुरेशितुः ॥ ६३ ॥  
 प्रभोरिक्ष्वाकुवंशस्य पद्मनाभस्य भामिनी । ४ ऐराऽनयोः सुतो जातो हरिषेणः सुरोत्तमः ॥ ६४ ॥  
 समायुतमितात्मायुः ५ कनकच्छूरसच्छविः । धनुर्विशतिमानाङ्गः ६ क्रमेणापूर्णयौवनः ॥ ६५ ॥  
 कदाचित्तेन गत्वाऽमा पद्मनाभमहीपतिः ७ । जिनं मनोहरोद्यानेऽनन्तवीर्याभिधानकम् ॥ ६६ ॥  
 अभिवन्द्य ततः श्रुत्वा ८ तत्त्वं संसारमोक्षयोः । सन्त्यज्य ९ राजसीं वृत्तिं शमे स्थातुं समुत्सुकः ॥ ६७ ॥

हे प्रभो! आपके शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील कमलौका वन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्यसे उत्पन्न दीप्तिको पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थोंसे उत्पन्न हुए अज्ञानान्धकारको नष्ट करता है इसलिए हे भगवन् मुनिमुव्रतनाथ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ सब संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूर्यको सदा नमस्कार करना हूँ ॥ ५८ ॥ कोई तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणको और सामान्यसे विशेषको पृथक् बतलाते हैं और कोई एक—अपृथक् बतलाते हैं ये दोनों ही कथन एकान्तवादसे हैं अतः घटित नहीं होते परन्तु आपके नयके संयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन्! सज्जनपुरुष आपको आप्त कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५९ ॥ जो पहले हरिचर्मा नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थकर नाम-कर्मका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिभरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए और वहाँ से आकर जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीर्थकर हांकर भव्यजीवरूपी कुमुदिनियोंको विकसित किया वे श्री मुनिमुव्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६० ॥

इन्हीं मुनिमुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें हरिषेण नामका चक्रवर्ती हुआ। वह अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अनन्तनाथ तीर्थकरके तीर्थमें एक बड़ा भारी राजा था। वह किसी कारणसे उत्कृष्ट तप कर सनत्कुमार स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ। वहाँ निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुव्रत नाथ तीर्थकरके तीर्थमें भोग पुर नगरके स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा पद्मनाभकी रानी ऐराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हुआ ॥ ६१-६४ ॥ दशहजार वर्षकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कच्छूरसके समान उसकी कान्ति थी, चौबीस धनुष ऊंचा शरीर था और क्रम-क्रमसे उसे पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ था ॥ ६५ ॥ किसी एक दिन राजा पद्मनाभ हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे वहाँ अनन्तवीर्य नामक जिनेन्द्र

१ गुणितो ल० । २ तृतीया ल० । ३ सुविशालविमानकः ल० । ४ ऐरा तयोः ल० । ५ कनकच्छूरस ल० । ६ क्रमेण ल० । ७ महामति ल० । ८ तत्त्वे क०, घ०, म० । ९ राजसां ल० ।

१ राज्यभारं समारोप्य सुते भूपतिभिः समम् । बहुभिः संयमं प्रापत्प्रपित्सुः परमं पदम् ॥ ६८ ॥  
हरिषेणोऽप्युपादाय श्रावकव्रतमुत्तमम् । मुक्तेद्वितीयसोपानमिति मत्वाऽविश्वपुरम् ॥ ६९ ॥  
तपस्यतश्चिरं घोरं पद्मनाभमहासुनेः । दीक्षावनेऽभूत्कैवल्यं प्रतिमायोगधारिणः ॥ ७० ॥  
आसंश्रकातपत्रासिदण्डरत्नानि तद्दिने । हरिषेणमहीशस्य तदैवायुधवेशमनि ॥ ७१ ॥  
श्रीगृहे काकिणीचर्ममणिरत्नानि चाभवन् । युगपसुष्टचित्तोऽसौ नत्वा तद्द्वयशंसिने ॥ ७२ ॥  
दत्त्वा तुष्टिधनं प्रायाजिनपूजाविधित्सया । पूजयित्वाभिषन्धौनं जिनं प्रति निवर्त्य सः ॥ ७३ ॥  
पुरं प्रविश्य चक्रस्य कृतपूजाविधिदिशः । जेतुं समुद्यतस्तस्य तदानीमभवत्पुरे ॥ ७४ ॥  
पुरोहितो गृहपतिः स्थपतिश्च चमूपतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्नानि खगात्रैरानयन्खगाः ॥ ७५ ॥  
नदीमुखेषु सम्भूताश्रवापि महतो निर्धीन् । आनिन्धियरे १ स्वयं भक्त्या गणबद्धाभिधाः सुराः ॥ ७६ ॥  
स तैः श्लाघ्यपङ्कजेन बलेन प्रस्थितो दिशः । जित्वा तत्साररत्नानि स्वीकृत्य विजिताखिलः ॥ ७७ ॥  
स्वराजधान्यां संसेव्यः सुरभूपखगाधिपैः । दशाङ्गभोगाञ्जिर्व्यग्रं निविशन् सुचिरं स्थितः ॥ ७८ ॥  
कदाचित्कार्तिके मासे नन्दीश्वरदिनेष्वयम् । कृत्वाऽष्टसु महापूजां सोपवास्तोऽन्तिमे दिने ॥ ७९ ॥  
हर्म्यपृष्ठे सभामध्ये शारदेन्दुरिवाम्बरे । भासमानः समालोक्य राहुप्रासीकृतं विधुम् ॥ ८० ॥  
धिगस्तु संसृतेर्भावं ज्योतिर्लोकैकनायकः । प्रस्तस्तारापतिः कष्टं पूर्णः स्वैर्वेष्टितोऽप्ययम् ॥ ८१ ॥

की वन्दना कर उन्होंने उनसे संसार और मोक्षका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़ कर शान्त वृत्तिमें स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये ॥ ६६-६७ ॥ परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक राजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सौंपा और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ६८ ॥ 'यह मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी है' ऐसा मानकर हरिषेणने भी श्रावकके उत्तम व्रत धारण कर नगरमें प्रवेश किया ॥ ६९ ॥ इधर चिर कालतक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीक्षावनमें ही प्रतिमायोग धारण किया और वहीं उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ७० ॥ उसी दिन राजा हरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खड्ग, और दण्ड ये चार रत्न प्रकट हुए तथा श्रीगृह में काकिणी, चर्म, और मणि ये तीन प्रकट हुए । समाचार देमे वालोंने दोनों समाचार एक साथ सुनाये इसलिए हरिषेणका चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ । वह समाचार सुनानेवालोंके लिए बहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छामें निकला और जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर वहाँसे वापिस लौट नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ चक्ररत्नकी पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगरमें पुरोहित, गृहपति स्थपति, और सेनापति ये चार रत्न प्रकट हुए तथा विद्याधर लोंग विजयार्थ पर्वतसे हाथी घोड़ा और कन्या रत्न ले आये ॥ ७१-७५ ॥ गणबद्धनामके देव नदीमुखों-नदियोंके गिरनेके स्थानोंमें उत्पन्न हुई नौ बड़ी बड़ी निधियाँ भक्ति पूर्वक स्वयं ले आये ॥ ७६ ॥ उसने छह प्रकार की प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, दिशाओं का जीतकर उनके सारभूत रत्न ग्रहण किये, सब पर विजय प्राप्त की और अन्तमें देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजाओंके द्वारा सेवित होते हुए उसने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया । वहाँ वह दश प्रकारके भोगों का निराकुलतासे उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा ॥ ७६-७८ ॥

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्दीश्वर पर्व सम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महा पूजा की और अन्तिम दिन उपवासका नियम ले कर वह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठा था और ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाशमें शरद ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो । वहीं बैठे-बैठे उसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने ग्रस लिया है ॥ ७९-८० ॥ यह देख वह विचार करने लगा कि संसार की इस अवस्थाको धिक्कार हो । देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिर्लोकका मुख्य नायक है, पूर्ण है और अपने परिवारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे ग्रस लिया । जब इसकी यह दशा है तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी क्या दशा होती होगी । इस

अत्र का गतिरन्येषां प्राप्ते कालेऽविलङ्घिनि । विधीं विलसतीत्यारात्निर्वेदो भरताधिपः ॥ ८२ ॥  
 अनुप्रेक्षास्वरूपाख्या मुखेन स्वसभास्थितान् । धर्मसारं निरूप्याशु कृत्वा तत्त्वार्थवेदिनः ॥ ८३ ॥  
 दत्त्वा राज्यं सतां पूज्यो महासेनाय सूनवे । तत्प्राथितेन सन्तर्प्यं दीनानाथवनीपकान् ॥ ८४ ॥  
 श्रीनागजिनमासाद्य समिन्ताचलसुस्थितम् । यथोक्तविधिना त्यक्त्वा सङ्गं व्यङ्गमनङ्गजित् ॥ ८५ ॥  
 बहुभिः सह सम्प्राप्य संयमं शमसाधनम् । क्रमेण प्रासवङ्गद्विरायुरन्ते षतुर्विचाम् ॥ ८६ ॥  
 आराधनां समाराध्य प्रायोपगमनं श्रितः । क्षीणपापः कृपाभूतिरापान्तिममनुत्तरम् ॥ ८७ ॥  
 भूपः कोऽपि पुरा श्रिया श्रितवपुः पापोपलेनाद् भृशं  
 बिभ्वत्प्राप्य तपो भवस्य शरणं मत्वा तृतीयेऽभवत् ।  
 कल्पेऽन्ते भुवमेत्य चक्रिपदवीं सम्प्राप्य भुक्त्वा सुखं  
 स श्रीमान् हरिपेणराजवृषभः सर्वार्थसिद्धिं ययौ ॥ ८८ ॥  
 तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूतावष्टमौ रामकेशवौ । रामलक्ष्मणनामानौ तत्पुराणं निगद्यते ॥ ८९ ॥  
 इहैव भारते क्षेत्रे राष्ट्रे मलयनामनि । प्रजापतिमहाराजोऽजनि रत्नपुराधिपः ॥ ९० ॥  
 तुक् तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचूलसमाह्वयः । विजयाख्येन तस्यासीत्सम्प्रीतिर्मन्त्रिसूनुना ॥ ९१ ॥  
 पितृसल्लालितौ बालौ कुलादिमदचोदितौ । अभूतां दुष्टचारिभ्रौ दन्तिनौ वा निर्वर्तिनौ ॥ ९२ ॥  
 अन्येषुस्तल्पुरे गौतमा-वैश्रवणसम्भव । श्रीदत्ताख्याय मुख्याय कुबेरेणात्मजां सतीम् ॥ ९३ ॥  
 दीयमानां समालोक्य पाण्यग्भःसेकपूर्वकम् । कुबेरदत्तां केनाऽपि महापापविधायिना ॥ ९४ ॥

प्रकार चन्द्रग्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिपेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने अनुप्रेक्षाओंके स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी सभामें स्थित लोगोंको श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप बतलाया और शीघ्र ही उन्हें तत्त्वार्थका ज्ञाता बना दिया ॥ ८१-८३ ॥ सत्पुरुषोंके द्वारा पूजनीय हरिपेणने अपने महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवाञ्छित पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट किया । तदनन्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्त पर्वतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर विविध प्रकारके परिग्रहका विधिपूर्वक त्याग कर दिया । उसने अनेक राजाओंके साथ शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त कीं और आयुके अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएं आराध कर प्रायोपगमन नामक संन्यास धारण कर लिया । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्ति स्वरूप हैं ऐसा वह चक्रवर्ती अन्तिम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ ॥ ८४-८७ ॥ श्रीमान् हरिपेण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मीसे आलिङ्गित था ऐसा कोई राजा था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप धारण कर लिया जिससे तृतीय स्वर्गमें देव हुआ, फिर आयुके अन्तमें वहाँसे पृथिवीपर आकर हरिपेण चक्रवर्ती हुआ और सुख भोगकर सर्वार्थ-सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ ॥ ८८ ॥

अथानन्तर—इन्हीं मुनिमुत्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें राम और लक्ष्मण नामके आठवें बल-भद्र और नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है ॥ ८९ ॥ उसी भरतक्षेत्रके मलय नामक राष्ट्रमें रत्नपुर नामका एक नगर है । उसमें प्रजापति महाराज राज्य करते थे ॥ ९० ॥ उनकी गुणकान्ता नामकी स्त्रीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था । उन्हीं प्रजापति महाराजके मंत्रीका एक विजय नामका पुत्र था । चन्द्रचूल और विजयमें बहुत भारी झंझ था । ये दोनों ही पुत्र अपने-अपने पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाड़से उनका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमंड सदा उन्हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दुर्दान्त हाथियोंके समान दुराचारी हो गये थे ॥ ९१-९२ ॥ किसी एक दिन इसी नगरमें रहनेवाला कुबेर सेठ, उसी नगरमें रहने वाले वैश्रवण सेठकी गोतमा स्त्रीसे उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेरदत्ता नामकी



तस्याः स्वानुचरेणोक्ता भ्रुत्वा रूपादिसम्पदम् । कुमारे तां स्वसाल्कृतुं सह मित्रे समुद्यते ॥ ९५ ॥  
वणिकसङ्घसमाक्रोशध्वनिमाकर्ण्य भूपतिः । स्वतनूजदुराचारदारुण्यत्कांपपावकः ॥ ९६ ॥  
पुररक्षकमाहूय दुरात्मानं कुमारकम् । लोकान्तरातिथिं सद्यो विधेहीति समादिशन् ॥ ९७ ॥  
तदैव सोऽपि राजाश्चाचोदितस्तुमुलाह्वये । जीवग्राहं गृहीत्वैनमानयसिकटं विभोः ॥ ९८ ॥  
तदालोक्य किमित्येव पापीहानीयते द्रुतम् । निशातशूलमारोप्य श्मशाने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥  
राज्ञोक्ते प्रस्थितो हन्तुं कुमारं पुररक्षकः । न्यायानुवर्तिनां युक्तं न हि स्नेहानुवर्तनम्<sup>१</sup> ॥ १०० ॥  
तदामात्योत्तमः पौरान्पुरस्कृत्य महीपतिम् । व्यजिज्ञपदिति व्यक्तमुक्त्वात्तरकुड्मलः ॥ १०१ ॥  
कृत्याकृत्यविवेकोऽस्य<sup>२</sup> न बाल्यादेव विद्यते । प्रमादोऽस्माकमेवायं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥ १०२ ॥  
न दान्तोऽयं नृभिर्दन्तीं शैशवे चेद् यथोचितम् । प्राप्तैश्वर्यो न किं कुर्यादसौ दर्पग्रहाहितः ॥ १०३ ॥  
न बुद्धिमान् न दुर्बुद्धिर्न बधं दण्डमर्हति । आहार्यबुद्धिरेपोऽतः शिक्षणीयोऽधुनाप्यलम् ॥ १०४ ॥  
न कोपोऽस्मिस्तवास्थेव<sup>३</sup> न्यायमार्गं निनीषया । निगृह्णास्येक एवायं राज्यसन्ततिसंभृतौ<sup>४</sup> ॥ १०५ ॥  
अन्यत्संभित्ततोऽप्राप्त्यप्रच्युतं तदिति श्रुतिः । सा तवाद्य समायाति सन्तानोच्छेदकारिणः ॥ १०६ ॥  
एतत्पूकारतो ज्येष्ठं तनूजमवधीन्नुपः । इत्यवाच्यभयप्रस्ताः पौराश्चैते पुरःस्थिताः ॥ १०७ ॥  
तत्क्षमस्वापरार्थं मे महीशप्रार्थितोऽस्यमुम् । एतन्मन्त्रिवचः श्रुत्वा विरूपकमुदीरितम् ॥ १०८ ॥

पुत्री दे रहा था । उसी समय महापापके करने वाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कुबेर-  
दत्तके रूप आदिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्याको बलपूर्वक  
अपने आधीन करनेके लिए तत्पर हो गया ॥ ९३-९५ ॥ यह देख, वैश्योंका समूह चिह्लाता हुआ  
महाराजके पास गया । उसके रोने-चिह्लानेका शब्द सुनते ही महाराजकी क्रोधाग्नि अपने पुत्रके  
दुराचाररूपी इन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी । उन्होंने नगरके रक्षकको बुलाकर आज्ञा दी कि इस  
दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो—मार डालो ॥ ९६-९७ ॥ उसी समय  
राजाज्ञामे प्रेरित हुआ नगररक्षक बहुत भारी भीड़मेंसे इस राजकुमारको जीवित पकड़कर महाराजके  
समीप ले आया ॥ ९८ ॥ यह देख राजाने विचार किया कि इस पापीको शीघ्र ही किसप्रकार मारा  
जाय ? कुछ देर तक विचार करनेके बाद उन्होंने नगररक्षकको आदेश दिया कि इसे श्मशानमें ले  
जाकर पत्नी शूलीपर चढ़ा दो ॥ ९९ ॥ राजाके कहते ही नगररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल  
दिया । सो ठीक ही है क्योंकि न्यायके अनुसार चलने वाले पुरुषोंको स्नेहका अनुसरण करना उचित  
नहीं है ॥ १०० ॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरवासियोंको आगे कर राजाके समीप गया  
और हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥ १०१ ॥ हे देव ! इसे कार्य  
और अकार्यका विवेक बाल्य-अवस्थासे ही नहीं है, यह हमलोगोंका ही प्रमाद है क्योंकि माता-  
पिताके द्वारा ही बालक सुशिक्षित और सदाचारी बनाये जाते हैं ॥ १०२ ॥ यदि हाथीको बाल्या-  
वस्थामें यथायोग्य रीतिसे वशमें नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्योंके द्वारा वशमें नहीं किया  
जा सकता; यही हाल बालकोंका है । यदि ये बाल्यावस्थामें वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर  
ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर अभिमानरूपी ग्रहसे आक्रान्त हो क्या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं  
॥ १०३ ॥ यह कुमार न तो बुद्धिमान् है और न दुर्बुद्धि ही है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं  
है । अभी यह आहार्य बुद्धि है—इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह  
शिक्षा देना चाहिये ॥ १०४ ॥ कुमार पर आपका कोप तो है नहीं, आप तो न्यायमार्गपर ले  
जानेके लिए ही इसे दण्ड देना चाहते हैं परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि  
राज्यकी संतति धारण करनेके लिए यह एक ही है—आपका यही एक मात्र पुत्र है ॥ १०५ ॥ यदि  
आप इस एक ही संतानको नष्ट कर देंगे तो 'कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया' यह लोकोक्ति  
आज ही आपके शिर आ पड़ेगी ॥ १०६ ॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंके रोने-चिह्लानेसे  
महाराजने अपने बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्दाके भयसे प्रस्त हुए ये अभी नगरवासी आपके

अविद्धिरिव शास्त्रार्थं भवद्भिः श्रुतपारणैः । दुष्टानां निग्रहः शिष्टपालनं भूभुजां मतम् ॥ १०५ ॥  
 नीतिशास्त्रेषु तस्नेहमोहासक्तिभयादिभिः । अस्मान्निर्लङ्घिते न्याये भवन्तस्तस्य वर्तकाः ॥ ११० ॥  
 तस्मादयुक्तं युष्माकं मां योजयितुमुत्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेद्यो महीभुजा ॥ १११ ॥  
 कृत्याकृत्यविवेकान्तिदूरो मूढो महीभुजः । स साङ्ख्यपुरुषस्तेन कृत्यं <sup>१</sup>नात्रापरत्र च ॥ ११२ ॥  
 तस्माच्च प्रतिषेधोऽहमिति राज्ञाभिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव एवेत्ययुर्भयात् ॥ ११३ ॥  
 सुते निःस्तिग्धतां भर्तृर्जानन् देवाहमेव तम् । दण्डयिष्यामि मत्वेति निर्गम्य <sup>२</sup> तदनुज्ञया ॥ ११४ ॥  
 प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनगिर्यर्द्धिमध्ववीत् । हे कुमार तवावश्यं मरणं समुपस्थितम् ॥ ११५ ॥  
 बिभीः शक्नोषि किं <sup>३</sup>मर्तुमित्यवादीत्स चेष्टशम् । बिभेमि चेदहं मृत्योः किमित्येतदनुष्ठितम् ॥ ११६ ॥  
 सलिलं वा मृषार्त्तस्य शीतलं मरणं मम । तत्र का भीररिति व्यक्तं तदुक्तमवबुध्य सः ॥ ११७ ॥  
 नागरेभ्यो महीभर्त्रे कुमारयात्मनेऽपि च । लोकद्वयहितं कार्यं निश्चित्य सचिवाग्रणीः ॥ ११८ ॥  
 तदद्रिमस्तकं गत्वा महाबलगणेशिनम् । अभिवन्द्य <sup>४</sup>निजायातकार्यं चास्मै न्यवेदयत् ॥ ११९ ॥  
 मनःपर्ययसंज्ञानक्षत्रुः स गणनायकः । मा भैषीद्वाविमौ रामकेशवाविह भाविनी ॥ १२० ॥  
 मृतीयजन्मनीत्याह तच्छ्रुत्वा सचिवो मुदा । तौ तन्मानीय संश्रव्य धर्मं संयममापयत् <sup>५</sup> ॥ १२१ ॥  
 ततो भूपतिमासाद्य मन्त्रीतीदमबोधयत् । वारणारैरिवाभीररैरेककस्य गुहाश्रितः ॥ १२२ ॥

सामने खड़े हुए हैं ॥ १०७ ॥ इसलिए हे महाराज ! हम प्रार्थना करते हैं कि हमलोगोंका यह अपराध क्षमा कर दिया जाय । मंत्रीके यह बचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि आपलोग शास्त्रके पारगामी हो कर भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं । दुष्टोंका निग्रह करना और सज्जनोंका पालन करना यह राजाओंका धर्म, नीतिशास्त्रोंमें बतलाया गया है । झूठ, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जावेंगे । इसलिए आप लोगोंका मुझे उन्मार्गमें लगाना अच्छा नहीं है । यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोषपूर्ण हो जाय तो राजाका उसे भी काट डालना चाहिये । जो मूर्ख राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्योंके विवेकसे दूर रहता है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषके समान है । उससे इस लोक और परलोक सम्बन्धी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १०८-११२ ॥ इसलिए इस कार्यमें मुझे रोकना ठीक नहीं है । महाराजके इस प्रकार कहने पर लोगोंने समझा कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं ऐसा ममक सब लोग भयसे अपने-अपने घर चले गये ॥ ११३ ॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है ऐसा जानते हुए मंत्रीने राजासे कहा कि हे देव ! मैं इसे दण्ड स्वयं दूंगा । इस प्रकार राजाकी आज्ञा लेकर मंत्री भी चला गया ॥ ११४ ॥ वह अपने पुत्र और राजपुत्रको साथ लेकर वनगिरि नामके पर्वत पर गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्या आप निर्भय हो मरनेके लिए तैयार हैं ? उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्यों करता । जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए ठण्डा पानी अच्छा लगता है उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रहा है इसमें भयकी कौनसी बात है ? इस तरह कुमारकी बात सुनकर मुख्य मंत्रीने महाराज, राजकुमार और स्वयं अपने दोनों लोकोंका हित करने वाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥ ११५-११८ ॥ तदनन्तर मंत्रीने उसी पर्वतकी शिखापर जाकर महाबल नामके गणधरकी वन्दना की और उन्हें अपने आनेका सब कार्य भी निवेदन किया ॥ ११९ ॥ मनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले उन गणधर महाराजने कहा कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भवमें इस भरतक्षेत्रके नारायण और बलभद्र होने वाले हैं ॥ १२० ॥ यह सुनकर मंत्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर ले आया और धर्म श्रवण कराकर उसने उन दोनोंको संयम धारण करा दिया ॥ १२१ ॥ तदनन्तर वह मन्त्री राजाके समीप आया और यह

१ चात्रापरत्र च ल० । २ निर्गत्य ल० । ३-मिवावादीत् ल० । ४ निजायान-क०, प० । ५-मापयन् क०, प० ।

अनाहतस्वसौख्यस्य कस्यचिद्द्वनवासिनः । स्वकार्येष्वतितीव्रस्य जनस्यात्युग्रचेष्टितुः ॥ १२३ ॥  
 तावर्षितौ मया सोऽपि १ तवाह कृतदोषयोः । भवतोर्न सुखं स्मर्यं दुःखं भोग्यं सुदुष्करम् ॥ १२४ ॥  
 स्मरन्त्या देवता चिरो परलोकनिमिरतः । इत्येतौ च भद्र त्वं मा कृथाः कष्टदण्डनम् ॥ १२५ ॥  
 आवाभ्यामावयोः कार्यमित्यात्मकरभाविताम् । वेदनां तीव्रमापाद्य परलोकोन्मुत्तावुभौ ॥ १२६ ॥  
 भभूतां तद्विलोक्याहमभिप्रेतार्थनिष्ठितम् २ । ३ सुविधायगतो देव सिद्धं भवदुदीरितम् ॥ १२७ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं राजा महादुःखाकुलो मनाक् । निघातस्तिमितक्षमाजसमानो निश्चलं स्थितः ॥ १२८ ॥  
 आत्मना मन्त्रिभिर्बन्धुजनैश्चालोच्य निश्चितम् । कार्यं हितमनुष्ठेयं तत्प्राप्तानुष्ठितं त्वया ॥ १२९ ॥  
 करजालमतिक्रान्तमिव सर्पिमहीरुहे । प्रसूनमिव संशुष्कं कार्यं कालातिपातितम् ॥ १३० ॥  
 तत्र शोको न कर्तव्यो वृथेति सचिवोदितम् । श्रुत्वा तद्वचनं ब्रूहि तर्कं तद्वृत्तकं कथम् ॥ १३१ ॥  
 इत्यप्राक्षीरततोऽस्याभिप्रायवित्सचिवोऽवदत् । यतयो वनगिर्यंद्रिगुहागहनवासिनः ॥ १३२ ॥  
 धैर्यासिधारानिर्भक्षकषायविषयद्विषः । स्थूलसूक्ष्मासुभृद्रक्षानितान्तोद्यतवृत्तयः ॥ १३३ ॥  
 भिया भियेव कोपेन कोपेनवानिताश्रयाः । असंयतेषु भोगोपभोगेष्विव निरादराः ॥ १३४ ॥  
 तेभ्यस्तौ धर्मसद्भावं श्रुत्वा निर्विद्य दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्वाक्यात्परितुष्टो महीपतिः ॥ १३५ ॥  
 लोकद्वयहितो नान्यस्त्वमेवेत्यभिनन्द्य तम् । दुष्पुत्र इव भोगोऽयं ४ पापापलापकारणम् ॥ १३६ ॥

कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहामें रहता था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने मुखोंका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्योंमें अत्यन्त तीव्र था और उग्र चेष्टाका धारक था । मैंने वे दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिये । उस गुहावासीने भी उनसे कहा कि आप दोनोंने बहुत भारी दोष किया है अतः अब आप लोग मुखका स्मरण न करें, अब तो आपको कठिन दुःख भोगना पड़ेगा । परलोकके निमित्त हृदयमें इष्ट देवताका स्मरण करना चाहिये । यह सुनकर उन दोनोंने मुझसे कहा कि 'हे भद्र ! आप हम दोनोंके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिये, यह कार्य तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं अर्थात् स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्पर हैं । यह कह वे दोनों अपने हाथसे उत्पादित तीव्र वेदना प्राप्त कर परलोकके लिए तैयार हो गये । यह देख मैं इष्ट अर्थकी पूर्ति कर वापिस चला आया हूँ । हे राजन् ! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो गया ॥ १२२-१२७ ॥ मन्त्रीके वचन सुनकर राजा महादुःखसे व्यग्र हो गया और कुछ देर तक हवारहित स्थानमें निष्पन्द खड़े हुए वृक्षके समान निश्चल बैठ रहा ॥ १२८ ॥ तदनन्तर राजाने अपने आप, मंत्रियों तथा बन्धुजनोंके साथ निश्चय किया और तत्पश्चात् मंत्रीसे कहा कि तुम्हें सदा हितकारी कार्य करना चाहिये, आज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कर्मा भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया ॥ १२९ ॥ मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोंका समूह अतीत हो चुकता है और जो फूल सांप वाले वृक्षपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमें शोक करना उचित नहीं होता है उसी प्रकार यह कार्य भी अब कालातिपाती—अतीत हो चुका है अतः अब आपको इसके विषयमें शोक नहीं करना चाहिये । मंत्रीके वचन सुनकर राजाने पूछा कि यथार्थ बात क्या है ? तदनन्तर राजाका अभिप्राय जानने वाला मन्त्री बोला कि वनगिरि पर्वतकी गुफाओं और सघन वनोंमें बहुतसे यति-मुनि रहते हैं उन्होंने अपने धैर्य रूपी तलवारकी धारासे कषाय और विषयरूपी शत्रुओंको जीत लिया है, क्या स्थूल क्या सूक्ष्म—सभी जीवोंकी रक्षा करनेमें वे निरन्तर तत्पर रहते हैं । उनके हृदयसे भय मानो भयसे ही भाग गया है और क्रोध मानो क्रोधके कारण ही उनके पास नहीं आता है । वे भोग-उपभोगके पदार्थोंमें असंयमियोंके समान सदा निरादर करते रहते हैं । वे दोनों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं । इस प्रकार मंत्रीके स्पष्ट वचन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ ॥ १३०-१३५ ॥ 'दोनों लोकोंका हित करने वाला तू ही है' इस प्रकार मन्त्रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप और निन्दके

इति स्वकुलयोग्याय।दशराज्यमहाभरः । गत्वा गणेशमभ्यर्च्य वनाद्गौ नवसंयतौ ॥ १३७ ॥  
 मया कृतं महान् दोषः तं क्षमेथां युवामिति । निगदन्नावधोलो कद्वितीयकगुरुर्भवान् ॥ १३८ ॥  
 संयमोऽयं त्वयैवापि ताभ्यां सम्प्राप्य संस्तवम् । बहुभिर्भूसुजैः<sup>१</sup> सार्द्धं त्यक्तसङ्गः स संयमम् ॥ १३९ ॥  
 प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारिर्घातिकर्मविघातकृत् । केवलावगमज्योतिलोकाग्रे व्यथतत्ताराम् ॥ १४० ॥  
 तौ समुत्कृष्टचारित्रौ द्वौ खड्गपुरबाह्यगौ । आतापयोगमादाय तस्थतुस्त्यक्तविग्रहौ ॥ १४१ ॥  
 तत्पुराधिपसोमप्रभाङ्क्यस्य सुदर्शना । सीता च देव्यौ तत्सूनुः सुप्रभः सुप्रभाङ्गधर ॥ १४२ ॥  
 पुरुषोत्तमनामा च गुणैश्च पुरुषोत्तमः । मधुसूदनमुच्छ्रिय कृतदिग्जयपूर्वकम् ॥ १४३ ॥  
 नृखेचरसुराधीशप्रवर्द्धितमहोदयम् । प्रविशन्तं प्रभावन्तं नगरं पुरुषोत्तमम् ॥ १४४ ॥  
 चन्द्रचूलमुनिर्दृष्ट्वा निदानमकृताज्ञकः । जीवनावसितौ सम्यगाराध्योभौ चतुर्विधम्<sup>२</sup> ॥ १४५ ॥  
 सनत्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रभे । विजयः स्वर्णचूलेऽन्यो मणिचूलो मणिप्रभे ॥ १४६ ॥  
 जातवन्तौ तदुत्कृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसम्भोगौ ततश्च्युत्वेह भारते ॥ १४७ ॥  
 वाराणसीपुरार्धांशो राशो दशरथश्रुतेः । सुतः सुबालासंज्ञायां शुभस्वप्नपुरस्सरम् ॥ १४८ ॥  
 कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां फाल्गुने मास्यजायत । मघायां हलभृद्भावी चूलान्तकनकामरः ॥ १४९ ॥  
 त्रयोदशसहस्राब्दो रामनामानताखिलः । तत एव महीभर्तुः कैकेय्यामभवत्पुरः ॥ १५० ॥  
 सरःसूर्येन्दुकलमक्षेत्रसिंहान् महाफलान् । स्वप्नान् संदश्य माघस्य शुक्लपक्षादिमे दिने ॥ १५१ ॥

कारण है । ऐसा विचार कर उसने अपने कुलके यांग्य किसी पुत्रको राज्य का महान् भार सौंप दिया और वनगिरि नामक पर्वत पर जाकर गणधर भगवान्का पूजा की । वहींपर नवदीक्षित राजकुमार तथा मन्त्रि-पुत्रको देखकर उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों क्षमा कीजिये । राजाके बचन सुनकर नवदीक्षित मुनियोंने कहा कि आप ही हमारे दोनों लोगोंके गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है । इस प्रकार उन दोनोंसे प्रशंसा पाकर राजाने सब परिग्रहका त्याग कर अनेक राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १३६-१३९ ॥ क्रम-क्रमसे मोहकर्मका विध्वंसकर अवशिष्ट घातिया कर्मोंका नाश किया और केवलज्ञान रूपी ज्योतिको प्राप्त कर वे लोकके अग्रभागमें देदीप्यमान होने लगे ॥ १४० ॥

इधर उत्कृष्ट चारित्रिका पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार आनापन योग लेकर तथा शरीरसे ममत्व छोड़ कर खड्गपुर नामक नगरके बाहर स्थित थे ॥ १४१ ॥ उस समय खड्गपुर नगरके राजाका नाम सोमप्रभ था । उसके सुदर्शना और सीता नामकी दो स्त्रियाँ थीं । उन दोनोंके उत्तम कान्तिवाले शरीरको धारण करने वाला सुप्रभ और गुणोंके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तम इस प्रकार दो पुत्र थे । इनमें पुरुषोत्तम नारायण था वह दिग्जयके द्वारा मधुसूदन नामक प्रति नारायण को नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था । मनुष्य विद्याधर और देवेन्द्र उसके ऐश्वर्यको बढ़ा रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूर्ण था ॥ १४२-१४४ ॥ नगरमें प्रवेश करते देखे अज्ञानी चन्द्रचूल मुनि ( राजकुमारका जीव ) निदान कर बैठे । अन्तमें जीवन समाप्त होनेपर दोनों मुनियोंने चार प्रकारकी आराधना की । उनमेंसे एक तो सनत्कुमार स्वर्गके कनकप्रभ नामक विमानमें विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी । चिर कालतक वहाँके सुख भोग कर वे वहाँसे च्युत हुए ॥ १४५-१४७ ॥

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके बनारस नगरमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उनकी सुवाला नामकी रानी थी । उसने शुभ स्वप्न देखे और उसीके गर्भसे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन मघा नक्षत्र में सुवर्णचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था, होनहार बलभद्र हुआ । उसकी तेरह हजार वर्षकी आयु थी, राम नाम था, और उसने सब लोगोंको नष्टीभूत कर रक्खा था । उन्हीं राजा दशरथकी एक दूसरी रानी कैकेयी थी । उसने सरोवर, सूर्य, चन्द्रमा, धानका खेत और

विशाखर्क्षे स चक्राङ्को मणिचूलोऽमृताशनः । पङ्गुणद्विसहस्राब्दजीवितो लक्ष्मणाङ्गयः ॥ १५२ ॥  
 तौ पञ्चदशचापोच्चै<sup>१</sup> द्वात्रिंशत्लक्षणांस्त्वितौ । आदिसंहननौ संस्थानं चाभूदादिमं तयोः ॥ १५३ ॥  
 अमेयवीर्यौ हंसांशनीलोत्पलसमत्विशौ । तयोः सपञ्चपञ्चाशत्-पञ्चाशद्दर्शसम्मिते ॥ १५४ ॥  
 कुमारकाले निःक्रान्ते<sup>२</sup> नितान्तपरमोदये । भारतेऽस्मिन्नयोध्यायां<sup>३</sup> भरतादिमहीशितुः ॥ १५५ ॥  
 गतेष्विद्वत्कुमुदेषु सङ्ख्यातीतेष्वनन्तरम् । हरिषेणमहाराजे दशमे चक्रवर्तिनि ॥ १५६ ॥  
 सर्वार्थसिद्धावुत्पन्ने संवत्सरसहस्रके । काले गतवति प्राभूत् सगराख्यो महीपतिः ॥ १५७ ॥  
 निःखण्डमण्डलश्चण्डः सुलसायाः स्वयंवरे । मधुपिङ्गलनामानं कुमारवरमागतम् ॥ १५८ ॥  
 वृष्यलक्ष्माथमित्युक्त्वा निरास्थ<sup>४</sup> ऋषमध्यगम् । सगरे बह्वैरः सन् निःक्रम्य मधुपिङ्गलः ॥ १५९ ॥  
 सलजः संयमी भूत्वा महाकालासुरोऽभवत् । सोऽसुरः सगराधीशवंशनिर्मूलनोद्यतः ॥ १६० ॥  
 द्विजवेषं समादाय सम्प्राप्य सगराङ्गयम् । "अथर्ववेदविहितं प्राणिहिंसापरायणम् ॥ १६१ ॥  
 कुरु यागं श्रियो वृद्धयै शत्रुविच्छेदनेच्छया । इति तं दुर्मतिं भूपं पापाभीरुर्व्यमोहयत् ॥ १६२ ॥  
 अनुष्ठाय तथा सोऽपि प्राविशत्पापिनां श्रितिम् । निर्मूलं कुलमप्यस्य नष्टं दुर्मागं वर्तनात् ॥ १६३ ॥  
 श्रुत्वा तत्सात्मजो रामपितास्मार्कं क्रमागतम् । साकेतपुरमित्येत्य तदध्यास्यान्वपालयत् ॥ १६४ ॥  
 तन्नास्य देव्यां कस्याञ्चिदभवद्भरताङ्गयः । शत्रुघ्नश्चान्यदप्येकं दशाननवधाद्यशः ॥ १६५ ॥

सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देव्य और उसके गर्भसे माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन विशाखा नक्षत्रमें मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुआ । उसके शरीरपर चक्रका चिह्न था, बारह हजार वर्षकी उसकी आयुं थी और लक्ष्मण उसका नाम था ॥ १४८-१५२ ॥ वे दोनों ही भाई पन्द्रह धनुष ऊंचे थे, बत्तीस लक्ष्णोंमें सहित थे, वज्रवृषभनाराचसंहननके धारक थे और उन दोनोंके समचतुरस्रसंस्थान नामका पहला संस्थान था ॥ १५३ ॥ वे दोनों ही अपरि-  
 मित शक्तिवाले थे, उनमेंसे रामका शरीर हमके अंश अर्थात् पंखके समान सफ़ेद था और लक्ष्मण का शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था ! जब रामका पचपन और लक्ष्मणका पचास वर्ष प्रमाण, अत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वर्यसे भरा हुआ कुमारकाल व्यतीत हो गया तब इसी भरतक्षेत्र की अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था । वह सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके बाद इक्ष्वाकुवंशके शिरामणि असंख्यात राजा हो चुके थे और उनके बाद जब हरिषेण महाराज नामक दशवां चक्रवर्ती मरकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकने पर सगर राजा हुआ था । वह अखण्ड राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था । एकवार उसने सुलसाके स्वयंवरमें आये हुए एवं राजाओंके बीचमें बैठे हुए मधुपिङ्गल नामके श्रेष्ठ राजकुमारको 'यह दुष्ट लक्षणोंसे युक्त है' ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया । राजा मधुपिङ्गल सगर राजाके साथ वैर बांधकर लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा । अन्तमें संयम धारणकर वह महाकाल नामका अमुर हुआ । वह अमुर राजा सगरके वंशको निर्मूल करनेमें तत्पर था ॥ १५४-१६० ॥ वह ब्राह्मणका वेष रखकर राजा सगरके पास पहुँचा और कहने लगा कि तू लक्ष्मीकी वृद्धिके लिए, शत्रुओंका उच्छेद करनेके लिए अथर्ववेदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करने वाला यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरने वाले उस महाकाल नामक व्यन्तरने उस दुर्बुद्धि राजाको मोहित कर दिया ॥ १६१-१६२ ॥ वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थात् नरकमें प्रविष्ट हुआ । इस प्रकार कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो गया । इधर राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि अयोध्यानगर तो हमारी वंशपरम्परासे चला आया है । ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोंके साथ अयोध्या नगरमें गये और वहीं रह कर उसका पालन करने लगे ॥ १६३-१६४ ॥ वहीं इनकी किसी अन्य रानीसे भरत

१ चापाङ्गो क०, घ० । २ नितान्तपरमोदयो ल० । नितान्तपरमोदयम् ल० । ३ भरतादिमहीशुञ्जि ल० । भारतादिमहीशितुः ल० । ४ अपूर्व म०, ल० । ५ भूतं ल० ।

कारणं प्रकृतं भावि रामलक्ष्मणयोरिदम् । मिथिलानगराधीशो जनकस्तस्य बह्वभा ॥ १६१ ॥  
 सुरूपा वसुधादेवी विनयादिविभूषिता । सुता सीतेत्यभूतस्याः सम्प्राप्तनवयौवना ॥ १६२ ॥  
 तां वरीतुं समायातनृपदूतान् महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुकूल्यं यस्येति सोऽमुचत् ॥ १६३ ॥  
 नृपः कदाचिदास्थानीं विद्वज्जनविराजिनीम् । आस्थाय कार्यकुशलं कुशलादिमतिं हितम् ॥ १६४ ॥  
 सेनापतिं समप्राक्षीत् प्राक्प्रवृत्तं कथान्तरम् । पुरा किलात्र सगरः सुलसा चाहुतीकृता ॥ १६५ ॥  
 परे चाश्वाद्यः प्रापन् सशरीराः सुरालयम् । इतीदं श्रूयतेऽद्यापि यागेन यदि गम्यते ॥ १६६ ॥  
 स्वर्लोकः क्रियतेऽस्माभिरपि याज्ञो यथोचितम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा स सेनापतिरब्रवीत् ॥ १६७ ॥  
 नागासुरैः सदा क्रुद्धैर्मात्सर्येण परस्परम् । अन्योन्यारब्धकार्याणां प्रतिघातो विधीयते ॥ १६८ ॥  
 अयं चाद्य महाकालेनासुरेण नवो विधिः । याज्ञो विनिमित्तस्तस्य विघातः शङ्क्यतेऽरिभिः ॥ १६९ ॥  
 नागराडुपकर्ताऽभूद्धमेश्च विनमेरपि । ततो यागस्य हन्तारः खगास्तपक्षपातिनः ॥ १७० ॥  
 यागः सिद्धयति शक्तानां तद्विकारव्यपोहने । यद्यप्येतन्न बुध्येरन् रूप्यशैलनिवासिनः ॥ १७१ ॥  
 निश्चितो<sup>१</sup> रावणः शौर्यशाली मानग्रहाहितः । तस्मात्प्रागपि शङ्कास्ति स कदाचित् विघातकृत् ॥ १७२ ॥  
 स्यात्तद्रामाय शक्त्या दास्यामः कन्यकामिमाम् । इति तद्वचनं सर्वे तुष्टुवुस्तस्सभासिनः ॥ १७३ ॥  
 निरचिन्वंश्च भूपेन साकं तत्कार्यमेव ते । तदैव जनको दूतं प्राहिणोद्रामलक्ष्मणौ ॥ १७४ ॥  
 मदीययागरक्षार्थं प्रहेतव्यौ कृतत्वरम् । रामाय दास्यते सीता चेति शासनहारिणम् ॥ १७५ ॥

तथा शत्रुघ्न नामके दो पुत्र और हुए थे । रावणका मारनेसे राम और लक्ष्मणका जो यश होने वाला था उसका एक कारण था—वह यह कि उसी समय मिथिलानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे । उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय आदि गुणोंसे विभूषित वसुधा नामकी रानी थी । राजा जनक की वसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । जब वह नवयौवनाका प्राप्त हुई तब उसे बरनेके लिए अनेक राजाओंने अपने-अपने दूत भेजे । परन्तु राजाने यह कह कर कि मैं यह पुत्री उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव अनुकूल होगा, उन आये हुए दूतोंको विदा कर दिया ॥१६५-१६८॥

अथानन्तर—किसी एक समय राजा जनक विद्वज्जनोंसे मुशोभित सभामें बैठे हुए थे । वहीं पर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापति बैठा था । राजा जनकने उससे एक प्राचीन कथा पूछी । वह कहने लगा कि 'पहले राजा सगर रानी सुलसा तथा घोड़ा आदि अन्य कितने ही जीव यज्ञमें होंगे गये थे । वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे' यह बात सुनी जाती है । यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हो तो हमलोग भी यथा योग्य रीतिसे यज्ञ करें । राजाके इस प्रकार वचन सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा क्रोधित हुए नागकुमार और असुरकुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए कार्योंमें विघ्न करते हैं ॥१६९-१७३॥ चूंकि यज्ञ की यह नई रीति महाकाल नामक असुरने चलाई है अतः प्रतिपक्षियोंके द्वारा इसमें विघ्न किये जानेकी आशंका है ॥ १७४ ॥ इसके सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा धररोन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार किया था इसलिए उसका पक्षपात करने वाले विद्याधर अवश्य ही यज्ञका विघात करेंगे ॥ १७५ ॥ यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विघ्न दूर करनेमें समर्थ होते हैं । यद्यपि विजयार्थ पर्वतपर रहने वाले विद्याधरोंका इसका पता नहीं चलेगा यह ठीक है तथापि यह निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी ग्रहसे अधिष्ठित है उससे इस बातका भय पहलेसे ही है कि कदाचित् वह यज्ञमें विघ्न उपस्थित करे ॥ १७६-१७७ ॥ हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समर्थ हैं उनके लिए यदि हम यह कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विघ्न दूर कर देंगे । इसप्रकार सेनापतिके वचनोंकी सभामें बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ॥ १७८ ॥ राजा जनकके साथ ही साथ सब लोगोंने इस कार्यका निश्चय कर लिया और राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा भेटके साथ

सलेखोपायनं सन्तं नृपं दशरथं प्रति । तथान्यांश्च महीदसूनुं दूतानानेतुमादिशत् ॥ १८१ ॥  
 अयोध्येशोऽपि लेखाय दूतोक्तं चावधारयन् । तत्प्रयोजननिश्चित्यै मन्त्रिणं पृच्छति स्म सः ॥ १८२ ॥  
 जनकोक्तं निवेद्यात्र किं कार्यं क्रियतामिति । इदमागमसाराख्यो मन्थवचोचक्रोऽशुभम् ॥ १८३ ॥  
 निरन्तरायसंसिद्धौ यागस्योभयलोकजम् । हितं कृतं भवेत्तस्माद्दतिरस्ववमयोरिति ॥ १८४ ॥  
 वचस्थवसिते तस्य तदुक्तमवधार्य सः । प्रजल्पति स्मातिशयमत्याख्यो मन्त्रिणां मतः १८५ ॥  
 धर्मो यागोऽयमित्येतत्प्रमाणपदवीं वचः । न प्राप्नोत्यत एवात्र न वर्तन्ते मनीषिणः ॥ १८६ ॥  
 प्रमाणभूयं वाक्यस्य वक्तृप्रामाण्यतो भवेत् । सर्वप्राणिवधाशंसियज्ञागमविधायिनः ॥ १८७ ॥  
 कथमुन्मत्तकस्येव प्रामाण्यं विप्रवादिनः । विरुद्धालपितासिद्धानेति चेद्देवादिनः ॥ १८८ ॥  
 सिद्धं वैकत्र घातोक्तं रन्त्यत्रैतन्निषेधनात् । स्वयंभूत्वाददोपोऽस्य विरोधे सत्यपीत्यसत् ॥ १८९ ॥  
 प्रष्टव्योऽसि स्वयंभूत्वं कीदृशं तु तदुच्यताम् । बुद्धिमत्कारणस्पन्दसम्बन्धनिरपेक्षणम् ॥ १९० ॥  
 स्वयंभूत्वं भवेन्मेघमेकादीनां च सा गतिः । ततः सर्वज्ञनिर्दिष्टं सर्वप्राणिहितात्मकम् ॥ १९१ ॥  
 ज्ञेयमागमशब्दाख्यं सर्वदोषविवर्जितम् । वर्तते यज्ञशब्दश्च दानदेवपिपूजयोः ॥ १९२ ॥  
 यागो यज्ञः क्रतुः पूजा सपर्ययाध्वरो मखः । मह इत्यपि पर्यायवचनान्यर्चनाविधेः ॥ १९३ ॥  
 यज्ञशब्दाभिधेयोरुदानपूजास्वरूपकान् । धर्मात्पुण्यं समावर्ज्यं तत्पाकादिविजेधराः ॥ १९४ ॥

एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया । आप मेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम तथा लक्ष्मणको भेजिये । यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दी जावेगी । राम-लक्ष्मणके सिवाय अन्य राज्यपुत्रोंके बुलानेके लिए भी अन्य अन्य दूत भेजे ॥ १७६-१८१ ॥ अयोध्याके स्वामी राजा दशरथने भी पत्रमें लिखा अर्थ समझा, दूतका कहा समाचार सुना और इस सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पूछा ॥ १८२ ॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ सब मन्त्रियोंको सुनाया और पूछा कि क्या कार्य करना चाहिये ? इसके उत्तरमें आगमसार मन्त्री निम्नाङ्कित अशुभ वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्विघ्न समाप्त होनेपर दोनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाला हित होगा और उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी ॥ १८३-१८४ ॥ आगमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके कहें हुएका निश्चयकर अतिशयमति नामका श्रेष्ठ मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह वचन प्रमाणकोटिका प्राप्त नहीं है इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ १८५-१८६ ॥ वचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे होती है । जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है ऐसे यज्ञप्रवर्तक आगमका उपदेश करनेवाले विरुद्धवादी मनुष्यके वचन पागल पुरुषके वचनके समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं । यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका विधान और दूसरी जगह उसका निषेध ऐसे दोनों प्रकारके वाक्य क्यों मिलते ? कदाचित् यह कहा कि वेद स्वयंभू है, अपने आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है । तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयंभूपना कैसा है—इसका क्या अर्थ है ? यह तो कहिये । यदि बुद्धिमान् मनुष्यरूपी कारणके हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना अर्थात् किसी भी बुद्धिमान् मनुष्यके हलन-चलनरूपी व्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अतः स्वयंभू है । स्वयंभूपनका उक्त अर्थ यदि आप लेते हैं तो मेघोंकी गर्जना और मंडवोंकी टर्रटर्र इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्योंकि ये सब भी तो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए आगम वही है—शास्त्र वही है जो सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ हो, समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो और सब दोषोंसे रहित हो । यज्ञ शब्द, दान देना तथा देव और ऋषियोंकी पूजा करने अर्थमें आता है ॥ १८७-१८८ ॥ याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख, और मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १८९ ॥ यज्ञ शब्दका वाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है तत्स्वरूप धर्मसे ही लोग पुण्यका सञ्चय

शतक्रतुः शतमखः शताध्वर इति श्रुताः<sup>१</sup> । प्रादुर्भूताः प्रसिद्धान्ते लोकेषु समयेषु<sup>२</sup> च ॥ १९५ ॥  
 हिंसार्थो यज्ञशब्दश्चेत्कर्तुर्नारकी गतिः । प्रयाति सोऽपि चेत्स्वर्गं विहिंसानामभोगतिः ॥ १९६ ॥  
 तव स्यादित्यभिप्रायो हिंस्यमानाङ्गिदानतः । तद्वधेन च देवानां पूज्यत्वाद्यज्ञ इत्ययम् ॥ १९७ ॥  
 वर्तते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गतः । एतत्स्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिन्नपे<sup>३</sup> इत्यपि ॥ १९८ ॥  
 हिंसायामिति धात्वर्थपाठे किं न विधीयते । न हिंसा यज्ञशब्दार्थो यदि प्राणवधात्मकम् ॥ १९९ ॥  
 यज्ञं कथं चरन्त्यार्या इत्यभिहितलक्षणम् । आर्षानार्षविकल्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥  
<sup>३</sup> तीर्थेणा जगदाद्येन परमब्रह्मणोदिते । वेदे जीवादिषडद्रव्यभेदे यथात्म्यदेशने ॥ २०१ ॥  
 त्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदराप्रयः । तेषु क्षमाविरागत्वानशनाहुतिभिर्वने ॥ २०२ ॥  
 स्थित्व<sup>४</sup> पियतिमुन्यस्त<sup>५</sup> शरणाः परमद्विजाः । इत्यात्मयज्ञमिष्टार्थमिष्टमीमवनीं ययुः ॥ २०३ ॥  
 तथा तीर्थगणाधीशरोषकेवलिसद्वपुः । संस्कारमहिताग्नीन्द्रमुकुटोत्थामिषु त्रिषु ॥ २०४ ॥  
 परमात्मपदं प्राप्ताङ्गिजान् पितृपितामहान् । उद्दिश्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षतफलादिभिः ॥ २०५ ॥  
 आपोपासकवेदोक्तमन्त्रोच्चारणपूर्वकम् । दानादिसक्क्रियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६ ॥  
 नित्यमिष्टेन्द्रसामानिकादिमान्यपदादिताः । लौकान्तिकाश्च भूत्वामरद्विजा ध्वस्तकल्पयाः ॥ २०७ ॥

करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं । इसलिए ही लोक और शास्त्रोंमें इन्द्रके शतक्रतु, शतमख और शताध्वर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं ॥ १९४-१९५ ॥ यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिये । यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी आधांगति होना चाहिये—उन्हें नरक जाना चाहिये ॥ १९६ ॥ कदाचित् आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमें जिमकी हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थात् सबको वितरण किया जाता है और उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अर्थ जो दान देना और पूजा करना है उसकी सार्थकता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह दान और पूजाका जो अर्थ आपने किया है वह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं । यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा ही है तो फिर धातुपाठमें जहाँ धातुओंके अर्थ बतलाये हैं वहाँ यजधातुका अर्थ हिंसा क्यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र 'यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु' अर्थात् यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण और दान देना इतने अर्थोंमें आती है । यही बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता । कदाचित् आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ नहीं है तो आर्य पुरुष प्राणिहिंसासे भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं ? तो आपका यह कहना अशिक्षित अथवा मूर्खका लक्षण है—चिह्न है । क्योंकि आर्य और अनार्यके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥ १९७-२०० ॥ इस कर्मभूमि रूपी जगत्के आदिमें होनेवाले परमब्रह्म श्रीवृषभदेव तीर्थकरके द्वारा कहे हुए वेदमें जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्रोधामि, कामामि और उदरामि ये तीन अग्निर्वाँ बतलाई गई हैं । इनमें जमा वैराग्य और अनशनकी आहुतियाँ देनेवाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी श्रेष्ठ द्विज वनमें निवास करते हैं वे आत्मयज्ञकर इष्ट अर्थका देनेवाली अष्टम पृथिवी—मात्त स्थानका प्राप्त होते हैं ॥ २०१-२०३ ॥ इसके सिवाय तीर्थकर गणधर तथा अन्य केवलियोंके उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अग्निकुमार इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्निर्वाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तमोत्तम क्रियाओंको करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदका प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहको उद्देशकर ऋषिप्रणीत वेदमें कहे मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फल आदिके द्वारा आहुति दी जाती है वह दूसरा आर्य यज्ञ कहलाता है । जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि

१ श्रुतिः ल० । २ इष्यते म०, ल० । ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्ययोः क्रमपरिवर्तों विद्यते ।

४ स्थित्वा<sup>५</sup> ल० । ५ अनगाराः ।



द्वितीय<sup>१</sup> ज्ञानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन कर्तृणां तीर्थदेशिनाम् ॥ २०८ ॥  
 पञ्चकल्याणभेदेषु<sup>२</sup> देवयज्ञविधानतः । चित्तपुण्यफलं भुक्त्वा क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धताम् ॥ २०९ ॥  
 यागोऽयमृषिभिः प्रोक्तो यत्पुण्यकारिद्वयाश्रयः । आद्यो मोक्षाय साक्षात्स्यात्स्यात्परम्परया परः ॥ २१० ॥  
 एवं परम्परयातदेव<sup>३</sup> यज्ञविधिष्विह । द्विलोकहितकृत्येषु वर्तमानेषु सन्ततम् ॥ २११ ॥  
 मुनिसुव्रततीर्थेशसन्तानेन सगरद्विपः । महाकालासुरो हिंसायज्ञमज्ञोऽन्वशादमुम् ॥ २१२ ॥  
 कथं तदिति चेदस्मिन् भारते चारणादिके । युगले नगरे राजाऽजनि नाम्ना सुयोधनः ॥ २१३ ॥  
 देवी तस्यातिथिख्यातिस्तनूजा सुलसाऽनयोः । तस्याः स्वयंवरार्थेन दूतोक्त्या पुरमागते ॥ २१४ ॥  
 महीशमण्डले साकेतेशिनं सगराह्वयम् । सत्रागन्तुं समुद्युक्तमन्यदा<sup>४</sup> स्वशिरोरुहाम् ॥ २१५ ॥  
 कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा तैलोपलेपिना । निविद्य विमुखं याते विलोक्य कुशला तदा ॥ २१६ ॥  
 धात्री मन्दोदरी नाम तमिक्त्वा पलितं नवम् । पवित्रं द्रव्यलाभं ते वदतीत्यन्यबुधुधत् ॥ २१७ ॥  
 तत्रैव सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्यभूत्ताम् । पराङ्मुखी सा त्वामेव सुलसाभिलषत्यलम् ॥ २१८ ॥  
 यथा तथाहं कर्तास्मि कौशलेनेत्यभाषत । तद्वचःश्रवणात्प्रीतः साकेतनगराधिपः ॥ २१९ ॥  
 चतुरङ्गलेनामा सुयोधनपुरं ययौ । दिनेषु केषुचित्त्र<sup>५</sup> यातेषु सुलसाऽन्तिके ॥ २२० ॥  
 मन्दोदर्याः कुलं रूपं सौन्दर्यं विक्रमो नयः । विनयां विभवो बन्धुः सम्पदस्ये च ये स्तुताः ॥ २२१ ॥  
 गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीत्तस्मिन्नासजिताशया ॥ २२२ ॥

माननीय पदोंपर अधिष्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण हांते हैं और अन्तमें समस्त पापोंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०४-२०७ ॥ दूसरा श्रुतज्ञानरूपी वेद सामान्यकी अपेक्षा सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षेत्रादिके भेदसे अथवा तीर्थकरोंके पञ्च कल्याणकोंके भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनन्द्रदेवका यज्ञ अर्थात् पूजन करते हैं वे पुण्यका सञ्चय करते हैं और उसका फल भोगकर क्रम क्रमसे ऋषिद्व अवस्था—मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०८-२०९ ॥ इस प्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थके आश्रमसे दो प्रकारका निरूपण किया है इनमेंसे पहला मोक्षका साक्षात् कारण है और दूसरा परम्परासे मोक्षका कारण है ॥ २१० ॥ इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आई है, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली है और यही निरन्तर विद्यमान रहती है ॥ २११ ॥ किन्तु श्री मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें सगर राजासे द्वेष रखनेवाला एक महाकाल नामका असुर हुआ । उसी अज्ञानीने इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया है ॥ २१२ ॥ महाकालने ऐसा क्यों किया । यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिये । इसी भरतक्षेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है । उसमें सुयोधन नामका राजा राज्य करता था ॥ २१३ ॥ उसकी पट्टरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा नामकी पुत्री थी । उसके स्वयंवरके लिए दूतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरमें आया था । अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमें जानेके लिए उद्यत था परन्तु उसके बालोंके समूहमें एक बाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकसे उसे विदित हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर वह स्वयंवरमें जानेसे विमुख हो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हुआ । राजा सगरकी एक मन्दोदरी नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी । उसने सगरके पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है और तुम्हें किसी पवित्र वस्तुका लाभ होगा यह कह रहा है । उसी समय विश्वभू नामका मन्त्री भी वहाँ आ गया और कहने लगा कि यह सुलसा अन्य राजाओंसे विमुख होकर जिस तरह आपको ही चाहेगी उसी तरह मैं कुशलतासे सब व्यवस्था कर दूँगा । मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ २१४-२१६ ॥ वह चतुरङ्ग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया और कुछ दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया । सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ आई थी । उसने सुलसाके पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य

तद्विदित्वाऽतिथिर्युक्तिमद्वचोभिः प्रबुध्य तम् । सुरम्यविषये पोदनाधीङ् बाहुबलीशिनः ॥ २२३ ॥  
 कुले महीभुजा ज्येष्ठो मद्भ्राता, तृणपिङ्गलः । तस्य सर्वयशा देवी तयोस्तुग्मधुपिङ्गलः ॥ २२४ ॥  
 सर्वैर्वरगुणैर्गण्यो नवे वयसि वर्तते । स त्वया मालया माननीयोऽद्य मदपेक्षया ॥ २२५ ॥  
 साकेतपतिना किं ते सपत्निदुःखदायिना । इत्याहैतद्वचः सापि १सोपरोधाऽभ्युपागमत् ॥ २२६ ॥  
 तदा प्रभृति कन्यायाः समीप २गमनादिकम् । उपायेनातिथिर्देवी मन्दोदर्या न्यवारयत् ॥ २२७ ॥  
 धात्री च प्रस्तुतार्थस्य विघातमवदद्विभोः । तृपोऽपि मन्त्रिणं प्राह यदस्माभिरर्भाप्सितम् ॥ २२८ ॥  
 तत्त्वया सर्वथा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपेत्य तत् । वरस्य लक्षणं शस्तमप्रशस्तं च वर्ण्यते ॥ २२९ ॥  
 येन तादृग्विधं ग्रन्थं समुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंवरविधानाल्ख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥  
 ३मञ्जूषायां विनिश्चिप्य तदुद्यानवनान्तरे । धरातिराहितं कृत्वा न्यधादविदितं परैः ॥ २३१ ॥  
 दिनेषु केषुचिद्यातेषुद्यानावनिशोधने । हलाप्रेणोद्धृतं मन्त्री मया दृष्टं यदृच्छया ॥ २३२ ॥  
 पुरातनमिदं शास्त्रमित्यजानन्निव स्वयम् । विस्मितां राजपुत्राणां समाजे तदवाचयस् ॥ २३३ ॥  
 सम्भावयतु पिङ्गाक्षं कन्यावरकदम्बके । न मालया मृतिस्तस्याः सा तं चेत्समबीभवत् ॥ २३४ ॥  
 तेनापि न प्रवेष्टव्या सभांहोभीत्रपावता । प्रविष्टोप्यत्र यः पापी ततो निर्घातयतामिति ॥ २३५ ॥  
 तदासौ सर्वमाकर्ण्य लज्जया मधुपिङ्गलः । तद्रूपत्वागतो गत्वा हरिषेणगुरोस्तपः ॥ २३६ ॥

वरमें जो अन्य प्रशंसनीय गुण होते हैं उन सबका व्याख्यान किया। यह सब जानकर राजकुमारी सुलसा राजा सगरमें आसक्त हो गई ॥ २२०-२२२ ॥ जब सुलसाकी माता अतिथिका इन्द्र वातका पता चला तब उसने युक्तिपूर्ण वचनोंसे राजा सगरकी बहुत निन्दा की और कहा कि सुरम्यदेशकं पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके वंशमें होनेवाले राजाओंमें श्रेष्ठ तृणपिङ्गल नामका मेरा भाई है। उसकी रानीका नाम सर्वयशा है, उन दोनोंके मधुपिङ्गल नामका पुत्र है जो वरके योग्य समस्त गुणोंसे गणनीय है—प्रशंसनीय है और नई अवस्थामें विद्यमान है। आज तुझे मेरी अपेक्षासे ही उसे वरमाला डालकर सम्मानित करना चाहिये ॥ २२३-२२५ ॥ मौनका दुःख देनेवाले अयोध्या पति—राजा सगरसे तुझे क्या प्रयोजन है? माता अतिथिने यह वचन कहे जिनमें सुलसाने भी उसके आग्रहवश स्वीकृत कर लिया ॥ २२५ ॥ उसी समयसे अतिथि देवने किमी उपायसे कन्याके समीप मन्दोदरीका आना जाना आदि विलकुल रोक दिया ॥ २२६ ॥ मन्दोदरीने अपने प्रकृत कार्यकी रुकावट राजा सगरसे कही और राजा सगरने अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोरथ है वह तुम्हें सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिये। बुद्धिमान् मन्त्रीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नामका एक ऐसा ग्रन्थ बनवाया कि जिसमें वरके अच्छे और बुरे लक्षण बताये गये थे। उसने वह ग्रन्थ पुस्तकके रूपमें निबद्धकर एक सन्दूककीमें रक्खा और वह सन्दूककी उसी नगर सम्बन्धी उद्यनके किसी वनमें जमीनमें छिपाकर रख दी। यह कार्य इतनी सावधानीसे किया कि किसीको इसका पता भी नहीं चला ॥ २२७-२३१ ॥ कितने ही दिन बीत जानेपर वनकी पृथिवी खोदते समय उसने हलके अग्रभागसे वह पुस्तक निकाली और कहा कि इच्छानुसार खोदते हुए मुझे यह सन्दूककी मिली है। यह कोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ वह आश्चर्य प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानता ही नहीं हो। उसने वह पुस्तक राजकुमारोंके समूहमें बचवाई। उसमें लिखा था कि कन्या और वरके समुदायमें जिसकी आँख सफेद और पीली हो, मालाके द्वारा उसका सत्कार नहीं करना चाहिये। अन्यथा कन्याकी मृत्यु हो जाती है या वर मर जाता है। इसलिए पाप डर और लज्जावाले पुरुषको सभामें प्रवेश नहीं करना चाहिये। यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाय तो उसे निकाल देना चाहिये ॥ २३२-२३५ ॥ मधुपिङ्गलमें यह सब गुण विद्यमान थे अतः वह यह सब सुन लज्जावश वहाँसे बाहर चला गया और हरिषेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर लिया।

१ सापरोधा ख० । २ समीपे गमनादिकम् म०, ल० । ३ मञ्जूषायां कुपीः शास्त्रं विनिश्चिप्य वनान्तरे

प्रपन्नस्तद्विदित्वा<sup>१</sup>गुमुदं सगरभूपतिः । विश्वभूक्षेष्टसंसिद्धावन्ये च कुटिलाशयाः ॥ २३७ ॥  
सन्तस्तद्बान्धवाश्चान्ये विपादमगमँस्तदा । न पश्यन्त्यथिनः पापं वञ्चनासञ्चितं महत् ॥ २३८ ॥  
अथ कृत्वा महापूजां दिनान्यष्टौ जिनेशिनाम् । तदन्तेऽभिपर्वं चैनां सुलसां कन्यकोत्तमाम् ॥ २३९ ॥  
ज्ञातामलंकृतां शुद्धतिथिवारादिसन्निधौ । पुरांधा रथमाराण्य नीत्वा चारुभटावृताम् ॥ २४० ॥  
नृपान् भद्रासनारूढान् स स्वयंवरमण्डपे । यथाक्रमं विनिर्दिश्य कुलजात्यादिभिः पृथक् ॥ २४१ ॥  
व्यरमत् सा समासक्ता साकेतपुरनायकम् । अकरांल्लण्डदेशे तं मालालंकृतविग्रहम् ॥ २४२ ॥  
अनयोरनुरूपांश्च सङ्गमो वेधसा कृतः । इत्युक्त्वा मत्सरापेतमनुष्यद्रूपमण्डलम् ॥ २४३ ॥  
कल्याणविधिपर्याप्तौ<sup>२</sup> स्थित्वा तत्रैव कानिचित् । दिनानि सागरः श्रीमान् मुखेन सुलसान्वितः ॥ २४४ ॥  
साकेतनगरं गत्वा भोगाननुभवन् स्थितः । मधुपिङ्गलसाधोश्च वर्तमानस्य संयमे ॥ २४५ ॥  
पुरमेकं तनुस्थित्यै<sup>३</sup>विशतो वीक्ष्य लक्षणम् । कश्चिन्नैमित्तिको यूनः पृथ्वीराज्याहं देहजैः<sup>४</sup> ॥ २४६ ॥  
लक्षणैरेष भिक्षार्थी किल किं लक्षणगमैः<sup>५</sup> । इत्यनिन्दतादाकर्ण्य परोऽप्येवमभाषत ॥ २४७ ॥  
एष राज्यश्रियं<sup>६</sup> भुञ्जन् मृषा सगरमन्त्रिणा । कृत्रिमागममा<sup>६</sup>दश्यं दूषितः सन् हिया तपः ॥ २४८ ॥  
प्रपन्नवान् गते चास्मिन् सुलसां सगरोऽग्रहात् । इति तद्वचनं श्रुत्वा मुनिः क्रोधाग्निर्दूषितः ॥ २४९ ॥  
जन्मान्तरे फलेनात्य तपसः सगरान्वयम् । सर्वं निर्मूलयार्माति विधीः कृतानदानकः ॥ २५० ॥  
मृत्वासाबसुरेन्द्रस्य महिषानीक आदिमे । कक्षाभेदे चतुःषष्टिसहस्रासुरनायकः ॥ २५१ ॥

यह जानकर अपनी इष्टसिद्धि होनेसे राजा सगर, विश्वभू मन्त्री, तथा कुटिल अभिप्रायवाले अन्य मनुष्य हर्षको प्राप्त हुए ॥ २३६-२३७ ॥ मधुपिङ्गलके भाई-बन्धुओंका तथा अन्य सज्जन मनुष्योंको उस समय दुःख हुआ । देखा शर्था मनुष्य दूसरोंको टगनेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी पापको नहीं देखते हैं ॥ २३८ ॥ इधर राजा सूर्योधनने आठ दिनतक जिनेन्द्र भगवान्की महापूजा की, और उसके अन्तमें अभिषेक किया । तदनन्तर उत्तम कन्या सुलसाको स्नान कराया, आभूषण पहिनाये, और शुद्ध तिथि वार आदिके दिन अनेक उत्तम यादवाओंसे घिरी हुई उम कन्याको पुराहित रथमें बैठाकर स्वयंवर-मण्डपमें ले गया ॥ २३९-२४० ॥ वहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम आसनोंपर समा-रूढ थे । पुराहित उनके कुल जाति आदिका पृथक् पृथक् क्रम पूर्वक निर्देश करने लगा परन्तु सुलसा अयोध्याके राजा सगरमें आसक्त था अतः उन सब राजाओंको छोड़ती हुई आगे बढ़ती गई और सगरके गलेमें ही माला डालकर उसका शरीर मालासे अलंकृत किया ॥ २४१-२४२ ॥ 'इन दोनोंका समागम विधाताने ठीक ही किया है' यह कहकर वहाँ जा राजा ईर्ष्या रहित थे वे बहुत ही सन्तुष्ट हुए ॥ २४३ ॥ विवाहकी विधि समाप्त होनेपर लक्ष्मीसम्पन्न राजा सगर सुलसाके साथ वहींपर कुछ दिनतक सुखसे रहा ॥ २४४ ॥ तदनन्तर अयोध्या नगरीमें जाकर भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा । इधर मधुपिङ्गल साधु-संयम धारण कर रहे थे । एक दिन वे आहारके लिए किसी नगरमें गये थे । वहाँ कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि 'इस युवाके चिह्न तो पृथिवीका राज्य करनेके योग्य हैं परन्तु यह भिक्षा भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक शास्त्रोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ये सब व्यर्थ हैं' । इस प्रकार उस निमित्तज्ञानीने लक्षणशास्त्र—सामुद्रिक शास्त्रकी निन्दा की । उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी था वह कहने लगा कि 'यह तो राज्यलक्ष्मीका ही उपभोग करता था परन्तु सगर राजके मन्त्रीने भूठ भूठ ही कृतिमशास्त्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसीलिए इसने लज्जावश तप धारण कर लिया । इसके चले जानेपर सगरने सुलसाको स्वीकृत कर लिया' । उस निमित्तज्ञानीके वचन सुनकर मधुपिङ्गल मुनि क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो गये ॥ २४५-२४६ ॥ मैं इस तपके फलसे दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त वंशको निर्मूल करूँगा' ऐसा उन बुद्धिहीन मधुपिङ्गल मुनिने

१ विदित्वागात् ख०, म० । विदित्वापु-ल० । २ पर्याप्तो ल० । ३ देहजैः ब० । ४-गमे ख० । ५ श्रियो ग० । ६-माकर्ण्य ल० ।-माकर्ण्य म० ।

महाकालोऽभवत्तत्र देवैरावेष्टितो निजैः । देवलोकमिमं केन प्राप्तोऽहमिति संस्मरन् ॥ २५२ ॥  
 ज्ञात्वा विभङ्गज्ञानोपयोगेन प्राक्तने भवे । प्रवृत्तमखिलं पापी कोपाविष्कृतचेतसा ॥ २५३ ॥  
 तस्मिन् मन्त्रिणि भूपे च रुडवैरोऽपि तौ तदा । अनिच्छन् हन्तुमत्युमं सुचिकीर्षुरहं तयोः ॥ २५४ ॥  
 तदुपायसहायांश्च सन्निन्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन् महत्पापमात्मनो धिग्विमूढताम् ॥ २५५ ॥  
 इदं प्रकृतमत्रान्यपादभिप्रायसाधनम् । द्वीपेऽत्र भरते देशे धवले स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥  
 पुरं विश्वावसुस्तस्य पालको हरिवंशजः । देव्यस्य श्रीमती नाम्ना वसुरासीत्सुतोऽनयोः ॥ २५७ ॥  
 तत्रैव ब्राह्मणः पूज्यः सर्वशास्त्रविशारदः । अभूत्क्षीरकदम्बाख्यो विख्यातोऽध्यापकोत्तमः ॥ २५८ ॥  
 'समीपे तस्य तत्सूनुः पर्वतोऽन्यश्च नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुग्वसुश्च महीपतेः ॥ २५९ ॥  
 एते त्रयोऽपि विद्यानां पारमापत्स पर्वतः । तेष्वधीर्विपरीतार्थग्राहीमोहविपाकतः ॥ २६० ॥  
 शेषौ यथोपदिष्टार्थग्राहिणौ ते त्रयोऽप्यगुः । वनं दर्भादिकं चेतुं सोपाध्यायाः कदाचन ॥ २६१ ॥  
 गुरुः श्रुतधरो नाम तत्राचलशिलालले । स्थितो मुनित्रयं तस्मात्कृत्वाष्टाङ्गनिमित्तकम् ॥ २६२ ॥  
 तत्समाप्तौ स्तुतिं कृत्वा सुस्थितं तन्निरिद्वय सः । तन्नैःपुण्यपरीक्षार्थं समष्टच्छन्मुनीश्वरः ॥ २६३ ॥  
 पठच्छात्रत्रयस्यास्य नाम किं कस्य किं कुलम् । को भावः का गतिः प्रान्ते भवद्भिः कथ्यतामिति ॥ २६४ ॥  
 तेष्वेकोऽभापतात्मजः शृण्वित्यस्मत्समीपगः । वसुः क्षिनिपतेः सूनुः तीव्ररागादिदूषितः ॥ २६५ ॥

निदान कर लिया । अन्नमें मरकर वे असुरेन्द्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहिली कक्षामें चांसठ हजार असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ । वहाँ उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय देवोंने घेर लिया । मैं इस देव लोकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ । जब वह इस बातका स्मरण करने लगा तो उसे विभङ्गावधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्वभवका मत्र समाचार याद आ गया । याद आते ही उस पापीका चित्त क्रोधसे भर गया । मन्त्री और राजाके ऊपर उसका वैर जम गया । यद्यपि उन दोनोंपर उसका वैर जमा हुआ था तथापि वह उन्हें जानसे नहीं मारना चाहता था, उसके बदले वह उनसे कोई भयङ्कर पाप करवाना चाहता था ॥ २५०-२५४ ॥ वह असुर इन्के योग्य उपाय तथा सहायकोंका विचार करना हुआ पृथिवीपर आया परन्तु उसने इस बातका विचार नहीं किया कि इससे मुझे बहुत भारी पापका सञ्चय होता है । आचार्य कहते हैं कि ऐसी मूढताके लिए धिक्कार हो ॥ २५५ ॥ उधर वह अपने कार्यके योग्य उपाय और सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायका सिद्ध करनेवाली दूसरी घटना घटित हुई जो इस प्रकार है । इसी जम्बूद्वीप सम्यन्धी भरतक्षेत्रके धवल देशमें एक स्वस्तिकावती नामका नगर है । हरिवंशमें उत्पन्न हुआ राजा विश्वावसु उसका पालन करता था । इसकी स्त्रीका नाम श्रीमती था । उन दोनोंके वसु नामका पुत्र था ॥ २५६-२५७ ॥ उसी नगरमें एक क्षीरकदम्ब नामका पूज्य ब्राह्मण रहता था । वह समस्त शास्त्रोंका विद्वान् था और प्रसिद्ध श्रेष्ठ अध्यापक था ॥ २५८ ॥ उसके पास उसका लड़का पर्वत, दूसरे देशसे आया हुआ नारद और राजाका पुत्र वसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे ॥ २५९ ॥ ये तीनों ही छात्र विद्याओंके पारको प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमें पर्वत निर्वुद्धि था, वह मोहके उदयसे सदा विपरीत अर्थ ग्रहण करता था । बाकी दो छात्र, पदार्थका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसा ही ग्रहण करते थे । किसी एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेके लिए वनमें गये थे ॥ २६०-२६१ ॥ वहाँ एक पर्वतकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु विराजमान थे । अन्य तीन मुनि उन श्रुतधर गुरुके अष्टाङ्गनिमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे । जब अष्टाङ्गनिमित्त ज्ञानका अध्ययन पूर्ण हो गया तब वे तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर बैठ गये । उन्हें बैठे देखकर श्रुतधर मुनिराजने उनकी चतुराईकी परीक्षा करनेके लिए पूछा कि 'जो ये तीन छात्र बैठे हैं इनमें किसका क्या नाम है ? क्या कुल है ? क्या अभिप्राय है ? और अन्नमें किसकी क्या गति होगी ? यह आप लोग कहें ॥ २६२-२६४ ॥ उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे । वे कहने लगे कि मुनिये, यह जो राजाका पुत्र वसु

हिंसाधर्मं विनिश्चित्य <sup>१</sup>नरकावासमेष्यति । <sup>२</sup>परोऽब्रवीदयं मध्यस्थितो ब्राह्मणपुत्रकः ॥२६६॥  
 पर्वताख्यो विधीः क्रूरो महाकालोपदेशानात् । पठित्वाथर्वणं पापशास्त्रं दुर्मागदेशकः ॥२६७॥  
 हिंसैव धर्मं हृत्यज्ञो रौद्रध्यानपरायणः । बहूँस्तत्र प्रवर्त्यास्मिन् नरकं यास्यतीत्यतः ॥२६८॥  
 तृतीयोऽपि ततोऽवादीदेश पश्चादवस्थितः । नारदाख्यो द्विजो धीमान् धर्मध्यानपरायणः ॥२६९॥  
 अहिंसालक्षणं धर्ममाश्रितानामुदाहरन् । पतिगिरितटाख्यायाः पुरो भूत्वा परिग्रहम् ॥२७०॥  
 परित्यज्य तपः प्राप्य प्रान्तानुत्तरमेष्यति । इत्येवं तैस्त्रिभिः प्रोक्तं श्रुत्वा सग्यगमयोदितम् ॥२७१॥  
 सोपदेशं धृतं सर्वैरित्यस्तावीन्मुनिश्च तान् । सर्वमेतदुपाध्यायः प्रत्यासन्नद्रुमाश्रयः ॥२७२॥  
 प्रणिधानात्तदाकर्ण्य तदेतद्विधिचेष्टितम् । एतयोरशुभं धिग्धिक् किं मयात्र विधीयते ॥२७३॥  
 विचिन्व्येति यतीन् भक्त्या तत्स्थ एवाभिवन्ध तान् । वैमनस्येन तैश्च्छात्रैर्नगरं प्राविशन् समम् ॥२७४॥  
 शास्त्रबालत्वयोरैकवत्सरे परिपूरणे । वसोः पिता स्वयं पटं वध्वा प्रायात्तपोवनम् ॥२७५॥  
 वसुः निष्कण्टकं पृथ्वीं पालयन् हेलयान्यदा । वनं विहर्तुमभ्येत्य पयोधरपथाद् द्विजान् ॥२७६॥  
 प्रसवत्य पतितान् वीक्ष्य विस्मयादिति खाद् द्रुतम् । पततां हेतुनावश्यं भवितव्यमिति स्फुटम् ॥२७७॥  
 मत्वाकृष्यधनुर्बाणममुञ्चत्तद्विशिवत् । स्वलित्वा <sup>३</sup>पतितं तस्मात् सर्माक्ष्य महोपतिः ॥२७८॥  
 तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा रथिकेन सहाभृशान् । आकाशस्फटिकस्तम्भं विज्ञायाविदितं परैः ॥२७९॥

दुर्मागे पास बैठे हुए हैं वह तीनों रागादिद्रुपित हैं अतः हिंसारूप धर्मका निश्चयकर नरक जावेगा । तदनन्तर वीचमं बैठे हुए दुर्मागे मुनि कहने लगे कि यह जो ब्राह्मणका लड़का है इसका पर्वत नाम है, यह निवृद्धि है, क्रूर है, यह महाकालके उपदेशमें अथर्ववेद नामक पापप्रवर्तक शास्त्रका अध्ययन-कर खोटे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिंसाको ही धर्म समझता है, निरन्तर रौद्रध्यानमें तत्पर रहता है और बहुत लोगोंको उर्मा मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त करता है अतः नरक जावेगा ॥ २६५-२६८ ॥ तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे बैठे हैं इसका नारद नाम है, यह जातिका ब्राह्मण है, बुद्धिमान् है, धर्मध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगोंको अहिंसारूप धर्मका उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा होगा और अन्तमें परिग्रह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अन्तमें अनुत्तरविमानमें उत्पन्न होगा । इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रुतधर मुनिराजने कहा कि तुम लोगोंने मेरा कहा उपदेश ठीक ठीक ग्रहण किया है? ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियोंकी स्तुति की । इधर एक वृक्षके आश्रयमें बैठे हुए क्षीर-कदम्ब उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे सुन रहा था । सुनकर वह विचारने लगा कि विधिवी लोला बड़ी ही विचित्र है, देखा, इन दोनोंकी—पर्वत और वसुकी अशुभगति हानेवाली है, इनके अशुभ कर्मको धिक्कार हो, धिक्कार हो, मैं इस विषयमें कर ही क्या सकता हूँ ? ॥ २६६-२७३ ॥ ऐसा विचारकर उसने उन मुनियोंको वहीं वृक्षके नीचे बैठे बैठे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और फिर बड़ी उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपने नगरमें आ गया ॥ २७४ ॥ एक वर्षके बाद शास्त्राध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण होनेपर वसुके पिता विश्रावसु, वसुको राज्यपट्ट <sup>१</sup>बाँधकर स्वयं तपोवनके लिए चले गये ॥ २७५ ॥ इधर वसु पृथिवीका अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा । किसी एक दिन वह विहार करनेके लिए वनमें गया था । वहीं क्या देखता है कि बहुतसे पत्नी आकाशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं । यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । वह विचार करने लगा कि आकाशसे जो ये पत्नी नीचे गिर रहे हैं इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिये ॥ २७६-२७७ ॥ यह विचार, उसने उस स्थानका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुष खींचकर एक बाण छोड़ा वह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे गिर पड़ा । यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया और सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पर्श किया । स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह आकाश स्फटिकका स्तम्भ है, वह स्तम्भ आकाशके रङ्गसे इतना मिलता जुलता था कि किसी दूसरेको

आनाय्य तेन निर्माप्य पृथुपादचतुष्टयम् । तस्मिन्सासनमारुह्य सेव्यमानो नृपादिभिः ॥२८०॥  
 वसुः सत्यस्य माहात्म्यास्थितः खे सिंहविष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोन्नतिः ॥२८१॥  
 तस्थावेवं प्रयात्यस्य काले पर्वतनारदौ । समित्पुष्पार्थमभ्येत्य वनं नद्याः प्रवाहजम् ॥२८२॥  
 जलं पीत्वा मयूराणां गतानां मार्गदर्शनान् । बभाषे नारदस्तत्र हे पर्वत शिखावलः ॥२८३॥  
 तेष्वेकोऽस्ति स्त्रियः ससैवेति तच्छ्रवणादसौ । मृषेत्यसोढा चित्तेव व्यधात् पणितबन्धनम् ॥२८४॥  
 १गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित् सद्भूतं नारदोदितम् । विदित्वा विस्मयं सोऽगान्मनागस्मात्पुरोगतः ॥२८५॥  
 १करोणुमार्गमालोक्य सस्मितं नारदोऽवदत् । अन्धवामेक्षणा हस्तिवशैकात्राधुना गता ॥२८६॥  
 अन्धसर्पविलायानमिव ते पूर्वभाषितम् । आसीद्यादच्छिकं सत्यमिदं तु परिहास्यताम् ॥२८७॥  
 प्रयाति तव विज्ञानं मया विदितमस्ति किम् । इति स्मितं स सामूथं चित्ते विस्मयमासवान् ॥२८८॥  
 तमसत्यं पुनः कर्तुं करिणीगमनानुगः । १पुराऽन्तर्नारदोद्दिष्टमुपलभ्य तथैव तत् ॥२८९॥  
 सशोको गृहमागत्य नारदोक्तं सविस्मयः । मातरं बोधयित्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥  
 नावोचच्छास्त्रयाथात्म्यमस्ति मय्यस्य नादरः । इति पुत्रवचस्तस्या हृदयं निशितास्त्रवत् ॥२९१॥  
 विदार्थं प्राविशत्यायाद्विपरीतावमर्शनान् । ब्राह्मणी तद्वचश्चित्तेनावधार्यं शुचं गता ॥२९२॥  
 कृत्वा स्नानाग्निहोत्रादि भुक्त्वा स्वब्राह्मणे स्थिते । अब्रवीत् पर्वतप्रोक्तं तन्नशिष्यं विदां वरः ॥२९३॥  
 निविशेपोपदेशोऽहं सर्वेषां पुरुषं प्रति । विभिन्ना बुद्धयस्तस्मान्नारदः कुशलोऽभवत् ॥२९४॥

आज्ञातक उसका बोध नहीं हुआ था ॥ २७८-२७९ ॥ राजा वसुने उस स्तम्भको घर लाकर उसके चार बड़े बड़े पायों, वनवाये और उनका सिंहासन बनवाकर वह उसपर आरुढ़ हुआ । उस समय अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थे । लोंग बड़े आश्चर्यसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए कहते थे कि देवों, राजा वसु सत्यके माहात्म्यसे सिंहासनपर अधर आकाशमें बैठता है ॥२८०-२८१॥ इस प्रकार अधर राजा वसुका समय बीत रहा था अधर एक दिन पर्वत और नारद, समिधा तथा पुष्प लानेके लिए वनमें गये थे । वहाँ वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नदीके प्रवाहका पानी पीकर गये हुए हैं । उनका मार्ग देखकर नारदने पर्वतसे कहा कि हे पर्वत ! ये जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है और बाकी सात स्त्रियाँ हैं । नारदकी बात सुनकर पर्वतने कहा कि तुम्हारा कहना भूठ है, उसे मनमें यह बात मन्त्र नहीं हुई अतः उसने कोई शर्त बाँध ली ॥ २८२-२८४ ॥ तदनन्तर कुछ आगे जाकर जब उसे इस बातका पता चला कि नारदका कहा सच है तो वह आश्चर्यको प्राप्त हुआ । वे दोनों वहाँसे कुछ और आगे बढ़े तो नारद हाथियोंका मार्ग देखकर मुसकराना हुआ बोला कि यहाँसे जो अभी हस्तिनी गई है उसका बाँया नेत्र अन्धा है ॥ २८५-२८६ ॥ पर्वतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अन्धे साँपका बिलमें पहुँच जानेके समान यों ही सच निकल आया यह ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञान हँसीको प्राप्त होता है । मैं क्या ममभूँ ? इस तरह हँसते हुए ईर्ष्याके साथ उसने कहा और चित्तमें आश्चर्य प्राप्त किया ॥ २८७-२८८ ॥ तदनन्तर नारदको भूठा सिद्ध करनेके लिए वह हस्तिनीके मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा और नगरतक पहुँचनेके पहले ही उसे इस बातका पता चल गया कि नारदने जो कहा था वह सच है ॥ २८९ ॥ अब तो पर्वतके शोकका पार नहीं रहा । वह शोक करता हुआ बड़े आश्चर्यसे घर आया और नारदकी कही हुई सब बात मातासे कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदको शास्त्रकी यथार्थ बात बतलाते हैं उस प्रकार मुझे नहीं बतलाते हैं । ये सदा मेरा अन्याय करते हैं । इसतरह पापादयसे विपरीत विचार करनेके कारण पुत्रके वचन, तीक्ष्णशस्त्रके समान उसके हृदयको चीरकर भीतर घुस गये । ब्राह्मणी पुत्रके वचनोंका विचारकर हृदयसे शोक करने लगी ॥ २९०-२९२ ॥ जब ब्राह्मण क्षीरकदम्ब स्नान, अग्नि होत्र तथा भोजन करके बैठा तब ब्राह्मणीने पर्वतके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनाई । उसे

१ इति सर्वत्र पुस्तकेषु पाठः । ल० पुस्तके तु भ्रष्टो विपर्ययो वा । २ पुरा तन्नारदोद्दिष्ट ख०, ग० । पुरोऽन्तर्नारदोद्दिष्ट म० । पुरोन्तर्नारदादिष्ट ल० ।

प्रकृत्या त्वस्सुतो मन्दो नास्यास्मिन् विधीयताम्<sup>१</sup> । इति तत्प्रत्ययं कर्तुं नारदं सुतसन्निधौ ॥२९५॥  
 वद वेन वने भ्राम्यन्पर्वतस्थोव्यादयः । विस्मयं बह्विति प्राह सोऽपि सप्रश्रयोऽभ्यधान् ॥२९६॥  
 वनेऽहं पर्वतेनामा गच्छन्नर्मकथारतः<sup>२</sup> । शिखिनां पीतवारीणां सद्यो नद्या निवर्तने ॥२९७॥  
 स्वचन्द्रककलापाम्भोमध्यमज्जनगौरवात् । भीत्वा व्याकृत्य विमुखं कृतपश्चात्पदस्थितिः ॥२९८॥  
 कलापी गतवानेकः शेषाश्च तज्जलादिताः<sup>३</sup> । पत्रभागं विधूयागुस्तं दृष्ट्वा समभाषिषि ॥२९९॥  
 पुमानेकः स्त्रियश्चान्या इति मत्वानुमानतः । ततो वनान्तरात्किञ्चिदागत्य पुरसन्निधौ ॥३००॥  
 तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चिमाभ्यां प्रयाणके । स्वमूत्रघट्टनाद्वागो दक्षिणे तरुवीरुधाम् ॥३०१॥  
 भङ्गेन मार्गात्प्रच्युत्य श्रमादारूढयोपितः । शीतच्छायाभिलाषेण सुसायाः पुलिनस्थले ॥३०२॥  
 उदरस्पर्शमार्गेण दशया गुल्मशक्तया । करिणीश्रितगोहाप्रसितोद्यत्केतनेन च ॥३०३॥  
 मया तदुक्तमित्येतद्ब्रुवन्नाद् द्विजसत्तमः । निजापराधभावस्याभावमाविरभावयत् ॥३०४॥  
 तदा पर्वतमातापि प्रसन्नाभूत्पुनश्च सः । तस्यास्तन्मुनिवाक्यार्थसंग्रत्ययविधित्सुकः ॥३०५॥  
 स्वपुत्रछात्रयोर्भावपरीक्षायै द्विजाग्रणीः । स्थित्वा सजानिरेकान्ते कृत्वा पिष्टेन वस्तकौ ॥३०६॥  
 देशोऽचित्वा परादये गन्धमाल्यादिमङ्गलैः । कर्णच्छेदं<sup>४</sup> विधायैतावद्यैवानयतं युवाम् ॥३०७॥  
 इत्यवादीत्पातः पापी पर्वतोऽस्ति न कश्चन । वनेऽस्मिन्निति विच्छिद्य कर्णौ पितरमागतः ॥३०८॥

मुनकर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तो सबको एकसा-उपदेश देता हूँ परन्तु प्रत्येक पुरुषकी बुद्धि भिन्न भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद क्रुशाल हो गया है । तुम्हारा पुत्र स्वभावसे ही मन्द है, इसलिए नारदपर व्यर्थ ही ईर्ष्या न करो । यह कहकर उसने विश्राम दिलानेके लिए पुत्रके समीप ही नारदके कहा कि कहाँ, आज वनमें घूमते हुए तुमने पर्वतका क्या उपद्रव किया था ? गुरुकी बात मुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आश्चर्य है ? यह कहते हुए उसने बड़ी विनयसे कहा कि मैं पर्वतके साथ विनोद-वार्ता करता हुआ वनमें जा रहा था । वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैं ॥ २९३-२९७ ॥ उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें भोगकर भारी हो जानेके भयसे अपने पैर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर लौटा था और बाकी जलसे भीगे हुए अपने पङ्क फटकारकर जा रहे थे । यह देख मैंने अनुमान द्वारा पर्वतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है और बाकी स्त्रियाँ हैं । इसके बाद वनके मध्यमें चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी हस्तिनीके पिछले पैर उसीके मूत्रसे भीगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी है । उसके दाहिनी ओरके वृक्ष और लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि यह हस्तिनी वाँई आँखसे कानी है । उसपर वैठी हुई स्त्री मार्गकी थकावटसे उतरकर शीतल छायाकी इच्छासे नदीके किनारे साँई थी वहाँ उसके उदरके स्पर्शसे जो चिह्न बन गये थे उन्हें देखकर मैंने जानता था कि यह स्त्री गर्भिणी है । उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी भाड़ीमें उलभकर लग गया था इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहने थी । जहाँ हस्तिनी ठहरी थी उस घरके अग्रभागपर सफेद ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा । इसप्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी सब बातें कही थीं । नारदकी ये सब बातें मुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने ब्राह्मणीके समन्त प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं है—मैंने दोनोंको एक समान उपदेश दिया है ॥ २९८-३०४ ॥ उस समय पर्वतकी माता भी यह सब मुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी । तदनन्तर उस ब्राह्मणने पर्वतकी माताको उन मुनियोंके वचनोंका विश्राम दिलानेकी इच्छा की । वह अपने पुत्र पर्वत और विद्यार्थी नारदके भाषोंकी परीक्षा करनेके लिए स्त्रीसहित एकान्तमें बैठा । उसने आटेके दो ककरे बनाकर पर्वत और नारदको सौपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि माङ्गलिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले आओ ॥ ३०५-३०७ ॥ तदनन्तर पापी पर्वतने सोचा कि इस वनमें कोई नहीं है इसलिए वह एक

१ विधीयते म०, ल० । २ कर्मकथारतः क०, घ० । नर्मकथान्तरम्ल० । ३ तज्जलादितं ख०, म० ।

४ विधायैना-ल० ।

त्वया पूज्य १ यथोद्दिष्टं तत्रैव मया कृतम् । इति वीतघृणो हर्षात्स्वप्रेषणमब्रुवधत् ॥३०९॥  
 नारदोऽपि घ्नं यातोऽदृश्यदेशेऽस्य कर्णयोः । कर्तव्यश्छेद् हृत्युक्तं गुरुणा चन्द्रभास्करौ ॥३१०॥  
 नक्षत्राणि ग्रहास्तारकाश्च पश्यन्ति देवताः । २ सदा सन्निहिता सन्ति पक्षिणो मृगजातयः ॥३११॥  
 नैते शक्त्या निराकर्तुमिन्त्येत्य गुरुसन्निधिम् ३ । भव्यात्माऽदृष्टदेशस्य वने केनाप्यसम्भवात् ॥३१२॥  
 नामादिचतुरर्थेषु पापापल्यातिकारण- । क्रियायामविधेयत्वाच्चाहमानीतवानिमम् ॥३१३॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा स्वसुतस्य जडात्मताम् । विचिन्त्यैकान्तवाद्युक्तं सर्वथा कारणानुगम् ॥३१४॥  
 कार्यमिन्त्येतदेकान्तमन्तं कुमतमेव तत् । कारणानुमतं कार्यं क्वचित्क्वचिदन्यथा ॥३१५॥  
 इति स्याद्वाक्सन्दृष्टं सत्यमित्यभितुष्टवान् । शिष्यस्य योग्यतां चित्ते निधाय बुधसशमः ॥३१६॥  
 हे नारद त्वमेवात्र सूक्ष्मप्रज्ञो यथार्थवित् । इतः प्रभृत्युपाध्यायपदे त्वं स्थापितो मया ॥३१७॥  
 व्याख्येयानि त्वया सर्वशास्त्राणीति प्रपूज्य तम् । प्रावर्द्धयद् गुणैरेव प्रीतिः सर्वत्र धीमताम् ॥३१८॥  
 निजाभिमुखमासीनं तनुजं चैवमब्रवीत् । विनाङ्गत्वं विवेकेन ४ व्यधाद्यंतद्विरूपकम् ॥३१९॥  
 कार्याकार्यविवेकस्ते न श्रुतादपि विद्यते । कथं जीवसि मच्चक्षुःपरांक्षे गतधीरिति ॥३२०॥  
 एवं पित्रा सशोकेन कृतशिक्षोऽविचक्षणः । नारदे ब्रह्मवैरोऽभूत्कुधियार्त्मादृशी गतिः ॥३२१॥  
 स कदाचिदुपाध्यायः सर्वसङ्गान् परित्यजन् । पर्वतस्तस्य माता च मन्दबुद्धा तथापि तौ ॥३२२॥

वकरोके दोनों कान काटकर पिताके पास वापस आ गया और कहने लगा कि हे पूज्य ! आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है । इसप्रकार दयाहीन पर्वतने बड़े हर्षसे अपना कार्य पूर्ण करनेकी सूचना पिताको दी ॥३०९-३०९॥ नारद भी वनमें गया और सोचने लगा कि 'अदृश्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना है' ऐसा गुरुजीने कहा था परन्तु यहाँ अदृश्य स्थान है ही कहाँ ? देखो न, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे आदि देवता सब आरसे देख रहे हैं । पक्षी तथा हरिण आदि अनेक जङ्गली जीव सदा पास ही रह रहे हैं । ये किसी भी तरह यहाँसे दूर नहीं किये जा सकते । ऐसा विचारकर वह भव्यात्मा गुरुके पास वापिस आ गया और कहने लगा कि वनमें ऐसा स्थान मिलना असम्भव है जिसे किसीने नहीं देखा हो । इसके मित्राय दूमरी बात यह है कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चारों पदार्थोंमें पाप तथा निन्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं है इसलिए मैं इस वकराको ऐसा ही लेता आया हूँ ॥ ३१०-३१३ ॥ नारदके वचन सुनकर उस ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूर्खताका विचार किया और कहा कि जो एकान्तवादी कारणके अनुसार कार्य मानते हैं वह एकान्तवाद है और मिथ्यामत है, कहीं तो कारणके अनुसार कार्य होता है और कहीं इसके विपरीत भी होता है । ऐसा जो स्याद्वादका कहना है वही सत्य है । देखो मेरे परिणाम सदा दयासे आर्द्र रहते हैं परन्तु मुझसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त निर्दय हैं । यहाँ कारणके अनुसार कार्य कहाँ हुआ ? इस प्रकार वह श्रेष्ठ विद्वान् बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और शिष्यकी योग्यता का हृदयमें विचार कर कहने लगा कि हे नारद ! तू ही सूक्ष्मबुद्धिवाला और पदार्थको यथार्थ जाननेवाला है इसलिए आजसे लेकर मैं तुझे उपाध्यायके पदपर नियुक्त करता हूँ । आजसे तू ही समस्त शास्त्रोंका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया सो ठीक ही है क्योंकि सब जगह विद्वानोंकी प्रीति गुणोंसे ही होता है ॥ ३१४-३१८ ॥ नारदसे इतना कहनेके बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कहा—हे पुत्र ! तूने विवेकके विना ही यह विरुद्ध कार्य किया है । देख, शास्त्र पढ़ने पर भी तुझे कार्य और अकार्यका विवेक नहीं हुआ । तू निर्वुद्धि है अतः मेरी आँखोंके आँभल होने पर कैसे जीवित रह संकेगा ? इस प्रकार शोकसे भरे हुए पिताने पर्वतको शिक्षा दी परन्तु उस मूर्ख पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ । वह उसके विपरीत नारदसे वैर रखने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्योंकी ऐसी ही दशा होती है ॥ ३१९-३२१ ॥ किसी

१ यथादिष्टं ल०, म० । २ तथा म० । ३ सन्निधौ म०, ल० । ४ विधायतद्विरूपकम् क०, घ०, ख०, म० । विधा ह्येतद्विरूपकम् ल० ।



पालनायौ स्वया भद्र मत्परोक्षेऽपि सर्वथा । इत्यवोचत्वसुं सोऽपि प्रीतोऽस्मि त्वदनुग्रहात् ॥३२३॥  
 अनुक्तसिद्धमेतत्तु वक्तव्यं किमिदं मम । विधेयः संशयो नात्र पृज्यपाद यथोचितम् ॥३२४॥  
 परलोकमनुष्ठानमर्हसीति द्विजोद्यमम् । मनोहरकथाम्लानमालयाभ्यर्चयन्तुपः ॥३२५॥  
 ततः क्षीरकदम्बे च सम्यक् सम्प्राप्य संयमम् । प्रान्ते संन्यस्य सम्प्राप्ते<sup>२</sup> नाकिनां लोकमुत्तमम् ॥३२६॥  
 पर्वतोऽपि पितृस्थानमध्यास्याशेषशास्त्रवित् । शिक्षाणां विश्वदिक्कानां व्याख्यातुं रतिमातनोत् ॥३२७॥  
 तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि विद्वज्जानन्वितः । सूक्ष्मधीविहितस्थानो बभार व्याख्यया यशः ॥३२८॥  
 गच्छत्येवं तयोः काले कदाचित्साधुसंसदि । अजैर्होतव्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थप्ररूपणे ॥३२९॥  
 विवादोऽभून्महास्तत्र विगताङ्कुरशक्तिकम् । यवबीजं त्रिवर्षस्थमजमित्यभिधीयते ॥३३०॥  
 तद्विकारेण सप्तार्चिमुखे देवार्चनं विदः । वदन्ति यज्ञमित्याख्यदनुपद्धति नारदः ॥३३१॥  
 पर्वतोऽप्यजशब्देन<sup>३</sup> पशुभेदः प्रकीर्तितः । यज्ञोऽद्वै तद्विकारेण होत्रमित्यवदद्विधीः ॥३३२॥  
 द्वयोर्वचनमाकर्ण्य द्विजप्रमुखसाधवः । मान्सर्यान्भारदेनैव धर्मः प्राणवधादिति ॥३३३॥  
 प्रतिष्ठापयितुं धात्र्यां दुरात्मा पर्वतोऽब्रवीत् । पतितोऽयमयोग्योऽतः सह सम्भाषणदिभिः ॥३३४॥  
 इति हस्ततलास्फालनेन निर्भर्त्स्य तं क्रुधा<sup>४</sup> । घोपयामासुरत्रैव दुर्बुद्धेरीदृशं फलम् ॥३३५॥  
 एवं बहिः कृतः सर्वैर्मानभङ्गादगाद्गनम् । तत्र ब्राह्मणवेपेण वयसा परिणामिना ॥३३६॥

एक दिन क्षीरकदम्बकने समस्त परिग्रहोंके त्याग करनेका विचार किया इसलिये उसने राजा वसुसे कहा कि यह पर्वत और उसकी माता यद्यपि मन्दबुद्धि हैं तथापि हे भद्र ! मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारसे पालन करना चाहिये । उत्तरमें राजा वसुने कहा कि मैं आपके अनुग्रहसे प्रसन्न हूँ । यह कार्य तो विना कहे ही करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते हैं ? हे पृज्यपाद ! इसमें थोड़ा भी संशय नहीं कीजिये, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिये । इस प्रकार मनोहर कथा रूपी अम्लान मालाके द्वारा राजा वसुने उस उत्तम ब्राह्मणका मूत्र ही सन्कार किया ॥ ३२२-३२५ ॥ तदनन्तर क्षीरकदम्बकने उत्तम संयम धारण कर लिया और अन्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्वर्ग लोकमें जन्म प्राप्त किया ॥ ३२६ ॥

इधर समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला पर्वत भी पिताके स्थान पर बैठकर सब प्रकारकी शिक्षाओंकी व्याख्या करनेमें प्रेम करने लगा ॥ ३२७ ॥ उसी नगरमें सूक्ष्म बुद्धिवाला नारद भी अनेक विद्वानोंके साथ निवास करता था और शास्त्रोंकी व्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था ॥३२८॥ इस प्रकार उन दोनोंका समय बीत रहा था । किसी एक दिन साधुओंकी सभामें 'अजैर्होतव्यम्' इस वाक्यका अर्थ निरूपण करनेमें बड़ा भारी विवाद चल पड़ा । नारद कहता था कि जिसमें अङ्कुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसा तीन वर्षका पुराना जो अज कहलाता है और उससे बनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निमें देवताकी पूजा करना—आहुति देना यज्ञ कहलाता है । नारदका यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धतिके अनुसार था परन्तु निर्बुद्धि पर्वत कहता था कि अज शब्द एक पशु विशेषका वाचक है अतः उममें बनी हुई वस्तुओंके द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है ॥ ३२९-३३२ ॥ उन दोनोंके वचन सुनकर उनम प्रवृत्त वाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पर्वतकी नारदके साथ ईर्ष्या है इसीलिए यह प्राणवधसे धर्म होता है यह बात पृथिवी पर प्रतिष्ठापित करनेके लिए कह रहा है । यह पर्वत बड़ा ही दुष्ट है, पतित है अतः हम सब लोगोंके साथ वार्तालाप आदि करनेमें अयोग्य हैं ॥ ३३३-३३४ ॥ इस प्रकार सबने क्रोधवश हाथकी हथेलियोंके ताड़नसे उस पर्वतका निरस्कार किया और घोपणा की कि दुर्बुद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है ॥ ३३५ ॥ इसप्रकार सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ पर्वत मान-भङ्ग होनेसे वनमें चला गया । वहाँ महाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेष रखकर भ्रमण कर रहा था । उस समय वह वृद्ध

१ विधेय ल०, म० । २ सम्प्राप्तो क०, घ० । ३ पदेन ल० । ४ प्रकीर्त्तते ल० । ५ तयोर्वचन-म०, ल० । ६ परितोऽयमयोग्यो नः क०, घ० । ७ क्रुधा क०, घ०, म० । क्रुधात् ल० ।

१कृतान्तारोहणासन्नसोपानपदवीरिव<sup>१</sup> । वलीरुद्रहता भूयः स्वलतेवान्धचक्षुषा ॥३३७॥  
 विरलेन शिरोजेन सितेन दधता ततम् । राजतं वा शिरस्त्राणमन्तिकान्तकजाङ्गयात् ॥३३८॥  
 जराङ्गनासमासङ्ग<sup>२</sup>सुखाद्वामीलचक्षुषा । चलच्छिन्नकरेणैव करिणा कुपिताहिना ॥३३९॥  
 इवोर्ध्वश्वासिना राजवल्लभेनेव नाग्रतः । प्रस्कृतं पश्यता भग्नपृष्ठेनापटुभाषिणा ॥३४०॥  
 राज्ञेव योग्यदण्डेन शमेनेव तन्मृता । विश्वभूतृपकन्यासु<sup>४</sup> बद्धक्रोधमिवात्मनः ॥३४१॥  
 वक्तुं धारयता यज्ञोपवीतं त्रिगुणीकृतम् । तेन स्वाभिमतारम्भसिद्धिहेतुगवेषिणा ॥३४२॥  
 महाकालेन दृष्टः सन् पर्वतः पर्वते भ्रमन् । प्रतिगम्य तमानम्य सोऽभ्यधादभिवादनम् ॥३४३॥  
 महाकालः समाश्वास्य स्वस्ति तेऽस्त्विति सादरम् । तमविज्ञातपूर्वत्वात्कुतस्यस्त्वं वनान्तरे ॥३४४॥  
 परिभ्रमणमेतत्ते ब्रूहि मे केन हेतुना । इत्यपृच्छदसौ चाह निजवृत्तान्तमादितः ॥३४५॥  
 तं निशम्य महाकालः सगरं मम वैरिणम् । निर्वशीकर्तुमेव स्यात्समर्थो मे प्रतिष्कसः ॥३४६॥  
 इति निश्चित्य पापात्मा<sup>३</sup> विप्रलम्भनपण्डितः । त्वत्पिता स्थण्डिलो विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥  
 १भौमोपाध्यायसाङ्घिष्ये शास्त्राभ्यासमकुर्वीह । त्वत्पिता मे ततो विद्धि धर्मभाता तर्माक्षितुम् ॥३४८॥  
 ममागमनमेतच्च वैफल्यं समपद्यत । मा भैषीः शत्रुविध्वंसे सहायस्ते भवाम्यहम् ॥३४९॥  
 इति क्षीरकदम्बकजेष्ठायांनुगताः स्वयम् । ७अथर्वणगताषष्टिसहस्रप्रमिताः पृथक् ॥३५०॥

अवस्थाके रूपमें था, वह बहुत-सी बलि अर्थान् शरीरकी मिकुड़नोंको धारण कर रहा था वे सिबुद्धनें ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीदियोंका मार्ग ही हो । अन्येकी तरह वह बार-बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिर पर विरले विरले सफेद बाल थे, वह एक सफेद रङ्गकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराजके भयसे उसने चाँदीका टोप ही लगा रक्खा हो, उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वृद्धावस्था रूपी स्त्रीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखमें ही उसके नेत्र बन्द हो रहे थे, उसकी गति सूँड़ कटे हुए हार्थीके समान थी, वह क्रुद्ध साँपके समान लम्बी-लम्बी श्वास भर रहा था, राजाके प्यार मनुष्यके समान वह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ टूटी हुई थी । वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित हांता है अर्थान् सबके लिए योग्य दण्ड-सजा देता है उसी प्रकार वह भी योग्य दण्डसे सहित था—अर्थान् अपने अनुकूल दण्ड-लाठी लिये हुए था, ऊपरसे इतना शान्त दिखता था मानो शरीरधारी शम-शान्ति ही हो, विश्वभू मन्त्री, सगर राजा और सुलसा कन्याके ऊपर हमारा वैर बँधा हुआ है यह कहनेके लिए ही मानो वह तीन लड़कियाँ यज्ञोपवीत धारण कर रहा था, वह अपना अभिप्राय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था । ऐसे महाकालने पर्वत पर घूमते हुए क्षीरकदम्बकके पुत्र पर्वतको देखा । ब्राह्मण वंशधारी महाकालने पर्वतके सम्मुख जाकर उसे नमस्कार किया और पर्वतने भी उसका अभिवादन किया ॥ ३३६-३४३ ॥ महाकालने आश्वासन देते हुए आदरके साथ कहा कि तुम्हारा भला हो । तदनन्तर अज्ञान वनकर महाकालने पर्वतसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो और इस वनके मध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणसे हो रहा है ? पर्वतने भी प्रारम्भसे लेकर अपना सब वृत्तान्त कह दिया । उस सुनकर महाकालने सोचा कि यह मेरे वैरी राजाको निर्वश करनेके लिए समर्थ है, यह मेरा साधर्मि है । ऐसा विचार कर ठगनेमें चतुर पापी महाकाल पर्वतसे कहने लगा कि हे पर्वत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्णुने, उपमन्यु ने और मैंने भौम नामक उपाध्यायके पास शास्त्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्म-भाई हैं । उनके दर्शन करनेके लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था परन्तु खेद है कि वह निष्फल हो गया । तुम डरो मत—शत्रुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ॥ ३४४-३४६ ॥ इस प्रकार उस महाकालने क्षीरकदम्बकके पुत्र पर्वतके इष्ट अर्थका अनुसरण करनेवाली अथर्ववेद सम्बन्धी साठ

१ कृतान्त ल० । २ पदवीमिव ल० । ३ समासन्न ल०, म० । ४ कान्तासु ग०, ल० । ५ प्रविलम्भन म०, ल० । ६ भौमोपाध्याय ल० । ७ अथर्वण ग०, म० ।

शुभो वेदरहस्यानीत्युत्पाद्याध्याप्य पर्वतम् । शान्तिपुण्ड्रमिषारात्मक्रियाः पूर्वोक्तमन्त्रणैः ॥३५१॥  
निशिताः पवनोपेतवह्निज्वालासमाः फलम् । इष्टेरुत्पादमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पशुहिंसनात् ॥३५२॥  
ततः साकेतमध्यास्य शान्तिकादिफलप्रदम् । हिंसायागं समारभ्य प्रभावं विदधामहे ॥३५३॥  
इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थमात्मीयान् दितिपुत्रकान् । तीव्रान् सगरराष्ट्रस्य बाधां तीव्रज्वरादिभिः ॥३५४॥  
कुरुध्वमिति सग्नेष्य सद्भिजस्तत्पुरं गतः । सगरं मन्त्रगभांशीर्वादेनालोक्य पर्वतः ॥३५५॥  
स्वप्रभावं प्रकाश्यास्य स्वदेशविपमाशिवम् । १शममिष्यामि यज्ञेन २समन्त्रेणाविलम्बितम् ॥३५६॥  
यज्ञाय वेधसा सृष्ट्या पशवस्तद्विहिंसनात् । न पापं पुण्यमेव ३स्यात्स्वर्गोऽसुखसाधनम् ॥३५७॥  
इति ४प्रत्याख्य तं पापः पुनरप्येवमब्रवीत् । त्वं पशूनां सहस्राणि पष्टि यागस्य सिद्धये ॥३५८॥  
कुरु संग्रहमन्यच्च द्रव्यं तद्योग्यमित्यसौ । राजापि सर्ववस्तूनि तथैवास्मै समर्पयत् ॥३५९॥  
प्रारभ्य पर्वतो यागं प्राणिनोऽमन्त्रयत्तदा । महाकालः शरीरेण सह स्वर्गमुपागतः ॥३६०॥  
इत्याकाशे विमानैस्तास्त्रीयमानानदर्शयत् । देशाशिवोपसर्गं च तदैवासौ निरस्तवान् ॥३६१॥  
तद्दृष्ट्वा देहिना मुग्धास्तत्प्रलम्भेन मोहिताः । तां गतिं प्रेप्तवो यागमृतिमाकांक्षयन्नलम् ॥३६२॥  
तद्यज्ञावसितौ जात्यं हयमेकं विधानतः । इयाज सुलसां देवीमपि राजाज्ञया खलः ॥३६३॥  
प्रियकान्तावियोगोत्थशोकदावानलचिपा । परिप्लुप्ततनू राजा राजधानीं प्रविष्टवान् ॥३६४॥  
शय्यातले विनिक्षिप्य शरीरं प्राणिहिंसनम् । वृत्तं महद्दिदं धर्मः किमधर्मोऽयमित्यसौ ॥३६५॥  
संशयामस्तथान्येद्युर्मुनिं यतिवराभिधम् । अभिवन्द्य मयारब्धं भट्टारक यथास्थितम् ॥३६६॥

हजार ऋचाएँ पृथक्-पृथक् स्वयं बनाईं । ये ऋचाएँ देवका रहस्य वनलानेवाली थीं, उसने पर्वतके लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मन्त्रोंसे वायुके द्वारा बड़ी हुई अग्निकी ज्वालामें शान्ति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएँ की जायें तो पशुओंकी हिंसासे इष्ट फलकी प्राप्ति हो जाती है । तदनन्तर उन दोनोंने विचार किया कि हम दोनों अयोध्यामें जाकर रहें और शान्ति आदि फल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें ॥ ३५०-३५३ ॥ ऐसा कहकर महाकालने वैरियोंका नाश करनेके लिए अपने क्रूर अगुरोंका गुलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरके देशमें तीव्र उधर आदिके द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो । यह कहकर अगुरोंको भेजा और स्वयं पर्वतको साथ लेकर राजा सगरके नगरमें गया । वहाँ मन्त्र मिश्रित आशीर्वादके द्वारा सगरके दर्शन कर पर्वतने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घोर अमंगल हो रहा है मैं उसे मन्त्रसहित यज्ञके द्वारा शीघ्र ही शान्त कर दूँगा ॥ ३५४-३५६ ॥ विधाताने पशुओंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है अतः उनकी हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गके विशाल सुख प्रदान करनेवाला पुण्य ही होता है ॥ ३५७ ॥ इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिके लिए साठ हजार पशुओंका तथा यज्ञके योग्य अन्य पदार्थोंका संग्रह करो । राजा सगरने भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएँ उसके लिए सौंप दीं ॥ ३५८-३५९ ॥ उधर पर्वतने यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंको मन्त्रित करना शुरू किया—मन्त्रोच्चारण पूर्वक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया । उधर महाकालने उन प्राणियोंको विमानोंमें बैठकर शरीर सहित आकाशमें जाते हुए दिखलाया और लोगोंको विश्वास दिला दिया कि ये सब पशु स्वर्ग गये हैं । उसी समय उसने देशके सब अमङ्गल और उपसर्ग दूर कर दिये ॥ ३६०-३६१ ॥ यह देख बहुतसे भोले प्राणी उसकी प्रतारणा—मायासे मोहित हो गये और स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे यज्ञमें मरनेकी इच्छा करने लगे ॥ ३६२ ॥ यज्ञके समाप्त होने पर उस दुष्ट पर्वतने विधि-पूर्वक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा राजाकी आज्ञासे उसकी सुलसा नामकी रानीको भी होंस दिया ॥ ३६३ ॥ प्रिय स्त्रीके वियोगसे उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानलकी ज्वालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ॥ ३६४ ॥ वहाँ शय्यातल पर अपना शरीर डाल कर वह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी प्राणियोंकी हिंसा हुई है सो यह धर्म है या अधर्म ? ॥ ३६५ ॥ ऐसा संशय करता हुआ

ब्रूहि किं कर्म पुण्यं मे पापं चेदं विचार्य तत् । इत्यबोचदसौ चाह धर्मशास्त्रबहिःकृतम् ॥३९७॥  
 एतदेव विधातारं सप्तमीं प्रापयेत्क्षितिम् । तस्याभिज्ञानमप्यस्ति दिनेऽस्मिन् सप्तमे शनिः ॥३९८॥  
 पतिष्यति ततो यिद्धि सप्तमी धरणीति ते । तदुक्तं भूपतिर्मत्वा ब्राह्मणं तं न्यवेदयत् ॥३९९॥  
 तन्मृया किमसौ वेसि नमः क्षपणकस्ततः । शङ्कास्ति चेत्तवैतस्या शान्तिरत्र विधीयते ॥४००॥  
 इत्युक्तिभिर्मनस्तस्य सन्धार्य शिथिलीकृतम् । यज्ञं पुनस्तमारब्धं स ततः सप्तमे दिने ॥४०१॥  
 माययाऽसुरपापस्य सुलसा नभसि स्थिता । देवभावं गता प्राच्यपशुभेदपरिष्कृता ॥४०२॥  
 यागमृत्युफलेनैवा लब्धा देवगतिर्मया । तं प्रमादं तवाख्यातुं विमानेऽहमिहागता ॥४०३॥  
 यज्ञेन प्रीणिता देवाः पितरश्चेत्यभाषत । तद्वचःश्रवणाद् दृष्टं प्रत्यक्षं यागमृत्युजम् ॥४०४॥  
 फलं जैनमुनेर्वाक्यमसत्यमिति भूपतिः । तीव्रहिंसानुरागेण सद्धर्मद्वेषिणोदयात् ॥४०५॥  
 सम्भूतपरिणामेन मूलोत्तरविकल्पितान् । तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदुष्टसंक्षेपसाधनान् ॥४०६॥  
 नरकायुःप्रमृत्युप्येकर्मणां स्वोचितस्थितेः । अनुभागस्य बन्धस्य निकाचितनिबन्धने ॥४०७॥  
 विभीषणशान्तिवने तत्काले पतिते रिपौ । तत्कर्मणि प्रसक्ताखिलाङ्गिभिः सगरः सह ॥४०८॥  
 रौरवेऽजनि दुष्टात्मा महाकाशोऽपि तत्क्षणे । स्ववैरपवनापूरणेन गत्वा रसातलम् ॥४०९॥  
 तं दण्डयितुमुत्क्रोधस्तृतीयनरकावधौ । अन्विष्यानवलोक्यैनं विश्वभूप्रभृतिद्विपम् ॥४१०॥  
 मृत्तिप्रयोगसम्पादी ततो निर्गम्य निर्घृणः । पर्वतस्य प्रसादेन सुलसासहितः सुखम् ॥४११॥  
 प्राप्तोऽहमिति शंसन्तं विमानेऽरिमदर्शयत् । तं दृष्ट्वा तत्परोक्षेऽत्र विश्वभूः सचिवः स्वयम् ॥४१२॥

वह यतिवर नामक मुनिके पास गया और नमस्कार कर पृथ्वीने लगा कि हे स्वामिन ! मैंने जो कार्य प्रारम्भ किया है वह आपको ठीक-ठीक विदित है । विचार कर आप यह कदिये कि मेरा यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यह कार्य धर्मशास्त्रमे बहिष्कृत है, यह कार्य ही अपने करनेवालेको मृत्यु नरक भेजेगा । उसकी पहिचान यह है कि आजसे सातवें दिन वज्र गिरेगा उससे जान लेता कि तुम्हें सातवीं पृथिवी प्राप्त हुई है । मुनिराजका कहा ठीक मान कर राजाने उस ब्राह्मण-पर्वतसे यह सब बात कही ॥ ३६६-३६६ ॥ राजाकी यह बात मुनकर पर्वत कहने लगा कि वह झूठ है, वह गंगा साधु क्या जानता है ? फिर भी तुम्हें यदि शंका है तो इसकी भी शांति कर डालते हैं ॥ ३७० ॥ इस तरहके वचनोंसे राजाका मन स्थिर किया और जो यज्ञ शिथिल कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया । तदनन्तर सातवें दिन उस पापी ऋषिने दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाशमें खड़ी है, पहले जो पशु हॉमे गये थे वे भी उसके साथ हैं । वह राजा सगरसे कह रही है कि यज्ञमें मरनेके फलसे ही मैंने यह देवगति पाई है, मैं यह सब हर्षकी बात आपको कहनेके लिए ही विमानमें बैठ कर यहाँ आई हूँ । यज्ञमें सब देवता प्रसन्न हुए हैं और सब पितर वृष हुए हैं । उसके यह वचन मुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञमें मरनेका फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अतः जैन मुनिके वचन असत्य हैं । उर्मी समय अनुराग रखनेसे एवं सद्धर्मके साथ द्वेष करने वाले कर्मकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे उत्पन्न हुए परिणामोंसे, नरकायुको आदि लेकर आठों कर्मोंका अपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एवं उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पड़ गया । उसी समय भयङ्कर वज्रपात हुआ, वह उन सब शत्रुओं पर पड़ा और उस कायमें लगे हुए सब जीवोंके साथ राजा सगर मर कर रौरव नरक—सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ । अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीव्र क्रोध करता हुआ अपने वैररूपी वायुके भँकारसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीचे जानेकी अवधि तीसरे नरक तक ही थी । वहाँ तक उसने उसे खाँजा परन्तु जव पना नहीं चला तब वह निर्दय वहाँसे निकला और विश्वभू मंत्री आदि शत्रुओंको मारनेका उपाय करने लगा । उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विमानमें बैठा हुआ कह रहा है कि मैं पर्वतके

१ शङ्काचेत्तवैतया ल० । २ समाग्धः ल० । ३ पुरस्कृत म०, ल० । ४ फलेनैव ल० । ५ पतितौ  
 ६ तत्कर्मणि तत्कर्मप्रसक्ता ल० ।

विषयाधिपतिर्भूत्वा महामेधे कृतोद्यमः । विमानान्तर्गता देवा पितरश्च नभोऽङ्गणे ॥३८३॥  
 सर्वेषां दृशिता व्यक्तं महाकालस्य मायाया । महामेधस्त्वया यागो मन्त्रिन् पुण्यवता कृतः ॥३८४॥  
 इति विश्वभुवं भूपः सम्भूयास्ताविपुस्तदा । नारदस्तापसाश्चैतदाकर्ण्यैष दुरात्मना ॥३८५॥  
 १ दुर्मागो द्विपतानेन धिक् लोकस्य प्रकाशितः । निवार्योयमुपायेन केनचित्प्रापपण्डितः ॥३८६॥  
 इति सर्वेपि सङ्गत्य साकेतपुरमागताः । यथाविधि समालोक्य सचिवं पापिनो नराः ॥३८७॥  
 नितान्तमर्थकामार्थं कुर्वन्ति प्राणिनां वधम् । न केऽपि कापि धर्मार्थं प्राणिनां सन्ति घातकाः ॥३८८॥  
 वेदविद्भिरहिंसोक्ता ३ वेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवल्लीव मातेव सखीव जगते हिता ॥३८९॥  
 इति ४ पूर्वपिवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । त्याज्यमेतद्ब्रह्मप्रायं कर्म कर्मनिबन्धनम् ॥३९०॥  
 तापसैरभ्यधायीति सर्वप्राणिहितैपिभिः । विश्वभूरिदमाकर्ण्य तापसा भोः कथं मया ॥३९१॥  
 दृष्टं शक्यमपह्लातुं साक्षात्स्वर्गस्य साधनम् । इति ब्रुवन् पुनर्नारदेनांकः पापभीरुणा ॥३९२॥  
 अमात्योत्तम विद्वांस्त्वं किमिति स्वर्गसाधनम् । सगरं सपरीवारं निर्मूलयितुमिच्छता ॥३९३॥  
 उपायोऽयं व्यधायैवं प्रत्यक्षफलदर्शनात् । केनचित्कुहुकजेन सुश्रानां मोहकारणम् ॥३९४॥  
 ततः शीलोपवासाद्विधिमापांगमोदिनम् । आचरेति स तं प्राह पर्वतं नारदोदितम् ॥३९५॥  
 श्रुतं त्वेयन्यसौ शास्त्रेणामुरोक्तेन दुर्मतिः । मोहितो नारदेनापि प्रागिदं किं न वा श्रुतम् ॥३९६॥  
 ममास्य च गुरुनान्या ५ मपितैवातिगवितः । समत्सरतयाप्येव मय्यद्य किमिवाच्यते ॥३९७॥

प्रसादमे ही मुखको प्राप्त हुआ हूँ । यह देख, विश्वभू मन्त्री जो कि सगर राजाके पीछे स्वयं उसके देशका स्वामी बन गया था महामेध यज्ञमें उद्यम करने लगा । महाकालकी मायासे सब लोगोंका साफ साफ दिखाया गया था कि आकाशाङ्गणमें बहुतसे देव तथा पितर लोग अपने अपने विमानोंमें बैठे हुए हैं । राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति कर रहे हैं कि मन्त्रिन् ! तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत अच्छा कार्य किया । इधर यह सब हो रहा था उधर नारद तथा तपस्वियोंने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि इस दुष्ट शत्रुने लोगोंके लिए यह मिथ्या मार्ग बनलाया है अतः इसे धिक्कार है । पाप करनेमें अत्यन्त चतुर इस पर्वतका किर्मी उपायमें प्रतिकार करना चाहिये । ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये । वहाँ उन्होंने पाप करते हुए विश्वभू मन्त्रीका देखा और देखा कि बहुतसे पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए बहुतसे प्राणियोंका वध कर रहे हैं । तपस्वियोंने विश्वभू मन्त्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए तो प्राणियोंका विघात करते हैं परन्तु धर्मके लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियोंका घात नहीं करते । वेदके जानने वालोंने ब्रह्मनिरूपित वेदमें अहिंसाको कल्प लताके समान, अथवा सर्वाके समान जगत्का हित करनेवाली बनलाया है । हे मन्त्रिन् ! यदि तुम पूर्वे ऋषियोंके इस वाक्यको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसासे भरा हुआ यह कार्य जो कि कर्मबन्धका कारण है अवश्य ही छोड़ देना चाहिए ॥ ३७१-३८० ॥ सब प्राणियोंका हित चाहने वाले तपस्वियोंने इसप्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीने इसे सुनकर कहा कि हे तपस्वियो ! जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वर्गका साधन दिखाई दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है ? नदनन्तर इस प्रकार कहने वाले विश्वभू मन्त्रीने पापभारु नारदने कहा कि हे उत्तम मन्त्रिन् ! तू तो विद्वान् है, क्या यह सब स्वर्गका साधन है ? अर, राजा सगरकी परिवारसहित निर्मूल नष्ट करनेकी इच्छा करने वाले किसी मायावीने इस तरह प्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है, यह उपाय केवल मूर्ख मनुष्योंको ही मोहित करनेका कारण है ॥३८१-३८४॥ इसलिये तू ऋषि प्रणीत आगममें कही हुई शील तथा उपवास आदि की विधिका आचरण कर । इस प्रकार नारदके वचन सुनकर विश्वभूने पर्वतसे कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरके द्वारा कहे शास्त्रमें मोहित हुआ दुर्बुद्धि पर्वत कहने लगा कि

१ दुर्मागोऽधिभूतोऽनेन म० ल० । २ कोऽपि ल० । ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म० । वेदो ब्रह्मनिरूपितः ल० । ४ पूर्वपिवाक्यस्य ल० । ५ मपित्यै वाति ल० ( ? )

सश्रुतो मद्गुरोर्धर्मभाता जगति विश्रुतः । स्थविरस्तेन च श्रौतं रहस्यं प्रतिपादितम् ॥३९८॥  
 यागमृत्युफलं साक्षान्मयापि प्रकटीकृतम् । न चेत्ते प्रत्ययो विश्ववेदाम्भोनिधिपारगम् ॥३९९॥  
 वसुं प्रसिद्धं सत्येन पृच्छेरित्यन्वभापत । तच्छ्रुत्वा नारदोऽवादीत्को दोषः पृच्छयतामसौ ॥४००॥  
 इदं तावद्विचाराहं वधश्चेद्धर्मसाधनम् । अहिंसादानशीलादि भवेत्पापसाधनम् ॥४०१॥  
 अस्तु चेन्मत्स्यबन्धादिपापिनां परमा गतिः । सत्यधर्मतपोब्रह्मचारिणो यान्त्वधोगतिम् ॥ ४०२ ॥  
 यज्ञे पशुवधाद्धर्मो नेतरत्रेति चेन्न तत् । वधस्य दुःखहेतुत्वे सादृश्यादुभयत्र वा ॥४०३॥  
 फलेनापि समानेन भाग्यं कस्तद्विषेधकः । अथ त्वमेवं मन्येथाः १पशुसृष्टेः स्वयम्भुवः ॥४०४॥  
 २ यज्ञार्थत्वात् ३ तस्यातिविनियोकतुरघागमः । ४ इत्येवं चातिमुग्धाभिलाषः साधुविगर्हितः ॥४०५॥  
 तत्सर्गस्यैव साधुत्वादस्त्वन्यच्चात्र ५ दुर्घटम् । यदर्थं यद्धि तस्यान्यथोपयोगेऽर्थकृत्वा तत् ॥४०६॥  
 यथान्यथोपयुक्तं स श्लेष्मादिशमनौषधम् । यज्ञार्थपशुसर्गेण क्रयविक्रयणादिकम् ॥४०७॥  
 तथान्यथा प्रयुक्तं ६ तन्महादोषाय कल्पते । दुर्बलं वादिनं दृष्ट्वा ब्रूमः त्वामभ्युपेत्य च ॥४०८॥  
 यथा शस्त्रादिभिः प्राणिव्यापादी वध्यन्तेऽहसा । मन्त्रैरपि पशून् हन्ता वध्यते निर्विशेषतः ॥४०९॥  
 पश्चादिलक्षणः सर्गो व्यज्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत्त्वपुण्यादि चासन्न ७ क्रियते कुतः ॥४१०॥

यह शास्त्र क्या नारदने भी पहले कभी नहीं सुना । इसके और मेरे गुरु पृथक् नहीं थे, मेरे पिता ही तो दोनोंके गुरु थे फिर भी यह अधिक गर्व करना है । मुझ पर ईर्ष्या रखता है अतः आज चाहे जो कह बैठता है । विद्वान् स्थविर मेरे गुरुके धर्म भाई तथा जगत्तमं प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुझे यह श्रुतियोंका रहस्य बतलाया है । यज्ञमें मरनेसे जो फल होता है उसे मैंने भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है फिर भी यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेदरूपी समुद्रके पारगामी राजा वसुसे जो कि सत्यके कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो । यह सुनकर नारदने कहा कि क्या दोष है वसुसे पूछ लिया जावे ॥३९५-४००॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा, धर्मका साधन मानी जायगी तो अहिंसा दान शील आदि पापके कारण हो जावेंगे ॥ ४०१ ॥ हो जावें यदि यह आपका कहना है तो मछलियाँ पकड़नेवाले आदि पापी जीवोंकी शुभ गति होनी चाहिये और सत्य, धर्म, तपश्चरण तथा ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेका अधोगतिमें जाना चाहिए ॥ ४०२ ॥ कदाचित् आप यह कहें कि यज्ञमें पशु वध करनेसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः उमका फल समान ही होना चाहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचित् आप यह मानते हों कि पशुओंकी रचना विधाताने यज्ञके लिए ही की है, अतः यज्ञमें पशु हिंसा करनेवालेके लिए पाप-बन्ध नहीं होता तो यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यह मूर्ख जनकी अभिलाषा है तथा साधुजनोंके द्वारा निन्दित है ॥४०३-४०५॥ यज्ञके लिए ही ब्रह्माने पशुओंकी सृष्टि की है यदि यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि जो वस्तु जिस कार्यके लिए बनाई जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता । जैसे कि श्लेष्म आदिका शमन करनेवाली औषधिका यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह विपरीतफलदायी होता है । ऐसे ही यज्ञके लिए बनाये गये पशुओंसे यदि क्रय-विक्रय आदि कार्य किया जाता है तो वह महान् दोष उत्पन्न करनेवाला होना चाहिए । तू बाद करना चाहता है परन्तु दुर्बल है—युक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस प्रकार शस्त्र आदिके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध होता है उसी प्रकार मन्त्रोंके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता है ॥ ४०६-४०८ ॥ दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदिको बनाता है वह प्रकट करता है अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन बनाता है तो आकाशके फूल आदि असन् पदार्थ

१ पशुसृष्टिः म०, ल० । २ यज्ञार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ० । ३ तस्याति ल० । ४ इत्यर्थं ल० । ५ दुर्घट्य ल० । ६ प्रयुक्तं तु म०, ल० । ७ चासन्नः ल० ।

अथाभिव्यज्यते तस्य वाच्यं प्राक्प्रतिबन्धकम्<sup>१</sup> । प्रदीपज्वलनात्पूर्वं घटादेशन्धकारवत् ॥४११॥  
 अस्तु वा नाहतव्यक्तिसृष्टिवादो विधीयते । इति भ्रुत्वा वचस्तस्य सर्वे ते तं समस्तुवन् ॥४१२॥  
 वसुना चेद् द्वयोर्वादे विच्छेदः सोऽभिगम्यताम्<sup>२</sup> । इति ताभ्यां समं संसद्गच्छस्वस्तिकावतीम् ॥४१३॥  
 तत्सर्वं पर्वतेनोक्तं ज्ञात्वा तज्जननी<sup>३</sup> तदा । सह तेन वसुं दृष्ट्वा पर्वतस्त्वपरिग्रहः ॥४१४॥  
 तपोवनोन्मुखेनायं गुरुणापि तवापितः । नारदेन सहास्येह तवाध्यक्षे भविष्यति ॥४१५॥  
 \*विवादो यदि भङ्गोऽत्र भावी भावियमाननम् । विद्वध्यस्य शरणं नान्यदित्याख्यत्सोऽपि सादरम् ४१६  
 विधित्सुर्गुरुशुभ्रामग्ब मास्मान्न शङ्कथाः । जयमस्य विधास्यामीत्यस्या भयमपाकरोत् ॥४१७॥  
 अन्येषुर्वसुमाकाशस्फटिकांश्चयुद्धतासनम् । सिंहाङ्कितं समारूढं स्थितं वसुपगम्यते ॥४१८॥  
 सप्तृच्छन्ति स्म सर्वेऽपि विश्वभूसचिवादयः । त्वराः प्रागप्यहिंसादिधर्मरक्षणतत्पराः ॥ ४१९ ॥  
 चत्वारोऽत्र मदीपाला भूता हिममहासम । वस्वादिगिरिपर्यन्तनामानो हरिवंशजाः<sup>४</sup> ॥ ४२० ॥  
 पुरा चेपु ध्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीट् । अभूततो भवांश्चासीदहिंसाधर्मरक्षकः ॥ ४२१ ॥  
 त्वमेव सत्यवादीति प्रथोपो भुवनत्रये । विष्वङ्हितुलादेशयो वस्तुसन्देहसन्निधौ ॥ ४२२ ॥  
 त्वमेव प्रत्ययोत्पादी छिन्दि नः संशयं विभो । अहिंसालक्षणं धर्मं नारदः प्रत्यपद्यत ॥ ४२३ ॥  
 पर्वतस्तद्विपर्यासमुपाध्यायोपदेशनम् । यादक् तादक् त्वया<sup>५</sup> वाच्यमित्यसौ धार्थितः पुरा ॥ ४२४ ॥

क्यों नहीं बना देता ? ॥ ४१० ॥ यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता है किन्तु प्रकट करना है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहले उनका प्रतिबन्धक क्या था ? उन्हें प्रकट होनेसे रोकनेवाला कौन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिको रोकनेवाला है उसी प्रकार प्रकट होनेके पहले पशु आदिको रोकनेवाला भी कोई होना चाहिए ॥ ४११ ॥ इस प्रकार आपके सृष्टिवादमें यह व्यक्तिवाद आदर करनेके योग्य नहीं है । इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४१२ ॥ सब कहने लगे कि यदि राजा वसुके द्वारा तुम दांनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला जावे । ऐसा कह सभाके सब लोग नारद और पर्वतके साथ स्वस्तिकावती नगर गये ॥ ४१३ ॥ पर्वतके द्वारा कही हुई यह सब जब उसकी माताने जानी तब वह पर्वतको साथ लेकर राजा वसुके पास गई और राजा वसुके दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपोवनके लिए जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सौपा था । आज तुम्हारी अध्यक्षतामें यहाँ नारदके साथ विवाद होगा । यदि कदाचिन् उस वादमें इसकी पराजय हो गई तो फिर यमराजका मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह तुम निश्चित समझ लो, इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा वसुसे कहा । राजा वसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बड़े आदरसे बोला कि हे माँ ! इस विषयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं पर्वतकी ही विजय कराऊँगा । इस तरह कहकर उसने पर्वतकी माका भय दूर कर दिया । ॥ ४१४-४१७ ॥ दूसरे दिन राजा वसु आकाश-स्फटिकके पाथोंसे खड़े हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें विराजमान था उसी समय वे सब विश्वभू मन्त्री आदि राजसभामें पहुँच कर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अहिंसा आदि धर्मकी रक्षा करनेमें तत्पर रहने वाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि और वसुगिरि नामके चार हरिवंशी राजा हो गये हैं ॥ ४१८-४१९ ॥ इन सबके अतीत होने पर महाराज विश्वा-वसु हुए और उनके बाद अहिंसा धर्म की रक्षा करनेवाले आप हुए हैं । आप ही सत्यवादी हैं इस प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । किसी भी दशामें संदेह होने पर आप विष अग्नि और तुलाके समान हैं । हे स्वामिन् ! आप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं अतः हम लोगोका संशय दूर कीजिये । नारदने अहिंसालक्षण धर्म बतलाया है और पर्वत इसमें विपरीत कहता है अर्थात् हिंसाको धर्म बतलाता है । अब उपाध्याय—गुरुमहाराजका जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिये ।

१ प्रतिबन्धनम् ल० । २ सोऽभिगम्यते ल०, म० । ३ तज्जनो ल० । ४ विवादे यदि भङ्गोऽत्र भावी भावि यमाननम् । विद्वध्यस्य शरणं ( विद्धि अस्य इति पदच्छेदः ) म० । ५ वंशजा इरेः म० । ६ वाच्य—ल० ।

गुरुपत्न्याहनिर्दिष्टं बुध्यमानोऽपि भूपतिः । महाकालमहामोहेनाहितो दुःषमावधेः ॥ ४२५ ॥  
 सामीप्याद्रक्षणानन्दरौद्रध्यानपरायणः । पर्वताभिहितं तत्त्वं दृष्टे काऽनुपपन्नता ॥ ४२६ ॥  
 स्वर्गमस्यैव यागेन<sup>१</sup> सजानिः सगरोऽप्यगात् । ज्वलत्प्रदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत् ॥ ४२७ ॥  
 पर्वतोक्तं भयं हित्वा कुरुष्वं स्वर्गसाधनम् । हृति हिंसानृतानन्दाद्<sup>२</sup> वध्वायुनारकं<sup>३</sup> प्रति ॥ ४२८ ॥  
 मिथ्यापापापवादाभ्यामभीरुरभणीदिदम् । भद्रो महीपतेर्वक्त्रादपूर्वं घोरमीदृशम् ॥ ४२९ ॥  
 निर्यातमिति वैषम्यादुक्ते नारदतापसैः<sup>४</sup> । आक्रोशदम्बरं नद्यः प्रतिकूलजलस्रवाः ॥ ४३० ॥  
 सद्यः सरांसि शुष्काणि रक्तवृष्टिरनारता । तीव्रांशोरंशवो मन्दा विश्वाशाश्च मलीमसाः ॥ ४३१ ॥  
 बभूवुः प्राणिनः कम्पमादधुर्भयविह्वलाः । तदा महाध्वनिघात्री द्विधाभेदं<sup>५</sup>मुपागता ॥ ४३२ ॥  
 वसोस्तस्मिन् महारन्ध्रे न्यमज्जत्सिंहविष्टरम् । तद्दृष्ट्वा देवविद्याधरेशा घनपथे स्थिताः ॥ ४३३ ॥  
 अतिक्रम्बादिर्मं मार्गं वसुराजमहामते<sup>६</sup> । धर्मविध्वंसनं मार्गं माभिधा इत्यघोषयन् ॥ ४३४ ॥  
 पर्वतं वसुराजं च सिंहासननिमज्जनात् । परिम्लानमुखौ दृष्ट्वा महाकालस्य किङ्कराः ॥ ४३५ ॥  
 तापसाकारमादाय भयं माऽत्र स्म गच्छतम् ।<sup>७</sup>इत्यात्मोत्थापितं चास्या दर्शयन् हरिविष्टरम् ॥ ४३६ ॥  
 नृपोऽप्यहं कथं तत्त्वद्विभ्रेभ्यमृषं वचः । पर्वतस्यैव निश्चिन्वन्नित्याकण्ठं निमग्नवान् ॥ ४३७ ॥  
 अनेनेयमवस्थाभूमिन्मिथ्यावादेन भूपते । त्यजेममिति सम्प्रार्थितोऽपि यत्नेन साधुभिः ॥ ४३८ ॥

इस प्रकार सब लोगोंने राजा वसुसे कहा । राजा वसु यद्यपि आप भगवान्के द्वारा कहे हुए धर्मनत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी, इसके सिवाय वह महाकालके द्वारा उत्पादित महामोहसे युक्त था, दुःषमा नामक पञ्चम कालकी सीमा निकट थी, और वह स्वयं परिग्रहानन्द रूप रौद्र ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो तत्त्व पर्वतने कहा है वही ठीक है । जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमें बाधा हो ही कैसे सकती है ॥ ४२०-४२६ ॥ इस पर्वतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्वर्ग गया है । जो दीपक स्वयं जल रहा है—स्वयं प्रकाशमान है भला उसे दूसरे दीपकके द्वारा कौन प्रकाशित करेगा ? ॥ ४२७ ॥ इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही करो, वही स्वर्गका साधन है इस प्रकार हिंसानन्दी और मृषानन्दी रौद्र ध्यानके द्वारा राजा वसुने नरकायुका बन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप और लोकनिन्दासे नहीं डरने वाले राजा वसुने उक्त वचन कहे । राजा वसुकी यह बात सुनकर नारद और तपस्वी कहने लगे कि आश्चर्य है कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका कोई विषम कारण अवश्य है । उसी समय आकाश गरजनै लगा, नदियोंका प्रवाह उलटा बहने लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगानार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किरणें फीकी पड़ गईं, समस्त दिशाएँ मलिन हो गईं, प्राणी भयसे विह्वल होकर काँपने लगे, बड़े जोरका शब्द करती हुई पृथिवी फटकर दो टुक हो गई और राजा वसुका सिंहासन उस महागर्तमें निमग्न हो गया । यह देख आकाशमार्गमें खड़े हुए देव और विद्याधर कहने लगे कि हे बुद्धिमान राजा वसु ! सनातन मार्गका उल्लंघन कर धर्मका विध्वंस करने वाले मार्गका निरूपण मत करो ॥ ४२८-४३४ ॥ पृथिवीमें सिंहासन घुसनेसे पर्वत और राजा वसुका मुख फीका पड़ गया । यह देख महाकालके किंकर तापसियोंका वेप रक्कर कहने लगे कि आप लोग भयको प्राप्त न हों । यह कहकर उन्होंने वसुका सिंहासन अपने आपके द्वारा उठाकर लोगोंको दिखला दिया । राजा वसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धँस गया था तथापि जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अतः इस उपद्रवसे कैसे डर सकता हूँ ? मैं फिर भी कहता हूँ कि पर्वतके वचन ही सत्य हैं । इतना कहते ही वह कण्ठ पर्यन्त पृथिवीमें धँस गया । उस समय साधुओंने—तापसियोंने बड़े यत्नसे यद्यपि प्रार्थना की थी कि हे राजन् ! तेरी यह अवस्था असत्य भाषणसे ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यज्ञ-

१ योगेन ल० । २ हिंसानृतानन्दो क०, ख० । ३ नरकं ल० । ४ तापसाः ल० । ५ भक्ति-म०, ल० । ६ महापते ल० । ७ इत्यात्मोत्थापितं क०, ख०, ल० ।



तथापि ब्रह्मेवाज्ञः सन्मार्गं प्रतिपादयन् । भुवा कुपित एवासौ निर्गणोऽन्त्यामगात्क्षितिम् ॥ ४३९ ॥  
 अथासुरो जगत्प्रत्ययायादाय नरेन्द्रयोः । दिव्यं रूपमयापावावां यागश्रद्धया दिवम् ॥ ४४० ॥  
 नारदोक्तमपाकर्ण्यमित्युक्त्वापददृश्यद्बाम् । शोकाश्चर्यवतागात्स्वर्चसुर्नहि मर्हामिति ॥ ४४१ ॥  
 संवित्संबदमानेन जनेन महता सह । प्रयागे विश्वभूर्गत्वा राजसूयविधिं व्यधात् ॥ ४४२ ॥  
 महापुराधिपाद्याश्च निन्दन्तो जनमूढताम् । परमब्रह्मनिदिष्टमार्गरक्ता मनाक् स्थिताः ॥ ४४३ ॥  
 नारदेनैव धर्मस्य मयादेत्यभिनन्द्य तम् । अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुरं गिरितटाभिधम् ॥ ४४४ ॥  
 तापसाश्च दयाधर्मविध्वंसविधुराशयाः । कलयन्तः कालं कालं विचेतुः स्वं स्वमाश्रमम् ॥ ४४५ ॥  
 ततोऽन्येषुः खगो नाम्ना देवो दिनकरादिमः । पर्वतस्याखिलप्राणिविरुद्धाचरितं स्वया ॥ ४४६ ॥  
 निरुध्यतामिति प्रीत्या निदिष्टो नारदेन सः । करिष्यामि तथेतीत्वा नागान्<sup>१</sup> गंधारपन्नगान् ॥ ४४७ ॥  
 स विद्यया समाहूतास्तन्प्रपञ्चं यथास्थितम् । अवोचत्तेऽपि संग्रामे भंक्त्वा दैत्यमुकुर्वत ॥ ४४८ ॥  
 यज्ञविघ्नं समालोक्य विश्वभूर्पर्वताङ्घ्र्यौ । शरणान्वेषणोद्युक्तौ महाकालं यदृच्छया ॥ ४४९ ॥  
 पुरः सन्निहितं दृष्ट्वा यागविघ्नं तमूचतुः । नागैर्द्वैपिभिरस्माकं विहितोऽयमुपद्रवः ॥ ४५० ॥  
 नागविद्याश्च विद्यानुप्रवादे परिभाषिताः । निपिद्धं जिनविम्बानामुपर्यासां विजृम्भणम् ॥ ४५१ ॥  
 ततो युवां जिनाकारान् सुरूपां दिक्चतुष्टये । निवेश्याभ्यर्च्य यज्ञस्य प्रक्रमेथामिमं विधिम् ॥ ४५२ ॥  
 इत्युपायमसावाह तौ च तच्चक्रतुस्तथा । पुनः खगाधिपोऽभ्येत्य यज्ञविघ्नविधित्सया ॥ ४५३ ॥

को ही सन्मार्गं बतलाना रहा। अन्नमें प्रथिवीने उसे कुपित होकर ही मानो निगल लिया और वह मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४३६॥ तदनन्तर वह असुर जगत्को विश्वास दिलानेके लिए राजा सगर और वसुका सुन्दर रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर यज्ञकी श्रद्धामें ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर वह अदृश्य हो गया। इस घटनामें लोगोंको बहुत शोक और आश्चर्य हुआ। उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है और कोई कहता था कि नहीं, नरक गया है। इस तरह विवाद करते हुए विश्वभू मन्त्री अपने घर चला गया। तदनन्तर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया। इसपर महापुर आदि नगरोंके राजा मनुष्योंकी मूढताकी निन्दा करने लगे और परम ब्रह्म-परमात्माके द्वारा बतलाये मार्गमें तल्लीन होते हुए थोड़े दिन तक यों ही ठहरे रहे ॥ ४४०-४४३ ॥ इस समय नारदके द्वारा ही धर्म की मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरितट नामका नगर प्रदान किया ॥४४४॥ तापसी लोग भी दया धर्म का विध्वंस देख बहुत दुःखी हुए और कलिकालकी महिमा समझते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये ॥४४५॥

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदने उससे बड़े प्रेमसे कहा कि इस समय पर्वत समस्त प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना चाहिये। उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अवश्य रोकूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी विद्यासे गंधारपन्नग नामक नागकुमार देवोंको बुलाया और विघ्न करनेका सब प्रपञ्च उन्हें यथा योग्य बतला दिया। नागकुमार देवोंने भी संग्राममें दैत्योंको मार भगाया और यज्ञमें विघ्न मचा दिया। विश्वभू मन्त्री और पर्वत यज्ञमें होनेवाला विघ्न देखकर शरणकी भोज करने लगे। अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल असुर दिख पड़ा। दिखते ही उन्होंने उससे यज्ञमें विघ्न आनेका सब समाचार कह सुनाया, उसे सुनते ही महाकालने कहा कि हम लोगोंके साथ द्वेष रखनेवाले नागकुमार देवोंने यह उपद्रव किया है। नागविद्याओंका निरूपण विद्यानुवादमें हुआ है। जिनविम्बोंके ऊपर इनके विस्तारका निषेध बतलाया है अर्थात् जहाँ जिनविम्ब होते हैं वहाँ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ॥ ४४६-४५१ ॥ इसलिए तुम दोनों चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो और तदनन्तर यज्ञकी विधि प्रारम्भ करो ॥ ४५२ ॥ इस प्रकार महाकालने यह उपाय कहा और उन

दृष्ट्वा जैनेन्द्रविम्बानि विद्याः क्रामन्ति नात्र मे । नारदाय निवेद्येति स्वस्वधामसमाश्रयन् ॥ ४५४ ॥  
 निर्विघ्नं यज्ञनिर्वृत्तौ विश्वभूः पर्वतश्च तौ । जीवितान्ते चिरं दुःखं नरकेऽनुबभूवतुः ॥ ४५५ ॥  
 महाकालोऽप्यभिप्रेतं साधयित्वा स्वरूपदृष्ट्वा । प्राग्भवे पोदनाधीशो नृपोऽहं मधुपिङ्गलः ॥ ४५६ ॥  
 मयैवं सुलसाहेतोर्महत्पापमनुष्ठितम् । अहिंसालक्षणो धर्मो जिनेन्द्रैरभिभाषितः ॥ ४५७ ॥  
 अनुष्ठेयः स धर्मिष्ठैरित्युक्त्वासौ तिरोदधत् । स्वयं चादात्स्वदुदृचेष्टाप्रायश्चित्तं दर्यार्द्रधीः ॥ ४५८ ॥  
 १ निवृत्तिमेव सम्मोहाद्विहितात्पापकर्मणः । विश्वभूप्रमुखाः सर्वे हिंसाधर्मप्रवृत्तकाः ॥ ४५९ ॥  
 प्रथयुस्ते गतिं पापात्तारकीमिति केचन । दिव्यबाधैः समाकर्ण्य मुनिभिः समुदाहृतम् ॥ ४६० ॥  
 पर्वतोद्दिष्टदुर्भागं नोपेयुः पापभीरवः । केचित्तु दीर्घसंसारास्तस्मिन्नेव व्यवस्थिताः ॥ ४६१ ॥  
 इत्यनेन स मन्त्री च राजा चागममार्हतम् । समासीनाश्च सर्वेऽपि मन्त्रिणं तुष्टुबुत्तराम् ॥ ४६२ ॥  
 तदा सेनापतिर्नाम्ना महीशस्य महाबलः । पुण्यं भवतु पापं वा यागे नस्तेन किं फलम् ॥ ४६३ ॥  
 प्रभावदर्शनं श्रेयो भूभृन्मध्ये कुमारयोः । इत्युक्त्वास्ततो राजा पुनश्चैतत् विचारवत् ॥ ४६४ ॥  
 इति मत्वा विसृज्यैतान् मन्त्रिसेनापतीन् पुनः । हितोपदेशिनं प्रथमं तमपृच्छत्पुरोहितम् ॥ ४६५ ॥  
 गतयोर्जनकागारं स्यान्न वेष्टं कुमारयोः । इति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेषु च लक्षितम् ॥ ४६६ ॥  
 २ अस्मत्कुमारयोस्तत्र यागे भावी महोदयः । संशयोऽत्र न कर्तव्यस्त्वयान्यच्चैदमुच्यते ॥ ४६७ ॥  
 अथास्मिन् भारते क्षेत्रे मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशास्त्रिविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ॥ ४६८ ॥

दोनोने उसे यथाविधि किया । तदनन्तर विद्याधरोका राजा दिनकरदेव यज्ञमें विघ्न करनेकी इच्छासे आया और जिनप्रतिमाएँ देखकर नारदसे कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल सकतीं ऐसा कहकर वह अपने स्थान पर चला गया ॥ ४५३-४५४ ॥ इस तरह वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ और विश्वभू मन्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके लिए नरकमें दुःख भोगने लगे ॥ ४५५ ॥

अन्तमें महाकाल अमर अपना अभिप्राय पूरा कर अपने असली रूपमें प्रकट हुआ और कहने लगा कि मैं पूर्व भवमें पादनपुरका राजा मधुपिङ्गल था । मैंने ही इस तरह सुलसाके निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है । जिनेन्द्र भगवानने जिस अहिंसालक्षण धर्मका निरूपण किया है धर्मात्माओंको उसीका पालन करना चाहिये इतना कह वह अन्तर्हित हो गया और दयासे आर्द्र बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्चित्त स्वयं ग्रहण किया ॥ ४५६-४५८ ॥ सोह वश किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्चित्त कहलाता है । हिंसा धर्ममें प्रवृत्त रहने वाले विश्वभू आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये और पापसे डरनेवाले कितनेही लोगोंने सम्यग्ज्ञानके धारक मुनियोंके द्वारा कहा धर्म सुनकर पर्वतके द्वारा कहा मिथ्यामार्ग स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घ था ऐसे कितने ही लोग उसी मिथ्यामार्गमें स्थित रहे आये ॥ ४५९-४६१ ॥ इस प्रकार अतिशयमति मन्त्रीके द्वारा कहा हुआ आगम सुनकर प्रथम मन्त्री, राजा तथा अन्य सभासद् लोगोंने उस द्वितीय मन्त्रीकी बहुत भारी स्तुति की ॥ ४६२ ॥ उस समय राजा दशरथका महाबल नामका सेनापति बोला कि यज्ञमें पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्या प्रयोजन है ? हम लोगोंको तो राजाओंके बीच दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है । सेनापतिकी यह बात सुनकर राजा दशरथने कहा कि अभी इस बात पर विचार करना है । यह कह कर उन्होंने मन्त्री और सेनापतिको तो विदा किया और तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रश्न पूछा कि राजा जनकके घर जाने पर दोनों कुमारोंका दृष्ट सिद्ध होगा या नहीं ? उत्तरमें पुरोहित भी पुराणों और मिमित्ताशास्त्रोंके कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके उस यज्ञमें महान ऐश्वर्य प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिये । इसके सिवाय एक बात और कहता हूँ ॥ ४६३-४६७ ॥ वह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीर्थकर,

इभ्याख्याताः पुराणशैर्मुनीशैः प्राग्मथा श्रुताः । १तेष्वष्टमाचिमौ रामकेशवौ नः कुमारकौ ॥ ४६९ ॥  
भाविनौ रावणं हृत्वेत्यवादीद्भाविबिद्विरः । तत्रातुक्तं तदाकर्ण्यं परितोपमगाक्षुपः ॥ ४७० ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

कृत्वा पापमदः क्रुधा पशुवधस्योत्सूत्रमाभूतलं,

हिंसायज्ञमवर्तयत् कपटधीः क्रूरो महाकालकः ।

तेनागात्सवसुः सपथैतखलो घोरं धरां नारकीं

दुर्मागान् दुरितावहान्विदधतां नैतन्महत्पापिनाम् ॥ ४७१ ॥

व्यामोहात्सुलसाप्रियस्ससुलसः सार्द्धं स्वयं मन्त्रिणा

शत्रुच्छत्रविवेकशून्यहृदयः सम्पाद्य हिंसाक्रियाम् ।

नष्टो गन्तुमधः क्षितिं दुरितिनामक्रूरनाशं मुधा

दुःकर्माभिरतस्य किं हि न भवेदन्यस्य चेदग्विधम् ॥ ४७२ ॥

### वसन्ततिलकावृत्तम्

स्वाचार्यवर्यमनुसृत्य हितानुशासी

वादे समेत्य बुधसंसदि साधुवादम् ।

श्रानारदो विहितभूरितपाः कृतार्थः


सर्वार्थसिद्धिमगमत्सुधियामधीशः ॥ ४७३ ॥

इत्यार्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुर्मागंप्रवर्तनप्रपञ्चव्यावर्णनं  
नाम सप्तपटं पर्व ॥ ६७ ॥

—१३०१३१—

तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्ती, नारायण और प्रतिनारायण ) और महाप्रतापी बलभद्र होते हैं  
ऐसा पुराणोंके जाननेवाले मुनियोंने कहा है तथा मैंने भी पहले सुना है । हमारे ये दोनों कुमार उन  
महापुरुषोंमें आठवें बलभद्र और नारायण होंगे ॥ ४६८-४६९ ॥ तथा रावणको मारेंगे । इस प्रकार  
भविष्यको जाननेवाले पुरोहितके वचन सुनकर राजा सन्तोषको प्राप्त हुए ॥ ४७० ॥ कपट रूप  
बुद्धिको धारण करनेवाले क्रूरपरिणामी महाकालने क्रोधवशा समस्त संसारमें शास्त्रोंके विरुद्ध और  
अत्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसासे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलाई इसी कारणसे वह राजा वसु,  
दुष्ट पर्वतके साथ घोर नरकमें गया सो ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामार्ग  
चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं है ॥ ४७१ ॥ मोहनीय कर्मके उदयसे  
जिसका हृदय शत्रुओंका छल समझनेवाले विवेकसे शून्य था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा और विश्वभू  
मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय क्रियाएँ कर अधोगतिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह  
दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य अपने क्रूर परिणामोंको नष्ट न कर व्यर्थ ही दुष्कर्ममें तल्लीन  
रहते हैं उनकी क्या ऐसी दशा नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥ ४७२ ॥ जिसने अपने श्रेष्ठ आचार्य-  
गुरुका अनुसरण कर हितका उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभामें शास्त्रार्थ कर जिसने साधुवाद-उत्तम  
प्रशंसा प्राप्त की, जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानोंमें श्रेष्ठ था ऐसा श्रीमान् नारद कृतकृत्य  
होकर सर्वार्थसिद्धि गया ॥ ४७३ ॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत, त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें मिथ्या-  
मार्गकी प्रवृत्तिके विस्तारका वर्णन करनेवाला सड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ।



## अष्टमं पर्व

पुराहितः पुनश्चासौ तत्कथां श्रोतुमर्हसि<sup>१</sup> । इति सम्बोध्य भूपालं ततो वक्तुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥  
 क्रमेण श्रव्यशब्दार्थसारवाणिर्भवावलीम्<sup>२</sup> । दशास्यस्य दशाशास्यप्रकाशिस्वयशःश्रियः ॥ २ ॥  
 अथास्ति<sup>३</sup> नाकलोकाभो धातकीखण्डपूर्वभाग् । भारते भूगुणैर्युक्तो देशः सारसमुच्चयः ॥ ३ ॥  
 तस्मिन्नागपुरे<sup>४</sup> ख्यातो नरदेवो महीपतिः । स कदाचिदनन्ताख्यगणेशाकृतवन्दनः ॥ ४ ॥  
 भुतधर्मकथो जातनिर्वेदो ज्येष्ठसूनवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापन्नसंयमः ॥ ५ ॥  
 चरंस्तपः समुत्कृष्टं इष्ट्वा विद्याधराधिपम् । सद्यश्चपलवेगाख्यं निदानमकरोद्धीः ॥ ६ ॥  
 प्रान्ते संन्यस्य सौधर्मकल्पेऽभूद्भृशताननः । अथास्मिन्भारते क्षेत्रे विजयार्द्धमहाचले ॥ ७ ॥  
 खगेशो दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटपुराधिपः । विनम्यन्वयसम्भूतः सहस्रग्रीवखेचरः ॥ ८ ॥  
 क्रुधात्मभ्रातृपुत्रोरुबलेनोत्सादितस्ततः । गत्वा लङ्कापुरं<sup>५</sup> त्रिशसहस्राब्दान्यपालयत् ॥ ९ ॥  
 तस्य पुत्रः शतग्रीवस्तत्पुत्रंशोभवात्सरान् । पाति स्म तत्सुतः पञ्चाशद्ग्रीवोप्यन्वपालयत् ॥ १० ॥  
 वत्सरानां सहस्राणि विंशतिं तस्य चात्मजः । पुलस्त्यस्त्रिक<sup>६</sup>मेर्वेकवर्षायुस्तस्य बलभा ॥ ११ ॥  
 मेघश्रीरनयोः सूनुः स देवोऽभूद्भृशताननः । चतुर्दशसहस्राब्दपरमायुर्मर्हीतलम् ॥ १२ ॥  
 पालयन्नन्यदा कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेचराचलस्थालकेशितुः<sup>७</sup> ॥ १३ ॥

तदनन्तर जिसके शब्द और अर्थ सुनने योग्य हैं तथा वाणी सारपूर्ण है ऐसा पुराहित, 'महाराज आप यह कथा श्रवण करनेके योग्य है' इस प्रकार महाराज दशरथको सम्बोधित कर अपने यशरूपी लक्ष्मीसे दशों दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनेवाले रावणके भवान्तर कहने लगा ॥१-२॥ उसने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भरतक्षेत्रमें स्वर्गलोकके समान आभावाला एवं पृथिवीके गुणोंसे युक्त सारसमुच्चय नामका देश है ॥ ३ ॥ उसके नागपुर नगरमें नरदेव नामका राजा राज्य करना था। वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, उन्हें वन्दना कर उसने उनसे धर्म-कथा सुनी और विरक्त होकर भोगदेव नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया। तपश्चरण करते समय उस मूर्खने कदाचिन् चपलवेग नामक विद्याधरोंके राजाको देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया। जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धारण कर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ।

अथानन्तर-इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें जो विजयार्ध नामका महान् पर्वत है उसकी दक्षिण श्रेणीमें मेघकूट नामका नगर है। उसमें राजा विनसिके वंशमें उत्पन्न हुआ सहस्रग्रीव नामका विद्याधर राज्य करता था। उसके भाईका पुत्र बहुत बलवान् था इसलिए उसने क्रोधित होकर सहस्रग्रीवको बाहर निकाल दिया था। वह सहस्रग्रीव वहाँसे निकल कर लङ्का नगरी गया और वहाँ तीस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा ॥ ४-६ ॥ उसके पुत्रका नाम शतग्रीव था। सहस्रग्रीवके बाद उसने वहाँ पन्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पञ्चाशान्ग्रीव था उसने भी शतग्रीवके बाद बीस हजार वर्ष तक पृथिवीका पालन किया था, तदनन्तर पञ्चाशद्ग्रीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार वर्ष तक राज्य किया। उसकी स्त्रीका नाम मेघश्री था। उन दोनोंके वह देव रावण नामका पुत्र हुआ। चौदह हजार वर्षकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद वह भी पृथिवीका पालन करने लगा। एक दिन लङ्काका ईश्वर रावण अपनी स्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेके

१-मर्हीत क०, ल०। २ भवावलिम् ल०। ३ अथास्मिन् क०, ल०, ग०, घ०। ४ नाकपुरे ल०, ग०। ५ लङ्कापुरीम् क०, घ०। ६ त्रिखमेर्वेक ( १५००० ) क०, ख०, ग०, घ०, म०। त्रिखर्वेक ल० ( १ )। ७ खेचराचलकेशितुः ल०।

सुताममितवेगस्य विद्यासाधनतत्पराम् । लोलो मणिमतिं वीक्ष्य काममोहवशीकृतः ॥ १४ ॥  
 तां दुरात्माऽऽत्मसाक्तु<sup>१</sup> तद्विद्यासिद्धिमभ्यहन्<sup>२</sup> । सापि द्वादशवर्षोपवासक्लेशकृशीकृता ॥ १५ ॥  
 तस्मिन्निद्विग्नहेतुत्वात् कुपित्वा खेचरेशिने । पुत्रिकास्यैव भूत्वेमं वध्यासमिति दुर्मतिम् ॥ १६ ॥  
 कृत्वा भवान्ते मन्दादरीगर्भं समधिष्ठिता । भूकम्पादिमहोत्पातैस्तज्जन्मसमयोद्भवैः ॥ १७ ॥  
 विनाशो रावणस्येति नैमिषिकवचःश्रुतेः । दशाननोऽतिभीतः सन्यत्र क्वचन पापिनीम् ॥ १८ ॥  
 त्यजेमामिति मारीचमाज्ञापयदसावभीः<sup>३</sup> । सोऽपि मन्दोदरीगेहं गत्वा देवस्य देवि मे ॥ १९ ॥  
 कर्मैवं निर्घृणस्यासीदिति तस्यै न्यवेदयत् । सापि देवनिदेशस्य नाहमस्मि निवारिका ॥ २० ॥  
 इति प्रभूतद्रव्येण मञ्जूषायां<sup>४</sup> निधाय ताम् । तत्सन्निधानपत्रेण<sup>५</sup> सहोक्त्वेदं च तं मुहुः ॥ २१ ॥  
 मारीच<sup>६</sup> मानसे स्निग्धः प्रकृत्या बालिकामिमाम् । बाधाविरहिते देशे निक्षिपति गलज्जले ॥ २२ ॥  
 विमृज्य लोचने तस्मै स्वतनूजं समर्पयत्<sup>७</sup> । स नीत्वा मिथिलोद्याननिकटप्रकटे क्वचित् ॥ २३ ॥  
 धरान्तःकृतमञ्जूषो विषण्णो न्यवृतच्छ्रुत्वा । तस्मिन्नेव दिने दृष्ट्वा गेहनर्माणं प्रति ॥ २४ ॥  
 भूमिसंशोधने लाङ्गलाप्रलम्बां नियोगिनः । मञ्जूषामेतदाश्चर्यमिति भूपमबोधयन् ॥ २५ ॥  
 सुरूपां बालिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवतिनीम् । नृपस्तदवतारार्थं विलेखादवबुध्य सः ॥ २६ ॥  
 तत्पूर्वापरसम्बन्धमेवा सीताभिधानिका । सुता भवेत्तवेत्येतां वसुधायाँ ददौ मुदा ॥ २७ ॥

लिए किसी वनमें गया था । वहाँ विजयार्थ पर्वतकं स्थालक नगरके राजा अमितवेगकी पुत्री मणि-  
 मती विद्या सिद्ध करनेमें तत्पर थी उसे देखकर चञ्चल रावण काम और मोहके वश हो गया ।  
 उस कन्याको अपने आश्रीत करनेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली । वह कन्या  
 उस विद्याकी सिद्धिके लिए बारह वर्षसे उपवासका क्लेश उठानी अत्यन्त दुर्बल हो गई थी । विद्याकी  
 सिद्धिमें विघ्न होना देख वह विद्याधरोके राजा पर बहुत कुपित हुई । कुपित होकर उसने निदान  
 किया कि मैं इस राजाकी पुत्री होकर इस दुर्बुद्धिका वध अवश्य करूँगी ॥ १०-१६ ॥ ऐसा निदान  
 कर वह आयुके अन्तमें मन्दादरीके गर्भमें उत्पन्न हुई । जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि  
 बड़े-बड़े उत्पात हुए, उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा ।  
 यद्यपि रावण निर्भय था तो भी निमित्तज्ञानियोंके वचन सुनकर अत्यन्त भयभीत हो गया । उसने  
 उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीको आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहाँ कहीं जाकर छोड़ दो ।  
 मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दादरीके घर गया और कहने लगा कि हे देवि, मैं बहुत ही  
 निर्दय हूँ अतः महाराजने मुझे ऐसा काम सौंपा है यह कह उसने मन्दादरीके लिए रावणकी आज्ञा  
 निवेदित की—सूचित की । मन्दादरीने भी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी आज्ञाका निवारण नहीं  
 करती हूँ ॥ १७-२० ॥ यह कह कर उसने एक सन्दूककीमें बहुत-सा द्रव्य रखकर उस पुत्रीको रक्खा,  
 और मारीचसे बार-बार यह शब्द कहे कि हे मारीच ! तेरा हृदय स्वभावसे ही स्नेह पूर्ण है अतः  
 इस बालिकाको ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी बाधा न हो । ऐसा कह उसने जिनसे  
 अश्रु भर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए वह पुत्री सौंप दी । मारीचने ले जाकर वह  
 सन्दूककी मिथिलानगरके उद्यानके निकट किसी प्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी और स्वयं  
 शोकसे विषाद करता हुआ वह लौट गया । उसी दिन कुछ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख  
 रहे थे, वे हल चलाकर उसकी नोकसे वहाँकी भूमि ठीक कर रहे थे । उसी समय वह सन्दूककी हलके  
 अग्रभागमें आ लगी । वहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समझ राजा जनकके  
 लिए इसकी सूचना दी ॥ २१-२५ ॥ राजा जनकने उस सन्दूककीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या  
 देखी और पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया । तदनन्तर उसका  
 सीता नाम रखकर 'यह तुम्हारी पुत्री होगी' यह कहते हुए उन्होंने बड़े हर्षसे वह पुत्री वसुधा रानीके

१-मभ्यहन् ल० । २-दथान्धधीः ख० । ३ विधाय ताम् ल० । ४ पात्रेण क०, घ० । ५ मन्य मे  
 निग्धः ख०, ग० । मान्य मे स्निग्ध म० । मान्यसे स्निग्ध ल० । ६ समर्पयत् ल० ।

वसुधा वसुधा<sup>१</sup>गेहे गुणयन्ती कलागुणान् । अवर्द्धयदिमां गूढां<sup>२</sup> लङ्केशोऽपि न वेत्स्यमूम् ॥ २८ ॥  
 वार्ता जनकयागस्य तस्मान्नाश्रागमिष्यति । दास्यत्यवश्यं रामाय तां कन्यां मिथिलेश्वरः ॥ २९ ॥  
 तत्कुमारौ प्रहेतव्याविति नैमित्तिकोक्तिः । राज्ञाखिलबलेनामा प्रहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३० ॥  
 प्रत्युद्यातौ महीशेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसञ्चितामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥ ३१ ॥  
 रूपादिगुणसम्पत्त्या सत्यमेतौ गतोपमौ । इति पौरैः प्रशंसन्निः प्रेक्ष्यमाणौ<sup>३</sup> समं ततः ॥ ३२ ॥  
 पुरं प्रविश्य भूपोक्तं स्थाने न्यवसतां सुखम् । दिनैः कतिपर्येव नृपमण्डलसन्निधौ ॥ ३३ ॥  
 निर्बल्यार्थमिमत्तं यज्ञविधानं तदनन्तरम् । महाविभूतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपतिः ॥ ३४ ॥  
 दिनानि कानिचित्प्रसन्नं सीतयेव श्रिया समम् । नवप्रेमसमुद्भूतं सुखं रामोऽन्वभूद् शृणाम् ॥ ३५ ॥  
 तदा दशरथाभ्यर्णादायातसचिवोक्तिभिः । जनकानुमतः शुद्धतिथौ परिजनान्वितः ॥ ३६ ॥  
 अभ्ययोध्यां<sup>४</sup> पुरीं सीतासमेतो जातसम्मदः । लक्ष्मणेन च गत्वाशु स्वानुजाभ्यां स्वबन्धुभिः ॥ ३७ ॥  
 परिवारैश्च स प्रत्यग्गम्यमानो निजां पुरीम् । विभूत्या दिविजेन्द्रो वा विनीतां प्राविशजयी ॥ ३८ ॥  
 दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या पितरौ प्रीतचेतसौ । तस्थौ प्रवर्द्धमानश्रीः सप्रियः सानुजः सुखम् ॥ ३९ ॥  
 तदा तदुत्सवं भूयो वर्द्धयन्नात्मना मधुः । कोकिलालिकु<sup>५</sup>लालापडिण्डिमो मण्डयन् दिशः ॥ ४० ॥  
 सन्धि तपोधनैः साद्धं विप्रहं शिथिलव्रतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां बहन् ॥ ४१ ॥

लिए दे दी ॥ २६-२७ ॥ रानी वसुधाने भूमिगृहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया है तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है। यह कन्या इतनी गुप्त रची गई है कि लङ्केश्वर रावणको इसका पता भी नहीं है। इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी रावणको नहीं है अतः वह इस उत्सवमें नहीं आवेगा। ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या रामके लिए अवश्य देवेंगे। इसलिए राम और लक्ष्मण ये दोनों ही कुमार वहाँ अवश्य ही भेजे जानेके योग्य हैं। इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ राम और लक्ष्मणको भेज दिया ॥ २८-३० ॥ अनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी अगवानी की। 'पूर्व जन्ममें संचित अपने अपरिमिति पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच ही अनुपम हैं—उपमा रहित हैं' इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे दोनों भाई साथ ही साथ नगरमें प्रवेश कर राजा जनकके द्वारा बतलाये हुए स्थान पर सुखके ठहर गये। कुछ दिनोंके बाद जब अनेक राजाओंका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने अपने इष्ट यज्ञकी विधि पूरी की और बड़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ॥ ३१-३४ ॥ रामचन्द्रजीने कुछ दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वहीं जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न हुए सातिशय सुखका उपभोग किया ॥ ३५ ॥ तदनन्तर राजा दशरथके पाससे आये हुए मन्त्रियोंके कहनेसे रामचन्द्रजीने राजा जनककी आज्ञा ले शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीता तथा लक्ष्मणके साथ बड़े हर्षसे अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया और शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचने पर दोनों छोटे भाई भरत और शत्रुघ्रने, बन्धुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अगवानी की। जिस प्रकार इन्द्र बड़े वैभवके साथ अपनी नगरी अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी रामचन्द्रजीने बड़े वैभवके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ ३६-३८ ॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तके धारक माता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये। तदनन्तर जिनकी लक्ष्मी उत्तरोत्तर बढ़ रही है ऐसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥ ३९ ॥

उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ वसन्त ऋतु आ पहुँचा। कोयलों और भ्रमरोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे, वह समस्त दिशाओंको सुशोभित कर रहा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुओंके साथ सन्धि करता है और शिथिल व्रतों-

१ च सुधागेहे ल० । २ गूढं म०, ल० । ३ प्रेक्षमाणौ ल० (?) । ४ अभ्ययोध्यां पुरं ग० । ५ कोकिलालिकलालाप-म० ।

१ कामिनां खण्डयन्मानं वियुक्तान् दण्डयन् भृशम् । संयुक्तान् पिण्डितान् कुर्वन् प्रचण्डः प्राविशजगत् ॥ ४२ ॥  
तदागमनमात्रेण सद्गनस्पतिजातयः । काश्चिदङ्कुरिताः काश्चित्सानुरागाः ३ सपल्लवैः ॥ ४३ ॥  
काश्चिक्कोरकिताः काश्चित्सहासाः कुसुमोत्करैः । स्वावध्यायातचित्तेशाः कान्ता इव निरन्तरम् ॥ ४४ ॥  
हिमानीपटलोन्मुक्तं सुव्यक्तं चन्द्रमण्डलम् । ज्योत्स्नां प्रसारथामास दिक्षु लक्ष्मीविधायिनीम् ॥ ४५ ॥  
सारमामादमादाय विकिरन्पुष्पजं रजः । सरोवारिकणैः सार्द्धमपाच्य ३ पवनो ववौ ॥ ४६ ॥  
तदान्याभिश्च रामस्य रामाभिः सप्तभिर्नृपः । प्रेक्ष्याभिलक्ष्मणस्यापि पृथिवीदेविकादिभिः ॥ ४७ ॥  
प्रीत्या षोडशमानाभिर्जिनपूजापुरस्सरम् । तनूजाभिर्नरेन्द्राणां विवाहमकरोत्कृती ॥ ४८ ॥  
ततः सर्वर्तुषु प्रेम्णा ताभिस्तौ सुखमीयतुः । ताश्च ताभ्यामयो यस्माद्वाह्यहेतोः सुखप्रदः ॥ ४९ ॥  
एवं स्वपुण्यपाका ५ त्प्रसुखानुभवतत्परी । तौ लब्ध्वावसराचित्थं कदाचित्प्रोचतुर्नृपम् ॥ ५० ॥  
काशिदेशे क्रमायातमस्मत्पुरवरं पुरा । वाराणसीं तदद्याभूदनधिष्ठितनायकम् ॥ ५१ ॥  
आज्ञा यथास्ति देवस्य तदावामुदितोदितम् । विधास्याव इति श्रुत्वा नरेन्द्रस्तदुदीरितम् ॥ ५२ ॥  
५ वियोगमेतयोः सोढुमक्षमा भरतादयः । अस्मद्दृश्या महीनाथाः स्थित्वात्रैव पुरे पुरा ॥ ५३ ॥  
षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं बहवोऽपालयंश्चिरम् । एकदेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिव ॥ ५४ ॥  
विभासि भवतोस्नेजां व्याप्नोति महिमण्डलम् । ततः किं तत्प्रयाणेन मा यातामिति ६ सोऽब्रवीत् ॥ ५५ ॥

शिथिलाचारियोंके साथ विग्रह रखना है उम कामदेवके साथ वह वसन्त ऋतु अपना ग्वास सम्बन्ध रखता था । वह वसन्त कार्मी मनुष्योंको मान ग्राण्डित करता था, विरही मनुष्योंको अत्यन्त दण्ड देता था, और संयुक्त मनुष्योंको परस्परमें सम्बद्ध करता था । इस प्रचण्ड शक्तिवाले वसन्त ऋतुने मंसारमें प्रवेश किया ॥ ४०-४२ ॥ वसन्त ऋतुके आते ही वनमें जो उत्तम वनस्पतियोंकी जातियाँ थीं उनमेंसे कितनी ही अङ्कुरित हो उठीं और कितनी ही अपने पल्लवोंसे सानुराग हो गईं, कितनी ही वनस्पतियों पर कनियों आ गई थीं, और कितनी ही वनस्पतियाँ, जिनके प्राणवल्लभ अपनी अवधिसे भीतर आ गये हैं ऐसी स्त्रियोंके समान फूलोंके समूहमें निरन्तर हँसने लगीं ॥ ४३-४४ ॥ उस समय चन्द्रमाका मण्डल वर्णके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था और सब दिशाओंमें शोभा बढ़ानेवाली अपनी चाँदनी फैला रहा था ॥ ४५ ॥ दक्षिण दिशाका वायु श्रेष्ठ मृगन्धिकों लेकर फूलोंसे उपन्न हुई परागकों विखरता हुआ सरारवके जलके कणोंके साथ बह रहा था ॥ ४६ ॥ उमी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजापूर्वक अन्य सात गुन्दर कन्याओंके साथ रामचन्द्रका तथा पृथिवी देवी आदि सोलह राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका विवाह किया था ॥ ४७-४८ ॥ तदनन्तर राम और लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुओंमें उन स्त्रियोंके साथ प्रेमपूर्वक सुख प्राप्त करने लगे और वे स्त्रियाँ उन दोनोंके साथ प्रेमपूर्वक सुखका उपभोग करने लगीं सो ठीक ही है क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंसे ही सुखका देनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमें तत्पर रहनेवाले दोनों भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ५० ॥ कि काशीदेशमें वाराणसी ( बनारस ) नामका उत्तम नगर हमारे पूर्वजोंकी परम्परामें ही हमारे आधीन चल रहा है परन्तु वह इस समय स्वामि रहित हो रहा है । यदि आपकी आज्ञा हां तो हम दोनों उसे बढ़ते हुए वैभवसे युक्त कर दें । उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं । पूर्वकालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या नगरीमें रहकर ही चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे हैं । जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होने पर भी समस्त पृथिवी-मण्डलमें

१ कामिनां ल० । २ सपल्लवैः ख० । ३-मपाच्यः पवनो व०, ख० । ४ स्वपुण्यपाकात्-ख०, ग० । स्वपुण्यपाकां त-क० । ५ वियोगमक्षमः सोढुमेतयोर्भरतादयः म०, ल० । ६ मायातामिति ख० । मायातामिति क०, घ० ।

निपिद्धावपि तौ तेन पुनश्चैवमवोचताम् । आबयोरेव देवस्य स्नेहो याननिपेधनम् ॥ ५६ ॥  
 शौर्यस्य सम्भवो यावद्यावत्पुण्यस्य च स्थितिः । तावदुत्साहसज्जाहं न मुञ्चन्त्युदयाधिने ॥ ५७ ॥  
 बुद्धिं शक्तिमुपायं च जयं गुणविकल्पनम् । सम्यक्प्रकृतिभेदांश्च विदित्वा राजमूनुना ॥ ५८ ॥  
 महौद्योगो विधातव्यो विरुद्धान्विजिगीषुणा । स्वभावविनयोद्भूता द्विधा बुद्धिर्निगद्यते ॥ ५९ ॥  
 मन्त्रोत्साहप्रभूता च त्रिधा शक्तिरुदाहता । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णीतिर्मन्त्रशक्तिर्मतागमे ॥ ६० ॥  
 शौर्योजितत्वादुत्साहशक्तिः शक्तिज्ञसम्भता । प्रभुशक्तिर्महोभर्तुराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥ ६१ ॥  
 सामायांप्रदां भेदं दण्डं च नयकोविदाः । वदन्त्युपायांश्चतुरो यैरर्थः साध्यते नृपैः ॥ ६२ ॥  
 प्रियं हितं वचः कायपरिष्वङ्गादि साम तत् । हर्म्यश्वदेशरन्नादि दत्ते सौपगदा मता ॥ ६३ ॥  
 कृत्यानामुपजापेन स्वीकृति भेदमादिशेत् । शप्पमुष्टिवधं दाहलोपविष्यंसनादिकम् ॥ ६४ ॥  
 शत्रुक्षयकरं कर्म<sup>३</sup>पण्डितैर्दण्डमिष्यते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रवृत्तिरविराधिनी ॥ ६५ ॥  
 कामादिशत्रुविनासो<sup>४</sup> वा जयो जयशालिनः । सन्धिः सविग्रहो नेतुरासनं यानसंश्रयो ॥ ६६ ॥  
 द्वैधीभावश्च पट् प्रोक्ता गुणाः प्रणयिनः श्रियः । कृतविग्रहयोः पश्चात्केनचिद्विजुना नयोः ॥ ६७ ॥  
 मैत्रीभावः स सन्धिः स्यात्सावधिर्विगतावधिः । परस्परपाकारोऽरिर्विजिगीष्वोः स विग्रहः ॥ ६८ ॥

व्याप्त हो रहा है इसलिए वहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ? मत जाओ ? यद्यपि महाराज दशरथने उन्हें बनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराजका हम दोनों पर जो महान् प्रेम है वही हम दोनोंके जानेमें बाधा कर रहा है ॥ ५१-५६ ॥ जब तक शूरवीरताका हाना सम्भव है और जब तक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है तब तक अभ्युदयके इच्छुक पुरुष उत्साहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥ ५७ ॥ जो राजपुत्र विरुद्ध-शत्रुओंको जीतना चाहते हैं उन्हें बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणोंका विकल्प और प्रजा अथवा मन्त्रो आदि प्रकृतिके भेदोंको अच्छी तरह जानकर महान् उद्योग करना चाहिये । उनमेंसे बुद्धि दो प्रकारकी कही जाती है एक स्वभावसे उत्पन्न हुई और दूसरी विनयसे उत्पन्न हुई ॥ ५८-५९ ॥ शक्ति तीन प्रकारकी कही गई है एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति और तीसरी प्रभुत्व-शक्ति । सहायक, साधनके उपाय, देश-विभाग, काल-विभाग और बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पांच अङ्गोंके द्वारा मन्त्रका निर्णय करना आगमसे मन्त्रशक्ति बनलाई गई है ॥ ६० ॥ शक्तिके जाननेवाले शूरवीरतासे उत्पन्न हुए उत्साहका उत्साह-शक्ति मानते हैं । राजाके पास कोश ( खजाना ) और दण्ड ( सेना ) की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥ ६१ ॥ नीतिशास्त्रके विद्वान् साम, दान, भेद और दण्ड इन्हें चार उपाय कहते हैं । इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन भिन्न करते हैं ॥ ६२ ॥ प्रिय तथा हितकारी वचन बोलना और शरीरमें आलिङ्गन आदि करना साम कहलाता है । हाथी, घोड़ा, देश तथा रत्न आदिका देना उपप्रदा—दान कहलाता है । उपजाप अर्थात् परस्पर फूट डालनेके द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करना—सिद्ध करना भेद कहलाता है । शत्रुके घास आदि आवश्यक सामग्री की चोरी करा लेना, उनका वध करा देना, आग लगा देना, किसी वस्तुको छिपा देना अथवा सर्वथा नष्ट कर देना इत्यादि शत्रुओंका क्षय करनेवाले जितने कार्य हैं उन्हें पण्डित लोग दण्ड कहते हैं । इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयोंमें विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शत्रुओंको भयभीत करना जयशाली मनुष्यकी जय कहलाती है ॥ ६३-६५ ॥ सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधीभाव ये राजाके छह गुण कहे गये हैं । ये छहों गुण लक्ष्मीके स्नेही हैं । युद्ध करनेवाले दो राजाओंका पीछे किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं । यह सन्धि दो प्रकारकी है अवधि सहित—युद्ध समयके लिए और अवधि रहित—सदाके लिए । शत्रु तथा उसे जीतनेवाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विग्रह कहते हैं

१ 'सहायः साधनोपायो विभागो देशकालयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धेः पञ्चाङ्गमिष्यते' । २ साम, आश्रय उपप्रदा दानमित यावत्, भेद, दण्डश्च, चतुर उपायान् वदन्ति । ३ दण्डितैः ल० । ४ विजयो क०, ४० ।



मामिहान्योऽहमप्यन्यमशक्तो हन्तुमित्यसौ । तूर्णाभावां भवेत्तेतुरासनं वृद्धिकारणम् ॥ ६९ ॥  
 स्ववृद्धौ शत्रुहानौ वा द्वयोर्वाभ्युद्यमं स्मृतम् । अरिं प्रति विभोगानं तावन्मात्रफलप्रदम् ॥ ७० ॥  
 अनन्यशरणस्याहुः संश्रयं सत्यसंश्रयम् । सन्धिविग्रहयोर्द्वैतित्वैर्धीभावो द्विषां प्रति ॥ ७१ ॥  
 स्वाम्यमात्यौ<sup>१</sup> जनस्थानं कोशो दण्डः सगुप्तिकः । मित्रं<sup>२</sup> च भूमिपालस्य सप्त प्रकृतयः स्मृताः ॥ ७२ ॥  
 इमे राज्यस्थितेः प्राज्ञैः पदार्था हेतवो मताः । तंपूपायवती शक्तिः प्रधानव्यवसायिनी ॥ ७३ ॥  
 पानीयं खननाद्द्विर्मथनादुपलभ्यते । अदृश्यमपि सम्प्राप्यं सत्फलं व्यवसायतः ॥ ७४ ॥  
 फलप्रसवहीनं वा सहकारं विहङ्गमाः । त्रिवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा कुम्भितागमम् ॥ ७५ ॥  
 राजपुत्रमनुस्साहं त्यजन्ति त्रिपुलाः श्रियः । स्वकीययोधसामन्तमहामात्यादयोऽपि च ॥ ७६ ॥  
 पुत्रं पिताप्यनुद्यागं मत्वायोग्यं विपीदति । इति विज्ञापनं श्रुत्वा तयानेरपतिस्तदा ॥ ७७ ॥  
 युवाभ्यामुक्तमेवेदं प्रत्यपादि कुलाञ्जितम् । इत्याविष्कृतहर्षासिभाविर्सारभृतः स्वयम् ॥ ७८ ॥  
<sup>३</sup>विन्ध्यस्य राज्ययोग्योरुमुकुटं लक्ष्मणस्य च । प्रबध्य यौवराज्याधिपत्यपट्टं महौजसः ॥ ७९ ॥  
 महाभ्युदयसम्पादिसत्याशीभिः प्रवर्द्धयन् । पुत्रौ प्रस्थापयामास पुरीं वाराणसीं प्रति ॥ ८० ॥  
 गत्वा प्रविश्य तामुच्चैः पौरान् जानपदानपि । दानमानादिभिः सम्यक् सदा तोषयतोऽस्तथाः ॥ ८१ ॥  
 दुष्टनिग्रहशिष्टानुपालनप्रविधानयोः । अविलङ्घ्यतांः पूर्वमयोदां नीतिवेदिनाः ॥ ८२ ॥  
 प्रजापालनकार्यैकनिष्ठयानिष्ठितार्थयोः । काले गच्छन्ति कल्याणैः कल्पैः निःशल्य सौख्यदैः ॥ ८३ ॥

॥ ६६-६८ ॥ इस समय मुझे कोई दूसरा और मैं किसी दूसरेको नष्ट करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ ऐसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उसे आसन कहते हैं । यह आसन नामका गुण राजाओंकी वृद्धिका कारण है ॥ ६६ ॥ अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि होने पर दोनोंका शत्रुके प्रति जो उद्यम है—शत्रु पर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं । यह यान अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है ॥ ७० ॥ जिसका कोई शरण नहीं है उसे अपनी शरणमें रखना मंत्रय नामका गुण है और शत्रुओंमें सन्धि तथा विग्रह करा देना द्वेषीभाव नामका गुण है ॥ ७१ ॥ स्वामी, मन्त्री, देश, ग्वजाना, दण्ड, गद्द और मित्र ये राजाकी सान प्रकृतियाँ कहलाती हैं ॥ ७२ ॥ विद्वान् लोगोंने ऊपर कहे हुए ये सप्त पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण माने हैं । यद्यपि ये सब कारण हैं तां भी साम आदि उपायोंके साथ शक्तिका प्रयोग करना प्रधान कारण है ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार खोदनेमें पानी और परस्परकी रगड़से अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम फल अदृश्य है—दिखाई नहीं देता वह भी प्राप्त करनेके योग्य हो जाता है ॥ ७४ ॥ जिस प्रकार फल और फूलोंसे रहित आमके वृक्षको पत्ती छोड़ देने हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिथ्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उन्माहहीन राजपुत्रको विशाल लक्ष्मी छोड़ देनी है । यही नहीं, अपने योद्धा सामन्त और महामन्त्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं ॥ ७५-७६ ॥ इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समझकर दुर्गवी होता है । राम और लक्ष्मणकी ऐसी प्रार्थना सुनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है वह अपने कुलके योग्य ही कहा है । इस प्रकार हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने भार्गी बलभद्र-रामचन्द्रके शिर पर स्वयं अपने हाथोंसे राज्यके योग्य विशाल मुकुट बाँधा और महाप्रतापी लक्ष्मणके लिए यौधराजकी आधिपत्य पट्ट प्रदान किया । तदनन्तर महान वैभव सम्पादन करनेवाले सन्य आशीर्वादके द्वारा वढ़ाते हुए राजा दशरथने उन दोनों पुत्रोंको बनारस नगरके प्रति भेज दिया ॥ ७७-८० ॥ दोनों भाइयोंने जाकर उस उत्कृष्ट नगरमें प्रवेश किया और वहाँके रहनेवाले नगरवासियों तथा देशवासियों को दोनों भाई सदा दान मान आदिके द्वारा मन्तुष्ट करने लगे । वे सदा दुष्टोंका निग्रह और सज्जनोंका पालन करते थे, नीतिके जानकार थे तथा पूर्व मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे । उनका प्रजा पालन करना ही मुख्य कार्य था । वे कृतकृत्य हो चुके थे—सब कार्य कर चुके थे अथवा किसी भी कार्यको प्रारम्भ कर उसे पूरा कर ही छोड़ते थे । इस प्रकार शल्यरहित उत्तम सुख प्रदान करने-

इतो लङ्कामधिष्ठाय त्रिखण्डभरतावनेः । अधीश्वरोऽहमेवेति गर्वपर्वतभास्करम् ॥ ८४ ॥  
 सम्भावयन्तमात्मानं रावणं शत्रुरावणम् । निजतेजःप्रतापापहसितोष्णांशुमण्डलम् ॥ ८५ ॥  
 दण्डोपनतसामन्सविनम्रमुकुटाग्रम- । स्फुरन्मणिमयूखाम्बुविकसच्चरणाम्बुजम् ॥ ८६ ॥  
 निजासने समासीनं कीर्यमाणप्रकीर्णकम् । अवतीर्णं धराभागमिव नीलनवाम्बुदम् ॥ ८७ ॥  
 आभाषमाणमाक्षिप्य<sup>१</sup> सभूभङ्गं भयङ्करम् । अनुजैरात्मजैर्मौलैर्भटैश्च परिवारितम् ॥ ८८ ॥  
 पिङ्गोत्तुङ्गजटाजूटप्रभापिञ्जरिताम्बरः । इन्द्रनीलाक्षसूत्रोत्खलयालङ्कृताङ्गुलिः ॥ ८९ ॥  
 तीर्थाङ्गुसम्भृतोद्भासिपद्मरागकमण्डलुः । सुवर्णसूत्रयज्ञोपवीतपूतनिजाकृतिः<sup>२</sup> ॥ ९० ॥  
 खादेत्य नारदोऽन्वेषुः सोपहारं<sup>३</sup> समैक्षत । तदालोक्य चिराद्भद्र दृष्टोऽसीति त्वयास्यताम् ॥ ९१ ॥  
 कौतस्कुतः किमर्थं वा तवागमनमित्यसौ । रावणेनानुयुक्तः सन् कुर्ध्वादिदमभापत ॥ ९२ ॥  
 दसदुर्जयभृषोप्रकरिकण्ठीरवायित । पृतन्मनः समाधाय दशास्य श्रोतुमर्हसि ॥ ९३ ॥  
 वाराणसीपुरादद्य ममात्रागमनं विभो । तत्पुरीपनिरिक्ष्वाकुवंशाम्बरदिवाकरः ॥ ९४ ॥  
 सुतो दशरथाख्यस्य रामनामातिविश्रुतः । कुलरूपवयोज्ञानशौर्यसत्यादिभिर्गुणैः ॥ ९५ ॥  
<sup>४</sup>अनर्णायान् स्वपुण्येन स सम्प्रत्युदयोन्मुखः । तस्यै यज्ञापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकाम् ॥ ९६ ॥  
 स्वनामश्रवणादेयगर्विकासुकचेतसम्<sup>४</sup> । पर्याप्तस्त्रीगुणैकध्यवृत्तिसम्पत्कृताकृतिम् ॥ ९७ ॥

वाले श्रेष्ठ कल्याणोंसे उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥ ८१-८३ ॥ इधर रावण, त्रिखण्ड भरतक्षेत्र-  
 का मैं ही स्वामी हूँ इस प्रकार अपने आपको गर्वरूपी पर्वत पर विद्यमान सूर्यके समान समझने  
 लगा। वह शत्रुओंको म्लाना था इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था। अपने तेज और प्रतापके  
 द्वारा उसने सूर्य मण्डलको निरस्त कर दिया था। दण्ड लेनेके लिए पाम आये हुए सामन्तोंके  
 नम्रीभूत मुकुटोंके अग्रभागमें जो देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी जलके भीतर उस  
 रावणके चरणकमल विकसित हो रहे थे। वह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस पर चमर  
 दुराये जा रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथिवी पर अवतीर्ण हुआ नीलमंघ ही हो।  
 वह भौंह टेढ़ी कर लोगोंसे बातलाप कर रहा था जिससे बहुत ही भयङ्कर जान पड़ता था। छोटे  
 भाई, पुत्र, मूलवर्ग तथा बहुतसे योद्धा उसे घेरे हुए थे ॥ ८४-८८ ॥ ऐसे रावणके पास किसी एक  
 दिन नारदजी आ पहुँचे। वे नारदजी अपनी पत्नी पत्नी तथा ऊँची उठी हुई जटाओंके समूहकी प्रभासे  
 आकाशको पीतवर्ण कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके घने हुए अक्षसूत्र-जयमालाको उन्होंने अपने हाथमें  
 किसी बड़ी चूड़ीके आकार लपेट रक्खा था जिससे उनकी अङ्गुलियाँ बहुत ही मुशोभित हो रही  
 थीं, तीर्थोंदकसे भरा हुआ उनका पद्मराग निर्मित कमण्डलु बड़ा भला मालूम होता था और सुवर्ण-  
 सूत्र निर्मित यज्ञोपवीतसे उनका शरीर पवित्र था। आकाशसे उतरते ही नारदजीने द्वारके समीप  
 रावणको देखा। यह देख रावणने नारदसे कहा कि हे भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो, बैठिये, कहाँसे  
 आ रहे हैं? और आपका आगमन किसलिए हुआ है? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर  
 दुर्बुद्धि नारद यह कहने लगा ॥ ८९-९२ ॥ अहङ्कारी तथा दुर्जय राजारूपी क्रुद्ध हस्तियोंको नष्ट  
 करनेमें सिंहके समान हे दशानन! जो मैं कह रहा हूँ उसे तू चिन्त स्थिर कर मुन ॥ ९३ ॥ हे राजन्!  
 आज मेरा बनारससे यहाँ आना हुआ है। उस नगरीका स्वामी इक्ष्वाकुवंशरूपी आकाशका सूर्य  
 राजा दशरथका अतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है। वह कुल, रूप, वय, ज्ञान, शूरीरता तथा सत्य  
 आदि गुणोंसे महान है और अपने पुण्यादयसे इस समय अश्रुदय-पेश्वर्यके सन्मुख है। मिथिलाके  
 राजा जनकने यज्ञके बहाने उसे स्वयं बुलाकर साक्षात् लक्ष्मीके समान अपनी सीता नामकी पुत्री  
 प्रदान की है। वह इतनी मुन्दरी है कि अपना नाम मुनने मात्रसे ही बड़े-बड़े अहङ्कारी कामियोंके  
 चिन्तको ग्रहण कर लेती है--वश कर लेती है, संसारकी सब स्त्रियोंके गुणोंको इकट्ठा करके उनकी

१-माभाष्य ल०, म०, । २-वीतपूजानिजाकृतिः ल० । ३ सोपचारं ख० । ४ अनर्णयः ल० ।

नेत्रगोचरमात्राखिलानङ्गसुखदायिनीम् । जेतुं सम्भोगरत्यन्ते शक्तं मुक्तिवधूमपि ॥ १८ ॥  
 स्वामनाहत्य योग्यां<sup>१</sup> ते त्रिखण्डाखण्डसम्पदम् । क्षीरलं स्वात्मजां लक्ष्मीमिवादान्मिथिलाधिपः ॥ १९ ॥  
 तस्य भोगोपभोगैकनिष्ठस्य विपुलश्रियः । पादर्वे स्थित्वा सहिष्णुत्वाद्भवन्तमवलोकितुम् ॥ १०० ॥  
 इह प्रेम्णागतोऽस्मीति नारदोक्त्या खगेशिना । इच्छा पश्यति नो चक्षुः कामिनामित्युदीरितम् ॥ १०१ ॥  
 सत्यं प्रकुर्वता सद्यः सीतासम्बन्धवाक्श्रुतः । अनङ्गशरसम्पाताजर्जरीकृतचेतसा ॥ १०२ ॥  
 धन्यान्यत्र न सा स्थातुं योग्या भाग्यविहीनके । मन्दाकिन्याः स्थितिः क्व स्यात्प्रविहत्य महाम्बुधिम् ॥ १०३ ॥  
<sup>२</sup>बलाकारेण तां तस्मादपहन्यातिदुर्बलात् । रत्नमालामिवालोलां करिष्यामि ममोरसि ॥ १०४ ॥  
 इति कामाग्निप्रसेन तेन<sup>३</sup> पापेन संसदि । स्वस्यामगार्यनार्येण दुर्जनानामियं गतिः ॥ १०५ ॥  
 स नारदः पुनस्तत्र प्रदीप्तं कोपपावकम् । प्रज्वालयितुमस्येदमाचक्षेत्रेऽतिपापधीः ॥ १०६ ॥  
 परिप्राप्तोदयो रामो महाराज्यपदे स्थितः । यौवराज्यपदे तस्य लक्ष्मणाऽस्थात्सहोद्भवः ॥ १०७ ॥  
 वाराणसीं प्रविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वराः<sup>४</sup> । स्वसुतादानसम्मानिताभ्यां सम्बन्धमादधुः ॥ १०८ ॥  
 ततस्ते तेन समेण लक्ष्मणाविष्कृतौजसा । न युद्धं युज्यतेऽस्माभिस्यज्यतां विग्रहाग्रहः ॥ १०९ ॥  
 इत्येतदुक्तमाकर्ण्य कुपितस्मितमुद्बहन् । मन्त्रभावं मुने मंक्षु श्रोष्यसीति विस्म्यतम् ॥ ११० ॥  
 मन्त्रशालां प्रविश्यान्मगतमित्थमन्यत । उपायसाध्यमेतद्धि कार्यं नहि बलात्कृते ॥ १११ ॥

सम्पदासे ही मानो उसका शरीर घनाया गया है, वह नेत्रोंके सामने आते ही सब जीवोंको काम मुख प्रदान करती है और सम्भोगसे होनेवाली तृप्तिके बाद तो मुक्तिरूपी स्त्रीको भी जीतनेमें समर्थ है । वह स्त्रीरूपी रत्न सर्वथा तुम्हारा योग्य था परन्तु मिथिलापतिने तीन खण्डकी आखण्ड सम्पदाको धारण करनेवाले तुम्हारा अनानद कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया है ॥ ६४-६६ ॥ भोगोपभोगमें निमग्न रहनेवाले तथा विपुल लक्ष्मीके धारक रामके पास रह कर मैं आया हूँ । मैं उसे सहन नहीं कर सका इसलिए आपके दर्शन करनेके लिए प्रवेश यहाँ आया हूँ । नारदजीकी बात सुनकर विद्याधरोंके राजा रावणने 'कामी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती है नेत्र नहीं देखते हैं' इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा । उस समय सीता सम्बन्धी वचन सुननेसे रावणका चित्त कामदेवके वाणोंकी वर्षामें जर्जर हो रहा था । रावणने कहा कि वह भाग्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है । महासागरको छोड़कर गङ्गाकी स्थिति क्या कहीं अन्यत्र भी होती है ? मैं अन्यन्त दुर्बल रामचन्द्रसे सीताको जवर्दस्ती छीन लाऊँगा और स्थायी कान्तिको धारण करनेवाली रत्नमालाके समान उसे अपने दत्तःस्थल पर धारण करूँगा ॥ १००-१०४ ॥ इस प्रकार कामाग्निसे सन्तप्त हुए उस अनार्य-पापी रावणने अपनी सभामें कहा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्जन मनुष्योंका ऐसा स्वभाव ही होता है ॥ १०५ ॥

तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद, रावणकी प्रज्वलित क्रोधाग्निको और भी अधिक प्रज्वलित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वर्य निरन्तर बढ़ रहा है ऐसा राम तो महाराज पदके योग्य है और भाई लक्ष्मण युवराज पदपर नियुक्त है ॥ १०६-१०७ ॥ जवसे ये दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ट हुए हैं तबसे समस्त राजाओंने अपनी-अपनी पुत्रियों देकर इनका सम्मान बढ़ाया है और इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥ १०८ ॥ इसलिए लक्ष्मणसे जिसका प्रताप बढ़ रहा है ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः युद्ध करनेका आग्रह छोड़ दीजिये ॥ १०९ ॥ नारदकी यह बात सुनकर रावण क्रोधित होता हुआ हँसा और कहने लगा कि हे मुने ! तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही मुनोगे । इतना कह कर उसने नारदको तो विदा किया और स्वयं मन्त्र-शालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपायसे ही सिद्ध करनेके योग्य है, बलपूर्वक सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नहीं है । विद्वान् लोग उपायके द्वारा बड़ेसे बड़े पुरुषकी भी लक्ष्मी हरण कर लेते हैं । ऐसा विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर कहा कि राजा दशरथके लड़के राम

मर्हायसां<sup>१</sup>ऽप्युपायेन धीरप्याह्रियते बुधैः । इत्यतोऽमात्यमाहूय दत्तां दशरथात्मजौ ॥ ११२ ॥  
जिगीषू मत्पदं दुष्टानुच्छेदाहो कृतस्वरम् । पर्णा सीताभिधानाऽस्ति रामाख्यस्य तुरान्मनः ॥ ११३ ॥  
तामाहरिष्ये तौ हन्तुं तदुपायं विचिन्तय । इत्यवोचस्स मारांचां विनयाकुञ्चिताञ्जलिः ॥ ११४ ॥  
शृणु भट्टारक स्वामिन् हितकार्यानुवर्तनम् । अहितप्रतिषेधश्च मन्त्रिकृष्यमिदं द्वयम् ॥ ११५ ॥  
भवन्निरूपितं कार्यमपथ्यमयशस्करम् । पापानुबन्धि दुःसाध्यमयोग्यं सद्भिर्गहितम् ॥ ११६ ॥  
अन्यदाराहतिनाम पातकेष्वतिपातकम् । को हि नाम कुले जानां जातुचिञ्चिन्त्येदिति ॥ ११७ ॥  
अस्यन्योऽपि तदुच्छिद्यत्वामुपायः किमनेन ते । भवद्दंशविनाशैकहेतुना धूमकेतुना ॥ ११८ ॥  
इत्याख्यत्सार्थकोपाख्यं तन्मारांचं वचो विधीः । नादादासन्नमृत्युत्वाद्<sup>२</sup>दृष्टारिष्ट इवौपधम् ॥ ११९ ॥  
<sup>३</sup>गृहीतमेव नेत्येतन्नायादीच्चेति मन्त्रिणम् । किमनेन वृथा मन्त्रिन् वचनेनेष्टवातिना ॥ १२० ॥  
वेत्सि चेद् ब्रूहि सीतापहरणोपायमार्थं मे । एवं तेनाच्यमानोऽसौ तव चेदपि निश्चयः ॥ १२१ ॥  
परीक्ष्य<sup>४</sup> स्वत्या सरफल्या तस्यास्त्वय्यनुरक्तताम् । आनेया सा सुखेनैव स्निग्धोपायेन केनचित् ॥ १२२ ॥  
विरक्ता चेत्यया देव दृष्टादाक्षिप्यतामिति । प्रत्याह तत्समाकर्ष्य प्रशंसन्साधु साध्विति ॥ १२३ ॥  
तदेव कातरः सर्पणवामाहूय केनचित् । प्रकारेण त्वया सीता मयि रक्ता विधीयताम् ॥ १२४ ॥  
इत्याह सादरं सापि तत्स र्ग्यं विहायसि । तदेव रहसा गन्वा प्रापद्वारणसीं पुरीम् ॥ १२५ ॥  
चित्रकूटाभिधांयाने नन्दनाच्चातिसुन्दरे । रामो रन्तुं तदा गत्वा वसन्ते सीतया सह ॥ १२६ ॥

और लक्ष्मण बड़े अहङ्कारी हो गये हैं । वे हमारा पद जीतना चाहते हैं इसलिए शीघ्र ही उनका उच्छेद करना चाहिए । दुष्ट रामचन्द्रकी सीता नामकी स्त्री है । मैं उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए उस सीताका हरण करूँगा । तुम इसका उपाय सोचो । जब रावण यह कह चुका तब मारीच नामका मन्त्री विनयमे हाथ जोड़ना हुआ था ॥ ११०-१११ ॥ कि हे पूज्य स्वामिन ! हितकारी कार्यमें प्रवृत्ति कराना और अहितकारी कार्यका निषेध करना मन्त्रीके यही दो कार्य हैं ॥ ११५ ॥ आपने जिस कार्यका निरूपण किया है वह अपथ्य है—अहितकारी है, अर्कीर्ण करनेवाला है, पापानुबन्धी है, दुःसाध्य है, अयोग्य है, सज्जनोंके द्वारा निन्दनीय है, परस्त्रीका अपहरण करना सब पापोंमें बड़ा पाप है, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा कौन पुरुष होगा जो कभी इस प्रकारका विचार करेगा ॥ ११६-११७ ॥ फिर उनका उच्छेद करनेके लिए हमने उपाय भी विद्यमान हैं अतः आपका वंश नष्ट करनेके लिए धूमकेतुके समान इस दुकृत्यके करनेमें क्या लाभ है ? ॥ ११८ ॥ इस प्रकार मारीचने सार्थक वचन कह परन्तु जिस प्रकार निकटकालमें मरनेवाला मनुष्य औपथ ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार निर्वृद्धि रावणने उसके वचन ग्रहण नहीं किये ॥ ११९ ॥ वह मारीचने कहने लगा कि 'हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुमने क्यों नहीं कहा ? हे मन्त्रिन् ! इष्ट वस्तुका घात करने वाले इस विपरीत वचनमें क्या लाभ है ? ॥ १२० ॥ हे आर्य ? यदि आप सीता-हरणका कोई उपाय जानते हैं तो मेरे लिए कहिये । इस प्रकार रावणके वचन सुन मारीच कहने लगा कि यदि आपका यही निश्चय है तो पहले दूर्तिके द्वारा इस बातका पता चला लीजिये कि उस सीताका आपमें अनुराग है या नहीं ? यदि उसका आपमें अनुराग है तो वह स्नेहपूर्ण किसी सुखकर उपायसे ही लाई जा सकती है और यदि आपमें विरक्त है तो फिर हे देव, दृष्ट पूर्वक उसे ले आना चाहिए । मारीचके वचन सुनकर रावण उसकी प्रशंसा करता हुआ 'ठीक-ठीक' ऐसा कहने लगा ॥ १२१-१२३ ॥ उसी समय उस कायरने शूर्पणखाको बुलाकर कहा कि तू किसी उपायसे सीताका मुझमें अनुरक्त कर ॥ १२४ ॥ इस प्रकार उसने बड़े आदरसे कहा । शूर्पणखा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर उसी समय वेगमे आकाशमें चल पड़ी और बनारस जा पहुँची ॥ १२५ ॥ उस समय वसन्त ऋतु थी अतः रामचन्द्रजी नन्दन बनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक वनमें रमण करनेके लिए सीताके

मध्येवनं परिक्रम्य वीक्ष्य नानावनस्पतिम् । सप्रमूर्तां सहासां वा सरागां वा सपल्वाम् ॥ १२७ ॥  
 लतां समुत्सुकस्तन्वीं तन्वीमन्यामिव प्रियाम् । आलोकमानो जानक्यालोकितः स सकंपया ॥ १२८ ॥  
 कुपितेयं विना हेतोः प्रसाद्येत्येवमब्रवीत् । पश्य चन्द्रानने भृङ्गं लतायाः कुमुमे भृशम् ॥ १२९ ॥  
 तवास्ये मामिवासक्तं तत्र तर्पयितुं स्वयम् । रागं पिण्डाद्गुप्ताः पुष्पैरुद्दिग्दन्तीव नूतनैः ॥ १३० ॥  
 मम नेत्रालिनां प्रीत्यै वर्ध्वैर्भिक्षित्रशैवरम् । स्वहस्तेन प्रिये मेऽमूनलङ्कुः शिरोरहान् ॥ १३१ ॥  
 एतत्पुष्पैः प्रवालैश्च भूपगानि प्रकल्पये । तवापि त्वं विभास्येतेर्जङ्गमेव लताऽपरा ॥ १३२ ॥  
 इत्युक्तिभिरिमां मूकीभूतामालोक्य कामिनीम् । पुनश्चैवमभाषिष्ट सृष्टंष्टवचनो नृपः ॥ १३३ ॥  
 त्वद्वक्त्रं दर्पणे वीक्ष्य चक्षुरी ते कृतार्थकं । त्वदास्यसौरभेणैव तृप्ता ते नासिका भृशम् ॥ १३४ ॥  
 त्वच्छब्दयोग्यमन्लापैः कर्णौ पूर्णरसौ तव । तव विस्वाधरस्वादात्स्वाङ्गिह्वान्धरमाभृष्टा ॥ १३५ ॥  
 परिरभ्य करौ तृप्तौ तव त्वत्कटिस्तनौ । मनोऽर्पान्द्रियसंतृप्ता संतृप्तं नितरां प्रिये ॥ १३६ ॥  
 स्वस्यामेवं स्वयं तृप्ता सिद्धाकृतिरिवाधुना । कोपस्ते युक्त एवेति सीतां स चतुराङ्किणिः ॥ १३७ ॥  
 ततः प्रसन्नया सार्द्धं मुवं सर्वेन्द्रियोद्भवम् । संप्राप्य नूतनं भूपः कोपोऽपि सुखदः क्वचित् ॥ १३८ ॥  
 तत्रैव लक्ष्मणोऽप्येवं स्वप्रियाभिः सभारमन । हृष्टौ तदा मुदा कामरतेभ्योऽभ्यर्थमदः सुखम् ॥ १३९ ॥  
 एवं रामश्चिरं रन्वा काले पश्य रविः करैः । सर्वान् दहति मूर्द्धस्थस्तीव्रः कस्यात्र शान्तये ॥ १४० ॥

साथ गये हुए थे ॥ १२६ ॥ वहाँ तो अनेक शोचनें पुष्प-पुष्कर जाता अन्तर्पनियोंको देख रहे थे । वहाँ एक लता थी जो फूलोंमें सजित होनेके कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो हंस ही रही हो तथा पल्लवोंमें सजित होनेके कारण ऐसी मालूम होती थी भागो अनुरागमें सजित ही हो । वह पतली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कृता शरीरवाली कोई कुसरी ली ही हो । वे उभे वड़ी उन्मुक्तता में देख रहे थे । उस लताको देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीतामें कुछ क्रोध युक्त होकर देखा । उभे देखते ही रामचन्द्रने कहा कि यह बिना कारण ही दुपित ही रही है अतः उसे प्रसन्न करना चाहिए । वे कहने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, तिम प्रकार मैं तुम्हारे मुख पर आसक्त रहता हूँ उसी प्रकार अधर यह अवग इम लताके फूल पर कैसा आसक्त हो रहा है ? अधर ये अशोक वृक्ष स्वयं सन्तुष्ट करनेके लिए नये जो फूलोंके द्वारा मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहे हैं ॥१२७-१३०॥ हे प्रिये ! मेरे नेत्ररूपी अवशोंको सन्तुष्ट करनेके लिए तू इन फूलोंके द्वारा चित्र-विचित्र सेहरा बाँधकर अपने हाथमें गये इन केशोंको अलंकृत कर । मैं तेरे लिए भी इन पुष्पों और प्रवालोंने भूषण बनाता हूँ । इन फूलों और प्रवालोंने तू सन्तुष्ट ही एक चलती-फिरती लताके समान सुशोभित होगी ॥ १३१-१३२ ॥ इस प्रकार रामने यक्षप कितने ही शब्द कहे तो भी सीता क्रोधवश चुप ही बैठी रही । यह देख मिष्ट तथा इष्ट वचन बोलनेवाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे ॥ १३३ ॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दर्पणमें तेरा मुख देखकर कृतकृत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तेरे मुखकी मुगान्धमे ही मानो अत्यन्त लुप्त हो गई है ॥ १३४ ॥ तेरे सुतने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रसमें लयालव भर गये हैं । तेरे अधर-विम्बका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्वा अन्य पदार्थोंके रसमें निःस्पृह हो गई है ॥ १३५ ॥ तेरे हाथ तेरे कटिन स्तनोंका स्पर्श कर सन्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिये ! तेरी समस्त इन्द्रियोंके सन्तुष्ट हो जानेमें तेरा मन भी खूब सन्तुष्ट हो गया है । इस तरह तू इस समय अपने आपमें लुप्त हो रही है इसलिए तेरी आकृति ठीक सिद्ध भगवानके समान जान पड़ती है फिर भी हे प्रिये ! तुझे क्रोध करना क्या उचित है । इस प्रकार चतुर शब्दोंके द्वारा रामने सीताको समझाया । तदनन्तर प्रसन्न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अभूतपूर्व मुखका अनुभव किया । सो ठीक ही है क्योंकि कहीं-कहीं क्रोध भी सुखदायी हो जाता है ॥ १३६-१३८ ॥ वहीं पर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करते थे । उस समय कामदेव वड़े हर्षमें उन सबके लिए इच्छानुसार मुख प्रदान करता था ॥१३६॥ इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक क्रीड़ा कर सीतासे कहने लगे कि हे प्रिये ! यह सूर्य अपनी

लक्ष्मणाक्रमविक्रान्तिविजितारातिसन्निभाः । छायामात्मनि सखीनां प्रकुर्वन्ति महीरुहः ॥ १४१ ॥  
 वैराज्यपरिवारो वा मृगरूपः सशावकः । काप्य<sup>१</sup>लब्धाश्रयस्तप्तो भ्रायतीतस्ततोऽपि च ॥ १४२ ॥  
 इति चेतोहरैः सीतां मोदयन् स तथा सह । शचीदेव्येव देवेशः कृत्वा वनविनोदनम् ॥ १४३ ॥  
 किञ्चित् खिन्नामिवालय्य तां जलाशयमासदत् । तत्र सिञ्चन् प्रियां शीतैर्यन्म्रमुक्तपयःकणैः ॥ १४४ ॥  
 ईपञ्चिमीलितालोलनयनेन्दीवरोज्ज्वलम् । तद्वक्त्रकमलं पश्यन्नसावल्पं तदातुषत् ॥ १४५ ॥  
<sup>२</sup>वक्षोवृत्रमसौ वारिं प्राविशत्सस्मितं प्रियाम् । परिरम्भोत्सुकां विहान् रञ्जितज्ञा हि नागराः ॥ १४६ ॥  
 भमराः कञ्जकं मुक्त्वा कान्तास्याब्जेऽपतन्समम् । तैराकुलीकृतां दृष्ट्वा खेदी ह्यादी च सोऽभवत् ॥ १४७ ॥  
 एवं जले चिरं<sup>३</sup> रन्त्वा तत्रापर्यं मनोरथम् । सान्तःपुरो वने रम्यप्रदेशे स्थितिमाव्रजत् ॥ १४८ ॥  
 तदा सूर्पणखागत्य तयोर्नृपतनूजयोः । वीक्ष्यमाणाऽतुलां लक्ष्मीमनुरक्ता सविस्मयम् ॥ १४९ ॥  
 प्रभूतप्रसवानम्रकन्नशाोकमहीरुहः । अधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिशिलातले ॥ १५० ॥  
 वनलक्ष्मीमिवालोक्य भूष्यमाणां सखीजनैः । युक्तमेव खरोशम्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥ १५१ ॥  
 बभूव स्थविरा रूपपरावर्तनविद्यया । सीताविलाससन्दर्शसम्भूतबीडयेव सा ॥ १५२ ॥  
 तद्रपं<sup>४</sup> वर्णयन्तीथं सकौतुकममन्वत । स्वबुद्धिकौशलादेतत्कृतं रूपं न वेधसा ॥ १५३ ॥  
 यादृच्छिकं न चेदन्विक्रमकाराति नेदशम् । शेषदेव्यो जरार्जाणां तां दृष्ट्वा यौवनोद्धताः ॥ १५४ ॥

किरणोंसे सबको जला रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मस्तक पर स्थित हुआ उग्र प्रकृतिका धारक किसकी शान्तिके लिए होता है ? ॥ १४० ॥ लक्ष्मणके आक्रमण और पराक्रमसे पराजित हुए शत्रुके समान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने आपमें लीन कर रहे हैं ॥ १४१ ॥ शत्रु राजाओंके परिवारोंके समान इन वृक्षों सहित हरिणोंको कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है इसलिए ये सन्तप्त होकर इधर-उधर घूम रहे हैं ॥ १४२ ॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेवाले शत्रुओंसे सीताको प्रसन्न करते हुए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ वन-क्रीड़ा करने लगे ॥ १४३ ॥ रामचन्द्र सीताको कुछ खेद-खिन्न देख सरोवरके पास पहुँचे और सीताको यन्त्रसे छाड़ी हुई जलकी ठण्डी बूँदोंसे सींचने लगे ॥ १४४ ॥ उस समय कुछ-कुछ वन्द हुए चञ्चल नेत्ररूपी नीलकमलोंसे उज्ज्वल सीताका मुख-कमल देग्वते हुए रामचन्द्रजी बहुत कुछ सन्तुष्ट हुए थे ॥ १४५ ॥ वे बुद्धिमान रामचन्द्रजी आलिङ्गन करनेमें उत्सुक तथा मन्द हास्य करती हुई सीताके समीप छाती तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक ही है क्योंकि चतुर मनुष्य इशारोंको अच्छी तरह समझते हैं ॥ १४६ ॥ वहाँ बहुतसे भ्रमर कमल छोड़कर एक साथ सीताके मुखकमल पर आ झपटे उनसे वह व्याकुल हो उठी । यह देख रामचन्द्रजी कुछ खिन्न हुए तो कुछ प्रसन्न भी हुए ॥ १४७ ॥ इस तरह जलमें चिर-काल तक क्रीड़ा कर और मनोरथ पूर्ण कर रामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके साथ वनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥ १४८ ॥ उसी समय वहाँ शूर्पणखा आई और दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाको बड़े आश्चर्यके साथ देखती हुई उन पर अनुरक्त हो गई ॥ १४९ ॥ उस समय सीता बहुत-भारी फूलोंके भारसे भुके हुए किसी सुन्दर अशोक वृक्षके नीचे हरे मणिके शिला-तल पर बैठी हुई थी, आस-पास बैठी हुई सखियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसे देख शूर्पणखा कहने लगी कि इसमें रावणका प्रेम होना ठीक ही है ॥ १५०-१५१ ॥ रूप-परावर्तन विद्यासे वह बुढ़िया वन गई उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका विलास देग्वनेसे उत्पन्न हुई लज्जाके कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥ १५२ ॥ कवि लोग उसके रूपका ऐसा वर्णन करते थे, और कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी कुशलतासे नहीं बनाया है अपितु अनायास ही वन गया है । यदि ऐसा न होता तो वह इसके समान ही दूसरा रूप क्यों नहीं बनाता ? ॥ १५३ ॥ सीताको छोड़ अन्य रानियाँ यौवनसे उद्धत हो, बृद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण दिग्गनेवाली उस बुढ़ियाको देख हँसी करती हुई

का त्वं वद कुतस्था वेत्यवोचन्हासपूर्वकम् । उधानपालकस्याहं मातात्रैवेति सा पुनः ॥ १५५ ॥  
 तासां चित्तपरीक्षार्थमिमां वाचमुदाहरत् । युष्मदपुण्यभागिन्यो मान्याः सन्त्यन्ययोषितः ॥ १५६ ॥  
 यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां सह भोगपरायणाः । युष्माभिः <sup>१</sup>प्राक्कृतं किं वा पुण्यं तन्मम कथ्यताम् ॥ १५७ ॥  
 तत्करिष्यामि येनास्य राश्री भूत्वा महीपतेः । इमं विरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्वचः ॥ १५८ ॥  
 भ्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्यास्तरुणं स्मरविह्वलम् । वपुरेव जराग्रस्तमित्यलं सहसाऽहसन् ॥ १५९ ॥  
<sup>२</sup>मा हासः कुलसौरूप्यकलागुणयुजामिह । समप्रेम <sup>३</sup>फलप्राप्तेः किमन्यजन्मनः फलम् ॥ १६० ॥  
 वदतेति वदन्तीं तां पुनर्भो जन्मनः फलम् । तवेदमेव चेदस्मद्विभुना विधिना वयम् ॥ १६१ ॥  
<sup>४</sup>त्वामद्य योजयिष्यामः परिमुक्तविचारणम् । महादेवी भवेत्यासां हासवाणशरव्यताम् ॥ १६२ ॥  
 उपयान्तीमिमां वीक्ष्य कारुण्यज्जनकात्मजा । किमित्याकांक्षसि स्त्रीत्वं त्वं हितानवबोधिनी ॥ १६३ ॥  
 स्त्रीतामनुभवन्तीभिरत्रामृभिरनीप्सितम् । प्राप्तं प्राप्यं च दुर्बुद्धे महापापफलं शृणु ॥ १६४ ॥  
 अनिष्टलक्षणादन्यैर्ब्राह्मत्वाच्छ्रुत्वा गृहे । स्वे वासो मृत्युपर्यन्तं कुलरक्षणकारणात् ॥ १६५ ॥  
 अपत्यजननाभावे प्रविष्टोत्पन्नगेहयोः । शोकोत्पादनबन्ध्यात्वं निर्भाग्यत्वादगौरवम् ॥ १६६ ॥  
 दुर्भगत्वेन कान्तानां परित्यागात्पराभवः । अस्पृश्यत्वं रजोदोषात् खण्डनाकलहादिभिः ॥ १६७ ॥  
 दुःखदावाग्निस्तन्तापो वन्यानामिव भूरुहाम् । चक्रवर्तिसुतानां च परपादोपसेवना ॥ १६८ ॥

बोलीं कि बतला तो सही तू कौन है ? और कहाँसे आई है ? इसके उत्तरमें बुढ़िया कहने लगी कि मैं इस वगीचाकी रक्षा करनेवालेकी माता हूँ और यहीं पर रहती हूँ ॥ १५४-१५५ ॥ तदनन्तर उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि हे माननीयो ! आप लोगोंके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ हैं वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योंकि इन कुमारोंके साथ आप लोग भोग भोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं । आप लोगोंने पूर्वभवमें कौन-सा पुण्य कर्म किया था, वह मुझसे कहिये । मैं भी उसे कहूँगी, जिससे इस राजाकी रानी होकर इसे अन्य रानियोंसे विरक्त कर दूँगी । इस प्रकार उसके वचन सुन सब रानियाँ यह कहनी हुई हँसने लगीं कि इसका शरीर ही बुढ़ापामे ग्रस्त हुआ है चित्त तो जवान है और कामसे विह्वल है ॥ १५६-१५७ ॥ इसने उत्तरमें बुढ़िया बोली कि आप लोग कुल, उत्तम रूप तथा कला आदि गुणोंसे युक्त हैं अतः आपको हँसी करना उचित नहीं है । आप सबको एक समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई है इसमें बढ़कर जन्मका दूसरा फल क्या हो सकता है ? आप लोग ही कहें । इस प्रकार कहती हुई बुढ़ियासे वे फिर कहने लगीं कि यदि तेरे जन्मका यही फल है तो हम तुम्हे अपने-अपने पतिके साथ विधिपूर्वक मिला देंगी । तू बिना किसी विचारके इनकी पट्टरानी हो जाना । इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसी रूपी वाणोंका निशाना बनती हुई बुढ़ियाको देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती है ? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती ॥ १६०-१६३ ॥ स्त्रीपनेका अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इसलोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं । हे दुर्बुद्धे ! यह स्त्रीपर्याय महापापका फल है । मुनो, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष ग्रहण नहीं करता इसलिए शोकसे उसे अपने घर ही रहना पड़ता है । इसके सिवाय कन्याको मरण पर्यन्त कुलकी रक्षा करनी पड़ती है ॥ १६४-१६५ ॥ यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें प्रविष्ट हुई और जिस घरमें उत्पन्न हुई—उन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है । यदि भाग्यहीन होनेमे कोई बन्ध्या हुई तो उसका गौरव नहीं रहता ॥ १६६ ॥ यदि कोई स्त्री दुर्भगा अथवा कुरूप हुई तो पति उसे छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है । रजोदोषसे वह अस्पृश्य हो जाती है—उसे कोई छूता भी नहीं है । यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो वनमें उत्पन्न हुए वृक्षोंके समान उसे दुःखरूपी दावानलमें सदा जलना पड़ता है । औरकी बात जाने दो चक्रवर्तीकी पुत्रीको भी

मानभङ्गः सपत्नीषु दृष्टोत्कर्षेण केनचित् । स्वभाववक्त्रवाक्कायमनोभिः कुटिलात्मता ॥ १६९ ॥  
 गर्भसूतिसमुत्पन्नरोगादिपरिपीडनम् । शोचनं स्त्रीसमुत्पत्तावपत्यमरणाऽ<sup>१</sup>सुखम् ॥ १७० ॥  
 रहस्यकार्यबाह्यत्वं सर्वकार्येष्वतन्त्रता । विधवात्वे महादुःखपात्रत्वं दुष्टचेष्टया ॥ १७१ ॥  
 दानशीलोपवासादिपरलोकहितक्रिया । विधानेष्वप्रधानत्वं सन्तानार्थानवापनम् ॥ १७२ ॥  
 कुलनाशोऽगतिर्मुक्तं रित्याद्यन्यच्च दूषितम् । साधारणमिदं सर्वस्त्रीणां कस्मात्तवाभवत् ॥ १७३ ॥  
 तस्मिन्सुखामिलाषित्वं वयस्यस्मिन् गतव्रथे । न चिन्तयसि ते भाविहितं मतिविपर्ययात् ॥ १७४ ॥  
 स्त्रीत्वे सतीत्वमेवैकं श्लाघ्यं तत्पतिमालम्नः । विरूपं व्याधितं निःस्वं दुःस्वभावमवर्तकम् ॥ १७५ ॥  
 त्यक्त्वान्यं चेदहं वास्तां चक्रिणं वामिलाषिणम् । पश्यन्तः कुष्ठिचाण्डालसदृशं नाभिलाषुकाः ॥ १७६ ॥  
 तमप्याक्रम्य <sup>२</sup>भोगेच्छं सद्यो दृष्टिविषोपमाः । नयन्ति भस्मसाक्षात् यद्दलात् कुलयोषितः ॥ १७७ ॥  
 इत्याह तद्वचः श्रुत्वा मन्दरोऽद्विश्र चालयते । शक्यं चालयितुं नास्याश्चित्तामित्याकुलाकुला ॥ १७८ ॥  
 गृहकार्यं भवद्वाक्यश्रुतेर्विस्मृत्य दुःखिता । यामि देव्यहमित्येतच्चरणनावनम्य सा ॥ १७९ ॥  
 गत्वानिष्ठितकार्यत्वाद्विपण्णा रावणं प्रति । अशक्यारम्भवृत्तीनां क्लेशादन्यत्कुतः फलम् ॥ १८० ॥  
 इष्ट्वा तं स्वोचितं देव सीता शीलवती न सा । वज्रयष्टिरिवान्येन भेतुं केनापि शक्यते ॥ १८१ ॥  
 इति स्वगतवृत्तान्तमुक्त्वा तेऽभिमतं मया । नोक्तं शीलवती कोपवह्निभोत्येति सावरीत् ॥ १८२ ॥

दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है ॥ १६७-१६८ ॥ और सपत्नियोंमें यदि किसीकी उत्कृष्टता हुई तो सदा मानभङ्गका दुःख उठाना पड़ता है । स्वभाव, मुख, वचन, काय, और मनकी अपेक्षा उनमें सदा कुटिलता बनी रहती है ॥ १६९ ॥ गर्भधारण तथा प्रसूतिके समय उत्पन्न होनेवाले अनेक रोगादिकी पीड़ा भोगनी पड़ती है । यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छा जाता है, किसीकी सन्तान मर जाती है तो उसका दुःख भोगना पड़ता है ॥ १७० ॥ विचार करने योग्य खास कार्योंमें उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्योंमें उन्हें परतन्त्र रहना पड़ता है, दुर्भाग्यवशा यदि कोई विधवा हो गई तो उसे महान् दुःखोंका पात्र होना पड़ता है । दानशील उपवास आदि परलोकका हित करनेवाले कार्योंके करनेमें उसकी कोई प्रधानता नहीं रहती । यदि स्त्रीके सन्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे हांती ही नहीं है । इनके सिवाय और भी अनेक दोष हैं जो कि सब स्त्रियोंमें साधारण रूपसे पाये जाते हैं फिर क्यों तुमके इस निन्द्य स्त्रीपर्यायमें सुखकी इच्छा हो रही है । हे निर्लज्जे ! तू इस अवस्थामें भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही है इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है ॥ १७१-१७४ ॥ स्त्री पर्यायमें एक सतीपना ही प्रशंसनीय है और वह सतीपना यही है कि अपने पतिको चाहं वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दुष्ट स्वभाववाला हो, अथवा बुरा वर्ताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरेकी बात जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नहीं चाहना । यदि कोई ऐसा पुरुष जबरदस्ती आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है तो उसे कुलवती स्त्रियाँ दृष्टिविष सर्पके समान अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती हैं ॥ १७५-१७७ ॥ इस प्रकार सीताके वचन सुनकर शूर्पणखा मनमें विचार करने लगी कि कदाचित् मन्दरगिरि—सुमेरु पर्वत तो हिलाया जा सकता है पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता । ऐसा विचार कर वह बहुत ही व्याकुल हुई ॥ १७८ ॥ और कहने लगी कि हे देवि ! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूल कर दुःखी हुई, अब जाती हूँ ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गई ॥ १७९ ॥ कार्य पूरा न होनेसे वह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पहुंची सो ठीक ही है क्योंकि जिन कार्योंका प्रारम्भ करना अशक्य है उन कार्योंका क्लेशकं सिवाय और क्या फल हो सकता है ? ॥ १८० ॥ शूर्पणखाने पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दर्शन किये और तदनन्तर निवेदन किया कि हे देव ! सीता शीलवती है, वह वज्रयष्टिके समान किसी अन्य स्त्रीके द्वारा भेदन नहीं की जा सकती ॥ १८१ ॥ इस तरह अपना वृत्तान्त कह कर उसने यह कहा कि मैंने शीलवतीकी क्रोधाग्निके भयसे



श्रुत्वा तद्वचनं सर्वमसत्यमवधारयन् । प्रकटीकृतकोपाग्निरिङ्गिताकारवृत्तिभिः ॥ १८३ ॥  
 मुग्धे फणीन्द्रनिश्वासभोगाटोपविलोकनात् । भीत्वा तद्ग्रहणं को वा विपवादी विमुञ्चति ॥ १८४ ॥  
 बाह्यस्थैर्यवचः श्रुत्वा भीत्वा तस्यास्वमागता । गजकर्णचला स्त्रीणां चित्तवृत्तिर्न वेत्सि किम् ॥ १८५ ॥  
 नास्याश्चित्तं त्वयामेदि न जाने केन हेतुना । उपायकुशलाभासीत्यसौ तामभ्यतर्जयत् ॥ १८६ ॥  
 भोगोपभोगद्वारेण रञ्जयेयं मनो यदि । तत्र यद्वस्तु नान्यत्र तस्त्वमेऽप्युपलभ्यते ॥ १८७ ॥  
 अथ शौचादिभी रामसदृशो न क्वचित्पुमान् । वीणादिभिश्चेत्सा सर्वकलागुणविशारदा ॥ १८८ ॥  
 सुग्रहं तलहस्तेन भूमिद्वैर्भानुमण्डलम् । पातालादपि शेषाहिः सुहरो डिम्भकेन च ॥ १८९ ॥  
 समुत्तानयितुं शक्ता ससमुद्रा वसुन्धरा । भेतुं शीलवतीचित्तं न शक्यं मन्मथेन च ॥ १९० ॥  
 इत्याख्यत्साप्यदः पापादवकर्ण्यं स रावणः । निर्मलैः केतनैर्दूरात्पश्यतां जनयद्गुणम् ॥ १९१ ॥  
 हंसावलीति सन्देहं नवनिमोक्तहासिभिः । दिशो मुखरयद्धं भवण्टाचटुलनिःस्वर्नैः ॥ १९२ ॥  
 कुर्वन्घनैर्घनाश्लेषं विदिलत्पैरिव बन्धुभिः । ययौ पुष्पकमारुह्य गगने सह मन्त्रिणा ॥ १९३ ॥  
 १ ध्वजदण्डप्रनिभिश्रवारिदच्युतवाल्लवैः । मन्दगन्धवहानीतैर्विनीताध्वपरिश्रमः ॥ १९४ ॥  
 सीतोत्सुकस्तथा गच्छन् ददशे पुष्पकस्थितः । शरद्वलाहकान्तःस्थो वासौ नीलवलाहकः ॥ १९५ ॥  
 सम्राप्य चित्रकूटाख्यं २ प्रधानं नन्दनं वनम् । प्रविष्ट इव सीतायाश्चित्तं तुष्टिमगादलम् ॥ १९६ ॥

तुम्हारा अभिमान उसके सामने नहीं कहा ॥ १८२ ॥ शूर्पणखाके वचन सुन रावणने वह सब भूठ समझा और अपनी चेष्टा तथा मुग्धावृत्ति आदिसे क्रांदाग्निको प्रकट करता हुआ वह कहने लगा कि हे मुग्धे ! ऐसा कौन विपवादी—गारुडिक है जो सर्पका निःश्वास तथा फणाका विस्तार देख उसके भयमे उसे पकड़ना छोड़ देता है ॥ १८३-१८४ ॥ उसकी बाह्य भीरुताके वचन सुनकर ही तू उससे डर गई और यहाँ वापिस चली आई । स्त्रियोंकी चित्तवृत्ति हाथीके कानके समान चञ्चल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ॥ १८५ ॥ मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया । तू उपायमें कुशल नहीं है किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है । ऐसा कह रावणने शूर्पणखाको खूब डाँट दिखाई ॥ १८६ ॥ इसके उत्तरमें शूर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोगोपभोगकी वस्तुओंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रके पास है व अन्यत्र स्वप्नमें भी नहीं मिलती है ॥ १८७ ॥ यदि शूर-वीरता आदिके द्वारा उसे अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूर-वीर पुरुष कहीं नहीं है । यदि वीणा आदिके द्वारा उसे वश करना चाहती तो वह स्वयं समस्त कला और गुणोंमें विशारद है । भूमि पर खड़े हुए लोगोंके द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालकभी पाताल लोकसे शोपनागका हरण कर सकता है ॥ १८८-१८९ ॥ और समुद्र सहित पृथिवी उठाई जा सकती है परन्तु शीलवती स्त्रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता । शूर्पणखाके वचन सुनकर रावण पापकर्मके उदयसे पुष्पक विमान पर सवार हो मन्त्रीके साथ आकाशमार्गसे चल पड़ा । पुष्पक विमान पर सौंपकी नई काँचलीकी हँसी करनेवाली निर्मल पताकाएँ फहरा रही थीं उनसे वह लोगोंको 'यह हँसोंकी पंक्ति है' ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था । सुवर्णकी बनी छोटी-छोटी घण्टियोंके चञ्चल शब्दोंसे वह पुष्पक विमान दिशाओंको मुखरित कर रहा था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिङ्गन कर रहा था मानो विछुड़े हुए बन्धुओंके साथ ही आलिङ्गन कर रहा हो ॥ १९०-१९३ ॥ उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा-दण्ड लगा हुआ था उसके अभ्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंसे पानीकी छोटी-छोटी बूँदे झड़ने लगती थीं, मन्द-मन्द वायु उन्हें उड़ा कर ले आती थी जिससे रावणका मार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता जाता था ॥ १९४ ॥ सीतामें उत्सुक हो पुष्पक विमानमें बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता था मानो शरद् ऋतुके मेघोंके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥ १९५ ॥ जब वह चित्रकूट नामक आनन्ददायी प्रधान वनमें प्रविष्ट हुआ तब ऐसा सन्तुष्ट हुआ मानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका

तदाजयथ मारीचः परार्थमणिनिमित्तः । भूत्वा हरिणपोतोऽसौ सीतायाः स्वमदर्शयत् ॥ १९७ ॥  
 तं मनोहारिणं दृष्ट्वा पश्य नायातिकौतुकम् । हरिणश्चित्रवर्णोऽयं रक्षयत्यञ्जसा मनः ॥ १९८ ॥  
 इति सीतावचः श्रुत्वा विनेतुं तत्कुनूहलम् । तदानिनीषया गत्वा रामो वामे विधौ विधीः ॥ १९९ ॥  
 प्रीवाभङ्गेन वा पश्यन् कुर्वन् दूरं पुनः झुतिम् । वल्गन् धावन् क्षणं खादन् विभयो वातृणाङ्कुरम् ॥ २०० ॥  
 हस्तप्राङ्मिवात्मानं कृत्वोद्दीयातिदूरगः । वृथा कर्षति मां मायाभृगो वैपोऽतिदुर्ग्रहः ॥ २०१ ॥  
 वदन्नित्यन्वगात्सोऽपि भृगोऽगाद्गनाङ्गणम् । कुतः कृत्यपरामर्शः स्त्रीवशीकृतचेतसाम् ॥ २०२ ॥  
 लोकमानो नभो रामस्तनुतामतिहृपयन् । तस्थौ तथैव विभान्तो घटान्तरगताहिवन् ॥ २०३ ॥  
 'अथातो रामरूपेण परिवृत्तो दशाननः । सीतामिवा एरोधत्वा प्रहितो हरिणो मया ॥ २०४ ॥  
 वारुणीदिक् प्रिये पश्य विम्बमेषांशुमालिनः । सिन्दूरतिलकं न्यस्तं विभसीव विराजते ॥ २०५ ॥  
 भारोह शिबिकां तस्मादाशु सुन्दरि बन्धुराम् । १पुरीगमनकालोऽयं वर्तते सुखरात्रये ॥ २०६ ॥  
 इत्यवादीशदाकर्ण्य सा मायाशिविकाकृति । विमानं पुष्पकं मोहादाहरोह धरासुता ॥ २०७ ॥  
 रामं वा तुरगारूढमात्मनं स्म प्रदर्शयन् । सहीगतमिव भान्ति जनयन् दुहितुर्महैः ॥ २०८ ॥  
 तां भुजङ्गीमिवानैषीदुपायेन स्वमृत्यवे । पतिव्रताम्रगां पापी मायाचुञ्चुर्दशाननः ॥ २०९ ॥  
 क्रमाहङ्कामवाप्यैनामवतार्य वनान्तरे । सद्यो मायां निराकृत्य ज्ञापितानयनक्रमम् ३ ॥ २१० ॥

हो ॥ १६६ ॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे मारीचने श्रेष्ठ मर्णियोंसे निर्मित हरिणके वचचेका रूप बनाकर अपने आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥ १६७ ॥ उस मनोहारी हरिणको देखकर सीता रामचन्द्रजीमे कहने लगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देखिये, यह अनेक वर्णोंवाला हरिण हमारे मनको अनुरञ्जित कर रहा है ॥ १६८ ॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होने पर बुद्धि रहित रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका कुतूहल दूर करनेके लिए उस हरिणको लानेके इच्छासे चल पड़े ॥ १६९ ॥ वह हरिण कभी तो गरदन मोड़ कर पीछेकी ओर देखता था, कभी दूर तक लम्बी छलाङ्ग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ता था, और कभी निर्भय हो घासके अङ्कुर खाने लगता था ॥ २०० ॥ कभी अपने आपको इतने पास ले आता था कि हाथसे पकड़ लिया जावे और कभी उछल कर बहुत दूर चला जाता था । उसकी ऐसी चेष्टा देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह कोई मायामय मृग है मुझे व्यर्थ ही खींच रहा है और कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है । ऐसा कहते हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चले गये परन्तु कुछ समय बाद ही वह उछल कर आकाशागणमें चला गया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्त्रीके वश है उन्हें करने योग्य कार्यका विचार कहाँ होना है ? ॥ २०१-२०२ ॥ जिस प्रकार घड़ेके भीतर रखा हुआ साँप दुखी होता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी ओर देखते तथा अपनी हीनताका वर्णन करते हुए वहाँ पर आश्चर्यसे चकित होकर ठहर गये ॥ २०३ ॥

अथानन्तर-रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर सीताके पास आया और कहने लगा कि मैंने उस हरिणको पकड़कर आगे भेज दिया है ॥ २०४ ॥ हे प्रिये ! अब सन्ध्याकाल हो चला है । देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्य-विम्बको धारण करती हुई ऐसी मुशोभित हो रही है मानो सिन्दूरका तिलक ही लगाये हो ॥ २०५ ॥ इसलिए हे सुन्दरि ! अब शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर सवार होओ, सुखपूर्वक रात्रि बितानेके लिए यह नगरीमें वापिस जानेका समय है ॥ २०६ ॥ रावणने ऐसा कहा तथा पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकार बना दिया । सीता भ्रान्तिवश उसपर आरूढ़ हो गई ॥ २०७ ॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावण अपने आपको ऐसा दिखाया मानो घोड़ेपर सवार पृथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों ॥ २०८ ॥ इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी रावण उपाय द्वारा पतिव्रताओंमें अप्रगामिनी-श्रेष्ठ सीताको सर्पिणीके समान अपनी मृत्युके लिए ले गया ॥ २०९ ॥ क्रम क्रमसे लङ्का पहुँचकर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा और शीघ्र ही माया

इन्द्रनीलच्छवि देहं गूढार्थं शिष्यसन्ततेः । आचार्यो वा स तस्याः स्वं सुचिरात्समदर्शयत् ॥ २११ ॥  
 भयेन लज्जया रामविरहोत्थशुभा च सा । अगाद्राजसुता मूर्च्छामतिकृच्छ्रप्रतिक्रियाम् ॥ २१२ ॥  
 सद्यः शीलवतीस्पर्शाद्विद्या गनगगामिनी । विनश्यतीति भीत्वाऽसौ जानकीं स्वयमस्पृशन् ॥ २१३ ॥  
 विद्याधरीः समाहूय शीताम्बुपवनादिभिः । मूर्च्छामस्या निराकुर्युरिति दक्षा न्ययोजयत् ॥ २१४ ॥  
 उपायैस्ताभिरुद्धतमूर्च्छाऽबोषद्दरासुता । यूयं काः कः प्रदेशोऽयमिति शङ्काकुलाशया ॥ २१५ ॥  
 विद्याधर्यो वयं लङ्कापुरमेतन्मनोहरम् । वनं रावणराजस्य त्रिखण्डाधिपतेरिदम् ॥ २१६ ॥  
 त्वाद्दशी वनिता लोके न काचित्पुप्यभागिनी । महेन्द्रमिव पौलोमी सुभद्रेवादिभूपतिम् ॥ २१७ ॥  
 श्रीमती वज्रजङ्घं वा त्वमेनं कुरु ते पतिम् । स्वामिनी भव सौभाग्याद्रावणस्य महाश्रियः ॥ २१८ ॥  
 जानकी तामिरित्युक्ता सुदूना दीनमानसा । किं पौलोम्यादयः शीलभङ्गेन ताः पतीन् स्वयम् ॥ २१९ ॥  
 प्राणेश्योऽप्यधिकान् का वा विक्रीणन्ति गुणान् श्रिया । त्रिखण्डस्याधिपोऽस्त्वस्तु पटखण्डस्याखिलस्य वा  
 किं तेन यदि शीलस्य खण्डनं मण्डनस्य मे । प्राणाः सतां न हि प्राणाः गुणाः प्राणाः प्रियास्ततः ॥ २२१ ॥  
 तद्व्ययात्पालयाभ्येतान् गुणप्राणाञ्च र्जाविकाम् । मूर्तिविनश्वरी यातु विनाशमविनश्वरम् ॥ २२२ ॥  
 विनश्यति न मे शीलं कुलशैलानुकारि तत् । इति प्रत्युत्तरं दत्त्वा गृहीत्वा सा व्रतं तदा ॥ २२३ ॥  
 वदित्प्रियामि न भोक्ष्ये च यावन्न श्रूयते मया । रामस्य क्षेमवार्तेति मनसालोच्य सुव्रता ॥ २२४ ॥  
 अवबोधितवैधव्यविरुद्धस्वल्पभूषणा । यथार्थं चिन्तयन्त्यास्त सन्ततं संसृतेः स्थितिम् ॥ २२५ ॥

दूरकर उसके लानेका क्रम सूचन किया। जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य-परम्पराके लिए किसी गूढ़ अर्थको बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्ति वाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीताको दिखलाया ॥ २१०-२११ ॥ उसे देखते ही राजपुत्री सीता, भयसे, लज्जामे, और रामचन्द्रके विरहसे उत्पन्न शोकसे तीव्र दुःखका प्रतिकार करनेवाली मूर्च्छाको प्राप्त हो गई ॥ २१२ ॥ शीलवती पतिव्रता स्त्रीके स्पर्शसे मेरी आकाशगामिनी विद्या शीघ्र ही नष्ट हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं किया ॥ २१३ ॥ किन्तु चतुर विद्याधरियोंको बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल तथा हवा आदिसे इसकी मूर्च्छा दूर करो ॥ २१४ ॥ जब उन विद्याधरियोंके अनेक उपायोंसे सीताकी मूर्च्छा दूर हुई तब शङ्कासे व्याकुल-हृदय होती हुई वह उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं ? और यह प्रदेश कौन है ? ॥ २१५ ॥ इसके उत्तरमें विद्याधरियाँ कहने लगीं कि हम लोग विद्याधरियाँ हैं, यह मनोहर लङ्कापुरी है, और यह तीन खण्डके स्वामी राजा रावणका वन है। इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी स्त्री पुण्यशालिनी नहीं है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने भरत चक्रवर्ती को और श्रीमतीने वज्रजङ्घको अपना पति बनाया था उसी प्रकार आप भी इस रावणको अपना पति बना रही हैं। आप सौभाग्यसे महालक्ष्मीके धारक रावणकी स्वामिनी होओ ॥ २१६-२१७ ॥ इस प्रकार विद्याधरियोंके कहनेपर सीता बहुत ही दुःखी हुई, उसका मन दीन हो गया। वह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी आदि स्त्रियाँ अपना शील भङ्गकर इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ? ॥ २१८ ॥ ऐसी कौनसी स्त्रियाँ हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने गुणोंको लक्ष्मीके बदले बेच देती हों। रावण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी हो और चाहे समस्त लोकका स्वामी हो ॥ २२० ॥ यदि वह मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? सज्जनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होते हैं ॥ २२१ ॥ मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रक्षा करूँगी जीवनकी नहीं। यह नश्वर शरीर भले ही नष्ट हो जावे परन्तु कुलाचलोंका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर उत्तम शील व्रतको धारण करनेवाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम ले लिया कि जबतक रामचन्द्रजीकी कुशलताका समाचार नहीं सुन लूँगी तबतक न बोलूँगी और न भोजन ही करूँगी ॥ २२२-२२४ ॥ वैधव्यपना प्रकट न हो इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़ेसे ही आभूषण रख छोड़े थे बाकी सब दूरकर दिये थे ऐसी सीता वहाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने

प्रादुरासंस्तदोत्पाता लङ्कायां किङ्करा इव । तदूर्ध्वसिकालराजस्य समन्ताङ्गयदायिनः ॥ २२६ ॥  
 उत्पन्नमायुधागारे चक्रं वा कालचक्रवत् । यज्ञशालाप्रबद्धस्य वस्तकस्यैव शाङ्खलम् ॥ २२७ ॥  
 तदुत्पत्तिफलस्यास्या नवबोद्धः खगेशिनः । ज्वलदारं महाचक्रं महातोषमजीजनत् ॥ २२८ ॥  
 रामो नाम बलो भावी लक्ष्मणोऽप्यनुजातवान् । तस्य रूढप्रतापौ तौ द्वाप्यभिमुखोदयौ ॥ २२९ ॥  
 सीता शीलवती नेयं जीवन्ती ते भविष्यति । अभिभूतिः सशालानामत्रैव फलदायिनी ॥ २३० ॥  
 उत्पाताश्च पुरेऽभूवन् बहवोऽशुभसूचकाः । लोकद्वयाहितं वाढमयशश्च युगावधि ॥ २३१ ॥  
 मुच्यतां संक्ष्वयं यावन्न<sup>१</sup> चेदं हृदिमृच्छति । इति युक्तिमतीं वाणीमुक्तो मन्थ्यादिभिस्तदा ॥ २३२ ॥  
 प्रत्यभापत लङ्केषो यूयं युक्तिविरोधि किम् । अस्मृत्या वदतैवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥ २३३ ॥  
 चक्ररत्नं समुत्पन्नं सीतापहरणेन मे । पट्टखण्डाधाधिपत्यं च तेन चिन्त्यं करस्थितम् ॥ २३४ ॥  
 स्वयं गृहागतां लक्ष्मीं हन्यात्पादेन को विधीः । इति तद्भाषितं श्रुत्वा ध्यरमन् हितवादिनः ॥ २३५ ॥  
 इतः परिजनो रामं मायामणिमृगानुगम् । विपिने नष्टद्विभगं सूर्येऽस्ताचलमेयुषि ॥ २३६ ॥  
 भट्टष्टान्विष्य सीतां च वैमनस्यमगास्रारम् । सद्य<sup>३</sup>स्तनोर्वियोगोऽपि स्वामिनः केन सद्यते ॥ २३७ ॥  
 भानाबुदयमायाति मर्त्यलोकैकचक्षुषि । ध्वान्ते भियेव नियाते दलन्तीष्वब्जराशिषु ॥ २३८ ॥  
 घटामदति कोकानां युग्मे युग्मद्विषा मुदा । अर्थः शब्देन वा योगं साधुना जानकीप्रियः ॥ २३९ ॥

लगी ॥ २२५ ॥ उसी समय लङ्कामें उसे नष्ट करनेवाले यमराजके किङ्करोके समान भय उत्पन्न करने-  
 वाले अनेक उत्पात सब और होने लगे ॥ २२६ ॥ जिस प्रकार यज्ञशालामें वैवे हुए बकराके समीप  
 हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुधशालामें कालचक्रके समान चक्ररत्न प्रकट हुआ ।  
 विद्याधरोका राजा रावण उसके उत्पन्न होनेका फल नहीं जानता था—उसे यह नहीं मालूम था कि  
 इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान हो रहा है ऐसे उम महाचक्रने  
 उसे बहुत भारी सन्तोष उत्पन्न किया ॥ २२७—२२८ ॥

तदनन्तर मन्त्रियोंने उसे समझाया कि 'रामचन्द्र हानहार बलभद्र हैं, और उनका छोटा  
 भाई लक्ष्मण नारायण होनेवाला है । इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रहा है और दोनों ही महान्  
 अभ्युदयके सन्मुख हैं । सीता शीलवती स्त्री है, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी । शीलवान् पुरुषका  
 तिरस्कार इसी लोकमें फल दे देता है । इसके सिवाय नगरमें अशुभकी सूचना देनेवाले बहुत भारी  
 उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने एवं युगान्तक अपयश बढ़ानेवाले इस  
 कुकार्यको उसके पहले ही शीघ्र छोड़ दो जबतक कि यह बात सर्वत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होती है' । इस  
 प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिसे भरे वचन रावणसे कहे । रावण प्रत्युत्तरमें कहने लगा कि 'इस तरह आप  
 लोग बिना कुछ सोचे-विचारे ही युक्ति-विरुद्ध वचन क्यों कहते हैं ? अरे, प्रत्यक्ष वस्तुमें विचार  
 करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सीताका अपहरण करनेसे ही मेरे चक्ररत्न प्रकट हुआ है,  
 इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य मेरे हाथमें ही आगया यह सोचना चाहिये । ऐसा कौन मूर्ख  
 होगा जो घरपर आई हुई लक्ष्मीका पैरसे ठुकरावेगा' । इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका  
 उपदेश देनेवाले सब मन्त्री चुप हो गये ॥ २२९—२३५ ॥

इधर रामचन्द्रजी मणियोंसे बने मायामय मृगका पीछा करते-करते वनमें बहुत आगे चले  
 गये वहाँ वे दिशाओंका विभाग भूल गये और सूर्य अस्ताचलपर चला गया । परिवारके लोगोंने  
 उन्हें तथा सीताको बहुत ढूँढ़ा पर जब वे न दिखे तो बहुत ही खेद-खिन्न हुए । सो ठीक ही है  
 क्योंकि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता है ॥ २३६—  
 २३७ ॥ सबेरा होनेपर मनुष्य-लोकके चलुस्वरूप सूर्यका उदय हुआ, अन्धकार मानो भयसे  
 भाग गया, कमलोकें समूह फूल उठे, रात्रिके कारण परस्पर द्वेष रखनेवाले चकवा-चकवियोंके  
 युगल हर्षसे मिलने लगे और जिस प्रकार अर्थ निर्दोष शब्दके साथ संयोगको प्राप्त होता है अथवा

स्वयं परिजनेनापि भास्करो दिवसेन वा । दृष्ट्वा तं मत्प्रिया क्वेति नृपः प्रपृच्छ साकुलः ॥ २४० ॥  
 देव देवी च देवो वा नास्माभिरवलोकितः । देवी छायेव ते तस्मात्त्वमवैधीति सोऽभ्यधात् ॥ २४१ ॥  
 १ इति तद्वचनान्नाह्वरन्ध्रा रामं समग्रहीत् । मूर्च्छां सीतासपत्नीव मोहयन्ती मनः क्षणम् ॥ २४२ ॥  
 तदा शीतक्रिया सीतासखीव सहसा नृपम् । व्यश्लेषयत्तः सोऽपि क्व सीतेति प्रबुद्धवान् ॥ २४३ ॥  
 देवीं परिजनः सर्वैः समन्तात्प्रतिभूरुहम् । अन्वेषयन् विलोक्योत्तरीयं वंशविदारितम् ॥ २४४ ॥  
 तस्यास्तदा तदानीय राघवाय समर्पयत् । उत्तरीयांशुकं देव्या भवत्येतदितः कुतः ॥ २४५ ॥  
 इति विज्ञाततत्त्वं शोकव्याकुलमानसः । सहानुजस्ततश्चिन्तां कुर्वन्नुर्वीधरः स्थितः ॥ २४६ ॥  
 तक्षणे सम्भ्रमाक्रान्तो दूतो दशरथान्तिकात् । तं प्राप्य विनतो मूर्ध्नां कार्यमित्थमभाषत ॥ २४७ ॥  
 गृहीत्वा रांहिणीं राहौ प्रयाते गगनान्तरम् । एकाकिनं तुपारांशुं भ्राम्यन्तं समलोक्यपि ॥ २४८ ॥  
 स्वप्ने किं फलमेतस्येत्यन्वयुङ्क्त महीपतिः । पुरोहितमसौ चाह सीतामद्य दशाननः ॥ २४९ ॥  
 गृहीत्वायात्स मायावी रामः स्वामी च कानने । तां समन्वेषितुं शोकादाकुलां भ्राम्यति स्वयम् ॥ २५० ॥  
 मङ्क्षु दूतमुखादेतत्प्रापणीयमिति स्फुटम् । तद्वाजाज्ञागतोऽस्मीति लेखगर्भंकरण्डकम् ॥ २५१ ॥  
 न्यधाञ्चाग्रे तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विमोच्य पत्रमत्रस्थं स्वयमित्थमवाचयन् ॥ २५२ ॥  
 इतो विनीतानगरान् श्रीमतः श्रीमतां पतिः । प्रेमप्रसारितात्मीयभुजाभ्यां स्वप्रियात्मजौ ॥ २५३ ॥

सूर्य दिनेके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीवल्लभ रामचन्द्रजी परिवारके लोगोंके साथ आ मिले । परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता कहाँ है ? परिजनने उत्तर दिया कि हे देव ! हम लोगोंने न आपको देखा है और न देवीको देखा है । देवीं तो छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जाने कि वह कहाँ गई ? इस प्रकार परिजनके वचनोंसे प्रवेश पाकर क्षण भरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी सपत्नीके समान मूर्च्छानि रामचन्द्रको पकड़ लिया—उन्हें मूर्च्छा आ गई ॥ २३६-२४२ ॥ तदनन्तर—सीताकी सर्वाके समान शीतपत्रकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मूर्च्छामें जुड़ा किया और 'सीता कहाँ है' ? ऐसा कहते हुए वे प्रबुद्ध-सचेत हो गये ॥ २४३ ॥ परिजनके समस्त लोगोंने सीताको प्रत्येक वृक्षके नीचे खोजा पर कहीं भी पता नहीं चला । हाँ, किसी वंशकी भाड़ीमें उसके उत्तरीय वस्त्रका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सौंप दिया । उसे देखकर वे कहने लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वस्त्र है, यहाँ कैसे आया ? ॥ २४४-२४५ ॥ थोड़ी ही देरमें रामचन्द्रजी उसका सब रहस्य समझ गये । उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया और वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे ॥ २४६ ॥ उसी समय संभ्रमसे भरा एक दूत राजा दशरथके पाससे आकर उनके पास पहुँचा और मस्तक झुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥ २४७ ॥ उसने कहा कि आज महाराज दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणीको हरकर दूसरे आकाशमें चला गया है और उसके चिरहमें चन्द्रमा अकेला ही वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहा है । स्वप्न देखनेके बाद ही महाराजने पुरोहितसे पूछा कि 'इस स्वप्नका क्या फल है' ? पुरोहितने उत्तर दिया कि आज मायावी रावण सीताको हरकर ले गया है और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे व्याकुल हो वनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं । दूतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र ही उनके पास भेज देना चाहिये । इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा और महाराजकी आज्ञानुसार मैं यहाँ आया हूँ । ऐसा कह दूतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया । रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रकार बाँचने लगे ॥ २४८-२५२ ॥ उसमें लिखा था कि इधर लक्ष्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीवानोंके स्वामी महाराज दशरथ प्रेमसे फैलाई हुई अपनी दाँनों भुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंका आलिङ्गनकर तथा उनके शरीरकी कुशल-वार्ता पूछकर यह आज्ञा देते हैं कि यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर

परिष्वज्यानुयुज्याङ्गशेमवार्तां ततः परम् । इदमाज्ञापयत्यत्र दक्षिणाब्धन्तरस्थिताः ॥ २५४ ॥  
 षट्पञ्चाशन्महाद्वीपाश्चक्रवर्त्यनुवर्तिनः । केशवाश्च स्वमाहात्म्यात्तदूर्ध्वपरिरक्षिणः ॥ २५५ ॥  
 द्वीपोऽस्ति तेषु लङ्काख्यास्त्रिभूटाद्रिविभूषितः । तस्मिन् विनमिसन्तानविद्याधरधरेशिनाम् ॥ २५६ ॥  
 षतुष्टये व्यतिक्रान्ते प्रजापालनलोलुपे<sup>१</sup> । रावणाख्यः खलो लोककण्टकः स्त्रीषु लम्पटः ॥ २५७ ॥  
 ततोऽभूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपलावण्यकान्त्यादिकथितं क्षितिजाभितम् ॥ २५८ ॥  
 तदैव मदनामोघवाणनिभिन्नमानसः । पौलस्त्यो ध्वस्तधीधैर्यो मायावी न्यायद्वृगः ॥ २५९ ॥  
<sup>२</sup>अनन्यवेद्यमागत्य सोपायं स्वां पुरीं सतीम् । अनैषीद्यावदस्माकमुद्योगसमयो भवेत् ॥ २६० ॥  
 तावत्स्वकायसंरक्षा कर्तव्येति प्रियां प्रति । प्राहिणोतु कुमारोऽयं दूतं स्वं धीरयञ्जिति ॥ २६१ ॥  
 पितृलेखार्थमाध्याय रुद्रशोकः क्रुधोद्धतः । अन्तकस्याङ्गमारोढुं स लङ्काशः किमिच्छति ॥ २६२ ॥  
 शशस्य सिंहपोतेन किं विरोधेऽस्ति जीविका । सत्यमासन्नमृत्यूनं सद्यो विध्वंसनं मतेः ॥ २६३ ॥  
 इत्युद्धतोदितैः कोपमाविश्रक्रेऽथ लक्ष्मणः । जनको भरतः शत्रुघ्नश्च<sup>३</sup> तद्वृत्तकथ्रुतः ॥ २६४ ॥  
 सम्प्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद् । वाक्यैः शोकं समं नेतुं तदैव ते समब्रुवन् ॥ २६५ ॥  
 चौरेण रावणस्यैव परदारापहारिणः । पराभवः परिद्रोग्धा दुरात्माऽधर्मवर्तनः ॥ २६६ ॥  
 सीताशापेन दास्योऽसौ निर्विचार्यमकार्यकृत् । महापापकृतां पापमस्मिन्नेव फलिष्यति ॥ २६७ ॥  
 उपायश्चिन्त्यतां कोऽपि सीताप्रत्ययनं प्रति । इति तैर्बोधितो<sup>४</sup> रामः सुसोध्यित इवाभवत् ॥ २६८ ॥

समुद्रके वीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तीके अनुगामी हैं अर्थात् उन सबमें चक्रवर्तीका शासन चलता है । नारायण भी अपने माहात्म्यसे उन द्वीपोंमेंसे आधे द्वीपोंकी रक्षा करते हैं ॥ २५३-२५५ ॥ उन द्वीपोंमें एक लङ्का नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुशोभित है । उसमें क्रम-क्रमसे राजा विनमिकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा हुआ है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है ॥ २५६-२५७ ॥ तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखने वाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य और कान्ति आदिका वर्णन किया । उसी समय रावणका मन कामदेवके अमोघ वाणोंसे खण्डित हो गया । उसकी बुद्धिकी धीरता जाती रही । न्यायमार्गसे दूर रहनेवाला वह मायावी जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह-गुप्तरूपसे आकर सती सीताको किसी उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम लोगोंके उद्योग करनेका समय आता है तबतक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये इस प्रकार प्रिया-सीताके प्रति उसे समझानेके लिए कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिये<sup>१</sup> । ऐसा महाराज दशरथने अपने पत्रमें लिखा था । पिताके पत्रका मतलब समझकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्रोधसे उद्धत हो उठे । वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमें चढ़ना चाहता है ॥ २५८-२६२ ॥ सिंहके बच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है ? सच है कि जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥ २६३ ॥ इस प्रकार रोष भरे शब्दों द्वारा रामचन्द्रने क्रोध प्रकट किया । तदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत और शत्रुघ्न यह समाचार सुनकर रामचन्द्रजीके पास आये और बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण शब्दों द्वारा उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे ॥ २६४-२६५ ॥ उन्होंने कहा कि रावण चौरीसे परस्त्री हर कर ले गया है इसरो उसीका तिरस्कार हुआ है । वह द्रोह करने वाला है, दुष्ट है और अधर्मकी प्रवृत्ति चलानेवाला है । उसने चूँकि बिना विचार किये ही यह अकार्य किया है अतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है । महापाप करनेवालोंका पाप इसी लोकमें फल देता है ॥ २६६-२६७ ॥ अब सीताको वापिस लानेका कोई उपाय सोचना चाहिए । इस प्रकार उन सबके द्वारा समझाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावधान हो

तत्काले खेचरद्वन्द्वं दौवारिकनिवेदितम् । नृपानुगतमागत्य यथोचितम्<sup>१</sup>लोकत ॥ २६९ ॥  
 भविष्यद्बलदेवोऽपि कृततद्योगसम्पदः । एतदागमनं कस्मात्कौ भवन्तौ कुमारौ ॥ २७० ॥  
 इत्यन्वयुद्धकं सुग्रीवस्तत्रेदं सम्यगब्रवीत् । खगाद्रिदक्षिणश्रेण्यां पुरं किलकिलाङ्गयम् ॥ २७१ ॥  
 तदधीशो बलीन्द्राख्यो विख्यातः खचरेष्वसौ । प्रियङ्गुसुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तनूद्भवौ ॥ २७२ ॥  
 बालिसुग्रीवनामानावजायावहि भूभुजाम् । पितर्युपरतेऽजायताग्रजस्याधिराजता ॥ २७३ ॥  
 ममापि युवराजत्वमजनिष्ट क्रमागतम् । एवं गच्छति तत्स्थानमपहृत्य मदग्रजः ॥ २७४ ॥  
 लोभाक्रान्ताशयो देशात् स निर्वासयति स्म माम् । एषोऽपि दक्षिणश्रेण्यां विद्युत्क्रान्तापुरेशिनः ॥ २७५ ॥  
 प्रभञ्जनखगाधीशस्तनूजोऽमिततेजवाक् । त्रिधाविद्योऽक्षनादेभ्यामन्याहतपराक्रमः ॥ २७६ ॥  
 नभश्चरकुमाराणां समुदाये परस्परम् । कदाचिदान्मविद्यानामनुभावपरीक्षणे ॥ २७७ ॥  
 विजयाद्बगिरेर्मूर्ध्नि क्रमं विन्यस्य दक्षिणम् । वामपादेन भास्वन्तमपहाय पुनस्तदा ॥ २७८ ॥  
 त्रसरेणुप्रमाणं स्वं शरीरमकृताङ्गतम् । ततः प्रभृति विद्येशीविस्मयाहितमानसैः ॥ २७९ ॥  
 अणुमानिति हर्षेण निखिलैरभ्यघ्राय्ययम् । पीतन्याकरणाभ्योधिः सखा प्राणाधिको मम ॥ २८० ॥  
 गत्वा कदाचिदेतेन सह सम्मेदपर्वतम् । सिद्धकूटाभिधे तीर्थक्षेत्रेऽर्ध्रतिमा बहूः ॥ २८१ ॥  
 अभ्यर्च्य भक्त्या वन्दित्वा स्थितोऽस्मिन् शुभभावनः । जटामुकुटसन्धारी<sup>२</sup>मुक्तायज्ञोपवीतकः ॥ २८२ ॥  
 कापायवस्त्रः कक्षावल्गिबरनकमण्डलुः । करोद्धतानपत्राणो नैष्टिकब्रह्मसद्व्रतः ॥ २८३ ॥  
 नारदो<sup>३</sup> विशिखारूढो रौद्रध्यानपरायणः । अवतीर्थं नभोभागात्परीत्य जिनमन्दिरम् ॥ २८४ ॥

गये ॥ २६८ ॥ उसी समय द्वारपालोंने दो विद्याधरोंके आनेका समाचार कहा। राजा रामचन्द्रने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन किये ॥ २६९ ॥ होनहार बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ कहाँसे आये हैं ? और आप कौन हैं ? इसके उत्तरमें सुग्रीव कहने लगा कि विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक किलकिल नामका नगर है। विद्याधरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका स्वामी था। उसकी प्रियङ्गुसुन्दरी नामकी स्त्री थी। उन दोनोंके हम वाली और सुग्रीव नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़े भाई वालीको राज्य प्राप्त हुआ और मुझे क्रमप्राप्त युवराज पद मिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे बड़े भाई वालीके हृदयको लोभने धर दबाया इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर मुझे देशसे बाहर निकाल दिया। यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह सार्थी। सो यह भी दक्षिण श्रेणीके विद्युत्क्रान्त नगरके स्वामी प्रभञ्जन विद्याधरका अमिततेज नामका पुत्र है। यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है, अञ्जना देवीमें उत्पन्न हुआ है, और अखण्ड पराक्रमका धारक है ॥ २७०-२७६ ॥ किसी एक समय विद्याधर-कुमारोंके समूहमें परस्पर अपनी-अपनी विद्याओंके माहात्म्यकी परीक्षा देनेकी बात निश्चित हुई। उस समय इसने विजयार्थ पर्वतके शिखर पर दाहिना पैर रखकर बायें पैरसे सूर्यके विमानमें ठोकर लगाई। तदनन्तर उसी क्षण त्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया। यह देख, विद्याधरोंके चित्त आश्चर्यसे भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े हर्षसे इसका 'अणुमान्' यह नाम रक्खा। इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात् यह सब प्रकारकी विक्रिया करनेमें समर्थ है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥ २७७-२८० ॥ मैं किसी एक दिन इसके साथ सम्मेदशिखर पर्वतपर गया था वहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थक्षेत्रमें अर्हन्त भगवान्की बहुत सी प्रतिमाओंकी भक्ति पूर्वक पूजा वन्दनाकर वहींपर शुभ भावना करता हुआ बैठ गया। उसी समय वहाँपर विमानमें बैठे हुए नारदजी आ पहुँचे। वे जटाओंका मुकुट धारण कर रहे थे, मोतियोंका यज्ञोपवीत पहिने थे, गेरुवा वस्त्रोंसे सुशोभित थे, उनकी बगलमें रत्नोंका कमण्डलु लटक रहा था, वे हाथमें छत्ता लिये हुए थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, और सदा रौद्रध्यानमें

१ यथातिमत ल० ( १ ) । २ शुभयज्ञोपवीतकः ल० । ३-ऽविशिखारूढः ल० । ( विमानारूढः ) ।

समुपाविशदेकत्र जिनस्तवनपूर्वकम् । समुपेत्य तमप्राज्ञं किं मुने स्थानमात्मनः ॥ २८५ ॥  
 सम्पद्यते न वेत्येतद्वचनादब्रवीदसौ । रामलक्ष्मणयोरर्द्धभरतस्वामिताचिरात् ॥ २८६ ॥  
 भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताम्भ्यां तवेप्सितम् । सम्पत्स्यते च तल्पेष्यं किञ्चिद्रामनोरमाम् ॥ २८७ ॥  
 विहरन्ती वने वीक्ष्य रावणो माययाऽग्रहीत् । तद्रामलक्ष्मणावद्य लङ्काभिगमनोचितम् ॥ २८८ ॥  
 अन्वेषितारौ पुरुषं तिष्ठतः स्वार्थसिद्धये । इति तद्वचनारोपाद्देवास्मि त्वां प्रतीयिव १ ॥ २८९ ॥  
 तौ च तद्वचनात्पूजामुचितां चक्रनुस्तयोः । अथ विज्ञापयामास प्रभञ्जनतन्मूढवः ॥ २९० ॥  
 तत्वादेशोऽस्ति चेद्देव्याः स्थानमन्वेषयाम्यहम् । तत्प्रत्ययार्थमाह्वयेयमभिज्ञानं महीपते ॥ २९१ ॥  
 इति तेनोक्तमाकर्ण्य विनम्यन्वयखेन्दुना । यथाभिप्रेतभेतेन प्रसेत्स्यत्यस्तसंशयम् ॥ २९२ ॥  
 इति मत्वा स्वनामाङ्कमुद्रिकां भक्तिप्रयेदशी । वर्णादिभिरिति व्यक्तमुक्त्वा तस्मै ददौ नृपः २ ॥ २९३ ॥  
 स रामचरणाम्भोजं विनम्य गगनान्तरम् । समुत्पत्य समुल्लङ्घ्य समुद्रं सन्निकृटकम् ॥ २९४ ॥  
 द्विषट्कयोजनायामं नवयोजनविस्तृतम् । द्वात्रिंशत्गोपुरोपेतं रत्नप्रकारवेष्टितम् ॥ २९५ ॥  
 नानाभवनसंकीर्णं मणितोरणभास्वरम् । महामेरुसमुत्तुङ्गं रावणावासभाजितम् ॥ २९६ ॥  
 अलिपुंस्कांकिलालापैलसत्कुसुमपल्लवैः । सरागहासं गायद्भिरिवोद्यानैर्मनोहरम् ॥ २९७ ॥  
 लङ्कानगरमासाद्य सीतान्वेषणतत्परः । गृहीतभमराकारो दशाननसभागृहम् १ ॥ २९८ ॥  
 इन्द्रजितप्रमुखान् भूपकुमारान् वीक्ष्य सादरम् । मन्दोदरीप्रभृत्येतद्वनिताश्च निरूपयन् ॥ २९९ ॥  
 नताखिलखगाधीशमौलिमालाचिन्तकमम् । मध्ये सिंहासनं सिंहविक्रमं शक्रसन्निभम् ॥ ३०० ॥

तत्पर रहते थे । उन्होंने आकाशसे उतरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र भगवान्का स्तवन किया और तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये । मैंने उनके पास जाकर पूछा कि हे मुने ! क्या कभी मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मणका बहुत ही शीघ्र आधे भरतका स्वामीपना प्रकट होनेवाला है ॥ २८१-२८६ ॥ यदि तू उनके दूतका कार्य कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो जावेगा । उन्हें दूत भेजने का कार्य यों आ पड़ा है कि रामकी स्त्री वनमें विहार कर रही थी उसे रावण छल पूर्वक हरकर ले गया है । इसलिए आज राम और लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए लङ्का भेजने योग्य किसी पुरुषकी खोज करते हुए बैठे हैं । इस प्रकार नारदके वचन सुनकर हे देव ! बड़े सन्तोपसे हम दोनों आपके पास आये हैं ॥ २८७-२८८ ॥ दोनों विद्याधरोंके उक्त वचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका उचित सत्कार किया । तदनन्तर प्रभञ्जनके पुत्र अणुमान् ( हनुमान् ) ने प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी खोज करूँ । हे राजन् ! देवीको विश्वास उत्पन्न करानेके लिए आप कोई चिह्न बतलाइये ॥ २९०-२९१ ॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको विश्वास ही गया कि विनमिके वंशरूपी आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा ॥ २९२ ॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप रङ्ग आदिमें ऐसी है यह स्पष्ट बताकर उसके लिए अपने नामसे चिह्नित मुद्रिका ( अंगूठी ) दे दी ॥ २९३ ॥ अणुमान् रामचन्द्रके चरण-कमलोंको नमस्कार कर आकाशके बीच जा उड़ा और समुद्र तथा त्रिकूटाचलको लांघकर लङ्का नगरमें जा पहुँचा । वह लङ्का नगर बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा था, बत्तीस गोपुरोंमें सहित था, रत्नोंके कोटमें युक्त था, महामेरुके समान ऊँचा था, रावणके महलोंसे सुशोभित था, एवं जिनमें भ्रमर और पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं तथा फूल और पत्ते सुशोभित हैं अतएव जो राग तथा हासके साथ गाते हुएसे जान पड़ते हैं ऐसे बाग-वगीचोंसे मनोहर था, ऐसे लङ्का नगरमें जाकर सीताकी खोजमें तत्पर रहनेवाले अणुमान्ने भ्रमरका रूप रख लिया और क्रम-क्रमसे वह रावणके सभागृह, इन्द्रजित् आदि राजकुमारों तथा मन्दोदरी आदि रावणकी स्त्रियोंको बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था ॥ २९४-२९६ ॥ तदनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाओंके मुकुटोंकी मालाओंसे जिसके चरण-



गीलाद्रिमिव गङ्गोरुतरङ्गैश्च महीरुहैः । 'दोधूयमानमालोक्य रावणं रावितद्विपम् ॥ ३०१ ॥  
 अहो पापस्य क्रोऽप्येव विपाकोऽयमपीदृशः । किल धिग्धर्ममुलङ्घ्य परदारमभिलाषुकः ॥ ३०२ ॥  
 ध्रुवं तन्नारदेनोक्तमकालमरणं ध्रुवम् । भावीति भावयन् सीतां तत्सभायामलक्षयन् ॥ ३०३ ॥  
 मन्दमन्दप्रभे भानौ दीने सति दिनात्यये । सहायसम्पदं प्रायो मन्वानः सम्पदावहाम् ॥ ३०४ ॥  
 उदयास्तमयी नित्यं देहिनामिति रावणम् । रविर्ययौ निरूप्येव समन्तादिति चिन्तयन् ॥ ३०५ ॥  
 दूतो रामस्य गत्वाऽन्तःपुरपश्चिमगोपुरम् । आरुह्य लोकमानोऽयं भ्रमरारावराजितम् ॥ ३०६ ॥  
 वनं सर्वर्तुकं नाम नन्दनं नन्दनोपमम् । फलप्रसवभारावनम्रकम्रमहीरुहैः ॥ ३०७ ॥  
 मन्दगन्धवहोद्भूतनानाप्रसवपांशुभिः । कृतकाद्रिसरोवापीलतालालितमण्डपैः ॥ ३०८ ॥  
 मदनोद्दीपनैर्देशैरन्यैश्चातिमनोहरम् । दृष्ट्वा तत्र मनाक् स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥ ३०९ ॥  
 तत्रैकस्मिन् समासञ्जदेशे विद्याधरीजनैः । सामादिभिर्वशीकृतुमिङ्गिताकारवेदिभिः ॥ ३१० ॥  
 परीतां शिंशिपाक्षमाजमूले शोकाकुलीकृताम् । ध्यायन्तीं निभृतां मृत्वा शीत्वापि कुलरक्षणं ॥ ३११ ॥  
 सयज्ञां शीलमालां वा समालोक्य धरात्मजाम् । इयं सा रावणानीता सीता ज्ञाताभिर्वाग्जितैः ॥ ३१२ ॥  
 अभिज्ञानैर्नृपेन्द्रेण मम पुण्योदयादिति । तद्दर्शनसमुत्पन्नरागो रावणपापिना ॥ ३१३ ॥  
 कल्पवल्लीव दावेन तापितेयं सतीत्यलम् । शोकाभितप्तचित्तोऽपि नीतिमार्गविशारदः ॥ ३१४ ॥

कमल पूजित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें बैठे हैं, सिंहके समान पराकर्मी हैं, इन्द्रके समान हैं, दुरते हुए चमरोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो गङ्गाकी विशाल तरङ्गोंसे सुशोभित नीलाचल ही हो और जिसने समस्त शत्रुओंको रूला दिया है ऐसे रावणको देखकर अणुमानने सोचा कि इस पापीके यह ऐसा ही विचित्र कर्मका उदय है जिससे प्रेरित हो इसने धर्मका उल्लंघनकर परस्त्रीकी इच्छा की ॥ ३००-३०२ ॥ नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण होनेवाला है सो ठीक ही कहा था । इस प्रकार विचार करते हुए अणुमानने रावणकी सभामें सीता नहीं देखी ॥ ३०३ ॥ धीरे-धीरे सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गई, दिन अस्त हो गया और सूर्य रावणके लिए यह सूचना देता हुआ ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हैं वे सब प्रायः सम्पत्तिशालियोंकी ही सहायता करते हैं और संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबका उदय और अस्त नियमसे होता है ॥ ३०४-३०५ ॥ इस प्रकार सब ओरसे चिन्तन करता हुआ वह रामचन्द्रका दूत अणुमान अन्तःपुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर नन्दन नामका वन देखने लगा । वह नन्दन वन भ्रमरोंके शब्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा बिखर रही थी, साथ ही नन्दन-वनके समान जान पड़ता था, फल और फूलोंके बोझसे भुके हुए सुन्दर सुन्दर वृक्षों, मन्दमन्द वायुसे उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, कृत्रिम पर्वतों, सरोवरों, बावलियों, तथा लताओंसे सुशोभित मण्डपों और कामको उद्दीपित करनेवाले अन्य अनेक स्थानोंसे अन्यन्त मनोहर था । उसे देख वह अणुमान कुछ देर तक हर्ष और कौतुकके साथ वहां खड़ा रहा ॥ ३०६-३०८ ॥ वहीं किसी समीपवर्ती स्थानमें उसने सीताको देखा । उस सीताको साम आदि उपायोंके द्वारा बश करनेके लिए अभिप्रायानुकूल चेष्टाओंको जानने वाली अनेक विद्याधरियाँ घेरे हुई थीं । वह शिंशापा वृक्षके नीचे शोकसे व्याकुल हुई बैठी थी, चुप चाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीर्ण शीर्ण होकर भी कुलकी रक्षा करनेमें प्रयत्नशील थी, तथा ऐसी जान पड़ती थी मानो शीलकी-पातिव्रत्य धर्मकी माला ही हो । ऐसी सीताको देख अणुमानने विचार किया कि यह वही सीता है जिसे रावण हरकर लाया है । उसने राजा रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिह्नोंसे उसे पहिचान लिया और साथ ही यह विचार किया कि मेरे पुण्योदयसे ही मुझे आज इस सतीके दर्शन हुए हैं । दर्शन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ । उसने समझा कि जिस प्रकार दावानलके द्वारा कल्पलता संतापित होती है उसी प्रकार पापी रावणके द्वारा यह सती सन्तापित की गई है । इस प्रकार उसका चित्त यद्यपि शोकसे सन्तप्त हो

प्रारब्धकार्यसंसिद्धाबुधतस्य विवेकिनः । प्राहुर्नीतिविदः कोपं व्यसनं कार्यविग्रहकम् ॥ ३१५ ॥  
 तस्मादस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्षमः । निजागमन<sup>१</sup>वार्ता तामवबोधयितुं सतीम् ॥ ३१६ ॥  
 मनगवसरावेषी स्थितस्तावन्निकाकरः । उदयक्षमाभृदुद्गासिचूडामणिनिभो बभौ ॥ ३१७ ॥  
 वृशाननोऽप्यतिक्रान्ते तत्रास्या दिनसप्तके । सीता कीदृगवस्थेति चिन्तयन् दीपिकावृतः ॥ ३१८ ॥  
 वीव्यक्त्वरुद्रमुपेतनीलाद्रिरिव जङ्गमः । निरीक्षितुं तथैवायात् सोत्कण्ठोऽन्तःपुरान्वितः ॥ ३१९ ॥  
 मद्भक्तुः कुशलोदन्तं संश्रोण्यामि कदा न्विति । मत्वा तां स्तिमिताकारां चिरं वीक्ष्य सविस्मयः ॥ ३२० ॥  
 न काचिच्छेदशी स्त्रीषु <sup>२</sup> पतिभक्तेति चिन्तयन् । अपसृत्य स्थितः किञ्चिद् वृत्तिं मञ्जरिकाभिधाम् ॥ ३२१ ॥  
 प्राहिणोषदभिप्रायं परिज्ञातुं विवेकिनीम् । जानकीं विनयेनासौ प्रपद्य शृणु मद्बचः ॥ ३२२ ॥  
 मञ्जरिके खगोन्द्रस्य खेचरेन्द्रप्रियात्मजाः । देव्यः पञ्चसहस्राणि त्वत्समाना मनोरमाः ॥ ३२३ ॥  
 तासां त्वं स्वामिनी भूत्वा महादेवीपदे स्थिता । त्रिखण्डाधिपतेर्भूयाः सश्रीर्वक्षःस्थले चिरम् ॥ ३२४ ॥  
 विकलं मा कृथा विद्युच्चपलं तव यौवनम् । हस्तात्पुलस्तितुत्रस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥ ३२५ ॥  
 वितर्कणं कदम्बोद्वनं वा विद्धि निष्फलम् । क्षुधातानेकपारातिवक्त्रान्तर्वर्तिनं मृगम् ॥ ३२६ ॥  
 परित्याजयितुं ब्रूहि कः समर्थतमः पुमान् । इत्यभ्यधासदाकर्ण्य निश्चला वसुधासुता ॥ ३२७ ॥  
 वसुधेव स्थिता भेक्तुं के वा शक्ताः पतिव्रताम् । <sup>३</sup>तां दृष्ट्वा खेचराधीशः स्वयमागत्य कानरः ॥ ३२८ ॥  
 कुलं चेद्रक्षितुं तिष्ठेर्न विचारक्षमं हि तत् । लज्जा चेद्दीनसम्बन्धात्सा तस्याः प्रसवोऽत्र न ॥ ३२९ ॥

गया तथापि वह नीतिमार्गमें विशारद होनेसे सोचने लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ किये हुए कर्मको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है और कार्यमें विघ्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं । इसलिए असमयमें क्रोध करना व्यर्थ है ऐसा विचारकर उसने क्षमा धारण की और उस पतिव्रताको अपने आनेका समाचार बतलानेके लिए अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ वह वहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया । उसी समय चन्द्रमाका उदय हो गया और वह उदयाचलके शिखर पर चूडामणिके समान मुशोभित होने लगा ॥ ३१०-३१७ ॥ उसी समय 'आज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं अतः देखना चाहिये कि उसकी क्या दशा है' ऐसा विचार करता हुआ रावण वहाँ आया । वह अनेक दीपिकाओंसे आवृत था— उसके चारों ओर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो देदीप्यमान कल्पवृक्षोंसे सहित चलता फिरता नीलगिरि ही हो । वह उत्कण्ठसे सहित था तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे युक्त था ॥ ३१८-३१९ ॥ 'मैं अपने पनिका कुशल समाचार कब सुनूँगा' ऐसा विचार करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बैठी हुई थी । उसे रावण बड़ी देर तक आश्चर्यसे देखता रहा और स्त्रियोंके बीच ऐसी पतिव्रता स्त्री कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार कर वह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा । वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननेके लिए अपनी मञ्जरिका नामकी विवेकवती दूती उसके पास भेजी । वह दूती सीताके पास आकर विनयसे कहने लगी कि हे स्वामिनी, विद्याधरोंके राजा रावणकी पाँच हजार स्त्रियाँ हैं जो विद्याधर राजाओंकी पुत्रियाँ हैं और तुम्हारे ही समान मनोहर हैं । तुम उन सबकी स्वामिनी होकर महादेवीके पदपर स्थित होओ और तीन खण्डके स्वामी रावणके बन्धुस्थलपर चिरकाल तक लक्ष्मीके साथ साथ निवास करो ॥ ३२०-३२४ ॥ बिजलीके समान चञ्चल अपने इस यौवनको निष्फल न करो । 'रावणके हाथसे राम तुम्हें बापिस ले जावेगा' इस विचारको तुम कदम्बके विशाल वनके समान निष्फल समझो । भूखसे पीड़ित सिंहेके मुखके भीतर वर्तमान मृगको छुड़ानेके लिए कौन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मञ्जरिका नामकी दूतीने कहा सही परन्तु सीता उसे सुनकर पृथिवीके समान ही निश्चल बैठी रही सो ठीक ही है क्योंकि पतिव्रता स्त्रीको भेदन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? उसे निश्चल देख रावण स्वयं डरते डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुलकी रक्षा करनेके लिए बैठी है तो यह बात विचार करनेके योग्य नहीं है । यदि लज्जा आती है तो वह नीच मनुष्योंके संसर्गसे

रामे चेत्प्रेम तद्विद्धि जन्मान्तरितसञ्चिभम् । चिरं परिचितं कस्माद्विस्मराग्यधुनैव तम् ॥ ३३० ॥  
 इति चेत्संसृतौ जन्तौ केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिधिर्दुर्गच्छिकृतादिः खगेश्वराः ॥ ३३१ ॥  
 दुर्गपालाः पुरं लङ्का मेघनादादयो भटाः । नायकोऽहं कथं तस्य तव भर्तुः प्रवेशनम् ॥ ३३२ ॥  
 तस्मारादाशामुष्मिन्त्वा मदाशां पूरय प्रिये । अवश्यं भाविकार्येऽस्मिन् किं कालहरणेन ते ॥ ३३३ ॥  
 हसन्त्याश्च रुदन्त्याश्च तव प्राघृणिकोऽस्म्यहम् । मत्कान्तकान्तासन्ताने कान्ते चूलामणिर्भव ॥ ३३४ ॥  
 न चेदसि विभाग्यत्वादद्यैव घटदासिका । अतिथिर्वा भव प्रेतनाथावासनिवासिनाम् ॥ ३३५ ॥  
 इति तां १ मामिवापुण्यः स्वकर्तुं व्यर्थंमब्रवीत् । तदाकण्यापि भूभूता २ समाहितमनास्तदा ॥ ३३६ ॥  
 ध्याति धर्म्यैव नैर्मल्यमादधानाभवस्थिरा । खगेशवक्त्रनिर्यातवाग्जालज्वलनावली ॥ ३३७ ॥  
 सीताधैर्याम्बुधिं प्राप्य सद्यः शान्तिमगारादा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसम्पदा ॥ ३३८ ॥  
 स्त्रीसृष्टिमपि जेतारं मामेषा परिभावुका । किलेति कुभ्यतः पत्युर्दीप्तक्रोधदवानलम् ॥ ३३९ ॥  
 सद्यः सीताकृतां दग्धुं जृम्भमाणं मनोरणे । मन्दोदरीं हितश्रव्यवचनामृतवारिभिः ॥ ३४० ॥  
 प्रशमय्य किमस्थाने जनवत्कोपवान् भवेः । विचिन्तय किमेषा ते दण्डयोग्याऽवभासते ॥ ३४१ ॥  
 मन्दारप्रसवारब्धमालाप्रिक्षेपमर्हति । सतीनां परिभूत्याद्यु खगामिन्यादिका ३ ध्रुवम् ॥ ३४२ ॥  
 त्रिद्याविनाशमायान्ति तस्या ४ विर्वा विपक्षकः ५ । पुरा स्वयम्प्रभाहेतोरश्वघ्रीवःखगाधिपः ॥ ३४३ ॥  
 पद्मावर्तानिमितेन प्रसिद्धो मधुसूदनः । समासक्तः सुतारायां विधीरशनिघोषकः ॥ ३४४ ॥

होती है अतः यहाँ उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥ ३२५-३२६ ॥ यदि राममें तेरा प्रेम है तो तू उसे अब मरे हुएके समान समझ । जो चिरकालमे परिचित है उसे इस समय एकदम कैसे भूल जाऊँ ? यदि यह तेरा कहना है तो इस मंसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं है ? कदाचित् यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुझे ले जावेंगे सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि समुद्र तो यहाँकी ग्वाड़ है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लङ्का नगर है, मेघनाद आदि योद्धा हैं और मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हारे रामका यहाँ प्रवेश ही कैसे हो सकता है ? ॥ ३३०-३३२ ॥ इसलिए हे प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो । जो कार्य अवश्य ही पूर्ण होनेवाला है उसमें समय बितानेमे तुझे क्या लाभ है ? ॥ ३३३ ॥ तू चाहे रो और चाहे हँस, मैं तो तेरा पाहुना हो चुका हूँ । हे सुन्दरी ! तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंके समूहमें चूडामणिके समान हो ॥ ३३४ ॥ यदि तू अभाग्य वश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुझे आज ही मेरी घटदासी बनना पड़ेगा अथवा यमराजके घर रहनेवालोंका अतिथि होना पड़ेगा ॥ ३३५ ॥ इस तरह जिस प्रकार पुण्यहीन मनुष्य लक्ष्मीको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास करता है उसी प्रकार उस रावणने सीताको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास किया । उसे सुनकर सीता निश्चल चित्त हो धर्म्यध्यानके समान निर्मलता धारण करती हुई निश्चल बैठी रही । रावणके मुग्धसे निकले हुए वचन-समूहरूपी अग्नि की पंक्ति सीताके धैर्यरूपी समुद्रको पाकर शीघ्र ही उसी समय शान्त हो गई । उस समय रावण सोचने लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सौभाग्य-रूपी सम्पदाके द्वारा समस्त स्त्रियोंको भी जीतता हूँ—उन्हें अपने वश कर लेता हूँ फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही है' ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा । सीतारूपी लताको शीघ्र ही जलानेके लिए रावणके मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड क्रोधरूपी दावानल फैल रही थी उसे मन्दोदरीने हितकारी तथा सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्तकर कहा कि आप इसतरह साधारण पुरुषके समान अस्थानमें क्यों क्रोध करते हैं ? जरा सोचो तो सही, यह स्त्री क्या आपके दण्ड देने योग्य मालूम होती है ? अरे, मन्दारवृक्षके फूलोंसे बनी हुई माला क्या अग्निमें डाली जानेके योग्य है ? आप यह याद रखिये कि सती स्त्रियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगाभिनी आदि विद्याएँ निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं और ऐसा होनेसे आप पत्तरहित पत्तीके समान हो जावेंगे । पहले

पराभवं परिप्राप्तो मा भूस्त्वमपि तादृशः । मा भंस्था मां सपत्नीति मद्रवस्त्वं प्रमाणयन् ॥ ३४५ ॥  
 त्यज सीतागतं मोहमित्यसौ निजगाद तम् । तदुक्तेरुत्तरं वाक्यमभिधातुमशक्नुवन् ॥ ३४६ ॥  
 समं प्राणैरियं त्याज्येत्यगात्स कुपितः पुरम् । मन्दोदरी परित्यक्तनिजपुत्रीशुगाहिता ॥ ३४७ ॥  
 सीतां मिथः श्रिताभाविविदादेशभयात् क्षितौ । यां निक्षेपयति स्मेति मया कलहकारणात् ॥ ३४८ ॥  
 भागतामेव मरुपुत्रीं तां त्वां मे मन्यते मनः । पापेन विधिनाऽऽनीता भद्रे त्वं दुःखकारिणा ॥ ३४९ ॥  
 अलङ्घ्यं केनचिच्चात्र प्रायेण विधिचेष्टितम् । इह जन्मनि किं बन्धुः किं वा त्वं मेऽन्यजन्मनि ॥ ३५० ॥  
 न जाने त्वां विलोक्याद्य मम खेहः प्रवर्द्धते । यदि मज्जननीत्वं त्वं पद्मनेत्रेऽवबुध्यते ॥ ३५१ ॥  
 त्वां मे भावयितुं वष्टि सपत्नीं खचराधिपः । तेन बाले मृतिं वापि याहि मा गास्तदीप्सितम् ॥ ३५२ ॥  
 स्तनप्रसूतिमित्येवं बदनती प्रापदुत्सुका । तस्याः पयोधरद्वन्द्वमभिपेक्तुमिवापतत् ॥ ३५३ ॥  
 जलं गद्रदकण्ठयाश्रुक्षुभ्यां स्नेहसूचनम् । शोकानलपरिग्लानं वक्त्राब्जं चाभवत्तादा ॥ ३५४ ॥  
 तद्वीक्ष्य जानकी सर्वं प्राप्ता स्वामिव मातरम् । जायते स्मार्द्रहृदया वाष्पाविलविलोचना ॥ ३५५ ॥  
 तदभिप्रायमाश्रय दशाननबधूरात्मा । यदि स्वकार्यसंसिद्धिमभिकामयसे मृशम् ॥ ३५६ ॥  
 कृताञ्जलिरहं याचे गृहाणाहारमग्बिके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः सुसाधनम् ॥ ३५७ ॥  
 वदन्ति निपुणाः क्षमाजे प्रसवादि कुताऽऽसति । स्थिते वपुषि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम् ॥ ३५८ ॥  
 न चेत्तद्दर्शनं साध्यं वपुषैव महत्तपः । न चेन्मद्रवचनं प्राह्यं त्वयाहमपि भोजनम् ॥ ३५९ ॥

स्वयंप्रभाकं लिए अश्रुमात्रे विद्याधर, पद्मावतीके कारण राजा मधुसूदन और सुतारामें आसक्त हुआ निर्बुद्धि अशनिघोष पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन जैसे मत होओ। ऐसा मत सम्मिल्य कि मैं सौतेके भयसे ऐसा कह रही हूँ। आप मेरे वचनको प्रमाण मानते हुए सीता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिये। ऐसा मन्दीदरीने रावणसे कहा। रावण उसके वचनोंका उत्तर देनेमें समर्थ नहीं हो सका अतः यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें वापिस चला गया कि अब तो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी ॥ ३३६-३४७ ॥ इधर जो अपनी छोड़ी हुई पुत्रीके शोकसे युक्त है ऐसी मन्दोदरी सीतासे एकान्तमें कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निमित्तज्ञानीके आदेशके दरसे पृथिवीमें नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू आ गई है ऐसा मेरा मन मानता है। हे भद्रे! तू दुःख देने वाले पापी विधाताके द्वारा यहाँ लाई गई है। सो ठीक ही है क्यों कि इस लोकमें प्रायः विधाताकी चेष्टाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मालूम नहीं पड़ता कि तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्बन्धिनी है। न जाने क्यों तुझे देखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है। हे कमललोचने! बहुत कुछ सम्भव है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पुत्री है, यह तू भी समझ रही है। परन्तु यह विद्याधरोंका राजा तुझे मेरी सौत बनाना चाहता है इसलिए हे बच्चे! चाहे मरणको भले ही प्राप्त हो जाना परन्तु इसके मनोरथको प्राप्त न होना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करता। इस प्रकार कहती हुई मन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गई। उसके स्तनोंसे दूध भरने लगा और उसके स्तनयुगल सीताका अभिपेक करनेके लिए ही मानो नीचेकी ओर झुक गये ॥ ३४८-३५३ ॥ उसका कण्ठ गद्गद हो गया, दोनों नेत्रोंसे खेहको सूचित करनेवाला जल गिरने लगा और उस समय उसका मुखकमल शोकरूपी अग्निसे मलिन हो गया ॥ ३५४ ॥ यह सब देख सीताको ऐसा लगने लगा मानो मैं अपनी माताके पास ही आ गई हूँ, उसका हृदय आर्द्र हो गया और नेत्र आँसुओंसे भर गये ॥ ३५५ ॥ उसका अभिप्राय जानकर रावणकी पट्टरानी मन्दोदरी कहने लगी कि यदि तू अपना कार्य अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती है तो हे माँ! मैं हाथ जोड़कर याचना करती हूँ, तू आहार ग्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है और शरीरका साधन आहार है ॥ ३५६-३५७ ॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं कि यदि वृक्ष नहीं होगा तो फूल आदि कहाँसे आँवेंगे? इसी प्रकार शरीरके रहते ही तुझे तेरे स्वामी रामचन्द्रका दर्शन हो सकेगा ॥ ३५८ ॥ यदि उनका दर्शन साध्य न हो तो इस शरीरसे महान् तप ही करना

स्यजामीत्यवदस्सीताप्येतद् स्ववधार्यं च । ममामातापि मातेव मधुःखे दुःखिताऽजनि ॥ ३६० ॥  
 इति चित्तो विनम्यैतन्नरगौ स्निग्धमैक्षत । मञ्जूषास्थापनाकाले मत्सुताया इवेक्षितम् ॥ ३६१ ॥  
 पतन्नां मधुरं सत्याः सन्तापयति सर्वतः । इति प्रलयमापन्ना तदा रावणवल्लभा ॥ ३६२ ॥  
 आसौदुःखेन तद्दुःखाद् विनीता प्राविशत्पुरम् । शिशिपास्थस्ततोऽभ्येत्य वृतः प्लवगविद्यया ॥ ३६३ ॥  
 परावृत्त्या कपेर्मृत्यां स्वयं निद्रात्यभिद्रुतान् । विधाय रक्षकान् देव्याः पुरस्तात्समवस्थितः ॥ ३६४ ॥  
 प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं सर्वं संश्राव्य वानरः । रामस्वामिनिदेशेन लेखगर्भकरण्डकम् ॥ ३६५ ॥  
 मयाऽऽनीतमिदं देवीत्यग्नेऽस्याः स तदक्षिपत् । १ तं दृष्ट्वा किमयं मायाविग्रहो रावणोऽधमः ॥ ३६६ ॥  
 शङ्कमानेति सा वीक्ष्य तत्र श्रीवत्सलान्छनम् । रत्नाङ्गुलीयकं चात्मपतिनामाक्षरार्कितम् ॥ ३६७ ॥  
 ममेदर्मापि भात्येव मायेवास्य दुरात्मनः । को जानाति तथाप्येतत्पत्रं तस्यैव वा भवेत् ॥ ३६८ ॥  
 मद्भाग्यादिति निभिद्य मुद्रां ३ पत्रमवाचयत् । ४ वाचनानन्तरं धीतशोकया स्निग्धवीक्षया ॥ ३६९ ॥  
 जीवितहाहं त्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः । इत्युक्तः सीतया कर्णो पिधाय पवनात्मजः ॥ ३७० ॥  
 मत्स्वामिनो महादेवो मातर्नेहान्यकल्पना । त्वो नेतुं मम सामर्थ्यमद्यैवास्ति पतिव्रते ॥ ३७१ ॥  
 नास्ति भट्टारकस्याज्ञा स्वयमेव महार्हापतिः । हत्वैत्य रावणं तस्य त्वां नेप्यति सह श्रिया ॥ ३७२ ॥  
 तत्साहसेन तत्कीर्तिर्व्याप्यास्ताम् ५ भुवनत्रयम् । ततः शरीरसन्धारणार्थमाहारमाहर ॥ ३७३ ॥

चाहिये । यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे वचन नहीं मानती हैं तो मैं भी भोजन छोड़ देती हूँ । मन्दोदरीके वचन सुनकर सीताने विचार किया कि यद्यपि यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही है । ऐसा विचारकर वह मन ही मन मन्दोदरीके चरणोंको नमस्कारकर उनकी ओर बढ़े खेहसे देखने लगी । उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर देख रही थी उसी प्रकार आज यह सीता मेरी ओर देख रही है । इस पतिव्रताका यह मधुर दर्शन मुझे सब ओरसे सन्तप्त कर रहा है । इस प्रकार शोकका प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीताके दुःखसे विनम्र हो आप्तजनोंके साथ साथ नगरमें बढ़े दुःखसे प्रवेश किया । तदनन्तर उसी शिशुपा वृक्षपर बैठे हुए दूत अणुमानने प्लवग नामक विद्याके द्वारा अपना बन्दर जैसा रूप बना लिया और वनकी रक्षा करनेवाले पुरुषोंको निद्रासे युक्तकर वह स्वयं सीतादेवीके आगे जा खड़ा हुआ ॥ ३५६-३६४ ॥ वानर रूपधारी अणुमानने सीताको नमस्कारकर उसे अपना सब वृत्तान्त सुना दिया और कहा कि मैं राजा रामचन्द्रजीके आदेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले आया हूँ । इतना कह उसने वह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया । वानरका देखकर सीताको सन्देह हुआ कि क्या यह मायामयी शरीरका धारण करनेवाला नीच रावण ही है ? ॥ ३६५-३६६ ॥ इस प्रकार सीता संशय कर रही थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्सके चिह्नसे चिह्नित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अङ्कित रत्नमयी अंगूठीपर जा पड़ी । उसे देख वह फिर भी संशय करने लगी कि मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह दुष्ट रावणकी ही माया है । क्या है ? यह कौन जाने, परन्तु यह पत्र तो उन्हींका है और मेरे भाग्यसे ही यहाँ आया है ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई मुहर ताड़कर पत्र बाँचा । पत्र बाचते ही उसका शोक नष्ट हो गया । वह स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने मुझे जीवित रक्खा है अतः मेरे पिताके पदपर अधिष्ठित हूँ—मेरे पिताके समान है । जब सीताने उक्त वचन कहे तब पवनपुत्र अणुमानने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेवी हैं, इसपर अन्य कल्पना न कीजिये । हे पतिव्रते ! यद्यपि तुम्हें आज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि स्वामीकी आज्ञा नहीं है । राजा रामचन्द्रजी स्वयं ही आकर रावणको मारेंगे और उसकी लक्ष्मीके साथ साथ तुम्हें ले जावेंगे । उस साहसपूर्ण कार्यसे उनकी कीर्ति तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर रहेगी

१ तद्दृष्ट्वा म०, ल० । २- भवत् ल०, म० । ३ पत्रं (वाचयत् ल० । ४ वचनानन्तरं ल० ।  
 ५ व्याप्यताम् ल० ।

भगवत्पत्र को दोषो राज्ञा ते सङ्गमोऽचिरात् । इत्याक्यत्सा ततस्यक्त्वा वैमनस्य महीसुता ॥ ३७४ ॥  
 १ कायस्थितिसमादानं चान्युपेत्य कृतत्वरम् । तत्कालोचितकार्योक्तिकुशला तं व्यसर्जयत् ॥ ३७५ ॥  
 प्रणम्य सोऽपि तत्पादपङ्कजं भास्करोदये । गत्वा ततो झटित्याप रामं स्वागमनोन्मुखम् ॥ ३७६ ॥  
 बदनाञ्जप्रसादेन कार्यसिद्धिं न्यवेदयत् । प्रणम्य स्वामिना सम्यक् परिरभ्योदितासनः ॥ ३७७ ॥  
 उपविष्टो मुदा तेन पृष्टो हृष्टेति मत्प्रिया । सप्तपञ्चमुदीर्योर्बैर्वचस्तत्प्रीतिहेतुकम् ॥ ३७८ ॥  
 निसर्गाद्रावणो हसश्चक्रं चान्यत्समुद्ययौ । लङ्कायां दुनिमित्तानि चासन् कृत्याश्च खेचराः ॥ ३७९ ॥  
 सन्ति तत्सेवकाः सर्वमेतदाकाञ्छ्य मन्त्रिभिः । जानक्यानयनोपायो निश्चितव्यो यथा तथा ॥ ३८० ॥  
 हृतीदमुचितं कार्यमवदत्पवनान्मजः । तदुक्तं चेतसा सम्यगवधार्योजिताशयः ॥ ३८१ ॥  
 ३ ततः सेनापतिं पट्टबन्धेनानिलनन्दनम् । कृत्वाधिराज्यपट्टं च सुग्रीवस्य महीपतिः ॥ ३८२ ॥  
 सह ताभ्यां समप्राक्षीन्मन्त्रिणं कृत्यनिर्णयम् । तत्रैवमङ्गदोऽवोचद्देव प्रेधा महीभुजः ॥ ३८३ ॥  
 लोभधर्मासुराङ्गादिविजयान्ताभिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन् सामान्ये भेददण्डने ॥ ३८४ ॥  
 नयज्ञैः कार्यसिद्धयर्थमित्युपायः प्रयुज्यते । अन्तिमो रावणस्तेषु नीचत्वात्कूरकर्मकृत् ॥ ३८५ ॥  
 भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ तत्रास्मिन्नीतिवेदिभिः । क्रमस्तथापि नोल्लङ्घ्यः साम तावत्प्रयुज्यताम् ॥ ३८६ ॥  
 कः सामवित्प्रयोक्तव्य इत्यस्मिन् सम्प्रधारणे । दक्षतादिगुणोपेता बहवः सन्ति भूचराः ॥ ३८७ ॥

अतः शरीर धारण करनेके लिए आहार ग्रहण करा ॥ ३६५-३७३ ॥ हे भगवति ! आहार ग्रहण करनेमें क्या दोष है ? राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र ही हो जावेगा । इस प्रकार जब अणुमानने कहा तब सीताने उदासीनता छोड़कर शीघ्र ही शरीरकी स्थितिके लिए आहार ग्रहण करना स्वीकृत कर लिया और उस समयके योग्य कार्यके कहनेमें कुशल सीताने उस दूतको शीघ्र ही बिदा कर दिया ॥ ३७४-३७५ ॥ दूत-अणुमान् भी सीताके चरणकमलोंको नमस्कार कर सूर्योदयके समयचला और अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीघ्र ही पहुँच गया ॥ ३७६ ॥ उसने पहुँचते ही पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको कार्यसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया । स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलिङ्गन कर आसन पर बैठनेके लिए कहा । जब वह हृषे पूर्वक आसन पर बैठ गया तब रामचन्द्रने उससे पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है ? उत्तरमें अणुमानने रामचन्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उक्त वचन विस्तारके साथ कहे । वह कहने लगा कि रावण स्वभावसे ही अहङ्कारी है फिर उसके चक्रवर्त्तन भी प्रकट हो गया है । इसके सिवाय लङ्कामें बहुतसे अपशकुन हो रहे हैं और उसके विद्याधर सेवक बहुत ही कुशल हैं । इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ अच्छी तरह विचार कर जिस तरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय करना चाहिये । इस प्रकार यह योग्य कार्य अणुमानने सूचित किया । बलिष्ठ अभिप्रायको धारण करनेवाले रामचन्द्रने अणुमान्के कहे वचनोंका हृदयमें अच्छी तरह विचार किया । उसी समय उन्होंने अणुमान्को सेनापतिका पट्ट बाँधा और सुग्रीवको युवराज बनाया ॥ ३७७-३८२ ॥ तदनन्तर उन्होंने उन दोनोंके साथ-साथ मन्त्रीसे करने योग्य कार्यका निर्णय पूछा । उत्तरमें अङ्गदने कहा कि हे स्वामिन् ! राजा तीन प्रकारके होते हैं— १ लोभ-विजय, २ धर्म-विजय और ३ अमुर-विजय । नीतिके जाननेवाले विद्वान् अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका व्यवहार करना और तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं । इन तीन प्रकारके राजाओंमें रावण अन्तिम-अमुरविजय राजा है । वह नीच होनेसे क्रूर कार्य करनेवाला है इसलिए नीतिज्ञ मनुष्योंको उसके साथ भेद और दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिये तो भी क्रमका उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए । सर्व प्रथम उसके साथ सामका ही प्रयोग करना चाहिए ॥ ३८३-३८६ ॥ यदि आप इसका निश्चय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका जाननेवाला

१ 'ज्ञानवर्धनार्चनं कृत्या मन्दोदयुः परोधतः' इति म पुरतकेऽधिकः पाठः । २-वासन् ल० । ३ 'सेनापति पट्टबन्धेनाङ्गानिजननन्दनम्' ल० । ४ मन्त्रिणं कर्मनिर्णयम् म० । मन्त्रिणः कर्मनिर्णयम् ल० । ५ भेददण्डममल० ।

किन्तु नाकाशगामित्वसामर्थ्यं तेषु विद्यते । तस्मात्सेनापतिः प्रेष्यस्त्वयायं नूतनः कृतः ॥ ३८८ ॥  
 दृष्टमार्गः पराष्टयः सिद्धकार्यः श्रुतागमः । जात्यादिविद्यासम्पन्नः स्यादस्मात्कार्यनिर्णयः ॥ ३८९ ॥  
 इत्येतदुपदेशेन मनोवेगाभिधानकम् । विजयं कुमुदाख्यानं ख्यातं रविगतिं हितम् ॥ ३९० ॥  
 सहायीकृत्य सप्रपूज्य कुमार भवतांsपरः । कार्यविकार्यकृत्स्नास्ति नात्रेति श्लाघयन्नृपः ॥ ३९१ ॥  
 पवमानात्मजं वाच्यस्त्वयैवं स विभीषणः । अत्र त्वमेव धर्मज्ञः प्राज्ञः कार्यविपाकवित् ॥ ३९२ ॥  
 हितो लङ्केश्वरायास्मै सूर्यवंशाग्रिमाय च । सीताहरणमन्याय्यमाकल्पमयशस्करम् ॥ ३९३ ॥  
 अपथ्यमिति संश्राव्य रावणं रतिमोहितम् । मोचनीया त्वया सीता तथा सति भवत्कुलम् ॥ ३९४ ॥  
 त्वयैव रक्षितं पापादपायादपवादतः । इति सामोक्तिभिस्तस्मिन् स्वीकृते स्वीकृता द्विपः ॥ ३९५ ॥  
 'गोमिन्या सह सीतापि वेत्सि दृतांतमापरम् । त्वमेव कृत्यं निर्णाय द्विद्वृत्तं शीघ्रमेहि माम्' ॥ ३९६ ॥  
 इत्यमुञ्चसहायैस्मै स कुमारः प्रणम्य तम् । गन्वाप्य सहसा लङ्कां ज्ञातो वीक्ष्य विभीषणम् ॥ ३९७ ॥  
 रामभट्टारकेगाहं प्रेषितो भवदन्तिकम् । इति सप्रश्रयं सर्वं तदुक्तं तमजोगमतम् ॥ ३९८ ॥  
 इदं च स्वयमाहासो स्वामिसन्देशहारिणम् । प्राप्य त्वं स्वगाधीश मां तस्मै हितकारिणम् ॥ ३९९ ॥  
 रामाभिप्रेतकार्यस्य त्वया सिद्धिस्तथासति । कार्यमेतत्तु मद्द्वारा विधातुं भवतो भवेत् ॥ ४०० ॥  
 त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां विमुञ्चति स मन्दर्षाः । नापराधस्तवापुण्यः स्वयमेव विनक्ष्यति ॥ ४०१ ॥

कौन है जिसे वहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दक्षता—चतुरता आदि गुणोंसे सहित अनेक भूमिगोचरी राजा हैं परन्तु उनसे आकाशमें चलनेकी सामर्थ्य नहीं है इसलिए आपने जो यह नया सेनापति बनाया है इसे ही भेजना चाहिए ॥ ३८७-३८८ ॥ इस अणुमानने मार्ग देखा है, इसे दूसरे दबा नहीं सकते, एक बार यह कार्य सिद्ध कर आया है, अनेक शास्त्रोंका जानकार है तथा ज्ञानि आदि विद्याओंमें सहित है, इसलिए इसमें कार्यका निर्णय अवश्य ही हो जावेगा ॥ ३८९ ॥ अङ्गदके इस उपदेशमें रामचन्द्रने मनोवेग, विजय, कुमुद और हितकारी रविगतिको सहायक बनाकर अणुमानका आदर-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे कुमार ! यहाँ आपके सिवाय कार्यका जाननेवाला तथा कार्यका करनेवाला दूसरा नहीं है । राजा रामचन्द्रने अणुमानसे यह भी कहा कि तुम सर्वप्रथम विभीषणमें कहना कि इस लङ्का द्वीपमें आपही धर्मके जानकार हैं, विद्वान हैं और कार्यके परिपाक-फलको जाननेवाले हैं । लङ्काके ईश्वर रावण और सूर्यवंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका हित करनेवाले हैं, इसलिए आप रावणसे कहिए—जो नू सीताको हरकर लाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपूर्ण है, कल्पान्तकाल तक अपयश करनेवाला है, तथा अहितकारी है । इस प्रकार रतिसे मोहित रावणको मुनाकर आप सीताको छोड़ा दीजिये । ऐसा करने पर आप अपने कुलकी पापसे, विनाशमें तथा अपवादमें स्वयं ही रक्षा कर लेंगे । इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभीषण वशमें हो गया तो शत्रु अपने वशमें ही समझिये । हे दृतांतम ! इतना ही नहीं, लक्ष्मीके साथ-साथ सीता भी आई हुई ही समझिए । इसके सिवाय और जो कुछ करने योग्य कार्य हों उनका तथा शत्रुके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापिस आओ ॥ ३९०-३९६ ॥ इस प्रकार कहकर रामचन्द्रने अणुमानको सहायकोंके साथ विदा किया । कुमार अणुमान भी रामचन्द्रका नमस्कार कर गया और शीघ्र ही लङ्का पहुँच गया । वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीषणके दर्शन किये और विनयपूर्वक कहा कि 'मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ' ऐसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो कुछ कहा था वह सब बड़ी विनयके साथ विभीषणमें निवेदन कर दिया ॥ ३९७-३९८ ॥ साथ ही उसने अपनी ओरसे यह बात भी कही कि हे विद्याधरोंके ईश ! आप स्वामीका सन्देश लानेवाले तथा हित करनेवाले मुझका रावणके पास तक भेज दीजिये । आपसे रामचन्द्रके इष्ट-कार्यकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी और ऐसा ही जानेपर यह कार्य मेरे द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ कहलावेगा ॥ ३९९-४०० ॥ आपके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी वह मूर्ख यदि सीताको नहीं छोड़ता

१ लक्ष्म्या 'लक्ष्मीगोमिनीन्दिरा' इति कोशः । २-मेहि तम् ल० । ३ गवाह ल० । महाचा ग० ।

वर्द्धमानश्रियं दृष्ट्वा रामं तत्पुण्यचोदितम् । इतो द्वितयलोकैकहितं यायामधीश्वरम् ॥ ४०२ ॥  
 इति रक्तं स्वयं भूयो रणधीगोचरं बलम् । पञ्चाशत्कोटिसंयुक्तं लक्षाचतुरशीतिकम् ॥ ४०३ ॥  
 'सार्द्धत्रिकोटिसङ्ख्यातं खेचरानीकमप्यदः । बलेन तेन सम्प्राप्य स नृसिंहः सलक्ष्मणः ॥ ४०४ ॥  
 इत्तुमद्यैव सीतां वा' सीतां च खचरोशिनः । समर्थः किन्तु दाक्षिण्यं विभोर्नैसर्गिकं स्वयि ॥ ४०५ ॥  
 ततोऽहं प्रेषितस्तेन त्वं च किं वेप्सि नेदशम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा कार्यविद्रावणानुजः ॥ ४०६ ॥  
 तदानीमेव तं नीत्वा दशाननमजिज्ञपत् । वचोहरोऽयं रामेण प्रहितो देवसन्निधिम् ॥ ४०७ ॥  
 इत्यसावपि योग्येन क्रमेणालोक्य रावणम् । तदाद्रिष्टासने स्थित्वा प्राभृतार्पणपूर्वकम् ॥ ४०८ ॥  
 श्रम्यैहितमितालापैः शृणु देवति बोधयन् । प्राज्ञां विज्ञाययामास प्रस्पष्टमधुरध्वनिः ॥ ४०९ ॥  
 अयोध्यामधुनाध्यास्य वर्द्धमानो निजौजसा । 'आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहसो गुणभूषणः ॥ ४१० ॥  
 राघवः कुशली देवं त्रिवण्डाखण्डनायकम् । कुशलोदन्तसम्प्रश्नपूर्वमित्थमभाषत ॥ ४११ ॥  
 सीतान्यस्येति नाता सावस्मदीयेत्यजानता । किं जानं नास्ति दोषो द्राक् प्रेषणीया मनीषिणा ॥ ४१२ ॥  
 न चेद्विनमिवंशैकभूषणस्य महात्मनः । नानारूपमिदं कर्म धर्म-शर्मविघातकृतं ॥ ४१३ ॥  
 'कुलपुत्रमहाम्भोधेनं युक्तं मलधारणम् । सीताविमोचनोत्तुङ्गतरङ्गैः क्षिप्यतां बहिः ॥ ४१४ ॥  
 इति तन्प्राक्तमाकर्ण्य प्रत्युवाच खगेश्वरः । सीतां नानवबुध्याहमानैषं किन्तु 'भूभुजः ॥ ४१५ ॥

है तो इसमें आपका अपराध नहीं है वह पापी अपने आप ही नष्ट होगा ॥ ४०१ ॥ इस समय जिनकी लक्ष्मी बढ़ रही है ऐसे रामचन्द्रको देख उनके पुण्यसे प्रेरित हुई तथा 'हम लोगोंको दोनों लोकोंका एक कल्याण करनेवाले रामचन्द्रजीकी शरण जाना चाहिए, उस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भाषनासे अंतर्धान पचाम कराइ चौरासा लाय भूमिगोचरियोंकी सेना और माढ़े तीन कराइ विद्याधरोंकी सेना स्वयं ही उनसे आ मिली है । वे रामचन्द्र इतनी सच सेना तथा लक्ष्मणकी साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे । यद्यपि वे सीताके समान विद्याधरोंके राजा रावणकी लक्ष्मीको भी आज ही हरनेमें समर्थ हैं किन्तु उगका आपसे स्वाभाविक प्रेम है इसीलिए उन्होंने मुझ भेजा है । क्या आप इस तरहके सच समाचार नहीं जानते ? इस प्रकार अणुमानके वचन सुनकर कार्यको जाननेवाला विभीषण उसी समय उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि हे देव ! रामचन्द्रने यह दूत आपके पास भेजा है ॥ ४०२-४०७ ॥ बुद्धिमान तथा स्पष्ट और मधुर शब्द बोलनेवाले अणुमानने भी विनयपूर्वक रावणके दर्शन किये, योग्य भेंट समर्पित की । तदनन्तर रावणके द्वारा बतलाये हुए आसन पर बैठकर श्रवण करनेके योग्य हित मित शब्दों द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि हे देव, सुनिधा ॥ ४०८-४०९ ॥ जो अपने तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि तथा साहस सबको अपने अनुकूल बनानेवाला है, गुण ही जिनके आभूषण हैं तथा जो कुशल युक्त हैं ऐसे राजा रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरमें ही विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आपका पहले तो कुशल-प्रश्न पूछा है और फिर यह कहला भेजा है कि आप सीताको किसी दूसरेकी समझ कर ले आये हैं । परन्तु वह मेरी है, आप बिना जाने लाये हैं इसलिए कुछ विगड़ा नहीं है । आप बुद्धिमान हैं अतः उसे शीघ्र भेज दीजिए ॥ ४१०-४१२ ॥ यदि आप सीताको न भेजेंगे तो विनमि वंशके एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका यह विचित्र कार्य धर्म तथा सुखका विघात करनेवाला होगा ॥ ४१३ ॥ कुलीन पुत्ररूपी महासागरको यह कलङ्क धारण करना उचित नहीं है । अतः सीताको छोड़ने रूप बड़ी-बड़ी तरङ्गोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए ॥ ४१४ ॥ अणुमानके यह वचन सुनकर रावणने उत्तर दिया कि मैं सीताको बिना जाने नहीं लाया हूँ किन्तु जानकर छाया हूँ । मैं राजा हूँ अतः सर्व रत्न मेरे ही हैं और विशेष कर खारत्न तो मेरा ही है । तुम्हारे राजा

१ सार्धत्रितयसंख्या ल० । २ स्वां ख०, ग०, घ० । ३ आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहस गुणभूषणः ख०, ग०, घ० । आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहसगुणभूषणः ल० । ४ कुलपुत्रमिवाम्भोधे-ल० । ५ भूभुजाम् ल०, घ०, म० ।



ममैव सर्वरत्नानि स्वीरत्नं तु विशेषतः । प्रेपर्यात्विति किं वक्तुं युक्तं मां ते महापतेः<sup>१</sup> ॥४१६॥  
 जिन्वा मां विग्रहेणासु<sup>२</sup> गृह्णीयात्केन वार्यते । इति तन्नाशसंयुचिवचनं दैवचोदितम् ॥ ४१७ ॥  
 श्रुत्वा रामोदयापादिनिमिषं शुभसूचकम् । इदमेवात्र नोऽर्भाष्टमिति चित्तेऽनिलात्मजः ॥ ४१८ ॥  
 ग्याजहार दुरात्मानं दुश्चरित्रं दशाननम् । अन्यायस्य निषेद्धा स्वं निषेध्यश्चेन्निषेद्धरि ॥ ४१९ ॥  
 वाडवाप्तिरिवाग्भोधौ केन वा स निषिध्यते । अभेद्येयं महं ख्यातां राघवः सिंहविक्रमः ॥ ४२० ॥  
<sup>३</sup>अकीर्तिनिष्फलाऽऽचन्द्रमिति स्मर्तुं तवोचितम् । मया बन्धुन्वसम्बन्धात्तत्र पथ्यमुदाहृतम् ॥४२१॥  
 प्रभो गुहाण चेत्तुभ्यं रोचते चेन्न मा गृहीः । इति दूतवचः श्रुत्वा पौलस्त्यः पुनरब्रवीत् ॥ ४२२ ॥  
 रत्नं ममानिवेद्येदं जनकेन समर्पितम् । दर्पाद्दाशरथौ तस्मादाहृतेयं मया रूपा ॥ ४२३ ॥  
 मद्योग्यवस्तुस्वीकारादकीर्तिश्चेन्नवेन्मम । चक्ररत्नं च मद्धस्तादाददातु<sup>४</sup> स राघवः ॥ ४२४ ॥  
 इत्यन्वतोऽज्ञानासुरवोचद्दशकन्धरम् । वचः प्रसन्नगम्भीरं तत्तदुक्त्यनुसारि<sup>५</sup> यत् ॥४२५॥

रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताको भेज दो सो क्या ऐसा कहना उसे योग्य है ॥ ४१५-४१६ ॥ [ वह अभिमानियोंमें बड़ा अभिमाती मालूम होता है । वह मेरी श्रेष्ठताको नहीं जानता है । 'मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है' यह समाचार क्या उसके कानोंके समीप तक नहीं पहुँचा है ? भूमिगोचरियों तथा विद्याधर राजाओंके मुकुटों पर मेरे चरण-युगल, स्थल-कमल—गुलाबके समान मुशोभित होते हैं यह बात आत्राल-गोपाल प्रसिद्ध है—वड़से लेकर छोटे तक मय जानते हैं । सीता मेरी है यह बात तो बहुत चौड़ी है किन्तु समस्त विजयार्थ पर्वत तक मेरा है । मेरे मित्राय सीता किस्मि अन्यकी नहीं हो सकती । तुम्हारा राजा जो उसे ग्रहण करना चाहता है वह पराक्रमी नहीं है—शूर-वीर नहीं है । इस सीताका अथवा अन्य किसी स्त्रीका ग्रहण करनेकी उममें शक्ति है तो वह यहाँ आवे और युद्धके द्वारा मुझे जीत कर शीघ्र ही सीताको ले जावे । कौन मना करता है ? ] इस प्रकार भाग्यकी प्रेरणासे रावणके नाशको सूचित करनेवाले वचन सुनकर अणुमानने मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्रके अभ्युदयको प्रकट करनेवाले शुभ सूचक निमिष हो रहे हैं और इस विषयमें मुझे भी यही इष्ट है—मैं चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ आकर युद्धमें रावणको परास्त करें और अपना अभ्युदय बढ़ावें ॥ ४१७-४१८ ॥ तदनन्तर वह अणुमान रामचन्द्रकी आरसे दृष्ट और दुराचारी रावणसे फिर कहने लगा कि 'आप अन्यायको रोकनेवाले हैं, यदि रोकनेवालेका ही रोकना पड़े तो समुद्रमें बड़वानलके समान उसे कौन रोक सकता है ? यह सीता अभेद्य है—इसे कोई विचलित नहीं कर सकता और मैं सिंहके समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥ ४१९-४२० ॥ इस प्रकारके करनेसे जब तक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपकी निष्प्रयोजन अकीर्ति बनी रहेगी इस बातका भी आपको विचार करना उचित है, मैंने भाईपनेके सम्बन्धसे आपके लिए हितकारी वचन कहे हैं । हे स्वामिन ! यदि आपको रुचिकर हो तो ग्रहण कीजिए अन्यथा मत कीजिये ।' इस प्रकार दूत-अणुमानके वचन सुनकर रावण फिर कहने लगा ॥ ४२१-४२२ ॥ कि 'चूँकि राजा जनकने अहंकार वश मुझे सूचना दिये बिना ही यह सीता रूपी रत्न रामचन्द्रके लिए दिया था इसलिए क्रोधसे मैं इसे ले आया हूँ ॥ ४२३ ॥ मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करनेसे यदि मेरी अकीर्ति होती है तो हो । वह रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चक्ररत्न भी ग्रहण करना चाहता है' इस प्रकार रावणने कहा । तदनन्तर अणुमान रावणके कहे अनुसार उससे प्रसन्न तथा गम्भीर वचन कहने लगा कि सीता मैंने हरी है यह आप क्यों कहते हैं ? यह सब जानते

१ [ दपिष्ठानामसौ प्रष्टो ज्येष्ठतां मे न बुध्यते । चक्रोत्पत्तिं किं तस्य श्रवणोपात्तवतिनि । भू(भश्चरभूपा-  
 लमौलिमालास्थलाग्बुजम् । मत्क्रमद्वन्द्वमित्येतदागोपालप्रसिद्धिमतम् ॥ सीता ममेयमित्यल्पमेतदाखचराचलात् ।  
 सीता नान्यस्य तां नासौ जिघृक्षुर्विविक्रमी ॥ इमां च तां यद्यत् शक्तिरत्रैत्य राववः । ] इत्ययं कोष्ठकान्तगतः  
 पाठः क० ख० ग० घ० पुस्तकेषु मूलनिबद्धो वर्तते किन्तु 'ल०' पुस्तके नास्ति । २ विग्रहेणामा क०, ख०, ग०,  
 घ०, म० । ३ अभेद्योऽय-क०, ख०, ग०, घ० । ४ निर्मिता म० । ५-दादातु ल० । ६ तदुक्त्यनु-ल० ।

सीता मयाऽहृतेत्येतकिं वक्षि विदितं जनैः । करे कस्य स्थिता मेति विभो त्वद्वरणक्षणे ॥ ४२६ ॥  
 किमेतेन भवच्छौर्यं वदात्र प्रकटीभवेत् । किं वृथाऽकन्या प्रियेणैव राज्ञी मिक्षु १त्वयार्प्यताम् ॥ ४२७ ॥  
 इति तद्गृहहासोक्तिवद्धि २सन्तापिताशयः । पुष्पकाधिपतिर्दृष्टि ३विपाहीन्द्रफणामणिम् ॥ ४२८ ॥  
 आदातुमिच्छन्तो गन्तुं गतिं रामोऽभिवाञ्छति । दूतस्त्वं ४तन्न वध्योऽसि याहि याहीत्यतर्जयन् ॥ ४२९ ॥  
 निजित्य सिन्धुरारातिं गजितनोजिता क्रुधा । ततः कुम्भनिकुम्भाऽप्रकुम्भकणादिभिर्भटैः ॥ ४३० ॥  
 इन्द्रजितसेन्द्रचर्मातिकन्यार्कखरदृषणैः । खरेण दुर्मुखखलेन महामुखखगोक्षिना ॥ ४३१ ॥  
 क्रुद्धैः कुमारैरन्यैश्च तर्ज्यमानोऽनिलात्मजः । गजितेन वृथानेन वनिताजनसम्मुखम् ॥ ४३२ ॥  
 किं कृत्यमत्र संग्रामे मदीयं शृणुशोतरम् । इत्यवादीत्तदा नेदमुचितं दुरुर्दारितम् ॥ ४३३ ॥  
 इति तान् वारयन् क्रुद्धान् नववेदी विभीषणः । याहि भद्रानिवार्योऽयमकार्यखरदृषणैः ॥ ४३४ ॥  
 शुभाशुभविपाकानां भाविनां को निवारकः । इत्युवाचाणुमांश्चैत्य जानकीं वज्रिताशनाम् ॥ ४३५ ॥  
 मन्दोदर्युपहृद्यास्या द्राघदृष्ट्वा पारणाविधिम् । ततो वाराशिसुलह्वय रामाभ्यर्णमुपागतः ॥ ४३६ ॥  
 नत्वा किं बहुनाक्तेन सीता तेन न मोक्ष्यते । अतस्तदनु रूपं वा कार्यं मा भूत शीतकाः ॥ ४३७ ॥  
 शंसन्ति निश्चितं कृत्ये कृत्वाः क्षिप्रकारिताम् । इत्याहादाय तन्प्राक्तमिश्वाकु कुलकेशरी ॥ ४३८ ॥  
 चतुरङ्गबलेनामा चित्रकूटवनान्तरं । कालमेव बलं मत्वाऽनैर्पादुर्पनुमिन्वरः ॥ ४३९ ॥

हे कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय यह किम्कं हाथमें थी—किम्कं पास थी ? आप सीताको हर कर नहीं लाये हैं किन्तु चुरा कर लाये हैं । अतः यह कहिये कि इस कार्यसे क्या आपकी शूर-वीरता प्रकट होती है ? अथवा इन व्यर्थकी बातोंमें क्या लाभ है । आप सीते वचनोंमें ही सीता सीताको शीघ्र वापिस कर दीजिये ॥ ४२४-४२७ ॥ इस प्रकार अणुमानमें उत्पन्न हुए निरस्कार सूचक रूपी अप्रिये जिम्का हृदय संतप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक विमानका स्वामी रावण कहने लगा कि 'रामचन्द्र, दृष्टिविष मर्षकं फणामणिको ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषकी गतिको प्राप्त करना चाहता है—मरना चाहता है । तू दूत होनेके कारण मारने योग्य नहीं है अतः यहाँसे चला जा, चला जा, इस प्रकार रावणने सिंहको जीतनेवाली अपनी गजनामें अणुमानको ललकारा । तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं क्रूर प्रकृतिवाले कुम्भकण आदि योद्धाओंने इन्द्रजित, इन्द्रचर्म, अतिकन्यार्क, खरदृषण, खर, दुर्मुख, महामुख आदि विद्याधरोंने और क्रुद्ध हुए अन्य कुमारोंने अणुमानको बहुत ही ललकारा । तब अणुमानने कहा कि स्वामिनोके सामने इस व्यर्थकी गजनासे क्या लाभ है ? इससे कौनसा कार्य सिद्ध होता है ? आप लोग मेरा उत्तर संग्राममें ही सुनिये । यह मुन नयाँके जाननेवाले विभीषणने उन क्रुद्ध विद्याधरोंको रोक्ते हुए कहा कि यह दुषचन कहना ठीक नहीं है । विभीषणने अणुमानमें भी कहा कि हे भद्र ! तुम अपने घर जाओ । अकार्य करनेके कारण जिसे आर्य मनुष्योंने छोड़ दिया है ऐसे इस रावणको कोई नहीं रोक सकता—यह किसीकी बात माननेवाला नहीं है । ठीक ही है आगे आने वाले शुभ-अशुभ कर्मके उदयको भला कौन रोक सकता है ? इस प्रकार विभीषणने कहा तब अणुमान, जिम्ने आहार पानी छोड़ खग्या था ऐसी सीताके पास गया ॥ ४२८-४२९ ॥ मन्दोदरीके उपरोधसे सीताने क्रुद्ध थोड़ा-सा खग्या था उसे देख अणुमान शीघ्र ही समुद्रको पार कर रामचन्द्रके मर्षीप आ गया ॥ ४३६ ॥ और निरस्कार कर कहने लगा कि बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? सबका सारांश यह है कि रावण सीताको नहीं छोड़ेगा इसलिए इसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, बिलम्ब मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य निश्चित क्रिये हुए कार्यमें शीघ्रता करनेकी प्रशंसा करते हैं—जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र ही कर डालना चाहिए । अणुमानकी बात सुनकर इक्ष्वाकु वंशके सिंह रामचन्द्र अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ चित्रकूट नामक वनमें जा पहुँचे । वे यद्यपि शीघ्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे तथापि समयको

१ तवार्पिताम् क०, ध० । तवार्पिता ल० । २ संतपिताशयः ल० । ३ दृष्ट ग० । ४ यत्र ल०, ध०, म० ।

तत्रत्यं वालिनो दूतः समीक्ष्य रघुनन्दनम् । प्रणम्यां पायनं दत्त्वेत्यब्रवीद्विमोहितम् ॥ ४४० ॥  
 विज्ञापयति मत्स्वामी बालीति बलवानलम् । पूज्यपादो यदि प्रेष्यं मामिच्छति महीपतिः ॥ ४४१ ॥  
 १ न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं सुग्रीवानिलपुत्रयोः । यावत् किञ्चित्करावार्थो वेत्ति वैतत्पराक्रमम् ॥ ४४२ ॥  
 तिष्ठत्वथैव देवोऽहं गत्वा लङ्कां दशाननम् । मानभङ्गे नियोजयार्यामानयेऽद्यैव जानकीम् ॥ ४४३ ॥  
 इत्याकणिततद्वाक्यः २ प्रप्राक्षीलक्षमणाग्रजः । सामभेदविदो वाच्यं किष्किन्धेशः किमुत्तरम् ॥ ४४४ ॥  
 इति मन्त्रिगणं सर्वसम्मतः संस्तुतोद्भूतः । शत्रुमित्रमुदासीन इति भूपास्त्रयो मताः ॥ ४४५ ॥  
 रावणस्तेषु नः शत्रुबाली मित्रस्य विद्विपः । ३ न कुर्मो यदि तत्कार्यं सम्बन्धीयास्तु शत्रुगा ॥ ४४६ ॥  
 तथा चोपचयः शत्रोर्दुरुच्छेदो हि तेन सः । अथ बालिवचः कुर्मः कर्म तत्स्वार्थं दुष्करम् ॥ ४४७ ॥  
 तनो हठात्तवायानं किष्किन्धेशविनाशनम् । प्राक् पश्चाच्छक्तिरसम्पत्त्या सुखोच्छ्रेयो दशाननः ॥ ४४८ ॥  
 इत्यब्रवीत्तदादाय दूतमाहूय भूपतिः । महामेघाभिधानं मे प्रदायानेकपात्रिमम् ॥ ४४९ ॥  
 सहाभ्येतु मया लङ्का चर्च्य पश्चात्तर्दाप्सितम् । इत्युक्त्वामामुनात्मायमपि दूतं व्यसर्जयत् ॥ ४५० ॥  
 गत्वा तौ रामसन्देशस्तुग्रावन्मयाग्रजन्मनः । क्रापमानयतः स्मासावित्यवोचन्मदोद्भूतः ॥ ४५१ ॥  
 एवं ४ प्रार्थयमानो मां रामो रामापहारिणम् । निर्मूल्यानीय सीतां किं यशो दिक्षु विर्कार्णवान् ॥ ४५२ ॥

बलवान् मानकर उन्होंने वर्षाकृतु वहीं चिताड ॥ ४३५-४३६ ॥ जब रामचन्द्र चित्रकूट वनमें निवास कर रहे थे तब राजा बालिका दूत उनके पास आया और प्रणाम करनेके अनन्तर भेंट समर्पित करता हुआ बड़ी मावधानीसे यह कहने लगा ॥ ४४० ॥ कि हे देव ! मेरे स्वामी राजा बाली बहुत ही बलवान हैं । वे आपसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं—कि यदि पूज्यपाद महाराज रामचन्द्र मुझे दूत बनाना चाहते हैं तो मुझसे और अणुमानको दूत न बनावे क्योंकि वे दोनों बहुत थोड़ा कार्य करते हैं । यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठहरिये, मैं अकेला ही लङ्का जाकर और रावणका मानभङ्ग कर आया जानकीको आज ही लिये आता हूँ ॥ ४४१-४४३ ॥ इस प्रकार बालिके दूतके वचन सुनकर रामचन्द्रने स्वाम और भेदको जानने वाले मन्त्रियोंमें पूछा कि किष्किन्धा नगरके राजा बालीको क्या उत्तर दिया जावे ॥ ४४४ ॥ इस प्रकार मन्त्रि-समूहमें पूछा । तब सर्वप्रिय एवं सर्व प्रशंसित अङ्गदने कहा कि शत्रु, मित्र और उदासीनके भेदमें राजा तीन प्रकारके होते हैं । इन तीन प्रकारके राजाओंमें रावण हमारा शत्रु है, और बालि मित्रका शत्रु है । यदि हम लोग उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वह शत्रुके साथ सन्धि कर लेगा—उसके साथ मिल जावेगा ॥ ४४५-४४६ ॥ और ऐसा होनेसे शत्रुकी शक्ति बढ़ जायगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःख-साध्य हो जायगा । यदि बालिकी बात मानते हैं तो यह कार्य आपके लिए कठिन है ॥ ४४७ ॥ इसलिए सबसे पहले किष्किन्धा नगरके स्वामीके नाश करनेका काम जवर्दस्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति और सम्पत्ति बढ़ जानेसे रावणका नाश सुखपूर्वक किया जा सकेगा ॥ ४४८ ॥ इस प्रकार अंगदके वचन स्वीकृत कर रामचन्द्रने बालिके दूतको बुलाया और कहा कि आपके यहाँ जो महामेघ नामका श्रेष्ठ दार्थी है वह मेरे लिए समर्पित करे तथा मेरे साथ लङ्काके लिए चलो, पीछे आपके इष्ट कार्यकी चर्चा की जायगी । ऐसा कह कर उन्होंने बालिके दूतको चिदा किया और उसके साथ ही अपना दूत भी भेज दिया ॥ ४४९-४५० ॥ वे दोनों ही दूत जाकर सुग्रीवके बड़े भाई बालिके पास पहुँचे और उन्होंने रामचन्द्रका संदेश सुनाकर उसे बहुत ही क्रुपित कर दिया । तब मदसे उठन हुआ बालि कहने लगा कि इस तरह सुभ्रपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्या स्त्रीको अपहरण करनेवाले रावणको नष्ट कर तथा सीताको वापिस लाकर दिशाओंमें अपना यश

१ मा ल०, म० । २ सोऽप्राक्षीत् ल० । ३ कुर्मो यदि ल० । ४ अभियाति, 'वाञ्छायामभिधाने च प्रार्थना कथ्यते बुधेः ॥ इति केशवः । यद्वा अवरणदि, इत्यर्थः । प्रा अर्थयते । 'प्रा म्याञ्छाञ्च-वरोधयोः' इत्यभिधानात् । प्रा अवरोधेन, प्रा इति वृत्तीयान्तम्, आकारान्तस्य प्राशब्दस्य योगविभागात् 'आतोऽतोः' इत्यालोपः ।

दशास्ये साम सामोक्त्या सर्माप्सौ सामवायिके । परुषोक्तिर्मर्यात्यस्य धासौर्ये पश्य कीदृशे ॥ ४५३ ॥  
 इमां तद्गर्वदुर्भाषां श्रुत्वा राघवसेविना । चौर्येण परदारणां नेतुरुन्मार्गगामिनः ॥ ४५४ ॥  
 दोषद्वयानुरूपं त्वं दण्डं द्रक्ष्यसि चाचिरात् । किं तेन तव चेत्पथ्यमिच्छेरुच्छिव दुर्मदम् ॥ ४५५ ॥  
 दत्त्वा गजं कुरूपासं स्वामिनो वृद्धिमेष्यति । अवश्यमचिरेणेति दूतनोद्दीपितः क्रुधा ॥ ४५६ ॥  
 बाली कालानुकारी तं प्रत्याह परुषं वचः । वारणाशां त्यजत्वास्ति चेदाशा नास्ति वा रणम् ॥ ४५७ ॥  
 यातु मत्पादसेवां स मयामा यातु वारणम् । तदा तस्याशुभां वाणीं तद्विनाशविधायिनीम् ॥ ४५८ ॥  
 श्रुत्वा दूतोऽभ्युपैत्यैपद्वलिनं बालिनोऽन्तकम् । प्रातिकूल्येन बाली वः कृत्रिमः शत्रुरुत्थितः ॥ ४५९ ॥  
 पारिपन्थिकवन्मार्गो दुर्गस्तस्मिन् विरोधिनि । इत्यब्रवीत्ततो रामः सुग्रीवप्रमुखं बलम् ॥ ४६० ॥  
 लक्ष्मणं नायकं कृत्वा प्राहिणोत्खादिरं<sup>१</sup> वनम् । गन्वा वैद्याधरं सैन्यं बालिनोऽभ्यागतं बलम् ॥ ४६१ ॥  
 जघानेव वनं वज्रं प्रज्वलच्छस्त्रसन्तति । स्वयं सर्वबलेनामा योद्धुं बाली तदागमत् ॥ ४६२ ॥  
 पुनस्तयोरभूद् युद्धं बलयोः काललीलयोः । प्रलये वान्तकस्तत्र प्रायस्त्विसिमुपेयिवान् ॥ ४६३ ॥  
 आकर्णांकुटनिमुक्तनिशातसितपत्रिणा । लक्ष्मणेन शिरोऽप्राहि तालं वा बालिनः फलम् ॥ ४६४ ॥  
 तदा स्वस्थानमापन्नौ सुग्रीवानिलनन्दनौ । सद्यः फलति संसेवा प्रायेण प्रभुमाश्रिता ॥ ४६५ ॥  
 ततः सर्वेऽगमन् रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत । स्वस्थानं सख्यौ भक्त्या सुग्रीवेण सहानुजः ॥ ४६६ ॥

फैला लिंगे ? ॥ ४५१-४५२ ॥ स्त्रीका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके वचन कहला भेजे हैं और जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है ऐसे मेरे लिए ये कठोर शब्द कहला रहे हैं । इनकी बुद्धि और शूर-वीरता तो देखो कैसी है ? ॥ ४५३ ॥ गर्वसे भरी हुई बालिकी इस नीच भाषाको सुनकर रामचन्द्रके दूतने कहा कि रावण चोरीमें परस्त्री हर कर ले गया है सो उस उन्मार्गगामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप शीघ्र ही देखेंगे । अथवा इससे आपका क्या प्रयोजन ? यदि आपका महामेघ हाथी देना इष्ट है तो इस दुष्ट अहंकारको छोड़कर वह हाथी दे दो और स्वामीकी सेवा करो । ऐसा करनेसे आप अवश्य ही शीघ्र वृद्धिको प्राप्त होंगे । इस प्रकार कह कर दूतने बालिकी क्रोधमें प्रज्वलित कर दिया ॥ ४५४-४५६ ॥ तब यमराजका अनुकरण करनेवाला बालि उत्तरमें निम्न प्रकार कठोर वचन कहने लगा । उमने कहा कि 'यदि रामचन्द्रको जीनेकी आशा है तो हाथीकी आशा छोड़ दे, यदि जीनेकी आशा नहीं है तो युद्धमें मेरे सामने आवें और उन्हें हाथी पर बैठनेकी ही इच्छा है तो मेरे चरणोंकी सेवाको प्राप्त हों फिर मेरे साथ इस हाथी पर बैठ कर गमन करें ।' इस प्रकार बालिका विनाश करनेवाली उमकी अशुभ वाणी को सुनकर वह दूत उसी समय बालिकी नष्ट करनेवाले बलवान् रामचन्द्रके पास वापिस आ गया और कहने लगा कि बालि प्रतिकूलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है ॥ ४५७-४५९ ॥ उस विरोधीके रहते हुए आपका मार्ग चोरोंके मार्गके समान दुर्गम है अर्थात् जब तक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं तब तक आपका लङ्काका मार्ग सुगम नहीं है । इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचन्द्रने लक्ष्मणको नायक बनाकर सुग्रीव आदिकी सेना खादिर-वनमें भेजी । जिसमें शस्त्रोंके समूह देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसी विद्याधरोंकी सेनाने सामने आई हुई बालिकी सेनाको उस तरह काट डाला जिस तरह कि वज्र धनको काट डालता है—नष्ट कर देता है । जब सेना नष्ट हो चुकी तब बालि अपनी सम्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके लिए आया ॥ ४६०-४६२ ॥ कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा और काल उस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः वृत्त हो गया ॥ ४६३ ॥ अन्तमें लक्ष्मणने कान तक खींच कर छोड़े हुए तीक्ष्ण सफेद बाणसे ताल वृक्षके फलके समान बालिका शिर काट डाला ॥ ४६४ ॥ उसी समय सुग्रीव और अणुमानको अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्योंकि अच्छी तरह की हुई प्रभुकी सेवा प्रायः शीघ्र ही फल देती है ॥ ४६५ ॥ तदनन्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके पास गये । सुग्रीव,

विभोर्भनाहरोद्याने किष्किन्धे शरदागमे । बलं चतुर्दशाक्षौहिणीप्रमं भूभृतामभूत् ॥ ४६७ ॥  
 लक्ष्मणश्च जगत्पादगिरौ निरशनस्तदा । सप्तार्हं शिवघोषाख्यमोक्षस्थाने कृताचनः ॥ ४६८ ॥  
 प्रज्ञप्तिं साधयामास भटाष्टशतरक्षितः । सुग्रीवोऽपि महाविद्याः पूजयामास सुव्रतः ॥ ४६९ ॥  
 सोपवासो गिरौ सम्भेदाख्ये सिद्धशिलानले । तथान्येऽपि स्वविद्यानां खगाः पूजामकुर्वन्त ॥ ४७० ॥  
 एवं भूखंचराधीशं बलं चलितकेतनम् । रामलक्ष्मणसुग्रीवमरुत्तन्दननायकम् ॥ ४७१ ॥  
 करीन्द्रमकराकीर्णं तुरङ्गमतरङ्गकम् । प्रलयाम्भोधिसङ्गाशं लङ्कां प्रति चचाल तत् ॥ ४७२ ॥  
 लङ्कापुरेऽप्यणुमतो विनिवृत्तौ दशाननः । कुम्भकर्णादिभिनास्मदुग्रवंशस्य भास्वतः ॥ ४७३ ॥  
 कर्मदमुचितं ग्यातपौरुषस्य तव प्रभो । स्त्रीरत्नमेतदुच्छिष्टं तदस्मदनुरोधतः ॥ ४७४ ॥  
 विसृज्यतामिति प्रोक्तोऽप्यासक्तस्त्यक्तुमक्षमः । भूयस्तृणमनुष्यस्य रामनाम्नो बलं किल ॥ ४७५ ॥  
 सीतां नेतुमतोऽस्माकमुपयोगच्छतीति वाक् । भ्रूयतेऽथ कथं सीतामोक्षः कुलकलङ्ककृत् ॥ ४७६ ॥  
 इत्याख्यसद्भवः सोढुमक्षमो रावणानुजः । सूर्यवंशस्य शौर्यं किं रामस्तृणमनुष्यकः ॥ ४७७ ॥  
 न शृणोसि नचः पथ्यं बन्धुनां सदनान्धकः । परदारार्पणं दोषं वदन् दोषविदांवरः ॥ ४७८ ॥  
 परस्त्रीग्रहणं शौर्यं न्यदुपज्ञं भवेद् भुवि । मिथ्यातरेण किं मार्गाविध्वन्सान्मार्गवर्तनम् ॥ ४७९ ॥  
 दुर्धरं तव दुर्बुद्धेलोकद्वयभयावहम् । विषयाननिषिद्धांश्च परिष्वक्तुं वयस्तव ॥ ४८० ॥

रामचन्द्रको लक्ष्मण और सब सेनाके साथ-साथ बड़ी भक्तिसे अपने नगरमें ले आया और किष्किन्धा नगरके मनेहर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया । उस समय शरद-ऋतु आ गई थी और रामचन्द्रके साथ राजाओंकी चौदह अश्वोहिणी प्रमाण सेना इकट्ठा हो गई थी ॥ ४६६-४६७ ॥ जहाँसे शिवघोष मुनिने गोश्र प्राप्त किया था ऐसे जग पाद नागक पर्वत पर जाकर लक्ष्मणने सात दिन तक निराहार रहकर पूजा की और प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध की । विद्या सिद्ध करने समय एक सौ आठ योद्धाओंने उसकी रक्षा की थी । इसी प्रकार सुग्रीवने भी उस समय उत्तम व्रत और उपवास धारण कर सम्भेदा-चन पर सिद्धशिलाके ऊपर सप्तारिष्याओंकी पूजा की । इनके सिवाय अन्य विद्याधरोंने भी अपनी अपनी विद्याओंकी पूजा की । इस प्रकार जिसमें ध्वजाएँ फहरा रही हैं, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अणुमान जिसमें प्रधान हैं, जो बड़े बड़े हार्थारूपा मगरमच्छोंमें व्याप्त हैं, और छोड़े ही जिसमें बड़ी-बड़ी तरंगे हैं ऐसे प्रलयकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओंकी सेना लङ्काके लिए रवाना हुई ॥ ४६८-४७२ ॥

अथानन्तर—जब अणुमान लङ्कामें लौट आया था तब कुम्भकर्ण आदि भाइयोंने रावणसे कहा था कि 'हे प्रभो ! आप हमारे उच्च वंशमें सूर्यके समान देदीप्यमान हैं और आपका पौरुष भी सर्वत्र प्रसिद्ध है अतः आपको यह कार्य करना उचित नहीं है । यह स्त्रीरत्न उच्छिष्ट है इसलिए हमलोगोंके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए ।' इस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँकि रावण सीतामें आसक्त था इसलिए उमें छोड़ नहीं सका । वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र तृण-मनुष्य हैं—तृणके समान अत्यन्त तुच्छ हैं, 'उनकी सेना सीताको लेनेके लिए यहाँ हमारे ऊपर आ रही है' ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे हैं इसलिए सीताको कैसे छोड़ा जा सकता है, यह बात तो कुलकी कलङ्क लगाने वाली है ॥ ४७३-४७६ ॥ रावणका छोटा भाई धिभीपण उसकी यह बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रको तृणमनुष्य मानते हैं पर सूर्यवंशीय रामचन्द्रकी क्या शूर-वीरता है इसका आपको पता नहीं है । आप कामने अन्ये हो रहे हैं इसलिए भाइयोंके हितकारी वचन नहीं सुन रहे हैं । आप परस्त्रीके समर्पण करनेका दोष बनला रहे हैं इसलिए मालूम होता है कि आप दोषोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं ? ( व्यङ्ग्य ) ॥ ४७७-४७८ ॥ परस्त्रीग्रहण करना शूर-वीरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हो रहा है । आप जो अपनी दुर्बुद्धिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न करनेवाले एवं दुर्धर उन्मार्गी प्रवृत्ति नहीं होगी और गुमार्गी-

परामृशात्र किं युक्तं निषिद्धविषयैषणम् । विद्धि वैद्याधरीं लक्ष्मीमिमां तव गुणप्रियाम् ॥ ४८१ ॥  
 अनर्पयन्तं सीतां त्वां त्यजत्यद्यैव निर्गुणम् । अकार्यकारिणामत्र गणनायां किमग्रिमम् ॥ ४८२ ॥  
 स्वं करोष्यभिलाषामकार्येण परयोषिति । प्रतिकूलोऽसि पुण्यस्य दुर्बुध्या पापसञ्चयान् ॥ ४८३ ॥  
 ततोऽननुगुणं<sup>१</sup> दैवं विना दैवाकुतः श्रियः । परस्त्रीहरणं नाम पापं पापेषु दुस्तरम् ॥ ४८४ ॥  
 विस्तरेण किमुक्तेन नेष्यत्येनो महातमः<sup>२</sup> । आस्तां तावद्दो भावि शपैः<sup>४</sup> शीलालयस्त्रियः ॥ ४८५ ॥  
 अलमामूलतां दग्धुं कुलं क्रोधविधायिनाम् । नानिच्छन्तीं प्रतीच्छामीत्येकमेव तव व्रतम् ॥ ४८६ ॥  
 पोतभूतं भवाङ्घ्रिं<sup>५</sup> तत्तरितुं किं विनाशयैः । प्राणैरपि यशः क्रयं सतां प्राणैश्च तेन च ॥ ४८७ ॥  
 पापं कल्पान्तरस्थायि क्रीणास्यज्ञोऽयश्च धिक् । कस्येयं दुहिता सीता किं तन्न ज्ञायते त्वया ॥ ४८८ ॥  
 सुज्ञानमभ्यविज्ञेयं कामव्यामुग्धमानसैः । अत्यौत्सुक्यमनास्तेषु प्राप्तेषु परितोषणम् ॥ ४८९ ॥  
 भुज्यमानेषु वैरस्यं विषयेषु न वेत्सि किम् । अयोग्यायामनाथायां नाशहेतौ ब्रुथा रतिम् ॥ ४९० ॥  
 मा कृथाः पापदुःखापलेपभाक् परयोषिति । आदेशः कीदृशः सोऽपि स्मार्यो वा भाविवेदिनाम् ॥ ४९१ ॥  
 चक्रस्य परिपाकं च प्रादुर्भूतं च भावय । बलानामप्यमं रामं लक्ष्मणं चार्द्धचक्रिणाम् ॥ ४९२ ॥  
 आमनन्ति पुराणज्ञाः प्राज्ञ तच्च विचिन्तय । यादृशार्पयतो दोषस्तादृशार्पयतस्तथा ॥ ४९३ ॥  
 सीतां नेति विनिश्चित्य तां रामाय समर्पय । इति लक्ष्मीलतावृद्धिसाधनं धर्मशर्मदम् ॥ ४९४ ॥

का विनाश नहीं हांगा ? जो विषय निषिद्ध नहीं है उनका भी त्याग करनेकी आपकी अवस्था है फिर जरा विचार तो कीजिये इस अवस्थामें निषिद्ध विषयकी इच्छा करना क्या आपके योग्य है ? आप यह निश्चित समझिये कि यह विद्याधरीकी लक्ष्मी आपके गुणोंकी प्रिया है । यदि आप सीताको चापिस नहीं करेंगे तो निर्गुण समझ कर यह आपको आज ही छोड़ देगी । पर-स्त्रीकी अभिलाषा करने रूप इस अकार्यसे आप अपने आपको अकार्य करनेवालोंमें अग्रणी—मुखिया क्यों बनाने हैं ? इस समय आप इस दृष्ट प्रवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकूल हो रहे हैं, पुण्यके प्रतिकूल रहनेसे दैव अनुकूल नहीं रहता और दैवके विना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है ? पर-स्त्रीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बड़ा पाप है ॥ ४७६-४८४ ॥ अधिक विस्तारके साथ कहनेमें क्या लाभ है ? यह पाप आपको सातवें नरक ले जावेगा । अथवा इसे जाने दो, यह पाप पर भवमें दुःख देगा परन्तु शीलकी भाण्डारभूतस्त्रियाँ अपने प्रति क्रोध करनेवालोंके कुलका शापके द्वारा इसी भयमें आमूल नष्ट करनेके लिए समर्थ रहती हैं । आपने व्रत लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूंगा । आपका यह एक व्रत ही आपका संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्यों नष्ट कर रहे हो ? सज्जन पुरुषोंको प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु आप ऐसे अज्ञानी हैं कि प्राण और यश देकर दूसरे कल्प काल तक टिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद रहे हैं अतः आपके लिए धिक्कार है । यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नहीं जानते ? ठीक ही है जिनका चित्त कामसे मोहित रहता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानीके समान होती है । क्या आप यह नहीं जानते कि ये पञ्चन्द्रियोंके विषय जबतक प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इनमें उत्सुकता रहती है, प्राप्त हो जानेपर सन्तोष होने लगता है, और जब इनका उपभोग कर चुकते हैं तब नीरसता आ जाती है । इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप और दुःखका सञ्चय करनेवाली परस्त्रीमें व्यर्थका प्रेम मत कीजिए । भविष्यत्की बात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा आदेश दिया था—क्या कहा था इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए ॥ ४८५-४८९ ॥ तथा चक्र उत्पन्नके फलका भी विचार कीजिए । पुराणोंके जाननेवाले रामको आठवाँ बलभद्र और लक्ष्मणको नौवाँ नारायण कहते हैं । हे विद्वन् ! आप इसका भी विचार कीजिए । सीताको नहीं सौपनेमें जैसा दोष है वैसा दोष उसके सौपनेमें नहीं है ॥ ४८२-४८३ ॥ इसलिए इन सब बातोंका

१ गणनीयं ल० । २ अनुकूलम् । ३ नेष्यते तत्तमस्तमं ग०, घ० । ४ शपः शीलालयश्रियः ल० । ५ किं तत्तरीतुं ल०, म० । ६ भुज्यमानेषु ल० । ७ भावि निवेदिनाम् ख० ।

बधोऽवोचद्विचारोर्बेर्धनः कर्तुं शशिप्रभम् । भाषा विभीषणायैव भाषमाणाव भीषणः ॥ ४९५ ॥  
 रुचितो रावणो हृते वैकृत्वमुपगम्य मे । पराभवं सभामध्ये प्राग्दुस्सहमजीजनः ॥ ४९६ ॥  
 सप्रत्यपि दुरुक्तोऽहं स्वया सहजताबलात् । अवधो वाहि महेशादित्वभापत् निष्ठुरम् ॥ ४९७ ॥  
 सोऽपि दुश्चरितस्यास्य नाशोऽवदर्थं भविष्यति । सहानेन विनाशो मां दूषयत्ययशम्करः ॥ ४९८ ॥  
 निर्वासितोऽहं निर्भर्त्स्य देशाद्वितसुदाहरन् । इष्ट एव किलारण्ये वृष्टो देव इति श्रुतिः ॥ ४९९ ॥  
 पुष्यान्ममाद्य सप्यन्ना वामि रामक्रमाद्भुजम् । इत्यन्तर्गतमालोच्य विनिश्चित्य विभीषणः ॥ ५०० ॥  
 जलधेर्जलमुलङ्घ्य सौजन्यमिव सत्वरम् । महानदीप्रवाहो वा वारिधिं राममासदन् ॥ ५०१ ॥  
 लक्ष्मणप्रमुखान्मुख्यान् वेलालीलावहान् बहून् । प्रत्युद्गम्य वित्त्रम्य तमानीय परीक्षया ॥ ५०२ ॥  
 सोऽपि ज्ञातानुभावत्वादेकोभावमुपागमन् । ततः कनिपयैरेव प्रयाणैर्गतवद्बलम् ॥ ५०३ ॥  
 जलधेस्तटमाश्रित्य सञ्चिषिष्टं समन्ततः । तदा तत्राणुमानित्थं रामं विज्ञापयन्मिथः ॥ ५०४ ॥  
 देवादेशोऽस्ति चेन्नृत्वा लङ्कां शौर्योर्जिहीर्यया । वनभङ्गेन ते शत्रोर्मानभङ्गं करोम्यहम् ॥ ५०५ ॥  
 लङ्कादाहेन दाहं च देहस्याहेतकारिणः । तथा सति स मानित्वावसौ चेदागमिष्यति ॥ ५०६ ॥  
 स्थानभ्रंशात्सुखोच्छेद्यो नागच्छेशेजसः क्षतिः । इति श्रुत्वास्य विज्ञप्तिं तदस्त्वित्यथदक्षपः ॥ ५०७ ॥  
 सहायार्थात्त्राशिशस्य विद्येशान् शौर्यशालिनः । लब्धाज्ञः सोऽपि सन्तुष्य सद्यो वानरविद्यया ॥ ५०८ ॥  
 प्रादुर्भावितदुःप्रेक्ष्यनानावानरसेनया । द्रुतं वाराशिसुलङ्घ्य विक्रमाद्वनपालकान् ॥ ५०९ ॥

निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए मौप दीजिये । इस प्रकार विभीषणने अच्छी तरह विचार कर यशको चन्द्रमाके समान उज्ज्वल करनेके लिए लक्ष्मीरूपी लताको बढ़ानेवाले तथा धर्म और मुख देनेवाले उत्कृष्ट वचन कहें । परन्तु इस प्रकारके उत्तम वचन कहनेवाले विभीषणके लिए वह भयङ्कर रावण कुपित होकर कहने लगा कि 'तूने द्रुतके साथ मिलकर पहले सभाके बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था और इस समय भी तू दुर्वचन बोल रहा है । तू मेरा भाई होनेसे मारने योग्य नहीं है इसलिए जा मेरे देशसे निकल जा' । इस प्रकार रावणने बहुत ही कठोर शब्द कहे ॥ ४९४-४९७ ॥ रावणकी यात सुनकर विभीषणने विचार किया कि इस दुराचारीका नाश अवश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नाश होगा और यह अपयश करनेवाला नाश मुझे दूषित करेगा ॥ ४९८ ॥ इसने तिरस्कार कर मुझे देशसे निकाल दिया है यह अच्छा ही किया है क्योंकि मुझे यह इष्ट ही है । 'वादल जङ्गलमें ही बरसे' यह कहावत आज मेरे पुण्यसे सम्पन्न हुई है । अब मैं रामचन्द्रके चरणकमलोंके समीप ही जाता हूँ । इस प्रकार चिन्तमें विभीषणने विचार किया और ऐसा ही निश्चय कर लिया ॥ ४९९-५०० ॥ वह शीघ्र ही सौजन्यकी तरह समुद्रके जलका उलङ्घन कर गया और जिस प्रकार किसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास पहुँचता है उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा पहुँचा ॥ ५०१ ॥ रामचन्द्रने तरङ्गोंकी लीला धारण करनेवाले लक्ष्मण आदि अनेक बड़े-बड़े योद्धाओं को विभीषणकी अगवानी करनेके लिए भेजा और वे सब परीक्षा कर तथा विश्वास प्राप्त कर उसे ले आये । विभीषण भी रामचन्द्रके प्रभावको समझता था अतः उनके साथ एकीभावको प्राप्त हो गया—हिलमिल गया । तदनन्तर कुछ ही पड़ाव चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ पहुँची और चारों ओर ठहर गई । उस समय अणुमानने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि हे देव ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शूर-वीरता प्रकट करनेकी इच्छासे लङ्कामें जाऊँ और वनका नाश कर आपके शत्रुका मान भङ्ग करूँ ॥ ५०२-५०५ ॥ साथ ही लङ्काको जलाकर शत्रुके शरीरमें दाह उत्पन्न करूँ । ऐसा करने पर वह अहङ्कारी रावण अभिमानी होनेसे यहाँ आवेगा और उस दशामें स्थान-भ्रष्ट होनेके कारण वह सुखसे नष्ट किया जा सकेगा । यदि यहाँ नहीं भी आवेगा तो उसके प्रतापकी अति तो अवश्य होगी । अणुमानकी यह विज्ञप्ति सुनकर राजा रामचन्द्रने वैसा करनेकी अनुमति दे दी और शूर-वीरतासे सुशोभित अनेक विद्याधरोंको उसका सहायक बना दिया । रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर अणुमान बहुत सन्तुष्ट हुआ । उसने वानर-विद्याके द्वारा शीघ्र ही अनेक भयङ्कर वानरोंकी सेना बनाई और उसे साथ ले शीघ्र ही समुद्रका उलङ्घन किया । वहाँ वह

आग्रहं निग्रहं कृत्वा वनभङ्गं न्यधात् क्रुधम् । 'उद्धर्त्वाकृतकरा घोरां क्रोशन्तो वनपालकाः ॥ ५१० ॥  
 प्राविशच्छारीं घोरां श्रमवन्त्येऽसुखतपुतिम् । तदा राक्षसविद्योयद्भ्रमवन्त्येवकेशिमतः ॥ ५११ ॥  
 अभियाता पुरारक्षा योद्धुं पञ्चवनन्दनम् । अथाविक्रान्तुतद्विन्दुं वाचरानीकनामकाः ॥ ५१२ ॥  
 तानभञ्जन् ससुहृत्सु प्रहस्य वनपादपैः । ततः स्फुरन् महाज्वालविद्युत्सौ बहिः पुरम् ॥ ५१३ ॥  
 निरधाक्षीदधिक्रियं रुक्षरक्षोबलं बलां । एवं रावणदुर्वारप्रतापप्रोक्षतद्रुमम् ॥ ५१४ ॥  
 प्रोन्मुख्य वानरानीकनामकी राममात्मनौ । सखाद्य रावणः सिध्वा<sup>३</sup> बलं संग्रामसन्मुखम् ॥ ५१५ ॥  
 नागतो रावणः केव हेतुचेति विभीषणम् । अमाक्षीद्य स्रोण्यान्वज्जङ्घायां नास्ति रावणः ॥ ५१६ ॥  
 बालिकोकान्तरापतिं सुग्रीवाणुमतोरपि । विद्याबलावलेपित्वज्जगन्मयं स्वयं च ह्यः ॥ ५१७ ॥  
 निवेश्य निजरक्षायाम् सुतस्मिन्द्रजिदाङ्गयम् । अष्टोपवासमासाद्य सम्यग्भिमितेन्द्रियः ॥ ५१८ ॥  
 आदित्यपादशैलेन्द्रे विद्याः संज्ञायन् स्थितः । राक्षसादिमहाविद्यासिद्धासुपचितो भवेत्<sup>४</sup> ॥ ५१९ ॥  
 तद्विग्रपूर्वकं लङ्कामवष्टम्बन्निवेशनम् । प्रयोजनमिति श्रद्धन्तं सीतापतिं प्रति ॥ ५२० ॥  
 नायकाभ्यां ततः सुग्रीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । दत्त्वा गरुडसिंहादिबाह्वन्यौ बन्धमोचनीम् ॥ ५२१ ॥  
 हननावरणीं विद्याश्चतस्रोऽस्य पृथक् पृथक् । प्रज्ञसिविद्याविकृतविमानेन महाबलम् ॥ ५२२ ॥  
 लङ्कापुरबहिर्भागे तच्चिवेशयतः स्म तौ । नभश्चरकुमारेषु तदा रामाज्ञया गिरिम् ॥ ५२३ ॥  
 सम्प्राप्य युद्धयमानेषु रावणस्याप्रसूनुना । सम्भूयेन्द्रजित ययं बुधध्वमिति संक्रुधा ॥ ५२४ ॥

अपने पराक्रमसे वन-पालकोंको पकड़ कर उनका निग्रह करने लगा और क्रोधसे उसने रावणका समस्त वन नष्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी मुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चिल्लाते हुए नगरीमें गये और जो कभी नहीं सुने थे उन भयङ्कर शब्दोंको सुनाने लगे । उस समय राक्षस-विद्याके प्रभावसे फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणुमानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने आये । यह देख अणुमानने भी वानर-सेनाके सेनापतियोंको आज्ञा दी और तदनुसार वे सेनापति लोग वनके वृक्ष उखाड़कर उन्हींसे प्रहार करते हुए उन्हें मारने लगे । तदनन्तर बलवान् अणुमानने नगरके बाहर स्थित राक्षसोंकी रूखी सेनाको अपनी देदीप्यमान महाज्वाल नामकी विद्यासे बहाँका वहीं भस्म कर दिया । इस प्रकार वानर सेनाका सेनापति अणुमान्, रावण के दुर्वार प्रताप रूपी ऊँचे वृक्षको उखाड़ कर रामचन्द्रके समीप वापिस आ गया । इधर रामचन्द्र तबतक सेनाको तैयार कर युद्धके सन्मुख खड़े हो गये ॥ ५०६-५१५ ॥ उस समय उन्होंने विभीषण से पूछा कि रावण किस कारणसे नहीं आया है ? तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया कि इस समय रावण लङ्कामें नहीं है । बालिका परलोक गमन और सुग्रीव तथा अणुमानके विद्याबलका अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिनका उपवास लेकर और इन्द्रियोंको अच्छी तरह वश कर आदित्यपाद नामके पर्वत पर विद्याएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है । राक्षसादि महाविद्याओंके सिद्ध हो जानेपर वह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जावेगा । इसलिए इस समय हम लोगोंका यही काम है कि उसकी विद्यासिद्धिमें विघ्न किया जाय और लङ्काको घेरकर ठहरा जाय, इस प्रकार विभीषणने रामचन्द्रसे कहा । तदनन्तर सुग्रीव और अणुमान् ने अपने द्वारा सिद्ध की हुई गरुडबाहनी, सिंहबाहनी, बन्धमोचनी और हननावरणी नामकी चार विद्याएँ अलग-अलग रामचन्द्र और लक्ष्मणके लिए दीं । इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रज्ञप्ति नामकी विद्यासे बनाये हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेनाको लङ्कानगरीके बाहर मैदानमें ले जाकर खड़ी कर दी । उसी समय कितने ही विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदित्यपाद नामक पर्वत पर जाकर उपद्रव करने लगे । तब रावणके बड़े पुत्र इन्द्रजितने क्रोधमें आकर विद्याधर राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंको यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब लोग मिलकर इनसे युद्ध करो । इन्द्रजितकी बात सुनकर विद्या-देवताओंने कहा कि हमलोगोंने आपके



प्रेषिताः खवराधीशाः प्राण्याः सर्वाश्च देवताः । इयन्तं कालमस्माभिर्भवत्पुण्यबलोद्घात् ॥ ५२५ ॥  
 स्वयामिभूपितं कार्यं साधितं पुण्यसंज्ञके । समर्था मेत्यसायुक्तो व्यक्तं तामिर्दृशाननः ॥ ५२६ ॥  
 भवतीभिर्वराकीभिर्यात किं मम साधयते । इन्महं पौरुषेणैव नृशृगाम् सह खेचरान् ॥ ५२७ ॥  
 सहायैः साधितं कार्यं लज्जायै ननु मानिनाम् । इति क्रुद्धः पुरीमागातदैवासी सहेन्द्रजित् ॥ ५२८ ॥  
 दुष्प्रेष्टस्वास्तपुण्यस्य<sup>१</sup> भूतं भावि<sup>२</sup> विनश्यति । परिवारमुखाद् शत्वा परैर्लङ्कोपरोधनम् ॥ ५२९ ॥  
 हरिणैर्हरिरारुहः पश्य कालविपर्ययम् । अध वासन्नृत्यूनां भवेत्प्रकृतिविभ्रमः ॥ ५३० ॥  
 इति गर्जन्समाक्रान्ततुङ्गमात्सङ्गसिंहवत् । रविकीर्तिं स्वसेनान्यं हरिणध्वजनादिशत् ॥ ५३१ ॥  
 युद्धायात्काल्यतां भेरी शत्रुपक्षक्षवावहा । इत्यादिष्टस्तदैवासी तथा कृत्वाखिलं बलम् ॥ ५३२ ॥  
 काकान्ते कालदूतो वा सहसैकीषकार तत् । अध निर्गत्य लङ्काया विभक्तनिजसाधनः ॥ ५३३ ॥  
 सुकुम्भेन विकुम्भेन कुम्भकर्णेन चापरैः । सहजैरिन्द्रजिन्मुख्येनेन्द्राख्येनेन्द्रकीर्तिना ॥ ५३४ ॥  
 इन्द्रवर्माभिधानेन तनुजैरपरैरपि । महामुखातिकायाख्य<sup>३</sup>दुर्मुखैर्महाबलेः ॥ ५३५ ॥  
 खरवृषणधूमारुखप्रमुखैश्च खगेश्वरैः । इव क्रूरग्रहैर्भास्वाच्चैदावः परिवारितः ॥ ५३६ ॥  
 त्रिजगद्ग्रसनालोककाललीलां विडम्बयन् । न तौ मम पुरः स्थातुं समर्थौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५३७ ॥  
 तिष्ठतः नवभोमायू किं पुनः संहतौ हरेः । अरावणं भवेद्य जगदेतस्सतोस्तयोः ॥ ५३८ ॥  
 सहावश्यमहं ताभ्यां पालयामि महीं नहि । इत्याद्यतर्कितायातनिजामङ्गलमालपन् ॥ ५३९ ॥

पुण्योदयसे इतने समय तक आपका वाञ्छित कार्य किया परन्तु अब आपका पुण्य क्षीण हो गया है इसलिए आपके कहे अनुसार कार्य करनेमें हम समर्थ नहीं हैं । जब उक्त विद्या-देवताओंने रावणसे इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कहने लगा कि आप लोग जा सकती हैं, आप नीच देवता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कार्य सिद्ध होनेवाला है ? मैं अपने पुरुषार्थसे ही इन मनुष्य रूपी हरिणोंको विद्याधरोंके साथ-साथ अभी मार डालता हूँ ॥ ५१६-५२७ ॥ सहायकोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लज्जा उत्पन्न करता है । इस प्रकार क्रुद्ध होकर रावण उसी समय इन्द्रजितके साथ नगरमें आ गया । देखो, जिसका पुण्य नष्ट हो चुका है ऐसे दुश्चरित्र मनुष्यका भूत और भावी सब नष्ट हो जाता है । नगरमें आनेपर उसने परिवारके लोगोंसे ज्ञात किया कि शत्रुओंने लङ्काको घेर लिया है ॥ ५२८-५२९ ॥ उस समय रावण कहने लगा कि समयकी विपरीतना तो देखो, हरिणोंने सिंहको घेर लिया है । अथवा जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनके स्वभावमें विभ्रम हो जाता है ॥ ५३० ॥ इस प्रकार किसी ऊँचे हाथी पर आक्रमण करनेवाले सिंहके समान गरजते हुए रावणने हरिणकी ध्वजा धारण करनेवाले अपनी रविकीर्ति नामक सेनापतिको आदेश दिया ॥ ५३१ ॥ कि युद्धके लिए शत्रुपक्षका क्षय करनेवाली भेरी बजा दो । उसने उसी प्रकार रावणभेरी बजा दी और फल्पकालके अन्तमें यमराजके दूतके समान अपनी समस्त सेना इकट्ठी की । तदनन्तर सेनाका अलग-अलग विभाग कर रावण लङ्कासे बाहर निकला ॥ ५३२-५३३ ॥ उस समय वह सुकुम्भ, निकुम्भ, कुम्भकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें सबसे मुख्य इन्द्रजित्, इन्द्रकीर्ति, इन्द्रवर्मा तथा अन्य राजपुत्रोंसे एवं महाबलवान् महामुख, अतिकाय, दुर्मुख, खरवृषण और धूम आदि प्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट ग्रहोंसे घिरे हुए ग्रीष्म ऋतुके सूर्यके समान जान पड़ता था और तीनों जगतको प्रसनेके लिए सत्पुत्र यमराजकी लीलाको विडम्बित कर रहा था । वह कह रहा था कि राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समर्थ नहीं हैं । अरे, बहुतसे खरगोश और शृगाल इकट्ठे हो जायें तो क्या वे सिंहके सामने खड़े रहे सकते हैं ? आज उनके जीते जी यह संसार रावणसे रहित भले ही हो जाय परन्तु मैं उनके साथ इस पृथिवीका पालन कदापि नहीं करूँगा । इस प्रकार अतर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमङ्गलको

१ दुष्प्रेष्टस्यात्पुण्यस्य ल० । २ च नश्यति ल० । ३ कार्यकर्कः ल०, क०, घ०, म० । कामार्कः त० ।

कालमेघमहागन्धगजस्कन्धमधिष्ठितः । प्रतिवातहतप्रोद्यद्वाक्षसध्वजराजितः ॥ ५४० ॥  
 'अग्नेसरस्फुरत्प्रसरत्प्रस्थगितभास्करः । नानानानकध्वानभिज्ञानानेकपञ्चतिः ॥ ५४१ ॥  
 खेचराभीश्वरो योद्धुं सन्नद्धोऽस्थान्मदोद्धतः । इतो रामस्तदायानकथाकर्णनवृणितः ॥ ५४२ ॥  
 दुर्निवारो रिपुं कोपपावकेनेव निर्दहनू । चक्षुःप्रान्तविनिर्गच्छत्ज्वलद्दीक्षाशिखावर्णीः ॥ ५४३ ॥  
 उल्मुकालीरिवायोद्धुं विक्षिपन् दिक्षुमंक्षु सः । महाविद्यासमूहासपञ्चमाङ्गबलान्वितः ॥ ५४४ ॥  
 तालध्वजः समारुह्य गजमजनपर्वतम् । लक्ष्मणो 'वलयालम्बिविषधृद्गुरुध्वजः ॥ ५४५ ॥  
 उदयाम्निबालरुह्य गजं विजयपर्वतम् । जिनेशिनं प्रणम्येतौ विश्वविभ्रविनाशनम् ॥ ५४६ ॥  
 सुग्रीवानिलुपुत्रादिल्लग्नैः परिवेष्टितौ । सूर्यान्मद्रमसौ वैरितमो हन्तुं समुद्यतौ ॥ ५४७ ॥  
 भासमानौ नयौ बोधौ दसदुर्मतिघातिनौ । रावणाभिसुखं योद्धुं विभज्य ध्वजिनीं निजाम् ॥ ५४८ ॥  
 युद्धभूमिमधिषाय तस्थुत्कासितद्विषौ । तत्र तूर्यमहाध्वानाः प्रतिसेनानकध्वनिम् ॥ ५४९ ॥  
 निर्भर्त्सयन्तो बोद्धुं निष्टरप्रहतेर्भयान् । गुहागङ्गरदेशादीन् विशान्तो वा समन्ततः ॥ ५५० ॥  
 गजवृंहितवाहोरुहेषाघोपाविशेषतः । वर्द्धयन्तो भटानां च सुतरां शौर्यसम्पदम् ॥ ५५१ ॥  
 द्विषां भयं प्रकुर्वन्तो नभोभागमरोधयन् । तदाविष्कृतसंरम्भाः कलत्राणीव दुर्जयाः ॥ ५५२ ॥  
 हस्ताप्रमितमध्यानि नवाभ्मादकुलानि वा । सशराणि मनार्सांश्च गुणनञ्जणि धीमताम् ॥ ५५३ ॥

वह रावण स्वयं कह रहा था ॥ ५३४-५३६ ॥ उस समय वह कालमेघ नामक महा मदान्मन हाथीके ऊपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी ओरसे आनेवाली ) वायुसे ताड़ित होकर फहराती हुई राक्षस-ध्वजाओंसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररत्न देदीप्यमान हो रहा था, उसके ऊपरसे सूर्य आच्छादित हो गया था—सूर्यका आनाप रुक गया था और उसने अपने अनेक प्रकारके बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दसे दिग्गजोंके कान बहिरं कर दिये थे । इस प्रकार उस ओर मद्रसे उद्धत हुआ रावण युद्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामचन्द्र उसके आनेकी बात सुनकर क्रोधसे भूमने लगे ॥ ५४०-५४२ ॥ वह उस समय अत्यन्त दुर्निवार थे और क्रोध रूपी अग्निके द्वारा मानों शत्रुको जला रहे थे । उनके नेत्रोंके समीपसे जो जलती हुई दृष्टि निकल रही थी वह वाणोंके समान जान पड़ती थी और उसे वे जलते हुए अंगारोंके समान युद्ध करनेके लिए दिशाओंमें बड़ी शीघ्रतासे फेंक रहे थे । महाविद्याओंके समूहसे जो उन्हें सेनाका पाँचवाँ अङ्ग प्राप्त हुआ था वे उससे सहित थे । उनकी तालकी ध्वजा थी और वे अञ्जनपर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकले थे । साथ ही, जिसकी ध्वजामें वलयाकार साँपका पकड़ हुए गरुड़का चिह्न बना है ऐसा लक्ष्मण भी विजय-पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकला । इन दोनोंने पहले तो सम्मस्त विघ्न नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया और फिर दोनों ही सुग्रीव तथा अणुमान आदि विद्याधरोंसे वेष्टित हो सूर्य-चन्द्रमाके समान शत्रु रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए चल पड़े ॥ ५४३-५४७ ॥ वे दोनों भाई नयोंके समान सुशोभित थे और द्रम तथा दुर्बुद्धियोंका घान करनेवाले थे । रावणके सामने युद्ध करनेके लिए उन्होंने अपनी सेनाका विभाग कर रक्खा था, इस प्रकार शत्रुओंको भयभीत करते हुए वे युद्ध-भूमिमें जाकर ठहर गये । वहाँ इनके नगाड़ोंके बड़े भारी शब्द शत्रुओंके नगाड़ोंके शब्दोंका तिरस्कृत कर रहे थे सो ऐसा जान पड़ता था कि मानों वे शब्द ऊँचे उठते हुए दण्डोंके कठोर प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथवा गढ़े आदि देशोंमें सव आरसे प्रवेश कर रहे हों— छिप रहे हों ॥ ५४८-५५० ॥ हाथियोंकी चिंघाड़ और घाड़ोंके हींसनेके शब्द विशेष रूपसे योद्धाओंकी शूर-वीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे ॥ ५५१ ॥ उस समय जो आरम्भ प्रकट हो रहे थे वे शत्रुओंको भयभीत करते हुए आकाश-मार्गको रोक रहे थे और स्त्रियोंके समान दुर्जय थे ॥ ५५२ ॥ धनुष धारण करनेवाले लोग अपने-अपने धनुष लेकर निकले थे । उन धनुषोंका मध्यम

१. अग्रसर घ० । २. 'वलयाकारसर्पसाहृतगरुडपताकाः' (ध पु० तके टिप्पणी) 'लक्ष्मणोऽपि मुखालम्बिविष-धृद्गुरुध्वजः' ल० ।

दुरुक्तवचनानीव हृदिभेदीनि दूरतः । दिग्भ्यापिमौर्वीनादत्वात् कोपदुष्कारवन्ति वा ॥ ५५४ ॥  
 कर्णाभ्यर्जप्रवृत्तिस्वाभिगदन्तीव मन्त्रणम् । कुच्छकृत्वेप्यभङ्गस्वास्त्रकृतानीव सज्जनैः ॥ ५५५ ॥  
 शरासनानि सन्धार्य निरगच्छन् धनुर्धराः । खड्गवर्मधरा १धीरमहाश्च पटुशक्तिनः ॥ ५५६ ॥  
 धनान् सतश्चितः कृष्णान् गजिनो विजिगीषवः । २नानाप्रहरणोपेता नानायुद्धविचारदाः ॥ ५५७ ॥  
 परे च परितः प्रापुर्योर्बुं परबलं भटाः । अतिद्रुताः सुराघातैर्दारयन्त इवावनिम् ॥ ५५८ ॥  
 सचामरा महीशा वा समहामणिपीठकाः । आसृतेरिष्टभृत्या वा स्वस्वामिहितकारिणः ॥ ५५९ ॥  
 भुक्षाना इव सप्रासा मधुरैः किङ्किणीरवैः । विजयं वा स्वसैन्यस्य घोषयन्तो निरन्तरम् ॥ ५६० ॥  
 सपक्षा इव सम्पन्नकङ्कटा गगनान्तरम् । किलह्वयिषवो ३लालाजलफेनप्रसूनकैः ॥ ५६१ ॥  
 स्वपादनटनृशार्थमर्चयन्तो धरामिव । हया यवनकाश्मीरवाह्लीकाविसमुद्भवाः ॥ ५६२ ॥  
 स्फुरदुत्खातखड्गांशुविलसत्साद्यचिष्टिताः । महासैन्याब्धिसम्भूततरङ्गभा विनिर्गताः ॥ ५६३ ॥  
 द्विपो भीषयितुं बोधैर्हैवाद्योवैश्विभूपणैः । स्वानुकूलानिलाः शस्त्रभाण्डाः प्रोहण्डकेतवः ॥ ५६४ ॥  
 संग्रामाम्भोनिधेः प्रोताः प्रबेलुः पृथवो रथाः । चक्रणैकेन चेक्ष्मी विक्रमी नस्तयोर्द्वयम् ॥ ५६५ ॥  
 मत्वेति वा द्रुतं पेतुर्दिकृच्छकाक्रमिणो रथाः । नायकाधिष्ठिता शस्त्रैः सम्पूर्णास्तूर्णवाजिनः ॥ ५६६ ॥

भाग हाथके अग्रभागके बराबर था, वे नये बादलोंके समूहके समान जान पड़ते थे, बाण सहित थे, बुद्धिमान् पुरुषोंके मनके समान गुण--डोरी ( पक्षमें दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) से नम्र थे, कठोर वचनोंके समान दूरसे ही हृदयको भेदन करनेवाले थे, उनकी प्रत्यञ्चाका शब्द दिशाओंमें फैल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रोध वश हुड्कार ही कर रहे हों, खिंचकर कानोंके समीप तक पहुँचे हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो कुल्ल मन्त्र ही कर रहे हों, और सज्जनोंकी संगतिके समान वे कठिन कार्य करते हुए भी कभी भ्रम नहीं होते थे ऐसे धनुषोंको धारण कर धनुर्धारी लोग बाहर निकले । कुल्ल धीर वीर योद्धा तलवार और कवच धारण कर जोर-जोरसे चिह्ला रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो विजली सहित गरजते हुए काले मेघोंको ही जीतना चाहते हों । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों ओरसे शत्रुओंकी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ पहुँचे । उनके साथ जो घोड़े थे वे बड़े वेगसे चल रहे थे और सुरोंके आघातसे मानो पृथिवीको विदार रहे थे ॥ ५५३-५५८ ॥ वे घोड़े चमरोंसे सहित थे तथा महामणियोंसे बनी हुई पीठ ( काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे । अथवा किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेवकके समान मरण-पर्यन्त अपने स्वामीका हित करनेवाले थे ॥ ५५९ ॥ उनके मुखमें घासके घ्रास लग रहे थे जिमसे भोजन करते हुएसे जान पड़ते थे और छोटी-छोटी थंढियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसे मालूम हो रहे थे मानो निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा ही कर रहे हों ॥ ५६० ॥ वे घोड़े कवच पहने हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो पंखोंसे युक्त होकर आकाशके मध्यभागको ही लौंघना चाहते हों । उनके मुखोंसे लार रूपी जलका फेन निकल रहा था जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पैररूपी नटोंके नृत्य करनेके लिए फूलोंसे पृथिवीकी पूजा ही कर रहे हों । वे घोड़े यूनान, काश्मीर और वाल्हीक आदि देशोंमें उत्पन्न हुए थे, उन पर ऊँची उठाई हुई देदीप्यमान तलवारोंकी किरणोंसे मुशाभित घुड़सवार बैठे हुए थे, वे महासेना रूपी समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान उधर-उधर चल रहे थे, और जोर-जोरसे हींसनेके शब्द रूपी आभूषणोंसे शत्रुओंको भयभीत करनेके लिए ही मानो निकले हुए थे । इनके सिवाय वायु जिनके अनुकूल चल रही है जिसमें शस्त्र रूपी वर्तन भरे हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड वाली पताकाएँ फहरा रही हैं, और संग्राम रूपी समुद्रके जहाजके समान जान पड़ते हैं ऐसे बड़े-बड़े रथ भी वहाँ चल रहे थे । चक्रवर्ती रावण यदि एक चक्रसे पराक्रमी है तो हमारा पास ऐसे दो चक्र विद्यमान हैं ऐसा समझ कर ममस्त दिशाओंमें आक्रमण करनेवाले रथ वहाँ बड़ी तेजीसे आ रहे थे । जिनके भीतर

सज्जाः सन्तु नो युद्धे बद्धकथाः कथं रथाः । धावन्तु पराको बाहा गजाश्वैभिः किमातुरैः ॥ ५६७ ॥  
जयोऽस्मास्त्विति वा बन्द् सभराः स्वन्दवा ययुः । सम्मार्गागाभिभिः सक्त्वारिभिश्चक्रवर्तिभिः ॥ ५६८ ॥  
रथैर्विष्वक्कामाक्रन्व तैर्द्विचक्रं किमुष्यते । महीधरनिभैः पूर्वकयैरीदृशप्रधारिचः ॥ ५६९ ॥  
पञ्चाप्रसारिताप्रज्ञकी किलहृद्य स्वपेचकाः । अम्भोरुहाकरा बोधव्रक्तपुष्करकोभिः ॥ ५७० ॥  
परप्रणयवृत्तिव्यादर्भकास्तुविधाभिः । रूपेयोत्थापयन्तोऽकीन् कर्णतालैः कटस्थितान् ॥ ५७१ ॥  
सवलाका इवाभ्योपाः समुद्यद्बलध्वजैः । केचित्परमदामोदमात्रायास्भोदवर्चनि ॥ ५७२ ॥  
करैः प्रविकसत्पुष्करैस्तैर्बोद्धुं समुपताः । निधितोदर्घ्वाङ्कुशावस्तद्वृक्षिर्वाण ३ वारिताः ॥ ५७३ ॥  
मुहुर्विभूतमूर्द्धानः करेणुगणसन्निधौ । प्रक्षान्तीभूतसंरम्भा ३ महामात्रावधिष्ठिताः ॥ ५७४ ॥  
मातङ्गास्तुङ्गदेहत्वादाकामन्त इवाखिलम् । सर्वतो निर्बयुर्बाह्वैर्जम्भा धरणीधराः ॥ ५७५ ॥  
केतवभानुकूलानिलेरिता ३ विद्विषं प्रति । चेलुर्दण्डान् परित्वज्ज्य पुरो बोद्धुमिषोद्यताः ॥ ५७६ ॥  
नभसः क्षुद्ररूपस्य मालं जलधराकृतिम् । अथवापनयन्तो वा सङ्घादितरवित्थिचः ॥ ५७७ ॥  
धृतदण्डप्रवृत्तिवाद् वयोतीतायुकारिणः । काले विमुक्तिमत्त्वाच्च मुनिभार्गानुसरिणः ॥ ५७८ ॥  
बलावष्टम्भस्त्रिधावनीनिःकसितसन्निभे । निभ्याञ्जान इवाशेषबोधविश्वसकारणे ॥ ५७९ ॥

उनके स्वामी बैठे हुए हैं, जो अनेक शस्त्रोंसे परिपूर्ण हैं और जिनमें शीघ्रतासे चलनेवाले वेगगामी घोड़े जुते हुए हैं ऐसे तैयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धके लिए बद्धकत्त क्यों न हों ? पैदल चलनेवाले सिपाही, घोड़े और हाथी भले ही आगे दौड़ते चले जायें पर इन व्यग्र प्राणियोंसे क्या होनेवाला है ? विजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है । यह सोचकर ही मानो बोभसे भरे रथ धीरे-धीरे चल रहे थे । सम्मार्ग पर चलनेवाले, शस्त्रोंके धारक एक चक्रवाले चक्रवर्तियोंने जब समस्त दिशाओं पर आक्रमण किया था तब दो चक्रवाले रथोंने समस्त दिशाओं पर आक्रमण किया इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इसी प्रकार पर्वतके समान जिनका अग्रभाग कुछ ऊँचा उठा हुआ था, पीछेकी ओर फैली हुई पृष्ठसे जिनकी पृष्ठका उपान्त भाग कुछ खुल रहा था, जो ऊपरकी ओर उठते हुए सूँढ़के लाल लाल अग्रभागसे सुशोभित थे और इसीलिए जो कमलोंके सरोवरके समान जान पड़ते थे । जिनकी वृत्ति पर-प्रणेष थी—दूसरोंके आधीन थी अतः जो वस्त्रोंके समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलों पर स्थित भ्रमरोंको मानो क्रोधसे ही कान रूपी पंखोंकी फटकारसे उड़ा रहे थे । उड़ती हुई सफेद ध्वजाओंसे जो ब्रगलाओंकी पंक्तियों सहित काले मेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे हाथियोंके मदकी सुगन्ध सूँघकर आकाशमें खिले हुए कमलके समान जिनका अग्रभाग विकसित हो रहा है ऐसी सूँढ़ोंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पंजी नोकवाले अङ्कुरोंकी चोटसे अपाङ्ग प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके समीप धार-धार अपना मस्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोध शान्त हो गया था, जिनपर प्रधान पुरुष बैठे हुए थे और जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसार पर आक्रमण करते हुएसे जान पड़ते थे ऐसे चलते फिरते पर्वतोंके समान ऊँचे-ऊँचे हाथी सब ओरसे निकल कर चल रहे थे ॥ ५६१-५७५ ॥ उस समय अनुकूल पवनसे प्रेरित ध्वजाएँ शत्रुओंकी ओर ऐसी जा रही थीं मानो दण्डोंको छोड़कर पहले ही युद्ध करनेके लिए उद्यत हो रही हों ॥ ५७६ ॥ अथवा सूर्यकी किरणोंको टकनेवाली वे ध्वजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो निर्मल आकाशमें जो मेघरूपी मैल छाया हुआ था उसे ही दूर कर रही हों ॥ ५७७ ॥ अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात् दण्डोंमें लगी हुई बीं इसलिए दृढ़ पुरुषोंका अनुकरण कर रही थीं अथवा समय पर मुक्त होती थीं—खोलकर फहराई जाती थीं इसलिए मुनिमार्गका अनुसरण करती थीं ॥ ५७८ ॥ उस समय धूलि उड़कर चारों ओर फैल गई थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सेनाके बोभसे खिल हुई पृथिवी साँस ही ले रही

१ 'उलूके करिणः पुञ्जमूलोपात्ते च पेचकः' इत्यमरः । २ 'अपाङ्गदेशो निर्याणम्' इत्यमरः ।

३ 'महामात्राः प्रधानानि' इत्यमरः । ४ विद्विषः ल० ।

महाभये वा सन्मार्गे रणविजयिष्वायिनी । पुरामञ्जितपुण्ये वा समस्तनवनाग्रिणे ॥ ५८० ॥  
 स्वल्पेन नभोभारकङ्किण्यग्रहितरहसि । मूर्च्छितं गर्भं कुङ्कलिच्छितं वातिशय्य तत् ॥ ५८१ ॥  
 बलं कङ्कलं किञ्चिद्विषेष्टसम्भवादा । विष्वस्तवैरिभूपाकषिपक्षोभेपमे कनैः ॥ ५८२ ॥  
 पृथौ तस्मिन् रजःक्षोभे प्रक्षाम्ने सति सङ्गुधः । प्रस्पष्टदृष्टिसञ्चाराः सेनावायकचोदिताः ॥ ५८३ ॥  
 मतिं प्रपातसंशुद्धा नवमन्दा वा धनुर्वराः । सरदृष्टिं नियुञ्जन्तो हृदयानि कियोभिनाम् ॥ ५८४ ॥  
 कुर्वन्ति स्थापरत्नाणि सङ्गदानां रणाङ्गणे । युद्धयन्ते स्माहवोत्साहात्तेऽपि तैरिव चोदिताः ॥ ५८५ ॥  
 द्विषतो वा न सत्वाभिन्वकिः स्वात्सुहृदः सतान् । मया मञ्जीकितुं दातुं धृपाञ्जीवितमावदे ॥ ५८६ ॥  
 तस्य कालोऽयमित्येको व्यतरादणं रणे । श्रुत्यहृत्यं यत्तः शूरगतिञ्चान्न ग्रयं<sup>१</sup> फलम् ॥ ५८७ ॥  
 पुरुषार्थत्रयं कैतदेवेत्यन्वोन्मयुष्वते । नात्सङ्गले मूर्तिं वीक्षे कस्यापि स पराभवः ॥ ५८८ ॥  
 ममेति मन्यमानोऽन्यः प्राञ्जुध्वजिष्यत स्वयम् । अभुष्यन्तैवमुत्कोधाः सर्वशस्त्रैरनरतम् ॥ ५८९ ॥  
 सन्वापसन्वमुकार्थमु कामुस्त्रैरनाकुलम् ।<sup>३</sup>अभीतमार्गणेनैव मार्गणा मार्गमात्मनः ॥ ५९० ॥  
 मध्ये विधाप गत्वा द्राक्<sup>४</sup> वरत्र पतिताः परे ।<sup>५</sup>दूरं त्यक्त्वा गुणान्वागैस्तीक्ष्णैः शोणितपायिभिः ॥ ५९१ ॥  
 ऋजुत्वाज्जहिरे प्राणान् गुणोऽपि न गुणः खले । न धैरं न फलं किञ्चिदाप्यन्नन् शराः परान् ॥ ५९२ ॥

हो । अथवा पूर्ण ज्ञानको नाश करनेका कारण मिथ्याज्ञान ही फैल रहा हो ॥ ५७६ ॥ अथवा युद्धमें विघ्न करनेवाला कोई बड़ा भारी भय ही आकर उपस्थित हुआ था । जिसने पूर्वभवमें पुण्य संचित नहीं किया ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार वह धूलि भी सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लग रही थी ॥ ५८० ॥ इस प्रकार वेगसे भारी धूलि आकाशको उल्लंघन कर रही थी अर्थात् समस्त आकाशमें फैल रही थी । उस धूलिके भीतर समस्त सेना ऐसी हो गई मानो मूर्च्छित हो गई हो अथवा गर्भमें स्थित हो, अथवा दीवाल पर लिखे हुए चित्रके समान निश्चेष्ट हो गई हो । उसका समस्त कलकल शान्त हो गया । जिस प्रकार किसी पराजित राजाके चित्तका क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो जाना है उमी प्रकार जब वह धूलिका बहुत भारी क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो गया और दृष्टिका कुछ-कुछ संचार होने लगा तब सेनापतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गई है ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा गमन करनेसे शुद्ध हुए नये वादलोंके समान धनुष धारण करते हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे और युद्धके मैदानमें शत्रु-योद्धाओंके हृदय रागरहित करने लगे । सेनापतियोंके द्वारा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर रहे थे ॥ ५८१-५८५ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनों का बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु मित्रसे प्रकट होता है । मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे आजीविका पाई है—वेतन ग्रहण किया है । अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें वह ऋण चुका रहा था । युद्ध करने में एक तो सेवकका कर्तव्य पूरा होता है, दूसरे यश की प्राप्ति होती है और तीसरे शूर-वीरोंकी गति प्राप्त होती है ये तीन फल मिलते हैं ॥ ५८६-५८७ ॥ तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे परस्पर लड़ रहा था । मैं अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूंगा क्योंकि वह मेरा ही पराभव होगा यह मानता हुआ कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था । इस प्रकार तीव्र क्रोध करते हुए सब योद्धा, दायें-बायें दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे छोड़ने योग्य, और न छोड़ने योग्य सब तरहके शस्त्रोंसे विना किसी आकुलताके निरन्तर युद्ध कर रहे थे । दोनों ओरसे एक दूसरेके सन्मुख छोड़े जानेवाले बाण, बीचमें ही अपना मार्ग बनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पड़ रहे थे । गुण अर्थात् धनुषकी डोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तीक्ष्ण एवं खून पीनेवाले बाण सीधे होनेपर भी प्राणोंका घात कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषमें रहनेवाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं । बाणोंका न तो किसीके साथ वैर था और न उन्हें कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शत्रुओंका घात कर रहे थे ॥ ५८८-५९१ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि

१ ( कङ्कलं यथा स्यात्, क० टि० ) कालकलां काचित् ख० । २ फलत्रयम् ख० । ३ अनीत-ल०, म० । ४ परं प्रपतिताः ल० । ५ दूरे ख० ।

परप्रेरितवृत्तीनां तीक्ष्णानाम्नीदृशी गतिः । <sup>१</sup>खगाः खगीः खगान् जमुर्बद्धवैराः खगा इव ॥ ५९३ ॥  
 नृणाय मन्यमानाः स्वान् प्राणान् पापाः परस्परम् । <sup>२</sup>लक्ष्यबद्धात्मदण्डान्बितास्तुपातिशितैः सैरैः ॥ ५९४ ॥  
 धन्विनः पातयन्ति स्म गिरीन्वा करिणो बहून् । एकेनैकः शरणेभमबधीन्मर्मभेदिना ॥ ५९५ ॥  
 स्वीकुर्वन्त्यत एवान्बमर्मज्ञान् विजिगीषवः । प्रघातमूर्च्छितः कश्चित्प्रवहलोहितो भटः ॥ ५९६ ॥  
 आपतद् गृद्धपक्षानिलोत्थितोऽहन्बहून् पुनः । नीयमानमिषात्मानं वीक्ष्यान्यो देवकन्धवा ॥ ५९७ ॥  
 सोप्तवः सहस्रोदस्थात्सहासो दूरमूर्च्छितः । वाणाङ्किते रणत्तूर्यरणरङ्गे <sup>३</sup>निरन्तरम् ॥ ५९८ ॥  
 नृत्यत्कबन्धके सद्यः शरच्छादितमण्डपे । बद्धान्त्रजालमालोऽन्यो <sup>४</sup>बहलान्नास्रवाधितः ॥ ५९९ ॥  
 राक्षसेन विवाहेन वीरलक्ष्मीं समाक्षिपत् । डाकिन्यश्चतुलं नेदुरारुवन् शैरवं शिवाः ॥ ६०० ॥  
 उर्ध्ववक्त्रवमवह्विस्फुल्लिविभीषणाः <sup>५</sup> । उक्क्षिप्तकतिकाजालश्चल्लोलकपालभृत् ॥ ६०१ ॥  
 अतिपातनिपीतात्मबम्रीद्राक्षसीगणः । निशातशरनाराचचक्राद्युपनिपातनात् ॥ ६०२ ॥  
 निःप्रभं निःप्रतापं च तदाभूदकमण्डलम् । स्याद्वादिभिः समाक्रान्तकुर्वादिकुलवपदा ॥ ६०३ ॥  
 दशाननबलान्यापन् भङ्गं रावचसैनिकैः । इति प्रवृत्ते संग्रामे सुचिरं तद्रणाङ्गणे ॥ ६०४ ॥  
 मृताः केचित्सुनः केचित् प्रहताः प्राणमोक्षणे । अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्ठगतासवः ॥ ६०५ ॥  
 समवर्तीनरान् सर्वान् प्रस्तान् जरयितुं तदा । निःशक्तिर्वान्तघानेतानिति शङ्काविधायिनः ॥ ६०६ ॥

जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा प्रेरित रहती है ऐसे तीक्ष्ण (पैने-कुटिल) पदार्थोंकी ऐसी ही अवस्था होती है। जिनका परस्पर वैर बैधा हुआ है ऐसे अनेक विद्याधर पक्षियोंके समान अपने प्राणोंको वृणके समान मानते हुए बाणोंके द्वारा परस्पर विद्याधरोंका घात कर रहे थे। ५९२-५९४। धनुष धारण करनेवाले कितने ही योद्धा लक्ष्य पर लगाई हुई अपनी दृष्टिके साथ ही साथ शीघ्र पड़नेवाले तीक्ष्ण बाणोंके द्वारा पर्वतोंके समान बहुतसे हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने अपने मर्मभेदी एक ही बाणसे हाथियोंको मार गिराया था सो ठीक ही है क्योंकि <sup>१</sup>स्तीलण तो विजयकी इच्छा करनेवाले शूरवीर दूसरोंका मर्म जाननेवालोंको स्वीकार करते हैं-अपने पक्षमें मिलते हैं। कोई एक योद्धा चोटसे मूर्च्छित हो खूनसे लथपथ हो गया था तथा आये हुए गृद्ध पक्षियोंके पंखोंकी वायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धाओंको मारने लगा था। कोई एक अल्प मूर्च्छित योद्धा, अपने आपको देवकन्या द्वारा ले जाया जाता हुआ देख उत्सवके साथ हँसता हुआ अकस्मात् उठ खड़ा हुआ। जो बाणोंसे भरा हुआ है, जिसमें रणके मारू बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर शिर रहित धड़ नृत्य कर रहे हैं, और जिसमें बाणोंका मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्धस्थलमें जिसकी सब अंतद्वियोंका समूह बैध रहा है और जो बहुतसे खूनके प्रवाहसे पूजित है ऐसे किसी एक योद्धाने राक्षस-विवाहके द्वारा वीर-लक्ष्मीको अपनी ओर खींचा था। उस युद्धस्थलमें डाकिनियाँ बड़ी चपलतासे नृत्य कर रही थीं और शृगाल भयङ्कर शब्द कर रहे थे। वे शृगाल ऊपरकी ओर किये हुए मुखोंसे निकलनेवाले अग्निके तिलगोंसे बहुत ही भयङ्कर जान पड़ने थे। जिसकी कैंचियोंका समूह ऊपरकी ओर उठ रहा है और जो चञ्चल कपालोंको धारण कर रहा है ऐसा राक्षसियोंका समूह बहुत अधिक पिये हुए खूनको उगल रहा था। अत्यन्त तीक्ष्ण बाण नाराच और चक्र आदि शस्त्रोंके पड़नेसे उस समय सूर्यका मण्डल भी प्रभाहीन तथा कान्ति रहित हो गया था। जिस प्रकार स्याद्वादियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिथ्यावादियोंका समूह पराजयको प्राप्त होता है उसी प्रकार उस समय रामचन्द्रजीके सैनिकोंके द्वारा आक्रान्त हुई रावणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रही थीं। इस प्रकार उस रणाङ्गणमें संग्राम प्रवृत्त हुए बहुत समय हो गया ॥ ५९५-६०४ ॥ उस युद्धमें कितने ही लोग मर गये, कितने ही घायल हो गये, और कितने ही पापी, प्राण छोड़नेमें असमर्थ हो कण्ठगत प्राण हो गये ॥ ६०५ ॥ उस समय वे मरणासन्न पुरुष ऐसा सन्देह उपपन्न कर रहे थे कि यमराज

१ नाना खगाः खगीः ल० । २ लक्ष्याबद्धा ख०, ख०, ध०, ग०, म० । ३ निरन्तरे ख०, ग० ।  
 ४ प्रचुररुधिरस्तरणचर्चितः । ५ विभीषणः ख० ।

इतस्ततो मदा व्यवस्ताः शङ्करे जर्जरत्नकाः । जनयन्त्यन्तकस्यापि १वीक्षमाणस्य भीरुत्वम् ॥ ६०७ ॥  
 वाजिनोऽत्र समुच्छिन्नचरणाः सखशाकिनः । अङ्गेनैव समुत्थातुमुद्यन्ति स्मोजितौजसः ॥ ६०८ ॥  
 २अभानिभा भटोन्मुकशरनाराचकीलिताः । प्रक्षरद्वातुनिष्यन्दगिरयो बाल्यवेणवः ॥ ६०९ ॥  
 चक्राद्यवयवैर्भ्रैर्विद्विस्ता सर्वतो रथाः । भान्ति स्म भिन्नपोता वा तत्संप्रामाच्छिषमध्यगाः ॥ ६१० ॥  
 दिनान्येवं बहुम्यासीत् संग्रामो बलयोर्द्वयोः । प्रायेण विमुखे द्वैवे स्वं बलं वीक्ष्यभङ्गुरम् ॥ ६११ ॥  
 सन्तप्तो मायया सीताशिरवच्छेदं दशाननः । विधाय तव देवीयं गृह्णाणेति ख्याक्षिपत् ॥ ६१२ ॥  
 शिरस्तत्पश्यतो भर्तुर्हृदि मोहे कृतास्पदे । खेचरेऽशरसैम्यस्य समीक्ष्य समरोत्सवम् ॥ ६१३ ॥  
 सीतां शीलवतीं कश्चिदपि स्पष्टं त्वया विना । शक्तो नास्ति दशास्यस्य मायेयं मात्रगाः शुचम् ॥ ६१४ ॥  
 नायेति शश्वत् तथ्यमन्नवीत्राद्यणानुजः । विभीषणस्य तद्वाक्यं श्रद्धाय रघुनन्दनः ॥ ६१५ ॥  
 गजारिर्गजयूथं वा भास्करो वा तमस्ततिम् । बलं विभेदयामास सद्यो विद्याधरेऽग्निः ॥ ६१६ ॥  
 प्रकाशयुद्धमुज्जित्वा मायायुद्धविधित्तया । स पुत्रैः सह पौलस्त्यो लङ्घते स्म नभोऽङ्गणम् ॥ ६१७ ॥  
 तं वीक्ष्य तत्रणे दक्षौ दुरीक्ष्य रामलक्ष्मणौ । गजारिविन्तासु न वाहिनीभ्यां ३ समुद्यतौ ॥ ६१८ ॥  
 सुग्रीवाणमदाद्यात्मावधायरबलान्वितौ । रावणेन समं रामो लक्ष्मणोऽप्यग्रसूनुना ॥ ६१९ ॥  
 सुग्रीवः कुम्भकर्णेन मरुत्प्रविकीर्तिना । खरेण केतुरञ्जादिरङ्गदक्षेत्रकेतुना ॥ ६२० ॥

खाते समय तो सबको खा गया परन्तु वह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमें समर्थ नहीं हो सका, इसलिए ही मानो उसने उन्हें उगल दिया था ॥ ६०६ ॥ जिनके अङ्ग जर्जर हो रहे हैं ऐसे कितने ही योद्धा उस युद्धस्थलमें जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे और वे देखनेवाले यमराजको भी भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे—उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था ॥ ६०७ ॥ जिनके पैर कट गये हैं ऐसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर रहे थे ॥ ६०८ ॥ योद्धाओंके द्वारा छोड़े हुए वाणों और नाराचोंसे कीलित हाथी ऐसे सुरोभित हो रहे थे मानो जिनसे गेरूके निर्भर भर रहे हैं और जिनपर छोटे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे पर्वत ही हों ॥ ६०९ ॥ चक्र आदि अवयवोंके टूट जानेसे सब शर बिखरे पड़े रथ ऐसे जान पड़ते थे मानो उस संग्राम रूपी समुद्रके बीचमें चलनेवाले जहाज ही टूटकर बिखर गये हों ॥ ६१० ॥ इस प्रकार उन दोनों सेनाओंमें बहुत दिन तक युद्ध होता रहा । एक दिन रावण भाग्यके प्रतिकूल होनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख बहुत दुःखी हुआ । उसी समय उसने मायासे सीताका शिर काट कर लो, यह तुम्हारी देवी है ग्रहण करो' यह कहते हुए क्रोधसे रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिया ॥ ६११-६१२ ॥ इधर सीताका कटा हुआ शिर देखते ही रामचन्द्रजीके हृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना शुरू किया और उधर रावणकी सेनामें युद्धका उत्सव होना शुरू हुआ । यह देख, विभीषणने रामचन्द्रजीसे सच बात कही कि शीलवती सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा खूनेके लिए भी समर्थ नहीं है । हे नाथ, यह रावणकी माया है अतः आप इस विषयमें शोक न कीजिए । विभीषणकी इस बातपर विश्वास रख कर रामचन्द्रजी रावणकी सेनाको शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके समूहको अथवा सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट करता है ॥ ६१३-६१६ ॥ अब रावण खुला युद्ध छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोंके साथ आकाश रूपी आँगनमें जा पहुँचा ॥ ६१७ ॥ उस माया-युद्धमें रावणको दुरीच्य ( जो देखा न जा सके ) देख कर, अत्यन्त चतुर राम और लक्ष्मण, सिंहवाहिनी तथा गरुड़वाहिनी विद्याओंके द्वारा अर्थात् इन विद्याओंके द्वारा निर्मित—आकाशगामी सिंह और गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए । सुग्रीव, अणुमान आदि अपने पक्षके समस्त विद्याधरोंकी सेना भी उनके साथ थी । रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके साथ लक्ष्मण, कुम्भकर्णके साथ सुग्रीव, रविकीर्तिके साथ अणुमान, खरके साथ कमलकेतु, इन्द्रकेतुके

१ वीक्ष्यमाणस्य क०, ख०, ग०, म० । २ 'अभान् इभाः' शत पदच्छेदः । अभान्-शोभन्ते स्म, इभा गजाः । ३ विनीताभ्यां ल० ।

इन्द्रवर्माभिधानेन कुमुदो युद्धविभ्रतः । खरदूषणमात्रापि नीलो मायाविशारदः ॥ ६२१ ॥  
 एवमन्येऽपि तैरन्ये रामभृत्या रणोद्धताः । दशास्यनायकैः सार्द्धं मायायुद्धमकुर्वन्त<sup>१</sup> ॥ ६२२ ॥  
 तदा रामेण संग्रामे परिभूत<sup>२</sup> दशाननम् । अवलोकयेन्द्रजिन्मध्यं प्राविशद्वात्स्य जीवितम् ॥ ६२३ ॥  
 तं<sup>३</sup> शक्त्यापातयद्गामस्तं निरीक्ष्य खगाधिपः । कुपित्वाऽधाबदुद्दिश्य सशक्तं लक्ष्मणाग्रजम् ॥ ६२४ ॥  
 तन्मध्ये लक्ष्मणस्तूर्णमभूतं दशकन्धरः । मायागजं समारुह्य व्यधात्नाराचपञ्जरे ॥ ६२५ ॥  
 \*प्रहारावरणेनापि प्रतापी गरुडध्वजः । सिंहपोत इव हसो दुनिवारोऽरिवारणैः ॥ ६२६ ॥  
 तत्पञ्जरं विभिद्यासौ निर्ययौ निजविद्यया । दृष्ट्वा तद्रावणः क्रुद्ध्वा प्रसीतं चक्रमादिशत् ॥ ६२७ ॥  
 सिंहनादं तदा कुर्वन् गगने नारदादयः । बाहौ प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणे स्वस्य तिष्ठता ॥ ६२८ ॥  
 चक्रेण विक्रमेणैव मूर्त्तीभूतेन चक्रिणा । तेन तेन शिरोऽग्राहि त्रिखण्डं वा खगेशितुः ॥ ६२९ ॥  
 सोऽपि प्रागेव बद्धाशुर्दुराचारादधोगतिम् । प्रापदापत्करीं घोरं पापिनां का परागतिः ॥ ६३० ॥  
 विजयाब्जं<sup>४</sup> समापूर्य केशवो विश्वविद्विषाम् । अभयं घोषयामास स धर्मो जितभूभुजान् ॥ ६३१ ॥  
 \*तदावशिष्टपौलस्त्यमहामात्राद्योऽलिवन् । मलिना बलचक्रेशपादपङ्कजमाश्रयन् ॥ ६३२ ॥  
 मन्दोदयादितहेवीदुःखनोदनपूर्वकम् । विभीषणाय लङ्कैर्यपद्वन्धं<sup>५</sup> विधाय तौ ॥ ६३३ ॥  
 दशकण्ठान्वयायातविश्वभुक्तिं वितेरतुः । अभूतां च त्रिखण्डेशौ प्रचण्डौ बलकेशवौ ॥ ६३४ ॥

साथ अङ्गद, इन्द्रवर्माक साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुद और खर-दूषणके साथ माया करनेमें चतुर नील युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनेमें अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य भृत्य भी रावणके मुखिया लोगोंके साथ मायायुद्ध करने लगे ॥ ६१८-६२२ ॥ उस समय इन्द्रजीतने देखा कि रामचन्द्रजी युद्धमें रावणको दबाये जा रहे हैं—उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब वह रावणके प्राणोंके समान बीचमें आ चुका ॥ ६२३ ॥ परन्तु रामचन्द्रजीने उते शक्तिकी चाटते गिरा दिया । यह देख रावण कुपित होकर शस्त्रोंसे सुशोभित रामचन्द्रजीकी आर दौड़ा ॥ ६२४ ॥ इसी बीचमें लक्ष्मण बड़ा शात्रतासे उन दोनोंके बीचमें आ गया और रावणने मायामयी हाथोंपर सवार हांकर उते नाराच-पञ्जरमें घेर लिया । अर्थात् लगातार बाण बरसा कर उसे ढँक लिया ॥ ६२५ ॥ परन्तु गरुडकी ध्वजा फहरानेवाला लक्ष्मण प्रहणावरण नामकी विद्यासे बड़ा प्रतापी था । वह सिंह वच्चके समान दृप्त बना रहा और शत्रुरूपी हार्थी उसे रोक नहीं सके ॥ ६२६ ॥ वह अपनी विद्यासे नाराच-पञ्जरको तोड़कर बाहर निकल आया । यह देख रावण बहुत कुपित हुआ और उसने कांठिन हांकर विश्वासपात्र चक्ररत्नके लिए आदेश दिया ॥ ६२७ ॥ उसा समय नारद आदि आकाशमें सिंहनाद करने लगे । वह चक्ररत्न मूर्तिधारी पराक्रमके समान प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मणके दाहिने हाथ पर आकर ठहर गया । तदनन्तर चक्ररत्नको धारण करनेवाले लक्ष्मणने उसी चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान रावणका शिर काटकर अपने आधीन कर लिया ॥ ६२८-६२९ ॥ रावण, अपने दुराचारके कारण पहले ही नरकायुका बन्ध कर चुका था । अतः, दुःख देनेवाली भयंकर ( अधोगति ) नरक गतिकी प्राप्ति हुआ सो ठीक ही है; क्योंकि, पापी मनुष्योंकी और क्या गति हो सकती है ? ॥ ६३० ॥ तदनन्तर लक्ष्मणने विजय-शङ्ख बजाकर समस्त शत्रुओंको अभयदानकी घोषणा की सो ठीक ही है । क्योंकि, राजाओंको जीतनेवाले विजयी राजाओंका यही धर्म है ॥ ६३१ ॥ उसी समय रावणके बचे हुए महामन्त्री आदिने भ्रमरोंके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लक्ष्मणके चरण-कमलोंका आश्रय लिया ॥ ६३२ ॥ रावणकी मन्दादरी आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम और लक्ष्मणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा रावणकी वंश-परम्परासे आई हुई समस्त विभूति उसे प्रदान कर दी । इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र और नारायण होकर तीन खण्डके बलशाली स्वामी हुए ॥ ६३३-६३४ ॥

१ मायायुद्धं व्यकुर्वन्त, म०, ल० । २ परिभूतदशाननम् ख० । ३ शक्त्यापातयद्गाम ल० । ४ प्रहारा-  
 रावणेनाशु क०, ख०, घ०; प्रहारे रावणेनाशु ग० । ५ विजयशङ्खम् । ६ सदावशिष्ट ल० । ७ लङ्कैर्यपद्वन्धं  
 घ० । ८ आभूतां ल० ।



अथ शीलवतीं सीतामशोकवनमध्यगाम् । संग्रामविजयाकर्णनोदीर्णप्रमदान्विताम् ॥ ६३५ ॥  
 रावणानुजसुग्रीवपवमानात्मजादयः । गत्वा यथोचितं दृष्ट्वा ज्ञापयित्वा जयोत्सवम् ६३६ ॥  
 समयुञ्जत रामेण समं लक्ष्मीमिवापराम् । महामणिं वा हारेण कुशलाः कवयोऽथवा ॥ ६३७ ॥  
 वाचं मनोहरार्थेन सन्तो धर्मेण वा धियम् । सङ्गत्यमित्रसम्बन्धान्नवन्तीप्सितसिद्धयः ॥ ६३८ ॥  
 वहन्ती जानकी दुःस्वमा प्राणप्रियदर्शनात् । रामोऽपि तद्वियोगोत्थशोकव्याकुलिताशयः ॥ ६३९ ॥  
 तौ परस्परसन्दर्शात्परां प्रीतिमवापतुः । तृतीयप्रकृतिं प्राप्य नृपो वा सापि वा नृपम् ॥ ६४० ॥  
 आरभ्य विरहाद्भ्रतं यद्यत्तदपृच्छताम् । अन्योन्यसुखदुःखानि निवेद्य सुखिनः प्रियाः ॥ ६४१ ॥  
 कृतदोषो हतः सीता निर्दोषेति निरूप्य ताम् । स्व्यकरोद्वाधवः सन्तो विचारानुचराः सदा ॥ ६४२ ॥  
 ततोऽरिखेपुरोऽगच्छत्स्फुरत्पीठगिरौ स्थितः । अश्रैवाभिववं प्राप्य सर्वतीर्थान्मुसन्तृतैः ॥ ६४३ ॥  
 अष्टोत्तारसहस्रोत्सुवर्णकलशैर्मुदा । देवविद्याधराधीशैः स्वहस्तेन समुद्धृतैः ॥ ६४४ ॥  
 कोटिकाख्यशिलां तस्मिन्नुज्जह्रे राघवानुजः । तन्माहात्म्यप्रतुष्टः सन् सिंहनादं व्यधाहलः ॥ ६४५ ॥  
 तन्निवासी सुनन्दाख्यो यक्षः संपूज्य तौ मुदा । असि सौनन्दकं नाम्ना समानं चक्रिणोऽद्वित ॥ ६४६ ॥  
 अनुगङ्गं ततो गत्वा गङ्गाद्वारसमीपगे । वने निवेश्य शिविरं रथमारुह्य चक्रभृत् ॥ ६४७ ॥  
 गोपुरेण प्रविश्यान्धि निजनामाङ्कितं शरम् । मागधावासमुद्दिश्य व्यमुञ्जत कुञ्चितक्रमः ॥ ६४८ ॥  
 मागधोऽपि शरं व्रीक्ष्य मत्वा स्वं स्वल्पपुण्यकम् । अभिप्लुवन् महापुण्यश्चक्रवर्तीति लक्ष्मणम् ॥ ६४९ ॥

तदनन्तर जो अशोक वनके मध्यमें बैठी है, और संग्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके समाचार सुननेसे प्रकट हुए हर्षमें युक्त है ऐसी शीलवती सीताके पास जाकर विभीषण, सुग्रीव तथा अणुमान् आदिने उसके यथा योग्य दर्शन किये और त्रिजयोत्सवकी खबर सुनाई ॥ ६३५-६३६ ॥ तत्पश्चात् जिस प्रकार कुशल कारीगर महामणिको हारके साथ, अथवा कुशल कवि शब्दको मनोहर अर्थके साथ अथवा सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिको धर्मके साथ मिलाने हैं उसी प्रकार उन विभीषण आदिने दूसरी लक्ष्मीके समान सीताजीको रामचन्द्रजीके साथ मिलायी । सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम भृत्य और मित्रोंके सम्बन्धसे इष्ट-स्मिद्धियाँ हो ही जाती हैं ॥ ६३७-६३८ ॥ उधर जब तक रामचन्द्रजीका दर्शन नहीं हो गया था तब तक सीता दुःखको धारण कर रही थी और उधर रामचन्द्रजीका हृदय भी सीताके वियोगसे उपन्न होनेवाले शोकसे व्याकुल हो रहा था । परन्तु उस समय परस्पर एक-दूसरेके दर्शन कर दोनों ही परम प्रीतिको प्राप्त हुए । रामचन्द्रजी तृतीय प्रकृतिवाली शान्त स्वभाववाली सीताको और सीता शान्त स्वभाववाले राजा रामचन्द्रजीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६३९-६४० ॥ विरहसे लेकर अथ तक्रके जो-जो वृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूसरेसे पूछे सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री-पुरुष परस्पर एक-दूसरेको अपना सुख-दुःख बतलाकर ही सुखी होते हैं ॥ ६४१ ॥ जिसने दोष किया था ऐसा रावण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्दोष है ऐसा विचार कर रामचन्द्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया । सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार ही काम करते हैं ॥ ६४२ ॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय-सुन्दरपीठ नामके पर्वत पर ठहरे वहाँ पर देव और विद्याधरोंके राजाओंने अपने हाथसे उठाते हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दोनोंका बड़े हर्षसे अभिषेक किया । वहाँ पर लक्ष्मणने कोटि-शिला उठाई और उसके माहात्म्यसे सन्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया ॥ ६४३-६४५ ॥ वहाँके रहनेवाले सुनन्द नामके यक्षने उन दोनोंकी बड़े हर्षसे पूजा की और लक्ष्मण के लिए बड़े सम्मानसे सौनन्दक नामकी तलवार दी ॥ ६४६ ॥ तदनन्तर दोनों भाइयोंने गङ्गा नदीके किनारे-किनारे जाकर गङ्गाद्वारके समीप ही वनमें सेना ठहरा दी । लक्ष्मणने रथपर सवार हो गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश किया और पैरको कुछ टेढ़ाकर मागध देवके निवास स्थानकी ओर अपने नामसे चिह्नित बाण छोड़ा ॥ ६४७-६४८ ॥ मागध देवने भी बाण देखकर अपने आपको

रत्नहारं निरीरं च कुण्डलं शरमप्यमुम् । तीर्थान्शुपूर्णकुम्भान्तर्गतमस्मै ददौ सुरः ॥ ६५० ॥  
 ततोऽनुजलधिं गत्वा वैजयन्ताखण्डगोपुरे । वशीकृत्य यथा प्रार्थ्यं तथा वरतनुं च तम् ॥ ६५१ ॥  
 कटकं साङ्गदं चूलामणिं मौलिबिभूषणम् । प्रवेयकं ततश्चक्री कटीसूत्रं च लब्धवान् ॥ ६५२ ॥  
 ततः प्रतीचीमागत्य सबलः सिन्धुगोपुरे । प्रविश्याद्विषं प्रभासं च विनतीकृत्य पूर्ववत् ॥ ६५३ ॥  
 मालां सन्तानकाल्यानां मुक्ताजालप्रलम्बकम् । श्वेतच्छत्रं ततो भूषणान्यन्यान्यपि चाददौ ॥ ६५४ ॥  
 ततः सिन्धोस्तटे गच्छन् प्रतीचीखण्डवासिनः । स्वकीयां श्रावयित्वाशां सारवस्तूनि चाददत् ॥ ६५५ ॥  
 ऐन्द्रस्याभिमुखो भूत्वा बिजयादनिवासिनः । विनमस्य गजाभास्त्रविद्याधरकुमारिकाः ॥ ६५६ ॥  
 रत्नानि चात्मसाकृत्य पूर्वखण्डनिवासिनः । विधाय करदान् म्लेच्छान् विजयीं निर्गतस्ततः ॥ ६५७ ॥  
 द्विगुणाष्टसहस्राणि पट्टबन्धान् महीभुजः । दशोत्तरशताख्यातपुराधीशान् खण्डेभ्यः ॥ ६५८ ॥  
 त्रिखण्डवासिदेवांश्च विधायान्त्रविधायिनः । ह्यारब्ध्वादिंशदण्डान्ते परिनिष्ठितदिग्जयः ॥ ६५९ ॥  
 कृताञ्जलिभिरासेभ्यो देवसेचरभूचरैः । अग्रजाप्रेतरश्चक्री सचक्रः सर्वपूजितः ॥ ६६० ॥  
 कृतमङ्गलनेपथ्यां प्रार्थ्यमानसमागमाम् । कान्तामिष विनीतां<sup>२</sup> तां शक्रवत्प्राविशत्पुरीम् ॥ ६६१ ॥  
 लभगोचरसंशुद्धशुभवेलादिसिक्खिबौ । नरविद्याधरा व्यन्तराधिपप्रमुखाः समम् ॥ ६६२ ॥  
 सिंहासनं समारोप्य श्रीमन्तौ रामलक्ष्मणौ । तीर्थान्शुपूर्णसौवर्णसहस्राष्टमहाघटैः ॥ ६६३ ॥  
 अभिषिच्य त्रिखण्डाधिराज्ये सम्पूजितौ युवाम् । प्रवर्द्धमानलक्ष्मीकावाशास्त्वयशुशुबौ ॥ ६६४ ॥

अल्प पुण्यवान् माना और यह महापुण्यशाली चक्रवर्ती है ऐसा समझकर लक्ष्मणकी स्तुति की । यही नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल और उस वाणको तीर्थ-जलसे भरे हुए कलशके भीतर रखकर लक्ष्मणके लिए भेंट किया ॥ ६४६-६५० ॥ तदनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे चलकर वैजयन्त नामक गोपुर पर पहुँचे और वहाँ पूर्वकी भाँति वरतनु देवको वश किया ॥ ६५१ ॥ उस देवसे लक्ष्मणने कटक, केयूर, मस्तकको सुशोभित करनेवाला चूडामणि, हार और कटिसूत्र प्राप्त किया ॥ ६५२ ॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ ही साथ लक्ष्मण पश्चिम दिशाकी ओर गया और वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश कर उसने पूर्वकी ही भाँति प्रभास नामके देवको वश किया ॥ ६५३ ॥ प्रभास देवसे लक्ष्मणने सन्तानक नामकी माला, जिस पर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छत्र, और अन्य-अन्य आभूषण प्राप्त किये ॥ ६५४ ॥ तत्पश्चात् सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्लेच्छ खण्डमें रहनेवाले लोगोंको अपनी आज्ञा सुनाई और वहाँकी श्रेष्ठ वस्तुओंको ग्रहण किया ॥ ६५५ ॥ फिर दोनों भाई पूर्व दिशाकी ओर सम्मुख होकर चले और विजयार्थ पर्वत पर रहनेवाले लोगोंको वश कर उसने हार्थी, घोंड़े, अस्त्र, विद्याधर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त किये, पूर्व खण्डमें रहनेवाले म्लेच्छोंको कर देनेवाला बनाया और तदनन्तर विजयी होकर वहाँसे बाहर प्रस्थान किया ॥ ६५६-६५७ ॥ इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पट्टबन्ध राजाओंको, एक सौ दश नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको और तीन खण्डके निवासी देवोंको आज्ञाकारी बनाया था । उसकी यह दिग्विजय व्यालीस वर्षमें पूर्ण हुई थी । देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा हाथ जोड़कर सेवा करते थे । इस तरह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलने वाले चक्ररत्नके स्वामी एवं सबके द्वारा पूजित लक्ष्मणने, माङ्गलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समागमकी प्रार्थना करनेवाली कान्ताके समान उस आयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया ॥ ६५८-६६१ ॥ तदनन्तर किसी शुद्ध लग्न और शुभ सुहृत्के आनेपर मनुष्य, विद्याधर और व्यन्तर देवोंके मुखिया लोगोंने एकत्रित होकर श्रीमान् राम और लक्ष्मणको एक ही साथ सिंहासन पर विराजमान कर उनका तीर्थ-जलसे भरे हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंसे अभिषेक किया । इस प्रकार उन्हें तीन खण्डके साम्राज्य पर विराजमान कर प्रार्थना की कि आपकी लक्ष्मी बढ़ती रहे और आपका यश दिशाओंके अन्त तक फैल जावे । प्रार्थना करनेके बाद उन्हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट बाँधे, मणिमय

इत्यारोपितरत्नोरुमुकुटौ मणिभूषणौ । अलंकृत्य महाशीभिः १ पूजयामासुरुत्सुकाः ॥ ६६५ ॥  
 पृथिवीसुन्दरीमुखाः केशवस्य मनोरमाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देव्यः सत्योऽभवन् श्रियः ॥ ६६६ ॥  
 सीताषष्टसहस्राणि रामस्य प्राणवल्लभाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देशास्तावन्महीभुजः ॥ ६६७ ॥  
 शून्यं पञ्चाष्टरन्ध्रोकल्पिता द्रोणमुखाः स्मृताः २ । पदानानि सहस्राणि पञ्चविंशतिसङ्ख्याया ॥ ६६८ ॥  
 कर्कटाः खड्गयुद्धैकप्रमिताः प्राथितार्थदाः । मटम्बास्तत्प्रमाणाः स्युः सहस्राण्यष्ट खेटकाः ॥ ६६९ ॥  
 शून्यसप्तकस्वर्धिमिता प्रामा महाफलाः । ३ अष्टाविंशमिता द्वीपाः समुद्रान्तर्वर्तिनः ॥ ६७० ॥  
 शून्यपञ्चकपक्षाधिप्रमितास्तुङ्गमतङ्गजाः । रथवर्षास्तु तावन्तो नवकोऽस्तुरङ्गमाः ॥ ६७१ ॥  
 खसप्तकद्विवाधुर्युक्ता युद्धशौण्डाः पदातयः । देवाश्चाष्टसहस्राणि गणबद्धाभिमानकाः ॥ ६७२ ॥  
 हलायुधं महारत्नमपराजितनामकम् । अमोघाख्याः ४ शरास्तीक्ष्णाः संख्या कौमुदी गदा ॥ ६७३ ॥  
 रत्नावर्तसिका माला रत्नान्येतानि सौरिणः । तानि यक्षसहस्रेण रक्षितानि पृथक् पृथक् ॥ ६७४ ॥  
 चक्रं सुदर्शनाख्यानं कौमुदीव्युदिता गदा । असिः सौनन्दकोऽमोघमुखी ५ शक्तिः शरासनम् ॥ ६७५ ॥  
 शार्ङ्गं पञ्चयुखः पाञ्चजन्यः शङ्खो महाध्वनिः । कौस्तुभं स्वप्रभाभारभासमानं महामणिः ॥ ६७६ ॥  
 रत्नान्येतानि सप्तैव केशवस्य पृथक् पृथक् । सदा यक्षसहस्रेण रक्षितान्यमितद्युतेः ॥ ६७७ ॥  
 एवं तयोर्भद्रभागधेययोर्भोगसम्पदा । निमग्रयोः सुखाम्भोधौ काले गच्छत्यथान्यदा ॥ ६७८ ॥  
 जिनं मनोहरोद्याने शिवगुप्तसमाह्वयम् । विनयेन समासाद्य पूजायित्वाभिवन्द्य तम् ६ ॥ ६७९ ॥  
 श्रद्धालुर्धर्ममप्राप्सीद्धीमान् रामः सकेशवः । प्रत्यासन्नात्मनिष्ठत्वाच्चिद्विधार्थं ७ निरञ्जनम् ॥ ६८० ॥

आभूषण पहिनाये और बड़े-बड़े आशीवांदांसे अलंकृत कर उल्लुक् हो उनकी पूजा की ॥ ६६२-६६५ ॥  
 लक्ष्मणके पृथिवीसुन्दरीको आदि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतिव्रता रानियाँ थीं और रामचन्द्रजीके सीताकां आदि लेकर आठ हजार प्राणप्यारी रानियाँ थीं । सोलह हजार देश और सोलह हजार राजा उनके आधीन थे । नौ हजार आठ सौ पचास द्रोणमुख थे, पच्चीस हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेवाले बारह हजार कर्कट थे, बारह हजार मटंठ थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाले अड़तालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके भीतर रहनेवाले अट्टाईस द्वीप थे, व्यालीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नवकरोड़ घांड़े थे, युद्ध करनेमें शूर-वीर व्यालीस करोड़ पैदल सैनिक थे और आठ हजार गणबद्ध नामके देव थे ॥ ६६६-६७२ ॥ रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोघ नामके तीक्ष्ण बाण, कौमुदी नामकी गदा और रत्नावर्तसिका नामक माला ये चार महारत्न थे । इन सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार यज्ञदेव रक्षा करते थे ॥ ६७३-६७४ ॥ इसी प्रकार सुदर्शन नामका चक्र, कौमुदी नामकी गदा, सौनन्दक नामका खड्ग, अमोघमुखी शक्ति, शार्ङ्ग नामका धनुष, महाध्वनि करनेवाला पाँच मुखका पाञ्चजन्य नामका शङ्ख और अपनी कान्तिके भारसे शोभायमान कौस्तुभ नामका महामणि ये सात रत्न अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले लक्ष्मणके थे और सदा एक-एक हजार यज्ञ देव उनकी पृथक्-पृथक् रक्षा करते थे ॥ ६७५-६७७ ॥

इस प्रकार सुख रूपी सागरमें निमग्न रहनेवाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंका समय भोग और सम्पदाओंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त नामके जिनराज पधारे । श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान राम और लक्ष्मणने बड़ी विनयके साथ जाकर उनकी पूजा-वन्दना की । तदनन्तर आत्म-निष्ठके अत्यन्त निकट होनेके कारण कृतकृत्य एवं कर्ममल

१ वर्षयामासु ख०, ग०, घ० । २ म पुस्तकेऽयं पाठो मूले मिलितः, क पुस्तके त्वञ्चलिकायां लिखितः, अन्यत्र नास्त्येव । 'प्रामो वृत्त्यावृतः श्यामगरमुरुचतुर्गोपुरोद्भासिसालं, खेटं नद्यद्वेष्टं परिवृतमभितः कर्कटं पत्तनेन । प्रामैयुक्तं मटम्बं दलितदशशतैः पत्तनं रत्नयोनिः, द्रोणास्यं सिन्धुवेलावलवलयितं वाहनं चाद्रि-रुदम्' । ३ अष्टविंशमिता-ख० । ४ खगास्तीक्ष्णा ख० । ५ मेघमुली क०, ग०, ख० । ६-वन्द्यता ख० । ७ निष्ठितार्थनिरञ्जनं क०, ख० । निष्ठितार्थो निरञ्जनः ख० ।

भय्यानुग्रहमुल्यात्मप्रवृत्तिः सोऽप्यभाषत । स्ववाक्प्रसरसज्ज्योत्स्ना समाह्लादिततत्समः ॥ ६८१ ॥  
 प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैर्ज्ञानहेतुभिः । गुणमुख्यनयादानविशेषबललाभतः ॥ ६८२ ॥  
 स्याच्छब्दलाञ्छितास्तित्वनास्तित्वाद्यन्तसन्ततम् । जीवादीनां पदार्थानां तत्त्वमाप्तस्वल्क्षणम् ॥ ६८३ ॥  
 मार्गणा गुणजीवानां समासं संसृतिस्थितिम् । अन्यच्च धर्मसम्बद्धं व्यक्तं युक्तिसमाश्रितम् ॥ ६८४ ॥  
 कर्मभेदान् फलं तेषां सुखदुःखादिभेदकम् । बन्धमोचनयोर्हेतुं स्वरूपं मुक्तिमुक्तयोः ॥ ६८५ ॥  
 इति धर्मविशेषं तत् ततः श्रुत्वा मनीषिणः । सर्वे रामादयोऽभूवन् गृहीतोपासकव्रताः ॥ ६८६ ॥  
 निदानशल्यदोषेण भोगासक्तः स केशवः । बन्धायुर्नारकं घोरं नागृहीद्दर्शनादिकम् ॥ ६८७ ॥  
 एवं संवत्सराशीत्वा साक्ते कतिचित्सुखम् । तदाधिपत्यं भरतशत्रुघ्नाभ्यां प्रदाय तौ ॥ ६८८ ॥  
 स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा वाराणसीं पुरीम् । प्राविशतामधिक्षिप्य शकलीलां स्वसम्पदा ॥ ६८९ ॥  
 सुतो विजयरामाल्यो रामस्यामरस्तम्भिः । पृथिवीचन्द्रनामाभूच्चन्द्राभः केशवस्य च ॥ ६९० ॥  
 अन्यैश्च पुत्रपौत्राद्यैः परीतौ तौ धृतोदयौ । नयतःस्म सुखं कालं त्रिवर्णफलशालिनौ ॥ ६९१ ॥  
 कदाचिलक्ष्मणो नागवाहिनीशयने सुखम् । सुप्तो न्यग्रोधवृक्षस्य भञ्जनं मत्तदन्तिना ॥ ६९२ ॥  
 सैहिकेयनिगीर्णकरंसातलनिवेशनम् । सुधाधवलितोत्तङ्गप्रासादैर्काशविच्युतिम् ॥ ६९३ ॥  
 स्वप्ने दृष्ट्वा समुत्थाय समासाद्य निजाग्रजम् । स्वप्नान् संप्रश्रयं सर्वान् यथाष्टएण्यवेदयत् ॥ ६९४ ॥  
 पुरोहितस्तदाकर्ण्यं फलं तत्रैत्यमब्रवीत् । व्यग्रोधोन्मूलनाद् व्याधिमसाध्यं केशवो ब्रजेत् ॥ ६९५ ॥

कलङ्कसे रहित उक्त जिनराजमे धर्मका स्वरूप पृष्ट्वा ॥ ६७८-६८० ॥ भव्य जीवोंका अनुग्रह करना ही जिनका मुख्य कार्य है ऐसे शिवगुप्त जिनराज भी अपने वचन-समूह रूपी उत्तम चन्द्रिकासे उस सभाको आह्लादित करते हुए कहने लगे ॥ ६८१ ॥ कि इस संसारमें जीवादि कौ पदार्थ हैं उनका प्रमाण नय निलेप तथा निर्देश आदि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्तिके कारण हैं बाध होता है । गौण और मुख्य नयोंके स्वीकार करने रूप बलके मिल जानेमे 'स्यादस्ति', 'स्यान्नास्ति' आदि भङ्गों द्वारा प्रतिपादित धर्मोंसे वे जीवादि पदार्थ सदा युक्त रहते हैं । इनके सिवाय शिवगुप्त जिनराजने आप्त भगवानका स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जीवसमास, संसारका स्वरूप, धर्मसे सम्बन्ध रखने-वाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मोंके भेद, सुख-दुःखादि अनेक भेद रूप कर्मोंके फल, बन्ध और मोक्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप आदि विविध पदार्थोंका विवेचन भी किया । इस प्रकार उनसे धर्मका विशेष स्वरूप सुनकर रामचन्द्रजी आदि समस्त बुद्धिमान पुरुषोंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ ६८२-६८६ ॥ परन्तु भोगोंमें आसक्त रहनेवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषके कारण नरककी भयङ्कर आयुका बन्ध कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दर्शन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया ॥ ६८७ ॥ इस प्रकार राम और लक्ष्मणने कुछ वर्ष तो अयोध्यामें ही सुखसे बिताये तदनन्तर वहाँका राज्य भरत और शत्रुघ्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारके साथ बनारस चले गये और अपना सम्पदासे इन्द्रकी लीलाको निरस्कृत करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ६८८-६८९ ॥ रामचन्द्रके देवके समान विजयराम नामका पुत्र था और लक्ष्मणके चन्द्रमाके समान पृथिवीचन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ ६९० ॥ जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है और जो धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्गके फलसे सुशोभित हैं ऐसे रामचन्द्र और लक्ष्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखसे समय बिताते थे ॥ ६९१ ॥ किसी एक दिन लक्ष्मण नागवाहिनी शय्या पर सुखसे सोया हुआ था । वहाँ उसने तीन स्वप्न देखे—पहला मत्त हाथीके द्वारा बट वृत्तका उखाड़ा जाना, दूसरा राहुके द्वारा निगले हुए सूर्यका रसातलमें चला जाना और तीसरा चूनासे सफेद किये हुए ऊँचे राजभवनका एक-देश गिर जाना । इन स्वप्नोंको देखकर वह उठा, बड़े भाई रामचन्द्रजीके पास गया और बिनयके साथ सब स्वप्नोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर गया ॥ ६९२-६९४ ॥ पुरोहितने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि, बट वृक्षके उखड़नेसे लक्ष्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा,

राहुप्रस्ताकसम्पाताद् १ भाग्यभोगायुषां क्षयः । तुङ्गप्रासादभङ्गेन त्वं प्रयाता तपोवनम् ॥ ६९६ ॥  
 इत्येकान्ते वषत्स्य श्रुत्वा रामो यथार्थवित् । धीरोदात्तया नायान् मनागपि मनःक्षतिम् ॥ ६९७ ॥  
 लोकद्वयहितं मत्वा कारयामास २ घोषणाम् । प्राणिनो नहि हन्तव्याः कैश्चिन्नेति दयांघतः ॥ ६९८ ॥  
 चकार शान्तिपूजां च सर्वज्ञसवनावधिम् । ददौ दानं च दीनेभ्यो येन यद्यद्भीषितम् ॥ ६९९ ॥  
 बभूव क्षीणपुण्यस्य ततः कतिपर्येदिनैः । केशवस्य महाध्याधिरसातोदयचोदितः ॥ ७०० ॥  
 दुःसाध्येनामयेनाऽसौ माघे मास्यसितेऽन्तिमे । दिने तेनागमच्चक्री पृथ्वीं पङ्कप्रभाभिधाम् ॥ ७०१ ॥  
 तद्वियोगेन शोकाक्षिसन्तसहृदयो बलः । कथं कथमपि ज्ञानात्सन्धायात्मानमात्मना ॥ ७०२ ॥  
 कृत्वा शरीरसंस्कारमनुजस्य यथाविधिः । सर्वान्तःपुरदुःखं च प्रशमय्य प्रसन्नवाक् ॥ ७०३ ॥  
 सर्वप्रकृतिसाङ्गिधे पृथिवी ३ सुन्दरीसुते । ज्येष्ठे राज्यं विधायोच्चैः सपट्टं केशवाम्जये ॥ ७०४ ॥  
 अष्टौ विजयरामाद्याः सीतायाः सात्त्विकाः सुताः । लक्ष्मामनभिवान्च्छत्सु तेषां ज्येष्ठेषु सप्तसु ॥ ७०५ ॥  
 दत्त्वाजितञ्जयाख्याय यौवराज्यं कनीयसे । मिथिलामर्पयित्वास्मै त्रिनिर्घेदपरायणः ॥ ७०६ ॥  
 साकेतपुरमभ्येत्य वने सिद्धार्थनामनि । वृषभस्वामिनिष्कान्तितीर्थभूमौ महौजसः ॥ ७०७ ॥  
 शिवगुप्ताभिधानस्य समीपे केवलेशिनः । संसारमोक्षयोर्हेतुफले सम्यक् प्रबुद्धवान् ॥ ७०८ ॥  
 निदानशल्यदांपेण चतुर्यो नारकीं भुञ्जम् । केशवः प्रास इत्येतद्बुध्वाऽस्मादेव ४ शुद्धधीः ॥ ७०९ ॥  
 निरस्ततद्गतस्नेहविधिराभिनिर्बाधिकाल् । वेदात्प्रादुर्भवद्वाधिः सुग्रीवाणुमदादिभिः ॥ ७१० ॥

राहुके द्वारा प्रप्त सूर्यके गिरनेसे उसके भाग्य, भोग और आयुका क्षय सूचित करता है तथा ऊँचे भवनके गिरनेसे आप तपोवनको जावेंगे ॥ ६९५—६९६ ॥ पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले रामचन्द्रजीने पुरोहितके यह वचन एकान्तमें मुने परन्तु धीर-वीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकार-भावको प्राप्त नहीं हुए ॥ ६९७ ॥ तदनन्तर दशमें उद्यत रहनेवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका हितकर मान कर यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ॥ ६९८ ॥ इसके सिवाय उन्होंने सर्वज्ञ देवका स्तनपन तथा शान्ति-पूजा की और दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया ॥ ६९९ ॥ तदनन्तर जिसका पुण्य क्षीण हो गया है ऐसे लक्ष्मणको कुछ दिनोंके बाद असाता वेदनीय कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ ॥ ७०० ॥ उसी असाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका स्वामी लक्ष्मण भरकर माघ कृष्ण अमावस्याके दिन चौथी पङ्क-प्रभा नामकी पृथिवीमें गया ॥ ७०१ ॥ लक्ष्मणके वियोगसे उत्पन्न हुई शोक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्तप्त हो रहा है ऐसे रामचन्द्रजीने ज्ञानके प्रभावसे किसी तरह अपने आप आत्माको सुस्थिर किया, छोटे भाई लक्ष्मणका विधि पूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापूर्ण वचन कहकर समस्त अन्तःपुरका शोक शान्त किया ॥ ७०२—७०३ ॥ फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने पृथिवीसुन्दरी नामकी प्रधान रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणके बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर अपने ही हाथसे उसका पट्ट बाँधा ॥ ७०४ ॥ सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले सीताके विजयराम आदिक आठ पुत्र थे । उनमें से सात बड़े पुत्रोंने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितञ्जय नामके छोटे पुत्रके लिए युवराज पद देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया और स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे विरक्त हो गये ॥ ७०५—७०६ ॥ विरक्त होते ही वे अयोध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस वनमें पहुँचे जो कि भगवान् वृषभदेवके दीक्षाकल्याणकका स्थान होनेसे तीर्थस्थान हो गया था । वहाँ जाकर उन्होंने महाप्रतापी शिवगुप्त नामके केवलीके समीप संसार और मोक्षके कारण तथा फलको अच्छी तरह समझा ॥ ७०७—७०८ ॥ जब उन्हें इन्हीं केवली भगवान्से इस बातका पता चला कि लक्ष्मण निदान नामक शल्यके दोषसे चौथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल हो गई । तदनन्तर जिन्होंने लक्ष्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया है और आभिनिर्वाधिक-मतिज्ञानसे

१ योग्यभोगा—ल० । २ घोषणम् ग०, म०, ल० । ३ सुन्दरे सुते ल० । ४ परायणैः ल० ।  
 ५ बुद्धा देवो विशुद्धधीः ल० ।

विभीषणदिभिश्चामा भूमिषैः पञ्चभिः शतैः । अक्षीतिज्ञतपुत्रैश्च सह संयममाहवान् ॥७११॥  
 तथा सीता महादेवी पृथिवीमुन्दरी युताः । देव्यः श्रुतवती क्लान्तिभिकटे तपसि स्थिताः ॥७१२॥  
 सौ राजयुवराजौ च गृहीतश्रावकप्रती । जिनास्त्रियुग्ममानस्य सम्यक् प्राविशतां पुरीम् ॥७१३॥  
 मोक्षमार्गमनुष्ठाय यथाशक्ति यथाविधि । रामाणुमन्तौ सम्जातौ श्रुतकेवलिनौ मुनी ॥७१४॥  
 जाताः शेषाश्च बुद्ध्यादिसप्तद्वयांविष्कृतोदयाः । एवं छद्मस्थकालेऽस्य पञ्चाब्दोनचतुःशतैः ॥७१५॥  
 व्यतीतवति सद्-न्यामविशेषाद्धतघातिनः । रामस्य केवलज्ञानमुदपाद्यर्कविम्बवत् ॥ ७१६ ॥  
 समुद्रतैकछन्नादिप्रातिहार्यविभूषितः । असिञ्चद्भव्यसस्यानां वृष्टिं धर्ममयीमसौ ॥ ७१७ ॥  
 एवं केवलबोधेन नीत्वा षट्शतवत्सरान् । फाल्गुने मासि पूर्वाह्ने शुक्लपक्षे चतुर्दशी ॥७१८॥  
 दिने सम्मेदगिर्ये तृतीयं ह्युह्यमाश्रितः । योगत्रितयमारुध्य समुच्छिन्नक्रियाश्रयः ॥ ७१९ ॥  
 निःशेषन्यक्कृताघातिकर्मा सोऽणुमदादिभिः । शरीरत्रितयापायादावापत्पदमुत्तमम्<sup>१</sup> ॥७२०॥  
 विभीषणादयः केचिन् प्रापन्ननुदिशं पुनः । रामचन्द्रयग्रदेव्याद्याः काश्चिदीयुरितोऽच्युतम् ॥७२१॥  
 शेषाः कल्पेऽभवात्तादौ लक्ष्मणश्चागतः क्रमात् । नरकात् संयमं प्राप्य मोक्षलक्ष्मीमवाप्स्यति ॥७२२॥  
<sup>२</sup>..... । विनेयात्तस्य जन्मनां भवेद्वैचिन्वमीदृशम् ॥ ७२३ ॥

### वसन्ततिलका

प्रोह्लक्ष्य गोपदमिवाम्बुनिधिं स्वसैन्यै-

रुद्ध्वा रिपोः पुरमगारमिवैकमल्पम् ।

निर्मूल्य वैरिकुलमाशिव सस्यमीष-

ह्यध्या सह क्षितिसुतामपहृत्य शत्रोः ॥ ७२४ ॥

जिन्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई है ऐसे रामचन्द्रजीने सुग्रीव, अणुमान् और विभीषण आदि पाँच सौ राजाओं तथा एक सौ अरुसी अपने पुत्रोंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ७०६-७११ ॥ इसी प्रकार सीता महादेवी और पृथिवीमुन्दरीसे सहित अनेक देवियोंने श्रुतवती आर्यिकाके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ ७१२ ॥ तदनन्तर जिन्होंने श्रावकके व्रत ग्रहण किये हैं ऐसे राजा तथा युवराजने जिनेन्द्र भगवान्के चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमें प्रवेश किया ॥ ७१३ ॥ रामचन्द्र और अणुमान् दोनों ही मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक मोक्षमार्गका अनुष्ठान कर श्रुतकेवली हुए ॥ ७१४ ॥ शेष वचे हुए मुनिराज भी बुद्धि आदि सात ऋद्धियोंके ऐश्वर्यको प्राप्त हुए । इस प्रकार जब छद्मस्थ अवस्थाके तीन सौ पंचानवे वर्ष बीत गये तब शुक्ल ध्यानके प्रभावसे घातिया कर्मोंका क्षय करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रको सूर्य-विम्बके समान केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७१५-७१६ ॥ प्रकट हुए एकछत्र आदि प्रातिहार्योंसे विभूषित हुए केवल रामचन्द्रजीने धर्ममयी वृष्टिके द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोंको सींचा ॥ ७१७ ॥ इस प्रकार केवलज्ञानके द्वारा उन्होंने छह सौ वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशीके दिन प्रातःकालके समय सम्मेदाचलकी शिखर पर तीसरा शुक्लध्यान धारण किया और तीनों योगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके आश्रयसे समस्त अघातिया कर्मोंका क्षय किया । इस प्रकार औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीन शरीरोंका नाश हो जानेसे उन्होंने अणुमान् आदिके साथ उन्नत पद-सिद्ध क्षेत्र प्राप्त किया ॥ ७१८-७२० ॥ विभीषण आदि कितने ही मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र तथा लक्ष्मणकी पट्टरानियाँ सीता तथा पृथिवीमुन्दरी आदि कितनी ही आर्यिकाएँ अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न हुईं ॥ ७२१ ॥ शेष रानियाँ प्रथम स्वर्गमें उत्पन्न हुईं । लक्ष्मण नरकसे निकल कर क्रम-क्रमसे संयम धारण कर मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त होगा ॥ ७२२ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि जीवोंके इसी प्रकारकी विचित्रता होती है ॥ ७२३ ॥ जिन्होंने समुद्रको गोपदके समान उल्लङ्घन किया, जिन्होंने अपनी सेनासे शत्रुके नगरको एक छोटोटेसे घरके समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रुके समस्त वंशको धानके

### शार्दूलविक्रीडितम्

आनन्नामरभूनभश्चरशिरःपीठोदधुताङ्घ्रिद्वयौ,

निष्कण्ठीकृतदक्षिणार्धभरताखण्डत्रिखण्डाधिपौ ।

साकेतं समधिष्ठितौ हतशुचिप्रोद्भासिभास्वत्प्रभौ

दिकप्रान्तद्विप<sup>१</sup> दर्पसर्पशमनव्यग्रोद्वीरश्रियौ ॥ ७२५ ॥

सीरादिप्रभृतिप्रसिद्धविलसद्रत्नावलीरञ्जित-

श्रीसम्पादितभोगयोगसुखिनौ सर्वाधिसन्तर्पकौ ।

चन्द्रार्काविव तेजसा स्वयशसा विद्वं प्रकाश्य स्फुटं

श्रीमन्तौ बलकेशवौ क्षितिमिमां सम्पाल्य साङ्गं चिरम् ॥ ७२६ ॥

### वसन्ततिलका

एकच्छिलोकशिखरं सुखमध्यतिष्ठ-

दन्यश्चतुर्थनरकावनिनायकोऽभूत् ।

भोग्ये समेऽपि परिणामकृताद्विशेषा-

न्मा तद्व्यधाद्वुधवत्सुबुधो<sup>२</sup> निदानम् ॥ ७२७ ॥

देशे सारसमुच्चये नरपतिर्देवो नरादिस्ततः

सौधर्मेऽ<sup>३</sup> निमिषोऽभवत्सुखनिधिस्तस्माच्च्युतोऽस्मिन्नभूत् ।

आक्रान्ताखिलखेचरोज्ज्वलशिरोमालो विनम्यन्वये

स्त्रीलोलो निजवंशकेनुरहिताचाराग्रणी रावणः ॥ ७२८ ॥

आर्सादिहैव मलये विपये महीश-

स्तुक् चन्द्रचूल इति दुश्चरितः समाप्य ।

पश्चात्तपोऽजनि सुरः स सनत्कुमारं

तस्मादिहैव्य समभृद्विभुरर्द्धचक्रौ ॥ ७२९ ॥

खेतके समान शीघ्र ही निर्मूल कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मीके साथ-साथ शत्रुसे सीताको छीन लिया, जिनके दोनों चरण, नम्रीभूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याधरोंके मस्तकरूपी सिंहासन पर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अर्धभरत क्षेत्रको निष्कण्ठक बना दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा ज्येष्ठ मासके सूर्यकी प्रभाका भी तिरस्कृत करती थी। जिनकी वीरलक्ष्मी दिशाओंके अन्तमें रहनेवाले दिग्गजोंके गर्व-रूपी सर्पको शान्त करनेमें सदा व्यग्र रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा सुशोभित रत्नोंकी पंक्तिसे अनुरञ्जित लक्ष्मीके द्वारा प्राप्त करायें हुए भोगोंके संयोगसे जो सदा सुखी रहते थे, जो समस्त याचकोंको संतुष्ट रखते थे, जो तेजसे चन्द्र और सूर्यके समान थे, और जिन्होंने अपने यशसे समस्त संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान् बलभद्र और नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र और लक्ष्मण चिरकाल तक साथ ही साथ इस पृथिवीका पालन करते रहे। उन दोनोंमेंसे एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परिणामोंके द्वारा की हुई विशेषतासे तीन लोकके शिखर पर सुखसे विराजमान हुआ और दूसरा चतुर्थ नरककी भूमिका नायक हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं कि विद्वानोंको मूर्खके समान कभी भी निदान नहीं करना चाहिये ॥ ७२४-७२७ ॥ रावणका जीव पहले सारसमुच्चय नामके देशमें नरदेव नामका राजा था। फिर सौधर्म स्वर्गमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हुआ और तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके राजा विनमि विद्याधरके वंशमें समस्त विद्याधरोंके देदीप्यमान मस्तकोंकी मालापर आक्रमण करनेवाला, स्त्रीलम्पट, अपने वंशको नष्ट करनेके लिए केतु (पुच्छलतारा) के समान तथा दुराचारियोंमें अग्रेसर रावण हुआ ॥ ७२८ ॥ लक्ष्मणका जीव पहले

१ द्विपसर्पदर्पशमन-ल० । २ प्रबुधो क०, घ० । ३ देवः ।

## मुतधिलम्बितम्

मणिमतिः खचरी गुणमूषणा

कृतनिदानमृतेरति<sup>१</sup>कोपिनी ।

ततयशा समभूदिह सुव्रता

परिरता जनकेशसुता सर्ता ॥ ७३० ॥

## मालिनी

इह सचिवतनूजश्चन्द्रचूलस्य मित्रं

विजयविदितनामाऽजायत<sup>२</sup> स्वस्तृतीये ।

कथितकनकचूलो लालितो दिव्यभोगी—

रभवदमितवीर्यः सूर्यवंशे स रामः ॥ ७३१ ॥


जनयतु बलदेवो देवदेवो दुरन्ताद्

दुरितदुरुदयोत्थाद्दूष्यदुःखाहवीयान् ।

अवनतभुवनेशो विश्वददवा विरागो<sup>३</sup>


निखिलसुखनिवासः सोऽष्टयोऽभीष्टमस्मान् ॥ ७३२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे मुनिसुव्रततीर्थकर-हरिषेणचक्रवर्ति-  
रामबलदेवलक्ष्मीधरकेशवसीतारावणपुराणं परिसमाप्तमष्टपद्यं पर्व ॥ ६८ ॥



इसी क्षेत्रके मलयदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त दुराचारी था। जीवनके पिछले भागमें तपश्चरण कर वह सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ फिर वहाँसे आकर यहाँ अर्धचक्री लक्ष्मण हुआ था ॥ ७२६ ॥ सीता पहले गुणरूपी आभूषणोंसे सहित मणिमति नामकी विद्याधरी थी। उसने अत्यन्त क्रुपित होकर निदान मरण किया जिससे यशको विस्तृत करनेवाली तथा अच्छे व्रतोंका पालन करनेवाली जनकपुत्री सर्ता सीता हुई ॥ ७३० ॥ रामचन्द्रका जीव पहले मलय देशके मंत्रीका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र विजय नामसे प्रसिद्ध था फिर तीसरे स्वर्गमें दिव्य भोगोंसे लालित कनकचूल नामका प्रसिद्ध देव हुआ और फिर सूर्यवंशमें अपरिमित बलको धारण करनेवाला रामचन्द्र हुआ ॥ ७३१ ॥ जो दुःखदायी पापकर्मके दृष्ट उदयसे उत्पन्न होनेवाले निन्दनीय दुःखसे बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त इन्द्रोंको नम्र बना दिया था, जो सर्वज्ञ थे, वीतराग थे, समस्त मुखोंके भाण्डार थे और जो अन्तमें देवोंके देव हुए—सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे अष्टम बलभद्र श्री रामचन्द्रजी हम लोगोंकी इष्ट-सिद्धि करें ॥ ७३२ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणके संग्रहमें मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकर, हरिषेण चक्रवर्ती, राम बलभद्र, लक्ष्मीधर ( लक्ष्मण ) नारायण, सीता तथा रावणके पुराणका वर्णन करनेवाला अङ्कमठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥





## एकोनसप्ततितमं पर्व

यस्य नामापि धर्मणां मुक्त्यै हृदयपङ्कजं । नमिर्गमयतान्नम्रान् मोक्षलक्ष्मीं स मंक्षु नः ॥ १ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे विषये वत्सनामनि । कौशाभ्यां नगरे राजा पार्थिवाख्यो विभुविशाम् ॥ २ ॥  
 चक्षुरिद्वान्कुवंदास्य लक्ष्मीं वक्षःस्थले दधन् । साक्षाच्चक्रिव दिक्चक्रमाक्रम्याभास्स विक्रमी ॥ ३ ॥  
 तनूजस्तस्य सुन्दर्या देव्यां सिद्धार्थनामभाक् । मुनिं मनोहरोद्याने परमावधिचीक्षणम् ॥ ४ ॥  
 दृष्ट्वा मुनिवराख्यानं कदाचिद्विनयानतः । समृद्धय धर्मसद्भावं यथावत्तदुदीरितम् ॥ ५ ॥  
 समाकर्ण्य-समुत्पन्नसंवेगः स महीपतिः । मृतिमूलधनेनाधमर्णो मृत्योरिहासुभृत् ॥ ६ ॥  
 वहन् दुःखानि तद्वृद्धिं सर्वो जन्मनि दुर्गतः । रत्नत्रयं समावर्ज्यं तस्मै यावच्च दास्यति ॥ ७ ॥  
 ऋणं सद्बुद्धिकं तावत्कुतः स्वास्थ्यं कुतः सुखम् । इति निश्चित्य कर्मासीन्नहन्तुं विहितोद्यमः ॥ ८ ॥  
 सुताय श्रुतशास्त्राय प्रजापालनशालिने<sup>१</sup> । सिद्धार्थाय समर्थाय क्त्वा राज्यमुदात्तार्थाः<sup>२</sup> ॥ ९ ॥  
 प्राप्त्वाजीव्यपादस्य मुनेर्मुनिवरश्रुतेः । पादमूलं समासाद्य सतां साः वृचिरीदयी ॥ १० ॥  
 सिद्धार्थो व्याप्तसम्यक्त्वो गृहीतानुव्रतादिकः । भोगान् सुखेन भुञ्जानः प्रचण्डोऽपालयत्प्रजाः ॥ ११ ॥  
 काले गच्छति तस्यैवं कदाचित्स्वगुरोर्मुनेः । श्रुत्वा शरीरसंन्यासं विच्छिन्नविषयस्पृहः ॥ १२ ॥  
 सद्यो मनोहरोद्याने बुद्धतत्त्वार्थविस्तृतिः । महाबलाभिधाख्यातात्केवलावगमेक्षणात् ॥ १३ ॥

अथानन्तर—भक्त लोगोंके हृदय-कमलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिके लिए पर्याप्त है—मुक्ति देनेमें समर्थ है एमे नमिनाथ स्वामी हम सबके लिए शीघ्र ही मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १ ॥ इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके वत्स देशमें एक कौशाभ्यां नामकी नगरी है। उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था ॥ २ ॥ वह इक्ष्वाकु वंशके नेत्रके समान था, लक्ष्मीको अपने वक्षःस्थल पर धारण करता था, अतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं पर आक्रमण कर साक्षान् चक्रवर्तीके समान सुशोभित होता था ॥ ३ ॥ उस राजके मुन्दरी नामकी रानीसे सिद्धार्थ नामका पुत्र हुआ था। एक दिन वह राजा मनोहर नामके उद्यानमें गया था। वहाँ उसने परमावधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक मुनिवर नामके मुनिके दर्शन किये और विनयसे नम्र होकर उनसे धर्मका स्वरूप पूछा। मुनिराजने धर्मका यथार्थ स्वरूप बतलाया उमे मुनिके राजाका वैराग्य उत्पन्न हो आया। वह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी मरण-रूपी मूलधन लेकर मृत्युका कर्जदार हो रहा है ॥४-६॥ प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंका भोगता और उस कर्जकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गत हो रहा है—दुर्गतियोंमें पड़कर दुःख उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है। जब तक यह प्राणी रत्नत्रय रूपी धनका उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहूकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तब तक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है? वह सुखी कैसे रह सकता है? ऐसा निश्चय कर वह कर्मरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेका उद्यम करने लगा ॥ ७-८ ॥ उत्कृष्ट बुद्धिके धारक राजा पार्थिवने, अनेक शास्त्रोंके सुनने एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धार्थ नामके अपने समर्थ पुत्रके लिए राज्य देकर पूज्यपाद मुनिवर नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली सा ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है ॥ ९-१० ॥ प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर तथा अणुव्रत आदि व्रत धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगना हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥ ११ ॥

इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराजका समाधिमरण सुना। समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गई। उसने शीघ्र ही मनोहर नामके उद्यानमें जाकर महाबल नामके केवली भगवान्से तत्त्वार्थका विस्तारके

१-शीतले ल० । २ अत्रियं सुधीः ल० । ३ महाबलाभिधाख्यातकेवला-५०, म० । महाबलाभिधानाख्यात् केवला-ल० ।

राज्यभारं समारोप्य श्रीदत्ते स्वसुते सति । लब्धक्षाधिकसम्यक्त्वः शमी संयममाददे ॥ १४ ॥  
 स धृत्वैकादशाङ्गानि बद्ध्वा षोडशकारणैः । अन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोत्तमः ॥ १५ ॥  
 स्वायुरन्ते समाराध्य विमाने <sup>१</sup>लवसत्तमः । देवोऽपराजिते पुण्यादुत्तरेऽनुत्तरेऽभवत् ॥ १६ ॥  
 त्रयस्त्रिंशत्पयोऽध्यायुरेकारत्निसमुष्कृतिः । निश्वासाहारलेश्यादिभावैस्तत्रोदितैर्युतः ॥ १७ ॥  
 जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन् षण्मासैरगमिष्यति । जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये बङ्गनामनि ॥ १८ ॥  
 मिथिलायां महीपालः श्रीमान् गोत्रेण काश्यपः । विजयादिमहाराजो विख्यातो वृषभान्वये ॥ १९ ॥  
 अनुरक्तं व्यधात् कृष्णमुद्यन्निव रविर्जगत् । स्वविरागाद्विरक्तं तत् सोऽतपसस्य तादृशम् ॥ २० ॥  
<sup>२</sup>अवृणीत गुणालिस्तं लक्ष्मीश्च सुकृतोदयात् । पुष्कलाविष्कियं तस्मिन् पुरुषार्थत्रयं ततः ॥ २१ ॥  
 तस्य राज्ये रवावेव तापः क्रोपोऽपि कामिषु । विग्रहाख्या तनुष्वेव मुनिष्वेव विरागता ॥ २२ ॥  
 परार्थग्रहणं नाम कुकविष्वेव बन्धनम् । काव्येष्वेव विवादश्च विद्वत्सुष्वेव जयाधिषु ॥ २३ ॥  
 शरव्याप्तिः सरित्स्वेव ज्योतिष्वेवानवस्थितिः । क्रौर्यं क्रूरग्रहेष्वेव देवेष्वेव पिशाचता ॥ २४ ॥

साथ स्वरूप समझा ॥ १२-१३ ॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया और शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥ १४ ॥ उस पुरुषोत्तमने ग्यारह अङ्ग धारण कर सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया ॥ १५ ॥ और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अनुत्तर विमानमें अतिशय शोभायमान देव हुआ ॥ १६ ॥ वहाँ उसकी तैतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, तथा रवासोच्छ्वास, आहार, लेश्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंके जितने बतलाये गये हैं वह उन सबसे सहित था ॥ १७ ॥ जब इस अहमिन्द्रका जीवनका अन्त आया और वह छह माह बाद यह वहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूद्वीपसे सुशोभित इसी जम्बूद्वीपके बङ्ग नामक देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी । वहाँ भगवान् वृषभदेवका वंशज, काश्यपगोत्री विजयमहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था ॥ १८-१९ ॥ जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य संसारको अनुरक्त—लालवर्णका कर लेता है उसी प्रकार उसने राज्यगद्दी पर आरोह्य होते ही समस्त संसारको अनुरक्त—प्रसन्न कर लिया था और ज्यों-ज्यों सूर्य स्वयं राग—लालिमासे रहित होता जाता है त्यों-त्यों वह संसारको विरक्त—लालिमासे रहित करता जाता है इसी प्रकार वह राजा भी ज्यों-ज्यों विराग—प्रसन्नतासे रहित होता जाता था त्यों-त्यों संसारको विरक्त—प्रसन्नतासे रहित करता जाता था । सारांश यह है कि संसारकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता उर्सापर निर्भर थी सो ठीक ही है क्योंकि उसने वैसा ही तप किया था और वैसा ही उसका प्रभाव था ॥ २० ॥ चूंकि पुण्य कर्मके उदयसे अनेक गुणोंके समूह तथा लक्ष्मीने उस राजाका वरण किया था इसलिए उसमें धर्म, अर्थ, कामरूप तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे ॥ २१ ॥ उस राजाके राज्यमें यदि ताप—उष्णत्व था तो सूर्यमें ही था अन्यत्र ताप-दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्योंमें ही था वहाँके अन्य मनुष्योंमें नहीं था, विग्रह नाम था तो शरीरोंमें ही था अन्यत्र नहीं, विरागता—वीतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी वहाँके अन्य मनुष्योंमें विरागता—स्नेहका अभाव नहीं था । परार्थ ग्रहण—अन्य कवियोंके द्वारा प्रतिपादित अर्थका ग्रहण करना कुकवियोंमें ही था अन्य मनुष्योंमें परार्थग्रहण—दूसरेके धनका ग्रहण करना नहीं था । बन्धन—हरबन्ध, छत्रबन्ध आदिकी रचना काव्योंमें ही थी वहाँके अन्य मनुष्योंमें बन्धन-पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था । विवाद—शास्त्रार्थ यदि था तो विजयकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंमें ही था वहाँके अन्य मनुष्योंमें विवाद—कलह नहीं था । शरव्याप्ति—एक प्रकारके तृणका विस्तार नदियोंमें ही था वहाँके मनुष्योंमें शरव्याप्ति—बाणोंका विस्तार नहीं था । अनवस्थिति—अस्थिरता यदि थी तो ज्योतिष्क देवोंमें ही थी—वे ही निरन्तर

१ अहमिन्द्रः । २ ल० पुस्तके तु 'अवृणीत गुणानेव सर्वान् सुकृतोदयात्' इति पाठः । अत्र द्वितीय-  
 वादे छन्दोमङ्गः ।

वपिपला तन्महादेवी वसुधारादिपूजिता । श्रीह्रीष्टव्यादिभिः सेव्या सुखसुसानिशावधौ ॥ २५ ॥  
 १ शरदादिद्वितीयायां नक्षत्रेष्वदिमे सति । स्वर्गावतरणे भर्तुर्दृष्ट्वा स्वप्नान् पुरोदितान् ॥ २६ ॥  
 स्ववक्राब्जप्रविष्टेभमप्यालोक्य विनिद्रिका । प्रभातपटहृद्धानश्रवणाविष्कृतोत्सवा ॥ २७ ॥  
 अपृच्छत् फलमेतेषां नृप देशावधीक्षणम् । सोऽप्यवादीद्भवद्भर्मे भावितार्थकृदित्यदः ॥ २८ ॥  
 तदैवागस्य देवेन्द्राः स्वर्गावतरणोत्सवम् । विधाय स्वनियोगेन निजधामागमत्समम् ॥ २९ ॥  
 भाषाद्ये स्वातियोगे तं कृष्णपक्षे महौजसम् । दशम्यां विश्वलोकेऽगमसूत तनुजोत्तमम् ॥ ३० ॥  
 देवा द्वितीयकल्याणमप्यभ्येत्य तदा व्यधुः । नमिनामानमप्येनं व्याहरन् मोहभेदिनम् ॥ ३१ ॥  
 मुनिसुव्रततीर्थेशसन्ताने वर्षमानतः । गतेषु पष्टिलक्षेषु नमिनाथसमुद्भवः ॥ ३२ ॥  
 आयुदर्शसहस्राणि वर्षाणां परमं मतम् । उत्सेधो धनुषां पञ्चदश चास्याभिधीयते ॥ ३३ ॥  
 जातरूपद्युतिः सार्द्धद्विसहस्राब्दस्मिन्ने । गते कुमारकालेऽभिषेकमापत्साराज्यकम् ॥ ३४ ॥  
 राज्ये पञ्चसहस्राणि वत्सराणामगुर्विभोः । तदा प्रावृद्धघनाटोपसङ्कटे गगनाङ्गणे ॥ ३५ ॥  
 २ देवं वनविहाराय गतवन्तं महोदयम् । गजस्कन्धसमारूढं भानुमन्तमिवापरम् ॥ ३६ ॥  
 नभस्तलगतौ देवकुमारौ विहितानती । एवं विज्ञापयामासतुर्बद्धकरपङ्कजौ ॥ ३७ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विमानादपराजितान् ॥ ३८ ॥

गमन करते रहते थे वहाँके मनुष्योंमें अनवस्थिति—अस्थिरता नहीं थी । क्रूरता यदि थी तो दुष्ट प्रहोमिं ही थी वहाँके मनुष्योंमें क्रूरता—दुष्टता—निर्दयता नहीं थी और पिशाचता—पिशाच जाति यदि थी तो देवोंमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें पिशाचता—नीचता नहीं थी ॥ २२-२४ ॥ विजय-महाराजकी महादेवीका नाम वपिपला था, देवोंने रत्नवृष्टि आदिसे उसकी पूजा की थी, श्री, ही, धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं । शरद् ऋतुकी प्रथम द्वितीया अर्थात् आश्विन कृष्ण द्वितीयाके दिन अश्विनी नक्षत्र और रात्रिके पिङ्गले पहर जब कि भगवानका स्वर्गावतरण हो रहा था तब सुखसे सोई हुई महारानीने पहले कहें हुए सोलह स्वप्न देखे ॥ २५-२६ ॥ उसी समय उसने अपने मुखमें प्रवेश करना हुआ एक हाथी देखा । देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गई और प्रातः-कालके बाजोंका शब्द सुननेसे उसके हृदयका ठिकाना नहीं रहा ॥ २७ ॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धररण करनेवाले राजासे इन स्वप्नोंका फल पूछा और राजाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भमें भावी तीर्थकरने अवतार लिया है ॥ २८ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर अपने नियोंगके अनुसार भगवानका स्वर्गावतरण महोत्सव-गर्भकल्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर सब साथ ही साथ अपने अपने स्थानपर चले गये ॥ २९ ॥ वपिपला महादेवीने आपाढ़ कृष्ण दशमीके दिन स्वाति नक्षत्रके योगमें समस्त लोकके स्वामी महाप्रतापी जेष्ठपुत्रको उत्पन्न किया ॥ ३० ॥ देवोंने उसी समय आकर जन्मकल्याणकका उत्सव किया और मोह शत्रुको भेदन करनेवाले जिन-बालकका नमिनाथ नाम रक्खा ॥ ३१ ॥ भगवान् मुनिगुव्रतनाथ तीर्थकरकी तीर्थ-परम्परामें जब साठ लाख वर्ष दीत चुके थे तब नमिनाथ तीर्थकरका जन्म हुआ था ॥ ३२ ॥ भगवान् नमिनाथकी आयु दश हजार वर्षकी थी, शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था और कान्ति सुवर्णके समान थी । जब उनके कुमारकालके अर्द्धाई हजार वर्ष बीत गये तब उन्होंने अभिषेकपूर्वक राज्य प्राप्त किया था ॥ ३३-३४ ॥ इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान्को पाँच हजार वर्ष बीत गये । एक दिन जब कि आकाश वर्षा-ऋतुके बादलोंके समूहसे व्याप्त हो रहा था तब महान् अभ्युदयके धारक भगवान् नमिनाथ दूसरे सूर्यके समान हाथीके कन्धपर आरूढ़ होकर वन-विहारके लिए गये ॥ ३५-३६ ॥ उसी समय आकाशमार्गसे आये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे ॥ ३७ ॥ वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक वत्सकावती नामका

अधर्तीयं समुत्पन्नस्तीर्थनाथोऽपराजितः । तस्य केवलपूजार्थं देवेन्द्राः समुपागताः ॥ ३९ ॥  
 तत्सभायामभून् प्रश्नः किमस्ति भरतेऽधुना । कश्चित्तीर्थकृदित्याह सोप्येवं सकलार्थदक् ॥ ४० ॥  
 वङ्गदेशे मिथिलानगरे नमिनाथकः । भावित्तीर्थकरः पुण्यादवतीर्णोऽपराजितात् ॥ ४१ ॥  
 देवोपनीतभोगानां भोक्ता सम्प्रति साध्विति । तपः प्राग्घातकीवण्डे कृत्वा सौधर्मनामनि ॥ ४२ ॥  
 सम्भूयेतौ द्वितीयेऽङ्घ्रि गत्वा तद्वचनश्रुतेः । भवन्तमीक्षितुं पूज्यमावामैव<sup>१</sup> सकौतुकौ ॥ ४३ ॥  
 इति सोऽपि समासन्नकेवलावगमोदयः । चित्ते विधाय तत्सर्वं महीशः प्राविशपुरम् ॥ ४४ ॥  
 तत्र स्वभवसम्बन्धं स्मृत्वा तीर्थकरं च तम् । आजवं जवसंजातसद्भावं भावयन्मुहुः ॥ ४५ ॥  
 अनादिबन्धनैर्गार्ढं वध्वात्मात्मानमात्मना । कायकारागृहे स्थित्वा पापी पश्रीव पञ्चरे ॥ ४६ ॥  
 कुञ्जरो वापितालानो कलयत्पलमात्मनः । नाना दुःखानि भुञ्जानो भूयस्तैरेव रञ्जितः ॥ ४७ ॥  
 इन्द्रियाथैषु संसक्तो रतितोत्रतरोदयात् । अशुचिष्वेवसम्बृद्धतृणोऽवस्करकीटवत् ॥ ४८ ॥  
 विभ्यन्मृत्योस्तमाधावन् वज्र्यदुःखस्तद्वर्जयत् । विपर्यस्तमतिः कटपार्तरौद्राहिताशया ॥ ४९ ॥  
 भवे भ्राम्यत्यविश्राम्यन् प्रभ्राम्यन् पापपाकतः । दृढां निरूढां धिङ्मूढिमभीष्टार्थविधातिनीम् ॥ ५० ॥  
 इति निर्वेद<sup>२</sup> संयोगाद्भोगरागातिद्वरगः । सारस्वतादिसर्वापरागामरसमन्वितः ॥ ५१ ॥  
 क्षयोपशमसम्प्राप्तशस्त<sup>३</sup> संज्वलनोदयः । लब्धघांघिः सुतं राज्ये निजे संयोज्य मुप्रभम् ॥ ५२ ॥

देश है। उसका सुसीमा नगरीमें अपराजित विमानसे अवतार लेकर अपराजित नामके तीर्थङ्कर उत्पन्न हुए हैं। उनके केवलज्ञानकी पूजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये थे ॥ ३८-३९ ॥ उनकी सभामें प्रश्न हुआ कि क्या इस समय भरतक्षेत्रमें भी कोई तीर्थङ्कर है? सर्वदर्शी अपराजित भगवान् ने उत्तर दिया कि इस समय वङ्गदेशके मिथिलानगरमें नमिनाथ स्वामी अपराजित विमानसे अवतीर्ण हुए हैं वे अपने पुण्यादयसे तीर्थकर होनेवाले हैं ॥ ४०-४१ ॥ इस समय वे देवोंके द्वारा लाये हुए भोगोंका अच्छी तरह उपभोग कर रहे हैं—गृहस्थावस्थामें विद्यमान हैं। हे देव! हम दोनों अपने पूर्व जन्ममें धानकीवण्ड द्वीपके रहनेवाले थे वहाँ तपश्चरण कर सौधर्म नामक स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजाके लिए गये थे। वहाँ उनके वचन सुननेसे पूजनीय आपके दर्शन करनेके लिए कौतुकवश यहा आये हैं ॥ ४२-४३ ॥ जिन्हें निकटकालमें ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेवाली है ऐसे भगवान् नमिनाथ देवोंकी उक्त समस्त बातोंको हृदयमें धारण कर नगरमें लौट आये ॥ ४४ ॥ वहाँ वे विदेह क्षेत्रके अपराजित तीर्थकर तथा उनके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें होनेवाले भावोंका बार-बार विचार करने लगे ॥ ४५ ॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्माने अपने आपको अपने आपके ही द्वारा अनादि-कालसे चले आये बन्धनोंमें अच्छी तरह जकड़ कर शरीर-रूपी जेलखानेमें डाल रक्खा है और जिस प्रकार पिंजड़ेके भीतर पापी पश्री दुःखी होता है अथवा आलान—खम्भेसे घेँघा हुआ हाथी दुःखी होता है उसी प्रकार यह आत्मा निरन्तर दुःखी रहता है। यह यद्यपि नाना दुःखोंका भोगता है तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता है। रति नोकपायके अत्यन्त तीव्र उदरयो यह इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त रहता है और विप्राके कीड़ाके समान अपवित्र पदार्थोंमें तृष्णा बढ़ाता रहता है ॥ ४८ ॥ यह प्राणी मृत्युसे डरता है किन्तु उसी ओर दौड़ता है, दुःखोंमें छूटना चाहता है किन्तु उनका ही सञ्चय करता है। हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात है कि आर्त और रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृष्णासे इस जीवकी बुद्धि विपरीत हो गई है। यह बिना किसी विश्रामके चतुर्गतिरूप भवमें भ्रमण करता है और पापके उदयसे दुःखी होता रहता है। इष्ट अर्थका विघात करनेवाली, दृढ़ और अनादि कालसे चली आई इस मूर्खताको भी धिक्कार हो ॥ ४६-५० ॥

इस प्रकार वैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय सारस्वत आदि समस्त वीतराग देवोंने—लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की ॥ ५१ ॥ कर्मोंका

१ मायामैवः ख०, ग०, मावामैव म०, ल० (आवाम्. ऐव, इण् धातोल्लङ्घितमपुरुषद्वितीयबचनस्य रूपम्-आवाम् आगतौ इति भावः) । २ निर्वेदसंवेगात् ल० । ३ प्रशस्त ल० पाठे छन्दोमङ्गः ।

साभिषेकं सुरैः १ प्राप्य परिनिःक्रान्तिपूजनम् । यानमुत्तरकुर्वास्व समाह्वय मनोहरम् ॥ ५३ ॥  
 गत्वा २ चैत्रवनोद्यानं षष्ठोपवसनं श्रितः । आषाढकालपक्षेऽश्विनक्षत्रे दशमीदिने ॥ ५४ ॥  
 अपराह्णे सहस्रेण क्षत्रियाणां सहाप्रहीत् । संयमं संयमापाद्यं ३ सज्जानं च चतुर्थकम् ॥ ५५ ॥  
 भोक्तुं वीरपुरं तस्मै दत्तो गतवते नृपः । सुवर्णवर्णो दत्त्वाश्रमवापाश्रयपञ्चकम् ॥ ५६ ॥  
 छात्रस्थेन ततः काले प्रयाते नववत्सरे । निजदीक्षावने रम्ये मूले वकुलभूरुहः ॥ ५७ ॥  
 तस्य षष्ठोपवासस्य नक्षत्रे ५ आभिधानके । मार्गशीर्षशुचौ पक्षे दिनान्ते केवलं विभोः ॥ ५८ ॥  
 दिने तृतीयनन्दायामभूदखिलगोचरम् । १ नाकनायकसञ्चार्यतुर्यकल्याणभागिनः ५ ॥ ५९ ॥  
 सुप्रभार्यादयः सप्तदशासन् गणनायकाः । चतुःशतानि पञ्चाशत् सर्वपूर्वधरा मताः ॥ ६० ॥  
 शिक्षकाः षट्शतद्वादशसहस्राणि सद्मताः । त्रिज्ञानधारिणां सङ्ख्या सहस्रं षट् शताधिकम् ॥ ६१ ॥  
 तावन्तः पञ्चमज्ञाना मुनयो विक्रियद्विकाः । सर्वे सार्द्धसहस्रं स्युर्मनःपर्ययबोधनाः ॥ ६२ ॥  
 शून्यपञ्चद्विकैकोक्तास्यक्तसङ्गाः प्रकीर्तिताः । सहस्रं वादिनां सङ्ख्या ते सर्वेऽपि समुच्चिताः ॥ ६३ ॥  
 विंशतिः स्युः सहस्राणि मङ्गिनीप्रमुखायिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि तदष्टांशाधिका मताः ॥ ६४ ॥  
 श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः । देवा देवोप्यसङ्ख्यातास्तिर्यञ्चः सङ्ख्यया मिताः ॥ ६५ ॥  
 एवं द्वादशसङ्ख्यानं १ गणैर्नम्रैर्नमीश्वरः । सद्धर्मदेशनं कुर्वन्नायंक्षेत्राणि सर्वतः ॥ ६६ ॥

श्रयोपशम होनेसे उनके प्रशस्त संज्वलनका उदय हो गया अर्थात् प्रत्याग्यानावरण क्रोध मान माया लोभका श्रयोपशम और संज्वलन क्रोध मान माया लोभका मन्द उदय रह गया जिससे रत्नत्रयको प्राप्त कर उन्होंने मुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-भार सौंप दिया ॥ ५२ ॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा किये हुए अभिषेकके साथ-साथ दीक्षा-कल्याणका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरकुरु नामकी मनोहर पालकी पर सवार हो चैत्रवन नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंने वेलाका नियम लेकर आषाढकृष्ण दशमीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें मार्गशर्षके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया और उसी समय संयमी जीवोंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थ—मनःपर्ययज्ञान भी प्राप्त कर लिया ॥ ५३-५५ ॥ पारणाके लिए भगवान् वीरपुर नामक नगरमें गये वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा दत्तने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५६ ॥ तदनन्तर जब छद्मस्थ अवस्थाके नव वर्ष बीत गये तब वे एक दिन अपने ही दीक्षावनमें मनाहर वकुल वृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ़ हुए । वहीं पर उन्हें मार्गशीर्ष शुक्लपक्षकी १० तीसरी नन्दा तिथि अर्थात् एकादशीके दिन सायंकालके समय समस्त पदार्थोंका प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ—उसी समय इन्द्र आदि देवोंने चतुर्थ—ज्ञानकल्याणका उत्सव किया ॥ ५७-५८ ॥ सुप्रभार्यको आदि लेकर उनके सत्रह गणधर थे । चार सौ पचास समस्त पूर्वोंके जानकार थे, बारह हजार छह सौ अच्युत ब्रतोंको धारण करने वाले शिक्तक थे, एक हजार छह सौ अधिज्ञानके धारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात् एक हजार छह सौ ही केवल ज्ञानी थे, पन्द्रह सौ विक्रियाश्रद्धिके धारक थे, बारह सौ पचास परिग्रह रहित मनःपर्ययज्ञानी थे और एक हजार वादी थे । इस तरह सब मुनियोंकी संख्या बीस हजार थी । मङ्गिनीको आदि लेकर पैंतालीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव देवियाँ थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे ॥ ६०-६५ ॥ इस प्रकार समीचीन धर्मका उपदेश करते हुए भगवान् नमिनाथने नम्रीभूत वारह सभाओंके साथ आर्य क्षेत्रमें सब आरं विहार किया । जब उनकी आयुका एक माह बाकी रह गया तब वे विहार बन्द कर सम्भेदशिखर पर जा विराज-

१ प्राप्तपरिनिष्क्रान्तिपूजनः ख०, घ० । २ चित्रवनोद्यानं म०, ल०, । ३ संयमासाद्यं घ० ।

४ नायनायक घ०, ल० । ५ भोगिनः म० । ६ संख्यात म०, घ० ।

\* ज्यौतिष शास्त्रमें 'नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात्' इस श्लोकके क्रमानुसार प्रतिपदा आदि तिथियोंके क्रमसे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम हैं । षष्ठीसे दशमी तककी तथा एकादशीसे पूर्णिमा तककी तिथियोंके भी यही नाम हैं इस प्रकार तीसरी नन्दा तिथि एकादशी होती है ।

विहृत्य विहृतिं त्यक्त्वा मासं सम्मोदपर्वते । सहस्रमुनिभिः साढ्वं प्रतिभाषोगमास्थितः ॥ ६७ ॥  
 वैशाखे मासि कृष्णार्थां चतुर्दश्यां निशाःयये । मुक्तिमश्व्याङ्गनक्षत्रे <sup>१</sup> नमिस्तीर्थकरोऽगमत् ॥ ६८ ॥  
 अकुर्वन्पञ्चमं देवाः कल्याणं चाखिलेशिनः । स्वं स्वमोकश्च सम्प्राप्तपुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥ ६९ ॥

### पृथ्वीच्छन्दः

कनकनकविग्रहो विहितविग्रहो घातिभिः

सहाहितजयो<sup>२</sup> जयेति च नृतो नतैर्नाकिभिः ।

भिर्यं भवभवां<sup>३</sup> बहुं नयतु नः क्षयं नायको

विनेयविदुषां स्वयं विहतविग्रहोऽन्ते नमिः ॥ ७० ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

कौशाख्यां प्रथितस्तृतीयजनने सिद्धार्थनामा नृपः

कृत्वा तत्र तपोऽतिघोरमभवत्तृयेऽमरोऽनुत्तरे ।

तस्मादेत्य पुरे बभूव मिथिलानाम्नीन्द्रवद्यो नमि-

स्तार्थैशच्छिजगद्धितार्थवचनव्यक्त्यैकविंशो जिनः ॥ ७१ ॥

### पृथ्वीवृत्तम्

नमिर्नमितसामरामरपतिः पतञ्चामरो

भ्रमद्भ्रमरविभ्रमभ्रमितपुष्पवृच्छयुत्करः ।

करोतु चरणारविन्दमकरन्दसम्पाथिनां

विनेयमधुपायिनामविरतोरृतुसि जिनः ॥ ७२ ॥

जगत्त्रयजयोत्सिक्तमोहमाहात्म्यमर्दनात् । एकविंशो जिनो लब्धलक्ष्मालक्ष्मीं ददातु नः ॥ ७३ ॥

मान हुए । वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिभा योग धारण कर लिया और वैशाखकृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नक्षत्रमें मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ६६-६८ ॥ उसी समय देवोंने आकर सबके स्वामी श्री नमिनाथ तीर्थकरका पञ्चम—निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर पुण्यरूपी पदार्थको प्राप्त हुए सब देव अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ६९ ॥ जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मोंके साथ युद्ध किया था, समस्त अहितोंको जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्रीभूत देव जय-जय करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो विद्वान् शिष्योंके स्वामी थे और अन्तमें जिन्होंने शरीर नष्ट कर दिया था—मोक्ष प्राप्त किया था वे श्री नमिनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्बन्धी बहुत भारी भयको नष्ट करें ॥ ७० ॥ जो तीसरे भवमें कौशाखी नगरमें सिद्धार्थ नामके प्रसिद्ध राजा थे, वहाँ पर घोर तपश्चरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए और वहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा बन्दीय तीनों जगतके हितकारी वचनोंका प्रकट करनेके लिए नमिनाथ नामक इक्षीसर्वे तीर्थकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंसे नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढारे जा रहे थे और जिनपर उड़ते हुए भ्रमरोंसे सुशोभित पुष्पवृष्टियोंका समूह पड़ा करता था ऐसे श्री नमिनाथ भगवान् चरण-कमलके मकरन्द-रसको पान करनेवाले शिष्य रूपी भ्रमरोंके लिए निरन्तर संतोष प्रदान करते रहें ॥ ७१-७२ ॥ तीनों जगतको जीतनेसे जिसका गर्व बढ़ रहा है ऐसे मोहका माहात्म्य मर्दन करनेसे जिन्हें मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे श्री नमिनाथ भगवान् हम सबके लिए भी मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ७३ ॥

१ नमितीर्थ—म०, ल० । २ अहितानां जयः, अथवा अहितो धृतो जयो येन सः । ३ भवः संसारो भवः कारणं यस्यास्ताम् भियम् ।

द्वीपेऽस्मिन्नुत्तरे भागे महत्स्यैरावताङ्क्ये । लक्ष्मीमान् श्रीपुराधीशो वसुन्धरमहीपतिः ॥ ७४ ॥  
 पद्मावतीवियोगेन भृशं निविण्णमानसः । वने मनोहरे रम्ये वरचर्मोत्तिलेङ्गिणः ॥ ७५ ॥  
 निर्णयं धर्मसद्भावं तनये विनयन्धरे । निवेशितात्मभारः सन् बहुभिर्भुञ्जेः<sup>३</sup> समम् ॥ ७६ ॥  
 संयमं सभ्यगादाय चारित्रं दुश्चरं चरन् । स्वाराधनविधानेन महाशुक्रे सुरोऽभवन् ॥ ७७ ॥  
 षोडशाध्युपमस्वायुर्विद्ययान् भोगान् सुसुज्य सः । ततः प्रच्युत्य तत्तीर्थे वत्साख्यविषयेऽजनि ॥ ७८ ॥  
 नृपस्येक्ष्वाकुर्वंशस्य कौशाम्बीनगरेशिनः । तनूजो विजयाख्यस्य प्रभाकर्या प्रभाधिकः ॥ ७९ ॥  
 सर्वलक्षणसम्पूर्णो जयसेनसमाङ्क्यः । त्रिसहस्रशरजीवी<sup>४</sup> पष्टिहस्तसमुच्छ्रितः ॥ ८० ॥  
 तप्तचामीकरच्छायः स चतुर्दशरत्नभाक् । निधिभिर्नवभिः सेव्यो भोगैर्दशविधैः सुखम् ॥ ८१ ॥  
 चिरमेकादशश्रमधरः कालमर्जोगमत् । अन्येषुस्तुङ्गसौधाम्ने सुसुप्तोऽन्तःपुरावृतः ॥ ८२ ॥  
 कुर्वन् पर्वशशाङ्काभो दिगन्तरविलोकनम् । उल्काभिपतनं वीक्ष्य सुनिर्वेगपरायणः ॥ ८३ ॥  
 उच्चैःस्थितमिदं पश्य भास्वरं पर्ययद्वयम् । परिव्यज्य सुसम्प्रापदयोगतिमपप्रभम् ॥ ८४ ॥  
 उन्नतभूजितं तेजो ममेति मदमावहन् । अनाचरन् हितं मूढः पारलौकिकमात्मने ॥ ८५ ॥  
 विषयेषु विपक्तः सन्नध्रुवेष्ववितपिषु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यत्र प्रमादवान् ॥ ८६ ॥  
 हृत्याकलय्य कालादिलब्ध्या चक्रेडवक्रधीः । त्यक्तुं चक्रादिसाम्राज्यं परिच्छिद्योच्छ्रितेच्छया ॥ ८७ ॥  
<sup>५</sup>नुक्षु राज्यमनिच्छत्सु मर्हायःसु, कनीयसे । दत्त्वा पुत्राय साम्राज्यं वरदत्ताभिधायिनः ॥ ८८ ॥

अथानन्तर—इसी जम्बूद्वीपके उत्तर भागमें एक एरावन नामका बड़ा भारी क्षेत्र है उसके श्रीपुर नगरमें लक्ष्मीमान वसुन्धर नामका राजा रहता था ॥ ७४ ॥ किसी एक दिन पद्मावती स्त्रीके वियोगमें उसका मन अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्दर मनोहर नामके वनमें गया । वहाँ उसने वरचर्म नामके सर्वज्ञ भगवान्में धर्मके सद्भावका निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना मद्य भार सौंपकर अनेक राजाओंके साथ, संयम धारण कर लिया । तदनन्तर कठोर तपश्चरण कर समाधि मरण किया जिससे महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ ॥ ७५-७७ ॥ वहाँ पर उसकी सालह मागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंका अनुभव कर वह वहाँसे च्युत हुआ और इन्हीं नमिनाथ तीर्थकरके तीर्थमें वत्स देशकी कौशाम्बी नगरके अधिपति, इक्ष्वाकुवंशी राजा विजयकी प्रभाकरा नामकी देवीमें कान्तिमान पुत्र हुआ ॥ ७८-७९ ॥ वह सर्व लक्षणांसे युक्त था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार वर्षकी उसकी आयु थी, साठ हाथकी ऊँचाई थी, तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी, वह चौदह रत्नोंका स्वामी था, नौ निधियाँ सदा उसकी सेवा करती थीं, ग्यारहवाँ चक्रवर्ती था और दश प्रकारके भोग भोगता हुआ सुखसे समय बिताता था । किसी एक दिन वह ऊँचे राजभवनकी छत पर अन्नःपुरवर्ती जनोके साथ लोट रहा था ॥ ८०-८२ ॥ पौर्णमासीके चन्द्रमाके समान वह समस्त दिशाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उल्कापात दिखाई दिया । उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान वस्तु अभी तो ऊपर थी और फिर शीघ्र ही अपनी दो पर्यायें छोड़कर कान्तिरहित होती हुई नीचे चली गई ॥ ८३-८४ ॥ 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है, तथा बलवान है' इस तरहके मदको धारण करता हुआ जो मूढ़ प्राणी अपनी आत्माके लिए हितकारी परलोक सम्बन्धी कार्योंका आचरण नहीं करता है और उसके विपरीत नश्वर तथा संतुष्ट नहीं करनेवाले विषयोंमें आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थात् तेज रहित होकर अधोगतिको जाना है ॥ ८५-८६ ॥ ऐसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्तीने काल आदि लब्धियोंकी अनुकूलतासे चक्र आदि समस्त साम्राज्यको छोड़नेका निश्चय कर लिया । वह अपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप धारण करनेकी उदात्त इच्छासे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे

१ निर्विशितात्म-ल० । २ स-ल० । ३ चिन्त्यः पाठः ( भृशुर्भवाद्भिः समम् ) । ४ प्रमंकर्या ख०, ग० । ५ 'हायनोऽस्त्री शरत्समाः' इत्यमरः । ६ वरैः घ०, ख० । ७ परिच्छेद्य यहच्छया ङ० । ८ पुत्रेषु 'तुक्' तोकं चात्मजः प्रजाः ।'

केवलावगमात्प्राप्य संयमं बहुभिः समम् । श्रुतबुद्धितपोविक्रियाशौचद्विविभूषितः ॥ ८९ ॥  
 चारणत्वमपि प्राप्य प्रायोपगमनं श्रितः । सम्मेदे चारणोत्तुङ्गकूटे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥  
 जयन्तेऽनुरारे जातो विमाने लवसरतमः<sup>१</sup> । पुण्योत्तमानुभागोत्थमन्वभूत्सुचिरं सुखम् ॥ ९१ ॥

### पृथ्वीवृत्तम्

वसुन्धरमहीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप्त स-

त्तपाः समजनिष्ट पोढसा समुद्रमित्याशुषा ।

<sup>१</sup>सुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजप्रसेननामा ततो

बभूव बलसरामः सुखनिधिर्जयन्ते विशुः ॥ ९२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नमितीर्थकरजयसेन-  
 चक्रवर्तिपुराणं परिसमाप्तं एकोनसप्ततितमं पर्व ॥ ६९ ॥

—१००—

पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजाओंके साथ वरदत्त नामके केवली भगवान्से संयम धारण कर लिया । वह कुछ ही समयमें श्रुत बुद्धि तप विक्रिया और औपध आदि ऋद्धियोंसे विभूषित हो गया ॥ ८७-८९ ॥ चारण ऋद्धि भी उसे प्राप्त हो गई । अन्तमें वह सम्मेदशिखरके चारण नामके ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ और वहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागमें उत्पन्न हुए मुखका चिरकालके लिए अनुभव करने लगा ॥ ९०-९१ ॥ जयसेनका जीव पहले भवमें वसुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ, वहाँसे चय कर जयसेन नामका चक्रवर्ती हुआ और फिर जयन्त विमानमें मुखका भाण्डार स्वरूप अहमिन्द्र हुआ ॥ ९२ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें नमिनाथ तीर्थकर तथा जयसेन चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेवाला उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

—+ + + +—



## सप्ततितमं पर्व

क्षान्त्यादिवश 'धर्मारालम्बनं यमुदाहरन् । सन्तः सद्धर्मचक्रस्य स नेमिः शंकरोऽस्तु नः ॥ १ ॥  
 संवेगजननं पुण्यं पुराणं जिनचक्रिणाम् । बलानां च श्रुतज्ञानमेतद् वन्दे त्रिशुद्धये ॥ २ ॥  
 पूर्वानुपूर्व्यां वक्ष्येऽहं कृतमङ्गलसक्रियः । पुराणं हरिवंशाख्यं यथाश्रुतं यथाश्रुतम् ॥ ३ ॥  
 अथ जम्बूमति द्वीपे विदेहेऽपरनामनि । 'सीतोदोदकटे देशे सुगन्धिलसमाह्वये ॥ ४ ॥  
 पुरे सिंहपुरे ख्यातो भूपोऽहं हाससंज्ञकः । देव्यस्य जिनदशाख्या तयोः पूर्वभवाजितान् ॥ ५ ॥  
 पुण्योदयान् समुद्रतकामभोगैः सत्सयोः । काले गच्छत्यथान्येद्युरर्हतां परमेष्ठिनाम् ॥ ६ ॥  
 आप्टाङ्गिकमहापूजां विधाय नृपतिप्रिया । कुलस्य तिलकं पुत्रं लप्सीयाहमिति स्वयम् ॥ ७ ॥  
 आशास्यासौ सुखं सुसा निशायां सुप्रसन्नधीः । सिंहे भाकेन्दुपद्माभिषेकानैक्षिण्य सुव्रता ॥ ८ ॥  
 स्वप्नान्तरमेवास्या गर्भे प्रादुरभूकृती । नवमासावसानेऽसावसूत सुतमूर्जितम् ॥ ९ ॥  
 तज्जन्मनः प्रभृत्यन्यैरजय्यस्तपिताऽभवत् । नतोऽपराजिताभ्यानमकुर्वस्तस्य बान्धवाः ॥ १० ॥  
 रूपादिगुणसम्पत्त्या साद्धं वृद्धिमसावगान् । आयौवनं मनांहारी सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम् ॥ ११ ॥  
 तदा मनोहारोद्यानगतं विमलवाहनम् । तीर्थकर्तारमाकर्ण्य वनपालमुख्यान्नपः ॥ १२ ॥  
 स्वान्तःपुरपरीवारपरीतो भक्तिचोदितः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सुहृमुकुलिताञ्जलिः ॥ १३ ॥  
 प्रप्रणम्य समभ्यर्च्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पीतधर्मासृतस्तस्मादकस्माद् भोगनिस्पृहः ॥ १४ ॥

अथानन्तर—सज्जन लोग जिन्हें उत्तम ज्ञान आदि दश धर्म रूपी अंगोंका अवलम्बन बतलाते हैं और जो मर्माचीन धर्मरूपी चक्रकी हाल हैं ऐसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंको शान्ति करनेवाले हैं ॥ १ ॥ जिनेन्द्र भगवान् नारायण और बलभद्रका पुण्यवर्धक पुराण संसारसे भय उत्पन्न करनेवाला है इसलिए इस श्रुतज्ञानको मन-वचन कायकी शुद्धिके लिए बन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ मङ्गलाचरण रूपी सक्रिया करके मैं हरिवंश नामक पुराण कहूँगा और वह भी पूर्वाचार्योंके अनुसार जैसा हुआ है अथवा जैसा सुना है वैसा ही कहूँगा ॥ ३ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तट पर सुगन्धिला नामके देशमें एक सिंहपुर नामका नगर है उसमें अर्हहास नामका राजा राज्य करता था । उसकी स्त्रीका नाम जिनदत्ता था । दोनों ही पूर्वभयमें संचित पुण्य-कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे संतुष्ट रहते थे । इस प्रकार दोनोंका सुखसे समय बीत रहा था । किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र भगवान्की अष्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनेके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलके तिलकभूत पुत्रको प्राप्त करूँ । ऐसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिमें सुखसे सोई । उसी रात्रिको अच्छे व्रत धारण करनेवाली रानीने सिंह, हार्था, सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक इस प्रकार पाँच स्वप्न देखे । स्वप्न देखनेके बाद ही कोई पुण्यात्मा उसके गर्भमें अवतीर्ण हुआ और नौ माह बीत जानेपर रानीने बलवान् पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर उसका पिता शत्रुओं द्वारा अजय हो गया था इसलिए भाई-बान्धवोंने उसका नाम अपराजित रक्खा ॥ ४-१० ॥ वह रूप आदि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ साथ यौवन अथवा तब बढ़ता गया इसलिए देवोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा ॥ ११ ॥ तदनन्तर किसी एक दिन राजाने वनपालके मुखसे सुना कि मनाहर नामके उद्यानमें विमलवाहन नामक तीर्थकर पधारें हुए हैं । सुनते ही वह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ वहाँ गया । वहाँ जाकर उसने बारबार प्रदक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्ध, पुष्प अक्षत आदिके द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा धर्मरूपी अमृतका पान किया । यह सब

तुजेऽपराजिताख्याय दत्त्वा सप्तसम्पदम् । तपोऽर्घ्यं समुपादत्त<sup>१</sup> पञ्चभिर्भुजां शतैः ॥ १५ ॥  
 कुमारोऽपि गृहीताणुव्रतादिः शुद्धदर्शनः । प्राविशलक्षितो लक्ष्म्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६ ॥  
<sup>२</sup>तन्त्रावापगतं चिन्तां <sup>३</sup>निधाय निजमन्त्रिषु । सकः शास्त्रोक्तमार्गेण तदासौ धर्मकामयोः ॥ १७ ॥  
 कदाचिन्नजिपित्रामा जिनं विमलवाहनम् । मुक्त्या वशीकृतं श्रुत्वा गन्धमादनपर्वते ॥ १८ ॥  
 अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं जिनं विमलवाहनम् । इति प्रतिज्ञयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥  
 तदा शकाज्ञया यक्षपतिविमलवाहनम् । तस्य संदर्शयामास साक्षात्कृत्वा महाशुभम्<sup>४</sup> ॥ २० ॥  
 जैनगहे समभ्यर्च्य तं सांऽपि कृतवन्दनः । भुङ्क्तेऽस्मि स्नेहशोकार्त्तचित्तसां का विचारणा ॥ २१ ॥  
 वसन्तसमयेऽन्येद्युर्नन्दीश्वरदिनेष्वसौ । जिनचैत्यानि सम्पूज्य तत्संस्तवनपूर्वकम् ॥ २२ ॥  
 तत्र स्थितः स्वयं धर्मदेशनां विदधत्सुधीः । खाद् वियञ्चारणौ साधू प्रापनुस्तस्थतुः पदः ॥ २३ ॥  
 प्रणिपत्य तयोर्देवतास्तवावसितौ नृपः । सांपचारं समभ्येत्य श्रुत्वा धर्ममभाषत ॥ २४ ॥  
 भगवन्तावहं पूज्यौ क्वचित्प्राग्दृष्टवानिति । ज्येष्ठो मुनिस्त्वाचैवं सत्यमावां त्वयेक्षितौ ॥ २५ ॥  
 त्वद्दर्शनप्रदेशं च वक्ष्यामि शृणु भूपते । पुष्कराद्वापराद्वान्द्रापरभागे महासरित् ॥ २६ ॥  
 तस्याश्वास्युत्तरे भागे गन्धिलो विषयो महान् । तत्खगाद्द्यूत्तरश्रेण्यां सूर्यप्रभपुराधिपः ॥ २७ ॥  
 राजा सूर्यप्रभस्तस्य धारिणी प्राणवल्लभा । तयोश्चिन्तागतियज्येष्टस्तनुजोऽनुमनोगदिः ॥ २८ ॥  
 ततश्चपलगत्याख्यस्त्रिभिस्तैस्तौ मुदं गतौ । चिरं धर्मार्थकामैवां के न तुप्यन्ति सत्सुनैः ॥ २९ ॥

करते ही अकस्मान् उसकी भोगोंकी इच्छा शान्त हो गई जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सौ राजाओंके साथ ज्येष्ठ तप धारण कर लिया ॥११-१५॥ कुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर अनुव्रत आदि श्रावकके व्रत ग्रहण किये और फिर जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी तरह लक्ष्मीमें युक्त हो अपनी राजधानीमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अपने मन्त्रियोंपर छोड़ दी और स्वयं शास्त्रोक्त मार्गसे धर्म तथा काममें लीन हो गया ॥ १७ ॥

किसी एक समय उसने मुना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान् गन्धमादन पर्वतपर मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं । यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि 'मैं श्री विमलवाहन भगवान्के दर्शन किये बिना भोजन नहीं करूँगा । इस प्रतिज्ञामें उमे आठ दिनका उपवास हो गया ॥१८-१९॥ तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञामें यक्षपतिने उस राजाको महान् शुभ रूप श्री विमलवाहन भगवान्का साक्षात्कार कराकर दर्शन कराया । राजा अपराजितने जिन-मन्दिरमें उन विमलवाहन भगवान्की पूजा बन्दना करनेके बाद भोजन किया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे पीड़ित हो रहा है उन्हें तबका विचार कैसे हो सकता है ? ॥ २०-२१ ॥ किसी एक दिन वसन्त ऋतुकी आष्टाह्निकाके समय बुद्धिमान राजा अपराजित जिन-प्रतिमाओंकी पूजाकर उनकी स्तुति कर वहीं पर बैठा हुआ था और धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय आकाशमें दो चारणऋद्धि धारी मुनिराज आकर वहीं पर त्रिराजमान हो गये । जिनेन्द्र भगवान्की स्तुतिके समाप्त होने पर राजाने बड़ी वितयके साथ उनके सन्मुख जाकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया, धर्मोपदेश मुना और तदनन्तर कहा कि हे पूज्य ! हे भगवन ! मैंने पहले कभी आपको देखा है । उन दोनों मुनियोंमें जो ज्येष्ठ मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ राजन् ! ठीक कहते हो, हम दोनोंको आपने देखा है ॥ २२-२५ ॥ परन्तु कहाँ देखा है ? वह स्थान मैं कहता हूँ मुना । पुष्करार्थ द्वीपके पश्चिम सुमेरु की पश्चिम दिशामें जो महानदी है उसके उत्तर तट पर एक गन्धिल नामका महादेश है । उसके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें सूर्यप्रभ नगरका स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था । उसकी स्त्री का नाम धारिणी था । उन दोनोंके बड़ा पुत्र चिन्तागति दूसरा मनोगति और तीसरा चपलगति

१ समुपादत्त ल० । २ तन्त्रवीगतां (?) ल० । ३ निजाय ल० । ४ महाशुभः ख०, ग० ।  
 महाशुचः ल० ।

तस्यामेवोत्तरश्रेण्यामरिन्दमपुरेश्वरात् । अरिञ्जयाख्यादजितसेनायामभवत्सुता ॥ ३० ॥  
सती प्रीतिमती मेरुगिरेः सकलखेचरात्<sup>१</sup> । त्रिभान्या साऽजयच्चिन्तागतिं मुक्त्वा<sup>२</sup> स्वविद्यया ॥ ३१ ॥  
जित्वा चिन्तागतिवैगारां पश्चादिति चात्रवीत् । सम्भावय कर्नीयांसं मम त्वं रत्नमालया ॥ ३२ ॥  
श्रुततद्बचना साह नाहं जितवतोऽपरैः । मालामिमां क्षिपामीति स तामित्यब्रवीत् पुनः ॥ ३३ ॥  
गतियुद्धं त्वया पूर्वमनुजाभ्यां कृतं मम । अभिलाषाचतस्तया त्वं मया तद्बचनश्रुतेः ॥ ३४ ॥  
निविण्णा सा<sup>३</sup> निवृत्तार्जिकाभ्यासेऽगारापः परम् । तद्वीक्ष्य बहवस्तत्र निविद्य तपसि स्थिताः ॥ ३५ ॥  
अनुजाभ्यां समं चिन्तागतिश्रालोक्य साहसम् । कन्याया जातसंवेगो गुरुं दमवराभिभ्रम् ॥ ३६ ॥  
सम्प्राप्य संयमं प्राप्य शुद्धयष्टकमधिष्ठितः । प्रान्ते सामानिकस्तुर्यं कल्पेऽजायत सानुजः ॥ ३७ ॥  
तत्र भोगान्बहून् भुक्त्वा सप्ताब्धिपरमाथुया । वतस्तावनुजौ जम्बूद्वीपपूर्वविदेहे ॥ ३८ ॥  
विषये पुष्कलावत्यां विजयाद्धोषरे तटे । राजा गगनचन्द्राख्यः पुरे गगनवल्लभे ॥ ३९ ॥  
सुतो गगनमुन्दर्यां तस्यामितमतिस्ततः । आवाममिततेजाश्च जातौ विद्यात्रयान्वितौ ॥ ४० ॥  
अन्येषुः पुण्डरीकिण्यामावाभ्यां जन्मपूर्वजम् । आवयोः परिपृष्टेन जन्मत्रितयवृत्तकम्<sup>४</sup> ॥ ४१ ॥  
सर्वं स्वयंप्रभाख्येन तीर्थनाथेन भाषितम् । ततोऽस्मद्ग्रजः काद्येत्यावयोरनुयोजने ॥ ४२ ॥  
भूमौ सिंहपुरे जातो राजन् सोऽपराजित- । नाम्ना राज्यं समासाद्य स्वयमित्यहंनोदितम् ॥ ४३ ॥  
तत्समीपे समादाय संयमं त्वां विलोकितुम् । त्वयि जन्मान्तरस्त्रेहादिहागमनमावयोः ॥ ४४ ॥

इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे । धर्म, अर्थ और कामके समान इन तीनों पुत्रोंमें वे दोनों माता-पिता सदा प्रसन्न रहते थे सो टीका ही है क्योंकि उत्तम पुत्रोंमें कौन नहीं सन्तुष्ट होते हैं ? ॥ २६-२६ ॥  
उसी विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें अरिन्दमपुर नगरके राजा अरिञ्जय रहते थे उनकी अजितसेना नामकी रानी थी और दोनोंके प्रीतिमती नामकी सती पुत्री हुई थी । उसने अपनी विद्यासे चिन्ता-  
गतिको छोड़कर ममस्त विद्याधरोका मेरु पर्वतकी तीन प्रदक्षिणा देनेमें जीत लिया था ॥ ३०-३१ ॥  
तापश्चात् चिन्तागति उमे अपने वेगसे जीतकर कहने लगा कि तू रत्नोंकी मालासे मेरे छोटे भाईको स्वीकार कर । चिन्तागतिके बचन सुनकर प्रीतिमतीने कहा कि जिसने मुझे जीता है उसके सिवाय दूसरेके गलेमें मैं यह माला नहीं डालूंगी । इसके उत्तरमें चिन्तागतिके कहा कि तूने पहले उन्हें प्राप्त करनेके इच्छामें ही मेरे छोटे भाइयोंके साथ गतियुद्ध किया था अतः तू मेरे लिए त्याग्य है । चिन्तागतिके यह बचन सुनते ही वह संसारसे विरक्त हो गई और और उसने विवृता नामकी आर्यिकाके पास जाकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया । यह देख वहाँ बहुतसे लोगोंमें विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ३२-३५ ॥ कन्याका यह साहस देख जिस वैराग्य उत्पन्न हो गया है उसे चिन्तागतिके भी अपने दोनों छोटे भाइयोंके साथ दमवर नामके गुरुके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आठों शुद्धियोंका पाकर तीनों भाई चौथे स्वर्गमें सामाजिक ज्ञानिके देव हुए ॥ ३६-३७ ॥  
वहाँ मान सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त अनेक भोगोंका अनुभव कर च्युत हुए और दोनों छोटे भाइयोंके जीव जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्र मन्थर्वा पुष्कला देशमें जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणीमें गगनवल्लभ नगरके राजा गगनचन्द्र और उसकी रानी गगनमुन्दरीके हम दोनों अमितमति तथा अमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं । हम दोनों ही तीनों प्रकारकी विद्याओंमें युक्त थे ॥ ३८-४० ॥ किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये । वहाँ श्री स्वयंप्रभ तीर्थ-  
करसे हम दोनोंने अपने पिछले तीन जन्मोंका वृत्तान्त पूछा । तब स्वयंप्रभ भगवान्ने सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों कहा । तदनन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम है, और स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान है ॥ ४१-४३ ॥ यह सुनकर हम दोनोंने उन्हीं स्वयं-

१ सकलखेचरात् ल० । २ त्रिग्यांत्या (?) ल० । ३ सविद्यया ग०, घ० । ४ निवृत्तार्जिका ल० ।

५ पूर्वकम् ग०, घ० । पूर्वजम् ल० ।

पुण्योदयोदितान् भोगान् सर्वान् भूयोऽत्र भुक्त्वान् । मासप्रमाणजीवी त्वं हितमद्य स्मराश्रिति ॥ ४५ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं राजा वन्दित्वा तौ मुनीश्वरौ । युवां जन्मान्तरं ज्ञेहाशिसङ्गत्वं गतावपि ॥ ४६ ॥  
 उपकारं महान्तं मे कृतवन्तौ हितैपिणौ । इत्याख्यत्स ततः प्रीतौ तौ निजस्थानसीयतुः ॥ ४७ ॥  
 तदैव स महीशोऽपि दत्त्वा राज्यं यथाविधि । प्रीतिङ्करकुमाराय कृत्वाष्टाह्निकपूजनम् ॥ ४८ ॥  
 बन्धून् विसर्ज्य प्रायोपगमसंन्यासमुत्तमम् । विधाय षोडशे कल्पे द्वाविंशत्यब्धिजीवितः ॥ ४९ ॥  
 'सातंकरे विमानेऽभूदच्युतेन्द्रो महर्द्धिकः । दिव्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥ ५० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये कुरुजाङ्गले । हस्तिनाख्यपुराधीशः श्रीचन्द्रस्य महीपते ॥ ५१ ॥  
 श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाख्यः सुप्रतिष्ठः सुतोऽभवत् । आपूर्णयौवनस्यास्य सुनन्दासीत् सुखप्रदा ॥ ५२ ॥  
 सुतं योग्यतमं मत्वा श्रीचन्द्रधरणीश्वरः । दत्तारज्याऽप्रहीदीक्षां सुमन्दरयति श्रितः ॥ ५३ ॥  
 सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये निकोपे सुप्रतिष्ठितः । यशोधरमुनेदानादवापाश्रयपञ्चकम् ॥ ५४ ॥  
 अन्तःपुरान्वितोऽन्येद्युः शशाङ्ककरनिर्मले । रम्ये हर्म्यतले स्थित्वा कुर्वन् दिगवलोकनम् ॥ ५५ ॥  
 उल्कापातनमालोक्य भङ्गुरं भावयन् जगत् । सुहृष्टेर्ज्येष्ठपुत्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ ५६ ॥  
 सुमन्दरजिनाभ्याशे लब्धबोधिरदीक्षत । क्रमेणैकादशाङ्गानां पारगां भावनापरः ॥ ५७ ॥  
 सम्यक्त्वादिपु बध्वासौ तीर्थकर्म निर्मलम् । स्वायुरन्ते समाधाय मासं संन्यासमाश्रितः ॥ ५८ ॥  
 अनुचारे जयन्ताख्ये सम्प्रापदहमिन्द्रताम् । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रांपमायुर्हस्ततमूर्च्छितः ॥ ५९ ॥

प्रभ भगवान्के समीप संयम धारण कर लिया और तुम्हें देखनेके लिए तुम्हारे जन्मान्तरके स्नेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ॥ ४४ ॥ हे भाई ! अब तब तू पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए समस्त भोगोंका उपभोग कर चुका है । अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेष रह गई है इसलिए शीघ्र ही आत्म-कल्याणका विचार कर ॥ ४५ ॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दोनों मुनिराजोंकी चन्दना की और कहा कि आप यद्यपि निर्भय अवस्थाको प्राप्त हुए हैं तो भी जन्मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बड़ा उपकार किया है । यथार्थमें आप ही मेरे हितेच्छु हैं । तदनन्तर उधर उक्त दोनों मुनिराज प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर गये इधर राजा अपराजितने अपना राज्य विधिपूर्वक प्रीतिङ्कर कुमारके लिए दिया, आष्टाह्निक पूजा की, भाइयोंको विदा किया और स्वयं प्रायोपगमन नामका उत्कृष्ट संन्यास धारण कर लिया । संन्यासके प्रभावसे वह मोलहर्षे स्वर्गके सातङ्कर नामक विमानमें वाईस सागरकी आयुवाला बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारक अच्युतेन्द्र हुआ । वह पुण्यासा वहाँके दिव्य भोगोंका चिरकाल तक उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ ॥ ४६-५० ॥ और इसी जन्मवृद्धीपके भरतक्षेत्र सम्वन्धी कुरुजाङ्गल देशमें हस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रतिष्ठ नामका यशस्वी पुत्र हुआ । जब यह पूर्ण युवा हुआ तब सुनन्दा नामकी इसकी सुख देनेवाली स्त्री हुई ॥ ५१-५२ ॥ श्रीचन्द्र राजाने पुत्रको अत्यन्त योग्य समझ कर उसके लिए राज्य दे दिया और स्वयं सुमन्दर नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ५३ ॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्ठक राज्यमें अच्छी तरह प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ । एक दिन उसने यशोधर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे उसे पञ्चाश्रयकी प्राप्ति हुई थी ॥ ५४ ॥ किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल सुन्दर राजमहलके ऊपर अन्तःपुरके माथ बैठा हुआ दिशाओंको देख रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि उल्कापात पर पड़ी । उसे देखते ही वह संसारको नश्वर ! समझने लगा । तदनन्तर उसने सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमन्दर नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली । अनुक्रमसे उसने ग्यारह अङ्गोंका अभ्यास किया और दशैतविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन कर तीर्थङ्कर नामक निर्मल नामकर्मका बन्ध किया । जब आयुका अन्त आया तब समाधि धारण कर एक महानेका संन्यास लिया जिसके प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त किया । वहाँ उसकी तैतीस सागरकी

साङ्गपोडशमासान्तनिःश्वासोऽभून्निराकुलम् । त्रयस्त्रिंशत्सहस्राद्दध्यतीतौ भोगसम्पदम् ॥ ६० ॥  
 भुञ्जानो निःप्रवीचारं लोकनालीगतावधिः । बलदीप्तिविकारादिगुणैस्तक्षेत्रमात्रकः ॥ ६१ ॥  
 एवं देवगतौ दिव्यसुखं सुखमहाम्बुधेः । सम्प्राप जातसन्तुष्टिः स्थितश्चिरसुखायुया ॥ ६२ ॥  
 यतः परं तदुद्भूतेः क्रियते वंशवर्णनम् । द्वीपे जम्बूमति क्षेत्रे भरते वत्सदेशजे ॥ ६३ ॥  
 कौशाभ्याख्ये सुविल्यातो नगरे मधवा नृपः । तद्देवी वीतशोकाऽभूत्सुतः ख्यातो रघुस्तयोः ॥ ६४ ॥  
 सुमुखो नाम तत्रैव जातः श्रेष्ठी महद्भिकः । इतः कलिङ्गविषये पुरादन्तपुराह्वयात् ॥ ६५ ॥  
 सार्धेन सममागच्छद्दीरदत्तो वणिक्सुतः । नाम्ना व्याधभयादेत्य भार्यया वनमालया ॥ ६६ ॥  
 कौशाभ्यनीनगरं तत्र सुमुखाल्यं समाश्रयत् । वनमालां समालोक्य स श्रेष्ठीं विहरन् वने ॥ ६७ ॥  
 १विकायसायकैस्तीक्ष्णैः कदाचिच्छरधीकृतः २ । मायावी वीररुतं तं पापी वाणिज्यहेतुना ॥ ६८ ॥  
 प्राहिणोद् द्वादशान्दानां दत्त्वा पुष्कलजीविकाम् । स्त्रीचकार सहाकीर्त्या वनमालां विलोभिताम् ॥ ६९ ॥  
 भतिवाह्यागतो वीरदत्तो द्वादश वत्सरान् । तद्विक्रियां समाकर्ण्य स्मरन् संसारदुःस्थितिम् ॥ ७० ॥  
 ३शोकाकुलः सुनिविण्णः क्षीणपुण्यां निराश्रयः । वणिग्ं समग्रहार्हादीक्षां प्रोष्ठिलाख्यमुनिं श्रितः ॥ ७१ ॥  
 जीवितान्ते स संन्यस्य कल्पे सौधर्मनामनि । जातश्चित्राङ्गदो देवः प्रवीचारसुखाकरः ॥ ७२ ॥  
 स श्रेष्ठी वनमाला च धर्मसिंहतपोभृते । दत्त्वा प्रासुकमाहारं निन्दित्वा निजदुष्कृतम् ॥ ७३ ॥  
 अन्येद्युरशनेः पातात्संप्राप्य मरणं समम् । ४भरते हरिवर्षाख्ये देशे भोगपुरेशिनः ॥ ७४ ॥  
 प्रभञ्जनाख्यनृपतेर्भृङ्गव्याख्या मनोरमा । हरिवंशोऽजनि श्रेष्ठी सिंहकेतुस्तयोः सुतः ॥ ७५ ॥

आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह साढ़े सोलह माहके अन्तमें एक बार श्वास ग्रहण करता था, त्रिना किसी आकुलताके जव तैतीम हजार वर्ष वीन जाते थे तब एक बार आहार ग्रहण करता था, उसका मुख प्रवीचार-मैथुनसे रहित था, लोक-नाड़ीके अन्त तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसके बल, कान्ति तथा चिक्रिया आदि गुण भी थे ॥ ५५-६१ ॥ इस प्रकार वह देव-गतिमें दिव्य सुखका अनुभव करता था, सुख रूपी महासागरसे मदा सन्तुष्ट रहता था और सुख-दायी लम्बी आयु तक वहीं विद्यमान रहा था ॥ ६२ ॥

अब इसके आगे वह जिस वंशमें उपन्न होगा उस वंशका वर्णन किया जाता है । जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक वत्स नामका देश है । उसकी कौशाभ्यनी नगरीमें अतिशय प्रसिद्ध राजा मधवा राज्य करता था । उसकी महादेवीका नाम वीतशोका था । कालक्रमसे उन दोनोंके रघु नामका पुत्र हुआ ॥ ६३-६४ ॥ उसी नगरमें एक सुमुख नामका ब्रह्म धनी सेठ रहता था । किसी एक समय कलिङ्ग देशके दन्तपुर नामक नगरमें वीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोंके डरके कारण अपने साथियों तथा वनमाला नामकी स्त्रीके साथ कौशाभ्यनी नगरीमें आया और वहाँ सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा । किसी दिन सुमुख सेठ वनमें घूम रहा था कि उसकी दृष्टि वनमाला पर पड़ी । उसे देखते ही काम-देवने उसे अपने वाणोंका माना तरकश बना लिया—वह कामदेवके वाणोंसे घायल हो गया । तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने वीरदत्तको तो बहुत भारी आजीविका देकर बारह वर्षके लिए व्यापारके हेतु बाहर भेज दिया और स्वयं लुभाई हुई वनमालाको अपकीर्तिके साथ स्वीकृत कर लिया—अपनी स्त्री बना लिया ॥ ६५-६६ ॥ बारह वर्ष बिता कर जब वीरदत्त वापिस आया तब वनमालाके विकारको मुन संसारकी दुःखमय स्थितिका विचार करने लगा । अन्तमें शोकसे आकुल, पुण्यहीन, आश्रयरहित, वीरदत्तने विरक्त होकर प्रोष्ठिल मुनिके पास जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥ ७०-७१ ॥ आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधर्म स्वर्गमें प्रवीचारकी खान स्वरूप चित्राङ्गद नामका देव हुआ ॥ ७२ ॥ इधर सुमुख सेठ और वनमालाने भी किसी दिन धर्मसिंह नामक मुनिराजके लिए प्रासुक आहार देकर अपने पापकी निन्दा की ॥ ७३ ॥ दूसरे ही दिन वज्रके गिरनेसे उन दोनोंकी साथ ही साथ मृत्यु हो गई । उनमेंसे सुमुखका जीव तो भरत क्षेत्रके हरिवर्ष

१ वस्वालयपुराधीशो वज्रचापमहीपतेः । तत्रैवासौ सुभामाश्च वनमालानुरूपिणी ॥ ७६ ॥  
 विद्युन्मालेति भूत्वा लुक् विद्युदुद्योतहासिनी । २ आपूर्णयौवनस्यासीत्सिंहकेतोः रतिप्रदा ॥ ७७ ॥  
 जातु तौ दम्पती दृष्ट्वा देवे विहरणे वने । चित्राङ्गदे समुद्धृत्य हनिष्यामीति गच्छति ॥ ७८ ॥  
 रघुः पुरातनो भूपः सुमुखस्य सखा प्रियः । अणुव्रतफलेनाभूत्कल्पे सौधर्मनामनि ॥ ७९ ॥  
 वर्यः सूर्यप्रभो नाम वीक्ष्य चित्राङ्गदं तदा । शृणु मद्बचनं भद्र फलं किं तेऽनयोः मृतौ ॥ ८० ॥  
 पापानुबन्धि कर्मदमयुक्तं युक्तिकारिणाम् । संसारदुमदुःखाभिधानं दुःखफलप्रदम् ॥ ८१ ॥  
 ततो मिथुनमेतत्त्वं विसृज्येत्यभ्यधान्मुहुः । श्रुत्वा तज्जातकारुण्यस्तदमुद्धदसौ सुरः ॥ ८२ ॥  
 तौ सगन्धर्व्य समाश्रास्य तयोश्चम्पापुरे वने । सुखासिं भाविनीं बुद्ध्वा सूर्यतेजो व्यसर्जयत् ॥ ८३ ॥  
 तत्पुराधीश्वरे चन्द्रकीर्तिनाममहीभुजि । त्रिपुत्रे मरणं प्राप्ते राज्यसन्ततिस्स्थितेः ॥ ८४ ॥  
 सपुण्यं योग्यमन्वेष्टुं वारणं शुभलक्षणम् । गन्धादिभिः समभ्यर्च्योमुद्धत्स्वन्मन्त्रिमण्डलम् ॥ ८५ ॥  
 सोऽपि दिव्यो गजो गत्वा वनं पुण्यविपाकतः । तावुद्धृत्य निजस्कन्धमारोप्य पुरमागमत् ॥ ८६ ॥  
 सिंहकेतोवेधायाभिषेकं मन्व्यादयस्तदा । राज्यासनं समारोप्य बद्ध्वा पटं १ ससम्मदाः ॥ ८७ ॥  
 त्वं कस्यात्रागतः कस्मादित्थाहुः सोऽम्बर्वादिदम् । प्रभञ्जनः पिता माता मृकण्डू मण्डिता गुणैः ॥ ८८ ॥  
 हरिवंशमलव्यामसोसोऽहमिह केनचित् । सुरेणानीय मुक्तः सन् सह पत्न्या वने स्थितः ॥ ८९ ॥  
 इति तद्बचनं श्रुत्वा मृकण्डूवास्तनयो यतः । मार्कण्डेयस्तु नाम्नैव इति ते तमुदाहरन् ॥ ९० ॥  
 पृथु देवोपनीतं तद्वाज्यं सुचिरमन्वभूत् । सन्ताने तस्य गिर्यन्तो हरिर्हिमगिरिः परः ॥ ९१ ॥

नामक देशमें भोगपुर नगरके स्वामी हरिवंशाय राजा प्रभञ्जनकी मृकण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु नामका पुत्र हुआ और वनमालाका जीव उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा वज्रचाप की सुभा नामकी रानीसे विजलीकी कान्तिको निरस्कृत करनेवाली विद्युन्माला नामकी पुत्री हुई जो सिंहकेतुके पूर्ण यौवन होनेपर उसकी स्त्री हुई ॥ ७४-७७ ॥ किसी दिन वन-विहार करते समय चित्राङ्गद देवने उन दोनों दम्पतियोंको देखा और 'मैं इन्हें माँगा ऐसे विचारसे वह उन्हें उठाकर जाने लगा ॥ ७८ ॥ पहले जन्ममें सेठ मुखका प्रियमित्र राजा रघु अणुव्रतके फलमें सौधर्म स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका श्रेष्ठ देव हुआ था । वह उस समय चित्राङ्गदको देखकर कहने लगा कि 'है भद्र ! मेरे बचन मुन, इन दोनोंके मर जानेसे तुझे क्या फल मिलेगा ? यह काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपूर्वक काम करनेवालोंके अयोग्य है, संसार रूप पृथक्के दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है । इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे' इस प्रकार उसने बार बार कहा । उसे मुनकर चित्राङ्गदको भी दिया था गई और उसने उन दोनोंको छोड़ दिया । तदनन्तर सूर्यप्रभ देवने उन दोनों दम्पतियोंको संबोध कर आश्रामन दिया और आगे होनेवाले मुखकी प्राप्तिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके वनमें छोड़ दिया ॥ ७९-८३ ॥ देव योगसे उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीर्ति विना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा ठीक ठीक चलानेके लिए सुयोग्य मन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको ढूँढ़नेके अर्थ किसी शुभ लक्षणवाले हाथीको गन्ध आदिमें पूजा कर छोड़ा था ॥ ८४-८५ ॥ वह दिव्य हाथी भी वनमें गया और पुण्यादयसे उन दोनों—सिंहकेतु और विद्युन्मालाको अपने कंधे पर बैठा कर नगरमें वापिस आ गया ॥ ८६ ॥ प्रसन्नतासे भरे हुए मन्त्री आदिने सिंहकेतुका अभिषेक किया, राज्यासन पर बैठाया और पट बाँधा ॥ ८७ ॥ तदनन्तर उन लोगोंने पूछा कि आप किसके पुत्र हैं और यहाँ कहाँसे आये हैं ? उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि 'मेरे पिताका नाम प्रभञ्जन है और माताका नाम गुणोंसे मण्डित मृकण्डू है । मैं हरिवंश रूपी निर्मल आकाशका चन्द्रमा हूँ, कोई एक देव मुझे पत्नी सहित लाकर यहाँ वनमें छोड़ गया है, मैं अब तक वनमें ही स्थित था' ॥ ८८-८९ ॥ सिंहकेतुके बचन मुनकर लोग चूँकि यह मृकण्डूका पुत्र है इसलिए उसका मार्कण्डेय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे ॥ ९० ॥ इस प्रकार वह मार्कण्डेय, दैवयोगसे

वृत्तीथो वसुगिर्याख्यः परेऽपि बहवो गताः । तदा कुशार्थविषये तद्दंशास्करभास्वनः ॥ ९२ ॥  
 अषाढनिजशौर्येण मिजिताशेषविद्विषः । ख्यातशौर्यपुराधीशसूरसेनमहीपतेः ॥ ९३ ॥  
 सुतस्य शूरवीरस्य धारिण्याश्च तन्द्रवौ । विख्यातोऽन्धकवृष्टिश्च पतिर्बृष्टिर्नरादिवाक् ॥ ९४ ॥  
 धर्मा<sup>१</sup>वान्धकवृष्टेश्च सुभद्रायाश्च तुश्वराः । समुद्रविजयोऽक्षोभ्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥ ९५ ॥  
 हिमवान् विजयो विद्वानचलो धारणाङ्गयः । पूरणः पूरितार्थीच्छो नवमोऽप्यभिनन्दनः ॥ ९६ ॥  
 वसुदेवोऽन्तिमश्वैवं दशाभूवन् शशिप्रभाः । कुन्ती माद्री च<sup>२</sup> सोमे वा सुते प्रादुर्बभूवतुः ॥ ९७ ॥  
 समुद्रविजयादीनां नवानां सुरतप्रदाः । शिवदेव्यनु तस्य धृतीश्वराथ<sup>३</sup> स्वयम्प्रभा ॥ ९८ ॥  
 सुनीताख्या च शीता च प्रियावाक् च प्रभावती । कालिङ्गी सुप्रभा चेति बभूवुर्भुवनीतामाः ॥ ९९ ॥  
 पद्मात्रया द्वितीयस्य वृष्टेश्च तनयास्त्रयः । उग्रदेवमहाद्युक्तिसेनान्ताश्च गुणाम्बिताः ॥ १०० ॥  
 गान्धारी च सुता प्रादुरभवन् शुभदायिनः । अथ कौरवमुख्यस्य हस्तिनाख्यपुरेशिनः ॥ १०१ ॥  
 शक्तिनाममहाशस्य<sup>४</sup> शतक्याश्च पराशरः । तस्य मत्स्यकुलोत्पन्नराजपुत्र्यां सुतोऽभवत् ॥ १०२ ॥  
 सत्यवत्यां मुधीर्ष्यासिः पुनर्व्याससुभद्रयोः । धृतराष्ट्रो महान् पाण्डुविदुरश्च सुताख्यः ॥ १०३ ॥  
 अधात्रैव विहारार्थं कदाचिद्भ्रजमालिनि । नभायायिनि विस्मृत्य गते हस्ताङ्गुलीयकम् ॥ १०४ ॥  
 विलाक्य पाण्डुभूपालं गहने तत्समग्रहान् । स्मृत्वा स्वगं विवृष्यैव्य मुद्रिको तामितस्ततः १०५ ॥  
 भन्विच्छन्तं विलाक्याह पाण्डुः किं मृत्यते स्वया । इति तद्वचनं श्रुत्वा विद्याधन्मम मुद्रिका ॥ १०६ ॥  
 विनष्टेत्यवदन्त्य पाण्डुश्चैनामदर्शयत् । पुनः किमनया कृत्यमिति तस्यानुयोजनान् ॥ १०७ ॥

प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभोग करना रहा। उमीके सन्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि तथा वसुगिरि आदि अनेक राजा हुए। उन्हींमें कुशार्थ देशके शौर्यपुर नगरका स्वामी राजा शूरसेन हुआ जो कि हरिवंश रूपी आकाशका मूर्य था और अपनी शूरवीरनासे जिसने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था। राजा शूरसेनके वीर नामका एक पुत्र था उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था। इन दोनोंके अन्धकवृष्टि और नरवृष्टि नामके दो पुत्र हुए ॥ ९१-९४ ॥ अन्धकवृष्टिकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके धर्मके समान गम्भीर समुद्रविजय १, स्तिमितसागर २, हिमवान् ३, विजय ४, विद्वान् अचल ५, धारण ६, पूरण ७, पूरितार्थीच्छ ८, अभिनन्दन ९ और वसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान कान्तिवाले दश पुत्र हुए तथा चन्द्रिकाके समान कान्तिवाली कुन्ती और माद्री नामकी दो पुत्रियाँ हुई ॥ ९५-९७ ॥ समुद्रविजय आदि पहलेके नौ पुत्रोंके क्रमसे संभोग मुखको प्रदान करनेवाली शिवदेवी, धृतीश्वरा, स्वयंप्रभा, सुनीता, सीता, प्रियावाक्, प्रभावती, कालिङ्गी और सुप्रभा नामकी संसारमें सर्वसे उत्तम स्त्रियाँ थीं ॥ ९८-९९ ॥ राजा शूरवीरके द्वितीय पुत्र नरवृष्टिकी रानीका नाम पद्मात्रनी था और उसमें उनके उपमेन, देवमेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १०० ॥ इनके सिवाय एक गान्धारी नामकी पुत्री भी हुई। ये सब पुत्र-पुत्रियाँ अत्यन्त सुख देनेवाले थे। इधर हस्तिनापुर नगरमें कौरव वंशी राजा शक्ति राज्य करता था। उसकी शतकी नामकी रानीसे पराशर नामका पुत्र हुआ। उस पराशरके मत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवतीसे बुद्धिमान् व्यास नामका पुत्र हुआ। व्यासकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था इसलिए तदनन्तर उन दोनोंके धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥ १०१-१०३ ॥

अथानन्तर—किसी एक समय वज्रमाली नामका विद्याधर क्रीड़ा करनेके लिए हस्तिनापुरके वनमें आया था। वह वहाँ अपने हाथकी अंगूठी भूलकर चला गया। इधर राजा पाण्डु भी उसी वनमें घूम रहे थे। इन्हें वह अंगूठी दिखी तो इन्होंने उठा ली। जब उस विद्याधरका अंगूठीका स्मरण आया तब वह लौटकर उसी वनमें आया तथा यहाँ वहाँ उसकी खोज करने लगा। उसे ऐसा करते देख पाण्डुने कहा कि आप क्या खोज रहे हैं? पाण्डुके वचन सुनकर विद्याधरने कहा कि मेरी

१ धर्मा इव । २ चन्द्रिके इव । ३ धृतिश्वराय ख०, ग० । धृतीश्वरा ख० । ४ शतक्याश्च ग०, घ०, म० । शतक्याश्च ख० ।

भद्रैषा कामरूपस्य साधनीत्यब्रवीत्स्वगः । तद्येवं कामिषिद् भातदिनान्येवास्तु मत्करे ॥ १०८ ॥  
 प्रभावमस्याः पद्मानीत्यथितस्तेन सोऽन्वयात् । पाण्डुश्च तत्कृताह्वयनिजरूपेण सङ्गमम् ॥ १०९ ॥  
 कुन्त्या सहाहृतोत्पन्नस्तत्र कर्णाङ्गयः सुतः । ततः परैरविदितं मञ्जुपाल्यं सकुण्डलम् ॥ ११० ॥  
 सरत्नकवचं लेख्यपत्रकेण सहार्भकम् । \*कुन्तीपरिजनः कालिङ्गयाः प्रवाहे मुमोच तम् ॥ १११ ॥  
 चम्पापुरेश्वरो यान्तीमानाध्यादित्यनामकः । बालभानुमिवान्तस्थं बालकं स सविस्मयः ॥ ११२ ॥  
 पश्यन् स्वदेव्यै<sup>२</sup> राधायै तोकः स्यादिति भाववित् । दत्त्वा सकुण्डिलोक्यैर्न राधाकर्णपरिस्पृशम् ॥ ११३ ॥  
 अस्तु कर्णाभिधानोऽथमिति सादरमब्रवीत् । पाण्डोः कुन्त्या च मद्रया च पाणिग्रहणपूर्वकम् ॥ ११४ ॥  
 प्राजापत्येन सम्बन्धो विवाहेनाभवत्पुनः । कुन्त्यामजनि धर्मिष्ठो धर्मपुत्रो<sup>३</sup> धराधिपः ॥ ११५ ॥  
 भीमसेनोऽनुपार्थश्च त्रयो वर्गात्रयोपमाः । माद्र्यां च नकुलो ज्येष्ठः सहदेवस्ततोऽन्वभूत् ॥ ११६ ॥  
 धृतराष्ट्राय गान्धारी दद्या दुर्योधनोऽजनि । तयोर्दुःशासनः पश्चादथ दुर्धर्षणस्ततः ॥ ११७ ॥  
 दुर्मर्षणाद्याः सर्वेऽपि शतमेकं महौजसः । पूर्वं सुखेन सर्वेषां कालो गच्छति लीलया ॥ ११८ ॥  
 अन्येद्युः सुप्रतिष्ठाक्यो मुनीन्द्रो गन्धमादने । गिरौ सन्निहितः शूरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥ ११९ ॥  
 पुत्रपौत्रादिभिः सार्द्धं गत्वाभ्यर्च्यार्भिनृत्य तम् । श्रुत्वा धर्मं तदुद्दिष्टं स संबोधपरायणः ॥ १२० ॥  
 कृत्वाभिषेचनं दत्त्वा राज्यमन्धकवृष्टये । योग्योऽयमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥ १२१ ॥  
 संयमं स्वयमादाय तपांस्युच्चैः समाचरन् । गतेषु द्वादशाब्देषु पर्वते गन्धमादने ॥ १२२ ॥  
 प्रतिमायोगमालम्ब्य सुप्रतिष्ठस्य तिष्ठतः । देवः सुदर्शनो नाम चकारोपद्रवं क्रुधा ॥ १२३ ॥

अंगूठी गिर गई है । इसके उत्तरमें पाण्डुने उसे अंगूठी दिखा दी । पश्चान् पाण्डुने उस विद्याधरसे पूछा कि इससे क्या काम होता है ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि हे भद्र ! यह अंगूठी इच्छानुसार रूप बनानेवाली है । यह सुन कर पाण्डुने प्रार्थना की कि हे भाई ! यदि ऐसा है तो यह अंगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, मैं इसका प्रभाव देखूँगा । पाण्डुकी इस प्रार्थना पर उस विद्याधरने वह अंगूठी उन्हें दे दी । पाण्डुने उस अंगूठीके द्वारा किये अपने अद्भुत रूपसे कुन्तीके साथ समागम किया जिससे उसके कर्ण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । कुन्तीके परिजनोंने दम्सरोका विदित न होने पावे इस तरह छिपा कर उस बालकको एक सन्दूककीमें रखा, उसे कुण्डल तथा रत्नोंका कवच पहिनाया और एक परिचायक पत्र साथ रखकर यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥ १०४-१११ ॥ चम्पापुरके राजा आदित्यने बहती हुई सन्दूककीको भँगाकर जव खोला तो उसके भीतर स्थित बालसूर्यके समान बालकको देखकर वह विस्मयमें पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिए हो जायगा । यह विचार कर उसने वह पुत्र राधाके लिए दे दिया । राधाने जव उस पुत्रको देखा तब वह अपने कर्ण—कानका स्पर्श कर रहा था इसलिये उसने बड़े आदरसे उसका कर्ण नाम रख दिया । यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती और माद्रीके साथ पाणिग्रहणपूर्वक प्राजापत्य विवाहसे सम्बन्ध हो गया । कुन्तीके धर्मपुत्र—युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ फिर क्रमसे भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न हुए । उसके ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्गके समान जान पड़ते थे । इसी प्रकार माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र सहदेव और उसके बाद नकुल उत्पन्न हुआ था ॥ ११२-११६ ॥ धृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दी गई थी अतः उन दोनोंके सर्व प्रथम दुर्योधन उत्पन्न हुआ । उसके पश्चात् दुःशासन, दुर्धर्षण तथा दुर्मर्षण आदि उत्पन्न हुए । ये सब महाप्रतापी सौ भाई थे । इस तरह सबका काल लीला पूर्वक सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥ ११७-११८ ॥ किसी दूसरे दिन गन्धमादन नामक पर्वत पर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए । राजा शूरवीर अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ उनकी वन्दनाके लिए गया । वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की और उनके द्वारा कहा हुआ धर्मका उपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीत हो गया अतः उसने अभिषेक कर अन्धकवृष्टिके लिए राज्य दे दिया और 'यह योग्य है' ऐसा समझकर छोटे पुत्र नर-वृष्टिके लिए युवराज पद दे दिया । तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण करने



उपसर्गं विजित्यास्य सोढ्वाऽशेषपरीषहान् । ध्यानेनाहत्य घातीनि प्रादुरासीत् स केवली ॥ १२४ ॥  
 देवैरन्धकवृष्टिश्च सह पूजार्थमागतः । अपृच्छदेवं देवाय देवस्ते केन हेतुना ॥ १२५ ॥  
 महोपसर्गं पूज्यस्य कृतवानिति विस्मयान् । सद्बुक्त्यवसितौ ग्यः जिनैन्द्रोऽप्येवमब्रवीत् ॥ १२६ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे कलिङ्गविषये पुरे । काम्ब्यां वणिक्सुतः सूरदशोऽन्यश्च सुदशवाक् ॥ १२७ ॥  
 लङ्काद्वीपादिषु त्रैरं समावर्ज्यं निजं धनम् । पुरोऽन्यक्षिपतां गूढं प्रवेशे शुल्कभीलुकौ ॥ १२८ ॥  
 मूले क्षुपविशेषस्थानभिज्ञानमथोऽन्यदा । कश्चिन्मद्यप्रयोगार्थं वने तद्योयभूरुहाम् ॥ १२९ ॥  
 मूलान्युत्खन्य सद्गृह्णन् विलोच्य बहु तद्वनम् । किमनेन मुधा मूलखननेनाल्पहेतुना ॥ १३० ॥  
 सुप्रभूतमिदं लब्धं धनं दारिद्र्यविद्रुतिम् । विदधात्यामृतेर्भागैरित्यादाय गतस्ततः ॥ १३१ ॥  
 तदागम्य वणिक्पुत्रो तत्प्रदेशे निजं धनम् । अनिरीक्ष्य मृतौ हत्वा श्रद्धधानौ परस्परम् ॥ १३२ ॥  
 बद्ध्वाद्युः क्रोधलोभाभ्यामार्थं नरकमीयतुः । तत्र दुःखं चिरं भुक्त्वा ततो विन्ध्याद्विकन्दरे ॥ १३३ ॥  
 जातौ मेघौ पुनस्तत्राप्यन्योन्यवधकारिणौ । गोकुले वृषभौ जातौ गङ्गातटनिवासिनि ॥ १३४ ॥  
 तत्र जन्मान्तरद्वेषान् कृतयुद्धौ गतामुकौ । सम्मेदपर्वते जातौ वानरौ वा नरौ धिया ॥ १३५ ॥  
 शिलासलिलहेतोस्तौ कलहं खलु चक्रतुः । मृतस्तयोः सपद्येकः परः कण्ठगतसुकः ॥ १३६ ॥  
 सुरदेवादिगुर्वन्तचारणाभ्यां समुत्सुकः । श्रुत्वा पञ्चनमस्कारं धर्मश्रुतिपुरस्सरम् ॥ १३७ ॥

लगा । अनुक्रमसे वारह वर्ष वीत जानेपर वही सुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए । उस समय मुदर्शन नामके देवने क्रोधवश कुछ उपसर्ग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गकां जीवनकर तथा समस्त परिषहोंको सह कर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मका श्रय करते हुए केवलज्ञानी हो गये ॥ ११६-१२४ ॥ उस समय सब देवोंके साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था । वहाँ उसने आश्चर्यसे पूछा कि हे देव ! इस देवने पूजनीय आपके ऊपर यह महान् उपसर्ग किस कारण किया है ? अन्धकवृष्टिके ऐसा कह चुकने पर जिनेन्द्र भगवान् सुप्रतिष्ठ केवली इस प्रकार कहने लगे—

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कलिङ्ग देशके काञ्चीपुर नगरमें सूरदत्त और सुदत्त नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे ॥ १२५-१२७ ॥ उन दोनोंने लङ्का आदि द्वीपोंमें जाकर इच्छानुसार बहुत-सा धन कमाया और लौटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय लगा कि इस धन पर टैक्स देना पड़ेगा । इस भयसे उन्होंने वह धन नगरके बाहर ही किसी झाड़ीके नीचे गाड़ दिया और कुछ पहिचानके लिए चिह्न भी कर दिये । दूसरे दिन कोई एक मनुष्य मदिरा बनानेके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा । खोदते समय उसे वह भारी धन मिल गया । धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता है ऐसे इन वृक्षोंकी जड़ोंके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? मुझे अब बहुत भारी धन मिल गया है यह मेरी सब दरिद्रताका दूर भगा देगा । मैं मरण पर्यन्त इस धनसे भागोंका सेवन करूँगा, ऐसा विचार वह सब धन लेकर चला गया ॥ १२८-१३१ ॥ दूसरे दिन जब वैश्यपुत्र उस स्थान पर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर एक दूसरे पर धन लेनेका विश्वास करते हुए लड़ने लगे और परस्पर एक दूसरेका मारते हुए मर गये । वे क्रोध और लोभके कारण नरकायुका बन्धकर पहले नरकमें जा पहुँचे । चिरकाल तक वहाँके दुःख भोगनेके बाद वहाँसे निकले और विन्ध्याचलकी गुफामें मेदा हुए । वहाँ भी परस्पर एक दूसरेका वध कर वे गङ्गा नदीके किनारे बसनेवाले गोकुलमें बैल हुए । वहाँ भी जन्मान्तरके द्वेषके कारण दोनों युद्ध कर मरे और सम्मेदपर्वत पर बुद्धिसे मनुष्योंकी समानता करनेवाले वानर हुए ॥ १३२-१३५ ॥ वहाँ पर भी पत्थरसे निकलनेवाले पानीके कारण दोनों कलह करने लगे । उनमेंसे एक तो शीघ्र ही मर गया और दूसरा कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय वहाँ सुरगुरु और देवगुरु नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज आ पहुँचे । उन्होंने उसे पञ्चनमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसे बसने बड़ी उत्सुकतासे सुना और धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सौधर्म स्वर्गमें

सौधर्मकल्पे चित्राङ्गदाख्यो देवोऽजनिष्टः सः । ततो निर्गत्य जम्बूद्वीपे भरतमध्यगे ॥ १३८ ॥  
 सुरम्यविषये पौदनेशः सुस्थितभूपतेः । सुलक्षणायां पुत्रोऽभूत्सुप्रतिष्ठावरिष्ठधीः ॥ १३९ ॥  
 कदाचित्प्राहुहारम्भे गिरावसितनामनि । युद्धं मर्कटयोर्वीक्ष्य स्मृतप्रागजन्मचेष्टितः ॥ १४० ॥  
 सुधर्माचार्यमासाद्य दीक्षित्वाऽभवदीदृशः । सूरदराचरः सोऽहं सुदत्ताप्यनुजो भवे ॥ १४१ ॥  
 भान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थमृगायणतपस्विनः । विशालायाश्च तोकोऽभूद्गोतमाख्यः कुदर्शनात् ॥ १४२ ॥  
 तपः पञ्चाग्निमध्येऽसौ विधाय ज्योतिषां गणैः । देवः सुदर्शानो नाम्ना भूत्वा प्रागजन्मवैरतः ॥ १४३ ॥  
 ममायमकरोदीदृगिति तद्वाक्यमादरात् । श्रुत्वा सुदर्शानो मुक्तवैरः सद्धर्ममग्रहीत् ॥ १४४ ॥  
 अथातोऽन्धकवृष्टिश्च श्रुत्वा मुकलयन्करौ । स्वपूर्वभवसम्बन्धमपृच्छजिनपुङ्गवम् ॥ १४५ ॥  
 वीतरागोऽपि सोऽप्याह तत्पृष्टं शिष्टगीर्गुणः । निर्निभिराहिताख्यानं नाम तेषु निसर्गजम् ॥ १४६ ॥  
 द्वीपेऽत्रैव विनीतायां नरेन्द्रोऽनन्तवीर्यवाक् । सुरेन्द्रदत्तास्तत्रैव वैश्यां वैश्रवणांपमः ॥ १४७ ॥  
 दशभिर्मित्यपूजायामष्टम्यां द्विगुणैस्ततः । चतुर्गुणैरभावस्यायां पर्वण्यष्टभिर्गुणैः ॥ १४८ ॥  
 दीनरैरर्हतां पूजां करोति विहितव्ययैः । सहितः पात्रदानेन सर्शालः सोपवासकः ॥ १४९ ॥  
 धर्मशील इति ख्यातिं स समापापपापकः । गन्तुं वारिपथं वाञ्छन्नयेद्युर्वणिजां वरः ॥ १५० ॥  
 द्वादशाब्दैः समावर्ज्य धनमागन्तुकः परम् । जिनपूजाव्ययायार्थं द्वादशाब्दनियन्धनम् ॥ १५१ ॥  
 मित्रस्य रुद्रदत्तास्य ब्राह्मणस्य करे न्यधात् । अनेन जिनपूजादि कुर्वहं वा स्वमित्यसौ ॥ १५२ ॥

चित्राङ्गद नामका देव हुआ। वहाँसे निकल कर वह उसी जम्बूद्वीपके भरतभ्रत्रके मध्यमें स्थित पौदनपुर नगरके स्वामी राजा सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उच्छुष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ ॥ १३६-१३६ ॥ किसी एक समय वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें उसने अमित नामके पर्वत पर दो वानरोंका युद्ध देखा। जिसने उसे अपने पूर्व जन्मकी समस्त चेष्टाओंका स्मरण हो गया ॥ १४० ॥ उसी समय उसने सुधर्माचार्यके पास जाकर दीक्षा ले ली। वही सूरदत्तका जीव मैं यह सुप्रतिष्ठ हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमें भ्रमण करता हुआ अन्तमें सिन्धु नदीके किनारे रहनेवाले मृगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामकी स्त्रीमें गोतम नामका पुत्र हुआ। मिथ्यादर्शनके प्रभावसे वह पञ्चाग्नीयोंके मध्यमें तपश्चरण कर सुदर्शन नामका ज्योतिष्क देव हुआ है। पूर्व भवके वैरके कारण ही इसने मुझ पर यह उपसर्ग किया है। सुदर्शन देवने उन सुप्रतिष्ठ केवलीके वचन बड़े आदरमें सुने और सब वैर छोड़कर सर्माचीन धर्म स्वीकृत किया ॥ १४१-१४४ ॥ तदनन्तर राजा अन्यकवृष्टिने यह सब सुननेके बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे अपने पूर्व भवका सम्बन्ध पूछा ॥ १४५ ॥ शिष्ट वचन बोलना ही जिनकी वाणीका विशेष गुण है ऐसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान् कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि विना किसी निमित्तके हितकी बात कहना उन जैसोंका स्वाभाविक गुण है ॥ १४६ ॥

वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तवीर्य नामका राजा रहता था। उसी नगरीमें कुबेरके समान मुग्न्दत्त नामका सेठ रहता था। वह सेठ प्रतिदिन दश दीनारोंसे, अष्टमीको सोलह दीनारोंसे, अमावसको चालीस दीनारोंसे और चतुर्दशीको अस्सी दीनारोंसे अर्हन्त भगवान्की पूजा करता था। वह इस तरह खर्च करता था, पात्र दान देता था, शील पालन करता था और उपवास करता था। इन्हीं सब कारणोंसे पापरहित उस सेठने 'धर्मशील' इस तरहकी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठने जलमार्गसे जाकर धन कमानेकी इच्छा की। उसने बारह वर्ष तक लौट आनेका विचार किया था इसलिए बारह वर्ष तक भगवान्की पूजा करनेके लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मणके हाथमें सौंप दिया और कह दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि कार्य करते रहना क्योंकि आप मेरे ही समान हैं ॥ १४७-१५२ ॥

तस्मिन् गते स विप्रोऽपि स्त्रीधूतव्यसनादिभिः । धनं कतिपर्यंरेव दिनैर्व्यथमनीनयत् ॥ १५३ ॥  
 ततश्चौर्यादिदुष्कर्मसक्तं तलवरो द्विजम् । श्येनकाख्यो भ्रमन् दृष्ट्वा रात्रौ त्वां हन्म्यहं नहि ॥ १५४ ॥  
 द्विजाख्याधारिणं याहि नगराद् द्रक्ष्यसे यदि । पुनः कृतान्तवक्त्रं त्वं नेष्यसे दुष्क्रियो मया ॥ १५५ ॥  
 १ इत्यस्यतर्जयस्सोऽपि कालकाख्येन पापिना । सममुल्कासुखीव्याधनिवासपतिनागमत् ॥ १५६ ॥  
 स कदाचिदयोध्यायां गोकुलापहतौ द्विजः । श्येनकेन हतोऽयासीन्महापापादधोगतिम् ॥ १५७ ॥  
 ततश्च्युत्वा महामत्स्यो हरिर्दृष्टिविपोरगः । शार्दूलो पक्षिणामीदो २ व्याधश्च सम्भवन् ॥ १५८ ॥  
 प्रविद्याधोगतीः सर्वाः कृच्छ्रात्ताभ्यो विनिर्गतः । त्रसस्थावरभावेन चिरकालं परिभ्रमन् ॥ १५९ ॥  
 जम्बूपलक्षिते द्वीपे भरते कुरुजाङ्गले । हास्तिनाख्यं पुरं पति वराधीशे धनञ्जये ॥ १६० ॥  
 सुतो गोतमपुत्रस्य सम्भवूव द्विजात्मजः । ३ कपिष्ठलस्य निःश्रीकः सोऽनुन्धर्याश्च गोतमः ॥ १६१ ॥  
 तत्समुत्परिमात्रेण तच्छेषमभवत्कुलम् । अलक्ष्मणः कृशाभूतजठरः प्रकटास्थिकः ॥ १६२ ॥  
 ४ सिरावनद्धदुष्कायो यूकाञ्चितशिरोरुहः ५ । शयानश्चैव सर्वैश्च तर्जितो यत्र तत्र वा ॥ १६३ ॥  
 करामकपर्परेणोपलक्ष्यमाणोऽनपाथिना । सुमित्रेणैव सर्वत्र शरीरस्थितिहेतुना ॥ १६४ ॥  
 वाञ्छितेन रमेनेव देहीति वचसा तदा । लोलुपो निवृत्तिं प्राप्तुं भिक्षामात्रेण दुविधः ॥ १६५ ॥  
 काकवत्पर्धुसु भ्रान्तः पश्यन् बलिं ६ विसर्जनम् । अनाश्वानिव शान्ताण्णवात् ७ वाधाः सहन् मुहुः ॥ १६६ ॥

सेठके चले जाने पर रुद्रदत्त ब्राह्मणने वह समस्त धन परस्त्रीसेवन तथा जुआ आदि व्यसनोके द्वारा कुछ ही दिनोंमें खर्च कर डाला ॥ १५३ ॥ तदनन्तर वह चोरी आदिमें आमक्त हो गया । श्येनक नामक कोतवालने उसे चोरी करते हुए एक रातमें देख लिया । देखकर कोतवालने कहा कि चूँकि तू ब्राह्मण नामका धारण करता है अतः मैं तुझे मारता नहीं हूँ, तू इस नगरमें चला जा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कर्म करना हुआ दिखेगा तो अथशय ही मेरे द्वारा यमराजके मुखमें भेज दिया जायगा—माया जायगा ॥ १५४-१५५ ॥ यह कहकर कोतवालने उसे डाँटा । रुद्रदत्त भी, वहाँसे निकल कर उल्कासुर्ग्या पर रहनेवाले भालोके स्वामी पापी कालकमे जा मिला ॥ १५६ ॥ वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरीमें गायोंके समूहका अपहरण करनेके लिए आया था उसी समय श्येनक कोतवालके द्वारा मारा जाकर वह महापापके कारण अधोगतिमें गया ॥ १५७ ॥ वहाँसे निकल कर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर सिंह हुआ, फिर नरक गया, वहाँसे आकर दृष्टिधिय नामका सर्प हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर शार्दूल हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर गरुड़ हुआ फिर नरक गया, वहाँसे आकर सर्प हुआ फिर नरक गया और वहाँसे आकर भील हुआ । इस प्रकार समस्त नरकोंमें जाकर वहाँसे बड़े कष्टमें निकला और त्रस स्थावर योनियोंमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहा ॥ १५८-१५९ ॥ अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशके हास्तिनापुर नगरमें जब राजा धनञ्जय राज्य करते थे तब गोतम गोत्री कपिष्ठल नामक ब्राह्मणकी अनुन्धरी नामकी स्त्रीसे वह रुद्रदत्तका जीव गोतम नामका महादरिद्र पुत्र हुआ । उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुन नष्ट हो गया । उसे खानेके लिए अन्न नहीं मिलता था, उसका पेट सूख गया था, हड्डियों निकल आई थीं, नसोंसे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था, उसके बाल जुआँसे भरे थे, वह जहाँ कहीं सोता था वहीं लोग उसे फटकार वतलाते थे, वह अपने शरीरकी स्थितिके लिए कभी अलग नहीं होनेवाले श्रेष्ठ मित्रके समान अपने हाथके अग्रभागमें खप्पर लिये रहता था ॥ १६०-१६४ ॥ वाञ्छित रसके समान वह सदा 'देओ देओ' ऐसे शब्दोंसे केवल भिक्षाके द्वारा सन्तोष प्राप्त करनेका लोलुप रहता था परन्तु इतना अभागा था कि भिक्षासे कभी उसका पेट नहीं भरता था । जिस प्रकार पर्धेके दिनोंमें कौआ बलिको ढूँढ़नेके लिए इधर-उधर फिरा करता है इसी प्रकार वह भी भिक्षाके लिए इधर-उधर भटकता रहता था । वह

१ इत्यतर्जयत् ल० । २ व्यालकाध ल० । ३ कपिष्ठस्य ल० । ४ स्यावनद्ध ल० । ५ तनूरुहः ख० ।  
 ६ बलिबिभ्रजनम् ल० । ७ वाताः वाधाः ल० (?) ।

मलधारी परिभ्रष्टोषेन्द्रियविजम्भणः । जिह्वाविषयमेवेच्छन् दण्डधारीव भूपतिः ॥ १६७ ॥  
 तमस्तमःप्रजातानां रूपमीदृग्भवेदिति । वेधसेव स्फुटीकर्तुमिहस्थानां विनिमित्तः ॥ १६८ ॥  
 दधन्माषमपीवर्णमर्कभीत्यः तमश्चयः । नररूपधरो वातिजुगुप्स्यः पापभाक् क्वचित् ॥ १६९ ॥  
 आकण्डपूर्णहारोऽपि नवनान्यामगृह्णवान् । परिवीतकटिर्जीर्णच्छिद्रिताङ्गभर्षटैः ॥ १७० ॥  
 ब्रणवैगन्ध्यसंसक्तमक्षिकौघैरितस्ततः । क्रुद्धयच्छवदवावेष्ट्यो मुखरैरनपायिभिः ॥ १७१ ॥  
 पौरबालकसङ्घातैरनुयातैरनुक्षणम् । उपलादिप्रहारेण ताड्यमानः प्रकोपवान् ॥ १७२ ॥  
 अनुधावन्पतन्नेव दुःसैः कालमजीगमत् । कदाचिह्लब्धकालादिरनुयातो महामुनिम् ॥ १७३ ॥  
 समुद्रसेननामानं पर्यटन्तं तनुस्थितः । वणिग्वैश्रवणागारे तेनाकण्ठमभोऽयत ॥ १७४ ॥  
 पुनर्मुन्याश्रमं गत्वा कुरु त्वामिव मामपि । इत्यवादीदसौ वास्तु भव्योऽयमिति निश्चयात् ॥ १७५ ॥  
 दिवसैः सहवासेन कैश्चिद्वृत्तितन्मनाः । अप्राह्यन्मुनिस्तेन संयमं शमसाधनम् ॥ १७६ ॥  
 बुद्ध्यादिकर्तव्यस्तस्य जाताः संवत्सरादतः । 'स श्रीगोतमनाम्नामा गुरुस्थानमवाप सः ॥ १७७ ॥  
 जीवितान्ते गुरुस्तस्य मध्यमैवयकोध्वंगे । विमाने सुविशालाख्ये समुत्पन्नः सुरोत्तमः ॥ १७८ ॥  
 स श्रीगौतमनामापि विहिताराधनाविधिः । सम्यक् संन्यस्य तत्रैव सम्प्रापद्दहमिन्द्रताम् ॥ १७९ ॥  
 तत्र दिव्यं सुखं मुक्त्वा तस्माद्विप्रचरो मुनिः । अष्टाविंशतिवार्यायुरतिक्रान्तौ च्युतो भवान् ॥ १८० ॥

मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा वायुकी बाधाको बार-बार सहता था, वह सदा मलिन रहता था, केवल जिह्वा इन्द्रियके विषयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोंके विषय उसके छूट गये थे । जिस प्रकार राजा सदा दण्डधारी रहता है—अन्यथा प्रवृत्ति करनेवालोंको दण्ड देता है उसी प्रकार वह भी सदा दण्डधारी रहता था—हाथमें लाठी लिये रहता था ॥ १६५-१६७ ॥ 'सातवें नरकमें उपन्न हुए नारकियोंका रूप ऐसा होता है' यहाँके लोगोंको यह बतलानेके लिए ही मानो विधाताने उसकी सृष्टि की थी । वह उड़द अथवा स्याही जैसा रङ्ग धारण करता था । अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्यके भयसे मानो अन्धकारका समूह मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हो । वह अत्यन्त घृणित था, पापी था, यदि उसे कहीं कण्ठपर्यन्त पूर्ण आहार भी मिल जाता था तो नेत्रोंसे वह अतृप्त जैसा ही मालूम होता, वह जीर्ण शीर्ण तथा छेदवाले अशुभ वस्त्र अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीर पर बहुतसे घाव हो गये थे, उनकी बड़ी दुर्गन्ध आती थी तथा भिनभिनाती हुई अनेक मक्खियाँ उसे सदा घेरें रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, उन मक्खियोंसे उसे क्रोध भी बहुत पैदा होता था । नगरके बालकोंके समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे और पत्थर आदिके प्रहारसे उसे पीड़ा पहुँचाते थे, वह झुंझला कर उन बालकोंका पीछा भी करता था परन्तु बीचमें ही गिर पड़ता था । इस प्रकार बड़े कष्टसे समय बिता रहा था । किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूल प्राप्तिसे वह आहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया । वैश्रवण सेठके यहाँ मुनिराजका आहार हुआ । सेठने उस गौतम ब्राह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पूर्ण भोजन करा दिया । भोजन करनेके बाद भी वह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा और कहने लगा कि आप मुझे भी अपने जैसा बना लीजिये । मुनिराजने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया यह वास्तवमें भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की । तदनन्तर उन्होंने उसे शान्तिका साधन भूत संयम ग्रहण करा दिया ॥ १६८-१७६ ॥ बुद्धि आदिक ऋद्धियों भी उसे एक वर्षके बाद ही प्राप्त हो गईं । अब वह गौतम नामके साथ ही साथ गुरुके स्थानको प्राप्त हो गया—उत्के समान बन गया ॥ १७७ ॥ आयुके अन्तमें उसके गुरु मध्यममैवैयक के सुविशाल नामके उपरितन विमानमें अहमिन्द्र हुए और श्री गौतम मुनिराज भी आयुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधनाओंकी आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम मैवैयकके सुविशाल विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥ १७८-१७९ ॥ वहाँके दिव्य सुखका उपभोग कर

भजन्यन्धकवृष्ट्याख्य इति तन्नावयन् सुधीः । स्वपुत्रभवसम्बन्धं सोऽम्बयुक्तं पुनर्जिनम् ॥ १८१ ॥  
 सर्वभाषास्वभावेन ध्वनिना निजगाद् सः । जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मङ्गलाङ्गये ॥ १८२ ॥  
 नृपो मेघरथो नाजा पुरे मद्रिलकानामनि । सुभद्रायां सुतस्तस्य रथान्तदृढसंज्ञकः ॥ १८३ ॥  
 पट्टबन्धं स्वपुण्येन यौवराजस्य सोऽयिभः<sup>१</sup> । तत्र नन्दयशोनाम्न्यां धनदत्तवणिक्पतेः ॥ १८४ ॥  
 धनादिदेवपालाख्यौ देवपालौ जिनादिकौ । अर्हन्तौ दशदासान्तौ जिनदत्तश्च सप्तमः ॥ १८५ ॥  
 प्रियमित्रोऽष्टमो धर्मरुचिश्चान्योऽभवत्सुतः । प्रियदर्शना ज्येष्ठा च जाते दुहितरौ ततः ॥ १८६ ॥  
 नृपः सुदर्शनोद्याने मन्दिरस्थविरान्तिके । कदाचिद् वणिगीशश्च पुत्रादिपरिवारितौ ॥ १८७ ॥  
 सक्रियं धर्ममाकर्ण्य निबिद्य स महीपतिः । दत्त्वा दृढरथायाभिषेकपूर्वं स्वर्कं पदम् ॥ १८८ ॥  
 आवदे संयमं पश्चाच्छ्रेष्ठी च नवभिः सुतैः । ततो नन्दयशा पुत्रिकाद्वयेनागमत्तपः ॥ १८९ ॥  
 सुदर्शनायिकाभ्यर्णं तूर्णनिर्णीतसंस्मृतिः । क्रमाद्वाराणसीवाह्यं केवलज्ञानिनोऽभवन् ॥ १९० ॥  
 वने प्रियङ्गुखण्डाख्ये मनोहरतमद्रुमे । गुरुर्मेघरथो ध्यात्वा धनदत्तश्च ते त्रयः ॥ १९१ ॥  
 धर्मामृतमयीं वृष्टिमुद्गिरन्तो निरन्तरम् । जीवितान्ते तले सिद्धशिलायाः सिद्धिमश्नजन् ॥ १९२ ॥  
 पुरे राजगृहे पूज्यास्त्रिजगज्जननायकैः । धनदेवादिकास्तस्मिन्नेवान्येषुः शिलातले ॥ १९३ ॥  
 नवापि विभिन्ना संन्यस्यन्तां बोध्य सुतायुता । निदानमकरोन्नन्दयशा मे जन्मनीह वा ॥ १९४ ॥  
 परम्प्राप्येवमेवैभिर्बन्धुवं भवतादिति । स्वयं च कृतसंन्यासा तैः सहानतकल्पजे ॥ १९५ ॥

वह ब्राह्मण मुनिका जीव अट्टाईस सागरकी आयु पूर्ण होने पर वहाँसे च्युत हुआ और तू अन्धक-  
 वृष्टि नामका राजा हुआ है । इस प्रकार अपने भवोंका अनुभव करता हुआ बुद्धिमान् अन्धकवृष्टि  
 फिर भगवान्से अपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पूछने लगा ॥ १८०-१८१ ॥ वे भगवान् भी सर्वभाषा  
 रूप परिणमन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे—

जम्बूद्वीपके मङ्गला देशमें एक मद्रिलपुर नामका नगर है । उसमें मेघरथ नामका राजा राज्य  
 करता था । उसकी देवीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके दृढरथ नामका पुत्र हुआ । अपने पुण्योदयसे  
 उसने यौवराज्यका पट्ट धारण किया था । उसी मद्रिलपुर नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था,  
 उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था । उन दोनोंके धनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, अर्हद्दत्त, अर्हद्दास,  
 सातवाँ जिनदत्त, आठवाँ प्रियमित्र और नौवाँ धर्मरुचि ये नौ पुत्र हुए थे । इनके सिवाय प्रियदर्शना  
 और ज्येष्ठा ये दो पुत्रियाँ भी हुई थीं ॥ १८२-१८६ ॥ किसी एक समय सुदर्शन नामके वनमें मन्दिर-  
 स्थविर नामके मुनिराज पधारे । राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रादिसे  
 परिवृत होकर उनके पास गये । राजा मेघरथ क्रिया सहित धर्मका स्वरूप मुनकर विरक्त हो गया  
 अतः अभिषेक पूर्वक दृढरथ नामक पुत्रके लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया ।  
 तदनन्तर धनदत्त सेठने भी अपने नौ पुत्रोंके साथ संयम ग्रहण कर लिया । नन्दयशा सेठानी भी  
 अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुदर्शना नामकी आर्यिकाके पास गई और शीघ्र ही संसारके स्वरूपका  
 निर्णय कर उसने भी तप धारण कर लिया—क्रम क्रमसे विहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे और  
 वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर वृक्षांसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए । वहाँ सबके  
 गुरु मन्दिरस्थविर, मेघरथ राजा और धनदत्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केवलज्ञानी हो गये ।  
 तदनन्तर निरन्तर धर्मामृतकी वर्षा करते हुए वे तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पूज्य होकर आयु  
 के अन्तमें राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध श्रवस्थाको प्राप्त हुए । किसी दूसरे दिन धन-  
 देव आदि नौ भाई, दोनों बहिनों और नन्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वक संन्यास धारण  
 किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्दयशाने उन्हें देखकर निदान किया कि 'जिस प्रकार  
 ये सब इस जन्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुई हैं उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पुत्र-पुत्रियाँ हों और इन  
 सबके साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्ममें भी बना रहें । ऐसा निदान कर उसने स्वयं

शातङ्करे समुत्पद्य विमाने भोगमन्वभूत् । विश्वव्यम्भोधिमानायुस्ततः प्रच्छुष्य स्था तव ॥ १९६ ॥  
 प्रियाजनि सुभद्राख्या धनदेवाद्यः सुताः । प्रख्यातपौरुषा जाताः समुद्रविजयादथः ॥ १९७ ॥  
 प्रियदर्शना ज्येष्ठा च कुन्ती माद्राति विभ्रुते । अथापृच्छन्महीपालो वसुदेवभवावलीम् ॥ १९८ ॥  
 जिनेन्द्रोऽप्यब्रवीदस्थं क्षुभं गम्भीरभाषया । प्रकृतिस्तादृशी तेषां यथा भव्येष्वनुग्रहः ॥ १९९ ॥  
 ग्रामे पलाशकूटाख्ये विषये कुरुनामनि । दुर्गतः सोमशर्माख्यो द्विजस्तस्य सुतोऽभवत् ॥ २०० ॥  
 नाम्ना नन्दीत्यसौ देवशर्मणः सततानुगः । मानुलस्याभिलाषेण तत्सुतासु विपुण्यकः ॥ २०१ ॥  
 पुत्रिकास्तस्य सप्तासन् सोऽदादन्येभ्य एव ताः । तदलाभात्स नन्दी च महादुःखवशीकृतः ॥ २०२ ॥  
 अथान्येषुर्नटप्रेक्षां वीक्षितुं कौतुकाप्रतः । बलवद्भटसंघट्टमपतत्सोढुमक्षमः ॥ २०३ ॥  
 सर्माक्ष्य तं जतोऽन्योन्यकराप्रस्फालनान्वितम् । हस्त्यापन्नलज्जः सन् भृगुपाते कृतोद्यमः ॥ २०४ ॥  
 अद्रिमस्तकमारुह्य ऽटङ्कच्छिन्ने स तस्थिवान् । पातान्मुखो भयात्कुर्वन् प्रवर्तननिवर्तने ॥ २०५ ॥  
 शङ्कनिनामिकाख्यभ्यां संयताभ्यां धरातले । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम् ॥ २०६ ॥  
 सुगुरुद्रुमपेगाख्यः सत्रिबोधाऽब्रवीद्विदम्<sup>१</sup> । भवे भावी तूर्तायेऽस्माच्छायेयं युवयोः पिता ॥ २०७ ॥  
 श्रुत्वा तद्यौ च गत्वैनं नन्दिनं भाविनन्दनौ । कुतस्तं मृतिनिर्बन्धो बन्धो विरम निष्फलात् ॥ २०८ ॥  
 अमुष्मान्मरगाद्भाग्यसौभाग्यादि स्वयेप्सितम् । भविष्यति तपःसिद्धेरित्यप्राहयनां तपः ॥ २०९ ॥

संन्यास धारण कर लिया और मर कर उन सबके साथ आनत स्वर्गके शातङ्कर नामक विमानमें उन्नत हो वहाँके भोग भोगने लगी। वहाँ उसकी वीस सागरकी आयु थी। आयुपूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई है, धनदेव आदि प्रसिद्ध पौरुषके धारक समुद्र-विजय आदि पुत्र हुए हैं तथा प्रियदर्शना और ज्येष्ठा नामक पुत्रियोंके जीव अतिशय प्रसिद्ध कुन्ती माद्री हुए हैं। यह सब सुननेके बाद राजा अन्वकवृष्टिने अब सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे वसुदेवकी भवावली पूछी ॥ १९७-१९८ ॥ जिनराज भी वसुदेवकी शुभ भवावली अपनी गम्भीर भाषा द्वारा इस प्रकार कहने लगे मो ठीक ही है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे भव्य जीवोंका सदा अनुग्रह होता है ॥ १९९ ॥

वे कहने लगे कि कुरुदेशके पलाशकूट नामक गाँवमें एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था। वह जन्मसे ही दरिद्र था। उसके नन्दी नामका एक लड़का था। नन्दीके मामाका नाम देवशर्मा था। उसके सात पुत्रियाँ थीं। नन्दी अपने मामाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यहीन होनेके कारण देवशर्माने वे पुत्रियाँ उसके लिए न देकर किसी दूसरेके लिए दे दीं। पुत्रियोंके न मिलनेसे नन्दी बहुत दुःखी हुआ ॥ २००-२०२ ॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन वह कौतुकयश नटोंका खेल देखनेके लिए गया। वहाँ वड़े-वड़े बलवान् यादवाओंकी भीड़ थी जिमे वह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके विपरीत गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीट कर उसकी हँसी करने लगे। इस घटनासे उसे बहुत ही लज्जा हुई और वह किसी पर्वतकी शिखरसे नीचे गिरनेका उद्यम करने लगा ॥ २०३-२०४ ॥ पर्वतकी शिखर पर चढ़कर वह टोंकीसे कटी हुई एक शिला पर खड़ा हो गया और गिरनेका विचार करने लगा परन्तु भयके कारण गिर नहीं सका, वह बार-बार गिरनेके लिए तैयार होता और बार-बार पीछे हट जाता था ॥ २०५ ॥ उसी पर्वतके नीचे पृथिवी तल पर द्रुमपेण नामके मुनिराज विराजमान थे वे मति, श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, शङ्ख और निर्नामिक नामके दो मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे उन्होंने द्रुमपेण मुनिराजसे आदरके साथ पूछा कि यह छाया किसकी है? उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह छाया है वह इससे नीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ॥ २०६-२०७ ॥ गुरूकी दात सुनकर उसके दोनों होनेद्वारा पुत्र नन्दीके पाम जाकर पूछने लगे कि 'हे भाई! तुम्हें यह मरणका आग्रह क्यों हो रहा है? यदि नू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुम्हें तपकी सिद्धिसे प्राप्त हो जावेगा' इस प्रकार समझा कर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया ॥ २०८-२०९ ॥

चिरं सोऽपि तपः कृत्वा महाशुक्रेऽमरोऽजनि । तत्र षोडशवाध्यायुरनुभूयाभिवान्छितम् ॥ २१० ॥  
 प्रादुरासीत्तद्व्युत्था वसुदेवो वसुन्धराम् । वशीकर्तुमयं यस्मान्नाविनौ बलकेशवौ ॥ २११ ॥  
 इति सर्वमिदं श्रुत्वा ससंवेगपरायणः । सप्रेक्षोऽन्धकवृष्ण्याख्यः स्वीचिकीर्षुः परं पदम् ॥ २१२ ॥  
 समुद्रविजयाख्याय दत्त्वाभिषेकपूर्वकम् । राज्यमुज्जितसङ्गः सन् शमसङ्गतपोऽप्रहीत् ॥ २१३ ॥  
 सुप्रतिष्ठजिनाभ्यर्णे राजभिर्बहुभिः समम् । स संयमान्ते संन्यस्य विन्यासं निर्वृतेरगात् ॥ २१४ ॥  
 समुद्रविजये पाति क्षितिं वर्णाश्रमाः सुखम् । सुधर्मकर्मसु स्वैरं प्रावर्तन्त यथोचितम् ॥ २१५ ॥  
 राज्यं विभज्य दिक्पालैरिव भ्रातृभिरप्यभिः । सहान्वभूत्स भूपालः सकलं सर्वसौख्यदम् ॥ २१६ ॥  
 एवं सुखेन सर्वेषां काले गच्छत्ययोदयात्<sup>१</sup> । चतुरङ्गबलोपेतो वसुदेवो युवाग्रणीः ॥ २१७ ॥  
 गन्धवारणमारुह्य सन्ध्वरामरावलिः । बाद्यमानाखिलातोद्यन्निनिभिर्भद्रिक्तटः ॥ २१८ ॥  
 बन्दिमागधसूतादिसूधमानाङ्गमालकः । नानाभरणभाभारभासमानस्वविग्रहः ॥ २१९ ॥  
 निगृहीतुमिषोप्रांशुमुद्यतो निजतेजसा । अधो विधातुं<sup>२</sup> वाप्येष भूषणाङ्गसुरद्रुमम् ॥ २२० ॥  
 अमराणां कुमरो वा कुमारः प्रत्यहं बहिः । निर्गच्छति पुरात्स्वैरं स्वलीलादर्शनोत्सुकः ॥ २२१ ॥  
 विसस्मरुविलोक्यैवं स्वध्यापारान् पुरस्त्रियः । निरादरा बभूवुश्च मातुलान्यादिवारणे<sup>३</sup> ॥ २२२ ॥  
 निर्गमेऽथ कुमारस्य विषण्णा नागरास्तदा । गत्वा विज्ञापयामासुस्तद्वृत्तान्तं महीपतेः ॥ २२३ ॥  
 श्रुत्वावधार्यं तद्वाजा सहजस्नेहनिर्भरः । प्रकाशप्रतिपेधेन कदाचिद्विमुखो भवेत् ॥ २२४ ॥

वह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरणकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ; वहाँ सोलह सागरकी आयु प्रमाण मनोवांछित सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पृथिवीको बश करनेके लिए वसुदेव हुआ है । बलभद्र और नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी ॥ २१०-२११ ॥ महाराज अन्धकवृष्टि यह सब सुनकर संसारसे भयभीत हो उठे । वे विद्याधर तो थे ही, अतः परम पद—मोक्षपद प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अभिषेकपूर्वक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया और स्वयं समस्त परिग्रह छोड़कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुतसे राजाओंके साथ तप धारण कर लिया । संयम धारण कर अन्तमें उन्होंने संन्यास धारण किया और कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ २१२-२१४ ॥ इधर समुद्रविजय पृथिवीका पालन करने लगे । उनके राज्यमें समस्त वर्णों और समस्त आश्रमोंके लोग, उत्तम धर्मके कार्योंमें इच्छानुसार सुखपूर्वक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥ २१५ ॥ राजा समुद्रविजय राज्यका यथायोग्य विभाग कर दिक्पालोंके समान अपने आठों भाइयोंके साथ सर्व प्रकारका सुख देनेवाले राज्यका उपभोग करते थे ॥ २१६ ॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था । इन सबमें वसुदेव सबसे अधिक युवा थे इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण नामक हाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे । उस समय चतुरङ्ग सेना उनके साथ रहती थी, चमरोंके समूह उनके आस-पास दुरायें जाते थे, बजते हुए समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि दिशाओंके किनारे फटेसे जाते थे, वन्दी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी विरुद्धावलीका वर्णन करते जाते थे, अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समूहसे उनका शरीर देदीप्यमान रहता था जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपने तेजसे सूर्यका निग्रह करनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृक्षका तिरस्कार करनेके लिए ही तैयारी कर रहे हों । उस समय वे देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरकी स्त्रियाँ इन्हें देखकर अपना अपना कार्य भूल जाती थीं और अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं—किसीके निषेध करने पर भी नहीं मानती थीं ॥ २१७-२२२ ॥ इस तरह कुमार वसुदेवके निकलनेसे नगरनिवासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्रविजयके पास जाकर निवेदन किया ॥ २२३ ॥ नगर-निवासियोंकी बात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज

१ पुण्योदयात् । २ वाप्येक-ज्ञ० । ३-वारणैः क्ष० ।

कुमार इति सञ्चिन्व्य समाहूय मिथोऽब्रवीत् । 'कुमार तव कामस्य छायाद्येवमिवान्यथा ॥ २२५ ॥  
 वृथाटनं परित्याज्यं शीतवातादिषु स्वया । विहर्तुं परिवाञ्छा चेत्यरितो राजमन्दिरम् ॥ २२६ ॥  
 धारागृहे वने रम्ये हर्म्ये विहितपर्वते । मन्त्रिसामन्तबोधप्रमहामात्रात्मजैः समम् ॥ २२७ ॥  
 यथेष्टे विचरेत्येतत् श्रुत्वा सोऽपि तथाचरत् । आददत्यमृतं दासवचनं शुद्धबुद्धयः ॥ २२८ ॥  
 एवं विहरमाणं तं वाचाटश्रेटकोऽपरम् । नात्रा निपुणमत्याख्यो यथेष्टाचरणोत्सुकः ॥ २२९ ॥  
 राज्ञा त्वं प्रतिषिद्धोऽसि सोपायं निर्गमं प्रति । इत्यद्यादीदसौ चाह किमर्थमिति चेदकम् ॥ २३० ॥  
 सोऽब्रवीत्तव नियोगकाले रूपविलोकनात् । परे शिथिलचारित्रा मन्मथेनाकुलीकृताः ॥ २३१ ॥  
 वीतलज्जा विमर्यादा विपरीतविचेष्टिताः\* । पीतासवसमाः कन्याः सधवा विधवाश्च ताः ॥ २३२ ॥  
 काश्चित्प्रस्विन्नसर्वाङ्गाः काश्चिदङ्गांशलोचनाः । काश्चित्सन्त्यक्तसंयाताः काश्चित्यक्ताङ्गभोजनाः ॥ २३३ ॥  
 भवमत्य गुरुन् काश्चित्काश्चिन्निर्भस्यै रक्षकान् । भर्तुं न विगणयान्याः पुत्रांश्चान्याश्च पुत्रकान् ॥ २३४ ॥  
 मत्वा मर्कटकान् काश्चित्समुत्क्षिप्य समाकुलाः । कम्बलं परिधायान्या विचिन्त्योत्कृष्टवाससी ॥ २३५ ॥  
 अङ्गरागं समालोच्य काश्चिदालिप्य कर्दमम् । लोचने स्वे समालोच्य ललाटेभ्यस्तकजलाः ॥ २३६ ॥  
 \*स्वाः स्वास्तथाविधाः सर्वाः सवैरुद्विग्नमानसैः । निरीक्ष्य पौरैर्वाङ्क्येन ज्ञापितोऽयं नरेश्वरः ॥ २३७ ॥  
 तवेदृशीमुपायेन व्यवस्थां पर्यकल्पयत् । इति संश्रुत्य तेनोक्तं कुमारस्तत्परीक्षितुम् ॥ २३८ ॥  
 राजगोहाद्विनिर्गन्तुकामो दौवारिकैस्तदा" । तवाग्रजस्य 'भो देव निर्देशोऽस्माकमीदृशः ॥ २३९ ॥

समुद्रविजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव है यह विमुख हो जावेगा । इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेवको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'हे कुमार ! तुम्हारे शरीरकी कान्ति आज बदली-सी मालूम होती है इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा आदिमें यह व्यर्थका भ्रमण छोड़ देना चाहिए । यदि भ्रमणकी इच्छा ही है तो राजभवनके चारों ओर धारागृह, मनोहर-वन, राज-मन्दिर, तथा कृत्रिम पर्वत आदि पर जहाँ इच्छा हो मन्त्रियों, सामन्तों, प्रधान योद्धाओं अथवा महामन्त्रियोंके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो ।' महाराज वसुदेवकी बात सुनकर कुमार वसुदेव ऐसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष आप्तजनोंके वचनोंको अमृत जैसा ग्रहण करते हैं ॥ २२४-२२८ ॥ कुमार इस प्रकार राजमन्दिरके आसपास ही भ्रमण करने लगे । एक दिन जिसे बहुत बोलनेकी आदत थी और जो स्वेच्छानुसार आचरण करनेमें उत्सुक रहता था ऐसा निपुणमति नामका सेवक कुमार वसुदेवसे कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है । कुमारने भी उस सेवकसे पूछा कि महाराजने ऐसा क्यों किया है ? उत्तरमें वह कहने लगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तब आपका सुन्दर रूप देखनेसे नगरकी स्त्रियोंका चारित्र शिथिल हो जाता है, वे कामसे आकुल हो जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएँ करने लगती हैं, कन्याएँ सधवाएँ और विधवाएँ सभी मदिरा पी हुईके समान हो जाती हैं, कितनी ही स्त्रियोंका सब शरीर पसीनासे तरबतर हो जाता है; कितनी ही स्त्रियोंके नेत्र आधे खुले रह जाते हैं, कितनी ही स्त्रियाँ पहननेके वस्त्र छोड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं, कितनी ही गुरुजनोंका तिरस्कार कर बैठती हैं, कितनी ही रक्षकोंको ललाकार देती हैं, कितनी ही अपने पतियोंकी उपेक्षा कर देती हैं, कितनी ही पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हैं, कितनी ही पुत्रोंको बन्दर समझ कर दूर फेंक देती हैं, कितनी ही कम्बलको ही उत्तम वस्त्र समझकर पहिन लेती हैं, कितनी कीचड़को अङ्गराग समझकर शरीर पर लपेट लेती हैं और कितनी ही ललाटको नेत्र समझ कर उसीपर कजल लगा लेती हैं । अपनी-अपनी समस्त स्त्रियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगर-निवासी बड़े दुःखी हुए और उन्होंने शब्दों द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया । महाराजने भी इस उपायसे आपकी ऐसी व्यवस्था की है । निपुणमति सेवककी बात सुनकर उसकी परीक्षा

१ ल०, ग०, घ०, म० सम्मतः पाठः । ल० पुस्तके तु 'कुमार वपुरेतत्ते पश्यामि किमिवान्यथा' इति पाठः । २ विचेष्टितम् ग० । ३ समाकुलान् ल० । ४ स्वास्तास्तथा-ल० । ५ तथा म०, ल० । ६ ल०, ग०, घ०, म०, संमतः पाठः, ल० पुस्तके तु 'तवाग्रजस्य देवस्य नादेशोऽस्माकमीदृशः' इति पाठः ।



बहिस्त्वया न गन्तव्यमिति रुद्धः स्थितोऽन्यदा । समुद्रविजयादीनामनुक्त्वाऽयशसो भयात् ॥ २४० ॥  
 १ वसुदेवोऽमुतो गत्वा विद्यासंसाधनच्छलात् । श्मशानभूमावेकाकी महाज्वाले हुताशने ॥ २४१ ॥  
 निपत्याकीर्तिभीर्मातुरिति पत्रं २ विलिख्य तत् । कण्ठे निबध्य दाहस्य मुक्त्वा तत्रैव तं स्वयम् ॥ २४२ ॥  
 बद्धिं प्रदक्षिणीकृत्य दह्यमानशवान्वितम् । अगादलक्षमार्गः स रात्रावेव द्रुतं ततः ॥ २४३ ॥  
 ३ ततः सूर्योदये राजगेहे तद्रक्षकाप्रणीः । अनिरीक्ष्यानुजं राज्ञो राजादेशादितस्ततः ॥ २४४ ॥  
 पर्यटन्बहुभिः सार्द्धं तमन्वेष्टुमथैक्षत । भस्मीभूतं शवं तत्र भ्राश्यन्तं च तुरङ्गमम् ॥ २४५ ॥  
 \* तत्कण्ठे पत्रमादाय नीत्वा राज्ञे समार्पयत् । तत्पत्रार्थं समाकर्ण्य समुद्रविजयादयः ॥ २४६ ॥  
 महीभुजः परे चातिशोकसन्तप्तचेतसः । नैमित्तिकोक्तद्योगक्षेमज्ञाः शममागताः ॥ २४७ ॥  
 भूत्वान्महीपतिः खेहात्स तदैव समन्ततः । तं १ गवेषयितुं दक्षान् प्राहिणोत्सहितान् बहून् ॥ २४८ ॥  
 विजयाख्यं पुरं गत्वा सोऽप्यशोकमहीरुहः । मूले विश्रान्तये तस्थौ तरुच्छायामवस्थिताम् ॥ २४९ ॥  
 समीक्ष्यादैशिकप्रोक्तमभूद्वितथं वचः । इत्युद्यानपतिर्गत्वा मगधेशमबुधुधत् ॥ २५० ॥  
 राजापि ५ यामलाख्यां ७ स्वां सुतां तस्मै समार्पयत् । दिनानि कानिचित्त्र विश्रम्य गतवांस्ततः ॥ २५१ ॥  
 देवदारुवने पुष्परम्याख्ये वनजाकरे । अरण्यवारणेनासौ क्रिडित्वा रुद्धं तं मुदा ॥ २५२ ॥

करनेके लिए कुमार वसुदेव ज्यों ही राजमन्दिरसे बाहर जाने लगे त्यों ही द्वारपालोंने यह कहते हुए मना कर दिया कि 'देव ! हम लोगोंको आपके बड़े भाईकी ऐसी ही आज्ञा है कि कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जावे ।' द्वारपालोंकी उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस समय तो रुक गये परन्तु दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहे बिना ही अपयशके भयसे विद्या सिद्ध करनेके बहाने अकेले ही श्मशानमें गये और वहाँ जाकर माताके नाम एक पत्र लिखा कि 'वसुदेव अकीर्तिके भयसे महाज्वालाओं वाली अग्निमें गिरकर मर गया है ।' यह पत्र लिखकर घोंडेके गलेमें बाँध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुर्दा जल रहा था ऐसी अग्निकी प्रदक्षिणा देकर रात्रिमें ही बड़ी शीघ्रतासे किसी अलक्षित मार्गसे चले गये ॥ २२६-२४३ ॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान प्रधान रत्नकोने राजमन्दिरमें कुमार वसुदेवका नहीं देखा तो उन्होंने राजा समुद्र-विजयको खबर दी और उनकी आज्ञानुसार अनेक लोगोंके साथ उन्हें खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर घूमने लगे । कुछ समय बाद उन्होंने श्मशानमें जला हुआ मुर्दा और उसीके आस पास घूमता हुआ कुमार वसुदेवका घोंड़ा देखा ॥ २४४-२४५ ॥ घोंड़ेके गलेमें जो पत्र बाँधा था उसे लेकर उन्होंने राजा समुद्रविजयके लिए सौंप दिया । पत्रमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रविजय आदि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमित्तज्ञानीने जब कुमार वसुदेवके योग्य और क्षेमका वर्णन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये ॥ २४६-२४७ ॥ राजा समुद्रविजयने उसी समय स्नेह वश, बहुतसे हितैषी तथा चतुर सेवकोंको कुमार वसुदेवकी खोज करनेके लिए भेजा ॥ २४८ ॥

इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए अशोक वृक्षके नीचे बैठ गये । कुमारके बैठनेसे उस वृक्षकी छाया स्थिर हो गई थी उसे देख कर वागवान्ने सोचा कि उस निमित्तज्ञानीके वचन सत्य निकले । ऐसा विचार कर उसने मगधदेशके राजाको इसकी खबर दी और राजाने भी अपनी श्यामला नामकी कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित की । कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्तर वहाँसे आगे चल दिया । अब वे देवदारु वनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोवरके पास पहुँचे और वहाँ किसी जंगली हाथीके साथ

१ वसुदेवस्ततो ग०, ल० । २ विलिख्यत ल० । ३ ख०, ग०, घ०, म० संमतः पाठः, ल० पुस्तके तु 'ततः सूर्योदये गेहे तद्रक्षणकाराप्रणीः' इति पाठः । ४ कण्ठपत्र-ल० । ५ नैमित्तिकोक्तद्योगकालज्ञाः म० । भाष्यज्ञाः ल० । ६ तमावेपयितुं ल० । ७ तां ग०, ल० ।

श्लाघ्यमानः स्वयं केनचित्खगेन गजाधिपात् । अपास्य सहसानीतः खेचराद्रिं कृती पुरः ॥ २५३ ॥  
 पत्युः किञ्चरगीतस्य द्वितीयां वा रतिं सतीम् । सुतामशनिवेगस्य दत्तां शल्मलिपूर्विकाम् ॥ २५४ ॥  
 जातां पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान् । तथा सह स्मरस्यापि सुखं स्मर्तुंभगोचरम् ॥ २५५ ॥  
 अनुभूय दिनान्यत्र विश्रान्तः कानिचित्पुनः । तथोपसर्तुकामं तं समीक्ष्याङ्कारवेगकः ॥ २५६ ॥  
 उद्धृत्वाशनिवेगस्य दायादोयं नभस्तले । ज्ञात्वा दशान्तशाल्मल्या समुद्रीर्णासिहस्तया ॥ २५७ ॥  
 सोऽन्वीतस्तद्गयान्मुक्त्वा तं तस्मात्प्रपलायितः । विद्यया पर्णलब्ध्यासौ प्रियाप्रहितया तथा ॥ २५८ ॥  
 चम्पापुरसमीपस्थसरोमध्ये शनैः शनैः । द्वीपे निपातितोऽपृच्छदेहिनस्तीरवतिनः ॥ २५९ ॥  
 द्वीपादमुस्माद्भिर्गन्तुं किं तीर्थं वदतेति तान् । अवर्दंस्तेऽपि किं भद्रं पतितः स्वात्त्वमित्यमुम् ॥ २६० ॥  
 सन्त्यग्भवति विज्ञातमिति तेन सुभाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जलाश्रित्यर्थाभिः ॥ २६१ ॥  
 न्यदिशन्नप्रतस्तस्मात्प्रविश्य नगरं गुरुम् । दृष्ट्वा गन्धर्वविद्याया मनोहरसमाह्वयम् ॥ २६२ ॥  
 उपविश्य तदभ्यासे वीणावादनशिक्षकान् । तत्र गन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरविधिं प्रति ॥ २६३ ॥  
 दृष्ट्वा निगूढतज्जानो वसुदेवो विमूढवत् । अहं चैभिः सहाभ्यासं करोमीत्यारावह्लकिः ॥ २६४ ॥  
 आदावेवाच्छिनतन्त्रीं तुम्बीजं वाभिनःफलम् । वैयात्यं पश्यतास्यालं दृष्ट्वा तं तेऽहसन् शृणुम् ॥ २६५ ॥  
 भर्ता गन्धर्वदत्तायास्त्वमेवैव विचक्षणः । गीतवाद्यविशेषेषु सर्वानस्मान् जयेरिति ॥ २६६ ॥

क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये ॥ २४६-२५२ ॥ उसी समय किसी विद्याधरने उनकी बड़ी प्रशंसा की और हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माको अकस्मात् ही विजयार्थ पर्वत पर पहुँचा दिया ॥ २५३ ॥ वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिदत्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी । अशनिवेगने वह कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित कर दी । कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगोचर कामसुखका अनुभव किया और कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया । तदनन्तर जब कुमारने वहाँसे जानेकी इच्छा की तब अशनिवेगका दायाद ( उत्तराधिकारी ) अंगारवेग उन्हें जानेके लिए उद्यत देख उठाकर आकाशमें ले गया । इधर शाल्मलिदत्ताको जब पता चला तो उससे नंगी तलवार हाथमें लेकर उसका पीछा किया । शाल्मलिदत्ताके भयसे अंगारवेग कुमारको छोड़कर भाग गया । कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके द्वारा भेजी हुई पर्णलब्धी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोवरके मध्यमें वर्तमान द्वीप पर धीरे-धीरे उतार दिया । वहाँ आकर कुमारने किनारे पर रहनेवाले लोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे बाहर निकलनेका मार्ग क्या है ? आप लोग मुझे बतलाइए । तब लोगोंने कुमारसे कहा कि क्या आप आकाशसे पड़े हैं ? जिससे कि निकलनेका मार्ग नहीं जानते । कुमारने उत्तर दिया कि आप लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही मैं आकाशसे पड़ा हूँ । कुमारका उत्तर सुनकर सब लोग हँसने लगे और इस मार्गके द्वारा आप जलसे बाहर निकल आइए ऐसा कह कर उन्होंने मार्ग दिखा दिया । कुमार उसी मार्गसे निकल कर नगरमें प्रवृष्ट हुए और मनोहर नामक गन्धर्वविद्याके गुरुके पास जा बैठे । गन्धर्वदत्ताको स्वयंवरमें जीतनेके लिए उनके पास बहुतसे शिष्य वीणा बजाना सीख रहे थे । उन्हें देख तथा अपने वीणाविषयक ज्ञानको छिपाकर कुमार मूर्खकी तरह बन गये और कहने लगे कि मैं भी इन लोगोंके साथ वीणा बजानेका अभ्यास करता हूँ । ऐसा कह कर उन्होंने एक वीणा ले ली । पहले तो उसकी तन्त्री तोड़ डाली और फिर तूँबा फोड़ दिया । उनकी इस क्रियाको देख लोग अत्यधिक हँसने लगे और कहने लगे कि इसकी धृष्टताको तो देखो । कुमार वसुदेवसे भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान पड़ता है कि गन्धर्वदत्ताके तुम्हीं पति होओगे और हम सबको गाने-बजानेकी कलामें हरा दोगे ॥ २५४-२६६ ॥

१ प्रियप्रहितया तथा ग० । प्रियं प्रियतया तथा ल० । २ गन्धर्वकुशलं प्राप ल० । ३ ल०, ग०, ब०, म०, संमतः पाठः । आदावेवाच्छिनतन्त्रीं तुम्बीजं वाभिनःफलं ल० । ४ वियात्यं ल० । ५ त्वमेवैव ल० ।

१ एवं तत्र स्थिते तस्मिन् धरागगनगोचराः । प्रापुर्गन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरसमुत्सुकाः ॥ २६७ ॥  
 २ तान्स्वयंवरशालायां बहून् जितवती स्वयम् । तदानीं गीतवादाभ्यां तत्कलारूपधारिणी ॥ २६८ ॥  
 चारुदत्तादिभिः श्रोतृपदमध्यासितैः स्तुता । कलाकौशलमेतस्या विलक्षणमिति स्फुटम् ॥ २६९ ॥  
 स्वोपाध्यायं तदापृच्छथ कन्याभ्यर्णमुपागतः । वसुदेवोऽभणीद्वीणां विदोषामानयन्त्विति ॥ २७० ॥  
 तेषुपि तिलश्चतस्रश्च हस्ते वीणाः ३ समर्पयन् । तासां तन्त्रीषु ४ लोमांसं शल्यञ्चालोक्य सस्मितम् ॥ २७१ ॥  
 तुम्बीफलेषु दण्डेषु शल्कपाषाणमप्यसौ । स्फुटीचकार तद्दृष्ट्वा त्वदिष्टा कीदृशी भवेत् ॥ २७२ ॥  
 वीणेति कन्यया प्रोक्तो मदिष्टायाः समागमः । ईदृग्विध इति प्राह तत्रार्थाख्यानमीदृशम् ॥ २७३ ॥  
 हास्तिनाख्यपुराधीशो राज्ञो मेघरथश्रुतेः । पद्मावत्याश्च सञ्जातौ विष्णुपद्मरथौ सुतौ ॥ २७४ ॥  
 सह विष्णुकुमारेण भूपतौ तपसि स्थिते । पद्मावत्यारथे राज्यमलङ्कर्वन्त्यथान्यदा ॥ २७५ ॥  
 प्रत्यन्तवासिसंक्षोभे सञ्जाते सचिवाग्रणीः । सामादिभिरुपायैस्तं प्रशान्तिं समर्जगामत् ॥ २७६ ॥  
 राज्ञा तुष्टवतावादि त्वयेष्टं वाच्यतामिति । राज्यं सप्तदिनं कर्तुमिच्छामीत्यब्रवीद् बली ॥ २७७ ॥  
 दत्तं जरत्पृणं मत्वा ५ तेन तस्मै तदूर्जितम् । कृतोपकारिणे देयं किं न तत्कृतवेदिभिः ॥ २७८ ॥  
 तन्नाकम्पनगुर्वाधमागत्य मुनिमण्डलम् । अग्रहीदातपे योगं ६ सर्वं सौम्यमहीभृति ॥ २७९ ॥  
 निर्जिता ७ प्राग्विदुष्विष्यामकम्पनमुनीशिना । वादे सभायां तत्कोपात्तं जिघांसुरघात्मकः ॥ २८० ॥

इस प्रकार कुमार वसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे । तदनन्तर गन्धर्वदत्ताके स्वयंवरमें उत्सुक हुए भूमिगोचरी और विशाधर लोग एकत्रिन होने लगे ॥ २६७ ॥ गाने बजानेकी कलाका रूप धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ताने स्वयंवर शालामें आये हुए बहुतसे लोगोंको अपने गाने-बजानेके द्वारा तत्काल जीत लिया ॥ २६८ ॥ वहाँ जो चारुदत्त आदि मुख्य मुख्य श्रोता बैठे थे वे सब उस गन्धर्वदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका कला-कौशल बड़ा ही विलक्षण है—सबसे अद्भुत हैं ॥ २६९ ॥ तदनन्तर वसुदेव भी अपने गुरुसे पूछकर कन्याके पास गये और कहने लगे कि ऐसी वीणा लाओ जिसमें एक भी दोष नहीं हो ॥ २७० ॥ लोगोंने तीन चार वीणाएँ वसुदेवके हाथमें सौंप दीं । वसुदेवने उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि इन वीणाओंकी ताँतमें लोमांस नामका दोष है और तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शल्क एवं पाषाण नामका दोष है । उन्होंने यह कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया । यह देख कन्याने कहा कि तो फिर आप कैसी वीणा चाहते हैं ? इसके उत्तरमें कुमारने कहा कि मुझे जो वीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था । ऐसा कहकर उन्होंने निम्नांकित कथा सुनाई ॥ २७१—२७३ ॥

हस्तिनापुरके राजा मेघरथके पद्मावती रानीसे विष्णु और पद्मरथ नामके दो पुत्र हुए थे ॥ २७४ ॥ कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो विष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे और पद्मरथ राज्य करने लगा । किसी अन्य समय सर्मापवती किसी राजाने राज्यमें क्षोभ उत्पन्न किया जिसे प्रधान मन्त्री बलिने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने बलिके कार्यसे सन्तुष्ट होकर कहा कि 'तुझे क्या इष्ट है ? तू क्या चाहता है ?' सो कह ! उत्तरमें बलिने कहा कि मैं सात दिन तक राज्य करना चाहता हूँ । राजाने भी बलिकी इस माँगको जीर्णतृणके समान तुच्छ समझ उसे सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो किये हुए उपकारको जानते हैं, अर्थात् कृतज्ञ हैं वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नहीं देते हैं ? ॥ २७५—२७८ ॥ उसी समय अकम्पन गुरु आदि मुनियोंके समूहने हस्तिनापुर आकर वहाँके सौम्य पर्वत पर आतापन योग धारण कर लिया । पहले जब बलि मन्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उसे अकम्पन गुरुने शास्त्रार्थके समय विद्वानोंकी सभामें जीत लिया था इसलिए वह पापी क्रोधसे उनका घात करना

१ पठत्यत्र स्थिते ल० । २ सा ल० । ३ समर्पयत् ल० । ४ सौमश्यं ल० । ५-भणुदस्मैतदूर्जितम् ल० । ६ सर्वे ल० । ७ प्राग्विदुष्विष्या ल० ।

यागव्याजं समाख्य स मन्त्री परितो गिरिम् । १ अथिताहारदानार्थं देवसन्तर्पणाय च ॥ २८१ ॥  
 पाकं प्रकल्पयामास धूमज्वालाग्निसन्ततम् । ज्ञात्वा विष्णुकुमारस्तमुपसर्गं मुनीश्वरः ॥ २८२ ॥  
 गत्वा पद्मरथाभ्यर्णं वीतरागासने स्थितः । राज्ञाभिषन्ध सम्पूज्य किं कृत्यमिति भाषितः ॥ २८३ ॥  
 उपसर्गं व्यधान्मन्त्री तवात्रातपयोगिनाम् । निवार्यतामसावाशु त्वयेत्याह महीपतिम् ३ ॥ २८४ ॥  
 प्रतिपन्नं मया तस्मै राज्यं सप्तदिनावधि । न निवारयितुं शक्यः सत्यभेदभयादसौ ॥ २८५ ॥  
 ततो भवद्भिरेवार्यं निवार्यो दुर्जनोऽधुना । न विदन्ति खलाः स्वैरा युक्तायुक्तविचेष्टितम् ॥ २८६ ॥  
 ह्यवोचदसौ चैतद्वगम्य मुनीश्वरः । प्रतिषिध्यामि पापिष्ठमहमेवाशु नश्वरम् ॥ २८७ ॥  
 इति वामनरूपेण ब्राह्मणाकारमागतः । सम्प्राप्य बलिनोऽभ्यर्णं स्वस्तिवादपुरस्सरम् ॥ २८८ ॥  
 ४ महाभागाहमर्थो त्वां दातुमुख्यमुपागमम् । देयं त्वयेत्यवादीत्सोप्यभोष्टं प्रतिपन्नवान् ॥ २८९ ॥  
 अभाषत द्विजो राजन् देयं मे विक्रमैस्त्रिभिः । प्रमितं क्षेत्रमित्यल्पं किमेतदभियाचितम् ॥ २९० ॥  
 गृह्णोति बलीं पाणिजलसेकसमन्वितम् । ५ अदितास्मै मुनिश्चासविक्रियद्वि निजक्रमम् ॥ २९१ ॥  
 ६ न्वधादेकं प्रसार्योच्चैमानुषोत्तरमूर्धनि । द्वितीयमपि देवाद्विचूलिकायां स्फुरद्द्युतिः ॥ २९२ ॥  
 तदा विद्याधरा भूमिगोचराश्चार्यं सहर । चरणौ खंसतेर्हेतुं क्रोधं मा स्म कथा वृथा ॥ २९३ ॥  
 इति सङ्गीतवीणादिमुखरा मुनिसरामम् । सद्यः प्रसादयामासुः सौप्यंघ्नी स्वौ समाहरत् ॥ २९४ ॥  
 ७ त्वा लक्षणवत्तेषां तदा गीतं सुधाशिनः ७ । तुष्टा घोषसुधोषाख्ये महावोषाञ्च सुस्वराम् ॥ २९५ ॥

चाहता था ॥ २७६-२८० ॥ पापी बलि मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सौम्य पर्वतके चारों ओर याचकोंको दान देने तथा देवताओंको सन्तुष्ट करनेके लिए पाक अर्थात् रसोई बनवाना शुरू किया जिससे धुआँ तथा ज्वालाओंका समूह चारों ओर फैलने लगा। जब मुनिराज विष्णुकुमारको इस उपसर्गका पता चला तो वे आकर राजा पद्मरथके पास गये और वीतराग आसन पर बैठ गये। राजा पद्मरथने उनकी वन्दना की, पूजा की तथा कहा कि मुझसे क्या कार्य है ? ॥ २८१-२८३ ॥ मुनिराज विष्णुकुमारने राजा पद्मरथसे कहा कि तुम्हारे मन्त्रीने आतप योग धारण करनेवाले मुनियोंके लिए उपसर्ग कर रक्खा है उसे तुम शीघ्र ही दूर करो ॥ २८४ ॥ उत्तरमें राजाने कहा कि मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूँ अतः सत्यव्रतके खण्डित होनेके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता। हे पूज्य ! इस दुष्टका इस समय आप ही निवारण कीजिए। स्वच्छन्द रहनेवाले दुष्ट जन योग्य और अयोग्य चेष्टाओंको—अच्छे-बुरे कार्योंका नहीं जानते हैं ॥ २८५-२८६ ॥ राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे सुनकर मुनिराजने कहा कि तो मैं ही शीघ्र नष्ट होनेवाले इस पापीको मना करता हूँ ॥ २८७ ॥ इतना कहकर वे महामुनि वामन ( वोंने ) ब्राह्मणका रूप रखकर बलिके पास पहुँचे और आशीर्वाद देने हुए बोले कि हे महाभाग ! आज तू दाताओंमें मुख्य है इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ तू मुझे भी कुछ दे। उत्तरमें बलिने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया। तदनन्तर ब्राह्मण वेषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि हे राजन्, मैं अपने पैरसे तीन पैर पृथिवी चाहता हूँ यही तू मुझे दे दे। ब्राह्मणकी बात सुनकर बलिने कहा कि 'यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है इतना ही क्यों माँगा ? ले लो', इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथमें जलधारा छोड़कर तीन पैर पृथिवी दे दी। फिर क्या था ? मुनिराजने विक्रियाद्द्विसे फैला कर एक पैर तो मानुषोत्तर पर्वतकी ऊँची शिखर पर रक्खा और देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वतकी चूलिका पर रक्खा ॥ २८८-२९२ ॥ उस समय विद्याधर और भूमिगोचरी समी स्तुति कर मुनिराजसे कहने लगे कि हे प्रभो ! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, वृथा ही संसारका कारणभूत क्रोध नहीं कीजिए ॥ २९३ ॥ इस प्रकार सङ्गीत और वीणा आदिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों और विद्याधरों ने शीघ्र ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भी अपने दोनों चरण संकोच लिये ॥ २९४ ॥ उस समय उनका लक्षणसहित सङ्गीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने

१ प्रार्थिता ग० । २ भाषितम् ख० । ३ महीपतिः ग०, ल० । ४ महाभागाहमर्थं त्वां ल० ।  
 ५ अदितास्मै ल० । ६ व्यधादेकं म०, ल० । ७ सुधाशिनः ल० ।

वीणां घोषावतीं चासु ददति स्म सुसङ्गताम् । विद्याधरेभ्यो द्वे द्वे च भूकरेभ्यो यथाक्रमम् ॥ २९१ ॥  
 कृथा त्वं याचितो विप्रवेरणापि मयाऽधुना । नावकाशास्मृतीवस्य चरणस्येति सत्वरम् ॥ २९७ ॥  
 बध्वा बलिनमुद्वृतं बली विष्णुमुनीश्वरः । दुःसहं तं निराकार्णीदुपसर्गं मुनीशिनाम् ॥ २९८ ॥  
 बद्धं बलिनमाहन्तुं समुद्युक्तं महीपतिम् । प्रतिषिध्य प्रसन्नात्मा सद्धर्मं समजिग्रहत् ॥ २९९ ॥  
 एवं महामुनिस्तत्र कृतधर्मप्रभावनः । पूज्यः पद्मरथेनास्मात्स्वस्थानमगमत्सुधीः ॥ ३०० ॥  
 तासु घोषावती नाम वीणा वंशेऽत्र सन्निधिम् । समागमद्भवन्निस्तत्सा ममानीयतां शुभा ॥ ३०१ ॥  
 एवमुक्तवते तस्मै तामेवानीय ते ददुः । तयासौ गीतवाद्याभ्यां श्रोतृचेतोऽभिरञ्जनम् ॥ ३०२ ॥  
 समापादयदाकर्ण्यं तद्वीणाकौशलं महत् । प्रीता गन्धर्वदत्तापि स्वां वा मालां समार्पयत् ॥ ३०३ ॥  
 तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य कुण्ठिताखिलभूभुजः । ननु प्राकृतपुण्यानां स्वयं सन्ति महर्षयः ॥ ३०४ ॥  
 ततः सर्वे प्रहृष्यास्य कल्याणाभिषव व्यधुः । एवं विद्याधरश्रेण्यां लम्भास्ससप्तशतान्यसौ ॥ ३०५ ॥  
 सम्प्राप्य खेचरेशेभ्यस्तत्कन्यादानमानितः । ततो निवृत्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥ ३०६ ॥  
 हिरण्यवर्मणोऽरिष्टपुराधीशो महीपतेः<sup>३</sup> । पद्मावत्यामभूत्पुत्री रोहिणी रोहिणीव सा ॥ ३०७ ॥  
 स्वस्याः स्वयंवरायैत्य शिक्षकाग्र्यान् कलागुणान् । वसुदेवमुपाध्यायतया बोधयितुं स्थितम् ॥ ३०८ ॥  
 स्वबाहुलतयेवैनं रोहिणी रत्नमालया । आश्लिष्टकण्ठमकरोत्कण्ठाकुण्ठितचेतसा ॥ ३०९ ॥  
 ततो विभिन्नमर्यादाः समुद्रविजयादयः । समुद्र इव संहारे संक्षोभमुपगम्य ताम् ॥ ३१० ॥

अच्छे स्वर वाली घोषा, मुघोषा, महाघोषा और घोषवती नामकी चार वीणाएँ दीं । उन वीणाओं में से देवोंने यथाक्रमसे दो वीणाएँ तो विद्याधरोंकी दी थीं और दो वीणाएँ भूमिगोचरियोंको दी थीं ॥ २९५-२९६ ॥ तदनन्तर उन मुनिराजने वलिसे कहा कि मुझ ब्राह्मणने तुझसे व्यर्थ ही याचना की क्योंकि तीमरा चरण रखनेके लिए अवकाश ही नहीं है । यह कहकर बलवान् विष्णुकुमार मुनिराजने उस दुराचारी वलिको शांघ ही बाँध लिया और अकम्पन आदि मुनियोंके उस दुःसह उपसर्गका दूर कर दिया ॥ २९७-२९८ ॥ वैसे हुए वलिको मारनेके लिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया और प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने वलिको समीचीन धर्म ग्रहण कराया । इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनेवाले बुद्धिमान् महामुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की । तदनन्तर वे अपने स्थान पर चले गये ॥ २९९-३०० ॥ यह सब कथा कहनेके बाद कुमार वसुदेवने गन्धर्व-दत्तासे कहा कि देवोंके द्वारा दी हुई चार वीणाओंमें से घोषवती नामकी वीणा आपके इस वंशमें समागमको प्राप्त हुई थी अतः आप वही शुभ वीणा मेरे लिए मँगाइए ॥ ३०१ ॥ इस प्रकार कहने बाले वसुदेवके लिए उन लोगोंने वही वीणा लाकर दी । वसुदेवने उसी वीणाके द्वारा गा बजाकर सब श्रोताओंका चित्त प्रसन्न कर दिया । गन्धर्वदत्ता वसुदेवकी वीणा बजानेमें बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई और उसने अच्छे कण्ठवाले तथा समस्त राजाओंको कुण्ठित करनेवाले कुमार वसुदेवके गलेमें अपने आपकी तरह माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्योंकि पूर्व पर्यायमें पुण्य करनेवाले लोगोंको बड़ी-बड़ी ऋद्धियाँ स्वयं आकर मिल जाती है ॥ ३०२-३०४ ॥ इसके बाद सन्नने हर्षित होकर वसुदेवका कल्याणाभिषेक किया । इसी तरह विद्याधरोंकी श्रेणियों अर्थात् विजयार्थ पर्वत पर जाकर विद्याधर राजाओंके द्वारा कन्यादान आदिसे सम्मानित वसुदेवने सात सौ कन्याएँ प्राप्त कीं । तदनन्तर—परम अभ्युदयको धारण करनेवाले कुमार वसुदेव विजयार्थ पर्वतसे लौटकर भूमि पर आ गये ॥ ३०५-३०६ ॥ वहाँ अरिष्टपुर नगरके राजा हिरण्यवर्माके पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी चन्द्रमाकी स्त्रीके समान जान पड़ती थी । उसके स्वयंवरके लिए अनेक कलाओं तथा गुणोंको धारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोंके समान अनेक राजा लोग आये थे परन्तु वसुदेव 'हम सबके उपाध्याय हैं' लोगोंको यह बतलानेके लिए ही मानो सबसे अलग बैठे थे । उस समय रोहिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताके समान रत्नोंकी मालासे वसुदेवके कण्ठका आलिङ्गन किया था ॥ ३०७-३०८ ॥ यह देख, जिस

आहर्तुमुद्यतः॥ सर्वे दृष्ट्वा तान् दुष्टचेतसः । योद्धुं हिरण्यवर्मापि सस्वबन्धुः समुद्ययौ ॥ ३११ ॥  
 वसुदेवकुमारोऽपि निजनामाक्षराङ्कितम् । प्रजिघाय शरं सद्यः समुद्रविजयं प्रति ॥ ३१२ ॥  
 नामाक्षराणि तस्यासौ वाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोऽत्र पुण्यात्सम्भावितो मया ॥ ३१३ ॥  
 इति तुष्ट्वा निवार्य द्राक्संभ्रामं समुपागमत् । सहानुजैः कनीयांसमनुजं जितमन्मथम् ॥ ३१४ ॥  
 समुद्रविजयाधीशं वसुदेवः कृताञ्जलिः । प्रणम्य प्रीणयामास शेषानपि निजाम्रजान् ॥ ३१५ ॥  
 भुखेचराः कुमारेण तदा सर्वे निजात्मजाः । परिणीताः पुरानीय समुद्रः समजीगमन् ॥ ३१६ ॥  
 कुमारेण सभं गत्वा स्वपुरं विहितोत्सवम् । दशार्हाः स्वेप्सितं सौख्यमन्वभूवन्नारतम् ॥ ३१७ ॥  
 एवं काले प्रयात्येषां शलाच्यैर्भोगैरभङ्गुरैः । महाशुक्रात्समुत्पीर्य शङ्खाख्यः प्राक्तनो मुनिः ॥ ३१८ ॥  
 रोहिण्याः पुण्यभाक्पद्मनामासौ समजायत । प्रतोपं बन्धुवर्गेषु वर्धयन्नवमो बलः ॥ ३१९ ॥  
 सप्रतापा प्रभेवाभाससौरी धीरस्य निर्मला । शरदा प्राप्य संस्कारं श्रुत्या पद्मोद्भववहा ॥ ३२० ॥  
 दुर्वारो दुष्टविध्वंसो विशिष्टप्रतिपालकः । तत्प्रतापः कथं सौरमपि सारं न लङ्घते ॥ ३२१ ॥  
 इतः प्रकृतमन्यत्तु वृत्तकं तद्विगच्छते । गङ्गागन्धावतीनद्योः सङ्गमे सफलद्रुमे ॥ ३२२ ॥  
 तापसानामभूपल्ली नात्रा जठरकौशिकः<sup>३</sup> । वशिष्ठो नायकस्तत्र पञ्चाभिन्नतमाचरन् ॥ ३२३ ॥

प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर लुभित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रविजय आदि सभी राजा मर्यादा छोड़कर लुभित हो उठे और जबर्दस्ती रोहिणीको हरनेका उद्यम करने लगे । यह देख, हिरण्यवर्मा भी अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृदय वाले राजाओंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया ॥ ३१०-३११ ॥ कुमार वसुदेवने भी अपने नामके अक्षरोंसे चिह्नित एक वाण शीघ्र ही समुद्रविजयकी और छोड़ा ॥ ३१२ ॥ वाण पर लिखे हुए नामाक्षरोंको बाँचकर समुद्र-विजय आश्रयसे चकित हो गये, वे कहने लगे—अहो पुण्योदयसे मुझे वसुदेव मिल गया । उन्होंने सन्तुष्ट होकर शीघ्र ही संभ्राम बन्द कर दिया और अपने अन्य छोटे भाइयोंको साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई वसुदेवसे मिलनेके लिए गये ॥ ३१३-३१४ ॥ हाथ जोड़े हुए कुमार वसुदेवने महाराज समुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न किया । तदनन्तर अपने अन्य बड़े भाइयोंको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥ ३१५ ॥ कुमारके द्वारा पहले विवाही हुई अपनी-अपनी पुत्रियोंको भूमिगोचरी और विद्याधर राजा बड़े हर्षसे ले आये और उन्हें कुमारके साथ मिला दिया । समुद्रविजय आदिने कुमार वसुदेवको साथ लेकर उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख भोगते हुए रहने लगे ॥ ३१६-३१७ ॥ इस प्रकार इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था । कुछ समय बाद जितका वर्णन पहले आ चुका है ऐसे शङ्ख नामके मुनिराजका जीव महाशुक्र स्वर्गसे चय कर वसुदेवकी रोहिणी नामक स्त्रीके पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ । वह अपने भाइयोंमें आनन्दको बढ़ाता हुआ नौवाँ बलभद्र होगा ॥ ३१८-३१९ ॥ उसकी निर्मल बुद्धि सूर्यकी प्रभाके समान प्रताप युक्त थी । जिस प्रकार शरद् ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात् कमलोंके विकासको बढ़ाने लगती है उसी प्रकार उसकी बुद्धि शास्त्रोंका संस्कार पाकर पद्मा अर्थात् लक्ष्मीकी उत्पत्तिको बढ़ाने लगी थी ॥ ३२० ॥ उसका प्रताप दुर्वार था, दुष्टोंको नष्ट करनेवाला था और विशिष्ट-पुरुषोंका पालन करनेवाला था फिर भला वह सूर्यके सारभूत तेजका उल्लङ्घन क्यों नहीं करता ? ॥ ३२१ ॥

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कही जाती है जो इस प्रकार है । जहाँ गङ्गा और गन्धावती नदियाँ मिलती हैं वहाँ बहुतसे फले फूले वृक्ष थे । उन्हीं वृक्षोंके बीचमें जठरकौशिक नामकी तपसियोंकी एक बस्ती थी । उस बस्तीका नायक वशिष्ठ तपसी था वह पञ्चाभि तप तपा करता था । एक दिन वहाँ गुणभद्र और वीरभद्र नामके दो चारण मुनि आये । उन्होंने उसके तपको

भद्रान्तगुणधीराभ्यां चारणाभ्यामिदं तपः । अज्ञानकृतमित्युक्तमाकर्ण्यपृच्छदक्षता ॥ ३२४ ॥  
 कुतो ममेति सक्रोधं कुर्वी; स्थित्वा तयोः पुरः । आद्योऽत्र वक्तुमुद्युक्तः सन्तो हि हितभाषिणः ॥ ३२५ ॥  
 जटाकलापसम्भूतलिङ्गायकाभिषट्टनम् । सन्ततस्नानसंलग्नजटान्तर्धृतमीनकाम् ॥ ३२६ ॥  
 दृष्टमानेन्धनान्तःस्थम्पुराद्विविधकीटकान् । सन्दर्श्येदं तवाज्ञानमिति तं समबोधयत् ॥ ३२७ ॥  
 काललब्धिं समाश्रित्य वशिष्टोऽपि विशिष्टधीः । द्रोक्षित्वाऽऽतपयोगस्थः सोपवासं तपो व्यधात् ॥ ३२८ ॥  
 तपोमाहात्म्यतस्तस्य सप्तव्यन्तरदेवताः । मुनीश ब्रूहि सन्देशमिष्टमित्यग्रतः स्थिताः ॥ ३२९ ॥  
 दृष्ट्वा ताः स मुनिः प्राह भवतीभिः प्रयोजनम् । नास्त्यत्रागच्छतान्यस्मिन् यूयं जन्मनि मामिति ॥ ३३० ॥  
 क्रमेणैवं तपः कुर्वन्नागमन्मथुरापुरीम् । तत्र मासोपवासी सन्नातपं योगमाचरन् ॥ ३३१ ॥  
 अधान्येद्युविलोक्यैनमुग्रसेनमहीपतिः । भक्त्या १ मद्देह एवायं भिक्षां गृह्णातु नान्यतः ॥ ३३२ ॥  
 चकार घोषणां पुर्यामिति सर्वनिषेधिनीम् । स्वपारणादिने सोऽपि भिक्षार्थं प्राविशत्पुरीम् ॥ ३३३ ॥  
 उदतिष्ठत्तदैवाधरी राजगोहे निरीक्ष्य तम् । मुनीश्वरो निवर्त्यायाश्चिराहाहारस्तपोवनम् ॥ ३३४ ॥  
 ततः पुनर्गते मासे बुभुक्षुः क्षीणदेहकः । प्रविश्य नगरीं वीक्ष्य क्षोभणं १ यागहस्तितः ॥ ३३५ ॥  
 सद्यो निवर्तते स्मास्मान्मासमाश्राशनव्रतः । मासान्ते पुनरन्येद्युः शरीरस्थितये गतः ॥ ३३६ ॥  
 राजगोहं जरासन्धमहीट्प्रहितपत्रकम् । समाकर्ण्य महीपाले व्याकुलीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥  
 ततो निवर्तमानोऽसौ क्षीणाङ्गो जनजल्पितम् । न ददाति स्वयं भिक्षां निषिध्यति परानपि ॥ ३३८ ॥

अज्ञान तप वताया । यह मुनिकर वह दुबुद्धि तापस क्रोध करना हुआ उनके सामने खड़ा होकर पूछने लगा कि संरा अज्ञान क्या है ? उन दोनों मुनियोंमें जो प्रथम थे एमें गुणभद्र मुनि कहनेके लिए तापर हुए सो ठीक ही है क्योंकि संपुरुष हिनका ही उपदेश देते हैं ॥ ३२२-३२५ ॥ उन्होंने जटाओंके समूहमें उपन्न होनेवाली लीयों तथा जुओंके मङ्गटनको; निरन्तर स्नानके समय लगकर जटाओंके भीतर मरी हुई छोटी छोटी मछलियोंको और जलते हुए इन्धनके भीतर रहकर छुटपटाने वाले अनेक कीड़ोंको दिग्वाकर समझाया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान है ॥ ३२६-३२७ ॥ काल-लब्धिका आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक वह वशिष्ट तापस दीक्षा लेकर आतापन योगमें स्थित हो गया और उपवास सहित तप करने लगा ॥ ३२८ ॥ उसके तपके प्रभावसे सात व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज ! अपना इष्ट सन्देश कहिये, हमलोग करनेके लिए तैयार हैं ॥ ३२९ ॥ उन्हें देखकर वशिष्ट मुनिने कहा कि मुझे आप लोगोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्ममें मेरे पास आना ॥ ३३० ॥ इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मथुरापुरी आये वहाँ एक महीनेके उपवासका नियम लेकर उन्होंने आतापन योग धारण किया ॥ ३३१ ॥ तदनन्तर दूसरे दिन मथुराके राजा उग्रसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिके दर्शन किये और नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज हमारे ही घर भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यत्र नहीं । इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंको आहार देनेका निषेध कर दिया । अपनी पारणाके दिन मुनि-राजने भिक्षाके लिए नगरीमें प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिरमें अग्नि लग गई उसे देव्य मुनिराज निराहार ही लौटकर तपोवनमें चले गये ॥ ३३२-३३४ ॥ मुनिराजने एक मासके उपवास का नियम फिरसे ले लिया । तदनन्तर एक माह बीत जानेपर क्षीण शरीरके धारक मुनिराजने जब आहारकी इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवेश किया तब वहाँ पर हाथीका क्षोभ हो रहा था उसे देख वे शीघ्र ही नगरीसे वापिस लौट गये और एक माहका फिर उपवास लेकर तप करने लगे । एक माह समाप्त होनेपर जब वे फिर आहारके लिए राजमन्दिरकी ओर गये तब महाराज जरासन्धका भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उग्रसेनका चित्त व्याकुल हो रहा था अतः उसने मुनिकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥ ३३५-३३७ ॥ क्षीण शरीरके धारी वशिष्ट मुनि जब वहाँसे लौट रहे थे तब उन्होंने लोगोंको यह कहते हुए सुना कि 'राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है और न दूसरोंको देने देता है । इसका क्या

१ मद्देह एवायं घ० । २ यागहस्तितः ल० ।

कोऽभिप्रायो महीशस्य न विद्यो वयमित्यदः । भ्रुत्वा पापोदयात्कुध्वा निदानमकरोन्मुनिः ॥३३९॥  
 पुत्रो भूत्वाऽस्य भूपस्य मदुन्नतपसः फलान् । निगृह्यैनमिदं राज्यं गृह्णासमिति दुर्मतिः ॥३४०॥  
 एवं दुष्परिणामेन मुनिः प्राप्य <sup>१</sup>परासुताम् । जातः पद्मावतीगर्भे भूरिवैरानुबन्धतः ॥३४१॥  
 सापि गर्भाभकक्रौर्यान्महीशृद्दहदयामिपम् । अभृद्भिलषन्त्यार्ता तज्ज्ञात्वा मन्त्रिणस्तदा ॥३४२॥  
 प्रयोगविहितं भर्तुर्हन्मासमिति दौर्हदम् । स्वबुद्ध्या पूरयंस्तस्याः किं न कुर्वन्ति धीधनाः ॥३४३॥  
 निर्दौर्हदा क्रमेणासावलब्ध सुतपातकम्<sup>२</sup> । दृष्टोष्टं निष्टुरालोकं कृतभ्रूभङ्गसङ्गमम् ॥३४४॥  
 दृष्ट्वा तं पितरौ तस्य नात्र विश्वभ्य पोषणे । योग्योऽयमिति संस्मृत्य विधिं तस्य विसर्जने ॥३४५॥  
 मञ्जूषायां विनिक्षिप्य कंसमय्यां सपन्नकम् । लोकं कलिन्दकन्यायाः<sup>३</sup> प्रवाहे मुञ्जतः स्म तौ ॥३४६॥  
 अस्ति <sup>४</sup>मण्डोदरी नाम कौशाम्ब्यां <sup>५</sup>शौण्डकारिणी । तथा प्रवाहे मञ्जूषामध्यस्थोऽसौ व्यलोक्यत ३४७  
 अवीवृधद्गृहीत्वैनमिव सा स्वसुतं हिता । किं न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम् ॥३४८॥  
 अहोभिः कैश्चिदासाद्य <sup>६</sup>लम्बनादिसहं वयः । आक्रीडमानान्निर्हेतु समं सकलबालकान् ॥३४९॥  
 चपेटमुष्टिदण्डादिप्रहारैर्बाधते सदा । तद्दुराचारनिर्विण्णाऽस्यजन्मण्डोदरी <sup>७</sup>च तम् ॥३५०॥  
 सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेवमहीपतेः । प्रतिपद्य पदातिवत् तत्सेवातत्परोऽभवत् ॥३५१॥  
 अतोऽन्यप्रकृतं ब्रूमे जरासन्धमहीपतिः । निजिताशेषभूपालः कदाचित्कार्यशेषवान् ॥३५२॥  
 सुरभ्यविषयान्तःस्थपौदनाख्यपुराधिपम् । रिपुं सिहरथं जित्वा बलाद्युद्धे ममान्तिकम् ॥३५३॥

अभिप्राय हैं, सो जान नहीं पड़ता । लोगोंका कहना मुनिकर पाप कर्ममें उदयसे मुनिराजको क्रोध आ गया जिससे उनकी बुद्धि जाती रही । उनी समय उन्होंने निदान किया कि 'मैंने जो उग्र तप किया है उसके फलसे मैं पुत्र होकर इस राजाका निग्रह करूँ तथा इसका राज द्वांग लूँ ॥३३८-३४०॥ इस प्रकारके खांटे परिणामोंमें मुनिराजकी मृत्यु हो गई और ये तीव्र वैरके कारण राजा उग्रमेंनकी पद्मावती रानीके गर्भ में जा उत्पन्न हुए ॥३४१॥ उग्र रानी पद्मावतीको भी गर्भके बालककी क्रूरतावश राजाके हृदयका मांस खानेकी इच्छा हुई और उममें वह दुःखी होने लगी । यह जानकर मन्त्रियोंने अपनी बुद्धिसे कोई बनावटी चीज देकर कहा कि 'यह तुम्हारे पतिके हृदयका मांस है' इस प्रकार उसका दोहला पूरा किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३४२-३४३ ॥ जिसका दोहला पूरा हो गया है ऐसी रानी पद्मावतीने अनुक्रममें वह पार्षी पुत्र प्राप्त किया, जिस समय वह उत्पन्न हुआ था उस समय अपने आंठ डम रहा था, उसकी दृष्टि क्रूर थी और भौंह टेढ़ी ॥ ३४४ ॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोषण करना योग्य नहीं है यहाँ समझ कर उन्होंने उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया और कांसोंकी एक सन्दूक बनवा कर उसमें उस पुत्रको पत्र सहित रख दिया तथा यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥ ३४५-३४६ ॥ कौशाम्बी नामकी नगरीमें एक मण्डोदरी नामकी कलारन रहती थी उसने प्रवाहमें बहती हुई सन्दूकके भीतर स्थित उस बालकको देखा । देखते ही वह उसे उठा लाई और हितैषिणी बन अपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी । सो ठीक ही है क्योंकि तपस्वियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ? ॥ ३४७-३४८ ॥ कितने ही दिनोंमें वह मुद्दह अवस्था पाकर साथ खेलनेवाले समस्त बालकोंको चाँटा, मुट्टी तथा डण्डा आदिसे पीड़ा पहुँचाने लगा । उसके इस दुराचारसे खिन्न होकर मण्डोदरीने उसे छोड़ दिया—घरसे निकाल दिया ॥ ३४९-३५० ॥ अब वह शौर्यपुरमें जाकर राजा वसुदेवका सेवक बन गया और सदा उनकी सेवामें तत्पर रहने लगा ॥ ३५१ ॥

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते हैं और वह इस प्रकार है—यद्यपि राजा जरासन्धने सब राजाओंको जीत लिया था तो भी किसी समय उसका कुछ कार्य बाकी रह गया था । उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंके पास इस आशयके पत्र भेजे कि जो राजा

१ परां मृतिम् ल० । २ सुतपावकम् ग०, घ० । ३ यमुनायाः । ४ मन्दोदरी ल० । ५ शौद्रमुन्दरी । ६ लम्बनादि सहं ख०, ग०, घ०, म० । लम्बनादिसहं ल० । ७ सुतम् ल० ।



बध्वानीतवते देशस्यार्थं मत्पुत्रिकामपि । कलिन्दसेनासम्भूतां सर्तीं जीवद्यशोभिषाम् ॥३५४॥  
दास्यामीत्यभिभूपालान्प्राहिणोत्पन्नमालिकाः । वसुदेवकुमारस्तत्परिगृह्य प्रतापवान् ॥३५५॥  
वाजिनः सिंहमूत्रेण भावयित्वा रथं स तैः । वाह्यमारुह्य संग्रामे जित्वा सिंहरथं पृथुम् ॥३५६॥  
कंसेन निजभृत्येन बन्धयित्वा महीपतेः । स्वयं समर्पयामास सोऽपि तुष्टा सुतां निजाम् ॥३५७॥  
देशार्थेन समं तस्मै प्रतिपक्षां प्रदत्तवान् । वसुदेवोऽपि तां दुष्टलक्षणां वीक्ष्य नो मया ॥३५८॥  
बद्धः सिंहरथः कर्म कंसेनानेन तत्कृतम् । कन्या प्रदीयतामस्मै भवत्प्रेषणकारिणे ॥३५९॥  
इत्याह तद्वचः श्रुत्वा जरासन्धनरेश्वरः । कुलं कंसस्य विज्ञातुं दूतं मण्डोदरीं प्रति ॥३६०॥  
प्रेषयामास तं दृष्ट्वा किं तत्राप्यपराधवान् । मत्पुत्र इति भीत्वाऽसौ समञ्जूषाऽगमस्त्वयम् ॥३६१॥  
आगत्य नृपतेरग्रे माताऽस्येयमिति क्षितौ । निक्षिप्य कंसमञ्जूषां प्रणिपत्यैवमब्रवीत् ॥३६२॥  
आगतः कंसमञ्जूषामधिष्ठायामर्भकः । जले कलिन्दकन्याया मयादायाभिवर्धितः ॥३६३॥  
कंसनाम्ना समाहृतस्तत एव 'पुरांद्भवैः । निसर्गशौर्यद्विपिष्टः शैशवेऽपि निरर्गलः ॥३६४॥  
इति तद्वचनं श्रुत्वा मञ्जूषान्तःस्थपत्रकम् । गृहीत्वा वाचयित्त्वोच्चैरुग्रसेनमहीपतेः ॥३६५॥  
पद्मावत्याश्च पुत्रोऽयमिति ज्ञात्वा महीपतिः । विततार सुतां तस्मै राजयार्थञ्च प्रनुष्टवान् ॥३६६॥  
कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेण स्वस्य नद्यां विसर्जनात् । प्रवृद्धपूर्ववैरः सन् कुपितो 'मथुरापुरीम् ॥३६७॥  
स्वयमादाय बन्धस्थौ गोपुरं पितरौ न्यधात् । विचारविकलाः पापाः कोपिताः किं न कुर्वते ॥३६८॥

सुरस्य देशकं मध्यमें स्थित पोदनपुरकं स्वामी हमारं शत्रु सिंहरथकां युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बाँधकार हमारं पास लावेगा उसे मैं आधा देश तथा कलिन्दसेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवद्यशा नामकी अपनी पतिव्रता पुत्री दूंगा । प्रतापी राजा वसुदेवने जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका मूत्र मँगाकर घोड़ोंके शरीर पर लगवाया, उन्हें रथमें जोता और तदनन्तर ऐसे रथपर आरूढ़ होकर चल पड़े । वहाँ जाकर उन्होंने संग्राममें उस भारी राजा सिंहरथको जीत लिया और अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बँधवा कर स्वयं राजा जरासन्धको सौंप दिया । राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट होकर वसुदेवके लिए आधे देशक साथ अपनी पूर्व प्रतिज्ञात पुत्री देने लगा । उस समय वसुदेवने देखा कि उस पुत्रीके लक्षण अच्छे नहीं हैं अतः कह दिया कि सिंहरथका मैंने नहीं बाँधा है यह कार्य इस कंसने किया है इसलिए इसी आज्ञाकारीके लिए यह कन्या दी जावे । वसुदेवके वचन सुनकर राजा जरासन्धने कंसका कुल जाननेके लिए मण्डोदरीके पास अपना दूत भेजा ॥३५२-३६०॥ दूतका देखकर मण्डोदरी डर गई और सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने वहाँ भी अपराध किया है ? इसी भयसे वह सन्दूक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धके पास गई । वहाँ जाकर उसने 'यह सन्दूक ही इसकी माता है' यह कहते हुए पहले वह कंसकी सन्दूक राजाके आगे जमीन पर रख दी । तदनन्तर नमस्कार कर कहने लगी कि 'यह बालक कंसकी सन्दूकमें रखा हुआ यमुनाके जलमें बहा आ रहा था मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है ॥ ३६१-३६३ ॥ चूँकि यह कंसकी सन्दूक में आया था इसलिए गाँधके लोगोंने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया । यह स्वस्वभावसे ही अपनी शूर-वीरताका घमण्ड रखता है और बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रकृतिका है ॥ ३६४ ॥ मण्डोदरीके ऐसे वचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दूकके भीतर रखा हुआ पत्र लेकर बचवाया । उसमें लिखा था कि यह राजा उग्रसेन और रानी पद्मावतीका पुत्र है । यह जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरासन्धने कंसके लिए जीवद्यशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया ॥ ३६५-३६६ ॥ जब कंसने यह सुना कि उत्पन्न होते ही मुझे मेरे माता-पिताने नदीमें छोड़ दिया था तब वह बहुत ही कुपित हुआ, उसका पूर्व पर्यायका वैर वृद्धिगत हो गया । उसी समय उसने मथुरापुरी जाकर माता-पिताको कैद कर लिया और दोनोंको गोपुर—नगरके प्रथम दरवाजेके ऊपर रख दिया सो ठीक ही है क्योंकि

अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमहीपतिम् । देवसेनमुतामस्मै देवकीसनुजां निजाम् ॥३६१॥  
 विभूतिमद्वितीयैवं काले कंसस्य गच्छति । अन्येषुरतिमुक्ताख्यमुनिभिन्नार्थमागमत् ॥३७०॥  
 राजगोहं समीक्ष्यैवं हासार्जावद्यशा मुदा । देवकी पुष्पजानन्दबन्धुमेरावानुजा ॥३७१॥  
 स्वस्यावचेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते मुने । इत्यवोचरादाकर्ण्य सकोपः सोऽपि गुप्तिभिः ॥३७२॥  
 सुतोऽस्यास्तव भर्तारं भाष्यवदयं हनिष्यति । इत्यवोचरातः क्रुध्वा सा तद्वृक्षं द्विधा व्यधात् ॥३७३॥  
 पतिमेव न ते तेन पितरञ्च हनिष्यति । इत्युक्त्वा सा पुनः क्रुध्वा पादाभ्यां <sup>१</sup>तद्व्यमर्दयत् ॥३७४॥  
 तद्विलोक्य मुनिर्देवकीसुतः सागरावधिम् । पालयिष्यति भूनारीं नारी वेत्यब्रवीत्स ताम् ॥३७५॥  
 जीवद्यशाश्च तत्सर्वमवधार्य यथाश्रुतम् । गत्वा बुद्धिमती कंसं मिथः समवबोधयत् ॥३७६॥  
 हासेनापि मुनिप्रोक्तमबन्ध्यमिति भीतिमान् । वसुदेवमहीशं स <sup>२</sup>स्नेहादिदमयाचत ॥३७७॥  
 प्रसूतिसमयेऽवाप्य देवकी मद्गृहान्तरम् । प्रसूतिविधिपर्याप्तं विद्ध्यत्स्वन्मतादिति ॥३७८॥  
 सोऽपि तेनोपरुद्धः संस्तथात्वेतदमस्तं <sup>३</sup> तम् । अवश्यम्भाविकार्येषु मुह्यन्त्यपि मुनीश्वराः ॥३७९॥  
 भिक्षार्थं देवकीगोहं स पुनश्च प्रविष्टवान् । प्रत्युत्थाय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृह्य तम् ॥३८०॥  
 देवकी वसुदेवश्च दीक्षाप्र स्यान्न वावयोः । किमिति <sup>४</sup>छयना ब्रूतां ज्ञात्वा सोऽपि तद्विद्वितम् ॥३८१॥  
 सप्तपुत्राः समाप्स्यन्ते भवद्भ्यां तेषु षट्सुताः । परस्थानेषु वर्धित्वा यास्यान्ति परमां गतिम् ॥३८२॥  
 सप्तमः सकलां पृथ्वीं स्वच्छत्रच्छायया चिरम् । पालयिष्यति निर्वाण्य चक्रवर्तीत्यभाषत ॥३८३॥  
 देवकी च मुदा पश्चात्त्रिषुकृत्वाप्तवती यमान् । चरमाज्ञानिमान् <sup>५</sup>ज्ञातवता शक्रेण चोदितः ॥३८४॥

विचार रहित पापी मनुष्य कुपित होकर क्या क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३६७-३६८ ॥ तदनन्तर कंस राजा वसुदेवको अपने नगरमें ले आया और उन्हें उमने वड़े विभूतिके साथ राजा देवमेनको पुत्री तथा अपनी छोटी बहिन देवकी समर्पित कर दी । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा । किसी दूसरे दिन अतिमुक्त मुनि भिक्षाके लिए राजभयनमें आये । उन्हें देख हँसीसे जीवद्यशा वड़े हर्षसे कहने लगी कि 'हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकालका वस्त्र है, यह आपकी छोटी बहिन इस वस्त्रके द्वारा अपनी चेष्टा आपके लिए दिखला रही है' । जीवद्यशाके उक्त वचन सुनकर मुनिका क्रोध भड़क उठा । वे वचनगतिको भङ्ग करते हुए बोले कि इस देवकीका जो पुत्र होगा वह तेरे पतिको अवश्य ही मारेगा । यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध आ गया और उसने उस वस्त्रके दो टुकड़े कर दिये । तब मुनिने कहा कि वह न केवल तेरे पतिको मारेंगा किन्तु तेरे पितको भी मारेगा । यह सुनकर तो उसके क्रोधका पार ही नहीं रहा । अन्तकी बार उमने उस वस्त्रको पैरोंसे कुचल दिया । यह देख मुनिने कहा कि देवकीका पुत्र नबीकी तरह समुद्रान्न पृथिवी रूपी स्त्रीका पालन करेगा ॥ ३६६-३७५ ॥ जीवद्यशा इन मुनी हुड़े बातोंका विचार कर कंसके पास गई और उसे परस्परमें सत्र समझा आई ॥ ३७६ ॥ 'मुनि जो ज्ञान हँसीमें भी कह देते हैं वह सत्य निकलती है' यह विचार कर कंस डर गया और राजा वसुदेवके पास जाकर वड़े स्नेहसे याचना करने लगा कि आपकी आज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे ही घर आकर प्रसूतिकी पूरी विधि करे ॥ ३७७ ॥ कंसके अनुरोधसे वसुदेवने भी 'ऐसा ही होगा' यह कहकर उसकी बात मान ली सो ठीक ही है क्योंकि अवश्यम्भावी कार्यमें मुनिराज भी भूल कर जाते हैं ॥ ३७८-३७९ ॥ किसी दिन वही अति-मुक्त मुनि भिक्षाके लिए देवकीके घर प्रविष्ट हुए तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त विधिसे उनका पडिगाहन किया । आहार देनेके बाद देवकी और वसुदेवने उनसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों भी दीक्षा ले सकेंगे ? मुनिराजने उनका अभिप्राय जानकर कहा कि इस तरह छलसे क्यों पूछते हो ? आप दोनों सात पुत्र प्राप्त करेंगे, उनमेंसे छह पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर निर्वाण प्राप्त करेंगे और सातवाँ पुत्र चक्रवर्ती होकर अपने छत्रकी छायासे चिरकाल तक समस्त पृथिवीका पालन करेगा ॥ ३८०-३८३ ॥ यह सुनकर देवकी बहुत हर्षित हुई । तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र

दिविजो नैगमार्णख्यो १ भद्रिलाख्यपुरेऽलका । वणिक्मुताया निक्षिप्य पुरस्तारात्सुतान् मृतान् ॥३८५॥  
 तदा तदैव सम्भूय गृहीत्वा २ त्रिमितान्यमान् । तान् पुरस्ताच्चिक्षेप देवक्या गृहकृत्यवित् ॥३८६॥  
 यमान् सोऽपि गतप्राणान् क्रमाकंसः समीक्ष्य तान् । किमेभिर्मे गतप्राणैरभून्मुनिरसत्यवाक् ॥३८७॥  
 इति मत्वापि साशङ्कः शिलापट्टे न्यपातयत् । पश्चात्सा सप्तमे मास एव स्वस्य निकेतने ॥३८८॥  
 निर्नामकमलब्धोक्तं महाशुक्राच्युतं सुतम् । कंसानवगमेनैव नन्दगोपगृहे सुखम् ॥ ३८९॥  
 बालकं वर्षयिष्याव इति ३ नीतिविचारदौ । पिता भ्राता च तद्देवकीं विज्ञाप्य ततो बलः ॥३९०॥  
 तमुद्ध्ये पिता चास्य दधारतपवारणम् । ज्वलन्निशातभृङ्गाप्रविलसन्मणिदीपका ॥३९१॥  
 निरस्ततिमिराटोपो वृषभोऽभूदाग्रतः । तथा विकृतिमापन्ना तत्पुण्यात्पुरदेवता ॥३९२॥  
 सद्यस्तदास्य बालस्य चरणस्पर्शसङ्गमात् । उद्घाटितकवाटं तद्वभूव पुरगोपुरम् ॥३९३॥  
 उग्रसेनस्तदालोक्य बन्धनस्थः समब्रवीत् । कवाटोद्घाटनं कोऽत्र करोतीत्यतिसम्भ्रमात् ॥३९४॥  
 तदाकण्वैष बन्धावामचिरान्मोचयिष्यति । तूर्णामुपविशेत्युक्तां बलेन मथुराधिपः ॥३९५॥  
 तथास्त्विति तमाशीभिः प्रतोपादभ्यनन्दयत् । तौ च तस्माद्विनिर्गत्य यमुनां प्रापतुनिशि ॥३९६॥  
 भावि ४ चक्रिप्रभावेन दामार्गा द्विधाभवन् । सा सवर्णाश्रितः को वा नाद्रात्मा बन्धुतां ब्रजेत् ॥३९७॥  
 ५ सविस्मयो विलङ्घ्येनो गच्छन्तौ नन्दगोपतिम् । उद्दृष्ट्य बालिकां यत्नेनागच्छन्तमदर्शिताम् ॥३९८॥  
 दृष्ट्वा ताभ्यां कृतो भद्र रात्रावागमनं तव । निःसखस्येति सम्पृष्टः सः प्रणत्याभ्यभापत ॥३९९॥

प्राप्त किये । इन्द्रकां मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरों हैं अतः उसने देवकीके गृह कार्यको जाननेवाले नैगमर्ष नामके देवकीके प्रेरणा की । इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नैगमर्ष देव देवकीके इन पुत्रोंको ले जाकर भद्रिलपुर नगरमें अलका नामकी वैश्य पुत्रीके आगे डाल आता था और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरे हुए तीन युगल पुत्रोंको देवकीके सामने डाल देता था ॥ ३८४-३८६ ॥ कंसने उन मरे हुए पुत्रोंको देखकर विचार किया कि इन निर्जीव पुत्रोंसे मेरी क्या हानि हो सकती है ? मुनि असत्यवादी भी तो हो सकते हैं । उसने ऐसा विचार किया सही परन्तु उसकी शङ्का नहीं गई इसलिए वह उन मृत पुत्रोंको शिलाके ऊपर पड़ाड़ता रहा । इसके बाद निर्नामक मुनिका जीव महाशुक्र स्वर्गसे च्युत होकर देवकीके गर्भमें आया । अबकी बार उसने अपने ही घर सातवें महीने में ही पुत्र उत्पन्न किया । नीतिविद्यामें निपुण वसुदेव और बलभद्र पढ़ाने विचार किया कि कंसको विना जताये ही इस पुत्रका नन्दगोपके घर मुखसे पालन-पोषण करावेंगे । पिता और भाईने अपने विचार देवकीको भी बतला दिये । बलभद्रने उस बालकको उठा लिया और पिताने उस पर छत्र लगा लिया उस समय घोर अन्धकार था अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता धिक्क्रिया वशा एक बैलका रूप बनाकर उनके आगे हां गया । उस बैलके दोनों पैने सींगों पर देदीप्यमान मणियोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार दूर होता जाता था ॥ ३८७-३८९ ॥ गोपुरके किवाड़ बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका स्पर्श होते ही खुल गये । यह देख बन्धनमें पड़े हुए उग्रसेनने बड़े जोशके साथ कहा कि इस समय किवाड़ कौन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्रने कहा कि आप चुप बैठिये यह बालक शीघ्र ही आपको बन्धनसे मुक्त करेगा । मथुराके राजा उग्रसेनने सन्तुष्ट होकर 'ऐसा ही हो' कहकर आशीर्वाद दिया । बलभद्र और वसुदेव वहाँसे निकल कर रात्रिमें ही यमुना नदीके किनारे पहुँचे । हानहार चक्रवर्तीके प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा वान आर्द्रात्मा ( जल स्वरूप पक्षमें दयालु ) होगा जो अपने समान वर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारको प्राप्त नहीं हो ॥ ३६३-३६७ ॥ इधर धड़े आश्रयसे यमुनाको पार कर बलभद्र और वसुदेव नन्दगोपालके पास जा रहे थे इधर वह भी एक बालिकाको लेकर आ रहा था । बलदेव और वसुदेवने उसे देखते ही पूछा कि हं भद्र ! रात्रिके

१ भद्रिलाख्य ग०, म० । २ त्रीन्मृतान्यमान् ग० । त्रीन्मृतानिमान् ख० । ३ नन्दविशारदौ ल० ।  
 ४ चक्र-ख० । ५ सर्वात्म्यो ल० । ६ नागच्छन्तम-ल० ।

मत्प्रिया पुत्रलाभार्थं भवतोः परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्यर्च्य श्रद्धानाद् भूतदेवताः ॥४००॥  
 भावास्य स्त्रीत्ववद्रात्रवद्यापत्यमवाप्य सा । सशोका दीयतामेतत्ताभ्य एवेति माब्रवीत् ॥४०१॥  
 तदर्पयितुमायासो ममायं स्वामिनाविति । तद्वचः सम्यगाकर्ण्य सिद्धमस्मत्प्रयोजनम् ॥४०२॥  
 इति सन्तुष्य तत्सर्वमवबोध्य प्रवृत्तकम् । तदपत्न्यं समादाय दत्त्वा तस्मै स्वमर्भकम् ॥४०३॥  
 भाविचक्रधरं विद्धि बालमित्यभिधाय च । अनन्यविदितौ गूढं तौ तदाविशतां पुरम् ॥४०४॥  
 नन्दगोपोऽपि तं बालमादाय गृहमागतः । तुभ्यं सुतं महापुण्यं प्रसञ्जा देवता ददुः ॥४०५॥  
 इत्युदीर्यार्पयायास स्वप्रियायै श्रियः पतिम् । कंसोऽपि देवकी स्त्रीत्ववदपत्यममूयत ॥४०६॥  
 इति श्रुत्वा समागत्य तां व्यधाद् भुञ्जनासिकाम् । भूमिगेहे प्रयत्नेन मात्रा साध्वभिषयिता ॥४०७॥  
 सा सुव्रतार्यिकाभ्यर्णे शोकास्त्विकृताकृतेः । गृहीतदीक्षा विन्ध्याद्रौ स्थानयोगमुपाश्रिता ॥४०८॥  
 देवतेति समभ्यर्च्य गतेषु वनवासिषु । व्याघ्रेण भक्षिता मंक्षु स्वर्गलोकमुपागमत् ॥४०९॥  
 अपरस्मिन्दिने व्याघ्रैर्दृष्ट्वा हस्तांगुलित्रयम् । तस्याः क्षीराङ्गरागादिपूजितं देशवासिनः ॥४१०॥  
 मूढात्मानः स्वयं चैतदार्यासौ विन्ध्यवासिनी । देवतेति समभ्यर्च्य तदारभ्याप्रमाणयन् ॥४११॥  
 अथाकस्मात्पुरे तस्मिन्महोत्पानविजृम्भणे । वरुणाख्यं निमित्तज्ञं द्राक्कंसः परिवृष्टवान् ॥४१२॥  
 किमेतेषां फलं ब्रूहि यथार्थमिति साऽब्रवीत् । तव शत्रुः समुपपन्नं महानिति निमित्तावित् ॥४१३॥  
 तदाकर्ण्य महीनाथं चिन्तयन्तं चिरन्तनाः । देवतास्तमवोचंस्ताः किं कर्तव्यमिति श्रिताः ॥४१४॥

समय अकेले ही तुम्हारा आना क्यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछे जाने पर नन्दगोपने प्रणाम कर कहा कि 'आपकी सेवा करनेवाली मेरी स्त्रीने पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके साथ किन्हीं भूत देवताओं की गन्ध आदिसे पूजाकर उनसे आशीर्वाद चाहा था । आज रात्रिको उसने यह कन्या रूप मन्तान पाई है । कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुझसे कहने लगी कि ले जाओ यह कन्या उन्हीं भूत देवताओंको दे आओ—मुझे नहीं चाहिए । सो हे नाथ ! मैं यह कन्या उन्हीं भूत देवताओंको देनेके लिए जा रहा हूँ । उसकी वान सुनकर बलदेव और वसुदेवने कहा कि 'हमारा मनोरथ मिट्ट हो गया' ॥ ३६८-४०२ ॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होंने नन्द गोपके लिए सब समाचार सुना दिये, उसकी लड़की ले ली और अपना पुत्र उसे दे दिया । साथ ही यह भी कह दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ती समझो । यह सब काम कर वे दोनों किसी दूसरेको मालूम हुए बिना ही गुप्त रूपसे नगरमें वापिस आ गये ॥ ४०३-४०४ ॥

इधर नन्दगोप भी वह बालक लेकर घर आया और 'लो, प्रसन्न होकर उन देवताओंने तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान् पुत्र दिया है' यह कहकर अपनी प्रियाके लिए उसने वह होनहार चक्रवर्ती सौप दिया । यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीने कन्या पैदा की है तो वह सुनते ही उसके घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दी और तदनन्तर उसे धायके द्वारा एक तलघटमें रखकर बड़े प्रयत्नसे बढ़ाया ॥ ४०५-४०७ ॥ बड़ी होनेपर उसने अपनी विकृत आकृतिका देखकर शोकसे सुव्रता आर्थिकके पास दीक्षा धारण कर ली और विन्ध्याचल पर्वत पर रहने लगी ॥ ४०८ ॥ एक दिन वनमें रहनेवाले भील लोग उसे देवता समझ उसकी पूजा करके कहीं गये थे कि इतनेमें व्याघ्रने उसे शीघ्र ही खा लिया । वह मरकर स्वर्ग चली गई । दूसरे दिन जब भील लोग वापिस आये तो उन्हें वहाँ उसकी सिर्फ तीन अङ्गुलियाँ दिखीं । वहाँके रहनेवाले मूर्ख लोगोंने उन अङ्गुलियोंकी दूध तथा अङ्गराग आदिसे पूजा की । उसी समयसे 'यह आर्या ही विन्ध्य-वासिनी देवी है' ऐसा समझ कर लोग उसकी मान्यता करने लगे ॥ ४०९-४११ ॥

अथानन्तर—अकस्मात् ही मथुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बढ़ने लगे । उन्हें देख, कंसने शीघ्र ही वरुण नामके निमित्तज्ञानीसे पूछा कि सच बतलाओ इन उत्पातोंका फल क्या है ? निमित्त-ज्ञानीने उत्तर दिया कि आपका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है ॥ ४१२-४१३ ॥ निमित्तज्ञानीकी

शत्रुं मम समुत्पन्नमन्विष्याहृत पापिनम् । इत्यसौ प्रेषयामास ताः सप्तपि तथास्त्विति ॥४१५॥  
 १अगमन्पूतना तासु वासुदेवं विभङ्गतः । विज्ञायादाध तन्मातृरूपं हन्तुमुपागता ॥४१६॥  
 विषस्तनपयःपायनोपायेन खलाप्रणीः । तद्रालपालनोधुका काप्यन्यागत्य देवता ॥४१७॥  
 स्तनयोर्बलवत्पीडां तत्पानसमये व्यवान् । प्रपलायत साकुशय तर्पीडां सोढुमक्षमा ॥४१८॥  
 शकटाकारमादाय पुनरन्यापि देवता । बालस्योपरि धावन्ती पादाभ्यां तेन सा हता ॥४१९॥  
 अन्येद्युर्नन्दगोपस्य बध्वा कट्यामुल्लखलम् । अगच्छजालमानेतुमन्वगच्छताथाप्यसौ ॥४२०॥  
 परिपीडयितुं बालं तदा ककुभपादपौ । भूत्वा श्रितौ सुरीभेदौ स मूलादुदपाटयत् ॥४२१॥  
 तच्चक्रमणवेलायां तालस्याकृतिमास्थिता १ । एका फलानि तन्मूर्ध्नि प्रपातयितुमुद्यता ॥४२२॥  
 रासभीरूपमापाद्य तं दण्डुमपरागता । चरणे रासभीं विष्णुर्गृहीत्वाहन्स तं दुग्म ॥४२३॥  
 अन्येद्युर्देवतायापि विकृत्य तुरगाकृतिम् । तं हन्तुं प्रस्थिता तस्य सोऽद्वलद्वन्द्वं रूपा ॥४२४॥  
 आहन्तुमसमर्थाः स्म इत्युक्त्वा सप्तदेवताः । कंसाभ्यांशं समागत्य विलीना इव विद्युतः ॥४२५॥  
 शक्तयो देवतानाञ्च निस्साराः पुण्यवज्जने । आयुधानामिवेन्द्रास्त्रे परस्मिन्दष्टकर्मणाम् ॥४२६॥  
 अरिष्टाख्यसुरोऽन्येद्युर्बाधितुं तत्पराक्रमम् । आयात्कृष्णं वृषाकारस्तद्व्रीवाभङ्गनोद्यतम् ३ ॥४२७॥

वान मुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया । उसी समय उसके पूर्व भयमें सिद्ध हुए सात व्यन्तर देवता आकर कहने लगे कि हमलोगोंको क्या कार्य सौंपा जाता है ॥ ४१४ ॥ कंसने कहा कि 'कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है उस पापीको तुम लोग खोज कर मार डालो' । ऐसा कहकर उसने उन भानों देवताओंको भेज दिया और वे देवता भी 'तथास्तु' कहकर चल पड़े ॥४१५॥ उन देवताओं मेंसे पूतना नामकी देवताने अपने विभङ्गावधि ज्ञानसे कृष्णको जान लिया और उसकी माताका रूप रखकर मारनेके लिए उसके पास गई ॥ ४१६ ॥ वह पूतना अत्यन्त दुष्ट थी और विष भरे स्तनका दूध पिलाकर कृष्णको मारना चाहती थी । इधर पूतना कृष्णके मारनेका विचार कर रही थी उधर कोई दूसरी देवी जो बालक कृष्णकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहती थी पूतनाकी दुष्टताको समझ गई । पूतना जिस समय कृष्णको दूध पिलानेके लिए तैयार हुई उसी समय उस दूसरी देवीने पूतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी । पूतना उस पीड़ाको सहनेमें असमर्थ हो गई और चिद्धा कर भाग गई ॥ ४१७-४१८ ॥ तदनन्तर किसी दिन कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णके ऊपर दौड़नी हुई आई, उसे श्रीकृष्णने दोनों पैरोंसे ताड़ डाला ॥ ४१९ ॥ किसी एक दिन नन्दगोपकी स्त्री बालक श्रीकृष्णको एक बड़ी उल्लूखलसे बाँध कर पानी लेनेके लिए गई थी परन्तु श्रीकृष्ण उस उल्लूखलको अपनी कमरसे घटीसता हुआ उसके पीछे चला गया ॥ ४२० ॥ उसी समय दो देवियाँ अर्जुन वृक्षका रूप रखकर बालक श्रीकृष्णको पीड़ा पहुंचानेके लिए उनके पास आई परन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ डाला ॥ ४२१ ॥ किसी दिन कोई एक देवी ताड़का वृक्ष बन गई । बालक श्रीकृष्ण चलते-चलते जब उसके नीचे पहुंचा तो दूसरी देवी उसके मस्तक पर फल गिरानेकी तैयारी करने लगी और कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनेके लिए उद्यत हुई । श्रीकृष्णने उस गधीके पैर पकड़ कर उसे ताड़ वृक्षसे दे मारा जिससे वे तीनों ही देवियाँ नष्ट हो गईं ॥ ४२२-४२३ ॥ किसी दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर कृष्णको मारनेके लिए चली परन्तु कृष्णने क्रोधवश उसका मुँह ही ताड़ दिया । इस प्रकार सातों देवियाँ कंसके समीप जाकर बोलीं कि 'हमलोग आपके शत्रुको मारनेमें असमर्थ हैं' इतना कहकर वे विजली के समान विलीन हो गईं ॥४२४-४२५॥ अन्य लोगों पर अपना कार्य दिखानेवाले शस्त्र जिस प्रकार इन्द्रके वज्रायुध पर निःसार हो जाते हैं उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेवाली देवोंकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुषके विषयमें निःसार हो जाती हैं ॥ ४२६ ॥ किसी एक दिन अरिष्ट नामका असुर श्रीकृष्णका बल देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी

तस्य माताभितर्जयैर्न विरमाफलचेष्टितात् । पुत्रैवमादिनः क्लेशान्तरसम्पादकादिति ॥४२८॥  
 भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोद्भुरः । सोऽन्वतिष्ठन्निवार्यन्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥  
 श्रुत्वा तत्पौरुषं ख्यातं जनजल्पैः समुत्सुकौ । गोमुखीनामधेयोपवासन्याजमुपागतौ ॥४३०॥  
 देवकी वसुदेवश्च विभूत्या सह सीरिणा । व्रजं गोधावनं यातौ परिवारपरिष्कृतौ ॥४३१॥  
 तत्र कृष्णं समालम्ब्य स्थितवन्तं महाबलम् । दपिणो वृषभेन्द्रस्य ग्रीवां भङ्क्त्वा तदैव तौ ॥४३२॥  
 विलोक्य गन्धमाल्यादिमाननानन्तरं पुनः । प्रीत्या भूषयतः स्मातः कुर्वन्त्या द्राक् प्रदक्षिणम् ॥४३३॥  
 देवक्याः स्तनयोः शातकुम्भकुम्भाभयोः पयः । निर्गलन्त्यपतन्मूष्णि कृष्णस्येवाभिषेचनम् ॥४३४॥  
 सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य मन्त्रभेदभयाद् द्रुतम् । उपवासपरिश्रान्ता मूर्च्छितेति वदन्सुधीः ॥४३५॥  
 कुम्भपूर्णपयोभिस्तामभ्यपिञ्जत्समन्ततः । ततो ब्रजाधिपादीनामपि तद्योग्यपूजनम् ॥४३६॥  
 कृत्वा कृष्णं च गोपालकुमारैर्जातसम्मदौ । भोजयित्वा स्वयं चात्र भुक्त्वा पुरमविक्षताम् ॥४३७॥  
 स कदाचिन्महावर्षापते गोवर्धनाह्वयम् । हरिः पर्वतमुदधृत्य चकारावरणं गवाम् ॥४३८॥  
 तेन ज्योत्स्नेव तत्कीर्तिर्व्याप्नोति स्माखिलं जगत् । अरातिवदनाम्भोजराजिसङ्कोचकारिणी ॥४३९॥  
 तत्पुरस्थापनाहेतुभूतजैनालयान्तिके । नाक्रदिग्देवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥  
 सर्पशय्या धनुः शङ्खो रत्नत्रितयमुद्ययौ । देवतारक्षितं लक्ष्मीं भाविनीमस्य सूषयत् ॥४४१॥  
 सभयस्तानि दृष्ट्वाह्यद्वरणं मथुरापतिः । प्रादुर्भवनमेतेषां किं फलं कथयेति तम् ॥४४२॥  
 राजन्नेतानि शास्त्रोक्तविधिना साधयेस्स यः । राज्यं चक्रेण संरक्ष्यमाप्स्यतीत्यन्यधादसौ ॥४४३॥

गर्दन ही तोड़नेके लिए तैयार हो गया। अन्तमें माताने उसे ललकार कर और हं पुत्र ! दूसरे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेवाली इन व्यर्थकी चेष्टाओंसे दूर रह' इत्यादि कहकर उसे रोका ॥ ४२७-४२८ ॥ यद्यपि माता यशोदा उसे इन कार्योंसे बार-बार रोकती थी पर तां भी मदसे उद्वत हुआ बालक कृष्ण इन कार्योंका करने लगता था सां ठीक ही है क्योंकि महाप्रतापी पुरुष माहसके कार्यमें रोके नहीं जा सकते ॥ ४२९ ॥ देवकी और वसुदेवने लोगोंके कहनेसे श्रीकृष्णके पराक्रमकी बात सुनी तां वे उसे देखनेके लिए उमुक हो उठे। निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपवासके बहाने बलभद्र तथा अन्य परिवारके लोगोंके साथ वैभव प्रदर्शन करते हुए व्रजके गोधा वनमें गये ॥ ४३०-४३१ ॥ जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब महाबलवान् कृष्ण किसी अभिमानी बैलकी गर्दन भुकाकर उससे लटक रहे थे। देवकी तथा बलदेवने उसी समय कृष्णको देखकर गन्ध माला आदिसे उसका सन्मान किया और स्नेहसे आभूषण पहिनाये। देवकीने उसकी प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणाके समय देवकीके सुवर्ण कलशके समान दानों स्तनोंसे दूध भरकर कृष्णके मस्तक पर इस प्रकार पड़ने लगा मानो उसका अभिषेक ही कर रही हो। बुद्धिमान् बलदेवने जब यह देखा तब उन्होंने मन्त्रभेदके भयसे शीघ्र ही 'यह उपवाससे थककर मूर्च्छित हो रही है' यह कहते हुए दूधने भरे कलशोंसे उसका खूब अभिषेक कर दिया। तदनन्तर देवकी तथा वसुदेव आदिने व्रजके अन्य अन्य प्रधान लोगोंका भी उनके योग्य पूजा-सत्कार किया, दपित होकर गोपाल बालकोंके साथ श्रीकृष्णको भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया और तदनन्तर लौटकर मथुरापुरीमें वापिस आ गये ॥ ४३२-४३७ ॥ किसी एक दिन व्रजमें बहुत वर्षा हुई तब श्रीकृष्णने गोवर्धन नामका पर्वत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रक्षा की थी ॥ ४३८ ॥ इस कामसे चाँदनीके समान उनकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल गई और वह शत्रुओंके मुखरूपी कमलसमूहको सङ्कुचित करने लगी ॥ ४३९ ॥ तदनन्तर जो जैन-मन्दिर मथुरापुरीकी स्थापनाका कारण भूत था उसके समीप ही पूर्व दिशाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्ण के पुण्यकी अधिकतासे नागशय्या, धनुष और शङ्ख ये तीन रत्न उत्पन्न हुए। देवता उनकी रक्षा करते थे और वे श्रीकृष्णकी होनहार लक्ष्मीको सूचित करते थे ॥ ४४०-४४१ ॥ मथुराका राजा कंस उन्हें देखकर डर गया और वरुण नामक निमित्तज्ञानीसे पूछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल क्या है? सो कहो ॥ ४४२ ॥ वरुणने कहा कि हे राजन्! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे इन्हें सिद्ध

कंसस्सहचरन् श्रुत्वा संसिसाधपिषुः स्वयम् । तान्यशक्तोऽमनाक्खिन्नो विरतः साधनोद्यमान् ॥४४४॥  
 अभिशङ्गाहिजां शक्यां शङ्कमेककरणेन यः । पूर्यत्यपि यश्चापं चारोपयति हेलेया ॥४४५॥  
 परेण तस्मै भूमर्ता स्वसुतां दास्यतीति तम् । परिश्रान्तुं स साशक्तो घोषणां पुर्यकारयत् ॥४४६॥  
 तद्दार्ताश्रवणाद्विश्वमहीशाः सहसागमन् । तथा राजगृहात्कंसमैथुनो भानुसन्निभः<sup>१</sup> ॥४४७॥  
 सुभानुभानुनामानं स्वमनुं सर्वसम्पदा । समादाय समागच्छन्निवेष्टुमभिलाषवान् ॥४४८॥  
 गोधावनमहानागनिवाससरसस्टटे । विना कृष्णेन वार्यस्मदानेतुं सरसः परैः ॥४४९॥  
 अशक्यमिति गोपालकुमारोक्त्या महीपतिः । तमाहूय बलं तत्र यथास्थानं न्यवीविशत् ॥४५०॥  
 क गम्यते त्वया राज्ञिति कृष्णेन भाषितः । स्वभानुमथुरायानप्रयोजनमब्रूवधन् ॥४५१॥  
 ध्रुवैतत्कर्म किं कर्तुं स्यात्सदस्मद्विधैरपि । इति कृष्णपरिग्रहेन वीक्ष्य पुण्याधिकः शिशुः ॥४५२॥  
 न केवलोऽयमित्येहि शक्तचेरास्य कर्मणः । इत्यादाय स्वपुत्रं वा स्वभानुस्तं पुरीमगात् ॥४५३॥  
 कंसं यथाहमालोक्य तत्कर्मघटकान्बहून् । भग्नमानांश्च संवीक्ष्य कृत्वा भानुं समीपगम् ॥४५४॥  
 युगपत्त्रितयं कर्म समाप्तिमनयद्धरिः । ततः स्वभानुनादिष्टो दिष्ट्या कृष्णोऽगमद् ब्रजम् ॥४५५॥  
 तत्कृतं भानुनैवेति कैश्चित्कंसो निबोधितः । कैश्चिन्न भानुनान्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५६॥  
 तच्छ्रुत्वान्विष्यतां सोऽन्यस्तस्मै कन्या प्रदीयते । स कस्य किं<sup>२</sup> कुलं कस्मिन्निति राजाऽब्रवीद्विदम् ४५७  
 अवधार्यं स्वपुत्रेण सम्यक्कर्मसमर्थितम् । गोमण्डलेन भीत्वामा नन्दगोपः पलायत ॥४५८॥

कर लेंगा वह चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ॥ ४४२ ॥ कंसने वरुणके वचन सुनकर उन तीनों रत्नोंको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया परन्तु वह असमर्थ रहा और बहुत भारी खिन्न होकर उनके सिद्ध करनेके प्रयत्नसे विरत हो गया—पीछे हट गया ॥ ४४४ ॥ ऐसा कौन बलवान् है जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा इसकी जाँच करनेके लिए भयभीत कंसने नगरमें यह घोषणा करा दी कि जो भी नागशय्या पर चढ़कर एक हाथसे शङ्ख बजावेगा और दूसरे हाथसे धनुषको अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥ ४४५-४४६ ॥ यह घोषणा सुनते ही अनेक राजा लोग मथुरापुरी आने लगे । राजगृहसे कंसका साला स्वभानु जो कि सूर्यके समान तेजस्वी था अपने भानु नामके पुत्रको साथ लेकर बड़े वैभवसे आ रहा था । वह मार्गमें गोधावनके उस सरोवरके किनारे जिसमें कि बड़े-बड़े सर्पोंका निवास था ठहरना चाहता था परन्तु जब उसे गोपाल बालकोंके कहनेसे मालूम हुआ कि इस सरोवरमें कृष्णके सिवाय किन्हीं अन्य लोगोंसे द्वारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कृष्णको बुलाकर अपने पास रख लिया और सेनाको यथास्थान ठहरा दिया ॥ ४४७-४४८ ॥ अबसर पाकर कृष्णने राजा स्वभानुसे पूछा कि हे राजन् ! आप कहाँ जा रहे हैं ? तब उसने मथुरा जानेका सब प्रयोजन कृष्णको बतला दिया । यह सुनकर कृष्णने फिर पूछा—क्या यह कार्य हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं ? कृष्णका प्रश्न सुनकर स्वभानुने सोचा कि यह केवल बालक ही नहीं है इसका पुण्य भी अधिक मालूम होता है । ऐसा विचार कर उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह कार्य करनेमें समर्थ है तो हमारे साथ चल । इतना कह कर स्वभानुने कृष्णको अपने पुत्रके समान साथ ले लिया । मथुरा जाकर उन्होंने कंसके यथायोग्य दर्शन किये और तदनन्तर उन समस्त लोगोंको भी देखा कि नागशय्या आदिको बश करनेका प्रयत्न कर रहे थे परन्तु सफलता नहीं मिलनेसे जिनका मान भङ्ग हो गया था । श्रीकृष्णने भानुको अपने समीप ही खड़ा कर उक्त तीनों कार्य समाप्त कर दिये और उसके बाद स्वभानुका संकेत पाकर शीघ्र ही वह कुशलता पूर्वक ब्रजमें वापिस आ गया ॥ ४५१-४५५ ॥ 'यह कार्य भानुने ही किया है' ऐसा कुछ पहरेदारोंने कंसको बतलाया और कुछने यह बतलाया कि यह कार्य भानुने नहीं किन्तु किसी दूसरे कुमारने किया है ॥ ४५६ ॥ यह सुन कर राजा कंसने कहा कि यदि ऐसा है तो उस अन्य कुमारकी खोज की जावे, वह किसका लड़का है ? उसका क्या कुल है ? और कहाँ रहता है ? उसके लिए कन्या दी जावेगी ॥ ४५७ ॥ इधर नन्दगोपको जब अच्छी तरह निश्चय हो गया कि

१ सन्निभम् ल० । २ किंकुलः ग० ।

शैलस्तम्भं समुद्रतुं तत्र खर्वेऽन्यदा गताः । नाशकुरुवन् समेत्यैते कृष्णेनैव समुद्रधृतः ॥४५५॥  
 प्रहृष्य साहसारास्माद्विस्मिता जनस्रंहतिः । परार्थवस्त्रभूषादिदानेन तमपूजयत् ॥४५६॥  
 पितामुष्य प्रभात्रेण कुतश्चिदपि मे भयम् । नेति प्राक्तनमेवासौ स्थानं ब्रजमवापयत् ॥४५७॥  
 नन्दगोपस्य पुत्रोऽसौ यस्तत्रितयकर्मकृत् । इत्यन्वेष्टुं गतैः सम्यक् ज्ञापितेनाप्यनिश्चितैः ॥४५८॥  
 सहस्रपत्रमभोजमन्यदाऽहीन्द्ररक्षितम् । प्रहीयतामिति प्रोक्तो राज्ञा जिज्ञासया रिपुम् ॥४५९॥  
 श्रुत्वा तद्गोपतिः शोकादाकुलः किल भूभुजः । प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि मारकाः ॥४६०॥  
 इति निर्विघ्नं याञ्छन् राजादिष्टिर्ममेदशी । स्वयैवाम्बुरुहाण्युप्रसर्परक्ष्याणि भूभुजः ॥४६१॥  
 नेयानीत्यब्रवीत्कृष्णं सोऽपि किं वात्र दुष्करम् । नेष्यामीति महानागसरः क्षिप्रतरं ययौ ॥४६२॥  
 भविष्यापि निःशङ्कं तदज्ञात्वा कोपदीपितः । स्वनिःश्वाससमुद्भूतज्वलज्ज्वालाकणान् किरन् ॥४६३॥  
 चूडामणिप्रभाभासिःफुटाटोपभयङ्करः । चलजिह्वाद्वयः स्फूर्जद्दीक्षणात्युर्ध्वाक्षणः ॥४६४॥  
 प्रत्युत्थाय यमाकारो निर्गलीतुं तमुद्यतः । सोऽपि महसनस्यैषा स्फटा शुद्धशिलास्त्विति ॥४६५॥  
 पीताम्बरं समुद्गत्य जलाद्गं मधुसूदनः । स्फटामास्फालयामास पक्षकेनैव पक्षिराट् ॥४६६॥  
 वज्रपातायितापस्माद्भ्रापाताद्विभीतवान् । पूर्वपुण्योदयाच्चास्य फणीन्द्रोऽदृश्यतामगात् ॥४६७॥  
 हरिर्यथेष्टमब्जानि समादाय निजद्विषः । समीपं प्रापयत्तानि दृष्ट्वा ॥४६८॥

यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डर कर अपनी गायोंके साथ कहीं भाग गया ॥ ४५८ ॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खंभा उखाड़नेके लिए बहुतसे लोग गये परन्तु सब मिल कर भी उस खंभाको नहीं उखाड़ सके और श्रीकृष्णने अकेले ही उखाड़ दिया ॥ ४५९ ॥ लोग इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए और श्रीकृष्णके इस साहससे आश्चर्यमें पड़ गये । अनन्तर सब लोगोंने श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर उनकी पूजा की ॥ ४६० ॥ यह देख नन्दगोपने विचार किया कि मुझे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नहीं हो सकता । ऐसा विचार कर वह अपने पहलेके ही स्थान पर ब्रजमें वापिस आ गया ॥ ४६१ ॥ खोज करनेके लिए गये हुए लोगोंने यद्यपि कंसको यह अच्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कार्य किये थे वह नन्दगोपका पुत्र है तथापि उसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुकी जाँच करनेकी इच्छासे दूसरे दिन नन्दगोपके पास यह खबर भेजी थी कि नाग राजा जिसकी रक्षा करते हैं वह सहस्रदल कमल भेजे । राजाकी आज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे आकुल होकर कहने लगा कि राजा लोग प्रजाकी रक्षा करनेवाले होते हैं परन्तु खेद है कि वे अब मारनेवाले हो गये ॥ ४६२-४६४ ॥ इस तरह खिन्न होकर उसने कृष्णसे कहा कि हे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी ऐसी आज्ञा है अतः जा, भयंकर सर्प जिनकी रक्षा करते हैं ऐसे कमल राजाके लिए तू ही ला सकता है । पिता की बात सुनकर कृष्णने कहा कि 'इसमें कठिन क्या है ? मैं ले आऊँगा' ऐसा कह कर वह शीघ्र ही महामर्षीसे युक्त सरोवरकी ओर चल पड़ा ॥ ४६५-४६६ ॥ और बिना किसी शङ्काके उस सरोवरमें घुस गया । यह जान कर यमराजके समान आकारवाला नागराज उठ कर उसे निगलनेके लिए तैयार हो गया । उस समय वह नागराज क्रोधसे दीपित हो रहा था, अपनी आसोंसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण विखेर रहा था, चूड़ामणिकी प्रभामे देदीप्यमान फणाके आटोपसे भयङ्कर था, उसकी दोनों जिह्वाएँ लप-लप कर रही थीं और चमकीले नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार किया कि इसकी यह फणा हमारा वस्त्र धोनेके लिए शुद्ध शिला रूप हो । ऐसा विचार कर वे जलमें भीगा हुआ अपना पीताम्बर उसकी फणा पर इस प्रकार पछाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी अपना पंखा पछाड़ता है । वज्रपातके समान भारी दुःख देनेवाली उनके वस्त्रकी पछाड़से वह नागराज भयभीत हो गया और उनके पूर्व पुण्यके उदयसे अदृश्य हो गया ॥ ४६७-४७१ ॥ तदनन्तर

१ निश्चितैः ख० । २ कृष्णः ल० । ३ तं ज्ञात्वा ख०, ग० । ४ स्फुटय ख० । ५ स्फुट-ल० ।

६ दृष्टवानिव ल० (?) ।



नन्दगोपसमीपेऽस्थान्मच्छत्रुरिति निश्चयात् । कदाचिन्नन्दगोपालं मलयुद्धं निरीक्षितुम् ॥ ४७३ ॥  
 निजमल्लैः सहागच्छेदिति सन्दिशति स्म सः । सोऽपि कृष्णादिभिर्मल्लैः सह प्राविशदक्षयम् ॥ ४७४ ॥  
 कञ्चिन्मत्तगर्जं वीतबन्धनं यमसञ्चिभम् । मद्गन्धसमाकृष्टरुवद्भ्रमरसेवितम् ॥ ४७५ ॥  
 १ विनयच्युतभूपालकुमारं वा निरङ्कुशम् । रदनाघातनिभिन्नसुधाभवनभिरिकम् ॥ ४७६ ॥  
 आधावन्तं विलोक्यासौ प्रतीत्योत्पाठ्य २ भीषणम् । रदमेकं कुमारस्तं तेनैव समताडयत् ॥ ४७७ ॥  
 सोऽपि भीतो गतो दूरं ततस्तुष्ट्वा हरिर्भृशम् । जयोऽनेन निमित्तेन ३ स्फुटं वः प्रकटीकृतः ॥ ४७८ ॥  
 इति गोपान् समुत्साह्य प्राविशत्कंससंसदम् । वसुदेवमहीपोऽपि ४ कंसाभिप्रायविरादा ॥ ४७९ ॥  
 स्वसैन्यं समुपायेन सन्नाह्यैकत्र तस्थिवान् । सीरपाणिः समुत्थाय कृतदाःस्फालनध्वनिः ॥ ४८० ॥  
 कृष्णेन सह रङ्गं वा समन्तात्स परिभ्रमन् । कंसं नाशयितुं कालस्तवेत्याख्याय निर्गतः ॥ ४८१ ॥  
 तदा कंसाश्रया विष्णुविधेया गोपसूनुवः । द्रुपिणो भुजमास्फाल्य धृतमल्लपरिच्छदाः ॥ ४८२ ॥  
 श्रवणाह्लादिवादित्रचटुलध्वनिसङ्गताः । ५ क्रमोक्षेपविनिक्षेपाः प्रोक्षतांसद्दयोद्धराः ॥ ४८३ ॥  
 पर्यायनतितप्रेक्ष्यभ्र भङ्गा भीषणारवाः । निवर्तनैः ६ समावर्तनैः सम्भ्रमणवल्गनैः ॥ ४८४ ॥  
 प्रवर्तनैः समवस्थानैरन्यैश्च करणैः स्फुटैः ७ । रङ्गाभ्यर्णमलंकृत्य तस्थुर्नमनोहराः ॥ ४८५ ॥

श्रीकृष्णने इच्छानुसार कमल तोड़ कर शत्रुके पास पहुँचा दिये उन्हें देखकर शत्रुने ऐसा समझा मानों मैंने शत्रुको ही देख लिया हो॥४७२॥ इस घटनासे राजा कंसको निश्चय होगया कि हमारा शत्रु नन्द गोप-के पास ही रहता है। एक दिन उसने नन्द गोपालको संदेश भेजा कि तुम अपने मल्लोंके साथ मलयुद्ध देखनेके लिए आओ। संदेश सुनकर नन्द गोप भी श्रीकृष्ण आदि मल्लोंके साथ मथुरामें प्रविष्ट हुए॥४७३-४७४॥ नगरमें घुसते ही श्रीकृष्णकी आर एक मत्त हाथी दौड़ा। उस हाथीने अपना बन्धन तोड़ दिया था, वह यमराजके समान जान पड़ता था, मद्की गन्धसे खिंचे हुए अनेक भौंरे उसके गण्डस्थल पर लग कर शब्द कर रहे थे, वह विनय रहित किसी राजकुमारके समान निरङ्कुश था, और अपने दाँतोंके आघातसे उसने बड़े-बड़े पत्तके मकानोंकी दीवारें गिरा दी थीं। उस भयंकर हाथीका सामने दौड़ता आता देख श्रीकृष्णने निर्भय हाँकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया और दाँतसे ही उसे खूब पीटा। अन्तमें वह हाथी भयभीत होकर दूर भाग गया। तदनन्तर 'इस निमित्तसे आप लोगोंकी जीत स्पष्ट ही हाँगी' संतुष्ट होकर यह कहते हुए श्रीकृष्णने साथके गोपालोंको पहले तो खूब उत्साहित किया और फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया। कंसका अभिप्राय जाननेवाले राजा वसुदेव भी उस समय किसी उपायसे अपनी सेनाको तैयार किये हुए वहाँ एक स्थान पर बैठे थे। चलदेवने उठकर अपनी भुजाओंके आस्फालनसे ताल ठोक कर शब्द किया और कृष्णके साथ रङ्गभूमिके चारों ओर चक्कर लगाया। उसी समय उन्होंने श्री कृष्णसे कह दिया कि 'यह तुम्हारा कंसका मारनेका समय है' इतना कह वे रङ्गभूमिसे बाहर निकल गये ॥ ४७५-४८१ ॥ इसके बाद कंसकी आज्ञासे कृष्णके सेवक, अहंकारी तथा मल्लोंका वेष धारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक अपनी भुजाओंको ठोकते हुए रङ्गभूमिमें उतरे। उस समय कानोंको आनन्दित करनेवाले बाजोंकी चञ्चल ध्वनि हो रही थी और उसीके अनुसार वे सब अपने पैर रखते उठाते थे, ऊँचे उठे हुए अपने दोनों कन्धोंसे वे कुछ गर्भिष्ठ हो रहे थे, कभी दाहिनी भ्रुकुटि चलाते थे तो कभी बाईं। बीच-बीचमें भयंकर गर्जना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लौट जाते थे, कभी आगे चक्कर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे, कभी उछल पड़ते थे और कभी एक ही स्थान पर निश्चल खड़े रह जाते थे। इस तरह साफ-साफ दिखनेवाले अनेक पैतरोसे नेत्रोंको अच्छे लगनेवाले वे मल्ल रङ्गभूमिको अलंकृत कर खड़े थे। उनके साथ ही रङ्गभूमिको घेर कर चाणूर आदि कंसके प्रमुख मल्ल भी खड़े हुए थे। कंसके वे मल्ल

१ प्रोद्भवाः कंसमह्लाभ चाणूरप्रमुखस्तथा । रङ्गाभ्याशं समाक्रम्य विक्रमैकरसाः स्थिताः ॥ ४८६ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

मध्येरङ्गमुदाराचित्तविसरोः वीरोरुमह्लाप्रणीः

प्रागेव प्रतिमल्लयुद्धविजयं प्राप्येव दीप्रद्युतिः ।

भास्वन्तश्च दिवोऽवर्तार्णमधुना योद्धुं गतं मल्लताम्

जेष्यामीति विबुद्धविक्रमरसः सम्भावयन्स स्वयम् ॥ ४८७ ॥

### मालिनी

घनधृतपरिधानो बद्धकेशो विकूर्चः

सहजमसृणगात्रश्चित्तवृत्तिप्रवीणः ।

सततकृतनियोगाद्रोपमहैरमल्लै-

रविकलजयलम्भः सर्वसम्भावितौजाः ॥ ४८८ ॥

स्थिरचरणविवेशो वज्रसारास्थिबन्धो

भुजपरिचविधायां मुष्टिसंमाध्यमभ्यः ।

कर्डिनपृथुलवक्षाः स्थूलनीलाद्रितुङ्ग-

क्लिगुणितनिजमूर्तिर्दर्पसपांशुराक्ष्यः ॥ ४८९ ॥

ज्वालितचलितनेत्रां निष्ठुराबद्धमुष्टिः

परिणतकरणौघां मंशु सञ्चारदक्षः ।

भृशमशनिरिवोघ्रां नन्दसुनुः स्थितः सन्

भयमवहदसङ्घं प्रेतनाथस्य चोर्ध्वः ॥ ४९० ॥

### वसन्ततिलका

रूपीव शौर्यमखिलं मिलितं बलं वा

रंहः समस्तमपि संहतिर्मायिवद्वा ।

अहंकारसे भरं हुए थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो वीर रसके अवतार ही हों ॥ ४८२-४८६ ॥ उस समय रङ्गभूमिमें खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे बड़े-बड़े वीर पहलवानोंमें अग्रेसर थे, उनकी कान्ति ऐसी दमक रही थी मानो उन्होंने पहले ही प्रतिमल्लके युद्धमें विजय प्राप्त कर ली हो, उनका पराक्रम रूपी रम उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और उन्हें ऐसा उल्साह था कि यदि इस समय मल्लका रूप धर कर सूर्य भी आकाशसे नीचे उतर आवे तो उसे भी जीत लेंगा ॥ ४८७ ॥ उस समय उनके वक्ष बहुत कड़े बंधे थे, बाल बंधे थे, ढाँढ़ी मूँछ थी ही नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वे गोप मल्लोंके साथ अमल्लोंकी तरह सदा युद्धका अभ्यास करते और पूर्ण विजय प्राप्त करते थे, और उनके पराक्रमकी सब सराहना करते थे ॥ ४८८ ॥ उनके चरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हड्डियोंका गठन वज्रके सारके समान मुद्द था, उनकी भुजाएँ अर्गलके समान लम्बी तथा मजबूत थीं, उनकी कमर मुट्टीमें समानेके योग्य थी, वक्षःस्थल अत्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़े भारी नीलगिरिके समान थे, उनका शरीर सख, रज और तम इन तीन गुणोंकी माना मूर्ति था और गर्वके संचारसे कोई उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था ॥ ४८९ ॥ उनके चमकीले नेत्र चञ्चल हो रहे थे, वे बड़ी मजबूत मुट्टी बंधे थे, उनकी हन्डियोंका समूह पूर्ण परिपक्व था, वे शीघ्र गमन करनेमें दक्ष थे, और वज्रके समान अत्यन्त उग्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूमिमें खड़े हुए नन्द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजके लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर रहे थे ॥ ४९० ॥ वे श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शूरवीरता ही रूप धरकर आ गई

सिंहाकृतिः सं सहसा कृतसिंहनादो

रङ्गादलङ्कृत नभोऽङ्गणमङ्गणं वा ॥ ४९१ ॥

भापत्य खादशनिबद्भुवमात्मपाद-

पाताभिघातचलिताचलसन्धिबन्धः ।

बलान्मुहुः परिसरत्प्रविजृम्भमाणः

सिन्दूररञ्जितभुजौ चलयद्भुद्रौ ॥ ४९२ ॥

क्रुद्धः कटीद्वितयपार्श्वविलम्बिपीत-

वक्षो नियुद्धकुशलं प्रतिमल्लमुग्रम् ।

चाणूरमन्त्रिशिखरोद्धतमापतन्त-

<sup>१</sup>मासाद्य सिंहवदिर्भं सहसा बभासे ॥ ४९३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

दृष्ट्वं हृषिरोद्गानोग्रनयनो योद्धुं स्वयं मलनां

सम्प्राप्यापतदुग्रसेनतनयो जन्मान्तरद्वेषतः ।

तं व्योम्नि भ्रमयन्करेण चरणे संगृह्य वाल्पाण्डजं

भूमौ नेतुमुपान्तमन्तकविभोः कृष्णः समास्फालयत् ॥ ४९४ ॥

आपेतुर्नभसस्तदा सुमनसो देवानकैर्दध्वने

स्वारावो वसुदेवसैन्यजलधौ प्रक्षोभणादुद्गतः ।

सीरां वीरवरो विरुद्धनृपतीनाक्रम्य रङ्गे स्थितः

स्वीकृत्याप्रतिमल्लमासत्रिजयं शौर्योर्जितं स्वानुजम् ॥ ४९५ ॥

अतुलबलमल्लहृथारातिमत्तेभघाता-

त्कुपितहरिसमानं माननीयापदानम्<sup>२</sup> ।

सपदि समुपयाता वन्दिभिर्वन्धमानं

जनितसकलरागं तं हरिं वीरलक्ष्मीः ॥ ४९६ ॥

थी, अथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित हो गया था, सिंह जैसी आकृतिको धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया और रङ्गभूमिसे उड़ल कर आकाश रूपी आंगनको लॉष दिया मानो घरका आंगन ही लॉष दिया हो ॥ ४९१ ॥ फिर आकाशसे चक्रकी भाँति पृथिवी पर आये, उन्होंने अपने पैर पटकनेकी चाँटसे पर्वतोंके सन्धि-बन्धनको शिथिल कर दिया, वे बराबर गर्जने लगे, इधर-उधर दौड़ने लगे और सिन्दूरसे रंगी अपनी दोनों भुजाओंको चलाने लगे ॥ ४९२ ॥ उस समय वे अत्यन्त कुपित थे, उनकी कमरके दोनों ओर पीत वस्त्र बँधा हुआ था, और जिस प्रकार सिंह हाथीको मार कर सुशोभित होता है उसी प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुशल, अतिशय दुष्ट और पहाड़की शिखरके समान ऊँचे प्रतिद्वन्दी चाणूर मल्लको सहसा मार कर सुशोभित हो रहे थे ॥ ४९३ ॥ यह देख, खूनके निकलनेके-से जिसके नेत्र अत्यन्त भयंकर हो रहे हैं ऐसा कंस स्वयंजन्मान्तरके द्वेषके कारण मल्ल बन कर युद्धके लिए रंगभूमिमें आ कूदा, श्रीकृष्णने हाथसे उसके पैर पकड़ कर छोटेसे पक्षीकी तरह पहले तो उसे आकाशमें घुमाया और फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीन पर पड़ाड़ दिया ॥ ४९४ ॥ उसी समय आकाशसे फूल बरसने लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द किया, वसुदेवकी सेनामें क्षोभके कारण बहुत कलकल होने लगा, और वीर शिरोमणि बलदेव, पराक्रमसे सुशोभित, विजयी तथा शत्रु रहित छोटे भाई कृष्णका आगे कर विरुद्ध राजाओं पर आक्रमण करते हुए रङ्गभूमिमें जा डटे ॥ ४९५ ॥ जिनका बल अतुल्य है, जो अलङ्घनीय शत्रु रूपी

## वसन्ततिलका

दूतीव मे श्रितवती वरवीरलक्ष्मी-

रेतस्य दक्षिणभुजं विजयैकगोहम् ।

प्राप्तं पतिं चिरतरादिति तं कटाक्षै-

रक्षिष्ट रागतरलैर्भरतार्धलक्ष्मीः ॥ ४९७ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंप्रह्णे नेमिस्वामिचरिते  
कृष्णविजयो नाम सप्ततितमं पर्वं ॥ ७० ॥

-+०:ॐ:०+

मत्त हाथियोंके घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी स्तुति कर रहे हैं और जिन्होंने सब लोगोंको हर्ष उत्पन्न किया है ऐसे श्रीकृष्णके समीप वीरलक्ष्मी सहसा ही पहुँच गई ॥ ४९६ ॥ मेरी दूतीके समान श्रेष्ठ वीरलक्ष्मी इनकी विजयी दाहिनी भुजाको प्राप्त कर चुकी है, इसलिए आधे भरत क्षेत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुए उन श्रीकृष्ण रूपी पतिको रागके द्वारा चञ्चल कटाक्षोंसे देख रही थी ॥ ४९७ ॥

इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संप्रह्णे अन्तर्गत नेमिनाथ स्वामीके चरितमें श्रीकृष्णकी विजयका वर्णन करनेवाला सत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ७० ॥

—+ + + +—

## एकसप्ततितमं पर्व

अथ कंसवधुमुक्तलोचनाम्भःप्रपायिनः । १ भूमुरुहात्समुत्पन्नाः समन्तादुत्सवाङ्कुराः ॥ १ ॥  
 वसुदेवमहीशस्य किलैव कृतिनः सुतः । व्रजे कंसभयाद् वृद्धिं धूरः प्रच्छन्नमासवान् ॥ २ ॥  
 वृद्धिरस्य स्वपक्षस्य वृद्धये नैव केवलम् । जगतश्च तुपारांशोरिव वृद्धिश्चिता क्रमात् ॥ ३ ॥  
 इत्यमिष्ट्रयमानस्य पौरतद्देशवासिभिः । विपाशितोऽग्रसेनाख्यमहीशस्य महात्मनः ॥ ४ ॥  
 विसजितवतो नन्दगोपांश्चापूज्य सद्धनैः । प्रविश्य बन्धुभिः सङ्गतस्य शौर्यपुरं हरेः ॥ ५ ॥  
 काले सुखेन यात्येवं देवी जीवद्यशास्ततः । दुःखिता मरणात्पत्युर्जरासन्धमुपेत्य सा ॥ ६ ॥  
 तत्र प्रवृत्तवृत्तान्तमशेषं तमब्रुवुधत् । श्रुत्वाऽसौ च रुषा पुत्रानादिशथादवान् प्रति ॥ ७ ॥  
 तेऽपि सन्नाह्य सैन्यं स्वं गत्वा युध्वा रणाङ्गणे । भङ्गमापन्नके २ वायुदैवं वैमुख्यमीयुषि ॥ ८ ॥  
 प्राहिणोत्स पुनः कोपारान्जमपराजितम् । मत्त्वैवान्वर्थनामानं तद्द्विषामन्तकोपमम् ॥ ९ ॥  
 शतत्रयं ३ सषट्चत्वारिंशत्सोऽपि महाबलः । चिरं विधाय युद्धानां विपुण्योऽभूत्पराङ्मुखः ॥ १० ॥  
 पुनः पितृनिदेशेन प्रस्थानमकृतोद्यमी । यादवानुद्धरामीति तुक्कालयवनभिधः ॥ ११ ॥  
 यादवाश्च तदायानमाकर्ण्यगामिवेदिनः । जहुः शौर्यपुरं हास्तिनाङ्ग्यं मधुरामपि ॥ १२ ॥  
 मार्गं स्थितां सदा यादवेशिनां कुलदेवताम् । विविधेन्धनसंवृद्धज्वालामुत्थाप्य पावकम् ॥ १३ ॥  
 धृतवृद्धाकृतिं वीक्ष्य तां कालयवनी युवा । किमेतदिति पप्रच्छ साप्याह शृणु भूपते ॥ १४ ॥

अथानन्तर—कंसकी स्त्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रुजलका पान कर पृथ्वी रूपी वृत्तसे चारों ओर उत्सव रूपी, अङ्कुर प्रकट होने लगे ॥ १ ॥ 'यह शूरवीर, पुण्यात्मा वसुदेव राजाका पुत्र है, कंसके भयसे छिप कर व्रजमें वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, अनुक्रमसे होनेवाली वृद्धि, न केवल इनके पक्षकी ही वृद्धिके लिए है अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी वृद्धिके लिए है' इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग्रसेनको बन्धन-मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा नन्द आदि गोपालोंकी पूजा कर उन्हें विदा किया था, और जो भाई-बन्धुओंके साथ मिलकर शौर्यपुर नगरमें प्रविष्ट हुए थे ऐसे श्रीकृष्णका समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवद्यशा पतिकी मृत्युसे दुःखी होकर जरासंधके पास गई । उसने मथुरापुरीमें जो वृत्तान्त हुआ था वह सब जरासंधको बतला दिया ॥ २-६ ॥ उस वृत्तान्तको सुनकर जरासंधने क्रोधवश पुत्रोंको यादवोंके प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी ॥ ७ ॥ वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गये और युद्धके आंगनमें पराजित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कौन पराजयको प्राप्त नहीं होते ? ॥ ८ ॥ अबकी बार जरासंधने कुपित होकर अपना अपराजित नामका पुत्र भेजा क्योंकि वह उसे सार्थक नामवाला तथा शत्रुओंके लिए यमराजके समान समझता था ॥ ९ ॥ बड़ी भारी सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तीन-सौ छयालीस बार युद्ध किया परन्तु पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराङ्मुख होना पड़ा ॥ १० ॥ तदनन्तर 'मैं पिताकी आज्ञासे यादवोंको अवश्य जीतूँगा' ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयवन नामक पुत्रने प्रस्थान किया ॥ ११ ॥ कालयवनकी आज्ञा सुनकर अप्रशोची यादवोंने शौर्यपुर, हस्तिनापुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़े दिये ॥ १२ ॥ कालयवन उनका पीछा कर रहा था, तब यादवोंकी कुल-देवता बहुत-सा ईन्धन इकट्ठा कर तथा ऊँची लौवाली अग्नि जलाकर और स्वयं एक बुद्धियाका रूप बना कर मार्गमें बैठ गई । उसे देख कर युवा कालयवनने उससे पूछा कि यह

अस्मिज्ज्वालाकरालाम्नौ सर्वेऽपि मम सुनवः । भयेन भवतोऽभूवन् व्यसवो यादवैः सह ॥ १५ ॥  
 इति तद्वचनात्सोऽपि मज्जयात्किल शत्रवः । प्राविशन्मप्रतापाशुशुक्षणिं वाशुशुक्षणिम् ॥ १६ ॥  
 इति प्रतिनिष्ठ्याशु मिथ्यागर्बं समुद्रहन् । जगाम पितुरभ्याशं धिगनीक्षितचेष्टितम् ॥ १७ ॥  
 १ इतो जलनिधेस्तीरे बले यादवभूभुजाम् । निविष्टवति निर्मापयितुं स्थानीयमात्मनः ॥ १८ ॥  
 अष्टोपवासमादाय विधिमन्त्रपुरस्सरम् । कंसारिः शुद्धभावेन दर्भशय्यातलं गतः ॥ १९ ॥  
 अश्वाकृतिधरं देवं मामारुह्य पयोनिधेः । गच्छतस्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादशयोजनम् ॥ २० ॥  
 इत्युक्तो नैगमाख्येन सुरेण मधुसूदनः । चक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न कः सखा ॥ २१ ॥  
 प्राप्तवेगोद्धतौ तस्मिन्नारूढे तुरगद्विधा । ह्ये धावति निर्द्वन्द्वं निश्चलस्कर्णचामरे ॥ २२ ॥  
 द्वेषामेदमयाद्वाधिर्भयादिब हरेरयात् । भेषो धीशक्तियुक्तेन सङ्घातोऽपि जलात्मनाम् ॥ २३ ॥  
 शक्राज्ञया तदा तत्र निधीशो विधिवधितम् । सहस्रकूटं व्याभासि भास्वद्वनमयं महत् ॥ २४ ॥  
 कृत्वा जिनगृहं १ पूर्वं मङ्गलानाञ्च मङ्गलम् । वप्रप्राकारपरिखागोपुराष्टालकादिभिः ॥ २५ ॥  
 राजमानां हरेः पुण्यातीर्थेशस्य च सम्भवात् । निर्ममे नगरीं रम्यां सारपुण्यसमन्विताम् ॥ २६ ॥  
 सरित्पतिमहावीचीभुजालिङ्गितगोपुराम् । दीप्त्या १ द्वावतीसञ्ज्ञां हसन्तीं वामरीं पुरीम् ॥ २७ ॥  
 सपिता साप्रजो विष्णुस्तां प्रविश्य यथासुखम् । लक्ष्मीकटाक्षसंबीक्ष्यस्तस्थिवान्यादवैः सह ॥ २८ ॥  
 अथातो भुवनाधीशे जयन्तादागमिष्यति । विमानाद्दहमिन्द्रेऽसूं महीं मासैः षडुन्मितैः ॥ २९ ॥

क्या है ? उत्तरमें बुद्धिया कहने लगी कि हे राजन् ! सुन, आपके भयसे मेरे सब पुत्र यादवोंके साथ-साथ इस ज्वालाओंसे भयंकर अग्निमें गिरकर मर गये हैं ॥ १३-१५ ॥ बुद्धियाके वचन सुनकर काल-यवन कहने लगा कि अहो, मेरे भयसे समस्त शत्रु मेरी प्रतापान्निके समान इस अग्निमें प्रविष्ट हो गये हैं ॥ १६ ॥ ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही लौट पड़ा और भूटा अहंकार धारण करता हुआ पिताके पास पहुँच गया । आचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टाको धिक्कार है ॥ १७ ॥ इधर चलते-चलते यादवोंकी सेना अपना स्थान बनानेके लिए समुद्रके किनारे ठहर गई ॥ १८ ॥ वहाँ कृष्णने शुद्ध भावोंसे दर्भके आसन पर बैठकर विधि-पूर्वक मन्त्रका जाप करते हुए अष्टोपवास का नियम लिया । उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि मैं घोंडाका रूप रखकर आऊँगा सो मुझपर सवार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना । वहाँ तुम्हारे लिए नगर बन जायगा । नैगम देवकी बात सुन कर श्रीकृष्णने निश्चयानुसार वैसा ही किया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता ? ॥ १९-२१ ॥ जो प्राप्त हुए वेगसे उद्धत हैं, जिसपर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं, और जिसके कानोंके चमर निश्चल हैं ऐसा घोंडा जब दौड़ने लगा तब मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भेदोंको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धि और शक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका ( पक्षमें मूर्ख लोगोंका ) समूह भेदको प्राप्त हो ही जाता है ॥ २२-२३ ॥ उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीर्थकरके पुण्यसे इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने एक सुन्दर नगरीकी रचना की । जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूर्वक मंगलोंका मांगलिक स्थान और एक हजार शिखरोंसे सुशोभित देदीप्यमान एक बड़ा जिनमन्दिर बनाया फिर वप्र, कोंट, परिखा, गोपुर तथा अष्टालिका आदिसे सुशोभित, पुण्यात्मा जीवोंसे युक्त मनोहर नगरी बनाई । समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्ग रूपी भुजाओंसे उस नगरीके गोपुरका आलिङ्गन करता था, वह नगरी अपनी दीप्तिसे देवपुरीकी हँसी करती थी और द्वावती उसका नाम था ॥ २४-२७ ॥ जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष उठा कर देख रही है ऐसे श्रीकृष्णने पिता वसुदेव तथा बड़े भाई बलदेवके साथ उस नगरीमें प्रवेश किया और यादवोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥ २८ ॥

अथानन्तर—जो आगे चल कर तीन लोकका स्वामी होनेवाला है ऐसा अहमिन्द्रका जीव

राज्ञः काश्यपगोत्रस्य हरिवंशशिखामणः । समुद्रविजयाख्यस्य शिवदेवी मनोरमा ॥ ३० ॥  
 देवतोपास्यमानाङ्घ्रिर्वसुभाराभिनन्दिता । षण्मासावसितौ मासे कार्तिके शुक्लपक्षगे ॥ ३१ ॥  
 पञ्चामशोचराषाढे निशान्ते स्वप्नमालिकाम् । आलोकतानुवक्त्राब्जं प्रविष्टञ्च गजाधिपम् ॥ ३२ ॥  
 ततो वन्दिवद्योयामभेरीध्वनिबिबोधिता । कृतमङ्गलसुखाना धनपुण्यप्रसाधना ॥ ३३ ॥  
 उपचारवदभ्येत्य नृपमर्धासने स्थिता । स्वदृष्टस्वप्नसाफल्यं मन्वयुक्तं श्रुतागमम् ॥ ३४ ॥  
 सङ्कलय्य नरेन्द्रोऽपि फलं तेषामभापत । त्वद्गर्भे विश्वलोकेशोऽवतीर्ण इति सूक्ष्मधीः ॥ ३५ ॥  
 श्रुत्वा तद्वै तं लब्धवतीवातुषदप्यसौ । ज्ञात्वा स्वचिह्नं देवेन्द्राः सम्भूयागत्य संमदान् ॥ ३६ ॥  
 स्वर्गावतारकल्याणमहोत्सवविधायिनः । ४स्वेषां पुण्यञ्च निर्वर्त्य स्वधाम समुपागमन् ॥ ३७ ॥  
 स पुनः श्रावणे शुक्लपक्षे पृष्ठीदिने जिनः । ज्ञानत्रितयभृत्स्वष्टयोगे तुष्ट्यामजायत ॥ ३८ ॥  
 अथ स्वविष्टराकम्पसमुपस्रावधीक्षणाः । बुद्ध्या भगवदुत्पत्तिं सौधर्मेन्द्रपुरस्सराः ॥ ३९ ॥  
 सज्जातसम्मदाः प्राप्य परिवेष्ट्य पुरं स्थिताः । ऐरावतगजस्कन्धमारोप्य भुवनप्रभुम् ॥ ४० ॥  
 सौधर्माधिपतिभक्त्या नीलाम्भोजदलद्युतिम् । ईशमीशानकल्पेशधृतातपनिवारणम् ॥ ४१ ॥  
 नमस्कृत्यैवैरोचनोद्भूतचमरीरूहम् । धनेशनमितश्रेधामणिसोपानमार्गगः ॥ ४२ ॥  
 नोत्था पर्योदमार्गेण गिरीशेशानद्विगतम् । पाण्डुकाम्यशिलाग्रस्थमणिसिंहदृतासने ॥ ४३ ॥  
 अनादिनिधने बालमारोप्यात्यर्कतेजसम् । क्षीराम्भोधिपयः पूर्णसुवर्णकलशोत्तमैः ॥ ४४ ॥

जब छह माह बाद जयन्त धिमानसे चतकर इस पृथिवीपर आनेके लिए उगत हुआ तब काश्यप-  
 गोत्री, हरिवंशके शिखामणि राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी रत्नोंकी धारा आदिसे पूजित  
 हुई और देवियों उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं । छह माह समाप्त होने पर रानीने कार्तिक शुक्ल  
 पृष्ठीके दिन उत्तराषाढ नक्षत्रमें रात्रिके पिछले समय सांलह स्वप्न देखे और उनके बाद ही  
 मुख्यकमलमें प्रवेश करना हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा ॥ २६—३२ ॥

तदनन्तर—दन्दीजनोके शब्द और प्रातःकालके समय बजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि सुनकर  
 जागी हुई रानी शिवदेवीने सङ्कलमय स्नान किया, पुण्य रूप बस्त्राभरण धारण किये और फिर  
 बड़ी नम्रतासे राजाके पास जाकर वह उनके अधासन पर बैठ गई । पश्चात् उसने अपने देखे  
 हुए स्वप्नोंका फल पूछा । सूक्ष्म बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हुए आगमका विचार कर  
 उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हारे गर्भमें तीन लोकके स्वामी तीर्थकर अवतीर्ण हुए हैं ॥ ३३-  
 ३५ ॥ उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नोंका फल सुनकर ऐसी सन्तुष्ट हुई माना उसने तीर्थकरको  
 प्राप्त ही कर लिया हो । उर्मा समय इन्द्रोंने भी अपने-अपने चिह्नोंसे जान लिया । वे सब बड़े  
 हर्षसे मिलकर आये और स्वर्गावतरण कल्याण ( गर्भकल्याणक ) का महोत्सव करने लगे । उत्सव  
 द्वारा पुण्योपार्जन कर वे अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ३६-३७ ॥ फिर श्रावण शुक्ला पृष्ठीके  
 दिन चित्रा नक्षत्रमें ब्रह्मयागके समय तीन ज्ञानके धारक भगवान्का जन्म हुआ ॥ ३८ ॥ तदनन्तर  
 अपने आसन कम्पित होनेसे जिन्हें अर्वाधज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे सौधर्म आदि इन्द्र हर्षित होकर  
 आये और नगरीको घेर कर खड़े गये । तदनन्तर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं,  
 ईशानेन्द्रने जिनपर छत्र लगाया है, तथा नमस्कार करते हुए चमर और वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर  
 चमर डोर रहे हैं ऐसे जिनेन्द्र बालकको सौधर्मेन्द्रने बड़ी भक्तिसे उठाया और कुबेर-निर्मित तीन  
 प्रकारकी मणिमय सादियोंके मार्गसे चलकर उन्हें ऐरावत हाथीके स्कन्ध पर विराजमान किया ।  
 अत्र इन्द्र आकाश-मार्गसे चलकर गुमेरु पर पहुँचा वहाँ उसने गुमेरु पर्वतकी ईशान दिशामें पाण्डुक  
 शिलाके अग्रभाग पर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रक्खा है उसपर सूर्यसे भी अधिक  
 तेजस्वी जिन-बालकको विराजमान कर दिया । वहीं उसने अनुक्रमसे हाथों हाथ लाकर इन्द्रोंके द्वारा

१ नामाली-ल०, म०, ग०, घ० । २ शुभागमं ल० । ३ संलब्धवती ल० । ४ तेषां ल० ।

५-मार्गतः ख० । ६ दिग्गते ग०, घ० । दिग्गतं०, ख० । दिग्गते ल० । ७ पयःपूर्णाः म० ।

अष्टाधिकसहस्रेण प्रमितैरमितप्रभैः । हस्ताद्धस्तं क्रमेणामराधिनाथसमर्पितैः ॥ ४५ ॥  
 अभिषिच्य यथाकाममलङ्कृत्य यथोचितम् । नेमि सद्धर्मचक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधात् ॥ ४६ ॥  
 तस्मादानीय मौलीन्द्रमाननीयमहोदयम् । मातापित्रोः पुनर्दत्त्वा विधायानन्दनाटकम् ॥ ४७ ॥  
 विकृत्य विविधान्बाहून् रसभावानिरन्तरम् । स्वावासमगमत्सर्वैरादिमेन्द्रः सहामरैः ॥ ४८ ॥  
 नमेर्भगवतस्तीर्थसन्तानसमयस्थितेः । पञ्चलक्षसमाप्रान्ते तदन्तर्गतजीवितः ॥ ४९ ॥  
 जिनाो नेमिः समुत्पन्नः सहस्राब्दायुरन्वितः । दशचापसमुत्सेधः शस्तसंस्थानसंहतिः ॥ ५० ॥  
 त्रिलोकनायकाम्यर्ष्यः स्वभ्यर्णीकृतनिर्वृतिः । तस्थौ सुखानि दिव्यानि तस्मिन्ननुभवश्चिरम् ॥ ५१ ॥  
 गच्छत्येवं क्षणे वास्य काले बहुतरेऽन्यदा । आत्वारिपथोद्योगा नष्टदिक्का वणिक्सुताः ॥ ५२ ॥  
 प्राप्य द्वारावतीं केचित्पुण्यान्मगधवासिनः । राज्यलीलां विलोक्यात्र विभूतिञ्च सविस्मयाः ॥ ५३ ॥  
 बहूनि रत्नान्यादाय सारभूतानि तत्पुरात् । गत्वा राजगृहं प्राप्तचक्ररत्नं महीपतिम् ॥ ५४ ॥  
 रत्नान्युपायनीकृत्य पुरस्कृत्य वणिकपतिम् । ददशुः कृतसन्मानस्तानपृच्छत्प्रजेश्वरः ॥ ५५ ॥  
 भो भवद्भिः कुतो लब्धमिदं रत्नकदम्बकम् । उदंशुभिरिवोन्मीलितेक्षणं कौतुकादिति ॥ ५६ ॥  
 शृणु देव महच्चित्रमेतदस्मद्विलोकितम् । पातालादेत्य वादष्टपूर्वमुर्वीमुपस्थितम् ॥ ५७ ॥  
 सङ्कुलीकृतसौधोरुभवनत्वादिवाग्बुधैः । फेनराशिस्तदाकारपरिणाममुपागतः ॥ ५८ ॥  
 अलङ्घ्यत्वात्परैः पुण्यं वापरं भरतेक्षितुः । नेमिस्वामिसमुत्पत्तिहेतुत्वाज्ञगौराचमम् ॥ ५९ ॥

सौपे हुण एवं और सागरके जलसे भरे, सुवर्णमय एक हजार आठ देदीप्यमान कलशोंके द्वारा उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायोग्य आभूषण पहिनाये और ये समीचीन धर्मरूपी चक्रकी नेमि हैं—चक्रधारा हैं' इसलिए उन्हें नेमि नामसे सम्बोधित किया । फिर सौधमेन्द्रने मुकुट-बद्ध इन्द्रोंके द्वारा माननीय महाभ्युदयके धारक भगवानको समुद्र पर्वतसे लाकर माता-पिताको सौपा, विक्रिया द्वारा अनेक भुजाएँ बनाकर रस और भावसे भरा हुआ आनन्द नामका नाटक किया और यह सब करनेके बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने स्थान पर चला गया ॥ ३६-४८ ॥ भगवान् नमिनाथकी तीर्थपरम्पराके बाद पाँच लाख वर्ष बीत जानेपर नेमि जिनेन्द्र उत्पन्न हुण थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार वर्षकी थी, शरीर दश धनुष ऊँचा था, उनके संस्थान और संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोंके इन्द्र उनकी पूजा करते थे, और मोक्ष उनके समीप था । इस प्रकार वे दिव्य मुखोंका अनुभव करते हुण चिरकाल तक द्वारावतीमें रहे ॥ ४६-५१ ॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुण उनका बहुत भारी समय एक क्षणके समान बीत गया । किसी एक दिन मगध देशके रहनेवाले ऐसे कितने ही वैश्य पुत्र, जो कि जलमार्गसे व्यापार करते थे, पुण्योदयसे मार्ग भूल कर द्वारावती नगरीमें आ पहुँचे । वहाँकी राजलीला और विभूति देखकर आश्चर्यमें पड़ गये । वहाँ जाकर उन्होंने बहुतसे श्रेष्ठ रत्न खरीदे । तदनन्तर राजगृह नगर जाकर उन वैश्य-पुत्रोंने अपने सेठको आगे किया और उन रत्नोंको भेंट देकर चक्ररत्नके धारक राजा जरासन्धके दर्शन किये । राजा जरासन्धने उन सबका सन्मान कर उनसे पूछा कि 'अहां वैश्य-पुत्रो ! आप लोगोंने यह रत्नोंका समूह कहाँसे प्राप्त किया है ? यह अपनी उठती हुई किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कौतुकवशा इसने नेत्र ही खोल रक्खे हों' ॥ ५२-५६ ॥ उत्तरमें वे वैश्य-पुत्र कहने लगे कि हे राजन् ! मुनिये, हमलोगोंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और ऐसा आश्चर्य, जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है । समुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पातालसे ही निकल कर पृथिवी पर आई हो । वहाँ चूनासे पुते हुण बड़े-बड़े भवन सघनतासे विद्यमान हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रके फेनका समूह ही नगरीके आकार परिणत हो गया हो । वह शयुओंके द्वारा अलङ्कनीय है अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्तीका दूसरा पुण्य ही हो । भगवान नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सब नगरियोंमें उत्तम है,



असंहतम्<sup>१</sup> नासेव्यमर्थिभिर्वीतगौरवम् । शरद्बद्धकुलं तिष्ठत्युपर्येतन्ममेति वा ॥ ६० ॥  
 सौधाग्रान्दोलितालोलपताकाबहुबाहुभिः । निराचिकीर्षुः संहर्षाद्वृत्तमभयथाच्छ्रितम् ॥ ६१ ॥  
 परार्थ्यभूरि<sup>२</sup> रत्नत्वात्कृष्णतेजोविराजनात् । सदा गम्भीरशब्दत्वादम्भोधिजलसन्धिभम् ॥ ६२ ॥  
 नवयोजनविस्तारं दैर्घ्यद्वादशयोजनम् । पुरं द्वाारावती नाम यादवानां पयोनिधेः ॥ ६३ ॥  
 मध्ये प्रवर्तते तस्मादेतद्भक्तदम्बकम् । लब्धमस्माभिरित्येवमब्रुवन्स्तेऽपि भूपतिः ॥ ६४ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं<sup>३</sup> क्रोधेनान्धीभूतोऽप्रवीक्षणः । जरासन्धो धियाप्यन्धो दर्पी दैवातिसन्धितः ॥ ६५ ॥  
 चञ्चलकालकालान्तचलितात्मबलाम्बुधिः । कतुं यादवलोकस्य विलयं वात्रिलम्बितम् ॥ ६६ ॥  
 नारदस्तत्तदा ज्ञात्वा निर्हेतुसमरप्रियः । हरिं सत्वरमध्येत्य तद्विकारं न्यवेदयत् ॥ ६७ ॥  
 श्रुत्वा शार्ङ्गधरः शयुसमुत्थानमनाकुलम् । कुमारं नेमिमध्येत्य प्रशाधि त्वमिदं पुरः ॥ ६८ ॥  
 विजिगीषुः किलाद्याभूत्प्रत्यस्मान्मगधाधिपः । भनज्मि तमहं जीर्णं द्रुमं वा घुणभक्षितम् ॥ ६९ ॥  
 तूर्णं भवत्प्रभावेन गत्वैत्यवद्वृजितम् । प्रसन्नचेतास्तच्छ्रुत्वा सस्मितो मधुरेक्षणः ॥ ७० ॥  
 सावर्धिर्विजयं तेन विनिश्चित्य विरोधिनाम् । स्फुरदन्तरुचिविष्णुं नेमिरोमित्यभापत् ॥ ७१ ॥  
 स्मिताद्यैः स्वं जयं सोऽपि निश्चिचाय जगत्प्रभोः । जैनो वादीव पक्षाद्यैरेकलक्षणभूपणैः ॥ ७२ ॥

काई भी उसका विघात नहीं कर सकता है, वह याचकोसे रहित है, यह उसके महलों पर बहुत-सी पताकाएँ फहराती रहती हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है कि 'यह गौरव रहित शरद् ऋतुके बादलोंका समूह मेरे ऊपर रहता है' इस ईर्ष्याके कारण ही वह मानो महलोंके अग्रभाग पर फहराती हुई चञ्चल पताकाओं रूपी बहुत-सी मुजाओंसे आकाशमें ऊँचाई पर स्थित शरद् ऋतुके बादलोंको वहाँसे दूर हटा रही हो। वह नगरी ठीक समुद्रके जलके समान है क्योंकि जिस प्रकार समुद्रके जलमें बहुतसे रत्न रहते हैं उसी प्रकार उस नगरीमें भी बहुतसे रत्न विद्यमान हैं, जिस प्रकार समुद्रका जल कृष्ण तेज अर्थात् काले वर्णसे सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज अर्थात् वसुदेवके पुत्र श्री कृष्णके प्रतापसे सुशोभित है, और जिस प्रकार समुद्रके जलमें सदा गम्भीर शब्द होता रहता है उसी प्रकार उस नगरीमें भी सदा गम्भीर शब्द होता रहता है। वह नौ योजन चौड़ी तथा बारह योजन लम्बी है, समुद्रके बीचमें है तथा यादवोंकी नगरी कहलाती है। हम लोगोंने ये रत्न वहीं प्राप्त किये हैं' ऐसा वैश्य-पुत्रोंने कहा ॥ ५७-६४ ॥ जब दैवसे डले गये अहङ्कारी जरासन्धने वैश्य-पुत्रोंके उक्त वचन सुने तो वह क्रोधसे अन्धा हो गया, उसकी दृष्टि भयङ्कर हो गई, यही नहीं, बुद्धिसे भी अन्धा हो गया ॥ ६५ ॥ जिसकी सेना, असमयमें प्रकट हुए प्रलयकालके लहराते समुद्रके समान चञ्चल है ऐसा वह जरासन्ध यादव लोगोंका शीघ्र ही नाश करनेके लिए तत्काल चल पड़ा ॥ ६६ ॥ बिना कारण ही युद्धसे प्रेम रखनेवाले नारदजीको जब इस बातका पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्रीकृष्णसे जरासन्धके कोपका समाचार कह दिया ॥ ६७ ॥ 'शत्रु चढ़कर आ रहा है' यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको कुछ भी आकुलता नहीं हुई। उन्होंने नेमिकुमारके पास जाकर कहा कि आप इस नगरकी रक्षा कीजिए। सुना है कि मगधका राजा जरासन्ध हम लोगोंको जीतना चाहता है सो मैं उसे आपके प्रभावसे घुणके द्वारा खाये हुए जीर्ण वृक्षके समान शीघ्र ही नष्ट किये देता हूँ। श्रीकृष्णके वीरता पूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नतासे भर गया है जो कुछ-कुछ मुसकरा रहे हैं और जिनके नेत्र मधुरतासे आत-प्रोत हैं ऐसे भगवान् नेमिनाथको अवधिज्ञान था अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियोंके ऊपर हम लोगोंकी विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दौतोंकी देदीप्यमान कान्तिकों प्रकट करते हुए 'ओम्' शब्द कह दिया अर्थात् द्वारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथानुपपत्ति रूप लक्षणसे सुशोभित पक्ष आदिके द्वारा ही अपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी प्रकार श्रीकृष्णने भी नेमिनाथ भगवान्की मुसकान आदिसे ही अपनी विजयका निश्चय कर लिया था ॥ ६८-७२ ॥

१ असंहतत्तदना-ल०(१) । २ भूमि-ल० । ३ क्रोधादन्धीभूतो ल० ।

अथ शत्रून् समुज्जेतुं जयेन विजयेन च । सारणेनाङ्गदाल्येन दवाङ्केनोद्धवेन च ॥ ७३ ॥  
सुमुखाक्षरपद्मैश्च जरास्थेन सुदृष्टिना । पाण्डवैः पद्मभिः सत्यकेनाथ द्रुपदेन च ॥ ७४ ॥  
यादवैः सविराट्स्थैरप्रमेयैर्महाबलैः । धृष्टार्जुनोऽप्रसेनाभ्यां चमरेण रणेऽपुना ॥ ७५ ॥  
विदुरेण नृपैरन्यैश्चान्वितौ बलकेशवौ । सन्नद्धाबुद्धतौ योद्धुं कुरुक्षेत्रमुपागतौ ॥ ७६ ॥  
जरासन्धोऽपि युद्धेच्छुर्भीष्मेणाविष्कृतोष्मणा । सद्रोणेन सकर्णेन साश्वत्थामेन रुग्मिणा ॥ ७७ ॥  
शल्येन वृषसेनेन कृपेण कृपवर्मणा । रुदिरैणेन्द्रसेनेन जयद्रथमहीभृता ॥ ७८ ॥  
हेमप्रभेण भूभर्त्रा दुर्योधनधरोशिना । दुःशासनेन दुर्मर्षेण दुर्धर्षेण च ॥ ७९ ॥  
तुर्जयेन कलिङ्गेशा भगदत्तेन भृमुजा । परैश्च भूरिभूपालैराजगाम स केशवम् ॥ ८० ॥  
तदा हरिबले युद्धदुन्दुभिध्वनिरुद्धरन् । शूरचेतो रसो वासः कौसुम्भो बान्धवजयत् ॥ ८१ ॥  
तदाकर्ण्य नृपाः केचित्पूजयन्ति स्म देवताः । अहिंसादिव्रतान्यन्ये जगद्गुरुसन्निधौ ॥ ८२ ॥  
परे निस्तारकेष्वर्थान्वितरन्ति स्म सात्त्विकाः । 'आमुञ्जत तनुत्राणं गृह्णातासिलतां शिताम् ॥ ८३ ॥  
आरोपयत चापौघान् सन्नद्धन्तं गजाग्रिमाः' । हरयो नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारिषु ॥ ८४ ॥  
समर्प्यन्तां कलत्राणि युज्यन्तां वाजिभी रथाः । भोगोपभोगवस्तुनि सुज्यन्तामनिवारितम् ॥ ८५ ॥  
वन्दिमागधवृन्देन वन्द्यन्तां निजविक्रमाः । इति केचिजगुर्भृत्यान् नृपाः सङ्ग्रामसम्मुखाः ॥ ८६ ॥  
पतिभक्त्या निसर्गात्मपौरुषेण विरोधिनाम् । मात्सर्येण यशांहेतोः शूरलोकसमीप्सया ॥ ८७ ॥  
निजान्वयाभिमानेन परैश्च रणकारणैः । समजायन्त राजानः प्राणव्यथविधायिनः ॥ ८८ ॥  
वसुदेवसुतोऽप्याप्तगर्वः सर्वविभूषणः । कुङ्कुमाङ्कितगात्रत्वादिव सिन्दूरितट्टिपः ॥ ८९ ॥  
जय जीवेनि वन्दारुवृन्देन कृतमङ्गलः । नवो वाम्भोधरश्चारुचानकध्वनिलक्षितः ॥ ९० ॥

अथानन्तर कृष्ण और बलदेव, शत्रुओंको जीतनेके लिए जय, विजय, सारण, अङ्गद, दय, उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, मुदृष्टि, पाँचों पाण्डव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, विराट्, अपरिमित सेनाओंसे युक्त धृष्टार्जुन, उग्रमेन, युद्धका अभिलाषी चमर, विदुर तथा अन्य राजाओंके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तैयार हुए और वहाँसे चलकर कुरुक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ ७३-७६ ॥ उधर युद्धकी इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गर्मी (अहङ्कार) प्रकट करनेवाले भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, रुक्म, शल्य, वृषसेन, कृप, कृपवर्मा, रुदिर, इन्द्रसेन, राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, पृथिवीका नाथ दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मर्षण, दुर्धर्षण, तुर्जय, राजा कलिङ्ग, भगदत्त, तथा अन्य अनेक राजाओंके साथ कृष्णके सामने आ पहुँचा ॥ ७७-८० ॥ उस समय श्री कृष्णकी सेनामें युद्धकी भेरियों बज रही थीं सो जिस प्रकार कुमुभ रङ्ग वस्त्रको रङ्ग देता है उसी प्रकार उन भेरियोंके उठते हुए शब्दने भी शूरवीरोंके चित्तको रङ्ग दिया था ॥ ८१ ॥ उन भेरियोंका शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवताओंकी पूजा करने लगे और कितने ही गुरुओंके पास जाकर अहिंसा आदि व्रत ग्रहण करने लगे ॥ ८२ ॥ युद्धके सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भृत्योंसे कह रहे थे कि 'तुम लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चढ़ाओ और हाथी तैयार करो । घोड़ों पर जीन कस कर तैयार करो, स्त्रियों अधिकारियोंके लिए सौपो, रथोंमें घोड़े जोत दो, निरन्तर भोग-उपभोग की वस्तुओंका सेवन किया जाय और वन्दी तथा मागध लोग अपने पराक्रमकी वन्दना करें—स्तुति करें' ॥ ८३-८६ ॥ उस समय कितने ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने ही स्वाभाविक पराक्रमसे, कितने ही शत्रुओं पर जमी हुई ईर्ष्यासे, कितने ही यश पानेकी इच्छासे, कितने ही शूरवीरोंकी गति पानेके लोभसे, कितने ही अपने वंशके अभिमानसे और कितने ही युद्ध सम्बन्धी अन्य-अन्य कारणोंसे प्राणोंका नाश करनेके लिए तैयार हो गये थे ॥ ८७-८८ ॥ उस समय श्रीकृष्ण भी बड़ा गर्व कर रहे थे, सब आभूषण पहिने थे और शरीर पर केशर लगाये हुए थे जिससे ऐसे मानो पड़ते थे मानो सिन्दूर लगाये हुए हाथी हों ॥ ८९ ॥ 'आपकी जय हों', 'आप चिरंजीव रहे'

सज्जनावर्ज्यं निगिक्तसौवर्णोऽरुगलन्तिका । जलैराचम्य शुद्धाच्छक्षिप्रपूर्णजलाञ्जलिः ॥ ९१ ॥  
 गन्धपुष्पादिभिर्विघ्नविनायकमनायकम् । भक्त्या जिनेन्द्रमभ्यर्च्य भव्यकल्पमहारुहम् ॥ ९२ ॥  
 अर्भयन्द्याससामन्तैः समन्तात्परिवारितः । प्रतिपक्षमपक्षेभ्यु न्यक्षेणाभिमुखं ययौ ॥ ९३ ॥  
 ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः प्रशास्तुपरिचारिणः । सैन्यं यथोक्तविन्यासं रचयन्ति स्म रागिणः ॥ ९४ ॥  
 जरासन्धोऽपि संग्रामरङ्गमध्यमधिष्ठितः । स्वसैन्यं निष्ठुरारावैरध्यक्षैरन्वयोजयन् ॥ ९५ ॥  
 इति विन्यासिते सैन्ये दध्वने समरानकैः । शूरधानुष्कनिर्भुक्तशरनाराचसङ्कुलम् ॥ ९६ ॥  
 नभो न्यरुणदुष्णांशुप्रसरत्करसन्ततिम् । वियोगमगमन्मोहात्तदास्तमयशङ्कया ॥ ९७ ॥  
 कोकयुग्मं विहङ्गाश्च रुन्तो नीडमाश्रयन् । नेक्षन्ते स्म भटा योद्धुमन्वोन्मयं समराङ्गणे ॥ ९८ ॥  
 संवृद्धमद्यमातङ्गदन्तसङ्घटजन्मना । ससाचिपा विधृतेऽन्धकारे दिगवलोकनात् ॥ ९९ ॥  
 पुनः प्रवृत्तासंग्रामाः<sup>१</sup> सर्वशस्त्रविचक्षणाः । नदीं रक्तमयीं चक्रुर्विक्रमैररसाः क्षणम् ॥ १०० ॥  
 करालकरवालाग्र<sup>२</sup>निकृताचरणद्वयाः । तुरङ्गमा गतिं प्रापुर्वने नष्टनपोधनाः ॥ १०१ ॥  
 विच्छिन्नचरणाः पेतुद्विपाः प्रान्तमहामरु- । जिर्मूलपातितानीलविपुलाचललालया ॥ १०२ ॥  
 पातितानां परैः स्तूयमानसाहसकर्मणाम् । प्रसादवन्ति वक्त्राणि स्थलपद्मश्रियं दधुः ॥ १०३ ॥  
 भटैः परस्परश्लाघाणि खण्डितानि स्वकौशलान् । तत्खण्डैस्तत्र पार्श्वस्था बहवो व्यसचोऽभवन् ॥ १०४ ॥

इस प्रकार वन्दीजन उनका मङ्गलपाठ पढ़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चानकोंकी मुन्दर ध्वनिसे युक्त नवीन मंत्र ही हो ॥६०॥ उन्हींने सज्जनोंके द्वारा धारण की हुई पवित्र सुवर्णमय भारीके जलसे आचमन किया, शुद्ध जलसे शीघ्र ही पूर्ण जलाञ्जलि दी और फिर गन्ध पुष्प आदि द्रव्योंके द्वारा विघ्नोंका नाश करने वाले, स्वामी रहित ( जिनका कोई स्वामी नहीं ) तथा भव्य जायोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए कल्पवृक्षके समान श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें नभस्कार किया । तदनन्तर चारों ओर गुरुजनों और सामन्तोंको अथवा प्रामाणिक सामन्तोंको रखकर स्वयं ही शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल पड़े ॥ ६१-६३ ॥ तदनन्तर कृष्णकी आज्ञामें अनुराग रखनेवाले प्रशासनीय परिचारकोंने यथायोग्य रीतिसे सेनाकी रचना की ॥ ६४ ॥ जरासन्ध भी संग्राम रूपी युद्धभूमिके बीचमें आ बैठा और कठोर सेनापतियोंके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ॥ ६५ ॥ इस प्रकार जब सेनाओंकी रचना ठीक-ठीक हो चुकी तब युद्धके नगाड़े बजने लगे । शूरवीर धनुषधारियोंके द्वारा छांड़े हुए बाणोंसे आकाश भर गया और उसने सूर्यकी फैलती हुई किरणोंकी सन्ततिकों रोक दिया—ठक दिया । 'सूर्य अस्त हो गया है' इस भयकी आशङ्कामें मोहवश चक्रवा-चक्रवी परस्पर विह्वुड़ गये । अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी घोर जाने लगे । उस समय युद्धके मैदानमें इतना अन्धकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक दूसरेको देख नहीं सकते थे परन्तु कुछ ही समय बाद कुछ हुए मदान्मत्त हाथियोंके दौनोंकी टक्कर से उत्पन्न हुई अग्निके द्वारा जब वह अन्धकार नष्ट हो जाता और सब दिशाएँ साफ-साफ दिखने लगतीं तब समस्त शस्त्र चलानेमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लगते थे । विक्रमरसमें भरे योद्धाओंने क्षण भरमें खूतकी नदियाँ बहा दीं ॥ ६६-१०० ॥ भयङ्कर तलवारकी धारसे जिनके आगेके दो पैर कट गये हैं ऐसे घाड़े उन तपस्वियोंकी गतिकों प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे छोड़ देते हैं ॥ १०१ ॥ जिनके पैर कट गये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय कालकी महावायुसे जड़से उमड़ कर नीले रङ्गके बड़े-बड़े पहाड़ ही पड़ गये हों ॥ १०२ ॥ शत्रु भी जिनके साहसपूर्ण कार्योंकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे पड़े हुए योद्धाओंके प्रसन्नमुखकमल, स्थल कमल ( गुलाब ) की शोभा धारण कर रहे थे ॥ १०३ ॥ योद्धाओंने अपनी कुशलतासे परस्पर एक दूसरेके शस्त्र तोड़ डाले थे परन्तु उनके डुकड़ोंसे ही समीपमें खड़े हुए बहुतसे लोग मर गये थे

न मत्सरेण न क्रोधाच्च खपातेर्न फलेच्छया । भटाः केचिदयुध्यन्त न्यायोऽस्मिन्ति केवलम् ॥ १०५ ॥  
 सर्वशस्त्रसमुद्भिन्नशरीरा वीरयोधनाः । परिच्युता गजस्कन्धाच्चूलिकलिङ्गितांग्रयः ॥ १०६ ॥  
 चिरं परिचितस्थानं परित्यक्तुमिवाक्षमाः । प्रलम्बन्ते स्म कर्णाग्रमवलम्ब्यानताननाः ॥ १०७ ॥  
 केचिद्दामकरोपासचित्रदण्डस्वरक्षणाः । दक्षिणास्त्रभुजेनाग्नन् भटाश्चटुलचारिणः ॥ १०८ ॥  
 तत्र वाच्यो मनुष्याणां मृत्योरुत्कृष्टसञ्चयः । कदलीघातजातस्येत्युक्तिमत्तद्रणाङ्गणम् ॥ १०९ ॥  
 एवं तुमुलयुद्धेन प्रवृत्ते सङ्गरे चिरम् । सेनयोरन्तकस्यापि सन्तुष्टिः समजायत ॥ ११० ॥  
 विलङ्घितं बलं विष्णोर्बलेन द्विपतां तथा । यथा क्षुद्र सरिद्वारि महासिन्धुप्लुवाम्बुना ॥ १११ ॥  
 तदालोक्य हरिः क्रुद्धो हरिर्वा करिणां कुलम् । सामन्तबलसन्दोहसहितो हन्तुमुद्यतः ॥ ११२ ॥  
 भास्करस्पोदयाद्वाग्धकारं शशुबलं तदा । विलीनं तन्निरीक्ष्यैस्य जरासन्धोऽन्वितः क्रुधा ॥ ११३ ॥  
 घोषिताखिलदिक्चक्रं चक्रमादाय विक्रमात् । त्रिविक्रमं समुद्दिश्य न्यक्षिपद्रक्षुवीक्षणः ॥ ११४ ॥  
 तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य स्थितवदृक्षिणे भुजे । तदेवादाय कंसारिर्मगधेशोऽच्छिनक्तिरः ॥ ११५ ॥  
 सद्यो जयानकानीकं नदति स्मागलन् दिवः । सुरद्रुमप्रसूनानि सह गन्धाम्बुबिन्दुभिः ॥ ११६ ॥  
 चक्री चक्रं पुरस्कृत्य विजिगीर्षुर्दिशो भृशम् । प्रस्थानमकरोत्सार्धं बलेन स्वबलेन च ॥ ११७ ॥  
 मागधादीन्सुरान् जिप्त्वा विधेयीकृत्य विश्रुतान् । गृहीत्वा साररत्नानि तद्गतान्युजितोदयः ॥ ११८ ॥  
 सिन्धुसिन्धुखगाद्गन्तरालव्याधधराधिपान् । स्वपादनखभाभारमानमप्योदवाहयन् ॥ ११९ ॥

॥ १०४ ॥ कितने ही योद्धा न ईर्ष्यामे, न क्रोधसे, न यशसे, और न फल पानेकी इच्छासे युद्ध करते थे किन्तु 'यह न्याय है' ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे ॥ १०५ ॥ जिनका शरीर सर्व प्रकारक शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है, ऐसे कितने ही वीर योद्धा हाथियोंके स्कन्धसे नीचे गिर गये थे परन्तु कानोंके आभरणोंमें पैर फँस जानेसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानोंके अग्रभागका सहारा ले नीचेकी ओर मुखकर लटक गये हों ॥ १०६-१०७ ॥ बड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने ही योद्धा अपने रक्षाकी लिए बायें हाथमें भाल लेकर शस्त्रोंवाली दाहिनी भुजासे शत्रुओंको मार रहे थे ॥ १०८ ॥ आगममें जो मनुष्योंका कदलीघात नामका अकालमरण बतलाया गया है उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें ही हुई थी ऐसा उस युद्धके मैदानके विषयमें कहा जाता है ॥ १०९ ॥ इस प्रकार दोनों सेनाओंमें चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा जिससे यमराज भी खूब सन्तुष्ट हो गया था ॥ ११० ॥ तदनन्तर जिस प्रकार किमी छोटी नदीके जलको महानदीके प्रवाहका जल दबा देता है उसी प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाको शत्रुकी सेनाने दबा दिया ॥ १११ ॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह हाथियोंके समूह पर टूट पड़ता है उसी प्रकार श्रीकृष्ण क्रुद्ध होकर तथा सामन्त राजाओंकी सेनाके समूह साथ लेकर शत्रुको मारनेके लिए उद्यत हो गये—शत्रु पर टूट पड़े ॥ ११२ ॥ जिस प्रकार सूर्यका उदय होते ही अन्धकार विलीन हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको देखते ही शत्रुओं की सेना विलीन हो गई—उसमें भगदड़ मच गई। यह देख, क्रोधसे भरा जरासन्ध आया और उसने रूक्ष दृष्टिसे देखकर, अपने पराक्रमसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न ले श्रीकृष्णकी ओर चलाया ॥ ११३-११४ ॥ परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजा पर ठहर गया। तदनन्तर वही चक्र लेकर श्रीकृष्णने भगधेश्वर—जरासन्धका शिर काट डाला ॥ ११५ ॥ उसी समय कृष्णकी सेनामें जीतके नगाड़े बजने लगे और आकाशसे सुगन्धित जलकी बूंदोंके साथ-साथ कल्पवृक्षोंके फूल बरसने लगे ॥ ११६ ॥ चक्रवर्ती श्रीकृष्णने दिग्विजयकी भारी इच्छाके चक्ररत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेनाके साथ प्रस्थान किया ॥ ११७ ॥ जिनका उदय बलवान् है ऐसे श्रीकृष्णने मागध आदि प्रसिद्ध देवोंको जीत कर अपना सेवक बनाया और उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ठ रत्न ग्रहण किये ॥ ११८ ॥ लवण समुद्र सिन्धु नदी और विजयार्ध

खेचराचलवाराशिगङ्गामध्यगतान् पुनः । वशीकृत्य वशी नूर्ण म्लेच्छराजान् सखेचरान् ॥ १२० ॥  
 भरतार्धमहीनाथो दूरोच्छ्रितपताकिकाम् । उद्बद्धतोरणं द्वारवतीं हृष्टो विवेश सः ॥ १२१ ॥  
 प्रविष्टवन्तं तं देवविद्याधरधराधिपाः । त्रिखण्डाधिपतिश्चक्रात्यभ्यपिञ्चन्नयाचितम् ॥ १२२ ॥  
 स सहस्रसमायुक्तो दशचापसमुच्छ्रितः<sup>१</sup> । लसन्नीलाब्जवर्णाभो लक्ष्म्यालिङ्गितविग्रहः ॥ १२३ ॥  
 चक्रं शक्तिर्गदा शङ्खो धनुर्दण्डः सनन्दकः । बभूवुः सस्रत्त्वानि रक्षायस्याक्षपालकैः<sup>२</sup> ॥ १२४ ॥  
 रत्नमाला गदा सीरो मुसलञ्च हलेशिनः । महारत्नानि चत्वारि स्फुरन्तिवप्यभवन् त्रिभोः<sup>३</sup> ॥ १२५ ॥  
 रुक्मिणी सत्यभामा च सती जाम्बवतीति च । सुसीमा लक्ष्मणा गान्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥ १२६ ॥  
 पद्मावती च देव्योऽमूरप्टी पट्टप्रसाधनाः । सर्वाः देव्यः सहस्राणि चाणूरान्तस्य षोडश ॥ १२७ ॥  
 बलस्याष्ट सहस्राणि देव्योऽभीष्टसुखप्रदाः । ताभिस्तावामरं सौख्यमाप्तौ वा प्रीतिमीयतुः ॥ १२८ ॥  
 स्वपूर्वकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुष्कलान् । भोगान्प्राप्नुवतस्तस्य काले गच्छति शार्ङ्गिनः ॥ १२९ ॥  
 अन्येद्युर्वारिदान्तेऽन्तःपुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधानेऽभृजलकेली मनोहरा ॥ १३० ॥  
 तत्र नेमीशितुः सत्यभामायाश्चाशुसेचनात् । सल्लापोऽभवदित्युच्चैश्चतुरोक्तया मनोहरः ॥ १३१ ॥  
 ४तत्प्रियावक्तुतो रन्ता मयि त्वं किं ममाप्रिया । ५प्रियास्मि चेतव भ्राता यातु कां कामदायिनीम् ॥ १३२ ॥  
 कासौ किं तां न वेत्सि त्वं सम्यक्सा वेदयिष्यति । वदन्ति स्वामृजुं सर्वं कुटिलस्त्वं तथापि च ॥ १३३ ॥

पर्वतके वीचके म्लेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे अपने पैरोंके नखोंकी कान्तिका भार उठवाया ॥ ११६ ॥ तदनन्तर विजयार्ध पर्वत, लवणसमुद्र और गङ्गानदीके मध्यमें स्थित म्लेच्छ राजाओंको विद्याधरोंके साथ ही साथ जितेन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र ही वश कर लिया ॥ १२० ॥ इस प्रकार आधे भरतके स्वामी होकर श्रीकृष्णने, जिसमें बहुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और जगह जगह तारण बाँधे गये हैं ऐसी द्वारावती नगरीमें बड़े हर्षसे प्रवेश किया ॥ १२१ ॥ प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका विना कुछ कहे सुने ही अपने आप राज्याभिषेक किया ॥ १२२ ॥

श्रीकृष्णकी एक हजार वर्षकी आयु थी, दश धनुषकी ऊँचाई थी, अतिशय सुशोभित नील-कमलके समान उनका वर्ण था, और लक्ष्मीसे आलिङ्गित उनका शरीर था ॥ १२३ ॥ चक्र, शक्ति, गदा, शङ्ख, धनुष, दण्ड, और नन्दक नामका खड्ग ये उनके सात रत्न थे । इन सभी रत्नोंकी देव लोग रक्षा करते थे ॥ १२४ ॥ रत्नमाला, गदा, हल और मूसल ये देदीप्यमान चार महारत्न बलदेव प्रभुके थे ॥ १२५ ॥ रुक्मिणी, सत्यभामा, सती जाम्बवती, सुसीमा, लक्ष्मणा, गान्धारी, सप्तमी गौरी और प्रिया पद्मावती ये आठ देवियां श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ थीं । इनकी सब मिलाकर सोलह हजार रानियाँ थीं तथा बलदेवके सब मिलाकर अर्भीष्ट सुख देनेवाली आठ हजार रानियां थीं । ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवोंके समान सुख भोगते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे थे ॥ १२६-१२८ ॥ इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपनेपुण्य कर्मके उदयसे पुष्कल भोगोंको भोगते हुए श्रीकृष्णका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी एक समय शरद् ऋतुमें सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग मनोहर जलकेली कर रहे थे । वहीं पर जल उछालते समय भगवान् नेमिनाथ और सत्यभामाके बीच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर चार्तालाप हुआ ॥ १२६-१३० ॥ सत्यभामाने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रियाके समान क्रीड़ा क्यों करते हैं ? इसके उत्तरमें नेमिराजने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया ( इष्ट ) नहीं हो ? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया ( स्त्री ) हूँ तो फिर आपके भाई ( कृष्ण ) किसके पास जावेंगे ? नेमिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनीके पास जावेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनूँ तो सही वह कामिनी कौन सी है ? उत्तरमें नेमिनाथने कहा कि क्या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जाओगी । सत्यभामाने कहा कि

१ सुमुच्छ्रितः ल० । २-क्षपाटकैः ख०, ग० ।-क्ष्वाटकैः ल० ( रक्षितान्यक्षपालकैः इति पाठः सुष्टु भाति )  
 ३ प्रभोः म० । ४ त्वं प्रियावत् ल० । ५-प्रिया चेतव भ्राता ल० ।

पुनः स्नानविनोदावसाने तामेवमब्रवीत् । स्नानवस्त्रं त्वया ग्राह्यं नीलोत्पलबिलोचने ॥ १३४ ॥  
 तस्य मे किं करोम्येतत्प्रक्षालय हरिर्भवान् । यो नागशय्यामास्थाय दिव्यं शार्ङ्गशरासनम् ॥ १३५ ॥  
 हेलयारोपयद्यश्च प्रपूरितदिगन्तरम् । शङ्खमापूर्यत्किं तत्साहसं नो भवेत्त्वया ॥ १३६ ॥  
 कार्यं साधु करिष्यामीत्युक्त्वा गर्वप्रचोदितः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातुं कर्म सोऽद्भुतम् ॥ १३७ ॥  
 सम्प्रविदययुधागारं नागशय्यामधिष्ठितः । स्वां शय्यामिव नागेन्द्रमहामणिविभास्वराम् ॥ १३८ ॥  
 भूयो विफालनोद्भादज्यालतं च शरासनम् । आरोपयत्ययोजञ्च<sup>१</sup> द्युमौ रुद्धदिगन्तरम् ॥ १३९ ॥  
 तदा संभावयामास स्वं समाविष्कृतोच्चतिम् । रागाहङ्कारयोर्लेशोऽप्यवदयं विकृतिं नयेत् ॥ १४० ॥  
 सहस्रेत्यद्भुतं कर्म श्रुत्वाध्यास्य सभावनिम् । हरिः कुमुमचित्राख्यामाकुलाकुलमानसः ॥ १४१ ॥  
 उद्भूतविस्मयोऽपृच्छत्किमेतदिति किङ्करान् । ते च तत्सम्यगन्विष्य चक्रनाथं व्यजिज्ञपन् ॥ १४२ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं चक्री सावधानं वितर्कयन् । रागि चेतः कुमारस्य चिराच्छिन्नमजायत ॥ १४३ ॥  
 अभूत्कल्याणयोगोऽयमारूढनवयौवनः । बाधा खलेन कामेन कस्य न स्यात्सकर्मणः ॥ १४४ ॥  
 इत्युग्रवंशवाधोर्नन्दोरुप्रसेनमहीभुजः । २जयावत्याश्च सर्वाङ्ग<sup>३</sup>शस्या राजीमतिः<sup>४</sup> सुता ॥ १४५ ॥  
 तद्गृहं तां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामयाचत । त्रिलोकस्वामिनो नेमेः प्रियास्वपेति सादरम् ॥ १४६ ॥  
 त्रिखण्डजातरजानां त्वं पतिर्नो विशेषतः । देव त्वमेव नाथोऽसि प्रस्तुतार्थस्य के वयम् ॥ १४७ ॥

सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो बड़े कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते-करते स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथने सत्यभामासे कहा कि हे नीलकमलके समान नेत्रों वाली! तू मेरा यह स्नानका वस्त्र ले। सत्यभामाने कहा कि मैं इसका क्या करूँ? नेमिनाथने कहा कि इसे धो डाल। तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्रीकृष्ण हैं? वह श्रीकृष्ण, जिन्होंने कि नागशय्या पर चढ़कर शार्ङ्ग नामका दिव्य धनुष अनायास ही चढ़ा दिया था और दिगदिगन्तका पूर्ण करने-वाला शङ्ख पूरा था? क्या आपमें वह साहस है, यदि नहीं है तो आप मुझमें वस्त्र धोनेकी बात कहते हैं? ॥ १३१-१३६ ॥ नेमिनाथने कहा कि 'मैं यह कार्य अच्छी तरह कर दूंगा' इतना कहकर वे गर्वसे प्रेरित हो नगरकी ओर चल पड़े और वह आश्चर्यपूर्ण कार्य करनेके लिए आयुधशालामें जा पहुँचे। वहाँ वे नागराजके महामणियोंसे मुशोभित नागशय्यापर अपनी ही शय्याके समान चढ़ गये, बार बार स्फालन करनेसे जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही है, ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाश्रोत्रोंके अन्तरालको रोकनेवाला शङ्ख फूंक दिया ॥ १३७-१३८ ॥ उस समय उन्होंने अपने आपको महान् उन्नत समझा सो ठीक ही है क्योंकि राग और अहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको अवश्य ही विकृत बना देता है ॥ १४० ॥ जिस समय आयुधशालामें यह सब हुआ था उस समय श्रीकृष्ण कुमुमचित्रा नामकी सभाभूमिमें चिराजमान थे। वे सहसा ही यह आश्चर्यपूर्ण काम सुन कर ज्यम हो उठे, उनका मन अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥ १४१ ॥ बड़े आश्चर्यके साथ उन्होंने किंकरोंसे पूछा कि 'यह क्या है?' किंकरोंने भी अच्छी तरह पता लगा कर श्रीकृष्णसे सब बात ज्योंकी त्यों निवेदन कर दी। किंकरोंके वचन सुनकर चक्रवर्ती कृष्णसे बड़ी सावधानीके साथ विचार करते हुए कहा कि आश्चर्य है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथका चित्त रागसे युक्त हुआ है। अब यह नवयौवनसे सम्पन्न हुए हैं अतः विवाहके योग्य हैं—इनका विवाह करना चाहिए। सो ठीक ही है ऐसा कौन सकता प्राणी है जिसे दुष्ट कामके द्वारा बाधा नहीं होनी हो ॥ १४२-१४४ ॥ यह कह कर उन्होंने विचारकिया कि उग्रवंश रूपी समुद्रको बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा उग्रमेनकी जयावर्ती रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वाङ्ग सुन्दर है ॥ १४५ ॥ विचारके बाद ही उन्होंने राजा उग्रसेनके घर स्वयं जाकर बड़े आदरसे 'आपकी पुत्री तीन लोकके नाथ भगवान् नेमिकुमारकी प्रिया हो' इन शब्दोंमें उस माननीय कन्याकी याचना की ॥ १४६ ॥ इसके उत्तरमें राजा उग्रसेनने कहा कि 'हे देव! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ही स्वामी हैं, और खास हमारे स्वामी हैं,

इत्युग्रसेनवाचोद्यत्संमदो यादवाधिपः । शुभेऽहनि समारभ्य विधातुं स तदुत्सवम् ॥ १४८ ॥  
 पञ्चरत्नमयं रम्यं समानयद्गुणधरम् । विवाहमण्डपं तन्व्य मध्यस्थे जगतीतले ॥ १४९ ॥  
 नवमुकाफलाळोरङ्गवल्लीविराजिनि । मङ्गलामोदि<sup>१</sup> पुष्पोपहारासारविलासिनि ॥ १५० ॥  
 विस्तृतभिनवानर्घ्यबद्धे<sup>२</sup> सौवर्णपट्टके । बध्वा सह समापार्द्रतण्डुलारोपणं वरः ॥ १५१ ॥  
 परेषुः समये पाणिजलसेकस्य माधवः । यियासुर्दुर्गतिं लोभसुतीम्नानुभवोदयान् ॥ १५२ ॥  
 तुराशयः सुरार्थीशपूज्यस्यापि महात्मनः । स्वराज्यादानमाशङ्क्य नेमेर्मायाविदां वरः ॥ १५३ ॥  
 निर्वेदकारणं किञ्चिन्निरिक्ष्यैष चिरंस्यति । भोगेभ्य इति सञ्चित्य तदुपायविधित्सया ॥ १५४ ॥  
 व्याधाधिपैर्धृतानीतं नानामृगकदम्बकम् । विधायैकत्र सङ्कीर्णां दृष्टिं तत्परितो व्यधान् ॥ १५५ ॥  
 अशिक्षयच्च तद्रक्षाध्यक्षान्यदि समीक्षितुम् ।<sup>३</sup> दिशो नेमीश्वरोऽभ्येति भवद्भिः सोऽभिधीयताम् ॥ १५६ ॥  
 त्वद्विवाहे व्ययीक्तुं चक्रिणैष मृगोत्तरः । समानीत इति व्यक्तं महापापोपलेपकः<sup>४</sup> ॥ १५७ ॥  
 अथ नेमिकुमारोऽपि नानाभरणभासुरः<sup>५</sup> । सहस्रकुन्तलो रक्तोत्पलमालाद्यलङ्कृतः ॥ १५८ ॥  
 तुरङ्गमखुरोद्धतधूलिलसदिगाननः । सबयोभिरिति प्रीतैर्महासामन्तमृगुभिः ॥ १५९ ॥  
 परीतः शिबिकां चित्रामारुह्य नयनप्रियः । दिशो विलोकितुं गच्छंस्तन्नालोक्य यदृच्छया ॥ १६० ॥  
 मृगानितस्ततो घोरं रुद्रित्वा करुणस्वनम्<sup>६</sup> । भ्रमनस्तृपितान् दीनदृष्टानतिभयाकुलान् ॥ १६१ ॥  
 किमर्थमिदमेकत्र निरुद्धं तृणभुक्कुलम् । इत्यन्वयुङ्क्त तद्रक्षानियुक्ताननुकम्पया ॥ १६२ ॥

अतः यह कार्य आपका ही करना है—आप ही इसके नाथ हैं हम लोग कौन होते हैं ? इस प्रकार राजा उग्रसेनके वचन सुन कर श्रीकृष्ण महाराज बहुत ही हर्षित हुए । तदनन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वह विवाहका उत्सव करना प्रारम्भ किया और सबसे उत्तम तथा मनोहर पाँच प्रकारके रत्नोंका विवाहमण्डप बनवाया । उसके बीचमें एक वेदिका बनवाई गई थी जो नवीन मोतियोंकी सुन्दर रङ्गावलीमें मुशोभित थी, मङ्गलमय मृगान्वित फूलोंके उपहार तथा वृष्टिसे मनोहर थी, उस पर सुन्दर नवीन वस्त्र ताना गया था, और उसके बीचमें सुवर्णकी चौकी रखी हुई थी । उसी चौकी पर नेमिकुमारने यशु राजीमतीके साथ गीले चावलोंपर बैठनेका नेम (दस्तूर) किया ॥१४७-१५१॥ दूसरे दिन वरके हाथमें जलधारा देनेका समय था । उस दिन मायाचारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गतिको जानेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्णका अभिप्राय लाभ कषायके तीव्र उदयसे कुत्सित हो गया । उन्हें इस बातकी आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इन्द्रोंके द्वारा पूजनीय भगवान् नेमिनाथ हमारा राज्य न ले लें । उसी क्षण उन्हें विचार आया कि 'थे नेमिकुमार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोंसे विरक्त हो जावेंगे ।' ऐसा विचार करके वैराग्यका कारण जटानेका प्रयत्न करने लगे । उनकी समझमें एक उपाय आया । उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियोंसे पकड़वाकर अनेक मृगोंका समूह बुलाया और उसे एक स्थानपर इकट्ठाकर उसके चारों ओर बाड़ी लगवा दी तथा वहाँ जो रक्त नियुक्त किये थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान् नेमिनाथ दिशाओंका अवलोकन करनेके लिए आवें और इन मृगोंके विषयमें पूछें तो उनसे आप लोग साफ साफ कह देना कि आपके विवाहमें मारनेके लिए चक्रवर्तीने यह मृगोंका समूह बुलाया है । महापापका वन्द्य करनेवाले श्रीकृष्णने ऐसा उन लोगोंको आदेश दिया ॥१५२-१५७॥ तदनन्तर जो नाना प्रकारके आभूषणोंसे देदीप्यमान हैं, जिनके शिरके बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी मालासे अलंकृत हैं, घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुई धूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अग्रभाग लिप्त कर दिये हैं, और जो समान अवस्था वाले, अतिशय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्वर राजाओंके पुत्रोंसे घिरे हुए हैं ऐसे नयनाभिराम भगवान् नेमिकुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर दिशाओंका अवलोकन करनेके लिए निकले । वहाँ उन्होंने घोर करुण स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल हुए मृगोंको देख दयावश वहाँके रक्षकोंसे पूछा कि यह

१-मोद-ल० । २ सौमर्म- ल० । ३-धीशो ल० । ४ महापापोपलिपकः ल० । ५ भारभाक् ल० ।

६ करुणस्वरम् ल० ।

देवैतद्वासुदेवेन स्वद्विवाहमहोत्सवे । व्ययीकर्तुमिहानीतमित्यभाषन्त<sup>१</sup> तेऽपि तम् ॥ १६३ ॥  
 वसन्त्यरण्ये खादन्ति तृणान्यनपराधकाः । किलैतांश्च स्वभोगार्थं पीडयन्ति धिगीदृशान् ॥ १६४ ॥  
 किं न कुर्वन्त्यमी मूढाः प्रौढमिथ्यात्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितुं प्राणैर्निर्घृणाः स्वैर्विनश्रैः ॥ १६५ ॥  
 स्वराज्यग्रहणे शङ्कां विधाय मयि दुर्मतिः । व्यधात्कपटमीदृशं कण्ठं दुष्टविवेष्टितम् ॥ १६६ ॥  
 हृति निध्याय निविद्य निर्वृत्य निजमन्दिरम् । प्रविश्याविर्भवद्बोधिस्तत्कालोपगतामरैः ॥ १६७ ॥  
 बोधितः समतीतात्मभवानुस्मृतिवेषितः । तदैवागत्य देवेन्द्रैः<sup>२</sup> कृतनिष्क्रमणोत्सवः ॥ १६८ ॥  
 शिबिकां देवकुर्वाण्यामारुह्यामरवेष्टितः<sup>३</sup> । सहस्राश्रवणे षष्ठानशनः श्रावणे सिते ॥ १६९ ॥  
 पक्षे चित्राख्यनक्षत्रे षष्ठ्यां सायाह्नमाश्रितः । शतत्रयकुमाराब्दव्यतीती सह भूभुजाम् ॥ १७० ॥  
 सहस्रेण समादाय संयमं प्रत्यपद्यत । चतुर्थज्ञानधारी च बभूवासन्नकेवलः<sup>४</sup> ॥ १७१ ॥  
 सन्ध्येव भानुमस्ताद्रावतु<sup>५</sup> राजीमतिश्च तम् । ययौ वाचापि दत्तानां न्यायोऽयं कुलयोषिताम् ॥ १७२ ॥  
 स्वदुःखेनापि निविण्णः श्रूयते न जनः परः । परदुःखेन सन्तोऽमी त्यजन्त्येव महाश्रियम्<sup>६</sup> ॥ १७३ ॥  
 बलकेशवमुख्यावनीशाः सम्पूज्य संस्तवैः । समुरेशास्तमीशानं स्वं धाम समुपाश्रयन् ॥ १७४ ॥  
 पारणादिवसे तस्मै वरदशो महीपतिः । कनकाभः प्रविष्टाय पुरीं द्वारावतीं सते ॥ १७५ ॥  
 श्रद्धादिगुणसम्पन्नः प्रतीच्छादिनवक्रियः । अदितान्नं मुनिप्राह्यं पञ्चाश्रयाणि चाप मः ॥ १७६ ॥  
 कोटीर्द्वादशरत्नानां सार्धाः सुरकरच्युताः । हृष्टिं सौमनसीं वायुं मान्द्यादित्रिगुणान्वितम् ॥ १७७ ॥

पशुओंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किस लिए रोका गया है ? ॥ १५८-१६२ ॥ उत्तरमें रत्नकोने कहा कि 'हे देव ! आपके विवाहोत्सवमें व्यय करनेके लिए महाराज श्रीकृष्णने इन्हें बुलाया है' ॥ १६३ ॥ यह सुनते ही भगवान् नेमिनाथ विचार करने लगे 'धि. ये पशु जङ्गलमें रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हें अपने भोगके लिए पीडा पहुँचाते हैं । ऐसे लोगोंको धिक्कार है । अथवा जिनके चित्तमें गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ है ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणोंके द्वारा जीवित रहनेके लिए क्या नहीं करते हैं ? देखो, दुर्बुद्धि कृष्णने मुझपर अपने राज्य-ग्रहणकी आशङ्काकर ऐसा कपट किया है । यथार्थमें दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कष्ट देनेवाली होती है' । ऐसा विचारकर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गये । रत्नत्रय प्रकट होनेसे उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें समझाया, अपने पूर्व भवोंका स्मरण कर वे भयसे काँप उठे । उसी समय इन्होंने आकर दीक्षाकल्याणकका उत्सव किया ॥ १६४-१६८ ॥ तदनन्तर देवकुरु नामक पालकीपर सवार होकर वे देवोंके साथ चल पड़े । सहस्राश्रवणमें जाकर तेलाका नियम लिया और श्रावण शुक्ला पक्षके दिन सायंकालके समय, कुमार-कालके तीन सौ वर्ष बीत जानेपर एक हजार राजाओंके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्हें चौथा-मनः-पर्यय ज्ञान हो गया और केवलज्ञान भी निकट कालमें हो जावेगा ॥ १६९-१७१ ॥ जिस प्रकार संध्या सूर्यके पीछे-पीछे अस्ताचलपर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे तपश्चरणके लिए चली गई सो ठीक ही है क्योंकि शरीरकी वात तो दूर रही, वचन मात्रसे भी दी हुई कुलस्त्रियोंका यही न्याय है ॥ १७२ ॥ अन्य मनुष्य तो अपने दुःखसे भी विरक्त हुए नहीं सुने जाते पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरेके दुःखसे ही महाविभूतिका त्याग कर देते हैं ॥ १७३ ॥ बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इन्द्र आदिदेव, सब अनेक स्तवनोंके द्वारा उन भगवान्की स्तुतिकर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ १७४ ॥ पारणाके दिन उन सज्जनोत्तम भगवान्ने द्वारावती नगरीमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न राजा वरदत्तने पडिगाहन आदि नवधा भक्तिकर उन्हें मुनियोंके ग्रहण करने योग्य-शुद्ध प्रासुक आहार दिया तथा पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ १७५-१७६ ॥ उसके घर देवोंके हाथसे छोड़ी हुई साढ़े

१-मित्यभाषत ल० । २-देवेन्द्राः ल० । ३-मरवेष्टिताम् ल० । ४-केवली ग० । ५-राजिमतिश्च म० ।

राजमतिश्च ल० । राजिमती च ल०, ग० । ६-महोश्रियम् ल० । ७-अदितान्नं ल० । ८-कोटिर्द्वादश ल० ।



धनान्तरितकायामराभिताडितदुन्दुभिः । ध्वानं मनोहरं साधुदानघोषणपूर्वकम् ॥ १७८ ॥  
 एवं तपस्यतस्यस्य पट्टपञ्चाशद्दिनप्रमे । छग्रस्थसमये याते गिरौ रैवतकाभिधे ॥ १७९ ॥  
 पद्योपवासयुक्तस्य महावेणोरधः<sup>१</sup> स्थितेः ।<sup>२</sup>पूर्वेऽह्नयद्रवयुजे मासि शुक्लपक्षादिमे दिने ॥ १८० ॥  
 चित्रायां केवलज्ञानमुदपद्यत सर्वगम् । पूजयन्ति स्म तं देवाः केवलावगमोत्सवे ॥ १८१ ॥  
 वरदसाद्योऽभूवभेकादश गणेशिनः । चतुःशतानि पूर्वज्ञाः श्रुतज्ञानाब्धिपारगाः ॥ १८२ ॥  
 शून्यद्वितयवस्वैकैकमितास्तस्य शिक्षकाः । शून्यद्वितयपञ्चैकमितास्त्रिज्ञानलोचनाः ॥ १८३ ॥  
 तावन्तः पञ्चमज्ञाना विक्रियद्विसमन्विताः । शताधिकसहस्रं तु मनःपर्ययबोधनाः ॥ १८४ ॥  
 शतानि नव विज्ञेया वादिनोऽष्टशतानि च । अष्टादशसहस्राणि ते सर्वेऽपि समुच्चिताः ॥ १८५ ॥  
 यक्षी राजीमतिः कात्यायन्यन्याश्राखिलायिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि श्रावका लक्षयेक्षिताः<sup>३</sup> ॥ १८६ ॥  
 त्रिलक्षा श्राविका देवा देव्यश्रासङ्ख्ययोदिताः । तिर्यञ्चः सङ्ख्यया प्रोक्ता गणैरेभिद्विषण्मिदैः ॥ १८७ ॥  
 परीतो भव्यपद्मानां विकासं जनयन्मुहुः । धर्मोपदेशनार्काञ्चुप्रसरैणाघनाशिना ॥ १८८ ॥  
 विश्वान् देशान् विहृत्यान्ते प्राप्य द्वारावतीं कृती । स्थितो रैवतकोद्याने तन्निशम्यान्यकेशवः ॥ १८९ ॥  
 बलदेवश्च सम्प्राप्य स्वसर्वद्विसमन्वितौ । वन्दित्वा श्र तधर्माणौ<sup>४</sup> प्रीतवन्तौ ततो हरिः ॥ १९० ॥  
 प्राहुर्नास्तीति यं केचित् केचिन्नित्यं क्षणस्थितिम् । केचित्केचिदणुं चाणोः केचिच्छयामाकसम्मितम् ॥ १९१ ॥  
 केचिदङ्गुष्ठमातव्यं योजनानां समुच्छ्रितम् । केचिच्छतानि पञ्चैव केचिद्गणवद्विभुम् ॥ १९२ ॥  
 केचिदेकं परेनाना परेऽज्ञमपरेऽन्यथा । तं जीवास्थं प्रतिप्रायः सन्देहोऽस्तीत्यर्थाभ्रम् ॥ १९३ ॥

वारह करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई, फूल बरसे, मन्दता आदि तीन गुणोंसे युक्त वायु चलने लगी, मेषोंके  
 भीतर छिपे देवोंके द्वारा नाडिन दुन्दुभियोंका सुन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान  
 दिया यह घोषणा होने लगी ॥ १७७-१७८ ॥ इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मस्थ  
 अवस्थाके छपन दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन वे रैवतक ( गिरनार ) पर्वतपर तैलाका नियम  
 लेकर किसी बड़े भारी घाँसके वृक्षके नीचे विराजमान हो गये । निदान, आसौज कृष्ण पडिमाके दिन  
 चित्रा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय उन्हें समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।  
 देवोंने केवलज्ञान कल्याणका उत्सवकर उनकी पूजा की ॥ १७९-१८० ॥ उनकी सभामें वरदत्तको  
 आदि लेकर ग्यारह गणधर थे, चार सौ श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी पूर्वोंके जानकार थे,  
 ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक थे, पन्द्रह सौ तीन ज्ञानके धारक थे, इतने ही केवल-  
 ज्ञानी थे, ग्यारह सौ विक्रियाश्रुद्विके धारक थे, नौ सौ मनःपर्ययज्ञानी थे और  
 आठ सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज थे ।  
 यक्षी, राजीमती, कात्यायनी आदि सब मिला कर चालीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक  
 थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यान देव-देवियों थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस तरह बारह  
 सभाओंसे घिरे हुए भगवान् नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेवाले, धर्मोपदेश रूपी सूर्यकी किरणोंके  
 प्रसारसे भव्य जीव रूपी कमलोंको बार-बार विकसित करते हुए समस्त देशोंमें घूमे थे । अन्तमें  
 कृतकृत्य भगवान् द्वारावती नगरीमें आकर रैवतक गिरिके उद्यानमें विराजमान हो गये । अन्तिम  
 नारायण कृष्ण तथा बलदेवने जब यह समाचार सुना तब वे अपनी समस्त विभूतिके साथ उनके  
 पास गये । वहाँ जाकर उन दोनोंने वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और प्रसन्नताका अनुभव किया  
 ॥ १८२-१८० ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा कि हे भगवन् ! कोई तो कहते हैं कि जीव नामका पदार्थ  
 है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणुसे भी सूक्ष्म मानते हैं ?  
 कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर मानते हैं, कोई एक अङ्गुष्ठ प्रमाण मानते हैं, कोई पाँचसौ योजन  
 मानते हैं, कोई आकाशकी तरह व्यापक मानते हैं ? कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई

१-रधः स्थितः ल०, म० । २ पूर्वोऽह्नेऽश्रुभुजे ल० । ३ लक्ष्योपिता घ०, ग० । ४ प्रीति-  
 मन्तौ ल० ।

पप्रच्छ सांऽपि नैतेषु कोऽपि विद्वद्ग्यस्य लक्षणम् । ध्रौव्योत्पादव्यथास्मासौ गुणी सूक्ष्मः स्वकृत्यभुक् ॥ १९४ ॥  
 ज्ञातात्तदेहसम्मेयः स्वसर्वेषुः सुखादिभिः । अनादिकर्मसम्बन्धः सरन् गतिचतुष्टये ॥ १९५ ॥  
 कालादिलब्धिमासाद्य भव्यो नष्टाष्टकर्मकः । सम्यक्त्वाद्यष्टकं प्राप्य प्राग्देहपरिमाणधत् ॥ १९६ ॥  
 उर्ध्वम्रज्यास्वभावत्वाजगन्मूर्धनि तिष्ठति । इति जीवस्य सद्भावं जगाद् जगतां गुरुः ॥ १९७ ॥  
 तन्निशम्यास्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे । अभव्या दूरभव्याश्च मिथ्यात्वोदयदूषिताः ॥ १९८ ॥  
 नामुञ्जन्केचनानादिवासनां भववर्धनीम् । देवकी च तथापृच्छद्वरदत्तगणेशिनम् ॥ १९९ ॥  
 भगवन्मद्रूहं द्वौ द्वौ भूत्वा भिक्षार्थमागताः । बान्धवेष्विव षट्स्वेषु खेहः किमिति जातवान् ॥ २०० ॥  
 इति सोऽपि कथामित्थं वक्तुं प्रारब्धवान्गणी । जम्बूपलक्षिते द्वीपे क्षेत्रेऽस्मिन्मथुरापुरे ॥ २०१ ॥  
 शौर्यदेशाधिपः शूरसेनो नाम महीपतिः । तत्रैव भानुदत्ताख्यश्रेष्ठिनः सप्त सूनवः ॥ २०२ ॥  
 मातृषां यमुनादत्ता सुभानुः सकलाग्रिमः । भानुकीतिस्ततो भानुषेणोऽभूद्भानुशूरवाक् ॥ २०३ ॥  
 पञ्चमः शूरदेवाख्यः शूरदत्तस्ततोऽप्यभूत् । सप्तमः शूरसेनाख्यः पुत्रैस्तैस्तावलंकृतौ ॥ २०४ ॥  
 स्वपुण्यफलसारेण जगन्तुर्गृहमेधिताम् । धर्ममन्त्रेद्युरभ्यर्णादाचार्याभयनन्दिनः ॥ २०५ ॥  
 भ्रुत्वा नृपो वणिक्मुख्योऽप्यग्रहीप्यां सुसंयमम् । जिनदत्तार्थिकाभ्यर्णं श्रेष्ठिभायां च दीक्षिता ॥ २०६ ॥  
 सप्तम्यसनसम्पन्ना जाताः सहापि तन्सुताः । पापान्मूलहरा भूत्वा राज्ञा निर्वासिताः पुरात् ॥ २०७ ॥

अज्ञानी मानते हैं और कोई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं । इसलिए हे भगवन्, मुझे जीव तत्त्वके प्रति संदेह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवान्से पूछा । भगवान् उत्तर देने लगे कि जीव तत्त्वके विषयमें अब तक आप लोगोंने जो विकल्प उठाये हैं उनमेंसे इस जीवका एक भी लक्षण नहीं है यह आप निश्चिन समझिए । यह जीव उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यसे युक्त है, गुणयान् है, सूक्ष्म है, अपने किये हुए कर्मोंका फल भोगता है, ज्ञाना है, ग्रहण किये शरीरके बराबर है, मुग्ध-दुःख आदिसे इसका संवेदन होता है, अनादि कालसे कर्मबद्ध होकर चारों योनियोंमें भ्रमण कर रहा है । यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका क्षय हो जानेसे सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त कर लेता है और मुक्त होकर चरम शरीरके बराबर हो जाता है । चूँकि इस जीवका स्वभाव उर्ध्वगमनका है इसलिए वह तीन लोकके ऊपर विद्यमान रहता है । इस प्रकार जगद्गुरु भगवान् नेमिनाथने जीवके सद्भावका निरूपण किया ॥ १९१-१९७ ॥ उसे सुन कर जो भव्य जीव थे, उन्होंने जैसा भगवान्ने कहा था वैसा ही मान लिया परन्तु जो अभव्य अथवा दूरभव्य थे वे मिथ्यात्वके उदयसे दूषित होनेके कारण संसारको बढ़ानेवाली अपनी अनादि वासना नहीं छोड़ सके । तदनन्तर देवकीने वरदत्ता गणधरसे पूछा कि हे भगवन् ! मेरे घर पर दो दो करके छह मुनिराज भिक्षाके लिए आये थे उन छहोंमें मुझे कुटुम्बियों जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ था सो उसका कारण क्या है ? ॥ १९८-२०० ॥

इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथाको इसप्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके भरनक्षेत्र सम्बन्धी मथुरा नगरमें शौर्य देशका स्वामी शूरसेन नामका राजा रहता था । उसी नगरमें भानुदत्त सेठके सात पुत्र हुए थे । उनकी माताका नाम यमुनादत्ता था । उन सात पुत्रोंमें सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उनसे छोटा भानुशूर, पाँचवा शूरदेव, उससे छोटा शूरदत्त, सातवाँ शूरसेन था । इन सातों पुत्रोंसे माता-पिता दोनों ही सुशोभित थे और वे अपने पुण्य कर्मके फलस्वरूप गृहस्थ धर्मको प्राप्त हुए थे । किसी दूसरे दिन आचार्य अभयनन्दीसे धर्मका स्वरूप सुन कर राजा शूरसेन और सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया । इसी प्रकार सेठकी स्त्री यमुनादत्ताने भी जिनदत्ता नामकी आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २०१-२०६ ॥ माता-पिताके चले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त व्यसनोंमें आसक्त हो गये । उन्होंने पापमें पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी वशामें राजाने भी उन्हें अपने देशसे बाहर निकाल दिया

भवन्तिविषयं गत्वा विशालायाः<sup>१</sup> श्मशानके । शूरसेनमवस्थाप्य शेषाश्वोरयितुं पुरम् ॥ २०८ ॥  
 प्राविशन्प्रकृतं तस्मिन्निदमन्यदुपस्थितम् । तत्पुराधिपतिर्भूषो बभूव वृषभध्वजः ॥ २०९ ॥  
 शृत्यो दृढप्रहायांस्थः स सहस्रभटः पटुः । वप्रश्रीरस्य जायाऽऽसीद्वज्रमुष्टिस्तयोः सुतः ॥ २१० ॥  
 विमलायाः सुता मङ्गी विमलेन्दुविशश्च सा । तत्प्रिया भूभुजा साख्यं वसन्ते वनमन्यदा ॥ २११ ॥  
 विहर्तुमुद्यताः सर्वे तत्कालसुखलिप्सया । वप्रश्रीः सह मालाभिः कालाहिं कलशेऽक्षिपत् ॥ २१२ ॥  
 क्षुधाभ्यसूयया कार्यं नाम नास्ति हि योषिताम् । मङ्गी चोद्यानयानार्थं मालादानसमुद्यता ॥ २१३ ॥  
 दृष्ट्वा वसन्तकालोत्प्रविषेण विषभर्तृणा । विषव्यासशरीरत्वादस्पन्दाम्भूदसौ तदा ॥ २१४ ॥  
 पलालवर्त्या सावेण्ये क्षुषां प्रेतवनेऽप्यजत । वज्रमुष्टिर्वनक्रीडाविरामेऽभ्येत्य पृष्टवान् ॥ २१५ ॥  
 मङ्गी क्लेशाकुलो माताप्यसद्भार्या न्यवेदयत् । सशोकः ससमुत्वातनिशातकरवालधृत ॥ २१६ ॥  
 तामन्वेष्टुं व्रजत्रास्रौ श्मशाने योगमास्थितम् । वरधर्ममुनिं दृष्ट्वा नमस्कृत्या कृताञ्जलिः ॥ २१७ ॥  
 यदि पूज्य प्रियां प्रेक्षे सहस्रदलवारिजैः । त्वां समभ्यर्चयिष्यामीत्याशास्य गतवांस्तदा ॥ २१८ ॥  
<sup>२</sup>वीक्षते स्म प्रियामीपञ्चेतनां विषदूषिताम् । पलालवर्तिं मुक्त्वास्तु समार्नायान्तिकं मुनेः ॥ २१९ ॥  
 तेन तत्पादसंपर्शभेज्जनाविषांकृता । सापि सद्यः समुत्थाय प्रियस्य प्रीतिमातनोत् ॥ २२० ॥  
 गुरुप्रीतमनस्यस्मिन्नम्भोजार्थं गते सति । शूरसेनस्तदा सर्वं तत्कर्मान्तहितो दुमैः ॥ २२१ ॥  
 वीक्ष्य मङ्गयाः परीक्ष्यार्थं तदभ्यर्णमुपागतः । स्वाङ्गसन्दर्शनं कृत्वा मधुरालापचेष्टितैः ॥ २२२ ॥

॥ २०७ ॥ अब वे अवन्तिदेशमें पहुँचे और उज्जयिनी नगरीके श्मशानमें छोटे भाई शूरसेनको बैठा कर बाकी बड़े भाई चोरी करनेके लिए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २०८ ॥ उन छद्मों भाइयोंके चले जानेपर उम श्मशानमें एक घटना और घटी जो कि इस प्रकार है—उस समय उज्जयिनीका राजा वृषभध्वज था, उसके एक दृढ़प्रहार नामका चतुर सहस्रभट यादवा था, उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था और उन दोनोंके वज्रमुष्टि नामका पुत्र था ॥ २०९-२१० ॥ उसी नगरमें विमलचन्द्र सेठकी विमला स्त्रीमें उत्पन्न हुई मंगी नामकी पुत्री थी, वह वज्रमुष्टिकी प्रिया हुई थी । किसी एक दिन वसन्त ऋतुमें उम समयका मुख प्राप्त करनेकी इच्छासे सब लोग राजाके साथ वनमें जानेके लिए तैयार हुए । मंगी भी जानेके लिए तैयार हुई । उसने मालाके लिए कलशमें हाथ डाला परन्तु उसकी साम वप्रश्रीने बहूकी ईर्ष्यासे एक काला साँप मालाके साथ उस कलशमें पहलसे ही रख छोड़ा था सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे स्त्रियाँ नहीं कर सकें ॥ २११-२१२ ॥ वसन्त ऋतुके तीव्र विषवाले माँपने उम मंगीका हाथ डालते ही काट ग्या जिससे उसके समस्त शरीरमें विष फैल गया और वह उसी समय निश्चैष्ट हो गई ॥ २१४ ॥ वप्रश्री, बहूका पयालसे लपेट कर श्मशानमें छोड़ आई । जब वज्रमुष्टि वनक्रीडा समाप्त होनेपर लौट कर आया तो उसने आठुल हाँकर अपनी माँसे पूछा कि मंगी कहाँ है ? मानाने भूठमूठ बुद्ध उतर दिया परन्तु उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ । मंगीके नहीं मिलनेसे वह बहुत दुःखी हुआ और मंगी तीक्ष्ण तलवार लेकर हूँदनेके लिए रात्रिमें ही चल पड़ा ॥ २१५-२१६ ॥ उस समय श्मशानमें वरधर्म नामके मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे । वज्रमुष्टिने भक्तिमें हाथ जोड़ कर उनके दर्शन किये और कहा कि हे पूज्य ! यदि मैं अपनी प्रियाको देख सकूँगा तो सहस्रदल वाले कमलोंसे आपकी पूजा करूँगा । ऐसी प्रतिज्ञा कर वज्रमुष्टि आगे गया । आगे चलकर उसने जिसे बुद्ध थाड़ी सी चेतना बाकी थी, ऐसी विषसे दूषित अपनी प्रिया देखी । वह शीघ्र ही पयाल हटाकर उसे मुनिराजके समीप ले आया ॥ २१७-२१८ ॥ और मुनिराजके चरण-कमलोंके स्पर्श रूपी आपधिसे उसने उमे विपरहित कर लिया । मंगीने भी उठकर अपने पतिको आनन्द बढ़ाया ॥ २२० ॥ तदनन्तर गुरुदेवके ऊपर जिसका मन अत्यन्त प्रसन्न है ऐसा वज्रमुष्टि इधर सहस्रदल कमल लानेके लिए चला गया । उधर वृत्तोंसे छिपा हुआ शूरसेन यह सब काम देख रहा था ॥ २२१ ॥ वह मंगीकी परीक्षा करनेके लिए उसके पास

लीलावलोकनैर्हासैर्व्यधाद्विस्मभणं भृशम् । साप्याह भवता सार्धमागमिष्यामि मां भवान् ॥ २२३ ॥  
 गृहीत्वा यात्विति व्यक्तं श्रुत्वा तत्त्वत्पतेरहम् । बिभेमि तन्न वक्तव्यमिति तेनाभिलाषिता ॥ २२४ ॥  
 मा भैषीस्त्वं वराकोऽसौ किं करिष्यति भीलुकः । ततो येन तवापायो न स्यात्क्रियते मया ॥ २२५ ॥  
 इत्यन्योन्यकथाकाले हस्तानीतसरोरुहः । वज्रमुष्टिः समागम्य करवालं प्रियाकरे ॥ २२६ ॥  
 निधाय मुनिपादाब्जद्वयमभ्यर्च्य भक्तितः । आनमरां<sup>१</sup> प्रिया तस्य प्रहर्तुमसिमुहधे ॥ २२७ ॥  
 करेण शूरसेनोऽहस्तकरासिं तदैव सः । आच्छिद्य न्यपतन्भूमौ शूरसेनकराङ्गुलिम् ॥ २२८ ॥  
 वज्रमुष्टिस्तदालोक्य मा भैषीरित्यभाषत । भीताहमिति सा शाठवाद्दितास्मै वृथोत्तरम् ॥ २२९ ॥  
 तदैव शूरसेनोऽपि भातुभिल्लब्धवित्तकैः । चौयेणाङ्ग भवद्भागं गृहाणेत्युदितः पृथक् ॥ २३० ॥  
 स भव्योऽतिविरक्तः सन्न धनेन प्रयोजनम् । संसारादनिर्भातोऽहं तद्ग्रहिष्यामि संयमम् ॥ २३१ ॥  
 इत्यब्रवीदयं हेतुः कस्तपोग्रहणे तव । वदेत्युक्तः स तैदिच्छन्न<sup>२</sup> निजहस्ताङ्गुलिव्रणम् ॥ २३२ ॥  
 दर्शयित्वाऽवदत्सर्वमात्ममङ्गीविचेष्टितम् । तत्सुभानुः समाकर्ण्य स्त्रीनिन्दामकरादिति ॥ २३३ ॥  
 स्थानं ता एव निन्दायाः परत्रासक्तिमागताः । वर्णमात्रेण राजन्त्यो रज्जयन्त्योऽपराण् भृशम् ॥ २३४ ॥  
 आदाय कृत्रिमं रागं रागिणां नयनप्रियाः । विभ्रतीह भृशं भाषारम्याश्चित्राकृतीः स्त्रियः ॥ २३५ ॥  
 सुखं विषयजं प्राप्तुं प्राप्तमाधुर्यमालिकाः<sup>३</sup> । किपाकफलमाला वा काञ्च हन्युर्मनोरमाः २३६ ॥  
 मातरः केवलं नैताः प्रजानामेव योषितः । दोषाणामपि दुःशिक्षा दुर्विद्या इव दुःखदाः ॥ २३७ ॥

आया और उसने उसे अपना शरीर दिखाकर माँठी बातों, चेष्टाओं, लीलापूर्ण विलोकनों और हँसी मजाक आदिसे शीघ्र ही अपने वश कर लिया। वह शूरसेनने कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे लेकर चलिए। मंगीकी बात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे पतिपे डरता हूँ इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उत्तरमें मंगीने कहा कि तुम डरो मत, वह नीच डरपोक तुम्हारा क्या कर सकता है? फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो वह काम मैं किये देती हूँ ॥ २२२-२२५ ॥ इस प्रकार इन दोनोंकी परस्पर वान-चीत हो रही थी कि उमी समय हाथमें कमल लिये वज्रमुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो मंगीके हाथमें दे दी और स्वयं वह भक्तिसे मुनिराजके दोनों चरण-कमलोंकी पूजा करनेके लिए नम्रीभूत हुआ। उसी समय उसकी प्रियाने उसपर प्रहार करनेके लिए तलवार उठाई परन्तु शूरसेनने उसके हाथसे उसी वक्रतलवार छीन ली। इस कर्मसे शूरसेनके हाथकी अंगुलियाँ कट-कट कर जमीन पर गिर गई ॥ २२६-२२८ ॥ यह देखकर वज्रमुष्टिने कहा कि हे प्रिये! डरो मत। इसके उत्तरमें मंगीने भूठभूठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गई थी ॥ २२९ ॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेनके छह भाई चोरीका धन लेकर आ गये और उससे कहने लगे कि हे भाई! तू अपना हिस्सा ले ले ॥ २३० ॥ परन्तु, वह भव्य अत्यन्त विरक्त हो चुका था अतः कहने लगा कि मुझे धनसे प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसारसे बहुत ही डर गया हूँ इसलिए संयम धारण करूँगा ॥ २३१ ॥ उसकी बात सुनकर भाइयोंने कहा कि तेरे तप ग्रहण करनेका क्या कारण है? सो कह। इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी हुई अंगुलियोंका घाव दिखाकर मङ्गी तथा अपने बीचकी सब चेष्टाएँ कह सुनाई। उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियोंकी निन्दा करने लगा ॥ २३२-२३३ ॥ कि पर पुरुषमें आसक्तिको प्राप्त हुई स्त्रियाँ ही निन्दाका स्थान हैं। ये वर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं और दूसरे पुरुषोंको अत्यन्त राग युक्त कर लेती हैं। ये बनावटी प्रेमसे ही रागी मनुष्योंके नेत्रोंको प्रिय दिखती हैं और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे रमणीय चित्र विचित्र वेष धारण करती हैं ॥ २३४-२३५ ॥ ये विषय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मधुर मालूम होती हैं परन्तु अन्तमें किपाक फलके समूहके समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये स्त्रियाँ किन्हे नहीं नष्ट कर सकती हैं अर्थात् सभीको नष्ट कर सकती हैं ॥ ३३६ ॥ ये स्त्रियाँ केवल अपने

मृदवः शीतलाः श्लक्ष्णाः प्रायः स्पर्शसुखप्रदाः । भुजङ्गयो वाङ्मनाः प्राणहारिण्यः पापरूपिकाः ॥ २३८ ॥  
 हन्याहन्तान्तसंक्रान्तं विषं विषभृतां न वा । 'सर्वाङ्गं सहजाहार्यं कान्तानां हन्ति सन्ततम् ॥ २३९ ॥  
 परेषां प्राणपर्यन्ताः पापिनामप्यपक्रियाः । हिंसानामिव कान्तानामन्तातीता दयाद्विषाम् ॥ २४० ॥  
 जातिमात्रेण सर्वाश्च योऽपतो विषमूर्तयः । न ज्ञातमेतन्नीतिज्ञैः कुर्वद्भविषकन्यकाः ॥ २४१ ॥  
 कौटिल्यकोटयः क्रौर्यपर्यन्ताः पञ्चपातकाः । नार्योऽनार्या<sup>२</sup> कथं न स्युरस्युद्यत<sup>३</sup> विचेष्टिताः ॥ २४२ ॥  
 ततो निर्विध संसारात्सानुजः स निजाजितम् । धनं दत्त्वा स्वकान्ताभ्योव रथमार्त्तापोऽगमत् ॥ २४३ ॥  
 जिनदरार्थिकाभ्यांशे तद्भार्याश्च तपो ययुः । हेतुरासन्नभव्यानां को वा न स्यात्तपोग्रहे ॥ २४४ ॥  
 सत्तापि काननेऽन्येषुरुजयिन्याः प्रतिष्ठितान् । वज्रमुष्टिः समासाद्य प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥ २४५ ॥  
 हेतुना केन दीक्षेयं भवतामित्यसौ जगौ । तेऽपि च निर्वर्णयामासुर्दीक्षाहेतुं यथागतम् ॥ २४६ ॥  
 आर्थिकाणाञ्च दीक्षायाः पृष्ठा मङ्ग्यपि कारणम् । उपाददे तमभ्यर्णं प्रमज्ज्यामास बोधिका ॥ २४७ ॥  
 वरधर्मयतेर्वज्रमुष्टिः शिष्यत्वमेथिवान् । प्रान्ते सन्न्यस्य सप्तासंख्याञ्चिंशाः स्वरादिमे ॥ २४८ ॥  
 द्विसागरोपमायुष्कास्ततश्च्युत्वा स्वपुण्यतः । 'भरते धातकीखण्डे प्राच्यवाक्येणविश्रुते ॥ २४९ ॥  
 निन्यालोकपुरे श्रीमच्छन्द्र<sup>४</sup> चूलमहीपतेः । ज्यायान्देव्यां मनोहर्यां सुनुश्चित्राङ्गदोऽभवत् ॥ २५० ॥

पुत्रोंकी ही माताएँ नहीं हैं किन्तु दांपोंकी भी माताएँ हैं और जिस प्रकार बुरी शिक्षासे प्राप्त हुई बुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देती हैं ॥ २३७ ॥ ये स्त्रियाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं, चिकनी हैं और प्रायः स्पर्शका मुख देनेवाली हैं ताँ भी सर्पिणियोंके समान प्राण हरण करनेवाली तथा पाप रूप हैं ॥ २३८ ॥ साँपोंका विष तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है फिर भी वह किसीको मारता है और किसीका नहीं मारता है किन्तु स्त्रीका विष उसके सर्व शरीरमें रहता है वह उनका सहभावी होनेके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और वह हमेशा मारता ही रहता है ॥ २३९ ॥ पापी मनुष्य दूसरे प्राणियोंका अपकार करते अवश्य हैं परन्तु उनके प्राण रहते पर्यन्त ही करते हैं मरनेके बाद नहीं करते पर दयाके साथ द्वेष रखनेवाली स्त्रियाँ हिंसाके समान मरणोत्तर कालमें भी अपकार करती रहती हैं ॥ २४० ॥ जिन नीतिकारोंने अलगसे विषकन्याओंकी रचना की है उन्हें यह मालूम नहीं रहा कि सभी स्त्रियाँ उत्पत्ति मात्रसे अथवा स्त्रीत्व जाति मात्रसे विषकन्याएँ होती हैं ॥ २४१ ॥ ये स्त्रियाँ कुटिलताकी अन्तिम सीमा हैं, इनकी क्रूरताका पार नहीं है ये सदा पाँच पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएँ सदा तलवार उठाये रखनेवाले पुरुषके समान दुष्टता पूर्ण रहती हैं फिर ये अनार्थ अर्थान् स्तेच्छ क्यो न कही जावें ॥ २४२ ॥ इस प्रकार सुमानुने अपने भाइयोंके साथ संसारसे विरक्त होकर अपना सब कमाया हुआ धन स्त्रियोंके लिए दे दिया और उन्हीं वरधर्म मुनिराजसे दीक्षा धारण कर ली ॥ २४३ ॥ उनकी स्त्रियोंने भी जिनदत्ता नामक आर्थिकाके समीप तप ले लिया सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्य जीवोंके तप ग्रहण करनेमें कौनसा हेतु नहीं हो जाता अर्थात् वे अनायास ही तप ग्रहण कर लेते हैं ॥ २४४ ॥ दूसरे दिन ये सातों ही भाई उज्जयिनी नगरीके उपवनमें पधारे तब वज्रमुष्टिने पास जाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि आप लोगोंने यह दीक्षा किस कारणसे ली है ? उन्होंने दीक्षा लेनेका जो यथार्थ कारण था वह बतला दिया । इसी प्रकार वज्रमुष्टिकी स्त्री संगीने भी उन आर्थिकाओंसे दीक्षाका कारण पूछा और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्हींके समीप दीक्षा धारण कर ली । वज्रमुष्टि वरधर्म मुनिराजका शिष्य बन गया । सुभानु आदि सातों मुनिराज आयुके अन्तमें संन्यासमरण कर प्रथम स्वर्गमें त्रायस्त्रिंश जातिके देव हुए ॥ २४५-२४८ ॥ वहाँ दाँ सागर प्रमाण उनकी आयु थी । वहाँसे चयकर, अपने पुण्य प्रभावसे धातकीखण्ड द्वीपमें भरतक्षेत्र अम्बन्धी विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जो निन्यालोक नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीसे सुभानुका जीव चित्राङ्गद नामका पुत्र हुआ

१ सर्वगं ख०, घ० । २ न आर्या अनार्याः ग्लेच्छा इत्यर्थः । ३-रत्यद्भुत-ल० । ४ निवेदयामासु-ल० । ५ भारते ख०, ग०, घ० । ६ चित्रकूट ग०, ख० ।

इतरेऽपि तयोरेव त्रयस्ते जज्ञिरे यमाः । ध्वजवाहनशब्दान्तगरुडौ मणिचूलकः ॥ २५१ ॥  
 पुष्पचूलाङ्गयो नन्दनचरो गगनादिकौ । तत्रैव दक्षिणश्रेण्यां नृपो मेघपुराधिपः ॥ २५२ ॥  
 धनञ्जयोऽस्य सर्वश्रीर्जाया तस्याः सुताऽभवत् । धनश्रीः श्रीरिवान्वयैषा तत्रैवान्यो महीपतिः ॥ २५३ ॥  
 ख्यातो नन्दपुराधीशो हरिषेणो हरिद्विषाम् । श्रीकान्ताऽस्य प्रिया तस्यां सुतोऽभूद्धरिवाहनः ॥ २५४ ॥  
 धनश्रियोऽयं बन्धेन मैथुनः प्रथितो गुणैः । तत्रैव भरतेऽयोध्यायां स्वयंवरकर्मणि ॥ २५५ ॥  
 मालां सम्प्रापयत्प्रीत्या धनश्रीर्हरिवाहनम् । चक्रवांस्तदयोध्यायां पुष्पदन्तमहीपतिः ॥ २५६ ॥  
 तस्य प्रीतिङ्करी देवी तत्सूनुः पापपण्डितः । धनश्रियं सुदारोऽलान्निहत्य हरिवाहनम् ॥ २५७ ॥  
 तन्निर्वेगेण चित्राङ्गदाघाः सतापि संयमम् । भूतानन्दाख्यतीर्थेशपादमूले समाश्रयन् ॥ २५८ ॥  
 ते कालान्तेऽभवन्कल्पे तुर्यं सामानिकाः सुराः । सप्तान्ध्यायुः स्थितिप्रान्ते ततः प्रच्युत्य भारते ॥ २५९ ॥  
 कुरुजाङ्गलदेशेऽस्मिन् हास्तिनाख्यपुरेऽभवत् । बन्धुमत्यां सुतः श्वेतवाहनाख्यवणिक्पतेः ॥ २६० ॥  
 शङ्खो नाम धनद्वय्यासौ सुभानुर्बनदः स्वयम् । तत्पुराधिपतेर्गङ्गदेवनामधरोशनः ॥ २६१ ॥  
 तद्दृष्ट्या नन्दयशसः शोषास्ते यमलाख्यः । गङ्गाख्यो गङ्गदेवश्च गङ्गमित्रश्च नन्दवाक् ॥ २६२ ॥  
 सुनन्दो नन्दिषेणश्च जाताः स्त्रिधाः परस्परम् । गर्भेऽन्यरिमन् महीनाथस्तस्यामासीन्निरसुकः ॥ २६३ ॥  
 तदौदासीन्यमुत्पन्नपुत्रहेतुकमित्यसौ । न्यदिशद्वेती धात्रीं तदपत्यनिराकृतौ ॥ २६४ ॥  
 तं सा नन्दयशोऽप्येष्टबन्धुमत्यै समर्पयत् । निर्नामकाख्यां तत्राप्य परेद्युर्नन्दने वने ॥ २६५ ॥  
 प्रपश्यन् सहस्रजानान् पण्महीशसुतान् समम् । त्वमप्यमीभिर्भुङ्क्ष्वेति शङ्खेन समुदाहृतम् ॥ २६६ ॥

॥ २४६-२५० ॥ वाकी छह भाइयोंके जीव भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा और मनोहरी रानीके दो-दो करके तीन वारमें छह पुत्र हुए । गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननन्दन और गगनचर ये उनके नाम थे । उसी धातकीखण्डद्वीपके पूर्व भरत क्षेत्रमें विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक मेघपुर नामका नगर है । उसमें धनञ्जय राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम सर्वश्री था, उन दोनोंके धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरनामें माना दूसरी लक्ष्मी ही थी । उसी विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीमें एक नन्दपुर नामका नगर है उसमें शत्रुओंके लिए सिंहके समान राजा हरिषेण राज्य करता था । उसकी स्त्रीका नाम श्रीकान्ता था और उन दोनोंके हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिवाहन नाममें धनश्रीके भाईका साला था । उसी भरतक्षेत्र के अयोध्यानगरमें धनश्रीका स्वयंवर हुआ उसमें धनश्रीने बड़े प्रेमसे हरिवाहनके गलेमें वरमाला डाल दी । उसी अयोध्यामें पुष्पदन्त नामका चक्रवर्ती राजा था । उसकी प्रीतिकरी स्त्री थी और उन दोनोंके पापकार्यमें पण्डित सुदन्त नामका पुत्र था । सुदन्तने हरिवाहनको मार कर धनश्रीका स्वयं ग्रहण कर लिया ॥ २५१-२५७ ॥ यह सब देखकर चित्राङ्गद आदि सातों भाई विरक्त हो गये और उन्होंने श्रीभूतानन्द तीर्थङ्करके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया । आयुका अन्त होने पर वे सब चतुर्थ स्वर्गमें सामानिक ज्ञानिके देव हुए । वहाँ सात सागरकी उनकी आयु थी । उसके बाद वहाँसे च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके कुरुजांगल देशसम्बन्धी हास्तिनापुर नगरमें सेठ श्वेतवाहनके उसकी स्त्री बन्धुमतीसे सुभानुका जीव शङ्ख नामका पुत्र हुआ । वह सुभानु धन-सम्पदामें स्वयं कुंवर था । उसी नगरमें राजा गङ्गदेव रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था, सुभानुके वाकी छह भाइयोंके जीव इन्हीं दोनोंके दो-दो कर तीन वारमें छह पुत्र हुए । गङ्ग, गङ्गदेव, गङ्गमित्र, नन्द, सुनन्द, और नन्दिषेण ये उनके नाम थे । ये छहों भाई परस्परमें बड़े स्नेहसे रहते थे । नन्दयशाके जब सातवां गर्भ रहा तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गर्भमें आया बालक ही समझा इसलिए उसने रेवती धायको आज्ञा दे दी कि तू इस पुत्रको अलग कर दे । ॥ २५८-२६४ ॥ रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बहिन बन्धुमतीके लिए सौंप आई । उसका नाम निर्नामक रक्खा गया । किसी एक दिन ये सब लोग नन्दनवनमें गये, वहाँपर राजाके छहों पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंखने निर्नामकसे कहा कि तू भी इनके साथ खा ।

स्थितो भोक्तुमसौ नन्दयशास्यं वीक्ष्य क्रोपिनी । कस्याथमिति पादेनाहंस्तावन्वीयतुः शुचम् ॥ २६७ ॥  
 शङ्कनिर्नामकौ राज्ञा कदाचित्सह वन्दितुम् । द्रुमसेनमुनिं यातावर्वाधिज्ञानलोचनम् ॥ २६८ ॥  
 अभिवन्द्य ततो धर्मश्रवणानन्तरं पुनः । निर्नामकाय किं नन्दयशाः कुप्यत्यकारणम् ॥ २६९ ॥  
 इति शङ्केन वृष्टोऽसौ मुनिरिवमभाषत । सुराष्ट्रविषये राजा गिर्यादिनगराधिपः ॥ २७० ॥  
 अभूच्चित्ररथो नाम तस्यामृत-रसायनः । सूपकारः पलं पक्तुं कुशलोऽस्मै प्रतुष्टवान् ॥ २७१ ॥  
 भदित द्वादशग्रामान् महीशो मांसलोलुपः । स कदाचित्सुधर्माख्ययस्यभ्याशे श्रुतागमः ॥ २७२ ॥  
 श्रद्धाय बोधिमासाद्य राज्यं मेघरथे सुते । नियोज्य संयतो जातः सुतोऽपि श्रावकोऽजनि ॥ २७३ ॥  
 ततः सूपकरग्रामानेकशेषं समाहरत । सोऽन्येषुर्बद्धवैरः सन् सर्वसम्भारसंस्कृतम् ॥ २७४ ॥  
 'कोशातकीफलं पक्वं मुनीन्द्रं तमभोजयत् । ऊर्जयन्तगिरौ सोऽपि तन्निमित्तं गतासुकः ॥ २७५ ॥  
 सम्यगाराध्य सम्भूतः कल्पतीतिऽपराजिते । जघन्यतद्रुतायुः सन्नहमिन्द्रो महद्विक्रः ॥ २७६ ॥  
 सूपकारोऽपि कालान्ते तृतीयनरकं गतः । ततो निर्गत्य संसारे सुदुःखः सुचिरं भ्रमन् ॥ २७७ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये मङ्गलाह्वये । पलाशकूटग्रामस्य यक्षदत्तगृहेशिनः ॥ २७८ ॥  
 सुतो यक्षादिदत्तार्थां यक्षनामा बभूव सः । तयोर्यक्षिलसञ्ज्ञश्च सूनुरन्योऽन्वजायत ॥ २७९ ॥  
 तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो नाम्ना निरनुकम्पनः । सानुकम्पोऽपरोऽज्ञायि जनैर्यानुसारिभिः ॥ २८० ॥  
 कदाचित्सानुकम्पेन वार्यमाणोऽपि सोऽपरः । मार्गस्थितान्धसर्पस्य दयादूरो वृथोपरि ॥ २८१ ॥

शङ्के कहनेमें निर्नामक उनके साथ ग्वानेके लिए बैठा ही था कि नन्दयशा उमें देखकर क्रोध करने लगी और यह किसका लड़का है, यह कहकर उमें एक लात मार दी । इस प्रकरणसे शङ्क और निर्नामक दोनोंको बहुत शोक हुआ । किसी एक दिन शङ्क और निर्नामक दोनों ही राजाके साथ-साथ अधिज्ञानी द्रुमसेन नामक मुनिराजकी वन्दनाके लिए गये । दोनोंने मुनिराजकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया और तदनन्तर शङ्कने मुनिराजसे पूछा कि नन्दयशा निर्नामकसे अकारण ही क्रोध क्यों करती है ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे कि मुराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है । उसके राजाका नाम चित्ररथ था । चित्ररथके एक श्रमृत-रसायन नामका रसोइया था । वह मांस पकानेमें बहुत ही कुशल था इसलिए मांसलोभी राजाने सन्तुष्ट होकर उसे बारह गाँव दे दिये थे । एक दिन राजा चित्ररथने मुधसे नामक मुनिराजके समीप आगमका उपदेश सुना ॥ २६५-२७२ ॥ उसकी श्रद्धा करनेमें राजाको रत्नत्रयकी प्राप्ति हो गई । जिसके फलस्वरूप वह मेघरथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया और राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया ॥ २७३ ॥ तदनन्तर राजा मेघरथने रसोइयाके पास एकही गाँव वचने दिया, बाकी सब छीन लिये । 'इन मुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस ग्वाना छोड़ा है और उनके पुत्रने हमारे गाँव छीने हैं' ऐसा विचार कर वह रसोइया उक्त मुनिराजसे द्वेष रखने लगा । एकदिन उस रसोइयाने सब प्रकारके मसालोंसे तैयार की हुई कडुवी तुमड़ीका आहार उन मुनिराजके लिए करा दिया । जिससे गिरिनगर पर्वत पर जाकर उनका प्राणान्त हो गया । वे समाधिस्मरण कर अपराजित नामक कल्पानीत विमानमें वहाँकी जघन्य आयु पाकर बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक अहमिन्द्र हुए । रसोइया आयुके अन्तमें तीसरे नरक गया और वहाँसे निकलकर अनेक दुःख भोगता हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥ २७४-२७७ ॥ तदनन्तर इसी जन्मद्वीपके भरतक्षेत्रसम्बन्धी मङ्गलदेशमें पलाशकूट नगरके यक्षदत्त गृहस्थके उसकी यक्षदत्ता नामकी स्त्रीसे यक्ष नामका पुत्र हुआ । बुद्ध समय वाद उन्हीं यक्षदत्त और यक्षदत्ताके एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भी उपन्न हुआ । उन दोनों भाइयोंमें बड़ा भाई अपने कर्मोंके अनुसार निरनुकम्प-निर्दय था इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओंके अनुसार निरनुकम्प कहते थे और छोटा भाई सानुकम्प था—दया सहित था इसलिए लोग उसे सानुकम्प कहा करते थे ॥ २७८-२८० ॥ किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ीमें बैठकर कहीं जा रहे थे । मार्गमें एक अन्धा साँप बैठा था । सानुकम्पके

राकटं भाण्डसम्पूर्णं बलीवदैरयोजयत् । सर्पस्तन्मदितोऽकामनिर्जरो विगतासुकः ॥ २८२ ॥  
 १पुरे श्वेतविकानाम्नि वासवस्य महीपतेः । १वसुन्धर्या सुता नन्दयशाः समुदपाद्यसौ ॥ २८३ ॥  
 पुननिरनुकम्पश्च भ्रात्रा दुःखनिमिराकम् । त्वयेदंशं न कर्तव्यमित्युक्तः शममागतः ॥ २८४ ॥  
 स्वायुरन्ते समुत्पन्नः सोऽर्थं निर्नामकाख्यया । ततः पूर्वभवोपात्तापस्य परिपाकतः ॥ २८५ ॥  
 जायते नन्दयशसः कोपो निर्नामकं प्रति । इति तस्य वचः श्रुत्वा ते निर्वेगपरायणाः ॥ २८६ ॥  
 ३नरेन्द्रपटसुता दीक्षां शङ्को निर्नामकोऽप्ययुः । तथा नन्दयशा रेवतीनामादित संयमम् ॥ २८७ ॥  
 सुमताख्यायिकाभ्याश्चे पुत्रस्त्रोहाहितेच्छया । अन्यजन्मनि चामीपामेव लाभे च वर्धने ॥ २८८ ॥  
 ते निदानं विमूढत्वादुभे चाकुरुतां समम् । ततः सर्वे तपः कृत्वा समाराध्य यथांचितम् ॥ २८९ ॥  
 महाशुक्रे समुत्पन्नाः प्रान्ते सामानिकाः सुराः । षोडशाब्ध्युपमायुष्का दिव्यभोगवशीकृताः ॥ २९० ॥  
 ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभुङ्ग्लदेवो हलायुधः । मृगावत्याख्यविषये दशार्णपुरभूपतेः ॥ २९१ ॥  
 देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्च देवकी । त्वं सा नन्दयशाः स्त्रीत्वमुपगम्य निदानतः ॥ २९२ ॥  
 भद्रिलाख्यपुरे देशे मलयेऽजनि रेवती । सुदृष्टेः श्रेष्ठिनः श्रेष्ठा श्रेष्ठिनी सालकाख्यया ॥ २९३ ॥  
 प्राकनाः षट्कुमाराश्च यमा भूतास्तव त्रयः । तदानीमेव शकस्य निदेशान्कंसतो भयान् ॥ २९४ ॥  
 ते नैगमर्षिणा नीताः श्रेष्ठिन्या न्वलकाख्यया । वधिना देवदत्तश्च देवपालोऽनुजस्तनः ॥ २९५ ॥  
 अनीकदत्तश्चानीकपालः शत्रुघ्नसञ्ज्ञकः । जितशत्रुश्च जन्मन्येवात्र निवृत्तिगामिनः ॥ २९६ ॥  
 नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थं पुरमागताः । त्वया दृष्टास्ततस्तेषु स्त्रोहो जन्मान्तरागतः ॥ २९७ ॥

रोकनेपर भी दयासे दूर रहनेवाले निरनुकम्पने उम अन्धे साँपपर वर्तनोंमे भरी गाड़ी बैलोंके द्वारा चला दी । उस गाड़ीके भारमे साँप कट गया और अकामनिर्जरा करता हुआ मर गया ॥ २८१-२८२ ॥ मरकर श्वेतविका नामके नगरमें वहाँके राजा वामदेवके उमकी रानी वसुन्धरासे नन्दयशा नामकी पुत्री हुआ ॥ २८३ ॥ छोटे भाई मालुकम्पने निरनुकम्प नामके अपने बड़े भाईको फिर भी समझाया कि आपके लिए इस प्रकार दूसरोंको दुःख देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए । इस प्रकार समझाये जानेपर यह शान्तिको प्राप्त हुआ ॥ २८४ ॥ वहाँ निरनुकम्प आयुके अन्तमें मरकर यह निर्नामक हुआ है । पूर्वभवमें उपाजन किये हुए पापकर्मके उदयमे ही नन्दयशाका निर्नामकके प्रति क्रोध रहता है । राजा द्रुमसेनके यह वचन सुनकर राजाके छहों पुत्र, शङ्क तथा निर्नामक सब विरक्त हुए और सभीने दीक्षा धारण कर ली । इसी प्रकार पुत्रोंके स्नेहसे उत्पन्न हुई इच्छामे रानी नन्दयशा तथा रेवती धायने भी सुत्रता नामके आर्थिकार्थके समीप संयम धारण कर लिया । किसी एक दिन उन दोनों आर्थिकार्थाने मूर्खतावश निदान किया । नन्दयशाने तो यह निदान किया कि 'आगामी जन्ममें भी ये मेरे पुत्र हों' और रेवतीने निदान किया कि 'मैं इनका पालन करूँ' । तदनन्तर तपश्चर्या कर और अपनी योग्यताके अनुसार आराधनाओंकी आराधनाकर आयुके अन्तमें वे सब महाशुक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए । वहाँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगोंके वशीभूत रहते थे ॥ २८५-२८६ ॥ वहाँसे च्युत होकर शङ्कका जीव हलका धारण करनेवाला बलदेव हुआ है और नन्दयशाका जीव मृगावती देशके दशार्णपुर नगरके राजा देवसेनके रानी धनदेवीसे देवकी नामकी पुत्री पैदा हुई है । निदान-वन्द्यके कारण ही तू स्त्रीपर्यायको प्राप्त हुई है ॥ २८१-२८२ ॥ रेवतीका जीव मलय देशके भद्रिलपुर नगरमें सुदृष्टि सेठकी अलका नामकी सेठानी हुई है । पहलेके छहों पुत्रोंके जीव दो दो करके तीन वारमें तेरे छह पुत्र हुए । उम्मी समय इन्द्रकी आज्ञासे कंसके भयके कारण नैगमर्षि देवने उन्हें अलका सेठानीके घर रख दिया था इसलिए अलकाने ही उन पुत्रोंका पालन किया है । देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु ये उन छहों पुत्रोंके नाम हैं, ये सभी इसी भवसे मोक्ष प्राप्त करेंगे ॥ २८३-२८६ ॥ ये सब नहीं अबस्थामें ही दीक्षा लेकर भिक्षाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्वजन्मसे चला



स्वयम्भूकेशवैश्वर्यं १ तपःकाले निरीक्ष्य सः । निर्नामकमु तस्तेऽद्य कंसकात्रुरजायत ॥ २९८ ॥  
 एवं कुतस्ते कुतः कोऽयं सम्बन्धो निनिबन्धनः । विधेविलसितं चित्रमगम्यं योगिनामपि ॥ २९९ ॥  
 इति नैसर्गिकाशेषमव्यानुग्रहभाबुक्तः । न्यगदद्भगवानेवं भक्त्यावन्दत देवकी ॥ ३०० ॥  
 अथानन्तरमेवैनं सत्यभामापि २ भक्तिकी । स्वपूर्वभवसम्बन्धमप्राज्ञीदक्षरावधिम् ॥ ३०१ ॥  
 सोऽपि व्यापारयामास तद्भीष्टनिवेदने । न हेतुः कृतकृत्यानामस्वयन्योऽनुग्रहाद्विना ॥ ३०२ ॥  
 शीतलाख्यजिनाधीशतीर्थं धर्मं विनङ्क्ष्यति । भद्रिलाख्यपुराधीशो नाम्ना मेघरथो नृपः ॥ ३०३ ॥  
 प्रेयसी तस्य नन्दाख्या भूतिशर्मा द्विजाग्रणीः । तस्यासीत्कमला पत्नी मुण्डशालायनस्तयोः ॥ ३०४ ॥  
 तनुजो वेदवेदाङ्गपारगो भोगसक्तधीः । वृथा तपःपरिक्रेशो मूर्खैरेप प्रकल्पितः ॥ ३०५ ॥  
 निर्धनैः परलोकार्थं स्वयं साहसशालिभिः । भूसुवर्णादिदानेन सुखमिष्टमवाप्यते ॥ ३०६ ॥  
 इतीत्यादिकुट्टप्टान्तकुहेतुनिपुणैर्नृपम् । कायकेशासहं वाक्यैरथार्थमवबुधुषत् ॥ ३०७ ॥  
 तथा परांश्च दुर्बुद्धीन् बोधयन् जीवितावधौ । भूत्वा सप्तस्वर्धोभूमिष्वतस्तिर्यक्षु च क्रमात् ॥ ३०८ ॥  
 गन्धमादनकुप्रोत्थं ३ महागन्धवतीनदी । समीपगतभ ४ लङ्गीनामपल्ल्यां स्वपापतः ॥ ३०९ ॥  
 जातो वनेचरः कालसञ्जः स तु कदाचन । वरधर्मयति प्राप्य मध्वादिविनिवृत्तितः ॥ ३१० ॥  
 विजयार्धेऽलकापुर्याः पत्युः पुरुबलस्य च । ज्योतिर्मालाभिधायान्न सुतो हरिबलोऽभवत् ॥ ३११ ॥

आया स्नेह इतमं उत्पन्न हो गया है ॥ २९७ ॥ पूर्व जन्ममें जो तेरा निर्नामक नामका पुत्र था उसने तपश्चरण करते समय स्वयंभू नारायणका ऐश्वर्य देखकर निदान किया था अतः वह कंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुआ है ॥ २९८ ॥ गणधर देव देवकीसे कहते हैं कि 'हे देवकी ! तू कहाँ से आई ? तेरे ये पुत्र कहाँ से आये ? और त्रिना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध कैसे आ मिला ? इसलिए जान पड़ता है कि फर्मका उदय बड़ा विचित्र है और योगियोंके द्वारा भी अगम्य है' । इस प्रकार स्वभावसे ही समस्त भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले गणधर भगवानने यह सब कथा कही । कथा सुनकर देवकीने उन्हें बड़ी भक्तिसे वन्दना की ॥ २९९-३०० ॥

तदनन्तर— भक्तिसे भरी सत्यभामाने भी, अक्षरावधिको धारण करनेवाले गणधर भगवानसे अपने पूर्व भयोंका सम्बन्ध पूछा ॥ ३०१ ॥ तब गणधर भगवान भी उमका अभीष्ट कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि कृतकृत्य मनुष्योंका अनुग्रहको छोड़कर और दूसरा कार्य नहीं रहता है ॥ ३०२ ॥ वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवानके तीर्थमें जय धर्मका विच्छेद हुआ तब भद्रिलपुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानीका नाम नन्दा था । उसी समय उम नगरमें भूतिशर्मा नामका एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसकी कमला नामकी स्त्री थी और उन दोनोंके मुण्डशालायन नामका पुत्र था । मुण्डशालायन यद्यपि वेदवेदाङ्गका पारगामी था परन्तु मात्र ही उसकी बुद्धि हमेशा भोगों-न आसक्त रहती थी इसलिए वह कहा करता था कि तपका क्लेश उठाना व्यर्थ है, जिनके पास धन नहीं है ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्योंने ही परलोकके लिए इस तपके क्लेशकी कल्पना की है । वास्तवमें पृथिवी-दान, सुवर्ण-दान आदिमें ही इष्ट सुख प्राप्त होता है । इस प्रकार उसने अनेक कुट्टशान्त और कुहेतुओंके बतलानेमें निपुण वाक्योंके द्वारा कायकेशके सहनेमें असमर्थ राजाका भूठमूठ उपदेश दिया । राजाको ही नहीं, अन्य दुर्बुद्धि मनुष्योंके लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश देता रहा । अन्तमें मर कर वह सातवें नरक गया । वहाँसे निकल कर तिर्यञ्च हुआ । इस तरह नरक और तिर्यञ्च गतिमें घूमता रहा ॥ ३०३-३०८ ॥ अनुक्रमसे वह गन्धमादन पर्वतसे निकली हुई गन्धवती नदीके समीपवर्ती भल्लंकी नामकी पल्लीमें अपने पापकर्मके उदयसे काल नामका भील हुआ । उस भीलने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास जाकर सधु आदि तीन मकारोंका त्याग किया था । उसके फलस्वरूप वह विजयार्ध पर्वत पर अलकानगरीके राजा पुरबल और उनकी रानी ज्योतिर्मालाके हरिबल नामका पुत्र हुआ । उसने अनन्तवीर्य नामके मुनिराजके पास

अनन्तवार्धयत्नस्ते गृहीत्वा द्रव्यसंयमम् । सौधर्मकल्पे सन्भूय कालान्ते प्रच्युतस्ततः ॥ ३१२ ॥  
 सुकेतोर्विजयाधार्त्रौ रथनूपुरभूपतेः । सुता स्वयंप्रभायाश्च सत्यभामा त्वमित्यभूः ॥ ३१३ ॥  
 पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तोऽनुनिमित्तादिकुशलाख्योऽर्धचक्रिणः ॥ ३१४ ॥  
 भविष्यति महादेवीत्याख्यन्नैमित्तिकोत्तमः । इत्युदीरितमाकर्ण्य सत्यभामाऽनुवराराम् ॥ ३१५ ॥  
 रुग्मिण्याथ महादेव्या प्रणम्य स्वभवान्तरम् । परिवृष्टः परार्थेहो व्याजहारेति तद्भवान् ॥ ३१६ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे मगधान्तरवत्तिनि । लक्ष्मीग्रामे द्विजः सोमोऽस्याभूलक्ष्मीमतिः प्रिया ॥ ३१७ ॥  
 प्रसाधिताङ्गी सान्येद्युर्दर्पणालोकनोद्यता । समाधिगुप्तमालोक्य मुनि भिक्षार्थमागतम् ॥ ३१८ ॥  
 प्रस्वेदमलदिग्धाङ्गो दुर्गन्धोऽयमिति क्रुधा । विचिकित्सापरा साधिक्षेपात्युद्गारिणी तदा ॥ ३१९ ॥  
 सहस्रोदुम्बराख्येन कुष्ठेन न्यासदेहिका । शुनीव तर्ज्यमाना सा जनैः परुषभापितैः ॥ ३२० ॥  
 शून्यगेहेऽतिदुःखेन मृत्वा ज्ञेहाहिताशया । गेहेऽस्यैव द्विजस्याभूद् दुर्गन्धश्चित्कराखुकः ॥ ३२१ ॥  
 तस्योपरि मुहुर्धावंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो मृतान्ध्वाऽहिरजायत ॥ ३२२ ॥  
 तत्रैवासौ पुनर्मृत्वा गर्दभोऽभूत्स्वपापतः । मुहुर्मुहुर्गृहं गच्छंस्तदैव कुपितैर्द्विजैः ॥ ३२३ ॥  
 हतो लकुटपाणोर्भग्नपादः किमिन्नगैः । आकुलः पतितः कूपे दुःखितो मृतिमागतः ॥ ३२४ ॥  
 ततोऽन्धाऽहिः समुत्पन्नो मृत्वान्धश्चाथ सूकरः । ग्रामे यो भक्षितो मृत्वा सोऽपि श्वभिरतोऽमुनः ॥ ३२५ ॥  
 मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे नद्युत्तरणकारिणः । मण्डूक्याश्च सुता जाता पूतिका नाम पापिनी ॥ ३२६ ॥

द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके प्रभावसे वह मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर उसी विजयाधर्ष पर्वत पर रथनूपुर नगरके राजा सुकेतुके उनकी स्वयंप्रभा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पुत्री हुई । एक दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमें कुशल किसी निमित्तज्ञानीमे पूछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानीने कहा था कि यह अर्धचक्रवर्तीकी महादेवी होगी । इस प्रकार गणधरके द्वारा कहे हुए अपने भव मुनकर सत्यभामा बहुत सन्तुष्ट हुई ॥ ३०६-३१५ ॥

अथानन्तर—महादेवी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूछे और जिनकी समस्त चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं ऐसे गणधर भगवान कहने लगे ॥ ३१६ ॥ किं भरत क्षेत्र सम्बन्धी मगध देशके अन्तर्गत एक लक्ष्मीग्राम नामका ग्राम है । उसमें सोम नामका एक ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्रीका नाम लक्ष्मीमति था । किसी एक दिन लक्ष्मीमति ब्राह्मणा, आभूषणादि पहिन कर दर्पण देखनेके लिए उद्यत हुई ही थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आ पहुँचे । 'इसका शरीर पसीना तथा मेलसे लिप्त है और यह दुर्गन्ध दे रहा है' इस प्रकार क्रोध करता हुई लक्ष्मीमतिने घृणासे युक्त होकर निन्दाके वचन कहे ॥ ३१७-३१८ ॥ मुनि-निन्दाके पापसे उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे व्याप्त हो गया इसलिए वह जहाँ जाती थी वहाँ पर लोग उसे कठोर शब्द कह कर कुत्तीके समान ललकार कर भगा देते थे ॥ ३२० ॥ वह सूने मकानमें पड़ी रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह रख बड़े दुःखसे मरी और उसी ब्राह्मणके घर दुर्गन्ध युक्त छल्लूँ दर हुई ॥ ३२१ ॥ वह पूर्व पर्यायके स्नेहके कारण बार-बार पतिके ऊपर दौड़ती थी इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा और बाहर ले जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मर कर उसी ब्राह्मणके घर साँप हुई ॥ ३२२ ॥ फिर मरकर अपने पापकर्मके उदयसे वहीं गधा हुई, वह बार-बार ब्राह्मणके घर आता था इसलिए ब्राह्मणोंने कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदिसे ऐसा मारा कि उसका पैर टूट गया, घावोंमें कीड़े पड़ गये जिनसे व्याकुल होकर वह कुएँमें पड़ गया और दुःखी होकर मर गया ॥ ३२३-३२४ ॥ फिर अन्धा साँप हुआ, फिर मरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुअरको गाँवके कुत्तोंने खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदी पार करानेवाले मत्स्य नामक धीवरकी मण्डूकी नामकी स्त्रीसे पूतिका नामकी पापिनी पुत्री हुई । उत्पन्न होते ही

स्वोत्पत्त्यनन्तरं लोकान्तरं यातः पिता ततः । माता च पोषिता मातामया सवागुमान्विलेः ॥ ३२७ ॥  
 विचिकित्स्या नदीतीरवतिनी सा कदाचन । समाधिगुप्तमाशोक्य नदीतीरे पुरातनम् ॥ ३२८ ॥  
 काललब्ध्या समासाद्य प्रतिमायोगधारिणम् । गृहीतोपशमा योगिदेहस्थमशकादिकम् ॥ ३२९ ॥  
 अपास्यन्ती प्रयत्नेन निशान्ते योगनिष्ठितौ । उपविष्टस्य पादाब्जमुपाश्रित्यादितं मुनेः ॥ ३३० ॥  
 श्रुत्वा धर्मधियाद्यत्त पर्वोपवसति सुधीः । परेद्यजिनपूजार्थं गच्छन्ती वीक्ष्य सार्थिकाम् ॥ ३३१ ॥  
 ग्रामान्तरं समं गत्वा तदानीतान्वसता सदा । प्राणसन्धारणं कृत्वा कस्मिंश्चिद्भूतो बिले ॥ ३३२ ॥  
 उपविष्टा निजाचारं पालयन्ती भयादधान् । सम्यग्ज्ञात्वार्थिकाख्यानात्स्ववृत्तान्तं सकौतुकात् ॥ ३३३ ॥  
 चित्रं नीचकुलोत्पन्नाप्येवंवृत्तेति सादरम् । पूजानिर्वर्तिकां द्रष्टुं स्वां वासल्यादुपागताम् ॥ ३३४ ॥  
 अभिधायाम्ब पापिष्ठो मां त्वं पुण्यवती कुनः । पश्यसीति निजातीतभवान् ज्ञातान् यतीश्वरात् ॥ ३३५ ॥  
 तस्या ध्यावर्णयत्सापि वयस्यास्याः पुरातनी । तयैतद्वबुद्धयायान्मार्गं जैनमधक्षयात् ॥ ३३६ ॥  
 प्राग्जन्माजितपापस्य परिपाकाद्विरूपिता । रोगवत्त्वं कुगन्धत्वं निर्धनत्वादिकञ्च कैः ॥ ३३७ ॥  
 न प्राप्यतेऽत्र संसारे तत्त्वं भूर्माहिता शुचा । त्वयातं व्रतशीलोपवासादिपरजन्मने ॥ ३३८ ॥  
 पाथेयं दुर्लभं तस्मान्मा भैर्यास्त्वमतः परम् । इति प्रोत्साहिता सख्या सा सन्न्यस्य समाधिना ॥ ३३९ ॥  
 च्युतप्राणाच्युतेन्द्रस्य बलभाभूदनिप्रिया । पत्न्यानां पञ्चपञ्चाशत्तं तत्राच्छिन्नसौख्यभाक् ॥ ३४० ॥  
 च्युत्वा ततो विदभाह्यविषये कुण्डलाह्वये । पुरे वासवभूमर्तुः श्रीमत्याश्च सुताऽभवः ॥ ३४१ ॥

उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी इसलिए मातामही (नानी) ने उसका पोषण किया। वह सब प्रकारसे अशुभ थी और सबलोग उससे घृणा करते थे। किमी एक दिन वह नदीके किनारे बैठी थी वहीपर उसे उन समाधिगुप्त मुनिराजके दर्शन हुए जिनकी कि उसने लक्ष्मीमनिपर्यायमें निन्दा की थी। वे मुनि प्रतिमायागसे अवस्थित थे, पूतिकाकी काललब्धि अनुकूल थी इसलिए वह शान्तभावका प्राप्तकर रात्रिभर मुनिराजके शरीरपर बैठनेवाले मच्छर आदिका दूर हटाती रही। जब प्रातःकालके समय प्रतिमायाग समाप्तकर मुनिराज त्रिराजमान हुए, तब वह उनके चरणकमलोंके समीप जा पहुँची और उनका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनने लगी। धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर उस बुद्धिमतीने पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया। दूसरे दिन वह जिनेंद्र भगवानकी पूजा (दर्शन) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आर्थिकाके दर्शन हो गये। वह उन्हीं आर्थिकाके साथ दूसरे गाँव तक चली गई। वहीपर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया। इस तरह वह प्रतिदिन ग्रामान्तरसे लाये हुए भोजनसे प्राण रक्षा करती और पापके भयसे अपने आचारकी रक्षा करती हुई किसी पर्वतकी गुफामें रहने लगी। एक दिन एक श्राविका आर्थिकाके पास आई। आर्थिकाने उससे कहा कि पूतिका नीच कुलमें उपन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह आश्चर्यकी बात है। आर्थिकाकी बात सुनकर उस श्राविकाको बड़ा कौतुक हुआ। जब पूतिका पूजा (दर्शन) कर चुकी तब वह स्नेहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी। इसके उत्तरमें पूतिकाने कहा कि हे माता! मैं तो महापापिनी हूँ, मुझे आप पुण्यवती क्यों कहती हैं? यह कह, उसने समाधिगुप्त मुनिराजसे जो अपने पूर्वभव मुने थे वे सब कह सुनाये। वह श्राविका पूतिकाकी पूर्वभवकी सखी थी। पूतिकाके मुखसे यह जानकर उसने कहा कि 'यह जीव पापका भय होनेसे ही जैनमार्ग-जैनधर्मका प्राप्त होता है। इस संसारमें पूर्वभवसे अर्जित पापकर्मके उदयसे विरूपता, रोगीपना, दुर्गन्धता तथा निर्धनता आदि किन्हीं नहीं प्राप्त होती? अर्थात् सभीका प्राप्त होती है इसलिए तू शोक मतकर, तरे द्वारा ग्रहण किये हुए व्रत शील तथा उपवास आदि पर-जन्मके लिए दुर्लभ पाथेय (संबल) के समान है, तू अब भय मत कर।' इस प्रकार उस श्राविकाने उसे खूब उत्साह दिया। तदनन्तर-समाधिमरणकर वह अच्युतेन्द्रकी अतिशय प्यारी देवी हुई। पंचपन पत्य तक वह अस्वण्ड सुखका उपभोग करती रही। वहाँसे च्युत होकर विदर्भ देशके कुण्डलपुर नगरमें राजा वासवकी रानी श्रीमतीसे तू रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई ॥ ३२५-३४१ ॥

रुग्मिष्यथ पुरः कौसलाख्यया भूपतेः सुतः । भेषजस्याभवन्मद्रयो शिशुपालखिलोचनः ॥ ३४२ ॥  
 अभूतपूर्वमेतत्तु मनुष्येष्वस्य किं फलम् । इति भूपतिना वृष्टः स्पष्टं नैमिरिकोऽवदत् ॥ ३४३ ॥  
 तृतीयं नयनं यस्य दर्शनादस्य नश्यति । अयं हनिष्यते तेन संशयो नेत्यहृष्टवित् ॥ ३४४ ॥  
 कदाचिद्भेषजो मद्रौ शिशुपालः परेऽपि च । गत्वा द्वारावतीं द्रष्टुं वासुदेवं समुत्सुकाः ॥ ३४५ ॥  
 अदृश्यतामगाक्षेत्रं जरासन्धारिवीक्षणात् । तृतीयं शिशुपालस्य विचित्रा द्रव्यशक्तयः ॥ ३४६ ॥  
 विशातादेशया मद्रया तद्विलोक्य हरिभिया । ददस्व पूज्य मे पुत्रभिक्षामित्यभ्ययाचत ॥ ३४७ ॥  
 शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्ब मद्रयम् । नास्यास्तीति हरेर्लब्धवरासौ स्वां पुरीमगान् ॥ ३४८ ॥  
 विशुद्धमण्डलो नित्यमुद्यन् ध्वस्तद्विपत्तमाः । पद्माह्लादकरस्नीक्ष्णकरः क्रूरः प्रतापवान् ॥ ३४९ ॥  
 प्रच्छाद्य परतेजासि भूश्रुन्मूर्धस्थपादकः । शैशवे शिशुपालाऽसौ भासते स्मेव भास्करः ॥ ३५० ॥  
 हरिं हरिरिवाक्रम्य विक्रमेणाक्रमेणिना । राजकर्ण्ठीरवत्वेन सोऽवाञ्छद्व्रितितुं स्वयम् ॥ ३५१ ॥  
 दपिणा यज्ञसा विश्वसपिणा स्वायुरपिणा । शतं तेनापराधानां व्यधायि मधुविद्विपः ॥ ३५२ ॥  
 स्वमूर्ध्वांकृत्य मूर्धन्यः कृत्यपक्षोपलक्षितः । अधोक्षजमधिक्षिप्य लक्ष्मीमाक्षेतुमुद्ययौ ॥ ३५३ ॥

तदनन्तर कोशल नामकी नगरांगे राजा भेषज राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम मद्रौ था; उन दोनोंके एक तीन नेत्रवाला शिशुपाल नामका पुत्र हुआ । मनुष्योंमें तीन नेत्रका होना अभूतपूर्व था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्या फल है ? तब पराजकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनेमें इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जावेगा यह उमाके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है ॥३४२-३४४॥ किसी एक दिन राजा भेषज, रानी मद्रौ, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताके साथ श्रीकृष्णके दर्शन करनेके लिए द्वारावती नगरी गये थे वहाँ श्रीकृष्णके देखते ही शिशुपालका तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियाँ विचित्र हुआ करती हैं ॥३४५-३४६॥ यह देख मद्रौको निमित्तज्ञानीकी बात याद आ गई इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णमें वाचना की कि 'हे पूज्य ! मेरे लिए पुत्रभिक्षा दीजिये' ॥३४७॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि 'हे अश्व ! सो अपराध पूर्ण हुए बिना इमे मुझसे भय नहीं है अर्थात् जब तक सो अपराध नहीं हो जावेगा तब तक मैं इमे नहीं माहूँगा' इसप्रकार श्रीकृष्णसे वरदान पाकर मद्रौ अपने नगरको चली गई ॥ ३४८ ॥ इधर वह शिशुपाल वाल-अवस्थामें ही सूर्यके समान देदीप्यमान होने लगा क्योंकि जिस प्रकार सूर्यका मण्डल विशुद्ध होता है उसी प्रकार उमका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह भी विशुद्ध था—विद्वेष रहित था, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार शिशुपाल भी उदित होते ही निरन्तर शत्रुरूपी अन्धकारको नष्ट कर देता था, जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थात् कमलोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी पद्मा अर्थात् लक्ष्मीको आनन्दित करता था, जिस प्रकार सूर्यकी किरण तीक्ष्ण अर्थात् उष्ण होती है उसी प्रकार उसका महसूल भी तीक्ष्ण अर्थात् भारी था, जिस प्रकार सूर्य क्रूर अर्थात् उष्ण होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी क्रूर अर्थात् दुष्ट था, जिस प्रकार सूर्य प्रतापवान् अर्थात् तेजसे सहित होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान् अर्थात् सेना और कोशसे उत्पन्न हुए तेजसे युक्त था और जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थोंके तेजको छिपाकर भूभूत अर्थात् पर्वतके मस्तकपर—शिखर पर अपने पाद अर्थात् किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी अन्य लोगोंके तेजको आच्छादितकर राजाओंके मस्तकपर अपने पाद अर्थात् चरण रखता था । वह आक्रमणकी इच्छा रखनेवाले पराक्रमसे अपने आपको सब राजाओंमें श्रेष्ठ समझने लगा और सिंहके समान, श्रीकृष्णके ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलानेकी इच्छा करने लगा ॥ ३४९-३५१ ॥ इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसारमें फैलनेवाले यशसे उपलक्षित और अपनी आयुको समर्पण करनेवाले उस शिशुपालने श्रीकृष्णके सो अपराध कर डाले ॥ ३५२ ॥ वह अपने आपको ऊँचा-श्रेष्ठ बनाकर सबका शिरोमणि समझता था, सदा करने योग्य कार्योंकी

१ अदृष्टं परोक्षं दैवं वा वेत्ति जानातीति अदृष्टवित् ।

सङ्घः शान्तोऽपि शम्भूणां हन्येवेवावसन्नयः । विजिगीपुस्तमुखेसुं क्षेपकृत् सुमुखवत् ॥ ३५४ ॥  
 एवं प्रयाति काले त्वां शिशुपालाम ते पिता । दानुं समुचतः प्रीत्या तच्छ्रुत्वा युद्धकाङ्क्षिणा ॥ ३५५ ॥  
 नारदेन हरिः सर्वं तत्कार्यमवबोधितः । पङ्कजबलसम्पन्नो गत्वा हत्वा तमूर्जितम् ॥ ३५६ ॥  
 आदाय त्वां महादेवीपट्टबन्धे न्ययोजयन् । श्रुत्वा तद्वचनं तस्याः परितोषः परोऽजनि ॥ ३५७ ॥  
 इत्थं वृषकमाकर्ण्य कः करोति जुगुप्सनम् । मत्वा मलीमसात्रो चेद्यदि दुर्धामुनीश्वरान् ॥ ३५८ ॥  
 अथ जाम्बवती नत्वा मुनि स्वभवसन्ततिम् । पृच्छति स्मादरादेवमुवाच भगवानपि ॥ ३५९ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहेऽस्ति विपयः पुष्कलावती । वीनशोकपुरं तत्र दमको वैश्यवंशजः ॥ ३६० ॥  
 पत्नी देवमतिस्तस्य सुतामीहेविला तयोः । दत्ताऽसौ वसुमित्राय विधवाऽभूदनन्तरम् ॥ ३६१ ॥  
 निर्विण्णा जिनदेवाख्ययतिमेत्याहितव्रता । अगाद्वयन्तरदेवीत्वं मन्दरे नन्दने वने ॥ ३६२ ॥  
 ततश्चतुरर्थास्तुक्तसहस्राद्यायुपदश्च्युतौ । विपये पुष्कलावत्यां पुरे विजयनामनि ॥ ३६३ ॥  
 मधुपेणाख्यवैश्यस्य बन्धुमत्याश्च बन्धुरा । सुता बन्धुयशा नाम बभूवाभ्युदयोन्मुखी ॥ ३६४ ॥  
 जिनदेवभुवा सत्या सहस्री जिनदत्तया । समुपोष्यादिमे कल्पे कुबेरस्याभवत्प्रिया ॥ ३६५ ॥  
 ततश्च्युत्वाऽभवत्पुण्डरीकिण्यां वज्रनामपत्न । वैश्यस्य सुप्रभायाश्च सुमतिः सुतसत्तमा ॥ ३६६ ॥  
 सा तत्र सुव्रताख्यायिकाहारार्पणपूर्वकम् । रत्नावलीमुपोष्याभूद् ब्रह्मलोकेश्वरोवरा ॥ ३६७ ॥  
 चिरात्ततो विनिष्कम्य द्वीपेऽस्मिन् खेचराचले । उदक्छ्रेण्यां पुरे जाम्बवाख्ये जाम्बवभूपतेः ॥ ३६८ ॥  
 अभूत्त्वं जम्बुपेणायाम् सती जाम्बवती सुता । सूनुः पवनवेगस्य श्यामलायाश्च कामुकः ॥ ३६९ ॥

पक्षसे महिन रहता था और श्रीकृष्णको भी लालकारकर उनकी लक्ष्मी ह्रीननेका उद्यम करता था ॥ ३५३ ॥ शान्त हुआ भी शत्रुओंका समूह पापोंके समूहके समान नष्ट कर ही देता है इसलिए विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको समुद्रके समान, शत्रुको नष्ट करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ ३५४ ॥ गणधर भगवान्, महाराणी रुक्मिणीमें कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा था कि इसी बीचमें तेरा पिता तुझे बड़ी प्रसन्नतामें शिशुपालको देनेके लिए उद्यत हो गया । जब युद्धकी चाह रखनेवाले नारदने यह वान्त सुनी तो वह श्रीकृष्णको सब समाचार बतला आया । श्रीकृष्णने छद्म प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस बलवान् शिशुपालको मारा और तुझे लेकर महा-देवीके पट्टपर नियुक्त किया । गणधर भगवान्के यह वचन सुनकर रुक्मिणीको बड़ा दर्प हुआ । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मिणीकी कथा सुनकर दुर्बुद्धिके सिवाय ऐसा कौन मनुष्य हांगा जो कि महासुनियोंको मलिन देखकर उनमें घृणा करेगा ॥ ३५५-३५८ ॥

अथानन्तर—रानी जाम्बवतीने भी बड़े आदरके साथ नमस्कार कर गणधर भगवान्में आपने पूर्वभव पूछे और गणधर भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसके वीनशोक नगरमें दमक नामका वैश्य रहता था ॥ ३५६-३६० ॥ उसकी स्त्रीका नाम देवमति था, और उन दोनोंके एक देविला नामकी पुत्री थी । वह पुत्री वसु-मित्रके लिए दी गई थी परन्तु कुछ समय बाद विधवा हो गई जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराजके पास जाकर व्रत ग्रहण कर लिये और आयुके अन्तमें वह मरकर मेरु पर्वतके नन्दनवनमें व्यन्तर देवी हुई ॥ ३६१-३६२ ॥ तदनन्तर वहाँकी चौरासी हजार वर्षकी आयु समाप्त होनेपर वह वहाँसे चयकर पुष्कलावती देशके विजयपुर नामक नगरमें मधुपेण वैश्यकी बन्धुमनी स्त्रीसे अतिशय सुन्दरी बन्धुयशा नामकी पुत्री हुई । उसका अभ्युदय दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था । वहीपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदत्ता नामकी एक सती थी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्गमें कुबेरकी देवाङ्गना हुई ॥ ३६३-३६५ ॥ वहाँसे चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें वज्रनामक वैश्य और उसकी सुभद्रा स्त्रीके सुमति नामकी उत्तम पुत्री हुई । उसने वहाँ सुव्रता नामकी आर्थिकाके लिए आहार दान देकर रत्नावली नामका उपवास किया, जिससे ब्रह्म स्वर्गमें श्रेष्ठ अप्सरा हुई । बहुत दिन बाद वहाँसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर जाम्बव नामके नगरमें राजा जाम्बव और रानी जम्बुपेणोके तू जाम्बवती

भवत्याः स नमिनांनः मैथुनोऽशिशिलेच्छया । ज्योतिर्वनेऽन्यदा स्थित्वा देया जाम्बवती न चेत् ॥ ३७० ॥  
 आच्छिद्याहं प्रहीष्यामीत्यबोधजाम्बवः क्रुधा । खादितुं प्रेषयामास विद्यां माक्षिकलक्षिताम् ॥ ३७१ ॥  
 तदा नमिकुमारस्य किन्नराख्यपुराधिपः । मातुलो यक्षमाली तामच्छैस्तील्लेचरेववरः ॥ ३७२ ॥  
 सर्वविद्याच्छिदां श्रुत्वा तज्जाम्बवतनृद्धवे । बलेनाक्रम्य सम्प्राप्ते कुमारे जम्बुनामनि ॥ ३७३ ॥  
 पलायत निजस्थानाद्गमिर्भोन्वा समातुलः । अनालोचितकार्याणां किं मुक्त्वान्यत्पराभवम् ॥ ३७४ ॥  
 नारदस्तद्विदित्वाशु सम्प्राप्य कमलोदरम् । वर्णयामास जाम्बवतीरूपमतिसुन्दरम् ॥ ३७५ ॥  
 हठाकृष्णस्तदाकर्ण्य हरिष्यामीति तां सतीम् । सन्नद्धबलसम्पत्त्या गत्वा खगनगान्तिके ॥ ३७६ ॥  
 निविष्टो मनसालोच्य ज्ञान्वा तत्कर्मदुष्करम् । उपोष्याच्चिन्तयद्वाप्तौ केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥ ३७७ ॥  
 प्रसाधितत्रिखण्डोऽपि तत्राभूत्खण्डितायतिः । तद्विपक्षखगोन्द्रस्य पुण्यं किमपि तादृशम् ॥ ३७८ ॥  
 यक्षिलाख्योऽनुजस्तस्य प्राक्तनस्तपसावसन् । महाशुके तदैत्यैते विद्ये द्वे साधयेति ते ॥ ३७९ ॥  
 दत्त्वा तत्साधनोपायमभिधाय गतो दिवम् । स क्षीरसागरं कृत्वा तत्राहिनायने स्थितः ॥ ३८० ॥  
 साधयामास मासांस्ते चतुरो विधिपूर्वकम् । सिंहाद्विवैरिवाहिन्यौ विद्ये हलिहरीं गतौ ॥ ३८१ ॥  
 आरुह्य जाम्बवं युद्धे विजित्यादाय तत्सुताम् । महादेवीपदे प्रीत्या त्वामकार्पीक्षितीडिति ॥ ३८२ ॥  
 श्रुतं वक्तृविशेषेण यद्यप्यस्पष्टतर्कणम् । तद्दृष्टमिव विम्पष्टं सर्वं तस्यास्तदाऽभवत् ॥ ३८३ ॥

नामकी पुत्री हुई। उसी विजयार्थ पर्वतपर पवनवेग तथा श्यामलाका पुत्र नमि रहता था वह रिश्तेमें भाईका साला था और तुम्हें चाहता था। एक दिन वह ज्योतिर्वनमें बैठा था वहाँ तैरे प्रति नीत्र इच्छा होनेके कारण उमने कहा कि यदि जाम्बवती मुझे नहीं दी जावेगी तो मैं उसे छीनकर ले लूँगा। यह सुनकर तैरे पिता जाम्बवको बड़ा क्रोध आ गया। उमने उमे खानेके लिए माक्षिक-लक्षिना नामकी विद्या भेजी। उम समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिकुमारका मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यामान था उमने वह विद्या छेद डाली ॥ ३६६-३७२ ॥ अपनी सब विद्याओंके छेदी जानेकी वान सुनकर राजा जाम्बवने अपना जम्बु नाम पुत्र भेजा। सेनाके साथ आक्रमण करता हुआ जम्बुकुमार जब वहाँ पहुँचा तो वह नमि डरकर अपने मामाके साथ अपने स्थानसे भाग ग्वड़ा हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जो कार्य विना विचारके किये जाते हैं उनका फल पराभवके सिवाय और क्या हो सकता है ? ॥ ३७३-३७४ ॥ नारद, यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास गया और जाम्बवतीके अनिश्चय मुन्दर रूपका वर्णन करने लगा। यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा कि मैं उम सतीको हठात् ( जबरदस्ती ) हरण करूँगा। यह कहकर वे अपनी सेना रूपा सम्पत्तिके साथ चल पड़े और विजयार्थ पर्वतके समीपवर्ती वनमें ठहर गये। बलदेव उनके साथ थे ही। यह कार्य अत्यन्त कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपवासका नियम लिया और रात्रिके समय मनमें विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा। देवों, जिसने तीन खण्ड वशकर लिये ऐसे श्रीकृष्णका भी भविष्य वहाँ खण्डित दिग्बने लगा परन्तु उम विद्याधर राजाके विरोधी श्रीकृष्णका पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था ॥ ३७५-३७८ ॥ कि जिम्से पूर्व जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महाशुके स्वर्गमें देव हुआ था, आया और कहने लगा कि 'मैं ये दो विद्याएँ देना हूँ इन्हें तुम सिद्ध करो' इस प्रकार कह कर तथा विद्याएँ सिद्ध करनेकी विधि बतला कर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्रीकृष्ण क्षीरसागर वनाकर उममें नागशय्यापर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक चार माह तक विद्याएँ सिद्ध करते रहे। अन्तमें बलदेवको सिंहवाहिनी और श्रीकृष्णको गरुड़वाहिनी विद्या सिद्ध हो गई। तदनन्तर उन विद्याओं पर आरूढ़ होकर श्रीकृष्णने युद्धमें जाम्बवको जीता और उसकी पुत्री तुम्हें जाम्बवती को ले आये। घर आकर उन्होंने तुम्हें बड़ी प्रीतिके साथ महादेवीके पद पर नियुक्त किया ॥ ३७९-३८२ ॥ यद्यपि पूर्व जन्मका वृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेषके मुखसे सुननेके कारण वह सबका सब जाम्बवतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया ॥ ३८३ ॥

अथानन्तरमेवैतं मुनीन्द्रं गणनायकम् । सुसीमा भवसम्बन्धमात्मनः पृच्छति स्म सा ॥ ३८४ ॥  
 स्ववाक्किरणजालेन बोधयस्तन्मनोग्भुजम् । इत्युवाच विनेयानां निनिमित्तैकबान्धवः ॥ ३८५ ॥  
 धातकीखण्डपूर्वार्ध-प्राग्विदेहेऽतिविश्रुतः । भोगाङ्गमङ्गिनामेको विषयो मङ्गलावती ॥ ३८६ ॥  
 रत्नसञ्चयनामात्रं पुरं तत्प्रतिपालकः । विश्वदेवः प्रियास्यासीद्देवी १धीमत्यनुन्दरी ॥ ३८७ ॥  
 तमयोध्यापतौ युद्धे हतवत्यनिशोकतः । सा मन्त्रिभिनिषिद्धापि प्रविश्य हुतभोजिनम् ॥ ३८८ ॥  
 विजयार्थं सुरी भूत्वा च्यन्तरेष्वयुतायुषा । जीवित्वा तत्र तस्यान्ते भवे ध्रान्त्वा यथोचितम् ॥ ३८९ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते शालिग्रामे यक्षस्य गेहिनी । देवसेनानयोर्यक्षदेवी जाता सुता सुधीः ॥ ३९० ॥  
 कदाचिद् १मसेनाख्यमुनिं संश्रित्य सद्ब्रता । मासोपवासिने तस्मै दत्त्वा कायस्य सुस्थितिम् ॥ ३९१ ॥  
 सा कदाचिद्धने रन्तुं गत्वा वर्षभयाद् गुहाम् । प्रविष्टाऽजगरागीर्णा हरिवर्षे तनुं श्रिता ॥ ३९२ ॥  
 निविश्य तद्गतान् भोगान् नागी जाता ततश्च्युता । च्युता ततो विदेहेऽस्मिन् पुष्कलावत्युदीरिते ॥ ३९३ ॥  
 विषये पुण्डरीकिण्यामशोकाख्यमहीपतेः । सोमश्रियश्च श्रीकान्ता सुता भूत्वा कदाचन ॥ ३९४ ॥  
 जिनदत्तायिकोपान्ते दीक्षामादाय सुव्रता । तपस्यन्ती चिरं घोरमुपोष्य कनकावलीम् ॥ ३९५ ॥  
 माहेन्द्रं दिविजीभूत्वा मुक्त्वा भोगान्दिवीकसाम् । आयुरन्ते ततश्च्युत्वा सुज्येष्ठायां सुताऽभवः ॥ ३९६ ॥  
 सुराष्ट्रवर्धनाख्यस्य नृपस्य त्वं सुलक्षणा । हरेर्देवी प्रमोदेन वर्षसे वहुभा सती ॥ ३९७ ॥  
 स्वभवान्तरसम्बन्धमाकर्ण्यैवाप संमदम् । को न गच्छति सन्तोषमुचरोत्तरवृद्धितः ॥ ३९८ ॥  
 लक्ष्मणापि मुनिं नत्वा शुश्रूषुः स्वभवानभूत् । अभापतैवमेतस्याश्रिकांर्षुः सोऽप्यनुग्रहम् ॥ ३९९ ॥

अथानन्तर—इन्हीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार कर मुसीमा नामकी पट्टरानी अपने पूर्व भवोंका सम्बन्ध पृच्छने लगी ॥ ३८४ ॥ तब शिष्यजनोके अकारण बन्धु गणधर भगवान् अपने वचन रूपी किरणोके समूहमें उसके मनरूपी कमलको प्रफुल्लित करने हुए इस प्रकार कहने लगे ॥ ३८५ ॥ धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वार्ध भागके पूर्व विदेहमें एक अनिशय प्रसिद्ध मङ्गलावती नामका देश है जो प्राणियोंके भोगोपभोगका एक ही साधन है । उसमें रत्नसंचय नामका एक नगर है । उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शांभासम्पन्न अनुन्दरी नामकी रानी थी ॥ ३८६-३८७ ॥ किसी एक दिन अयोध्याके राजाने राजा विश्वदेवको मार डाला इसलिए अत्यन्त शोकके कारण मंत्रियोंके निषेध करनेपर भी वह रानी अग्निमें प्रवेश कर जल मरी । मर कर वह विजयार्थ पर्वत पर दश हजार वर्षकी आयु वाली च्यन्तर देवी हुई । वहाँकी आयु पूर्ण होनेपर वह अपने कर्मोंके अनुसार संसारमें भ्रमण करनी रही । तदनन्तर किसी समय इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी शालिग्राममें यक्षकी स्त्री देवसेनाके यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई ॥ ३८८-३८९ ॥ किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनिके पास जाकर व्रत ग्रहण किये और एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजको उसने आहार दिया ॥ ३९० ॥ यक्षदेवी किसी दिन क्रीड़ा करनेके लिए वनमें गई थी । वहाँ अचानक बड़ी वर्षा हुई । उसके भयसे वह एक गुफामें चली गई । वहाँ एक अजगरने उसे निगल लिया जिससे हरिवर्ष नामक भोग-भूमिमें उत्पन्न हुई । वहाँके भोग भोगकर नागकुमारी हुई । फिर वहाँसे चय कर विदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक और सोमश्री रानीके श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई । किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा लेकर अच्छे-अच्छे व्रतोंका पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की और कनकावली नामका घोर उपवास किया ॥ ३९१-३९५ ॥ इन सबके प्रभावसे वह माहेन्द्र वर्गमें देवी हुई, वहाँ देवोंके भोग भोगकर आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत हुई और सुराष्ट्रवर्धन राजाकी रानी सुज्येष्ठाके अच्छे लक्षणोंवाली तू पुत्री हुई है और श्रीकृष्णकी पट्टरानी होकर आनन्दसे बढ़ रही है ॥ ३९६-३९७ ॥ इस प्रकार अपने भवान्तरोंका सम्बन्ध सुनकर मुसीमा रानी हर्षको प्राप्त हुई सो ठीक ही है क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर वृद्धिको सुन कर कौन संतोषका प्राप्त नहीं होता ? ॥ ३९८ ॥

अथानन्तर—महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराजको नमस्कार कर अपने भव सुननेकी इच्छा

इह पूर्वविदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती । तत्रारिष्टपुराधीशो वासवस्य महीपतेः ॥४००॥  
 वसुमत्यामभूत्सुनुः सुषेणाख्यां गुणाकरः । केनचिज्जातनिर्वेगो वासवो निकटेऽग्रहीत् ॥४०१॥  
 दीक्षां सागरसेनस्य तत्प्रिया सुतमोहिता । गोहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेष्टया ॥४०२॥  
 मृत्वा पुलिन्दी सञ्जाता साम्येद्युर्नन्दिवर्धनम् । मुनिं चारणमाश्रित्य गृहीतोपासकव्रता ॥४०३॥  
 मृत्वा जाताष्टमे कल्पे नर्तकीन्द्रस्य हृत्प्रिया । अवतीर्य ततो द्वीपे भरतेऽस्मिन् खगाचले ॥४०४॥  
 खगोशो दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिनः । महेन्द्रस्य सुतानुन्दर्याश्च नेत्रमनोहरा ॥४०५॥  
 मालान्तकनका सिद्धविद्या ख्याते स्वयंवरे । मालया स्वीचकारासौ कुमारं हरिवाहनम् ॥४०६॥  
 अन्येद्युः सिद्धकूटस्थगुरुं यमधराह्वयम् । समुपेत्य समाकर्ण्य स्वभवान्तरसन्ततिम् ॥४०७॥  
 मुक्तावलीसुषोष्यासीत्तृतीयेन्द्रमनःप्रिया । नवपल्योपमायुष्का कालान्तेऽसौ ततश्च्युता ॥४०८॥  
 सुप्रकारपुराधीशः शम्बराख्यमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुताऽऽसीत्स्वै श्रुपद्मध्रुवसेनयोः ॥४०९॥  
 कनीयसी गुणैर्ज्यैष्ठा लक्ष्मणा सर्वलक्षणा । तां त्वां पवनवेगाख्यखेचरः कमलोदरम् ॥४१०॥  
 समुपेत्य रथाङ्गंश वायुसार्गस्य निर्मला । लसन्ती चन्द्रलेखेव तव योग्या ख्वगेशिनः ॥४११॥  
 \*तनया लक्ष्मणा कामोद्दीपनेति जगाद् सः । तद्वचःश्रवणानन्तरं त्वमेवानयेति तम् ॥४१२॥  
 प्रेषयामास कंसारिः सोऽपि गत्वा विलम्बितम् । त्वत्पित्रोरनुमित्या त्वामर्पयामास चक्रिणे ॥४१३॥  
 तेनापि पट्टवन्धेन त्वमेवमसि मानिता । इति श्रुत्वात्मजन्मान्तरावलिं साऽगमन्मुदम् ॥४१४॥  
 गान्धारीगौरीपद्मावतीनां जन्मान्तरावलिम् । गणीन्द्रो वासुदेवेन पट्टोऽसावित्यभाषत ॥४१५॥

करने लगी और इसका अनुग्रह करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे । इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती नामका देश है । उसके अरिष्टपुर नगरमें राजा वासव राज्य करता था । उसकी वसुमती नामकी रानी थी और उन दोनोंके समस्त गुणोंकी खान स्वरूप सुषेण नामका पुत्र था । किसी कारणसे राजा वासवने विरक्त होकर सागरसेन मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली परन्तु रानी वसुमती पुत्रके प्रेममें मोहित होनेके कारण गृहवास छोड़नेके लिए समर्थ नहीं हो सकी इसलिए कुचेष्टासे मरकर भीतनी हुई । एक दिन उसने नन्दिवर्धन नामक चारण मुनिके पास जाकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥३६६-४०३॥ मर कर वह आठवें स्वर्गमें इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी हुई । वहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरके राजा महेन्द्रकी रानी अनुन्दरीके नेत्रोंका प्रिय लगनेवाला कनकमाला नामकी पुत्री हुई और सिद्ध-विद्या नामके स्वयंवरमें माला डालकर उसने हरिवाहनको अपना पति बनाया ॥ ४०४-४०६ ॥ किसी एक दिन उसने सिद्धकूटपर विराजमान यमधर नामक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवोंकी परम्परा सुनी । तदनन्तर मुक्तावली नामका उपवासकर तीसरे स्वर्गकी प्रिय इन्द्राणी हुई । वहाँ नौ कल्पकी उसकी आयु थी, आयुके अन्तमें वहाँसे चयकर सुप्रकारनगरके स्वामी राजा शम्बरकी श्रीमती रानीसे पुत्री हुई है । तू भी पद्म और ध्रुवसेनकी छोटी बहिन है, गुणोंमें ज्येष्ठ है, सर्व लक्षणोंसे युक्त है और लक्ष्मणा तेरा नाम है । किसी एक दिन पवनवेग नामका विद्याधर श्रीकृष्णके समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रपते ! विद्याधरोंके राजा शम्बरके एक लक्ष्मणा नामकी पुत्री है जो आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी कलाकी तरह गुशाभित है, कामको उद्दीपित करनेवाली है और आपके योग्य है । पवनवेगके वचन सुनकर श्रीकृष्णने 'तो तूही उसे ले आ' यह कहकर उसे ही भेजा और वह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता-पिताकी स्वीकृतिसे तुझे ले आया तथा श्रीकृष्णको समर्पित कर दी ॥ ४०७-४१३ ॥ कृष्णने भी महादेवीका पट्ट बाँधकर तुझे इस प्रकार सन्मानित किया है । इस तरह अपने भवान्तर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई ॥ ४१४ ॥

तदनन्तर—श्रीकृष्णने गान्धारी, गौरी और पद्मावतीके भवान्तर पूछे । तब गणधरदेव इ-



इह जम्बूमति द्वीपे विषयोऽस्ति सुकौशलः । तत्रायां ध्यापुरार्धीशो रुद्रनाम्नो मनोरमा ॥४१६॥  
 विनयश्रीरिति ख्याता सिद्धार्थोख्यवनेऽन्यदा । बुद्धार्थमुनये दत्तादाना स्वायुःपरिक्षये ॥४१७॥  
 उदक्कुरुषु निर्विष्टभोगा तस्मान्परिच्युता । इन्दोऽन्द्रवती देवी भूत्वाऽतोऽप्यायुषोवधौ ॥४१८॥  
 द्वीपेऽत्र खगभूभर्तुरपाक्लृष्यां खगेशिनः । विद्युद्वेगस्य सहीसेः पुरे गगनवल्लभे ॥४१९॥  
 सुरूपाख्यमुता विद्युद्वेगायामजनिष्ट सा । नित्यालोकपुरार्धीशे विद्याविक्रमशालिने ॥४२०॥  
 महेन्द्रविक्रमायैषा दत्तान्येद्युर्मरुद्गिरिम् । तौ गतौ चैत्यगेहेषु जिनपूजार्थमुत्सुकौ ॥४२१॥  
 विनीतचारगास्थेन्दुसूतं धर्ममिवाभ्युत्तम् । पीत्वा श्रवणयुग्मेन परां वृक्षमिवापतुः ॥४२२॥  
 तयोर्नरपतिर्दाक्षामादात्तच्छारणान्तिके । सुभद्रापादमासाद्य सापि संयममाददे ॥४२३॥  
 सौधर्मकलणे देवी त्वमुपगम्योपसञ्चित- । स्वायुःपल्योपमप्रान्ते क्रमास्त्रिष्कस्य तद्रतेः ॥४२४॥  
 गान्धारीविषये पुष्कलावतीनगरेऽशितुः । नृपस्येन्द्रगिरेर्मैरुमत्याश्च तनयाऽभवत् ॥४२५॥  
 गान्धारीत्याख्यया ख्याता प्रदातुर्मैथुनाय ताम् । पितुः पापमतिः श्रुत्वा प्रारम्भं नारदस्तदा ॥४२६॥  
 सद्यस्तामेव्य तत्कर्म न्यगदज्जगदप्रियः । तदुक्तानन्तरं प्रेमवशः सन्नद्धसैन्यकः ॥४२७॥  
 युद्धे भङ्गं विधायेन्द्रगिरेश्चान्यमहीभुजाम् । आदाय तां महादेवीपट्टशैवं त्वया कृतः ॥४२८॥  
 अथ गौरीभवं चैवं वदामि श्रणु साधव । अन्ति द्वीपेऽत्र विख्यातं पुञ्जागल्यपुरं पुरु ॥४२९॥  
 पालकस्तस्य हेमाभो देवी तस्य यशस्वती । साऽन्येद्युश्चारणं दृष्ट्वा यशोधरमुनीश्वरम् ॥४३०॥  
 स्मृतपूर्वभवा राज्ञा पट्टैवं प्रत्यभापत । स्वभवं दशनोद्दीप्या स्नापयन्ती (स्नपयन्ती) मनोरमम् ॥४३१॥

प्रकार कहने लगे ॥४१६॥ इसी जम्बूद्वीपमें एक सुकौशल नामका देश है । उसकी अयोध्या नगरीमें रुद्र नामका राजा राज्य करता था और उसकी विनयश्री नामकी मनोहर रानी थी । किसी एक दिन उस रानीने सिद्धार्थ नामक वनमें बुद्धार्थ नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया जिससे अपनी आयु पूरी होनेपर उत्तरकुरु नामक उत्तम भागभूमिमें उपन्न हुई । वहाँके भाग भागकर च्युत हुई तो चन्द्रमाकी चन्द्रवती नामकी देवी हुई । आयु समाप्त होनेपर वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर गगनवल्लभ नगरमें विद्याधरोके कान्तिमान् राजा विद्युद्वेगकी रानी विद्युद्वेगाके सुरूपा नामकी पुत्री हुई । वह विद्या और पराक्रमसे सुशोभित, नित्यालोक पुरके स्वामी राजा महेन्द्रविक्रमके लिए दी गई । किसी एक दिन वे दोनों दम्पति चैत्यालयोंमें जिनेंद्र भगवानकी पूजा करनेके लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वतपर गये ॥ ४१६-४२१ ॥ वहाँपर विराजमान किन्ही चारणऋद्धिधारी मुनिके मुखरूपी चन्द्रमासे भरे हुए अमृतके समान धर्मका दोनों कानोंसे पानकर वे दोनों ही परमहंसिको प्राप्त हुए ॥ ४२२ ॥ उन दोनोंमेंसे राजा महेन्द्रविक्रमने तो उन्हीं चारण मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली और रानी सुरूपाने सुभद्रा नामक आर्थिकाके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया ॥ ४२३ ॥ आयु पूर्णकर मोक्षधर्म स्वर्गमें देवी हुई, जब वहाँकी एक पल्य प्रमाण आयु पूरी हुई तो वहाँसे च्युत गान्धार देशकी पुष्करावती नगरीके राजा इन्द्रगिरि-की मेरुमती रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है । राजा इन्द्रगिरि इसे अपनी बूआके लड़केको देना चाहता था, जब यह बात जगतकी अप्रिय पापबुद्धि नारदने मुनी तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी । सुनते ही तू भी प्रेमके वश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चल पड़ा । युद्धमें राजा इन्द्रगिरि और उसके सहायक अन्य राजाओंको पराजितकर इस गान्धारीको ले आया और फिर इसे महादेवीका पट्टबन्ध प्रदान कर दिया—पट्टरानी बना लिया ॥ ४२४-४२८ ॥

अथानन्तर—गणधर भगवान् कहने लगे कि अब मैं गौरीके भव कहता हूँ सो हे कृष्ण तू सुन ! इसी जम्बू द्वीप में एक पुञ्जागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है । उसकी रक्षा करनेवाला राजा हेमाभ था और उसकी रानी यशस्वती थी । किसी एक दिन यशोधर नामके चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूर्व भवोंका स्मरण हो आया । राजाके पूछनेपर वह अपने दांतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्वभव कहने लगी ॥ ४२९-४३१ ॥

धातकीखण्डप्राक्मन्दरापरस्थविदेहगम् । नाम्नाशोकपुरं तत्र वास्तव्यो ऋणिजां वरः ॥४३२॥  
 आनन्दस्तस्य भार्यायां जातानन्दयशःश्रुतिः । दत्त्वा जात्वमिताद्युक्तिसागराय तनुस्थितम् ॥४३३॥  
 आश्वर्यपञ्चकं प्राप्य तत्पुण्याजीवितावधौ । उदक्कुरुषु सम्भूय भुक्त्वा तत्र सुखं ततः ॥४३४॥  
 भूत्वा भवनवासीन्द्रभार्येहास्मीति सम्मदात् । ततः कदाचित्सिद्धार्थवने सागरसञ्चकम् ॥४३५॥  
 गुरुमाश्रित्य सम्भावितोपवासा भवावधौ । देवी जाताऽऽदिमे कल्पे तत्र निर्बलितस्थितिः ॥४३६॥  
 द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशाख्यां सुमतिश्रेष्ठिनोऽभवत् । सुभद्रायां सुता धार्मिकीति संशब्दिता जनैः ॥४३७॥  
 पुनर्जिनमतिश्रान्तिदशां जिनगुणादिकाम् । सम्पत्तिं साधु निर्माप्य महाशुक्रेऽभवत्सुरी ॥४३८॥  
 चिरात्ततो विनिर्गत्य वीतशोकपुरेशिनः । महीशो मेरुचन्द्रस्य चन्द्रवत्यामजायत ॥४३९॥  
 गौरीति रूपलावण्यकान्त्यादीनामसौ खनिः । विजयाख्यपुराधीशो विशुर्विजयनन्दनः ॥४४०॥  
 वत्सलस्तुभ्यमानोय तामदश त्वयापि सा । पट्टे<sup>१</sup> नियोजितेत्याख्यरातो हरिरिगान्मुदम् ॥४४१॥  
 ततः पद्मावतीजन्मसम्बन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदित्थं जनमनोहरम् ॥४४२॥  
 अस्मिन्नेवोज्जयिन्याख्यनगरीनायको नृपः । विजयस्तस्य विक्रान्तिरिव देव्यपराजिता ॥४४३॥  
 विनयश्रीः सुता तस्या हस्तशीर्षपुरेशिनः । हरिपेणस्य देव्यासीदत्त्वा दानमसौ मुदा ॥४४४॥  
 समाधिगुप्तयोगीशो भूत्वा हैमवते चिरम् । भुक्त्वा भोगान्भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४५॥  
<sup>१</sup>पल्योपमायुष्कालान्ते विषये मगधाभिधे । वसतः शाल्मलिग्रामे पद्मदेवी सुताऽजनि ॥४४६॥  
 सती विजयदेवस्य देविलायां कदाचन । वरधर्मयतेः सन्निधाने सा व्रतमग्रहीत् ॥४४७॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिमकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसमें एक अशोकपुर नामका नगर है । उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था उसकी स्त्रीके एक आनन्दयशा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । किसी समय आनन्दयशाने अमितसागर मुनिराजके लिए आहार दान देकर पञ्चाश्वर्य प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे वह आयु पूर्ण होनेपर उत्तरकुरुमें उत्पन्न हुई, वहाँके सुख भोगनेके बाद भवनवासियोंके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई और वहाँसे च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई है । इस प्रकार रानी यशस्वतीने अपने पति राजा हमामके लिए बड़े हर्षसे अपने पूर्वभव सुनाये । तदनन्तर, रानी यशस्वती किसी समय सिद्धार्थ नामक वनमें गई, वहाँ सागरसेन नामक मुनिराजके पास उसने उपवास ग्रहण किये । आयुके अन्तमें मरकर प्रथम स्वर्गमें देवी हुई । तदनन्तर वहाँकी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूद्वीपकी कौशाख्या नगरीमें सुमति नामक सेठकी सुभद्रा नामकी स्त्रीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हुई ॥ ४३२-४३७ ॥ यहाँपर उसने जिनमति आर्थिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके व्रतका अच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर महाशुक स्वर्गमें देवी हुई । बहुत समय बाद वहाँसे चयकर वीतशोकनगरके स्वामी राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य और कान्ति आदिकी खान यह गौरी नामकी पुत्री हुई है । स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयनन्दनने यह लाकर तुम्हे दी है और तूने भी इसे पट्टरानी बनाया है । इस प्रकार गणधर भगवान्ने गौरीके भवान्तर कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हर्षको प्राप्त हुए ॥ ४३८-४४१ ॥

तदनन्तर-गुणोंकी खान, गणधर देव, लोगोंका मन हरण करने वाले पद्मावती के पूर्व भवों का सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥ ४४२ ॥ इसी भरतक्षेत्रकी उज्जयिनी नगरीमें राजा विजय राज्य करता था उसकी विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानी थी । उन दोनोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी । वह हस्तशीर्षपुरके राजा हरिपेणको दी गई थी । विनयश्रीने एक बार समाधिगुप्त मुनिराजके लिए बड़े हर्षसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे वह हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । चिरकाल तक वहाँके भोग भोगकर आयुके अन्तमें वह चन्द्रमाकी रोहिणी नामकी देवी हुई । जब एक पल्य प्रमाण वहाँकी आयु समाप्त हुई तब मगध देशके शाल्मलि

अविज्ञातफलाभक्षणं कृच्छ्रेऽपि दृढव्रता । वनेचरैः कदाचित्सु प्रामोऽवस्कन्दघातिभिः ॥ ४४८ ॥  
 विलोपितस्तदापद्मदेवीं सिंहस्थाङ्गयान् । नीत्वा महादर्वीं सर्वे जनाः क्षुत्परिपीडिताः ॥ ४४९ ॥  
 विषवह्नीफलान्याशु भक्षयित्वा मृतिं ययुः । व्रतभङ्गभयात्तानि सा विहायाहृतेविना ॥ ४५० ॥  
 मृत्वा हैमवते भूत्वा जीवितान्ते ततश्च्युता । द्वीपे स्वयंप्रभे जाता देवी सद्यः स्वयंप्रभा ॥ ४५१ ॥  
 स्वयंप्रभाख्यदेवस्य ततो निर्गत्य सा पुनः । द्वीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे जयन्तपुरभूपतेः ॥ ४५२ ॥  
 श्रीधरस्य सुता भूत्वा श्रीमत्यां सुन्दराकृतिः । विमलश्रीरभूत्पूर्णा भद्रिलाख्यपुरेशिनः ॥ ४५३ ॥  
 नृपस्य मेघनादस्य सर्माप्सितसुखप्रदा । राजा धर्ममुनेस्त्यक्त्वा राज्यं प्रव्रज्य शुद्धधीः ॥ ४५४ ॥  
 जानो व्रतधरस्तस्मिन्सहस्रारपत्नीं सति । अष्टादशसमुद्रायुर्भाजिभासुरदीधितौ ॥ ४५५ ॥  
 साऽपि पद्मावतीक्षान्तिं सम्प्राप्यादाय संयमम् । आचाम्लवर्धनामानं समुपोप्यायुषावधौ ॥ ४५६ ॥  
 तत्रैव कल्पे देवीत्वं प्रतिपद्य निजायुषः । प्रान्तेऽरिष्टपुरार्धाशः श्रीमत्यां तनयाऽजनि ॥ ४५७ ॥  
 हिरण्यवर्मणः पद्मावतीत्येषा स्वयंवरः । सम्भाव्य सम्भृतस्नेहा भवन्तं रत्नमालया ॥ ४५८ ॥  
 १ शीलावहा महादेवीपट्टं प्रापदिति स्फुटम् । तास्तिस्त्रांपि स्वजन्मानि श्रुत्वा मुदमयुर्हरैः ॥ ४५९ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

इत्युच्छ्रंगणनायको गुणनिधिः प्रस्पष्टमृष्टाक्षरैः

साक्षात्कृत्य भवावलीविलसितं व्यावर्णयन्निर्णयम् ।

१ साध्वाकर्ण्य चिरं सुखासुखमयीः २ स्वेष्टाष्टदेवाकथाः ३

सन्तुष्टिं स मुरारिरार ४ सुतरां प्रान्ते प्रवृद्धिप्रदाः ॥ ४६० ॥

गांवमें रहनेवाले विजयदेवकी देविला स्त्रीसे पद्मदेवी नामकी पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय धर्म नामक मुनिराजके पास 'मैं कष्टके समय भी अनजाना फल नहीं खाऊँगी' ऐसा वृद्धव्रत लिया। किसी एक समय आक्रमणकर घात करनेवाले भीलोंने उस गांवको लूट लिया। उस समय सब लोग, भीलोंके राजा सिंहस्थके डरसे पद्मदेवीको महाअदर्वीमें ले गये। वहाँ भूखसे पीड़ित होकर सब लोगोंने विषफल खा लिये जिससे वे शीघ्रही मर गये परन्तु व्रतभङ्गके डरसे पद्मदेवीने उन फलोंको छुआ भी नहीं इसलिए वह आहारके बिना ही मरकर हैमवत क्षेत्र नामक भोगभूमिमें उतपन्न हुई। आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे चयकर स्वयंप्रभद्वीपमें स्वयंप्रभ नामक देवकी स्वयंप्रभा नामकी देवी हुई। वहाँसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें वहाँके राजा श्रीधर और रानी श्रीमतीके सुन्दर शरीरवाली विमलश्री नामकी पुत्री हुई। वह भद्रिलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित मुख देनेवाली रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धिके धारक राजा मेघनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराजके समीप व्रत धारण कर लिया जिससे वह सहस्रार नामक स्वर्गमें अठारह सागरकी आयुवाला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया। इधर रानी विमलश्रीने भी पद्मावती नामक आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आचाम्लवर्ध नामका उपवास किया जिसके फलस्वरूप वह आयुके अन्तमें उसी सहस्रार स्वर्गमें देवी हुई और आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर अरिष्टपुर नगरके स्वामी राजा हिरण्यवर्माकी रानी श्रीमतीके यह पद्मावती नामकी पुत्री है। इसने स्नेहसे युक्त हो स्वयंवरमें रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया और तदनन्तर इस शीलवतीने महादेवीका पद प्राप्त किया। इस प्रकार गणधर भगवान्के मुखारविन्दसे अपने-अपने भय मुनकर श्रीकृष्णकी गौरी, (गान्धारी और पद्मावती नामकी तीनों रानियों) हर्षको प्राप्त हुई ॥ ४४३-४५६ ॥ इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने स्पष्ट और मिष्ट अक्षरोंके द्वारा पूर्व भवावलीसे सुशोभित निर्णयका साक्षान् वर्णन कर दिखाया और श्रीकृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुख-दुःखभरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्तमें

## वसन्ततिलका

देव्योऽपि दिव्यवचनं मुनिपुङ्गवस्य  
 भङ्गावहं बहुभवात्तनिजांहसां तत् ।  
 कृत्वा हृदि प्रमुदिताः पृथुशर्मसारे  
 धर्मेऽर्हन्तो हिततमे स्वमतिं प्रतेनुः ॥ ४६१ ॥

## मालिनी


नहि हितमिह किञ्चिद्धर्ममेकं विहाय  
 व्यवसितमसुमद्भ्यो धिग्विसुगधात्मवृशाम् ।  
 इति विहितवितर्काः सर्वसभ्याश्च धर्मं  
 समुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम् ॥ ४६२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर-  
 व्यावर्णनं नामैकसप्ततितमं पर्व ॥ ७१ ॥

- १०१३१०४

प्रवृत्ति प्रदान करनेवाले संतोपको प्राप्त हुए ॥ ४६० ॥ वे देवियाँ भी अनेक जन्ममें कमाये हुए अपने पापोंका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवान्के दिव्य वचन हृदयमें धारण कर बहुत प्रसन्न हुईं और सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करनेवाले अर्हन्त भगवान्के धर्ममें अपनी बुद्धि लगाई ॥ ४६१ ॥ 'इस संसारमें एक धर्मको छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियोंका कल्याण करनेवाला नहीं है, धर्म रहित मूर्ख जीवोंका जांचरित्र है उसे धिक्कार है' इस प्रकार विचार करते हुए सब समासदोंने पाप रहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवान्का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया ॥ ४६२ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके नेमि-  
 चरित्र प्रकरणमें भवान्तरोंका वर्णन करनेवाला इकहत्तरवां पर्व समाप्त हुआ ॥ ७१ ॥



## द्विसप्ततितमं पर्व

अथ 'स्वज्ञानपूर्वञ्च जगत्त्रयसभावनी । प्रकाशयितुकामेन बलदेवेन धीमता ॥ १ ॥  
 प्रद्युम्नसम्भवोत्पत्तिसम्बन्धः पृच्छयते स्म सः । नरदराग<sup>१</sup>णेन्द्रांस्तु रुद्रतुद्धयेत्थमब्रवीत् ॥ २ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्मगधे<sup>२</sup> देशे शालिग्रामनिवासिनः । द्विजस्य सोमदेवस्य भार्याऽभूदप्रिलाख्यया ॥ ३ ॥  
 अभिभूतिरभूत्सूनुर्वायुभूतिस्तयोरनु । तावन्येषुः पुरे नन्दिवर्धनाख्ये मनोहरे ॥ ४ ॥  
<sup>५</sup>नन्दने नन्दिघोषाख्ये वने मुनिमपश्यताम् । नन्दिवर्धननामानं मुनिसङ्घविभूषणम् ॥ ५ ॥  
 दुष्टावुपागतौ दृष्ट्वा तौ मुनीन्द्रोऽब्रवीन्मुनीन् । त्रिसंवदितुमायातावेतौ मिथ्यात्वकूपितौ ॥ ६ ॥  
 भवद्भिः कैश्चिदप्याभ्यां नकार्यां सह सङ्कथा । एतन्नित्यन्धनो<sup>६</sup> भूयानुपसर्गो भविष्यति ॥ ७ ॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा गुरुशासनकारिणः । मौनघृतेन सर्वेऽपि स्थिताः संयमिनस्तदा ॥ ८ ॥  
 दृष्ट्वा तावेत्य सर्वेषां मूकीभूय व्यवस्थितिम् । कृतापहासौ स्वं ग्रामं गच्छन्तावशितुं गतम् ॥ ९ ॥  
 ग्रामान्तरात्समायातं मुनिमालोक्य सत्यकम् । तत्समीपमहङ्कारप्रेरितानुपगम्य तम् ॥ १० ॥  
 नास्याप्तं नागमो नैव पदार्थो<sup>७</sup> नग्न केवलम् । किं क्लिश्नासि वृथोन्मार्गं मूढो दृष्टविनाशिनि ॥ ११ ॥  
 इत्यप्यक्षिपतां सोऽपि जिनवक्त्रविनिर्गतम् । विवक्षितेतरानेकस्वरूपान्तसमाश्रयम् ॥ १२ ॥  
 द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं कथयन्तं सहेतुकम् । स्याद्वादमवलम्ब्योच्चैस्तत्प्रणेतृप्रमाणताम् ॥ १३ ॥  
 प्रसाध्यादृष्टभागेऽपि तदुक्तागमं सुस्थितिम् । निरूप्य वादकण्डूनिमपनीय दुरात्मनोः ॥ १४ ॥

अथानन्तर—तीनों जगन्की सभाभूमि अर्थात् समवसरणमें अपने पूर्वभव जानकर बुद्धिमान बलदेवने सबको प्रकट करनेके लिए प्रद्युम्नकी उत्पत्तिका सम्बन्ध पूछा सो वरदा गणधर अनुग्रहकी बुद्धिमें इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ इसी जम्बूद्वीपके मगधदेशे सम्बन्धी शालिग्राममें रहनेवाले सोमदेव ब्राह्मणकी एक अग्रिला नामकी स्त्री थी ॥ ३ ॥ उन दोनोंके अभिभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नन्दिवर्धन नामके दूसरे मुन्दर गाँवमें गये । वहाँ उन्होंने नन्दिघोष नामके वनमें, मुनि संघके आभूषणस्वरूप नन्दिवर्धन नामके मुनिराजके दर्शन किये ॥ ४-५ ॥ उन दोनों दुष्टोंको आया हुआ देख, मुनिराजने संघके अन्य मुनियोंसे कहा कि 'ये दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं और त्रिसंवाद करनेके लिए आये हैं अतः आप लोगोंमेंसे कोई भी इनके साथ बातचीत न करें । अन्यथा इस निमित्तसे भारी उपसर्ग होगा' ॥ ६-७ ॥ शासन करनेवाले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय मौन लेकर बैठ गये ॥ ८ ॥ वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियोंको मौनी देखकर उनकी हँसी करते हुए अपने गाँवको जा रहे थे कि उन मुनियोंमेंसे एक सत्यक नामके मुनि आहार करनेके लिए दूसरे गाँवमें गये थे और लौटकर उस समय आ रहे थे । अहंकारसे प्रेरित हुए दोनों ब्राह्मण उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा पहुँचे और कहने लगे कि 'अरे नंगे ! न तो कोई आप है, न आगम है, और न कोई पदार्थ ही है फिर क्यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले इस उन्मार्गमें व्यर्थ ही क्लेश उठा रहा है' । इस प्रकार उन दोनोंने उक्त मुनिका बहुत ही तिरस्कार किया । मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवान्के मुखकमलसे निकले विवक्षित तथा अविचक्षित रूपसे अनेक धर्मोंका निरूपण करनेवाले, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्त्वका हेतु सहित कथन करनेवाले अतिशय उत्कृष्ट स्याद्वादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले आप्तकी प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई तथा परोक्ष तत्त्वके विषयमें भी उन्हीं आप्तके द्वारा कथित आगमकी समीचीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणोंकी वाद करनेकी खोजली दूर की एवं विद्वज्जनोंके

१ तद्ज्ञान-ल० । २ गणीन्द्रो ख० । ३ मगधे ख० । ४ नन्दान ल० । ५ मुनि सङ्घ ल० । ६ निबन्धतो ल० । ७ नाश ल० । ८ सहेतुकम् ल० । ९ संस्थितिम् ल० ।

तयोर्जयध्वजं प्रापद्विद्वज्जनसमपितम् । तौ मानभङ्गसम्भूतक्रोधौ निशि शितायुधौ ॥ १५ ॥  
 परेषः पापकर्माणौ विजने शुद्धचेतसम् । प्रतिमायोगमापन्नं सत्यकं मुनिपुङ्गवम् ॥ १६ ॥  
 शङ्केगाहन्नुमुद्युक्तावन्यायोऽयमिति क्रुधा । द्विजौ <sup>१</sup> सुवर्णयक्षेण स्तम्भितौ कीलिताविव ॥ १७ ॥  
 तदा शरणमायातास्तन्मानृपितृबान्धवाः । मुनीनामाकुलीभूय यक्षस्तानवदत्सुधीः ॥ १८ ॥  
 हिंसाधर्मं परित्यज्य यदि जैनेश्वरं मतम् । भवन्तः स्वीकरिष्यन्ति भवेन्मोक्षोऽनयोरिति ॥ १९ ॥  
 तेऽपि भीतास्तथा बाढं करिष्याम इति द्रुतम् । मुनिं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणश्य विधिपूर्वकम् ॥ २० ॥  
<sup>२</sup>मिथ्यैव प्रत्यपद्यन्त धर्मं श्रावकपालितम् । ततस्तस्तम्भनापाये सति तैस्तावुदीरितौ ॥ २१ ॥  
 विरन्तव्यमितो धर्मादस्माद्धेतोरुपासितात् । इति नात्मारसन्मार्गाच्चेलतुः काललब्धितः ॥ २२ ॥  
 तेन संक्रुध्य ते ताभ्यां मृत्वा पापविपाकतः । अघाम्यन् कुगतीर्दीर्घं तौ च ब्राह्मणपुत्रकौ ॥ २३ ॥  
 सन्नतौ जीवितस्थान्ते कल्पे सौधर्मनामनि । पञ्चपलयोपमायुष्कौ जातौ पारिषदाग्निभौ ॥ २४ ॥  
 तत्रानुभूय सद्भोगान् द्वीपेऽस्मिन् कौशले पुरे । साकेतेऽरिजयो राजा सशौर्योऽभूदरिजयः <sup>३</sup> ॥ २५ ॥  
 तयार्हद्वासवाक्छेष्टी वप्रश्रीस्तम्भनःप्रिया । अग्निभूतिस्तयोः पूर्णभद्रोऽन्यो मणिभद्रकः ॥ २६ ॥  
 सुतौ समुद्रभूतौ तावन्येषः स महीपतिः । सिद्धार्थवनमध्यस्थमहेन्द्रगुरुसन्निधिम् ॥ २७ ॥  
 बहुभिः सह सम्प्राप्य श्रुत्वा धर्मं विशुद्धधीः । अरिन्दमे समारोप्य राज्यभारं भरक्षमे ॥ २८ ॥  
 अर्हद्वासादिभिः सार्द्धं संयमं प्रत्यपद्यत । तत्रैव पूर्णभद्रेण प्राप्तं मद्गुरुद्वयम् ॥ २९ ॥

द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय-पताका छीन ली। मान भंग होनेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीक्ष्ण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकले। उस समय शुद्ध चित्तके धारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे सो वे पापी ब्राह्मण उन्हें शस्त्रसे मारनेके लिए उद्यत हो गये। यह देखकर और यह अन्याय हो रहा है ऐसा विचारकर सुवर्णयक्षने क्रोधमें आकर उन दोनों ब्राह्मणोंको कीलित हुएके समान स्तम्भित कर दिया—  
 ज्यांका त्यों रोक दिया ॥ १६-१७ ॥ यह देखकर उनके माता, पिता, भाई आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंकी शरणमें आये। तब बुद्धिमान यक्षने कहा कि 'यदि तुम लोग हिंसाधर्मको छोड़कर जैनधर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छूटकारा हो सकता है' ॥ १८-१९ ॥ यक्षकी बात सुनकर सब डर गये और कहने लगे कि हम लोग शीघ्र ही ऐसा करेंगे अर्थात् जैनधर्म धारण करेंगे। इतना कहकर उन लोगोंने मुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और भूठमूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर लिया। तदनन्तर दोनों पुत्र जब कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनमें कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिये क्योंकि कारण वश ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रोंकी काललब्धि अनुकूल थी अतः वे अपने द्वारा ग्रहण किये हुए सन्मार्गसे विचलित नहीं हुए ॥ २०-२२ ॥ पुत्रोंकी यह प्रवृत्ति देख, उनके माता-पिता आदि उनसे क्रोध करने लगे और मरकर पापके उदयसे दीर्घकाल तक अनेक कुमातियोंमें भ्रमण करते रहे। उधर उन दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंने व्रतसहित जीवन पूरा किया इसलिए मरकर सौधर्म स्वर्गमें पाँच पलयकी आयुवाले पारिषद जातिके श्रेष्ठ देव हुए ॥ २३-२४ ॥ वहाँ पर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भोगे। तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके कौशल देश सम्बन्धी अयोध्या नगरीमें शत्रुओंका जीतनेवाला अरिजय नामका पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसी नगरीमें एक अर्हद्वास नामका सेठ रहता था उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था। वे अग्निभूति और वायुभूतिके जीव पाँचवें स्वर्गसे चयकर उन्हीं अर्हद्वास और वप्रश्रीके क्रमशः पूर्णभद्र और मणिभद्र नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरिजय, सिद्धार्थ नामक वनमें विराजमान महेन्द्र नामक गुरुके समीप गया। वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ धर्मका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि अत्यन्त पवित्र हो गई और उसने भार धारण करनेमें समर्थ अरिन्दम नामक पुत्रके ऊपर राज्य भार रखकर अर्हद्वास आदिके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय पूर्णभद्र नामक श्रेष्ठ-पुत्रने

१ सुधर्म इत्यपि क्वचित् । २ मिथ्या प्रत्यपद्यन्त ल० ( छन्दोभङ्गः ) । ३ अरिं जयन् म०, ल० ।

काद्य वर्तत ह्ययेतत्परिपृष्टो मुनिर्जगौ । जिनधर्मविरुद्धत्वात्कृतपापोऽभवन्मृतः ॥ ३० ॥  
 रत्नप्रभाबिले सर्पावर्तनाग्नि ततोऽजनि । मातङ्गः काकजङ्घाख्यः सोमदेवो भवत्पिता ॥ ३१ ॥  
 माताम्रिला च तस्यैव जायते स्म शुनी गृहे । इहेत्याकर्ण्य तयोक्त्वा तेन तौ परिबोधितौ ॥ ३२ ॥  
 सन्प्राप्योपशमं भावं सन्न्यस्य विधिना मृतः । काकजङ्घोऽभवन्नन्दीश्वरद्वीपे निधीश्वरः ॥ ३३ ॥  
 तत्पुराधीश्वरारिन्दमाख्यभूभृत्पतेः सुता । श्रीमत्याश्च शुनी सुप्रबुद्धाख्याजायत प्रिया ॥ ३४ ॥  
 सम्पूर्णयौवना यान्ती सा स्वयंवरमण्डपम् । यक्षेण बोधिता दीक्षामित्वाप्य प्रियदर्शनाम् ॥ ३५ ॥  
 जीवितान्तेऽभवद्देवी मणिचूलेति रूपिणी । सौधर्माधिपतेः पूर्णभद्रस्तद्भुजोऽपि च ॥ ३६ ॥  
 ससस्थानगनौ ख्यातश्रावकौ तौ ददमृतौ । प्रान्ते सामानिकौ देवौ जातौ सौधर्मनामनि ॥ ३७ ॥  
 द्विसांगारोपमातीतौ द्वीपेऽत्र कुरुजाङ्गले । हास्तिनाख्यपुरार्धीश्वर्याहंद्वासमर्हापतेः ॥ ३८ ॥  
 काश्यपायाश्च पुत्रौ तौ मधुक्रौडवनामकौ । समभूतां तयो राजा राजत्वयुवराजते ॥ ३९ ॥  
 विधाय विमलं प्रापद्विमलप्रभशिष्यताम् । कण्टान्तामलकाख्यस्य पुरस्येशः कदाचन ॥ ४० ॥  
 रथान्तकनकस्य स्वं समायातस्य मेवितम् । कान्तां कनकमालाख्यां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥  
 स्वीचकारमधुः शोकाद्रथान्तकनकाह्वयः । पार्श्वे † द्विजटिसञ्ज्ञस्य तापसव्रतमाददे ॥ ४२ ॥  
 मधुक्रौडवयोरेवं काले गच्छत्यथान्यदा । सम्यगाकर्ण्य सख्यं मधुविमलवाहनात् ॥ ४३ ॥  
 गर्हणं स्वदुराचारे कृत्वा क्रीडवसंयुतः । संयमं समवाप्यान्ते संश्रित्याराधनाविधिम् ॥ ४४ ॥

मुनिराजमे पृष्ट्वा किं हमारं पदंभवके माता-पिता इस समय कहाँ पर हैं ? उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि तेरे पिता सोमदेवने जिनधर्मसे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः वह मरकर रत्नप्रभा पृथिवीके सर्पावर्त नामके विलमें नारकी हुआ था और वहाँसे निकलकर अब इसी नगरमें काकजंघ नामका चाण्डाल हुआ है । इसी तरह तेरी माता अम्रिलाका जीव मरकर उसी चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है । मुनिराजके बचन सुनकर पूर्णभद्रने उन दोनों जीवोंको संवोधा जिससे उपशम भावका प्राप्त होकर दोनोंने विधिपूर्वक मंत्र्यास धारण किया और उसके फलस्वरूप काकजङ्घ तो नन्दीश्वर-द्वीपमें कुबेर नामका व्यन्तर देव हुआ । और कुत्ती उसी नगरके स्वामी अरिन्दम नामक राजाकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रबुद्धा नामकी प्यारी पुत्री हुई ॥ २५-३४ ॥ जब वह पूर्णयौवनवती होकर स्वयंवर-मण्डपकी आरंभ जा रही थी तब उसके पूर्वजन्मके पति कुबेर नामक यक्षने उसे समझाया जिससे उसने प्रियदर्शना नामकी आर्यिकाके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली और आयुके अन्तमें वह सौधर्म इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपवती देवी हुई । इधर पूर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी हठनासे श्रावकके व्रत पालन किये, सात क्षेत्रोंमें धन खर्च किया और आयुके अन्तमें दोनों ही सौधर्म नामक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए ॥ ३५-३७ ॥ वहाँ उनकी दो सागरकी आयु थी, उसके पूर्ण होने पर वे इसी जम्बूद्वीपके कुरुजांगल देश सम्बन्धी हास्तिनापुर नगरके राजा अर्हदासकी काश्यपा नामकी रानीसे मधु और क्रीडव नामके पुत्र हुए । किसी एकदिन राजा अर्हदासने मधुका राज्य और क्रीडवका युवराज पद देकर विमलप्रभ मुनिकी निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुका सेवा करनेके लिए उसके नगर आया था वहाँ उसकी कनकमाला नामकी स्त्रीको देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो गया । निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर लिया—अपनी स्त्री बना लिया । इस घटनासे राजा कनकरथको बहुत निर्वेद हुआ जिससे उसने द्विजटि नामक तापसके पास व्रत ले लिये । इधर मधु और क्रीडवका काल भुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी एक दिन मधुने विमल-वाहन नामक मुनिराजसे अच्छी तरह धर्मका स्वरूप सुना, अपने दुराचारकी निन्दा की और क्रीडवके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । आयुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधना कर मधु और क्रीडव दोनों ही महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर बड़ा भाई मधुका

अन्वभूस्त महाशुकस्याधिपत्यं सहानुजः । स्वायुस्ते ततश्च्युत्वा स्वावशेषशुभोदयात् ॥ ४५ ॥  
 सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठो हकिमण्यामभवत्सुनः । दुराचाराजितं पापं सच्चरित्रेण नश्यति ॥ ४६ ॥  
 द्वितीयेऽहनि तद्वाल्सञ्चितोप्राधसञ्चिभः । देवो ज्योतिर्गणे जातो धूमकेतुसमाह्वयः ॥ ४७ ॥  
 गच्छन्त्यश्छया भ्योग्नि विहलु<sup>१</sup> वातरंहसा । विमाने स्वे धृते बान्यैः प्रलुप्तस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥  
 चरमाङ्गस्य केनेदं कृतमित्युपयुक्तवान् । विभङ्गादात्मनः शत्रुं ज्ञात्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४९ ॥  
 रथान्तकनकस्यायं दर्पाद्वारान्ममाहरत् । तत्कलं प्रापयाम्येनमिति वैराग्निना<sup>२</sup>ज्वलन् ॥ ५० ॥  
 विधाय स महानिद्रामन्तःपुरनिवासिनाम् । तमुद्धृत्याब्दमार्गेण दूरं नीत्वा यथाचिरम् ॥ ५१ ॥  
 अनुभूय महादुःखं कुर्यात्प्राणविमोचनम् । करिष्यामि तथेत्यस्य पुण्येनैवं प्रचोदितः ॥ ५२ ॥  
 भवरुह्य नभोभागान्ने खदिरनामनि । शिलायास्तक्षकाख्यायाः क्षिप्वाधस्तादमुं गतः ॥ ५३ ॥  
 तदैव विजयार्थाद्रिदक्षिणश्रेणिभूषणे । विषयेऽमृतक्याल्ये मेघकूटपुराधिपः ॥ ५४ ॥  
<sup>१</sup>कालसंवरविद्याधरेशः काञ्चनमालया । सह जैनीश्वरीरचाः प्रियया प्राचितुं प्रयान् ॥ ५५ ॥  
 महाशिलाखिलाङ्गातिचलनं वीक्ष्य विस्मयान् । समन्ताद्दीक्षमाणोऽसौ दृष्ट्वा बालं ज्वलन्प्रभम् ॥ ५६ ॥  
 प्राकृतोऽयं न केनापि कोपात्प्राग्जन्मवैरिणा । निक्षिप्तः पापिनाऽसुप्तिन् पश्य बालार्कभास्वरः<sup>३</sup> ॥ ५७ ॥  
 तस्मात्तावास्तु पुत्रोऽयं गृह्णामां मनोरमे । इत्याहोवाच साप्यस्मै यौवराज्यं वृदासि चेत् ॥ ५८ ॥  
 प्रहीष्यामीति तेनापि प्रतिपद्य तथास्त्विति । तत्कर्णगतसौवर्णपत्रेणारचि पट्टकः ॥ ५९ ॥  
 तौ तं बालं समादाय पुरमाविष्कृतोत्सवम् । प्रविश्य देवदत्ताख्यां व्यधानां विधिपूर्वकम् ॥ ६० ॥

जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्मके उदयसे शुभ स्वप्न पूर्वांक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ है सो टीक ही है क्योंकि दुराचारके द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक् चारित्रिके द्वारा नष्ट हो ही जाता है ॥३५-४६॥

इधर राजा कनकरथका जीव तपश्चरणकर धूमकेतु नामका ज्योतिषी देव हुआ था । वह बालक प्रद्युम्नके पूर्वभवमें संचित किये हुए तीव्र पापके समान जान पड़ता था । किसी दूसरे दिन वह इच्छानुसार विहार करनेके लिए आकाशमें वायुके समान वेगसे जा रहा था कि जब उसका विमान चरमशरीरी प्रद्युम्नके ऊपर पहुँचा तब वह ऐसा रुक गया मानो किन्हीं दूसरोंने उसे पकड़कर रोक लिया हो । यह कार्य किसने किया है ? यह जाननेके लिए जब उसने उपयोग लगाया तब विभङ्गावधि ज्ञानमे उसे मालूम हुआ कि यह हमारा पूर्वजन्मका शत्रु है । जब मैं राजा कनकरथ था तब इसने दर्पवश मेरी स्त्रीका अपहरण किया था । अब इसे उसका फल अवश्य ही चखाता हूँ । ऐसा विचारकर वह वैर रूपी अग्निमें प्रज्वलित हो उठा ॥ ४७-५० ॥ वह अन्तःपुरमें रहनेवाले लोगोंको महानिद्रासे अचेतकर बालक प्रद्युम्नको उठा लाया और आकाशमार्गसे बहुत दूर ले जाकर सोचने लगा कि मैं इसका ऐसी दशा करूँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोड़ दे—मर जावे । ऐसा विचारकर वह बालकके पुण्यसे प्रेरित हुआ आकाशमे नीचे उतरा और खदिर नामकी अटवीमें तक्षक शिलाके नीचे बालकको रखकर चला गया ॥ ५१-५३ ॥

उसी समय विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके आभूषण स्वरूप मृतवती नामक देशके कालकूट नगरका स्वामी कालसंवर नामका विद्याधर राजा अपनी काञ्चनमाला नामकी स्त्रीके साथ जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-५५ ॥ वह उस बड़ी भारी शिलाके समस्त अङ्गोंको जोरसे हिलता देख आश्चर्यमें पड़ गया । मग आँर देखनेपर उसे देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया । देखते ही उसने निश्चय कर लिया कि 'यह सामान्य बालक नहीं है, कोई पूर्वजन्मका वैरी पापी जीव क्रोधवश इसे यहाँ रख गया है । हे प्रिये ! देख, यह कैसा बालमूर्त्यके समान देदीप्यमान हो रहा है । इसलिए हे सुन्दरी ! यह तेरा ही पुत्र हो, तू इसे ले ले' । इस प्रकार बालकको उठाकर विद्याधरने अपनी स्त्रीसे कहा । विद्याधरीने उत्तर दिया कि 'यदि आप इसे युवराजपद देते हैं तो ले लूँगी' । राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली और रानीके कानमें पड़े हुए मुण्डणके पत्रसे ही उसका पट्टबंध कर दिया ॥ ५६-५९ ॥ इस प्रकार



तद्बाललालनालीलाविलासैर्हृष्टचेतसोः । तथोर्गाच्छति निव्याजं काले सुमुखभोगिनोः ॥ ६१ ॥  
 इतः सुतवियोगेन रुक्मिणी शोकवह्निना । दह्यमाना स्थलाम्भोजवह्नीव वनवह्निना ॥ ६२ ॥  
 सम्पत्तिर्वा चरित्रस्य दशाभावविवर्जिता । कार्याकार्यविचारेषु मन्दमन्दैव शेमुषी ॥ ६३ ॥  
 मेघमालेव कालेन निर्गलजलसंचया । नाबभासे ऽगते प्राणे ह्य भवेत्सुप्रभा तनोः ॥ ६४ ॥  
 तथैव वासुदेवोऽपि ताद्वियोगाद्गाच्छुचम् । पृथक्तरुलतायोगं न वज्रपरिताडनम् ॥ ६५ ॥  
 जलाशयस्तृपार्तस्य केकिनो जलदागमः । यथा तथास्य सन्तुष्यै सन्निधिं नगरदोऽगमम् ॥ ६६ ॥  
 तं वीक्ष्य बालवृत्तान्तं हरिरुक्त्वाभ्यघादिदम् । त्वया केनाप्युपायेन कापि सांऽन्विष्यतामिति ॥ ६७ ॥  
 नारदस्तस्माकण्यं शृणु पूर्वविदेहजे । नगरे पुण्डरीकिण्यां मया तीर्थकृतो गिरा ॥ ६८ ॥  
 स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि वार्ता बालस्य पृच्छता । भवान्तराणि तद्बुद्धिस्थानं लाभो महानपि ॥ ६९ ॥  
 सहयोगो युवाभ्याञ्च तस्य षोडशवत्सरैः । इत्थसौ वासुदेवश्च रुक्मिणीञ्च यथाश्रुतम् ॥ ७० ॥  
 प्राबोधयशयोस्तस्मान्मुरसेनानुलोकयोः । प्रादुर्भावाज्जिनस्येव प्रमोदः परमोऽभवत् ॥ ७१ ॥  
 क्रमेण कृतपुण्याऽसौ तत्र सम्पूर्णयौवनः । कदाचिदाज्ञया राज्ञः प्रयुक्तः स्वलो बली ॥ ७२ ॥  
 गत्वा द्विषोऽभिराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम् । निष्प्रतापं विधायैतं युद्धे जित्वापैथल्पितुः ॥ ७३ ॥

राजा कालसंवर और रानी काञ्चनमालाने उस बालकको लेकर अनेक जन्मवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और बालकका विधिपूर्वक देवदत्ता नाम रखवा ॥ ६० ॥ उस बालकके लालन-पालन तथा लीलाके विलामोंसे जिनका चित्त प्रमत्त हो रहा है और जो सदा उत्तमोत्तम सुखोंका अनुभव करने रहे हैं ऐसे राजा-रानीका समय बिना किसी छलसे व्यतीत होने लगा ॥ ६१ ॥

इधर जिस प्रकार दावानलसे गुलाबकी बेल जलने लगती है उसी प्रकार पुत्र-विरहके कारण रुक्मिणी शोकाग्निसे जलने लगी ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी दयाभावसे रहित सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकार्यके विचारमें शिथिल बुद्धि सुशो-भित नहीं हांती और जिस प्रकार काल पाकर जिम्का पानी बरस चुका है ऐसी मेघमाला सुशोभित नहीं हांती उसी प्रकार वह रुक्मिणी भी सुशोभित नहीं हो रही थी सां ठीक ही है क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहती है ? ॥ ६३-६४ ॥ रुक्मिणीकी भांति श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियोगसे शोकको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि जब वृक्ष और लताका संयोग रहना है तब उन्हें नष्ट करनेके लिए अलग-अलग वज्रपातकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ६५ ॥ जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए जलाशयका मिलना सुखदायक होता है और मयूरके लिए मेघका आना सुखदायी हांता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको सुख देनेके लिए नारद उनके पास आया ॥ ६६ ॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णने बालकका सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि जिस किसी भी उपायसे जहाँ कहीं भी संभव हो आप उस बालकी खोज कीजिये ॥ ६७ ॥ यह सुनकर नारद कहने लगा कि सुनो 'पूर्व-विदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वयंप्रभ तीर्थकरसे मैंने बालककी बात पूछी थी । अपने प्रश्नके उत्तरमें मैंने उनकी वाणीसे बालकके पूर्व भव जान लिये हैं, वह बुद्धिका स्थान है अर्थात् सब प्रकारसे बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ होगा और सांलह वर्ष बाद उसका आप दोनोंके साथ समागम हो जावेगा' । इस प्रकार नारदने जैसा सुना था वैसा श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीको समझा दिया ॥ ६८-७० ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होते ही देवोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हर्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार नारदके बचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम हर्ष उत्पन्न हुआ ॥ ७१ ॥

उधर पुण्यात्मा देवदत्ता ( प्रद्युम्न ) क्रम-क्रमसे नवयौवनको प्राप्त हुआ । किसी एक समय अतिशय बलवान् प्रद्युम्न पिताकी आज्ञासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अभिराज शत्रुके ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीतकर ले आया तथा पिताको सौंप

तदा दृष्टापदानस्य प्रद्युम्नस्य खगाधिपः । परार्थवस्तुदानेन महतीं माननां व्यधात् ॥ ७४ ॥  
 अवतीर्णमिव स्वर्गाधीनैकविभूषणम् । भुवं कदाचित्कद्रूपमाहार्यैश्चातिभास्वरम् ॥ ७५ ॥  
 अबलांस्य स्मरक्रान्तबुद्ध्या काञ्चनमालया । जन्मान्तरागतखेहकृतानेक<sup>१</sup>विकारया ॥ ७६ ॥  
 प्रकाशयन्त्या स्वान्तस्थं भावं पापपरीतया । कुमार तुभ्यं मह्यं गृहाण विधिपूर्वकम् ॥ ७७ ॥  
<sup>२</sup>प्रज्ञसिद्धान्त्युक्तस्तया मायामयेहया । सांसिपि मातस्तथैवाहं करिष्यामीति<sup>३</sup>सम्मदात् ॥ ७८ ॥  
 आदाय धीमांस्तां विद्यां सिद्धकूटमुपागमत् । कृत्वा तत्र नमस्कारं चारणौ मुनिपुङ्गवौ ॥ ७९ ॥  
 श्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्मं ज्ञात्वा विद्याप्रसाधने । हेतुं तदुपदेशेन सञ्जयन्तं समाश्रयत् ॥ ८० ॥  
 आकर्ण्य तत्पुराणञ्च तदृचापादसंश्रयात् । विद्यां सम्पाद्य सञ्जातसम्मदः पुरमागमत् ॥ ८१ ॥  
 दृष्ट्वा द्विगुणिताकारशोभं तं कामकातरा । प्रार्थयन्ती बहूपार्यैरनिच्छन्तं महामतिम् ॥ ८२ ॥  
 पुरुषव्रतसम्पन्नमतिद्वेषाद्वबुधन् । कुमारः सहवासस्य योग्यां नायं कुचेष्टिनः ॥ ८३ ॥  
 जानाम्यनभिजातस्वमस्येति खचराधिपम् । विचारविकलः सांसिपि तदुक्तं तन्प्रतिवाचान् ॥ ८४ ॥  
 विद्युद्दृष्टादिकान्पञ्चशतानि तनुजान्मिथः । आहूय देवदत्तोऽयं<sup>४</sup>दोष्योपांशुवधांचितः ॥ ८५ ॥  
 ततः केनाप्युपायेन भवद्भिः क्रियतां व्यसुः । इत्याह खचराधीशो<sup>५</sup> लब्धाज्ञास्तेऽपि कोपिनः ॥ ८६ ॥  
 स्वयं प्रागपि तं<sup>६</sup> हन्तुं कृतमन्त्राः परस्परम् । तथेति प्रतिपद्यानां निर्ययुस्तच्चिकीर्षवः ॥ ८७ ॥

दिया ॥ ७२-७३ ॥ उस समय राजा कालसंवरने, जिसका पराक्रम देख लिया है, ऐसे प्रद्युम्नका भेष वस्तुएँ देकर बहुत भारी सन्मान किया ॥ ७४ ॥ यौवन ही जिसका आभूषण है, जो स्वर्गसे पृथिवीपर अवतीर्ण हुएके समान जान पड़ता है, और जो आभूषणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान है ऐसे प्रद्युम्नको देखकर किसी समय राजा कालसंवरकी रानी काञ्चनमालाकी बुद्धि काममें आक्रान्त हो गई, वह पूर्वजन्मसे आयें हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करने लगी, तथा पापसे युक्त हो अपने मनका भाव प्रकट करती हुई कुमारसे कहने लगी कि 'हे कुमार' मैं तेरे लिए प्रज्ञप्ति नामकी विद्या देना चाहती हूँ उसे तू विधि पूर्वक ग्रहण कर' । इस प्रकार माया पूर्व चेषामें युक्त रानीने कहा । बुद्धिमान प्रद्युम्नने भी 'हे माता ! मैं वैसा ही कहूँगा' यह कहकर बड़े हर्षमें उससे वह विद्या ले ली और उसे सिद्ध करनेके लिए सिद्धकूट चैत्यालयकी ओर गमन किया । वहाँ जाकर उसने चारण-ऋद्धि धारी मुनियोंको नमस्कार किया, उनमें धर्मोपदेश मुना और तदनन्तर उनके कहे अनुसार विद्या सिद्ध करनेके लिए सञ्जयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥ ७९-८० ॥ उसने संजयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके आश्रयसे विद्या सिद्ध की और तदनन्तर हर्षित होता हुआ वह अपने नगरको लौट आया ॥ ८१ ॥ विद्या सिद्ध होनेसे उसके शरीरकी शोभा दूनी हो गई थी अतः उसे देखकर रानी काञ्चनमाला काममें कानर हो उठी । उसने अनेक उपायोंके द्वारा कुमारसे प्रार्थना की परन्तु महाबुद्धिमान कुमारने उसकी इच्छा नहीं की । जब उसे इस बातका पता चला कि यह कुमार पुरुषव्रत सम्पन्न है और हमारे सहवासके योग्य नहीं है तब उसने अपने पति कालसंवरसे कहा कि यह कुमार कुचेष्टा युक्त है अतः जान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं है—उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं है । विचार रहित कालसंवरने स्त्रीकी धानका विश्वास कर लिया । उसने उसी समय विद्युद्दंष्ट्र आदि अपने पाँच सौ पुत्रोंको बुलाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि 'यह देवदत्त अपनी दुष्टताके कारण एकान्तमें बध करनेके योग्य है अतः आप लोग इसे किसी उपायसे प्राणरहित कर डालिये' । इस प्रकार विद्याधरोंके राजा कालसंवरसे आज्ञा पाकर वे पाँच सौ कुमार अत्यन्त कुपित हो उठे । वे पहले ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे फिर राजाकी आज्ञा प्राप्त हो गई । 'ऐसा ही कहूँगा' यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की और सबके

१ देहविकारया ल० । २ प्रशस्त ग० । प्रशप्ति ल० । म० पुस्तके तु एष श्लोकः परिभ्रष्टः । ३ संमुदा ल०, ध० । ४ दोष्युपाशु ल० । ५ खचराधीशलब्धा ल० । खचराधीशाज्ञलब्धा ल०, ग०, घ०, म० । ६ ते हन्तुं ग० ।

हिंसा प्रधानशास्त्राद्वा राज्याद्वा नयवजितात् । तपसा<sup>१</sup> वापमार्गस्थादुष्कलत्राद् भुवं क्षतिः ॥ ८८ ॥  
 चालयन्ति स्थिरामृज्वीं नयन्ति विपरीतताम् । छादयन्ति मतिं दासां स्त्रियो वा दोषविक्रियाः ॥ ८९ ॥  
 तदैव तोषो शोषश्च पापिनीनां मिथान्प्रति । न हेतुस्तत्र काऽप्यन्यो लाभालाभद्वयाद्दिना ॥ ९० ॥  
 अकार्यमवशिष्टं यत्तन्नास्तीह कुर्यापिताम् । मुक्त्वा पुत्राभिलाषित्वमेतदप्येतया कृतम् ॥ ९१ ॥  
 योषित्सु व्रतशीलादिसत्क्रियाश्रामवन्ति चेत् । न शुद्धिं ताः स्वपर्यन्तं कथं नायान्त्वसत्क्रियाः ॥ ९२ ॥  
 अग्भो वाग्भोजपत्रेषु चित्तं तासां न केपुचित् । स्थासु तिष्ठदपि स्पृष्ट्वाप्यस्पृष्टवदतः पृथक् ॥ ९३ ॥  
 सर्वदोषमयो भावां दुर्लक्ष्यः सर्वयोषिताम् । दुःसाध्यश्च महामोहावहांऽसौ सन्निपातवत् ॥ ९४ ॥  
 कः कं किं वक्ति केनेति विचार्य कार्यकारिणा । ऐहिकामुष्मिकार्थेषु ततोऽयं नैति वञ्चनाम् ॥ ९५ ॥  
 प्रमाणवचनः किं वा नेति वक्ता<sup>२</sup> परीक्ष्यताम् । विदुषा तस्य वृत्तेन परिज्ञानेन च स्फुटम् ॥ ९६ ॥  
 एतस्मिन्सम्भवेदेतन्न वेति नयवेदिना । तदाचारैः परीक्ष्यः प्राग्यमुद्दिश्य वचस्स च ॥ ९७ ॥  
 किं प्रत्येयमिदं नेति शब्देनार्थेन च ध्रुवम् । उक्तं व्यक्तं परीक्ष्यं तत्समाक्षापूर्वकारिभिः ॥ ९८ ॥  
 भियां ज्ञेन लोभेन मात्सर्येण<sup>३</sup> क्रुधा द्विया । किमबोधेन बोधेन परेषां प्रेरणेन वा<sup>४</sup> ॥ ९९ ॥  
 वक्तान्येनान्निमित्तानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एवं प्रवर्तमानोऽयं विद्वान्विद्वत्सु चेप्यतं ॥ १०० ॥

मत्र उसे पूरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़े । यहाँ आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसा प्रधान शास्त्रमें, नीति रहित राज्यसे और मिथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित हानि होती है उसी प्रकार दुष्ट स्त्रीसे निश्चित ही हानि होती है ॥ ८२—८८ ॥ दोषोंके विकारोंसे युक्त स्त्रियों मनुष्यकी स्थिर बुद्धिका चञ्चल बना देती हैं, सीधीको कुटिल बना देती हैं और देदीप्यमान बुद्धिका टुक लेती हैं ॥ ८९ ॥ ये पापिनी स्त्रियाँ अपने पतियोंके प्रति उसी समय मनुष्य हो जाती हैं और उसी समय क्रोध करने लगती हैं और इनके ऐसा करनेमें लाभ वा हानि इन दोषके सिवाय अन्य कुछ भी कारण नहीं है ॥ ९० ॥ संसारमें ऐसा कोई कार्य वाकी नहीं जिसे ग्योटी स्त्रियाँ नहीं कर सकती हों । हाँ, पुत्रके साथ व्याभिचारकी इच्छा करना यह एक कार्य वाकी था परन्तु काञ्चनमालाने वह भी कर लिया ॥ ९१ ॥ जिन किन्हीं स्त्रियोंमें व्रत शील आदि सत्क्रियाएँ रहती हैं वे भी शुद्धिका प्राप्त नहीं होती फिर जिनमें सत्क्रियाएँ नहीं हैं वे अपनी अशुद्धताके परम प्रकर्षको क्यों न प्राप्त हों ? ॥ ९२ ॥ जिस प्रकार कमलके पत्तोंपर पानी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन स्त्रियोंका चित्त भी किन्हीं पुरुषोंपर स्थिर नहीं ठहरता । वह स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करनेवालेके समान उनसे पृथक् रहता है ॥ ९३ ॥ सब स्त्रियोंके सब दोषोंसे भरे भाव दुर्लक्ष्य रहते हैं—कष्टसे जाने जा सकते हैं । ये सन्निपातके समान दुःसाध्य तथा बहुत भारी मांह उल्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ ९४ ॥ कौन किसके प्रति किस कारणसे क्या कहता है ?' इस बातका विचार कार्य करनेवाले मनुष्यको अवश्य करना चाहिए । क्योंकि जो इस प्रकारका विचार करना है वह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी कर्मोंमें कभी प्रतारणा को प्राप्त नहीं होता—ठगया नहीं जाता ॥ ९५ ॥ 'यह वक्ता प्रामाणिक वचन बोलता है या नहीं' इस बातकी परीक्षा विद्वान् पुरुषको उसके आचरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए ॥ ९६ ॥ नयोंके जाननेवाले मनुष्यको पहले यह देखना चाहिये कि इसमें यह बात संभव है भी या नहीं ? इसी प्रकार जिसे लक्ष्यकर वचन कहे जावें पहिले उसके आचरणसे उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए । विचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यको शब्द अथवा अर्थके द्वारा कहे हुए पदार्थका 'यह विश्वास करनेके योग्य है अथवा नहीं' इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए ॥ ९७—९८ ॥ 'यह जो कह रहा है सो भयसे कह रहा है, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह रहा है, या मात्सर्यसे कह रहा है, या क्रोधसे कह रहा है, या लज्जासे कह रहा है, या अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा है, और या दूसरोंकी प्रेरणासे कह रहा है, इस प्रकार बुद्धिमान् मनुष्यको निमित्तोंकी परीक्षा

सा स्त्रीवाचावबुध्येत दुष्टा कष्टमयञ्च तत् । शिष्टाशिष्टानुसंशिष्टौ शिष्टः संभोगुहीति यत् ॥ १०१ ॥  
 तदैव तं समुत्साह्य विहृतुं ते वनं गताः । अग्निकुण्डं प्रददर्शस्य पतन्त्यस्मिन्नभीरवः ॥ १०२ ॥  
 इत्याहुः सोऽपि तच्छ्रुत्वा न्यपतत्र निर्भयः । विचारयति धीमंश्च न कार्यं दैवचोदितः ॥ १०३ ॥  
 देव्यैषोऽत्र निवासिन्या प्रतिगृह्याभिपूजितः । कनकाम्बरभूषादिदानेनास्माद्विनिर्ययौ ॥ १०४ ॥  
 तस्माद्विस्मयमापन्ना गत्वा तेऽन्यत्र तं पुनः । प्रोत्साह्य मेघभूभ्रंशोर्मध्यं प्रावेशयन्खलाः ॥ १०५ ॥  
 पर्वतौ मेघरूपेण पतन्तौ भुजशालिनम् । तन्निरुध्य स्थितं दृष्ट्वा तुष्टा तद्रतदेवता ॥ १०६ ॥  
 तस्मै दिव्ये ददौ रत्नकुण्डले मकराङ्किते । ततो निर्गतवान्भूयस्तन्निर्देशाद्विशन् विलम् ॥ १०७ ॥  
 वराहाद्विरसावुग्रमापतन्तं वराहकम् । करेणैकेन द्रष्टायां श्रुत्वान्येनास्य मस्तकम् ॥ १०८ ॥  
 प्रहृत्य हेलया तस्थौ तस्यासाधारणेहितम् । समीक्ष्य देवताग्रस्था रुग्मिणीप्रियसूनवे ॥ १०९ ॥  
 शङ्खं विजयघोषार्थं महाजालमपि द्वयम् । ददाति स्म सपुण्यानां क्व वा लाभो न जायते ॥ ११० ॥  
 तथा कालगुहायाञ्च महाकालस्थराक्षसात् । वृषभार्थं रथं रत्नकवचं चाप निजितान् ॥ १११ ॥  
 विद्याधरेण केनापि खचरः कोऽपि कीलितः । तरुद्वये स कामस्य \* दृष्टिगोचरमापत् ॥ ११२ ॥  
 असह्यवेदनार्तस्य खेटकस्य च वीक्षणान् । इङ्कितज्ञो हरेः पुत्रोऽङ्गुलिकां<sup>१</sup> वन्धमांचनीम् ॥ ११३ ॥  
 खेटकस्थां समादाय समभ्यज्य विलोचने । कृतोपकारः<sup>२</sup> सम्प्रापत्साम्नाद्विद्यात्रयं महत् ॥ ११४ ॥

करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति करता है वह विद्वानोंमें भी विद्वान् माना जाता है ॥ ६६-१०० ॥ 'अच्छी और बुरी आज्ञा देनेमें जो शिष्ट (उत्तम) पुरुष भी भूलकर जाते हैं वह बड़े कष्टकी बात है' यह बात दुष्टा स्त्री अपने स्त्रीस्वभावके कारण नहीं समझ पाती है ॥ १०१ ॥

अथानन्तर—वे विन्दुदंष्ट्र आदि पाँच सौ राजकुमार प्रद्युम्नको उत्साहित कर उसी समय विहार करनेके लिए वनकी ओर चल दिये। वहाँ जाकर उन्होंने प्रद्युम्नके लिए अग्निकुण्ड दिखाकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निर्भय कहलाने हैं। उनकी बात सुनकर प्रद्युम्न निर्भय हो उस अग्नि-कुण्डमें कूद पड़ा। सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यमें प्रेरित हुआ बुद्धिमान मनुष्य किसी कार्यका विचार नहीं करता ॥ १०२-१०३ ॥ उस कुण्डमें कूदते ही वहाँकी रहनेवाली देवीने उसकी अग्रवानी की तथा सुवर्णमय वस्त्र और आभूषणादि देकर उसकी पूजा की। इस तरह देवीके द्वारा पूजित होकर प्रद्युम्न उस कुण्डसे बाहर निकल आया ॥ १०४ ॥ इस घटनासे उन सबका आश्चर्य हुआ तदनन्तर वे दुष्ट उसे उत्साहितकर फिरके चले और मेघके आकारके दो पर्वतोंके बीचमें उसे घुसा दिया ॥ १०५ ॥ वहाँ दो पर्वत मेघका आकार रख दोनों आरामे उस पर गिरने लगे तब भुजाओंसे सुशो-भित प्रद्युम्न उन दोनों पर्वतोंको रोककर खड़ा हो गया। यह देख वहाँ रहनेवाली देवीने संतुष्ट होकर उसे मकरके चिह्नमें चिह्नित रत्नमयी दो दिव्य कुण्डल दिये। वहाँमें निकलकर प्रद्युम्न, भाइयोंके आदेशानुसार वराह पर्वतकी गुफामें घुसा। वहाँ एक वराह नामका भयंकर देव आया तो प्रद्युम्नने एक हाथमें उसकी दाढ़ पकड़ ली और दूसरे हाथमें उसका मस्तक ठोकना शुरू किया इस तरह वह दोनों जबड़ोंके बीचमें लीलापूर्वक खड़ा हो गया। रुग्मिणीके पुत्र प्रद्युम्नकी चेष्टा देखकर वहाँ रहनेवाली देवीने उसे विजयघोष नामका शङ्ख और महाजालमें दो वस्तुएँ दी। सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंको कहाँ लाभ नहीं होता है ? ॥ १०६-११० ॥

इसी तरह उसने काल नामक गुहामें जाकर महाकाल नामक राक्षसको जीता और उससे वृषभ नामका रथ तथा रत्नमय कवच प्राप्त किया ॥ १११ ॥ आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी विद्याधरको दो वृक्षोंके बीचमें कीलित कर दिया था वह प्रद्युम्नको दिखाई दिया, वह कीलित हुआ विद्याधर असह्य वेदनासे दुःखी हो रहा था। यद्यपि उसके पास वन्धनसे छुड़ानेवाली गुटिका थी परन्तु कीलित होनेके कारण वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे देखते ही प्रद्युम्न उसके

१ 'इष्टशिष्टानुसंशिष्टाशिष्टः' ल० । इष्टं शिष्टानुसंशिष्टौ शिष्टः' म० । इष्टशिष्टानुसंशिष्टाविष्टः ल० । ग०  
 पुस्तके द्रुतितोऽयं श्लोकः । २ प्रद्युम्नस्य । ३ गुटिकां म०, ख० । गुलिकां ग०, घ० । ४ कृतोपकारसंप्रापत्—ख० ।

सुरेन्द्रजालं जालान्तनरेन्द्रं प्रस्तरञ्च सः । पुनः सहस्रवक्त्राहिभवने शङ्खपूरणान् ॥ ११५ ॥  
 विलासिर्गन्ध नागञ्च नागी च मकरध्वजम् । चित्रवर्णं धनुर्नन्दकाल्यासिं कामरूपिणीम् ॥ ११६ ॥  
 मुद्रिकाञ्च प्रसन्नौ तौ समं तस्मै वितेरतुः । कम्पनेन कपित्थाग्रिप्रस्थासं पादुकद्वयम् ॥ ११७ ॥  
 तेनानर्घ्यं नभोयायि<sup>१</sup> देवतायास्तदाश्रितेः<sup>२</sup> । सुवर्णककुभे पञ्चफणाहिपतिनापितान् ॥ ११८ ॥  
 तर्पणस्तापनो मोहनाभिधानो<sup>३</sup> विलापनः । मारणश्चेति पञ्चैतान् शरान् सम्प्राप्य पुण्यभाक् ॥ ११९ ॥  
 मौलिमौषधिमालाञ्च छत्रं चामरयुग्मकम् । दत्तं क्षीरवने मर्कटनाम्ने परितोषिणा ॥ १२० ॥  
 स<sup>४</sup> कदम्बमुखीवाण्यां नागपाशमवाप्तवान् । अस्य वृद्धेरसांठारः सर्वे तं स्वगमूनवः ॥ १२१ ॥  
 यः परतालमुखीवाण्यां पतेत्स सकलेश्वरः । भवेदित्यवदन्कामोऽप्यवगम्य तदिक्रितम् ॥ १२२ ॥  
 प्रज्ञसिं निजरूपेण तस्यां वाप्यामपीपतत् । स्वयं पार्श्वे तिरोधाय स्वरूपं नयविस्थितः ॥ १२३ ॥  
 महाशिलाभिस्तैः सर्वैर्विधेयं<sup>५</sup> वधवात्मनः । विदित्वा कोपसन्नसो विशुद्धं दृष्ट्वादिद्विषः ॥ १२४ ॥  
 गाढं पाशेन बध्वाधो मुखान् प्रक्षिप्य तत्र सः । कृत्वा शिलापिधानञ्च प्रहिव्य नगरं प्रति ॥ १२५ ॥  
 ज्यातिप्रभं कनीयासं तेष्वकम्प्य शिलां स्थितः । पापिनां हि स्वपापेन प्राप्नुवन्ति पराभवम् ॥ १२६ ॥  
 अथात्र नारदं कामचारिणं<sup>६</sup> नभसस्तलान् । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिमुरुरलोकत ॥ १२७ ॥  
 यथाविधि प्रतीक्ष्यैतन्मभ्युत्थानपुरस्सरम् । कृतसम्भाषणस्तं प्रणीताममपञ्चकः ॥ १२८ ॥

पास गया और उसके संकेतको समझ गया । उसने विद्याधरके पासकी गुटिका लेकर उसकी आँखों पर फेरा और उसे बन्धनमें मुक्त कर दिया । इस तरह उपकार करनेवाले प्रद्युम्नने उस विद्याधरमें सुरेन्द्र जाल, नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएँ प्राप्त कीं । तदनन्तर—वह प्रद्युम्न, सहस्रवक्त्र नामक नागकुमारके भवनमें गया वहाँ उसने शङ्ख वजाया जिससे नाग और नागी दोनों ही चलाए बाहर आये और प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकरचिह्नमें चिह्नित ध्वजा, चित्रवर्ण नामका धनुष, नन्दक नामका खड्ग और कामरूपिणी नामकी अंगूठी दी । वहाँ से चलकर उसने एक कैथका वृक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे आकाशमें चलनेवाली दो अमूल्य पादुकाएँ प्राप्त कीं ॥ ११२-११७ ॥ वहाँसे चलकर मुवर्णार्जुन नामक वृक्षके नीचे पहुँचा और वहाँ पञ्च फणवाले नागराजके द्वारा दिये हुए तपन, तापन, मोदन, विलापन और मारण नामके पांच वाण उस पुण्यात्माको प्राप्त हुए ॥ ११८-११९ ॥ तदनन्तर वह क्षीरवनमें गया वहाँ मन्तुष्ट्र हुए मर्कट देवने उसे मुकुट, औषधिमाला, छत्र और दो चमर प्रदान किये ॥ १२० ॥ इसके बाद वह कदम्बमुखी नामकी वावड़ीमें गया और वहाँके देवसे एक नागपाश प्राप्त किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिको नहीं सहनेवाले मय विद्याधरपुत्र इसे पातालमुखी वावड़ीमें ले जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें क्रूरता है वह सबका राजा होता है । नीतिका जाननेवाला प्रद्युम्न उन सबका अभिप्राय समझ गया इसलिए उसने प्रज्ञप्ति विद्याको अपना रूप बनाकर वावड़ीमें लुदा दिया और स्वयं अपने आपका झिपाकर वहीं खड़ा हो गया ॥ १२१-१२३ ॥ जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बड़ी-बड़ी शिलाओं के द्वारा मुझे मारना चाहते थे तब वह क्रोधसे संतप्त हो उठा, उसने उसी समय विशुद्धदंष्ट्रा आदि शत्रुओंको नागपाशसे मजबूतीके साथ बांधकर तथा नीचेकी ओर मुख कर उसी वावड़ीमें लटका दिया और ऊपरसे एक शिला ढक दी । उन सब भाइयोंमें ज्यातिप्रभ सबसे छोटा था सो प्रद्युम्नने उसे समाचार देनेके लिए नगरकी ओर भेज दिया और स्वयं वह उसी शिलापर बैठ गया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभवको प्राप्त करते ही हैं ॥ १२४-१२६ ॥

अथानन्तर—प्रद्युम्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेवाले नारदजी आकाश-स्थलसे अपनी ओर आ रहे हैं ॥ १२७ ॥ वह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया उसने विधिपूर्वक उनकी पूजा की, उनके साथ बातचीत की तथा नारदने उसका सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर प्रद्युम्न बहुत

१-गामि ल० । २ तदाश्रितः ल० । तपःश्रयः इत्यपि क्वचित् । ३ विलोपनः ल०, ग०, घ० ।

४ कदम्बमुखी ल० । ५ वधवात्मनः ल० । ६ नभमः स्थलात् इत्यपि क्वचित् ।

सत्यकश्रद्धाय तत्सर्वं प्रहृष्टोऽरिबलागमम् । १६७१९स्त विस्मितस्तावद्वलं तं खेचरेणितुः ॥ १२९ ॥  
 सहसावेष्टेवार्कं प्राहृडम्भोदजालकम् । कालशम्बरमुख्यं तत्स युद्ध्वा भङ्गमापयत् ॥ १३० ॥  
 तं सुनुकृतवृत्तान्तं बोधयित्वा खगाधिपम् । अपनीय शिलां नागपाशं चैतान्यपाशयत् ॥ १३१ ॥  
 नारदागमहेतुञ्च ज्ञापयित्वा सविस्तरम् । आपृच्छयानुमतस्तेन रथं वृषभनामकम् ॥ १३२ ॥  
 नारदेन समारूढ १ प्रायान् द्वारावतीं प्रति । स्वपूर्वभवसम्बन्धं शृण्वंस्तेन निरूपितम् ॥ १३३ ॥  
 हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य दुर्योधनमहीभृतः । जलधेश्च सुतां कन्यां मान्यामुदधिसञ्ज्ञया ॥ १३४ ॥  
 दातुं भानुकुमाराय महाभिषवणोत्सवम् । विधीयमानं वीक्ष्यासौ रथे प्रस्तरविद्यया ॥ १३५ ॥  
 नारदं शिलयाच्छाद्य तस्मादुत्थीर्य भूतलम् । बहुप्रकारं हासानां तत्र कृत्वा ततो गतः ॥ १३६ ॥  
 मधुराया बहिर्भागे पाण्डवान् स्वप्रियां सुताम् । प्रदित्सूनु गच्छतो भानुकुमाराय निवीक्ष्य ३ सः ॥ १३७ ॥  
 समारोपितकोदण्डहस्तो व्याधाकृतिं दधत् । तेषां कदर्थनं कृत्वा नाना द्वारवर्तामितः ॥ १३८ ॥  
 विधाय विद्यया ५ प्राग्वक्षारदं स्यन्दनस्थितम् । एकाकी स्वयमागत्य विद्याशास्त्रामुगाकृतिः ॥ १३९ ॥  
 बभ्रु सत्यभामाया नन्दनं वा वनं वनम् । तत्पानवापीनिःशेषजलपूर्णकमण्डलुः ॥ १४० ॥  
 ततो गत्वान्तरं किञ्चित्स्यन्दनोरभरासभान् । विपर्यासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४१ ॥  
 पुरगोपुरनिर्याणप्रवेशनगतान् जनान् । सप्रहासान् समापाद्य प्रविश्य नगरं पुनः ॥ १४२ ॥  
 १ शालाख्यवैद्यवेपेण स्वं प्रताप्य स्वविद्यया । विच्छिन्नकर्णसन्धानवेदित्वादि प्रघोषयन् ॥ १४३ ॥

संतुष्ट हुआ और उसपर विश्वास कर वहीं बैठ गया। शत्रुकी सेनाका आगमन देखकर वह आश्चर्यमें पड़ गया। थोड़े ही देर बाद, जिस प्रकार वर्षा ऋतुमें बादलोंका समूह सूर्यको घेर लेता है उसी प्रकार अकस्मान् विद्याधर राजाकी सेनाने प्रद्युम्नको घेर लिया परन्तु प्रद्युम्नने युद्ध कर उन कालसंवर आदि ममस्त विद्याधरोंको पराजित कर दिया। तदनन्तर—उसने राजा कालसंवरके लिए उनके पुत्रोंका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया और नयकों बन्धन रहित किया। इसी तरह नारदके आनेका कारण भी विस्तारके साथ कहा। तत्पश्चात् वह राजा कालसंवरकी अनुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रवाना हुआ। बीचमें नारदजीके द्वारा कहे हुए अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध सुनता हुआ वह हास्तिनापुर जा पहुँचा। वहाँके राजा दुर्योधनकी जलधि नामकी रानीसे उत्पन्न हुई एक उदधिकुमारी नामकी उत्तम कन्या थी। भानुकुमारको देनेके लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था। उसे देख प्रद्युम्नने प्रस्तर विद्यासे उत्पन्न एक शिलाके द्वारा नारदजीको तो रथपर ही टक दिया और आप स्वयं रथसे उतर कर पृथिवी तलपर आ गया और उन लोगोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर वहाँसे आगे बढ़ा ॥ १२८-१३६ ॥ चलते-चलते वह मधुरा नगरके बाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डव लोग अपनी प्यारी पुत्री भानुकुमारको देनेके लिए जा रहे थे उन्हें देख, उसने धनुष हाथमें लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया। तदनन्तर वहाँसे चलकर द्वारिका पहुँचा ॥ १३७-१३८ ॥ वहाँ उसने नारदजीको तो पहलेके ही समान विद्याके द्वारा रथपर अवस्थित रक्त्वा और स्वयं अकेला ही नीचे आया। वहाँ आकर उसने विद्याके द्वारा एक वानरका रूप बनाया और नन्दन वनके समान सत्यभामाका जो वन था उसे तोड़ डाला, वहाँकी बावड़ीका समस्त पानी अपने कमण्डलुमें भर लिया। फिर कुछ दूर जाकर उसने अपने रथमें उल्टे मेंढे तथा गधे जोते और स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया ॥ १३९-१४१ ॥ इस क्रियासे उसने नगरके गोपुरमें आने जानेवाले लोगोंको खूब हँसाया। तदनन्तर नगरके भीतर प्रवेश किया ॥ १४२ ॥ और अपनी विद्याके बलसे शाल नामक वैद्यका रूप बनाकर घोंपणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कानोंका जोड़ना आदि कर्म जानता

१ 'आसु उपवेशने' इत्यम्य लङ्गिरूपम् । २ प्रयान् इत्यपि क्वचित् । ३ कुमारायाभिधीक्ष्य सः ल०, कुमारायातिवीक्ष्य ग० । ४ नारदस्यन्दनस्थितिम् इत्यपि क्वचित् । ५ स्यन्दनोऽरवि यसभान् ल० । ६ आलोक्ष्य वैद्यवेपेण संप्रत्येयं ल० ।

प्राप्य भानुकुमाराय दातुमानीतकन्यकाः । तन्नाभिर्भावितानेकधाहास्योऽनु द्विजाकृतिः ॥ १४४ ॥  
 सत्यभामागृहं गत्वा भोजनावसरे द्विजान् । विप्रकृत्य स्वधाण्ड्येन भुक्त्वा स्वीकृतदक्षिणः ॥ १४५ ॥  
 ततः क्षुल्लकवेपेण समुपेत्य स्वमातरम् । सुभुक्षितोऽहं सद्दृष्टे ! सम्यग्भोजय मामिति ॥ १४६ ॥  
 सम्प्रार्थ्य विविधाहारान् भुक्त्वा तृप्तिमनाप्तवान् । कुरु मे देवि सन्तृप्तिमिति व्याकुलतां नयन् ॥ १४७ ॥  
 तद्वितीर्णमहामोदकोपयोगास्त<sup>१</sup> तृप्तवान् । ईषच्छान्तमनास्तत्र सुखं समुपविष्टवान् ॥ १४८ ॥  
 अकाले चम्पकाशोकपुष्पाण्यभिसमीक्ष्य सा । कलालिकोकिलालापवाचालितवनान्तरे ॥ १४९ ॥  
 तदा विस्मयमापन्ना मुद्रा पप्रच्छ किं भवान् । भद्रासौ मत्सुतो नारदोक्तकाले समागतः ॥ १५० ॥  
 इति तस्याः परिप्रश्ने स्वं रूपं सम्प्रकाशयन् । कृत्वा शिरसि तत्पादनखदीधितिमञ्जरीः ॥ १५१ ॥  
 अभिवाय्य स्वहृत्शान्तमशेषं परिबोधयन् । जननीं सह<sup>२</sup> सम्भुज्य तथा तदभिवाञ्छितैः ॥ १५२ ॥  
 बालक्रीडाविशेषैस्तां परां प्रीतिमवापयन् । प्राग्जनमोपाजितापूर्वपुण्योदय इव स्थितः ॥ १५३ ॥  
 तदा नापितकः कोऽपि रुक्मिणीं समुपागतः । हरिप्रदनास्तुतोऽपत्तिं विज्ञाय विनयन्धरात् ॥ १५४ ॥  
 मुनीन्द्रादावयोर्पत्न्याः प्राग्जः स्वोपयमेऽलकान् । ज्ञात्वन्वयस्याः स हत्वेति युवाभ्यां विहिता स्थितिः ॥ १५५ ॥  
 तस्माद्देव्यलकालीं ते दीयतां तन्निवन्धनम् । स्मृत्वा भानुकुमारस्य ज्ञानार्थं सत्यभामया ॥ १५६ ॥  
 प्रहितोऽहं विवाहेऽद्य<sup>३</sup> द्रुतमित्यग्रवीद्विदम् । किमेतदिति समृष्टा<sup>४</sup> कामेन तव जन्मना ॥ १५७ ॥  
 समं भानुश्च सजातस्तदावाभ्यां युवां हरेः । नीतौ दर्शयितुं सुखे तस्मिन्स्वं पादसन्निधौ ॥ १५८ ॥

हूँ ॥ १४२-१४३ ॥ इसके बाद भानुकुमारको देनेके लिए कुछ लोग अपनी कन्याएँ लाये थे उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारसे हँसी की । पश्चात् एक ब्राह्मणका रूप बनाकर सत्यभामाके महलमें पहुँचा वहाँ भोजनके समय जो ब्राह्मण आये थे उन सबको उसने अपनी धृष्टतासे बाहर कर दिया और स्वयं भोजन कर दक्षिणा ले ली ॥ १४४-१४५ ॥ तदनन्तर क्षुल्लकका वेष रखकर अपनी माता रुक्मिणीके यहाँ पहुँचा और कहने लगा कि हे सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली ! मैं भूखा हूँ, मुझे अच्छी तरह भोजन करा । इस तरह प्रार्थना कर अनेक तरहके भोजन खाये परन्तु तृप्तिकी प्राप्त नहीं हुआ तब फिर व्याकुलताको प्रकट करता हुआ कहने लगा कि हे देवि ! मुझे संतुष्ट कर, पेट भर भोजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा दिये हुए महामोदक खाकर संतुष्ट हो गया । भोजनके पश्चात् वह कुछ शान्तचित्त होकर वहाँ पर सुखसे बैठ गया ॥ १४६-१४८ ॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें ही चम्पक तथा अशोकके फूल फूल गये हैं और साराका सारा वन भ्रमरों तथा कोकिलान्नाओंके मनाहर कूजनसे शब्दायमान हो रहा है । यह देख वह आश्चर्यसे चकित बड़े हर्षसे पूछने लगी कि हे भद्र ! क्या आप मेरे पुत्र हैं और नारदके द्वारा कहे हुए समय पर आये हैं । माताका ऐसा प्रश्न सुनते ही प्रद्युम्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उसके चरण-नखोंकी किरण रूप मंजरीको शिरपर रखकर उसे अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । माताके साथ भोजन किया, उसकी इच्छानुसार बाल-कालकी क्रीडाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त कराई और पूर्व जन्ममें उपाजित अपूर्व पुण्य कर्मके उदयके समान वहाँ ठहर गया ॥ १४९-१५३ ॥

उसी समय एक नाई रुक्मिणीके पास आया और कहने लगा कि श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर श्रीविनयन्धर नामके मुनिराजसे सत्यभामा और तुम दोनोंने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर शर्तकी थी कि हम दोनोंमें जिसके पहले पुत्र होगा वह पुत्र, अपने विवाहके समय दूसरीके शिरके बाल हरणकर स्नान करेगा । इसलिए हे देवी ! आप उस शर्तका स्मरणकर भानुकुमारके स्नानके लिए अपने केश मुझे दीजिये । आज विवाहके दिन सत्यभामाने मुझे शीघ्र ही भेजा है । नाईकी बात सुनकर प्रद्युम्नने मातासे पूछा कि 'यह क्या बात है ?' वह कहने लगी कि 'तुम्हारा और भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था । हम दोनोंने श्रीकृष्णको दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था और वह

स्थापितः स शिरीभागे प्रबुध्य त्वां पुरा हरिः । विलोक्य ज्येष्ठतां तेऽदादिति माताऽभ्यधासतः ॥१५९॥  
 स नापितं विकाराणामकरोदाकरं पुनः । भागतांश्च व्यधाद् भृत्यान् गोपुरेऽधःस्थिताननाम् ॥ १६० ॥  
 वासुदेवस्य रूपेणातर्जयश्च विदूषकम् । दीर्घीकृतस्वपादेन जराक्यञ्च महत्तरम् ॥ १६१ ॥  
 मेषरूपेण सन्यातात्पातयन् स्वपितामहम् । हलिनञ्च हरिभूत्वा निगीर्य स्वमदृश्यताम् ॥ १६२ ॥  
 गत्यात्र सुखमास्थाम्बोत्वभिधाय स्वविद्यया । रुक्मिणीरूपमापाद्य निर्विशेषं मनोहरम् ॥ १६३ ॥  
 विमाने स्थापयित्वाद्भु गच्छन्स सबलं हरिम् । प्राप्तवन्तं समाहर्तुमाकालिकयमोपमम् ॥ १६४ ॥  
 जित्वा नरेन्द्रजाकाक्यविद्याविहितमायया । तस्यौ निष्प्रतिपक्षः सन्वीक्षणगभीरुविग्रहः ॥ १६५ ॥  
 नारदः स तदागत्य तनूजस्याप वीक्षणम् । युवयोरीदृशं लब्धविद्यस्येत्यभ्यधादसन् ॥ १६६ ॥  
 सोपि प्रकटितात्मीयरूपः पञ्चशरो बलम् । हरिञ्च स्वशिरोन्यस्ततत्क्रमाब्जोऽप्यभानयन् ॥ १६७ ॥  
 ततश्चक्रधरोऽनङ्गं प्रेमालिङ्गितविग्रहः । आरोग्यं स्वगजस्कन्धं प्रहृष्टः प्राविशत्पुरम् ॥ १६८ ॥  
 सत्यभामासुतोद्दिष्टकन्यकाभिः सह स्मरः । कल्याणाभिषवं दिष्ट्या सम्प्राप्तसर्वसम्मतः ॥ १६९ ॥  
 एवं प्रयाति कालेऽस्य स्वर्गादागत्य कश्चन । तनूजः कामसोदर्यो हरेः प्राच्यो भविष्यति ॥ १७० ॥  
 इत्यादेशं समाकर्ष्य सत्यभामात्मनः पतिम् । यथा स्यारात्समुत्पत्तिः स्वस्यास्तादृगयाचत ॥ १७१ ॥  
 तच्छ्रुत्वा रुक्मिणी च ह कामं जाम्बवती यथा । लप्स्यते तेऽनुजं प्राच्यं तथा कुर्विति सादरम् ॥ १७२ ॥  
 सोप्यदान्मुद्रिकां कामरूपिणीं तामवाप्य सा । सत्यभामाकृतिं गत्वा पतिसंयोगतः सुखम् ॥ १७३ ॥

उनके शिरके समीप रखा गया था । जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुम्हपर पड़ी इसलिए उन्होंने तुम्हे ही जेठापन प्रदान किया था—तू ही बड़ा है यह कहा था। माताके वचन सुनकर प्रद्युम्नने उस नाईको विकृतिकी खान बना दी—उसकी बुरी चेष्टा कर दी और उसके साथ जो सेवक आये थे उन सबको नीचे शिरकर गांपुरमें उल्टा लटका दिया तथा श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके विदूषकको खूब डाटा । तदनन्तर मार्गमें सो रहा और जगानेपर अपने पैर लम्बेकर जर नामक प्रतीहारीको खूब ही धौंस दी ॥१५४-१६१॥ फिर मेषका रूप बनाकर बाबा वासुदेवका टक्कर द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बलभद्रको निगलकर अदृश्य कर दिया । तदनन्तर—माताके पास आकर बोला कि 'हे माता ! तू यहीं पर सुखसे रह' यह कहकर उसने अपनी विद्यासे ठीक रुक्मिणी के ही समान मनोहर रूप बनाया और उसे विमानमें बैठाकर शीघ्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणीको हरकर ले जा रहा हूँ, यदि सामर्थ्य हो तो छुड़ा लो ! यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजकी उपमा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उसे छुड़ानेके लिए सामने जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप धारण करनेवाले प्रद्युम्नने नरेन्द्रजाल नामक विद्याकी मायासे उन्हें जीत लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा ॥ १६२-१६५ ॥ उसी समय नारदने आकर हँसते हुए, बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कहा कि जिसे अनेक विद्याएँ प्राप्त हैं ऐसे पुत्रका आज आप दोनोंको दर्शन हो रहा है ॥ १६६ ॥ उसी समय प्रद्युम्नने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा बलभद्र और श्रीकृष्णको उनके चरण-कमलोंमें अपना शिर झुकाकर नमस्कार किया ॥ १६७ ॥ तदनन्तर चक्रवर्ती श्रीकृष्ण महाराजने बड़े प्रेमसे प्रद्युम्नका आलिंगन किया, उसे अपने हाथीके स्कन्धपर बैठाया और फिर बड़े प्रेमसे नगरमें प्रवेश किया ॥ १६८ ॥ वहाँ जाकर प्रद्युम्नने अपने पुण्योदयसे, सत्यभामाके पुत्र भानुकुमारके लिए जो कन्याएँ आई थी उनके साथ सर्वाकी सम्मतिसे विवाह किया ॥ १६९ ॥ इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन सवने सुना कि प्रद्युम्नका पूर्वजन्मका भाई स्वर्गसे आकर श्रीकृष्णका पुत्र होगा । यह सुनकर सत्यभामाने अपने पतिसे याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न कीजिये ॥ १७०-१७१ ॥ जब रुक्मिणीने यह सुना तो उसने बड़े आदरके साथ प्रद्युम्नसे कहा कि तुम्हारे पूर्वभवके छोटे भाई-को जाम्बवती प्राप्त कर सकें ऐसा प्रयत्न करो ॥ १७२ ॥ प्रद्युम्नने भी जाम्बवतीके लिए इच्छानुसार



क्रीडव्यं गान्धर्ववत्याप शम्भवाख्यं दिवश्च्युतम् । सुभानुं सत्यभामा च जातमत्सरयोस्तयोः ॥ १७४ ॥  
 गान्धर्वादिविवादेषु सुभानुं शम्भवोऽजयत् । सर्वत्र पूर्वपुण्यानां विजयो नैव दुर्लभः ॥ १७५ ॥  
 रुक्मिणी सत्यभामा च गतमात्सर्यबन्धने । परस्परगतां प्रीतिमन्वभूतामतः परम् ॥ १७६ ॥  
 इत्यशेषं गणेशोक्तमाकर्ण्य सकलं सद्ः । ननाम मुकुलीभूतकराब्जं तच्छमाब्जयोः ॥ १७७ ॥  
 अथान्यदा जिनं नेमिं सीरपाणिः कृताञ्जलिः । भवनम्यान्वयुं कसैव हरिजोहासमानसः ॥ १७८ ॥  
 भगवन् वासुदेवस्य राज्यं प्राज्यमहोदयम् । प्रवर्ततेऽप्रतीपं मे ब्रूहीदञ्च कियच्चिरम् ॥ १७९ ॥  
 भद्रं द्वादशवर्षान्ते नदयेन्मघनिमित्तकम् । द्वीपायनेन निर्मूलमियं द्वारावती पुरी ॥ १८० ॥  
 विष्णोर्जरत्कुमारेण गत्यन्तरगतिर्भवेत् । स एष प्रथमां पृथ्वीं प्रविशयाञ्च्युपमायुषः ॥ १८१ ॥  
 प्रान्ते तस्माद्विनिर्गत्य तीर्थेशोऽत्र भविष्यति । त्वमप्येतद्विषोगेन षण्मासकृतशोचनः ॥ १८२ ॥  
 सिद्धार्थसम्बोधनापास्ताखिलदुःखकः । द्वीक्षामादाय माहेन्द्रकल्पे देवो जनिष्यसे ॥ १८३ ॥  
 उक्त्वप्यायुःस्थितिस्तत्र मुक्तभोगोऽत्र तीर्थकृत् । भूत्वा निर्दग्धकर्मारिर्देहमुक्तो भविष्यसि ॥ १८४ ॥  
 इति तीर्थशिना प्राक्तं श्रुत्वा द्वीपायनाङ्कयः । सद्यः संयममादाय प्रायाज्जनपदान्तरम् ॥ १८५ ॥  
 तथा जरत्कुमारश्च कौशाम्ब्यारण्यमाश्रयत् । प्राग्बद्धनरकायुष्यो हरिरन्वास्तदर्शनः ॥ १८६ ॥  
 ३ भाष्यमानान्वयनामासौ नाहं शक्नोमि दीक्षितुम् । शक्ताञ्च प्रतिब्रजामीत्याक्षीबालमघोषयत् ॥ १८७ ॥  
 प्रद्युम्नादिसुता देव्यो रुक्मिण्याद्याश्च चक्रिणम् । बन्धूंश्चापृच्छय तैर्मुक्ताः प्रत्यपद्यन्त संयमम् ॥ १८८ ॥

रूप बनाने वाली अंगूठी दे दी उसे पाकर जाम्बवतीने सत्यभामाका रूप बनाया और पतिके साथ संयोगकर स्वर्गसे च्युत हुए क्रीडवके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न होने पर उसका शम्भव नाम रक्खा गया। उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया। इधर शम्भव और सुभानुमें जब परस्पर ईर्ष्या बढ़ी तो गान्धर्व आदि विवादोंमें शम्भवने सुभानुको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य उपार्जन किया है उन्हें सब जगह विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है ॥ १७२-१७५ ॥ इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईर्ष्या छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनुभव करने लगीं ॥ १७६ ॥ इस प्रकार गणधर भगवान्के द्वारा कहा हुआ सब चरित सुनकर समस्त सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार किया ॥ १७७ ॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीकृष्णके स्नेहने जिनका चित्त वशकर लिया है ऐसे बलदेवने हाथ जोड़कर भगवान् नेमिनाथको नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन! श्रीकृष्णका यह वैभवशाली निष्कण्ठक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा? कृपाकर आप यह बात मेरे लिए कहिये ॥ १७८-१७९ ॥ उत्तरमें भगवान् नेमिनाथने कहा कि भद्र! बारह वर्षके बाद मदिराका निमित्त पाकर यह द्वारावती पुरी द्वीपायनके द्वारा निर्मूल नष्ट हो जायगी। जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णका मरण होगा। यह एक सागरकी आयु लेकर प्रथमभूमिमें उत्पन्न होगा और अन्तमें वहाँसे निकलकर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थकर होगा। तू भी इसके वियोगसे छह माह तक शोक करता रहेगा और अन्तमें सिद्धार्थदेवके सम्बोधनसे समस्त दुःख छोड़कर दीक्षा लेगा तथा माहेन्द्र स्वर्गमें देव होगा ॥ १८०-१८३ ॥ वहाँपर सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त भोगोंका उपभोगकर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थकर होगा तथा कर्मरूपी शत्रुओंको जलाकर शरीरसे मुक्त होगा ॥ १८४ ॥ श्री तीर्थकर भगवान्का यह उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारणकर दूसरे देशको चला गया तथा जरत्कुमार कौशाम्बीके वनमें जा पहुँचा। जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर लिया था ऐसे श्रीकृष्णने सम्यग्दर्शन प्राप्तकर तीर्थकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन किया तथा स्त्री बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा लेनेमें समर्थ नहीं हूँ परन्तु जो समर्थ हों उन्हें मैं रोकता नहीं हूँ ॥ १८५-१८७ ॥ यह सुनकर प्रद्युम्न आदि पुत्रों तथा रुक्मिणी आदि देवियोंने चक्रवर्ती श्रीकृष्ण एवं अन्य बन्धुजनोंसे पूछकर उनकी

द्वीपायननिदानावसाने जाम्बवतीसुतः । अनिरुद्धश्च कामस्य सुतः सम्प्राप्य संयमम् ॥ १८९ ॥  
 प्रद्युम्नमुनिना सार्धमूर्जयन्ताचलाप्रतः । कृत्स्नं समारुह्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १९० ॥  
 शुक्रध्यानं समाप्यं प्रयस्ते घातिघातिनः । कैवल्यनवकं प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥ १९१ ॥  
 पुण्यघोषणकृष्णक्षपृतचक्रपुरस्सरः । पादन्यासे पुरः पश्चात्सरोजैः सप्तभिः पृथक् ॥ १९२ ॥  
 कृतशोभो जगन्नाथश्छन्नादिप्रातिहार्यकः । मरुन्मार्गगताशेषसुरखेचरसेवितः ॥ १९३ ॥  
 पृथ्वीपथप्रवृत्तान्यविनेयजनतानुगः । पवनामरनिर्भूतधूलीकण्टकभूतलः ॥ १९४ ॥  
 मेवामरकुमारोपसिक्तगन्धाम्बुसंस्क्रितिः । इत्याद्याश्चर्यसम्पन्नः सर्वप्राणिमनोहरः ॥ १९५ ॥  
 धर्मादृतमयीं वृष्टिमभिषिञ्चन् जिनेश्वरः । विश्वान्देशान्विहृत्यायात्स देशं पल्लवाङ्क्यम् ॥ १९६ ॥  
 अत्र पाण्डुतनुजानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रभाष्यते । ग्रन्थविस्तरभीरूणामायुर्मैधानुरोधतः ॥ १९७ ॥  
 काम्पिल्यायां धराधीशो नगरे द्रुपदाङ्क्यः । देवी दृढरथा तस्य द्रौपदी तनया तयोः ॥ १९८ ॥  
 स्त्रीगुणैः सकलैः शस्या बभूव भुवनप्रिया । तां पूर्णयौवनां व्रीक्ष्य पित्रा कर्म समर्प्यताम् ॥ १९९ ॥  
 इयं कन्येति सम्पृष्टा मन्त्रिणो मन्त्रचर्चया । प्राभाषन्त प्रचण्डेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम् ॥ २०० ॥  
 एतान् सहजशत्रुत्वाद् दुर्योधनमर्हापतिः । पाण्डुपुत्रानुपायेन लाक्षाशाल्यमर्वाविशान् ॥ २०१ ॥  
 हन्तुं तत्रोऽपि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिताः । प्रदुताः पयसि क्षमाजस्याधस्तात्कित्त्वपं स्वयम् ॥ २०२ ॥  
 अपहृत्य 'नुरङ्गापातेन देशान्तरं गताः । स्वसम्बन्धादिदुःखस्य 'वेदनायाश्च पाण्डवाः ॥ २०३ ॥

आञ्जानुसार संयम धारण कर लिया ॥ १८८ ॥ द्वीपायन द्वारिका-दाहका निदान अर्थात् कारण था जब वहांसे अन्यत्र चला गया तब जाम्बवतीके पुत्र शम्भव तथा प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्धने भी संयम धारण कर लिया और प्रद्युम्नमुनिके साथ गिरनार पर्वतकी ऊँची तीन शिखरोंपर आरूढ होकर सब प्रतिमा योगके धारक हो गये ॥ १८९-१९० ॥ उन तानोंने शुक्रध्यानको पूराकर घातिया कर्मोंका नाश किया और नव कैवल्यलब्धियों पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १९१ ॥ अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान् नेमिनाथने वहाँसे विहार किया । उस समय पुण्यकी घोषणा करनेवाले यज्ञके द्वारा धारण किया हुआ धर्मचक्र उनके आगे चल रहा था, पैर रखनेकी जगह तथा आगे और पीछे अलग-अलग सात सात कमलोंके द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहार्य अलग-अलग सुशोभित हो रहे थे, आकाशमार्गमें चलनेवाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थे, देव और विद्याधरोंके सिवाय अन्य शिष्य जन पृथिवीपर ही उनके पीछे-पीछे जा रहे थे, पवन-कुमार देवोंने पृथिवीकी सब धूली तथा कण्टक दूर कर दिये थे और मेघकुमार देवोंने सुगन्धित जल बरसाकर भूमिको उत्तम बना दिया था, इत्यादि अनेक आश्चर्योंसे सम्पन्न एवं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनेवाले भगवान् नेमिनाथ धर्मादृतकी वर्षा करते हुए समस्त देशोंमें विहार करनेके बाद पल्लव देशमें पहुँचे ॥ १९२-१९६ ॥

आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि यहाँ पर ग्रन्थके विस्तारसे डरनेवाले शिष्योंकी आयु और बुद्धिके अनुरोधसे पाण्डवोंका भी कुछ वर्णन किया जाता है ॥ १९७ ॥ काम्पिला नामकी नगरीमें राजा द्रुपद राज्य करता था उसकी देवीका नाम दृढरथा था और उन दोनोंके द्रौपदी नामकी पुत्री थी । वह द्रौपदी स्त्रियोंमें होनेवाले समस्त गुणोंसे प्रशंसनीय थी तथा सबको प्यारी थी । उसे पूर्ण यौवनवती देखकर पिताने मन्त्रचर्चाके द्वारा मन्त्रियोंसे पूछा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये । मन्त्रियोंने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान् पाण्डवोंके लिए देनी चाहिये ॥ १९८-२०० ॥ पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है उसने इन लोगोंको मारनेके लिए किसी उपायसे लाभ्राभवन ( लाखके बने घर ) में प्रविष्ट कराया था ॥ २०१ ॥ परन्तु अपने पुण्यके उदयसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चालाकी जान गये इसलिए जलमें खड़े हुए किसी धृक्के नीचे रहनेवाले पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये और अपने कुटुम्बी जनोंसे

पोदनाख्यपुरे चन्द्रदशनाममहीपतेः । देविलायाश्च <sup>१</sup>पुत्रन्ते कलागुणविशारदम् ॥ २०४ ॥  
 विधाय <sup>२</sup>निहतस्थूणगन्धा राज्यं व्यतारिषुः । अथेन्द्रवर्मणे प्रसियेत्येया वातां ध्रुवा चरात् ॥ २०५ ॥  
 इहाण्यवश्यमेत्यन्ति विधेयस्तस्त्वयंवरः । न केनचिद्विरोधोऽयमिति तद्गचनश्रुतेः ॥ २०६ ॥  
 वसन्तेऽचीकरद्राजा स स्वयंवरमण्डपम् । तत्र सर्वमहीपालाः सम्प्रापन् पाण्डवेषु च ॥ २०७ ॥  
 भीमस्य भोजनाद्गन्धगजस्य करतर्जनात् । पार्थस्य मत्स्यनिर्भेदाच्छापरोहणसाहसात् ॥ २०८ ॥  
 नारदागमनाच्चापि लक्ष्यमाणेषु निश्चितम् । समागतेषु सत्स्वर्हन्महापूजापुरस्सरम् ॥ २०९ ॥  
 प्रविश्य भूषिता रत्नैः सा स्वयंवरमण्डपम् । भूमिपान् <sup>३</sup>कुलरूपादिगुणैः सिद्धार्थनामनि ॥ २१० ॥  
 पुरोधसि क्रमात्सर्वान् कथयत्यतिलङ्घ्य तान् । कन्या सम्भावयामास मालयाञ्ज्वलयाऽर्जुनम् ॥ २११ ॥  
 द्रुपदाद्युप्रवंशोत्थमहीशाः कुरुवंशजाः । अन्येऽपि चानुरूपोऽयमिति तुष्टिं समागमन् ॥ २१२ ॥  
 एवं संप्राप्तकल्याणाः प्रविश्य पुरमात्मनः । गमयन्ति स्म सौख्येन कालं दीर्घमिव क्षणम् ॥ २१३ ॥  
 ततः पार्थात्सुभद्रायामभिमन्युरभूत्सुतः । द्रौपद्यां पञ्च पाञ्चालनामानोऽन्वभवन्क्रमात् ॥ २१४ ॥  
 दूतं युधिष्ठिरस्यात्र दुर्योधनमहीभुजा । भुजङ्गशैलपुर्यां <sup>४</sup>यत्कीचकानां विनाशनम् ॥ २१५ ॥  
 विराटभूपतेर्भूरिगोमण्डलनिवर्तनम् । अनुयानेन भूपस्य विराटस्य सुदारमणः ॥ २१६ ॥  
 अल्पगोमण्डलस्यार्जुनोत्तराभ्यां निवर्तनम् । पुराणवेदिभिर्वाच्यं विस्तरेण यथाश्रुतम् ॥ २१७ ॥  
 अथ युद्धे कुरुक्षेत्रे प्रवृत्ते कौरवैः समम् । <sup>५</sup>पाण्डवानां विनिजित्य दुर्योधनधराधिपम् ॥ २१८ ॥

प्राप्त दुःखका अनुभव करनेके लिए देशान्तरको चले गये हैं । इधर गुप्तचरके मुखसे इनके विषयकी यह बात सुनी गई है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदत्त और उनकी रानी देविलाके इन्द्रवर्मा नामक पुत्रको पाण्डवोंसे समस्त कलाओं और गुणोंमें निपुण बनाया है तथा उसकी प्रतिद्वन्द्वी स्थूण-गन्धका नष्टकर उसके लिए राज्य प्रदान किया है । मैं वे पाण्डव यहाँ भी अवश्य ही आवेंगे । अतः अपने लिए द्रौपदीका स्वयंवर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे किर्माके साथ विरोध नहीं होगा । मन्त्रियोंके उक्त वचन सुनकर राजाने वसन्त ऋतुमें स्वयंवर-मण्डप बनवाया जिसमें सब राजा लोग आये । पाण्डव भी आये, उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदनोत्त हाथीको हाथसे ताड़ित करनेसे प्रकट हुआ, अर्जुन मत्स्यभेद तथा धनुष चढ़ानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारदके आगमनसे प्रकट हुए । जब सब लोग निश्चित रूपसे स्वयंवर-मण्डपमें आकर विराजमान हो गये तब अर्हन्त भगवान्की महा पूजाकर रत्नोंसे सजी हुई द्रौपदी स्वयंवर-मण्डपमें प्रविष्ट हुई । सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल-रूप आदि गुणोंका वर्णन करता हुआ समस्त राजाओंको अनुक्रमसे परिचय दे रहा था । क्रम-क्रमसे द्रौपदी समस्त राजाओंको उल्लेखन करती हुई आगे बढ़ती गई । अन्तमें उसने अपनी निर्मल मालाके द्वारा अर्जुनको सन्मानित किया ॥ २०२-२११ ॥ यह देखकर द्रुपद आदि उपवंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुवंशी तथा अन्य अनेक राजा 'यह सम्बन्ध अनुकूल सम्बन्ध है' यह कहते हुए संतोषको प्राप्त हुए ॥ २१२ ॥ इस प्रकार अनेक कल्याणोंको प्राप्तकर वे पाण्डव अपने नगरमें गये और सुख पूर्वक बड़े लम्बे समयको क्षणभरके समान व्यतीत करने लगे ॥ २१३ ॥

तदनन्तर अर्जुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नामका पुत्र हुआ और द्रौपदीके अनुक्रमसे पाञ्चाल नामके पाँच पुत्र हुए ॥ २१४ ॥ यहाँ युधिष्ठिरका राजा दुर्योधनके साथ जुआ खेला जाना, भुजङ्गशैल नामक नगरीमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डवका विराट नगरीके राजा विराटका सेवक बनकर रहना, अर्जुनके द्वारा राजा विराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका लौटाया जाना, तथा अर्जुनके अनुज सहदेव और नकुलके द्वारा उसी सुख-सम्पन्न राजा विराटकी कुञ्ज गायोंका वापिस लौटाना, आदि जो घटनाएँ हैं उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेवाले लोगोंको विस्तारसे कथन करना चाहिए ॥ २१५-२१७ ॥ अथानन्तर-कुरुक्षेत्रमें पाण्डवोंको कौरवोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्ठिर

बुधिष्ठिरः समस्तस्य विषयस्याभवद्विभुः । विभज्य स्वानुजैर्लक्ष्मीं शुभानोऽरभ्यजनम् ॥ २१९ ॥  
 एवं स्वकृतपुण्यस्य ते सर्वे परिपाकजम् । सुखं निखिलमभ्यप्रमन्वभूवन्नारतम् ॥ २२० ॥  
 तदा द्वारावतीदाहः कौशाम्बीगहान्तरे । मृतिर्जरत्कुमारेण विष्णोर्ज्यैष्ठस्य संयमः ॥ २२१ ॥  
 भविष्यतीति यत्प्रोक्तं द्वारावत्यां जिनेशिना । निर्द्वारां तत्र तत्सर्वं न मिथ्यावादिनो जिनाः ॥ २२२ ॥  
 तादृशं तादृशामासीद्विग्निगुण्युष्कर्मणां गतिम् । निर्मूलयन्ति कर्माणि तत एव हि धीधनाः ॥ २२३ ॥  
 यत्सर्वं पाण्डवाः श्रुत्वा तदायन्मथुराधिपाः । स्वामिबन्धुवियोगेन निविद्य त्यक्तराज्यकाः ॥ २२४ ॥  
 महाप्रस्थानकर्माणः प्राप्य नेमिजिनेश्वरम् । तत्कालोचितसत्कर्म सर्वं निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २२५ ॥  
 स्वपूर्वभवसम्बन्धमपृच्छन्तस्सूतेर्भयात् । अवोचज्जगवानिन्धमप्रतर्क्यमहोदयः ॥ २२६ ॥  
 जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतेऽङ्गे पुरी परा । चम्पाल्या कौरवस्तत्र महीशो मेघवाहनः ॥ २२७ ॥  
 सोमदेवो द्विजोऽत्रैव ब्राह्मणी तस्य सोमिला । तयोः सुतास्त्रयः सोमदरासोमिलनामकः ॥ २२८ ॥  
 सोमभूतिश्च वेदाङ्गपारगाः परमद्विजाः । अर्माणां मातुलस्याग्निभूतेस्तिस्त्रोऽभवन्सुताः ॥ २२९ ॥  
 अमिलया धनश्रीमित्रश्रीनागश्रियः प्रियाः । तेभ्यो यथाक्रमं दशास्ताः पितृभ्यां सुलक्षणाः ॥ २३० ॥  
 सोमदेवः सुनिविद्य सुधीः केनापि हेतुना । प्रावाजीदन्यदा धर्मरुचिनामतपोधनम् ॥ २३१ ॥  
 प्रविशन्तं गृहं भिक्षाकालं वीक्ष्यानुकम्पया । सोमदराः प्रतीक्ष्यैनमाह पत्नीं कनीयसः ॥ २३२ ॥  
 नागश्रीवितरास्मै त्वं भिक्षामिति कृतादरम् । मामेव सर्वदा सर्वमेव प्रेषयतीति सा ॥ २३३ ॥  
 कुपिता विषसमिश्रं ददावन्नं तपोभृते । स सन्न्यस्य समाराध्यं प्रापदन्त्यमनुरारम् ॥ २३४ ॥

दुर्योधन राजाको जीतकर समस्त देशका स्वामी हो गया और छोटे भाइयोंके साथ विभागकर राज्यलक्ष्मीका उपभोग करना हुआ सबको प्रसन्न करने लगा ॥ २१९-२१९ ॥ इस प्रकार वे सब पाण्डव अपने द्वारा किये हुए पुण्य कर्मके उदयमे उत्पन्न सम्पूर्ण सुखका विना किसी आकुलताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥ २२० ॥

तदनन्तर—‘द्वारावती जलेगी, कौशाम्बी-वनमें जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्यु होगी और उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे’ इस प्रकार द्वारावतीमें नेमिनाथ भगवानने जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् अन्यथावादी नहीं होते हैं ॥ २२१-२२२ ॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लोकान्तर पुरुषोंकी वैसी दशा हुई इसलिए अशुभ कर्मोंकी गतिको बार-बार धिक्कार हो और निश्चयसे इसीलिए बुद्धिमान् पुरुष इन कर्मोंको निर्मूल करते हैं— उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं ॥ २२३ ॥ मथुराके स्वामी पाण्डव, यह सब समाचार सुनकर वहाँ आये । वे सब, स्वामीश्रीकृष्ण तथा अन्य बन्धुजनोंके वियोगसे बहुत विरक्त हुए और राज्य छोड़कर मोक्षके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लोगोंने नेमिनाथ भगवान्के पास जाकर उस समयके योग्य नमस्कार आदि सत्कर्म किये तथा संसारसे भयभीत होकर अपने पूर्वभ्रम पूछे । उत्तरमें अचिन्त्य वैभवके धारक भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे ॥ २२४-२२६ ॥ उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी अङ्गदेशमें एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कुरुवंशी राजा मेघवाहन राज्य करता था । उसी नगरीमें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिला था । उन दोनोंके सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति ये वेदांगोंके पारगामी परम ब्राह्मण तीन पुत्र हुए थे । इन तीनों भाइयोंके मामा अग्निभूति थे उसकी अमिला नामकी स्त्रीसे धनश्री, मित्रश्री और नागश्री नामकी तीन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं । अग्निभूति और अमिलाने शुभ लक्षणोंवाली ये तीनों कन्याएँ अपने तीनों भानेजोंके लिए यथा क्रमसे दे दीं ॥ २२७-२३० ॥ तदनन्तर—बुद्धिमान् सोमदेवने किसी कारणसे विरक्त होकर जिन-दीक्षा ले ली । किसी एक दिन भिक्षाके समय धर्मरुचि नामके तपस्वी मुनिराजको अपने घरमें प्रवेश करते देखकर व्याकुला वश सोमदत्तने उनका पडिगाहन किया और छोटे भाईकी पत्नीसे कहा कि हे नागश्री ! तू इनके लिए बड़े आदरके साथ भिक्षा दे दे । नागश्रीने मनमें सोचा कि ‘यह सदा सभी कार्यके लिए मुझे ही भेजा करता है’ यह सोचकर वह बहुत ही क्रुद्ध हुई और उसी क्रुद्धावस्थामें उसने उन तपस्वी

नामश्रीविहिताकृत्यं ज्ञात्वा ते आतरन्नयः । समीपे वरुणार्थस्य दीक्षां मौक्षीं समाययुः ॥ २३५ ॥  
गुणवत्याधिकाम्यादीं ब्राह्मण्यावितरे तदा । ईयतुः संयमं वृत्तमीदृक्सदसतामिदम् ॥ २३६ ॥  
पञ्चाप्याराध्य तेऽभूवन्नारणाच्युतकल्पयोः । सामानिकामरा द्वाविंशतिसागरजीविनः ॥ २३७ ॥  
अम्बभूर्बश्चिरं भोगांस्तत्र सप्रविचारकान् । नागश्रीरपि पापेन पञ्चमीं पृथिवीमगात् ॥ २३८ ॥  
दुःखं तन्नानुभूयान्ते स्वायुषोऽसौ ततश्च्युता । अभूस्त्वयस्प्रभद्वीपे सर्पो दृष्टिविषो मृतः ॥ २३९ ॥  
द्वितीयनरकं गत्वा त्रिसमुद्रोपमायुषा । मुक्त्वा दुःखं विनिर्गत्य त्रसस्थावरयोनिषु ॥ २४० ॥  
द्विसागरोपमं कालं परिभ्रम्य भवार्णवे । चम्पापुरे समुत्पन्ना मातङ्गी मन्दपाततः ॥ २४१ ॥  
समाधिगुप्तनामानं मुनिमासाद्य सान्यदा । वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्य मधुमांसनिवृत्तितः ॥ २४२ ॥  
तस्मिन्नेव पुरे मृत्वा 'सुतेभ्यस्याभवत्सती । सुबन्धोर्धनदेव्याश्च सुदुर्गन्धशरीरिका ॥ २४३ ॥  
सुकुमारीति सञ्ज्ञास्या विहितार्थानुयायिनी । पुरेऽस्मिन्नेव वैश्यस्य धनदेवस्य पुत्रताम् ॥ २४४ ॥  
प्राप्तावशोकदत्तायां देवदत्तौ जिनादिकौ । सम्प्रधार्य स्वबन्धुनामादानं स्वस्य वेदिता ॥ २४५ ॥  
सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्याजिनदेवो जुगुप्सयन् । सुव्रताख्यमुनेरन्तेवासित्वं समवाप सः ॥ २४६ ॥  
कनीयान् जिनदत्तोऽथ प्रेरितो बन्धुभिर्मुहुः । आसन्नधुसुता नावमानयोग्येति तद्भयात् ॥ २४७ ॥  
गृहीत्वा तामसौ क्रुद्धफणिनीमिव नागमत् । स्वप्नेऽप्यस्य विरक्तवाञ्छिन्दन्ती स्वां विपुण्यताम् ॥ २४८ ॥  
गृहीतानशनान्येषुरार्थिकाभिः 'सहागताम् । स्वगेहं सुव्रतां क्षान्तिमभिवन्ध 'वदायिके ॥ २४९ ॥

मुनिराजके लिए विप मिला हुआ आहार दे दिया जिसमे संन्यास धारण कर तथा चारों आराधनाओं की आराधना कर उक्त मुनिराज सर्वार्थसिद्धि नामक अनुत्तर विमानमें जा पहुँचे ॥ २३१-२३४ ॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्रीके द्वारा किये हुए इस अकृत्यका पता चला तो उन्होंने वरुणार्थके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥ २३५ ॥ यह देख, नागश्रीको छोड़कर शेष दो ब्राह्मणियोंने भी गुणवती आर्यिकाके समीप संयम धारण कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि सज्जन और दुर्जनोका चरित्र ऐसा ही होता है ॥ २३६ ॥ इस प्रकार ये पाँचों ही जीव, आयुके अन्तमें आराधनाओंकी आराधना कर आरण और अच्युत स्वर्गमें बाईस सागरकी आयुवाले सामानिक देव हुए ॥ २३७ ॥ वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रवीचार सहित भोगोंका उपभोग किया । इधर नागश्री भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुँची, वहाँके दुःख भोगकर आयुके अन्तमें निकली और वहाँसे च्युत होकर स्वयंप्रभ द्वीपमें दृष्टिविष नामका सर्प हुई । फिर मरकर दूसरे नरक गई वहाँ तीन सागरकी आयु पर्यन्त दुःख भोगकर वहाँसे निकली और दो सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियोंमें भ्रमण करती रही । इस प्रकार संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्द हुआ तब चम्पापुर नगरमें चाण्डाली हुई ॥ २३८-२४१ ॥ किसी एक दिन उसने समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धर्म-श्रवण किया, और मधु-मांसका त्याग किया । इनके प्रभावसे वह मरकर उसी नगरमें सुबन्धु सेठकी धनदेवी स्त्रीसे अत्यन्त दुर्गन्धित शरीरवाली पुत्री हुई । माता-पिताने उसका 'सुकुमारी' यह सार्थक नाम रक्खा । इसी नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता स्त्रीसे जिनदेव और जिनदत्त नामके दो पुत्र हुए थे । जिनदेवके कुटुम्बी लोग उसका विवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस बातका पता चला तो वह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुव्रत नामक मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात् उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ॥ २४२-२४६ ॥ तदनन्तर छोटे भाई जिनदत्तको उसके बन्धुजनोंने बार-बार प्रेरणा की कि बड़े लोगोंकी कन्याका अपमान करना ठीक नहीं है । इस भयसे उसने उसे विवाह तो लिया परन्तु क्रुद्ध सर्पिणीके समान वह कभी स्वप्नमें भी उसके पास नहीं गया । इस प्रकार पतिके विरक्त होनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यहीनताकी सदा निन्दा करती रहती थी ॥ २४७-२४८ ॥ किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया, उसी दिन उसके

हमे द्वे दीक्षिते केन हेतुनेत्यन्वयुक्तं ताम् । अथ साप्यब्रवीदेवं क्षान्तिः कल्याणनामिके ॥ २५० ॥  
 शृण्वेते जन्मनि प्राचि सौधर्माधिपतेः प्रिये । विमला सुप्रभा चेति देव्यौ सौधर्मसंयुते ॥ २५१ ॥  
 गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे जिनगोहार्चनाविधेः । तत्र संविप्रश्चिरात्सात्सम्प्राप्यास्मान्मनुष्यताम् ॥ २५२ ॥  
 आवां तपः करिष्याव हृत्यन्योन्यं व्यवस्थितिम् । अकुर्वतां ततश्च्युत्वा साकेतनगरेऽशिनः ॥ २५३ ॥  
 श्रीषेणाख्यमहीशस्य श्रीकान्तायाश्च ते सुते । हरिश्रीपूर्वसेनाख्ये सम्भूय प्राप्तयौवने ॥ २५४ ॥  
 स्वयंवरविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते । निजपूर्वभवं स्मृत्वा संस्थाञ्च प्राक्तनी कृताम् ॥ २५५ ॥  
 विसर्ज्य बन्धुवर्गेण सभं नृपकुमारकान् । हते दीक्षामिति क्षान्तिवचनार्कणनेन सा ॥ २५६ ॥  
 सुकुमारी च निर्विण्णा सम्मता निजबान्धवैः । तत्समीपेऽगमहीक्षामन्येद्युर्वनमागताम् ॥ २५७ ॥  
 वेदयां वसन्तसेनाख्यामाहृत्य बहुभिविदैः । सम्प्रार्थ्यमानामालोक्य ममाप्येवं भवेदिति ॥ २५८ ॥  
 निदानमकरोज्जीवितान्ते प्राक्तनजन्मनः । सोमभूतेरभूद्देवी प्रान्तकल्पनिवासिनः ॥ २५९ ॥  
 उत्कृष्टजीवितं तत्र गमयित्वा त्रयोऽपि ते । सौदर्याः प्रच्युता यूयं जाता रत्नत्रयोपमाः ॥ २६० ॥  
 धर्मजो भीमसेनश्च पार्थश्चाख्यातपौरुषः । धनमित्रश्रियौ चास्मिन्नभूतां स्तुतचिक्रमौ ॥ २६१ ॥  
 नकुलः सहदेवश्च चन्द्रादित्यसमप्रभौ । सुकुमारी च काम्पिल्यपुरे द्रुपदभूपतेः ॥ २६२ ॥  
 सुता दृढरथायाश्च द्रौपद्याख्याजनिष्ठ सा । इति नेमीश्वरप्रोक्तमाकर्ण्य बहुभिः समम् ॥ २६३ ॥  
 पाण्डवाः संयमं प्रापन् सतामेषा हि बन्धुता । कुन्ती सुभद्रा द्रौपद्यश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥ २६४ ॥  
 विकटे राजिमत्याख्यगणिन्या गुणभूषणाः । तास्तिन्नः षोडशे कल्पे भूत्वा तस्मात्परिच्युताः ॥ २६५ ॥

वर अन्य अनेक आर्थिकाओंके साथ सुव्रता और क्षान्ति नामकी आर्थिकाएँ आईं उसने उन्हें वन्दना कर प्रधान आर्थिकासे पूछा कि इन दोनों आर्थिकाओंने किस कारण दीक्षा ली है ? यह बात आप मुझसे कहिए । सुकुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी आर्थिका कहने लगी कि हे शुभ नामवाली ! सुन, ये दोनों ही पूर्वजन्ममें सौधर्म स्वर्गके इन्द्रोंकी विमला और सुप्रभा नामकी प्रिय देवियाँ थीं । किसी एक दिन ये दोनों ही सौधर्म इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए नन्दीश्वर द्वीपमें गई थीं । वहाँ इनका चित्त विरक्त हुआ इसलिए, इन दोनोंने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्यायके वाद् मनुष्य पर्याय पाकर तप करेंगी । आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रीषेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिषेणा और श्रीषेणा नामकी पुत्रियाँ हुई हैं । यौवन अवस्था प्राप्तकर ये दोनों विवाहके लिए स्वयंस्वर-मंडपके भीतर खड़ी थीं कि इतनेमें ही इन्हें अपने पूर्वभव तथा पूर्वभवमें की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया । उसी समय इन्होंने समस्त बन्धुवर्ग तथा राजकुमारोंका ख्यागकर दीक्षा धारण कर ली । इस प्रकार क्षान्ति आर्थिकाके वचन सुनकर सुकुमारी बहुत विरक्त हुई और अपने कुटुम्बीजनोंकी संमति लेकर उसने उन्हीं आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी दूसरे दिन वनमें वसन्तसेना नामकी वेश्या आई थी, उसे बहुतसे व्यभिचारी मनुष्य घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे । यह देखकर सुकुमारीने निदान किया कि मुझे भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो । आयुके अन्तमें मरकर वह, पूर्वजन्ममें जो सोमभूति नामका ब्राह्मण था और तपश्चरणके प्रभावसे अच्युत स्वर्गमें देव हुआ था उसकी देवी हुई ॥ २४६-२५६ ॥ वहाँकी उत्कृष्ट आयु विलाकर उन तीनों भाइयोंके जीव वहाँसे च्युत होकर रत्नत्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुरुपार्थके धारक युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन हुए हो । तथा धनश्री और मित्रश्रीके जीव प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं । इनकी कान्ति चन्द्रमा और सूर्यके समान है । सुकुमारीका जीव काम्पिल्य नगरमें वहाँके राजा द्रुपद और रानी दृढरथाके द्रौपदी नामकी पुत्री हुई है । इस प्रकार नेमिनाथ भगवान्के द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर पाण्डवोंने अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका बन्धुपना यही है । गुणरूपी आभूषणको धारण करनेवाली कुन्ती सुभद्रा तथा द्रौपदीने भी राजिमति गणिनीके पास उत्कृष्ट दीक्षा धारण कर ली । अन्तमें तीनोंके जीव सोलहवें स्वर्गमें उत्पन्न हुए और वहाँसे च्युत होकर निःसन्देह समस्त कर्ममलसे रहित हो मोक्ष

विश्वकर्ममलैर्मुक्ता मुक्तिमेप्यन्त्यसंशयम् । पञ्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामहितर्षयः ॥ २६६ ॥  
 विहृत्य भाक्तिकाः काश्चित्समाः सम्प्राप्य भूधरम् । शत्रुञ्जयं समादाय योगमातपमाग्निताः ॥ २६७ ॥  
 तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तान् । क्रूरः कुर्यवरः स्मृत्वा स्वमानुलवधं क्रुधा ॥ २६८ ॥  
 आयसान्यभित्तानि मुकुटादीनि पापभाक् । तेषां विभूषणानीति शरीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥  
 उपसर्गं व्यधात्तेषु कौन्तेयाः श्रेणिमाश्रिताः । शुक्रभ्यानाग्निनिदग्धकर्मैधाः सिद्धिमाप्नुवन् ॥ २७० ॥  
 नकुलः सहदेवश्च पञ्चमानुत्तरं ययौ । भट्टारकोऽपि सम्प्रापदूर्जयन्तं धराधरम् ॥ २७१ ॥  
 नवरन्ध्रतुर्वर्षेषु चतुर्विधसंस्युतैः । युतेषु नवभिर्मासैर्विहारविधिविच्युतौ ॥ २७२ ॥  
 पश्चात्पञ्चशतैः सार्धं संयतैस्त्रिंशता त्रिभिः । मासं योगं निरुध्यासौ हताघातिचतुष्ककः ॥ २७३ ॥  
 आषाढमासि ज्योत्स्नायाः पक्षे चित्रासमागमे । शीतांशोः सप्तमीपूर्वराशौ निर्वाणमाप्तवान् ॥ २७४ ॥  
 तदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याणं पञ्चमं परम् । विधाय विधिवद्भक्त्या स्वं स्वमोकः<sup>१</sup> पुनर्ययुः ॥ २७५ ॥

### स्वधरा

शक्राद्या व्योम्नि दूरादमरपरिवृद्धा वाहनेभ्योऽवतीर्णा-  
 स्तूणं मूर्धावनम्राः स्तुतिमुखरमुखाः कुङ्कुमलीभूतहस्ताः ।  
 ध्वम्मान्ध्वान्तघान्तः प्रणिहितमनसो यस्य पादौ प्रणमुः  
 क्षमं श्रीमान् स नेमिर्भ्रंतिनि घटयन् प्रान्तबोधप्रसिद्धयै ॥ २७६ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

प्राक्चिन्तागनिरावभावनु ततः कल्पे चतुर्थेऽमरो  
 जज्ञेऽस्मादपराजिनः क्षितिपतिजातोऽव्युत्पन्नस्ततः ।  
 तस्मात्सोऽजनि सुप्रतिष्ठनृपनिर्देवो जयन्तेऽन्वभू-  
 दासीदत्र महोदयो हरिकुलव्योमामलेन्दुजितः ॥ २७७ ॥

प्राप्त करंगे । जिन्हें अनेक उक्तमात्तम ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और जो अनिश्चय भक्तिसे युक्त हैं ऐसे पाँचों पाण्डव कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवान् के साथ विहार करते रहे और अन्तमें शत्रुञ्जय पर्वतपर जाकर आतापन योग लेकर विराजमान हो गये । दैवयोगसे वहाँ दुर्योधनका भानजा 'कुर्यवर' आ निकला वह अनिश्चय दुष्ट था, पाण्डवोंको देखते ही उसे अपने मामाके वधका स्मरण हो आया जिससे क्रुद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर अग्निमे तपाये हुए लोहेके मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसर्ग किया । उन पाँचों भाइयोंमें कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो क्षपकश्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान रूपी अग्निके द्वारा कर्मरूपी ईन्धनको जलाते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेव सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए । इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पर्वतपर जा विराजमान हुए ॥ २६०-२७१ ॥ उन्होंने छह सौ निन्यानबे वर्ष नौ महीना और चार दिन विहार किया । फिर विहार छोड़कर पाँच सौ तैतीस मुनियोंके साथ एक महीने तक योग निरोधकर आषाढ शुक्ल सप्तमीके दिन चित्रा नक्षत्रमें रात्रिके प्रारम्भमें ही चार अघानिया कर्माँका नाशकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ २७२-२७४ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने आकर बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वक उनके पंचम कल्याणका उत्सव किया और तदनन्तर पूरे सब अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ २७५ ॥

जो दूरमे ही आकाशमें अपनी-अपनी सवारियोंसे नीचे उतर पड़े हैं, जिन्होंने शीघ्र ही अपने मस्तक भुका लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंके पढ़नेसे शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दांनों हाथ जोड़ लिये हैं और जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर है ऐसे इन्द्र आदि श्रेष्ठदेव जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे हृदयका समस्त अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे श्रीमान् नेमिनाथ भगवान् केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिए हम सबका शीघ्र ही कल्याण करें ॥ २७६ ॥ श्रीनेमि-

सा लक्ष्मीः सकलामराचितपदाम्भोजो यथायं विभु-

स्तत्कौमारममेयरूपविभवं कन्या च सातिस्तुतिः ।

धीमान्सर्धमिदं जरत्तूणस्रमं मत्वाग्रहीत्संयमं

धरां केन न धर्मचक्रमभितो नेमीश्वरो नेमिताम् ॥ २७८ ॥

### पृथ्वी

सुभानुरभवत्ततः प्रथमकल्पजोऽस्माच्छ्रुतः

खगाधिपतिरन्वतोऽजनि चतुर्थकल्पेऽमरः ।

बणीडजनि शङ्खवागनु सुरो महाशुक्रज-

स्तनोऽपि नवमो बलोऽनु दिविजस्ततस्तीर्थकृन् ॥ २७९ ॥

### प्रहर्षिणी

प्रागासीदमृतरसायनस्तृतीये

श्रद्धेऽभूदनु भववारिधौ भ्रमित्वा ।

भूयोऽभूत्तृहपतिरत्र यक्षनामा

निनामा नृपतिसुतस्ततोऽमृताशीः ॥ २८० ॥

### वसन्ततिलका

तस्मादभून्मुररिपुः कृतदुर्निदाना-

चक्रेश्वरो हतविरुद्धजरादिसन्धः ।

धर्मोद्भवादनुभवन् बहुदुःखमस्मा-

न्निर्गन्त्य तीर्थकृदनर्थविघातकृन्सः ॥ २८१ ॥

त्राहान्मुनेः पलपचः स कुधीरधोऽगा-

ताद्रीज एव तपसाऽऽप्य च चक्रिलक्ष्मीम् ।

नाथ भगवान्का जीव पहले चिन्तागति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से आकर अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, वहाँ से आकर सुप्रतिष्ठ राजा हुआ, फिर जयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुआ और उसके बाद इसी जम्बूद्वीपमें महान् वैभवको धारण करनेवाला, हरिवंशरूपी आकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीर्थकर हुआ ॥ २७७ ॥ यद्यपि भगवान् नेमिनाथकी वह लक्ष्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोंकी समस्त देव पूजा करते थे, उनकी वह कुमारावस्था थी कि जिसका सौन्दर्यरूपी ऐश्वर्य अपरिमित था, और वह कन्या राजीमति थी कि जिसकी अत्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्धिमान् भगवान्ने इन सबको जीर्ण तृणके समान छोड़कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिससे भगवान् नेमिनाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाको-चक्रधारापनाको धारण न करें ? ॥ २७८ ॥ बलदेवका जीव पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से च्युत होकर विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, इसके बाद शङ्ख नामका सेठ हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर नौवाँ बलभद्र हुआ, उसके बाद देव हुआ, और फिर तीर्थकर होगा ॥ २७९ ॥ कृष्णका जीव पहले अमृतरसायन हुआ, फिर तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नामका गृहस्थ हुआ फिर निर्नामा नामका राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ और उसके पश्चात् बुरा निदान करनेके कारण अपने शत्रु जरासन्धको मारनेवाला, चक्ररत्नका स्वामी कृष्ण नामका नारायण हुआ, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दुःखोंका अनुभव कर रहा है और अन्तमें वहाँ से निकलकर समस्त अनर्थोंका विघात करनेवाला तीर्थकर होगा ॥ २८०-२८१ ॥



ध्वंसं समाप तदपास्तपरिग्रहाणां

माकृध्वमल्पमपि पापधियापकारम् ॥ २८२ ॥

चाणूरमेणमिव यो हतवान् हरिर्वा

कंसञ्च कंसमिव बाणानिरन्ध्रमैत्सीन ।

मृत्युर्यथाहृत शिशुं शिशुपालमाजौ

तेजस्विनां कथमिहास्तु न सोऽग्रगण्यः ॥ २८३ ॥

### शिखरिणी

जरासन्धं हृत्वाजितमिव गजं शौर्यजलधि-

र्गजारिर्वा गजं प्रतिरिपुजयाद्विश्वविजयी ।

त्रिखण्डां निखण्डां करविद्युतदण्डोऽप्रतिहतां

यथापाद्धान्ये गाः किल खलु स गोपाऽन्वपि ततः ॥ २८४ ॥

### मालिनी

क सकलपृथुशत्रुध्वंसनात्साद्भुतश्रीः

क च स भुवनबाह्यो ही हरेर्मूलनाशः ।

स्वकृतविधिविधानात्कस्य किं वात्र न स्याद्-

भ्रमति हि भवचक्रं चक्रनेमिक्रमण ॥ २८५ ॥

### वसन्ततिलका

बध्वायुराप दशमग्र्यमथान्यनाम

चास्मादधोऽगमदसौ धृतराज्यभारः ।

तर्द्धाधनाः कुस्त यत्नमखण्डमायु-

र्बन्धं प्रति प्रतिपदं सुखलिप्सवक्षेत्र ॥ २८६ ॥

कृष्णके जीवने चाण्डाल अवस्थामें मुनिके साथ द्रोह किया था इसलिए वह दुर्बुद्धि नरक गया और उन्नी कारणसे तपश्चरणके द्वारा राज्यलक्ष्मी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुआ इसलिए आचार्य कहते हैं कि परिग्रहका त्याग करनेवाले मुनियोंका पाप-बुद्धिसे थोड़ा भी अपकार मत करो ॥ २८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणको मार डालता है उसी प्रकार जिसने चाणूरमण्डको मार डाला था, जिस प्रकार वज्र कंस ( कांसे ) के टुकड़े-टुकड़े कर डालता है उसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराके राजाके ) टुकड़े-टुकड़े कर डाले थे और जिसप्रकार मृत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार जिसने युद्धमें शिशुपालका हरण किया था—उसे पराजित किया था । ऐसा श्रीकृष्ण नारायण भला प्रतापी मनुष्योंमें सबसे मुख्य क्यों न हो ? ॥ २८३ ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान् हाथीको जीतकर गरजता है उसी प्रकार शूरवीरताके सागर श्रीकृष्णने अतिशय बलवान् जरासन्धको जीतकर गरजना की थी, इन्होंने अपने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था इसलिए ये विश्वविजयी कहलाये थे तथा जिस प्रकार इन्होंने बाल अवस्थामें गायोंकी रक्षा की थी इसलिए गोप कहलाये थे उसी प्रकार इन्होंने तरुण अवस्थामें भी हाथमें केवल एक दण्ड धारणकर किसीके द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी अखण्ड भूमिकी रक्षा की थी इसलिए बादमें भी वे गोप ( पृथिवीके रक्षक ) कहलाते थे ॥ २८४ ॥ देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णको बड़े-बड़े समस्त शत्रुओंका नाश करनेसे उस आश्चर्यकारी लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी और कहाँ समस्त जगत्से जुदा रहकर निर्जन वनमें उनका समूल नाश हुआ सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार किसे क्या नहीं प्राप्त होता है ? यथार्थमें संसाररूपी चक्र पहियेकी हालकी तरह घूमा ही करता है ॥ २८५ ॥ देखो, श्रीकृष्णने

## अनुष्टुप्


अस्यैव तीर्थसन्ताने ब्रह्मणो धरणीशितुः । चूडादेव्याश्च संजज्ञे ब्रह्मदसो निधीशिनाम् ॥ २८७ ॥  
द्वादशो नामतः सप्तषापः सप्तशताष्टकैः । परिच्छिन्नप्रमाणायुस्तदन्ताश्चक्रवर्तिनः ॥ २८८ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमितीर्थकर-पद्मनाम-  
बलदेव-कृष्णनामार्धचक्रि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-ब्रह्मदत्तसकलचक्रवर्तिपुराण  
नाम द्विसप्ततितमं पर्वं ॥ ७२ ॥

५०:४४:०५

पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसके बाद सम्यग्दर्शन तथा तीर्थकर नाम-कर्म प्राप्त किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेके बाद नरक जाना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि हे बुद्धिमान जन ! यदि आप लोग सुखके अभिलाषी हैं तो पद-पदपर आयु बन्धके लिए अखण्ड प्रयत्न करो अर्थात् प्रत्येक समय इस बातका विचार रखो कि अशुभ आयुका बन्ध ना नहीं हो रहा है ॥ २८६ ॥ इन्हीं नेमिनाथ भगवान्के तीर्थमें ब्रह्मदत्त नामका वारहवाँ चक्रवर्ती हुआ था वह ब्रह्मा नामक राजा और चूडादेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात धनुष ऊँचा था और सात सौ वर्षकी उसकी आयु थी। वह सब चक्रवर्तियोंमें अन्तिम चक्रवर्ती था—उमके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ ॥ २८७—२८८ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें नेमिनाथ तीर्थकर, पद्म नामक बलभद्र, कृष्ण नामक अर्धचक्रवर्ती, जरासन्ध प्रतिनारायण और ब्रह्मदत्त नामक सकल चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करने वाला वहारवाँ पर्व समाप्त हुआ।



## त्रिसप्ततितमं पत्र

१ स पातु पार्श्वनाथोऽस्मान् यन्महिम्नैव भूधरः । न्यपेधि केवलं भक्तिभांगिर्नाछप्रधारणम् ॥ १ ॥  
 धर्मभेदात्तपत्रं ते सूते विश्वविसर्पिणीम् । छायां पापात्पपुष्टास्तथापि किल केचन ॥ २ ॥  
 सर्वभाषां भवद्भाषां सत्यां सर्वोपकारिणीम् । सन्तः शृण्वन्ति सन्तुष्टाः खलास्ताञ्च न जातुचित् ॥ ३ ॥  
 अनभिव्यक्तमाहात्म्या देव<sup>१</sup> तीर्थकराः परे । त्वमेव व्यक्तमाहात्म्यो वाच्या ते साधु तत्कथा ॥ ४ ॥  
 कुमार्गवारिणी यस्माद्यस्मात्सन्मार्गधारिणी । तस्य धर्म्या कथां वक्ष्ये भव्यानां मोक्षगामिनाम् ॥ ५ ॥  
 जम्बूविशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान् । सुरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्णं पोदनं पुरम् ॥ ६ ॥  
 रक्षितास्यारविन्दाख्यो विल्यातो विक्रमादिभिः । पिप्रियुस्तं समाश्रित्य प्रजापतिमिव प्रजाः ॥ ७ ॥  
 तत्रैव विश्वभूत्याख्यां<sup>३</sup> ब्राह्मणः श्रुतिशास्त्रवित् । ब्राह्मण्यनुन्धरी तस्य प्रीत्यै श्रुतिरिवापरा ॥ ८ ॥  
 अभूतामेतयोः पुत्रौ विषासृतकृतोपमौ । कमठो मरुभूतिश्च पापधर्माविवापरौ ॥ ९ ॥  
 वरुणा ज्यायसो भार्या द्वितीयस्य वसुन्धरी । मन्त्रिणौ तौ मर्हापस्य कनीयान्नीतिविचारयोः ॥ १० ॥

अथानन्तर-धरगेन्द्र और भक्तिवश पद्मावतीके द्वारा किया हुआ छत्रधारण-इन दोनों का निषेध जिनकी केवल महिमासे ही हुआ था वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। भावार्थ—तपश्चरणके समय भगवान् पार्श्वनाथके ऊपर कमठके जीवने जो उपसर्ग किया था उसका निवारण धरगेन्द्र और पद्मावतीने किया था परन्तु इसी उपसर्गके बीच उन्हें केवलज्ञान हो गया उसके प्रभावसे उनका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा बढ़ गई। केवलज्ञानके समय होनेवाले माहात्म्यमे धरगेन्द्र और पद्मावतीका कार्य अपने आप समाप्त हो गया था ॥ १ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपका धर्मरूपी हवन छत्र समस्त संसारमें फैलनेवाली छायाको उत्पन्न करना है तो भी आश्चर्य है कि कितने ही लोग पाप रूपी घामसे संतप्त रहते हैं ॥ २ ॥ सर्व भाषा रूप परिणमन करनेवाली, सत्य तथा सबका उपकार करनेवाली आपकी दिव्यस्वर्णिका संतुष्ट हुए मज्जन लोग ही सुनते हैं—दुर्जन लोग उसे कभी नहीं सुनते ॥ ३ ॥ हे देव ! अन्य तीर्थकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु आपका माहात्म्य अतिशय प्रकट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है ॥ ४ ॥ आचार्य कहते हैं कि हे प्रभो ! चूंकि आपकी धर्मयुक्त कथा कुमार्गका निवारण और सन्मार्गका प्रसारण करनेवाली है अतः मोक्षगामी भव्य जीवोंके लिए उसे अवश्य कहूँगा ॥ ५ ॥

इसी जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रमें एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है और उसमें बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर है ॥ ६ ॥ उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरविन्द नामका राजा राज्य करता था उसे पाकर प्रजा ऐसी सन्तुष्ट थी जैसी कि प्रजापति भगवान् आदिनाथका पाकर संतुष्ट थी। उसी नगरमें वेद-शास्त्रका जाननेवाला एक विश्वभूति नामका ब्राह्मण रहता था उसे प्रसन्न करनेवाली दूसरी श्रुतिके समान अनुन्धरी नामकी उसकी ब्राह्मणी थी ॥७-८॥ उन दोनोंके कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो विष और अमृतसे बनाये हुएके समान थे अथवा दूसरे पाप और धर्मके समान जान पड़ते थे ॥ ९ ॥ कमठकी स्त्रीका नाम वरुणा था और मरुभूतिकी स्त्रीका नाम वसुन्धरी था। ये दोनों राजाके मन्त्री थे और इनमें छोटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार

१ ख० पुस्तके निम्नाङ्कितौ श्लोकावधिकौ—‘एकषष्ठ्युत्तमनराः सारस्यो भरतावनौ । अपरा गुणगम्भीरा दन्तु भव्यवृणां भियः ॥१॥ आदीश्वराद्या अर्हन्तो भरताद्याश्च चक्रिणः । विष्णुप्रतिविष्णुबलाः पशन्तु भव्यात् भवार्णवात् ॥ २ ॥ पार्श्वकेऽन्योऽन्ययं श्लोको निबद्धः ‘एकषष्टिमहानां पुराणं पूर्णतामगात् । द्वाषष्ठेः पार्श्वनाथस्य वदाम्यस्मिन् पुराणकम् ॥ २ देवास्तीर्थकराः ख० । ३—भूताख्यो ख०, ग० ।

वसुन्धरीनिमित्तेन सदाचारं सतां मतम् । मरुभूतिं दुराचारो जघान कमठोऽधमः ॥ ११ ॥  
 मलये कुञ्जकाख्याने विपुले सल्लकीवने । मरुभूतिरभून्मृत्वा वज्रघोषो द्विपाधिपः ॥ १२ ॥  
 वरुणा च मृता तस्य करेणुरभवत्प्रिया । तयोस्तस्मिन्वने प्रीत्या काले गच्छत्यनुच्छकं ॥ १३ ॥  
 अरविन्दमहाराजस्यक्त्वा राज्यं विरज्य सः । सम्प्राप्य संयमं सार्थेनात्मा सम्मेदमीडितुम् ॥ १४ ॥  
 व्रजन्वने स्ववेलायां प्रतिमायोगमागमत् । नोद्धुते नियोगं स्वं मनागपि मनस्विनः ॥ १५ ॥  
 विलोक्य तं महानागच्छिं प्रस्तुतमदोद्धतः । हन्तुमभ्युद्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १६ ॥  
 वीक्ष्य वक्षःस्थले साक्षान्मंक्षु श्रिवत्सलान्छनम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं प्रत्यक्षीकृत्य चेतसा ॥ १७ ॥  
 तस्मिन्प्राक्तनसौहार्दात्प्रतोषी जोषमास्त सः । तिर्यञ्चोऽपि सुहृद्भावं पालयन्त्येव बन्धुपु ॥ १८ ॥  
 धर्मतत्त्वं मुनेः सम्यग्ज्ञान्वा तस्मात्सहेतुकम् । स प्रोषधोपवासादि श्रावकमतमग्रहीत् ॥ १९ ॥  
 तदा प्रभृति नागेन्द्रो भग्नशाखाः परैर्द्विपैः । खादंस्तृणानि शुष्काणि पत्राणि च भयादधान् ॥ २० ॥  
 उपलास्फालनाक्षेपद्विपसङ्घातघटितम् । पिबंस्तोयं निराहारः पारणायां महाबलः ॥ २१ ॥  
 चिरमेवं तपः कुर्वन् क्षीणदेहपराक्रमः । कदाचित्पातुमायातो वेगवत्या हृदेषतत् ॥ २२ ॥  
 पङ्के पुनः ससुधातुं विहितेहोऽप्यशक्नुवन् । कमठेन कुबूलेन कुङ्कुटाहित्वमीयुषा ॥ २३ ॥  
 पूर्ववैरानुबन्धेन दृष्टो निर्नष्टर्जावितः । अभूत्कल्पे सहस्रारं षोडशाब्ध्युपमायुषा ॥ २४ ॥  
 तत्र भोगान्यथायोग्यं भुक्त्वा प्रान्ते ततश्च्युतः । द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती ॥ २५ ॥

था ॥ १० ॥ नीच तथा दुराचारी कमठने वसुन्धरीके निमित्तासे सदाचारी एवं सज्जनोंके प्रिय मरु-  
 भूतिको मार डाला ॥ ११ ॥ मरुभूति मर कर मलय देशके कुञ्जक नामक सल्लकीके बड़े भारी वनमें  
 वज्रघोष नामका हाथी हुआ । वरुणा मरकर उसी वनमें हथिनी हुई और वज्रघोषके साथ क्रीडा  
 करने लगी । इस प्रकार दोनोंका बहुत भारी समय प्रीतिपूर्वक व्यतीत हो गया ॥ १२-१३ ॥ किसी  
 एक समय राजा अरविन्दने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और संयम धारणकर सब संघके साथ  
 वन्दना करनेके लिए सम्मेद शिखरकी आर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी वनमें पहुँचे और  
 सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारणकर विराजमान हो गये सो ठीक ही है क्योंकि  
 तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उल्लङ्घन नहीं करते हैं ॥ १४-१५ ॥ उन्हें देखकर, जिसके  
 दोनों कपोल तथा ललाटेसे मद भर रहा है ऐसा वह मदीद्धत महाहाथी, उन प्रतिमायोगके धारक  
 अरविन्द मुनिराजको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥ १६ ॥ परन्तु उनके वक्षःस्थल पर जो वत्सका  
 चिह्न था उसे देखकर उसके हृदयमें अपने पूर्वभवका सम्बन्ध साक्षान् दिखाई देने लगा ॥ १७ ॥  
 मुनिराजमें पूर्वजन्मका स्नेह होनेके कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो गया सो ठीक ही है  
 क्योंकि तिर्यञ्च भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीभावका पालन करते हैं ॥ १८ ॥ उस हाथीने उन मुनिराजसे  
 हेतु पूर्वक धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषधोपवास आदि श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ १९ ॥  
 उस समयसे वह हाथी पापसे डरकर दूसरे हाथियोंके द्वारा नोड़ी हुई वृक्षकी शाखाओं और सूखे  
 पत्तोंका खाने लगा ॥ २० ॥ पत्थरोंपर गिरनेसे अथवा हाथियोंके समूहके संघटनसे जो पानी  
 प्राप्त हो जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोषधोपवासके वाद पारणा करता था । इस प्रकार  
 चिरकाल तक तपश्चरण करना हुआ वह महाबलवान् हाथी अत्यन्त दुर्बल हो गया । किसी एक  
 दिन वह पानी पीनेके लिए वेगवती नदीके दहमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया । यद्यपि  
 कीचड़से निकलनेके लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समर्थ नहीं हो सका । वहींपर  
 दुराचारी कमठका जीव मर कर कुङ्कुट साँप हुआ था उसने पूर्व पर्यायके वैरके कारण उस  
 हाथीको काट खाया जिससे वह मरकर सहस्रार स्वर्गमें सालह सागरकी आयु वाला देव  
 हुआ ॥ २१-२४ ॥ यथायोग्य रीतिसे वहाँके भोग भोग कर वह आयुके अन्तमें वहाँ  
 च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें जो पुष्कलावती देश है उसके

तल्लेचराचले राजा त्रिलोकोत्तमनामनि । पुरे विद्युत्प्रतिविद्याधरेशस्तस्य बलभा ॥ २६ ॥  
 विष्णुन्माला तयोः सूनू रश्मिवेगाख्यया<sup>१</sup> जनि । सम्पूर्णयौवनो धीमान्प्रस्थासन्नभवावधिः ॥ २७ ॥  
 समाधिगुप्तमासाद्य मुनिं सम्प्राप्य संयमम् । गृहीतसर्वतोभद्रप्रभृत्युप्रोपवासकः ॥ २८ ॥  
<sup>२</sup>परेद्युहिमगिर्यद्रिगुहायां योगमादधत् । प्राप्तधूमप्रभादुःखकुक्कुटोरगपापिना ॥ २९ ॥  
 ततश्च्युतेन भूत्वाजगरेणालोक्य कोपिना । निगीर्णोऽच्युतकल्पस्थे विमाने पुष्करेऽभवत् ॥ ३० ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमानायुस्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वीपेऽपरे विदेहेऽस्मिन् विषये पद्मसम्प्लके ॥ ३१ ॥  
 महीशोऽश्वपुराधीशो वज्रवीर्यस्य भूपतेः । विजयायाश्च तद्देव्या वज्रनाभिः सुतोऽभवत् ॥ ३२ ॥  
 स चक्रलक्षितां लक्ष्मीमधुष्णां पुण्यरक्षितः । भुक्त्वाप्यनुमुषन्भोक्तुं मोक्षलक्ष्मीं समुद्यतः ॥ ३३ ॥  
 क्षेमङ्कराख्यभट्टारकस्य वज्रश्राङ्गनिर्गतम् । धर्मोन्मत्तरसं पीत्वा त्यक्ताशेषरसस्यूहः ॥ ३४ ॥  
 सुतं स्वराज्ये सुस्थाप्य राजभिर्बहुभिः समम् । संयमं समगात्सम्यक्सर्वशत्वानुकम्पनम्<sup>३</sup> ॥ ३५ ॥  
 प्राक्तनोऽजगरः षष्ठनरके तनुमाश्रितः । द्वाविंशत्यब्धिसङ्ख्यानजीवितेनातिदुःखितः ॥ ३६ ॥  
 चिरागस्माद्विनिर्गत्य कुरङ्गाख्यो वनेचरः । कम्पयन्वनसम्भूतान् सम्भूतः सर्वदेहिनः ॥ ३७ ॥  
 विवजितार्तध्यानस्य त्रिधृतातपनस्थितेः । तस्य त्यक्तशरीरस्य शरीरबलशालिनः ॥ ३८ ॥  
 तपोधनस्य चक्रेशो<sup>४</sup> धोरं कातरदुस्सहम् । उपसर्गं स्फुरद्द्वैरः स पापी बहुधा व्यधात् ॥ ३९ ॥  
 धर्मध्यानं प्रविश्यासीं समाराध्य सुरोत्तमः । समुत्पन्नः सुभद्राख्ये सहस्रमध्यममध्यमे ॥ ४० ॥

विजयार्थं पर्वत पर विद्यमान त्रिशंकोत्तम नामक नगरमें वहाँके राजा विद्युद्गति और रानी विष्णु-  
 न्माला के रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ । जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गई है ऐसे)  
 उम बुद्धिमान रश्मिवेगने सम्पूर्ण यौवन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजके समीप दीक्षा धारण क्य  
 ली तथा सर्वतोभद्र आदि श्रेष्ठ उपवास धारण किये ॥ २५-२८ ॥ किसी एक दिन वह हिमगिरि  
 पर्वतकी गुहामें योग धारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुक्कुट सर्पने वज्रघोष हाथी  
 का काटा था वही पापी धूमप्रभा नरकके दुःख भोग कर निकला और वही पर अजगर हुआ था ।  
 उन मुनिराजको देखते ही अजगर क्रोधित हुआ और उन्हें निगल गया जिससे उनका जीव अच्युत  
 स्वर्गके पुष्कर विमानमें वाईस सागरकी आयुवाला देव हुआ । वहाँकी आयु समाप्त होने पर वह  
 पुण्यात्मा, जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पद्मनाभक देश सम्बन्धी अश्वपुर नगरमें वहाँके  
 राजा वज्रवीर्य और रानी विजयाके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ ॥ २९-३२ ॥ (पुण्यके द्वारा रक्षित  
 हुआ वज्रनाभि, चक्रवर्तीकी अखण्ड लक्ष्मीका उपभोग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्ष-  
 लक्ष्मीका उपभोग करनेके लिए उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ उसने क्षेमंकर भट्टारकके मुख-कमलसे  
 निकले हुए धर्मरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा छोड़ दी तथा अपने राज्य  
 पर पुत्रको स्थापित कर अनेक राजाओंके साथ समस्त जीवोंपर अनुकम्पा करनेवाला संयम  
 अच्छी तरह धारण कर लिया ॥ ३४-३५ ॥ कमठका जीव, जो कि पहले अजगर हुआ था मरकर  
 छठों नरकमें उत्पन्न हुआ और वहाँ वाईस सागर तक अत्यन्त दुःख भोगता रहा ॥ ३६ ॥ चिरकाल  
 बाद वहाँ से निकल कर कुरङ्ग नामका भील हुआ । यह भील उस वनमें उत्पन्न हुए समस्त जीवोंको  
 कम्पित करता रहता था ॥ ३७ ॥ किसी एक दिन शरीर सम्बन्धी बलसे शोभायमान तथा शरीरसे स्नेह  
 छोड़ने वाले तपस्वी चक्रवर्ती वज्रनाभि आर्तध्यान छोड़कर उस वनमें आतापन योगसे विराजमान  
 थे । उन्हें देखने ही जिसका वैर भड़क उठा है ऐसे पापी भीलने उन मुनिराज पर कायर जनोंके  
 द्वारा असहनीय अनेक प्रकारका भयंकर उपसर्ग किया ॥ ३८-३९ ॥ उक्त मुनिराजका जीव धर्मध्यानमें  
 प्रवेशकर तथा अच्छी तर आराधनाओंकी आराधना कर सुभद्र नामक मध्यमप्रवैयकके मध्यम

१-रश्मिवेगाख्योऽजनि ल०, (छन्दोभङ्गः) ।-रश्मिवेगाख्ययाजनि म०, ल० । २ हरिगिर्यद्रि ल० । ३ कम्पकम्  
 ल० । ४ चक्रेशौ ल० ।

सप्तविंशतिवाराशिमेषायुर्दिव्यभोगभाक् । ततश्च्युतोऽस्मिन् द्वीपेऽसौ जम्बूभूखभूषिते ॥ ४१ ॥  
 कौशले विषयेऽयोध्यानगरे काश्यपान्वये । इक्ष्वाकुर्वंशजातस्य वज्रबाहुमहीभृतः ॥ ४२ ॥  
 सुतो देव्यां प्रभङ्कर्यामानन्दाख्योऽजनि प्रियः । स सम्प्राप्तमहामाण्डलिकस्थानो महोदयः ॥ ४३ ॥  
 स्वस्य स्वामिहिताख्यस्य महतो मन्त्रिणोऽन्यदा । वाचा वसन्तमासस्य नन्दीशरदिनाष्टके ॥ ४४ ॥  
 पूजां निर्वर्षयन्द्रुद्रुकामं तत्र समागतम् । विपुलादिमतिं दृष्ट्वा गणेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ४५ ॥  
 अभिवन्ध समाकर्ण्य सद्धर्मं सर्वशर्मदम् । भगवन् किञ्चिदिच्छामि श्रोतुं मे संशयास्पदम् ॥ ४६ ॥  
 अचेतने कथं पूजा निग्रहानुग्रहच्युते । जिनबिम्बे कृता भक्तिमतां पुण्यं फलत्यसौ ॥ ४७ ॥  
 इत्यष्टच्छदसौ चाह सहेत्विति वचस्तदा । शृणु राजन् जिनेन्द्रस्य सैत्यं सैन्यालयादि च ॥ ४८ ॥  
 भवन्यचेतनं किन्तु भव्यानां पुण्यबन्धने । परिणामसमुत्पत्तिहेतुत्वात्कारणं भवेत् ॥ ४९ ॥  
 रागादिदोषहीनत्वाद्युधाभरणादिकात् । विमुखस्य प्रसन्नोऽनुकान्तिहासिमुखश्रियः ॥ ५० ॥  
 अवतिताक्षसूत्रस्य लोकालोकावलोकितः । कृतार्थत्वात्परित्यक्तजटादेः परमात्मनः ॥ ५१ ॥  
 जिनेन्द्रस्यालर्षस्तस्य प्रतिमाश्च प्रपद्यताम् । भवेच्छुभाभिसन्धानप्रकर्षो नान्यतस्तथा ॥ ५२ ॥  
 कारणद्वयसाञ्जिथ्यात्सर्वकार्यसमुद्भवः । तस्मात्तत्साधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम् ॥ ५३ ॥  
 तत्कथावसरे लोकत्रयचैत्यालयाकृतीः । सम्यग्वर्णयितुं वाञ्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥ ५४ ॥  
 जिनेन्द्रभवने भूतां विभूतिं सोऽन्ववर्णयत् । तामसाधारणीं श्रुत्वानन्दः श्रद्धां परां वहन् ॥ ५५ ॥  
 दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां कृतकुड्मलः । स्तुवन्नानम्रमुकुटो जिनेशान् मण्डले रवेः ॥ ५६ ॥

विमानमं सम्यग्दर्शन का धारक श्रेष्ठ अहमिन्द्र हुआ ॥४०॥ वहाँ वह सनाईस सागरकी आयु तक दिव्य भोग भोगता रहा। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके कौशल देश देश सम्बन्धी अयोध्या नगरमें काश्यप गोत्री इक्ष्वाकुवंशी राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकरिके आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ। बड़ा होनेपर वह महावैभवका धारक मण्डलेश्वर राजा हुआ ॥ ४१-४३ ॥ किसी एक दिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे वसन्त ऋतुकी अष्टाह्निकाओंमें पूजा कराई। उसे देखनेके लिए वहाँ पर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे। आनन्दने उनकी बड़ी विनयसे बन्दना की तथा उनसे सब जीवोंको सुख देनेवाला समीचीन धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर कहा कि हे भगवन् ! मुझे कुछ संशय हो रहा है उसे आपसे सुनना चाहता हूँ ॥ ४४-४६ ॥ उसने पूछा कि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा तो अचेतन है उसमें भला बुरा करनेकी शक्ति नहीं है फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजनोंको पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है ॥ ४७ ॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार वचन कहे कि हे राजन् ! मुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा और जिनेन्द्र मन्दिर अचेतन हैं तथापि भव्य जीवोंके पुण्य-बन्धके ही कारण हैं। यथार्थमें पुण्य बन्ध परिणामोंसे होता है और उन परिणामोंकी उत्पत्तिमें जिनेन्द्रकी प्रतिमा तथा मन्दिर कारण पड़ते हैं। जिनेन्द्र भगवान रागादि दोषोंसे रहित हैं, शीघ्र तथा आभूषण आदिसे विमुख हैं, उसके मुखकी शोभा प्रसन्न चन्द्रमाके समान निर्मल है, लोक अलोकके जाननेवाले हैं, कृतकृत्य हैं, जटा आदिसे रहित हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों और उनकी प्रतिमाओंका दर्शन करनेवाले लोगोंके शुभ परिणामोंमें जैसी प्रकर्षता होती है वैसी अन्य कारणोंसे नहीं हो सकती क्योंकि समस्त कार्योकी उत्पत्ति अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों कारणोंसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा पुण्यबन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह बात अच्छी तरह जान लेनेके योग्य है ॥ ४८-५३ ॥ इसी उपदेशके समय उक्त मुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके आकार आदिका वर्णन करना चाहा और सबसे पहले उन्होंने सूर्यके विमानमें स्थित जिन-मन्दिरकी विभूतिका अच्छी तरह वर्णन किया भी। उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दको बहुत ही श्रद्धा हुई। वह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोड़कर तथा

१ वचसा, इत्यपि क्वचित् । २ राजा, इत्यपि क्वचित् । ३ फाल्गुन इत्यपि क्वचित् । ४ वा ल० ।  
 ५ विमुखस्य ल० । ६ जटादेः ल० ।

शिल्पिभिः कारयित्वाकविमानं मणिकाञ्चनैः । क्रोडीकृतजिनाधीशभवनं विततद्युति ॥ ५७ ॥  
 शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या पूजामाष्टाद्विकीं व्यधात् । चतुर्मुखं रथावर्तं सर्वतोभद्रमूर्जितम् ॥ ५८ ॥  
 कल्पवृक्षश्च दीनेभ्यो ददद्दानमवारितम् । तद्विलोक्य जनाः सर्वे तत्प्रामाण्यात्स्वयञ्च तत् ॥ ५९ ॥  
 स्तोत्रुमारोभिरे भक्त्या मण्डलं चण्डरोचिपः । तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन् बभूवाकौपसेवनम् ॥ ६० ॥  
 अधान्यदा किलानन्दं महीट् शिरसि बुद्धवान् । पलितं दलयद्यौवनाथिनां हृदयं द्विधा ॥ ६१ ॥  
 तस्मिन्निवसमुद्भूतनिर्वेगो ज्येष्ठयूनवे । साभिषेकं निजं राज्यं दत्त्वादत्तास्पृहं तपः ॥ ६२ ॥  
 यतेः समुद्रगुह्यस्य समीपे बहुभिः समम् । राजभी राजसं भावं परित्यज्य सुलेप्रयया ॥ ६३ ॥  
 साराधनाचतुष्कः सन्विशुद्धयैकादशाङ्गधत् । प्रत्ययांस्तीर्थकृन्नाञ्चो भावयामास षोडश ॥ ६४ ॥  
 यथोक्तं भावयित्वात्मानं बद्ध्वान्तिमं शुभम् । चिरं घोरं तपः कृत्वा प्रान्ते शान्तान्तरात्मकः ॥ ६५ ॥  
 प्रायोपगमनं प्राप्य प्रतिमायोगमास्थितः । धीरः क्षीरवने धर्मध्यानाधीनो निराकुलः ॥ ६६ ॥  
 कमठः प्राक्तनः पापी प्रच्युतो नरकक्षितेः । कण्ठीरवत्वमासाद्य तन्मुनेः कण्ठमग्रहीत् ॥ ६७ ॥  
 सोढांसिहोपसर्गोऽसौ चतुराराधनाधनः । व्यसुरानतकल्पेशो विमाने प्राणतेऽभवत् ॥ ६८ ॥  
 तत्र विंशतिवाराशिविहितोपमजीवितः । सार्धारत्नत्रयोन्मेयशरीरः शुक्लेशयया ॥ ६९ ॥  
 दशमासान्तनिश्वासी मनसाऽमृतमाहरन् । स्वचतुष्कद्विवर्षान्ते मनसा स्त्रीप्रचारवान् ॥ ७० ॥  
 आपञ्चमक्षितिग्याप्तनृतीयावगमेक्षणः । स्वावधिक्षेत्रमानाभाविक्रियाबलसङ्गतः ॥ ७१ ॥  
 सामानिकाद्रिसर्वद्विसुधाशनसमचितः । कान्तकामप्रदानेकदेवीकृतसुधाकरः ॥ ७२ ॥

मुकुट भुक्ताकर सूर्यके विमानमें स्थित जिन-प्रतिमाओंकी स्तुति करने लगा । यही नहीं, उसने कारी-  
 गरोंके द्वारा मणि और मुवर्णका एक सूर्य-विमान भी बनवाया और उसके भीतर फैलती हुई कान्तिका  
 धारक जिन-मन्दिर बनवाया । तदनन्तर उसने शास्त्रोक्त विधिसे भक्तिपूर्वक आष्टाद्विक पूजा की ।  
 चतुर्मुख, रथावर्त, सत्रसे बड़ी सर्वतोभद्र और दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली कल्पवृक्ष-  
 पूजा की । इस प्रकार उस राजाको सूर्यकी पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे अन्य लोग भी  
 स्वयं भक्तिपूर्वक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे । आचार्य कहते हैं कि इस लोकमें उसी समयसे  
 सूर्यकी उपासना चल पड़ी है ॥ ५४-६० ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा आनन्दने यौवन चाहनेवाले लोगोंके हृदयको दो टूक  
 करनेवाला सफेद बाल अपने शिर पर देखा । इस निमित्तमे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया । विरक्त  
 होते ही उसने बड़े पुत्रके लिए अभिषेक पूर्वक अपना राज्य दे दिया और समुद्रगुप्त मुनिराजके  
 समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओंके साथ निःस्पृह ( निःस्वार्थ ) तप धारण कर लिया ।  
 शुभ लेश्याके द्वारा उमने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धता प्राप्त कर ग्यारह अङ्गोंका  
 अध्ययन किया, तीर्थकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारणभावनाओंका चिन्तन किया,  
 शास्त्रानुसार सोलह कारणभावनाओंका चिन्तन कर तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया  
 और चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया । आयुके अन्तमें, जिसकी अन्तरात्मा अत्यन्त शान्त हो  
 गई है, जो धीर वीर है, धर्मध्यानके अधीन है और आकुलतारहित है ऐसा वह आनन्द मुनि  
 प्रायोपगमन संन्यास लेकर क्षीरवनमें प्रतिमा योगसे विराजमान हुआ ॥ ६१-६६ ॥ पूर्व जन्मके  
 पापी कमठका जीव नरकसे निकलकर उसी वनमें सिंह हुआ था सो उसने आकर उन मुनिका कण्ठ  
 पकड़ लिया ॥ ६७ ॥ इस प्रकार सिंहका उपसर्ग सहकर चार आराधना रूपी धनको धारण करने-  
 वाला वह मुनि प्राणरहित हो अच्युत स्वर्गके प्राणत विमानमें इन्द्र हुआ ॥ ६८ ॥ वहाँपर उसकी  
 बीस सागरकी आयु थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वह दश माह बाद श्वास  
 लेता था, और बीस हजार वर्ष बाद मानसिक अमृताहार ग्रहण करता था । उसके मानसिक स्त्रीप्रवीचाराथा,  
 पांचवीं पृथिवी तक अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दूरी तकही उसकी कान्ति, विक्रिया और बल था,  
 सब ऋद्धियोंके धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान  
 करने वाली अनेक देवियोंके द्वारा उत्पादित सुखकी खान था । इस प्रकार समस्त विषय-भोग

विधानैष्यिकान्भोगान् वाश्वत्सम्प्राप्य निर्विशान् । तल्लोले लीलया कालमला<sup>१</sup>वीकलयन्कलाम् ॥७३॥  
 पण्मासैरन्तिमैस्तस्मिन्निष्ठागमिष्यत्वम् महीम् । द्विपेऽस्मिन् भरते काशीविषये नगरेऽधिपः ॥ ७४ ॥  
 वास्यणस्वामभूद्विश्वसेनः काश्यपसोऽब्रजः । <sup>२</sup>ब्राह्मणस्य दैवी सम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ ७५ ॥  
 वैशाखकृष्णपक्षस्य द्वितीयायां निशात्यये । विशाखर्क्षे शुभस्वभाञ्जिरीक्ष्य तदनन्तरम् ॥ ७६ ॥  
 स्ववक्त्राब्जप्रविष्टोरुगज्जरूपविलोकिनी<sup>३</sup> । प्रभातपटहध्वानसमुन्मीलितलोचना ॥ ७७ ॥  
 मङ्गलाभिषवाविष्टतुष्टिः<sup>४</sup> पुण्यप्रसाधना । विभावरिव सज्ज्योत्स्ना "राजानं समुपेत्य सा ॥ ७८ ॥  
 कृतोपचारा संविषय विष्टरार्धे<sup>५</sup> महीपतेः । स्वहृष्टसकलस्वप्नान्यथाक्रममभापत ॥ ७९ ॥  
 श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रवीक्षणायुत्रो वृषभालोकनात्पतिः ॥ ८० ॥  
 त्रिविष्टपस्य सिंहेन दृष्टेनानन्तवीर्यकः । मन्दराभिषवप्राप्तिः पद्माभिषवदर्शनात् ॥ ८१ ॥  
 दामद्वयावलोकेन धर्मद्वितयनीर्थकृत् । शशाङ्कमण्डलालोकात् त्रैलोक्यकुमुदप्रियः ॥ ८२ ॥  
 तेजस्वी भास्वतो मत्स्ययुगलेन सुखाविलः । निधीनामधिपः कुम्भवीक्षणत्सर्वलक्षणः ॥ ८३ ॥  
 सरसः सागरात्सर्वज्ञाता सिंहासनेक्षणान् । <sup>६</sup>सर्वलोकैकसम्मान्यः स्वर्गादद्यावतीर्णवान् ॥ ८४ ॥  
 अवताराद्धिमानस्य भवनात्पवनाशिनः । त्रिबोधदीधिति रत्नराशिनालिङ्गितो<sup>७</sup> गुणैः ॥ ८५ ॥  
 विधूमभूमकेतूपलक्षणाद्वाहकॉसहसाम् । वक्त्राम्भोजे गजेन्द्रस्य प्रवेशाने कृशोदरि ॥ ८६ ॥  
 अवस्थितिं स सम्प्रापदुदरेऽमरपूजितः । इति श्रुत्वाऽनुपद्वाणीं पत्युरेणीविलोचना ॥ ८७ ॥

प्राप्तकर वह निरन्तर उनका अनुभव करना रहता था और उन्हींमें सत्पुण्य रहकर लीला पूर्वक बहुत लम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था ॥ ६६-७३ ॥ जिस समय उसकी आयुके अन्तिम छह माह रह गये और वह इस पृथिवी पर आनेके लिए सन्मुख हुआ उस समय इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था । उसमें काश्यपगोत्री राजा विश्वसेन राज्य कर रहे थे । उनकी रानीका नाम ब्राह्मी था । देवोंने रत्नोंकी धारा बरमाकर उसकी पूजा की थी । रानी ब्राह्मीने वैशाखकृष्ण द्वितीयाके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें मोलह शुभ स्वप्न देखे और उसके बाद अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । प्रातःकालके समय वजनेवाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख खुल गई और मङ्गलाभिषेकसे संतुष्ट होकर तथा वस्त्राभरण पहिन कर वह राजाके समीप इस प्रकार पहुँची मानो चाँदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो ॥७४-७८ ॥ आदरपूर्वक वह महाराजके आधे सिंहासन पर बैठी और अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाक्रमसे कहने लगी ॥ ७६ ॥ महाराज विश्वसेन अवधिज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने लगे । वे बोले कि हाथीके स्वप्नसे पुत्र होगा, बैलके देखनेसे वह तीनों लोकोंका स्वामी होगा, सिंहके देखनेसे अनन्त वीर्यका धारक होगा, लक्ष्मीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु पर्वतपर अभिषेककी प्राप्ति होगी, दो मालाओंका देखनेसे वह गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म-रूप तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वह तीन लोकका चन्द्रमा होगा, सूर्यके देखनेसे तेजस्वी होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनेसे मुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा, सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंमें युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वज्ञ होगा, सिंहासनके देखनेसे समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतार लेनेवाला होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंसे आलिङ्गित होगा, निधूम अग्निके देखनेसे पापोंको जलानेवाला होगा और हे कृशोदरि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश देखनेसे सूचित होता है कि देवोंके द्वारा पूजित होनेवाला वह पुत्र आज तरे उदरमें आकर विराजमान हुआ है । इस प्रकार वह मृगनयनी पतिसे स्वप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई ॥ ८०-८७ ॥

१ अञ्छैस्तीत् म०, टि० । कालमालामैकलयन् ल० (?) । २ ब्राह्मण ल० । ३ विलोकिनी ल० ।  
 ४ पुष्टिः व०, ग० । ५ 'राजानं नृपं चन्द्रं वा । राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यत्ने त्रियशकयोः' इति कोशः ।  
 ६ विष्टरार्धे ल० । ७ स्वर्ग ल० । ८ लिङ्गितो ल० ।



तदाखिलामराधीशाः समागत्य व्यधुर्मुदा । स्वर्गावतरणे पित्रोः कल्याणाभिषवोत्सवम् ॥ ८८ ॥  
 स्वर्गलोकञ्च तद्गृहमतिशेते स्म सम्पदा । किं करोति न कल्याणं कृतपुण्यसमागमः ॥ ८९ ॥  
 नवमे मासि सम्पूर्णे पौषे मास्यसिते सुतः । पक्षे योगेऽनिले प्रादुरासीदिकादशीतिथौ ॥ ९० ॥  
 तदा निजासनाकम्पाद् ज्ञात्वा तीर्थकरोदयम् । सौधर्मप्रमुखाः सर्वे मन्दराचलमस्तके ॥ ९१ ॥  
 जन्माभिषेककल्याणपूजानिर्वृत्यनन्तरम् । पार्श्वभिधानं कृत्वास्य पितृभ्यां तं समर्पयन् ॥ ९२ ॥  
 नेम्यन्तरे खपञ्चस्वरान्यष्टमितवत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीवितः ॥ ९३ ॥  
 पार्श्वनाथः समुत्पन्नः शतसंवत्सराधुपा । बालशालितनुच्छायः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ ९४ ॥  
 नवार्श्नितनूत्सर्षेण लक्ष्मीवानुप्रवंचाजः । षोडशाब्दावसानेऽयं कदाचिन्नवयौवनः ॥ ९५ ॥  
 क्रीडायां स्वबलेनामा निर्यायाद्बहिः पुरम् । आश्रमादिवने मातुर्महीपालपुराधिपम् ॥ ९६ ॥  
 पितरं तं महीपालनामानममराचिताः । महादेवीवियोगेन दुःखात्तापसदीक्षितम् ॥ ९७ ॥  
 तपः कुर्वन्तमालोक्य पञ्चपावकमध्यगम् । तत्समीपे कुमारोऽस्थादन्वैनमनादरः<sup>१</sup> ॥ ९८ ॥  
 अविचार्य तदाविष्टः कोपेन कुमुनिर्गुरुः । कुलीनोऽहं तपोवृद्धः पिता मातुर्नमस्क्रियाम् ॥ ९९ ॥  
 अकृत्वा मे कुमारोऽज्ञः स्थितवान्मद्विह्वलः । इति प्रक्षोभमागत्य प्रशान्ते पावके पुनः ॥ १०० ॥  
 निश्चेष्टुं स्वयमेवोच्चैरुक्षिप्य परशुं घनम् । भिन्दन्निन्धनमज्रोऽसौ मा भैस्सीरत्र विद्यते ॥ १०१ ॥  
 प्राणीति वार्यमाणोऽपि कुमारेणावधिविषा । अन्वतिष्ठदयं कर्म तस्याभ्यन्तरवर्तिनौ ॥ १०२ ॥

उसी समय समस्त इन्द्रोंने आकर बड़े हर्षसे स्वर्गावतरणकी वेलामें भगवान्के माता-पिताका कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ॥ ८८ ॥ उस समय महाराज विश्वमेनका राजमन्दिर अपनी सम्पदाके द्वारा स्वर्गलोकका भी उल्लङ्घन कर रहा था सां ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंका समागम कौन-सा कल्याण नहीं करता है ? अर्थात् सभी कल्याण करता है ॥ ८९ ॥ नौ माह पूर्ण होनेपर पौषकृष्ण एकादशीके दिन अनिलयोगमें वह पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९० ॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पायमान होनेसे सौधर्म आदि सभी इन्द्रोंने तीर्थकर भगवान्के जन्मका समाचार जान लिया तथा सभीने आकर सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उनके जन्मकल्याणककी पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रक्खा और फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥ ९१-९२ ॥ श्री नेमिनाथ भगवान्के बाद तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष वीत जानेपर मृत्युको जीतनेवाले भगवान् पार्श्वनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु सौ वर्षकी थी जो कि उसी पूर्वोक्त अन्तरालमें शामिल थी । उनके शरीरकी कान्ति धानके छोटे पौधेके समान हरे रङ्गकी थी, वे समस्त लक्षणोंसे मुशोभित थे, नौ हाथ ऊँचा उनका शरीर था, वे लक्ष्मीवान थे और उग्र वंशमें उत्पन्न हुए थे, सोलह वर्ष बाद जब भगवान् नव यौवनसे युक्त हुए तब वे किसी समय क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सेनाके साथ नगरसे बाहर गये । वहाँ आश्रमके वनमें इनकी माताका पिता, महीपाल नगरका राजा महीपाल अपनी रानीके वियोगसे तपस्वी होकर तप कर रहा था, वह पञ्चाग्नियोंके बीचमें बैठा हुआ तपश्चरण कर रहा था । देवोंके द्वारा पजित भगवान् पार्श्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किये बिना ही अनादरके साथ खड़े हो गये । यह देख, वह खोटा साधु, बिना कुछ विचार किये ही क्रोधसे युक्त हो गया । वह मनमें सोचने लगा कि 'मैं कुलीन हूँ—उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूँ—तपके द्वारा बड़ा हूँ, और इसकी माताका पिता हूँ फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विह्वल हुआ मुझे नमस्कार किये बिना ही खड़ा है' ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ और बुझती हुई अग्निमें डालनेके लिए वहाँ पर पड़ी हुई लकड़ीको काटनेकी इच्छासे उसने लकड़ी काटनेके लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिज्ञानी भगवान् पार्श्वनाथने 'इसे मत काटो, इसमें जीव है' यह कहते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी काट ही डाली । इस कर्मसे उस लकड़ीके भीतर रहनेवाले सर्प और सपिण्डीके दो दो टुकड़े हो गये । यह देखकर सुभौम कुमार

नागी नागश्च तच्छेदाद् द्विधा खण्डमुपागतौ । तस्मिन्निक्ष्य सुभौमाख्यकुमारः समभाषत ॥ १०३ ॥  
 अहं गुरुस्तपस्वीति गर्वं दुर्वहमुद्रहन् । पापास्त्रयो भवत्यस्माच्च वेत्येतच्च वेस्ति न ॥ १०४ ॥  
 अज्ञानतपसानेन दुःखं तेऽन्न परत्र च । इति तद्वचनात्कोपी मुनिरित्थं तमब्रवीत् ॥ १०५ ॥  
 अहं प्रभुर्ममार्थं किं वा करोतीत्यवज्ञया । तपसो मम माहात्म्यमबुद्धैवं ब्रवीषि किम् ॥ १०६ ॥  
 पञ्चाग्निमध्यवर्तित्वं पवनाहारजीवनम् । ऊर्ध्वबाहुतया पादेनैकेनैव चिरं स्थितिः ॥ १०७ ॥  
 स्वयंपतितपणादेरुपवासेन पारणम् । इत्यादिकायसन्तापि तापसानां सुदुर्भरम् ॥ १०८ ॥  
 तपो नाधिकमस्यस्मादिति तद्वचनश्रुतेः । सुभौमः सस्मितोऽवादीक्ष भवन्तमहं गुरुम् ॥ १०९ ॥  
 भवमन्ये पुनः किन्तु सन्न्यज्याहागमादिकम् । मिथ्यात्वादिचतुष्केण पृथिव्यादिषु षट्स्वपि ॥ ११० ॥  
 बाष्पा कायेन मनसा कृतकादित्रिकेण च । वधे प्रवर्तमानानामनासमतसंश्रयात् ॥ १११ ॥  
 निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्डुलावासिवाञ्छया । तुषखण्डनखेदो वा घृतेच्छा वाग्बुमन्यनात् ॥ ११२ ॥  
 हेमोपलब्धिबुद्धिर्वा दाहादन्धानमसंहतेः । अन्धस्येवासिसम्पातो दावभीत्या प्रधावतः ॥ ११३ ॥  
 ज्ञानहीनपरिक्लेशो भाविदुःखस्य कारणम् । इति प्ररूप्यते युष्मत्क्षेहेन महता मया<sup>१</sup> ॥ ११४ ॥  
 इत्येतदुक्तं ज्ञात्वापि पूर्ववैरानुबन्धनात् । निजपक्षानुरागित्वाद् दुःसंसारविहागतेः ॥ ११५ ॥  
 प्रकृत्यैवातिदुष्टत्वादानादाय विरुद्धधीः । सुभौमको भवानत्र सस्मयोऽयं कुमारकः ॥ ११६ ॥  
 पराभवति मामेवमिति तस्मिन् प्रकोपवान् । सशल्यो मृतिमासाद्य शम्बरो ज्योतिषामरः ॥ ११७ ॥  
 नाशाभवत्सकोपानां तपसाऽपीदृशी गतिः । नागी नागश्च सस्त्रासशमभावौ कुमारतः ॥ ११८ ॥

कहने लगा कि तू 'मैं गुरु हूँ, तपस्वी हूँ' यह समझकर यद्यपि भारी अहंकार कर रहा हूँ परन्तु यह नहीं जानता कि इस कुनपसे पापास्त्रव होता है या नहीं । इस अज्ञान तपसे तुझे इस लोकमें दुःख हां रहा है और परलोकमें भी दुःख प्राप्त होगा । सुभौमकुमारके यह वचन सुनकर वह तपस्वी और भी कुपित हुआ तथा इस प्रकार उत्तर देने लगा ॥ १०३-१०५ ॥ कि 'मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता है' इस प्रकारकी अवज्ञासे मेरे तपका माहात्म्य बिना जाने ही तू ऐसा क्यों बक रहा है ? पञ्चाग्निके मध्यमें बैठना, वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैरसे खड़े रहना, और उपवास कर अपने आप गिरं हुए पत्तं आदिसे पारण करना । इस प्रकार शरीरको सन्तापित करनेवाला तपस्वियोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बढ़कर दूसरा तपश्चरण हो ही नहीं सकता । उस तपस्वीके ऐसे वचन सुन सुभौमकुमार हँसकर कहने लगा कि मैं न तो आपको गुरु मानता हूँ और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप तथा आगम आदिको छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोधादि चार कपायोंके वर्शाभूत हां पृथिवीकायिक आदि छह कायके जीवोंकी हिसामें मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे प्रवृत्ति करते हैं और इस तरह आनामके कहे हुए मतका आश्रय लेकर निर्वाणकी प्रार्थना करते हैं—मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं सो उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छासे धानके छिलके कूटनेके प्रयासके समान है, अथवा जल मथकर धी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपाषाणके समूहको जलाकर सुवर्ण करनेकी इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य दावानलके डरमें भागकर अग्निमें जा पड़े उसके समान है । ज्ञानहीन मनुष्यका कायक्लेश भावी दुःखका कारण है । यह बात मैं, आप पर बहुत भारी स्नेह होनेके कारण कह रहा हूँ ॥ १०६-११४ ॥ इस प्रकार सुभौमकुमारके कहे वचन, विपरीत बुद्धिवाले उस तपसने समझ तो लिये परन्तु पूर्व वैरका संस्कार होनेसे, अथवा अपने पक्षका अनुराग होनेसे अथवा दुःखमय संसारसे आनेके कारण अथवा स्वभावसे ही अत्यन्त दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह सुभौम-कुमार अहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान् पार्श्वनाथ पर अधिक क्रोध करने लगा । इसी शल्यसे वह मरकर शम्बर नामका ज्योतिषी देव हुआ सो ठीक ही है क्योंकि क्रोधी मनुष्योंकी तपसे ऐसी ही गति होती है । इधर सर्प और सर्पिणी कुमारके

बभूवपुरहीन्द्रश्च सत्पत्नी च पृथुभ्रियौ । ततस्त्रिशत्समामानकुमारसमयं<sup>१</sup> गते ॥ ११९ ॥  
 साकेतनगराधीशो<sup>२</sup> जयसेनो महीपतिः । भगलीदेशसञ्जातहयादिप्राभृतान्वितम् ॥ १२० ॥  
 अन्यदासौ निसृष्टार्थं प्राहिणोत्पार्श्वसन्निधिम् । गृहीत्वोपायनं पूजयित्वा दूतोरामं मुदा ॥ १२१ ॥  
 साकेतस्य विभूतिं तं कुमारः परिपृष्टवान् । सोऽपि भट्टारकं पूर्वं वर्णयित्वा<sup>३</sup> पुहं पुरम् ॥ १२२ ॥  
 पश्चाद्दशवर्णयामास<sup>४</sup> प्राज्ञा हि क्रमवेदिनः । श्रुत्वा तत्रात्र किञ्जातस्तीर्थकुक्षामबन्धनान् ॥ १२३ ॥  
 एष एव<sup>५</sup> पुरुर्मुक्तिमापदित्युपयोगवान् । साक्षात्कृतनिजातीतसर्वप्रभवसन्ततिः ॥ १२४ ॥  
 विजृम्भितमतिज्ञानक्षयोपशमवैभवात्<sup>६</sup> । लब्धबोधिः पुनर्लौकान्तिकदेवप्रबोधितः ॥ १२५ ॥  
 तत्क्षणागतदेवेन्द्रप्रमुखामरनिमित्त- । प्रसिद्धमध्यकल्याणरूपनादिमहोत्सवः ॥ १२६ ॥  
 प्रत्येययुक्तिमद्वाग्भिः कृतबन्धुविसर्जनः । आरुह्य शिबिकां रूढां विमलाभिधया विभुः ॥ १२७ ॥  
 विधायान्तममाहारत्यागमश्ववने महा- । शिलातले महासत्त्वः पत्न्यङ्कासनमास्थितः ॥ १२८ ॥  
 उत्तराभिमुखः<sup>७</sup> पौषे मासे पक्षे सितेतरं । एकादश्यां सुपूर्वाह्णे समं त्रिशतभूभुजेः ॥ १२९ ॥  
 कृतसिद्धनमस्कारो दीक्षालक्ष्मीं समाददे । दूतिकां मुक्तिकन्याया मान्यां कृत्यप्रसाधिकाम् ॥ १३० ॥  
 केशान्विमोचितास्तस्य मुष्टिभिः पञ्चभिः सुरेत् । समभ्यव्यादराक्षीत्वा न्यक्षिपत्क्षीरवारिधौ ॥ १३१ ॥  
 भात्तसामायिकः शुद्धया चतुर्थज्ञानभास्वरः<sup>८</sup> । गुह्यमखेटपुरं कायस्थित्यर्थं समुपेयिवान् ॥ १३२ ॥  
 तत्र धन्याख्यभूपालः श्यामवर्णोऽष्टमङ्गलैः । प्रतिगृह्याशनं शुद्धं दत्त्वापरत्कियोचितम् ॥ १३३ ॥

उपदेशसे शान्ति भावको प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मीको धारण करनेवाले धरणेन्द्र और पद्मावती हुए । तदनन्तर भगवान् पार्श्वनाथका जय तीस वर्ष प्रमाण कुमारकाल बीन गया तब एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगली देशमें उपन्न हुए घोड़े आदिकी भेंटके साथ अपना दूत भगवान् पार्श्वनाथके ममीप भेजा । भगवान् पार्श्वनाथने भेंट लेकर उस श्रेष्ठ दूतका हर्षपूर्वक बड़ा सम्मान किया और उमसे अयोध्याकी विभूति पूछी । इसके उत्तरमें दूतने सबसे पहले भगवान् वृषभदेवका वर्णन किया और उसके पश्चान् अयोध्या नगरका हाल कहा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान लोग अनुक्रमको जानते ही हैं । दूतके वचन सुनकर भगवान् विचारने लगे कि मुझे तीर्थकर नामकर्मका वन्ध हुआ है इससे क्या लाभ हुआ ? भगवान् वृषभदेवको ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया । ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत भवोंकी परम्पराका साक्षात्कार कर लिया—पिछले सब देख लिये ॥ ११५-१२४ ॥ मतिज्ञानावरण कर्मके बढ़ते हुए क्षयोपशमके वैभवसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बोधित किया । उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर प्रसिद्ध दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक आदि महात्सव मनाया ॥ १२५-२२६ ॥ तदनन्तर भगवान्, विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त वचनोंके द्वारा भाई-बन्धुओंको विदाकर विमला नामकी पालकीपर सवार हो अश्ववनेमें पहुँचे । वहाँ अतिशय धीर वीर भगवान् तैलाका नियम लेकर एक बड़ी शिलानल पर उत्तराभिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान हुए । इस प्रकार पौषकृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय उन्होंने सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर तीन सौ राजाओंके साथ दीक्षा-रूपी लक्ष्मी स्वीकृत कर ली । वह दीक्षा-लक्ष्मी क्या थी ? मानो कार्य सिद्ध करनेवाली मुक्ति रूपी कन्याकी माननीय दूती थी ॥ १२७-१३० ॥ भगवान्ने पञ्च मुष्टियोंके द्वारा खड़ाइकर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पूजा की तथा बड़े आदरसे ले जाकर उन्हें क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥ १३१ ॥ जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया है और विशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थे—मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हैं ऐसे भगवान् पारणाके दिन आहार लेनेके लिए गुह्यमखेट नामके नगरमें गये ॥ १३२ ॥ वहाँ श्यामवर्ण वाले धन्य नामक राजाने अष्ट मङ्गल द्रव्योंके द्वारा पङ्गाहकर उन्हें शुद्ध आहार दिया और आहार देकर इस क्रियाके

१ कुमारे ल० । २ जयसेनमही—ल० । ३ वृषभदेवम् । ४ प्रज्ञा क०, ख०, ग० । ५ पुनर्मुक्ति ल० । ६ साक्षात्कृतविजानीत ल० (१) । ७ वैभवः क०, ख०, घ० । ८ उत्तराभिमुखे ल० । ९ भास्वरः ल० ।

नयन्स चतुरो मासान् छाशस्थेन विशुद्धिभाक् । दीक्षाग्रहवने देवदारुभूरिमहीरुहः ॥ १३४ ॥  
 अधस्ताद्द्वैत्राहारत्यागादात्तविशुद्धिकः । प्रत्यासन्नभवप्रान्तो योगं सप्तदिनावधिम् ॥ १३५ ॥  
 गृहीत्वा सत्त्वसारोऽस्थाद् धर्मध्यानं प्रवर्तयन् । शम्बरोंऽन्नाम्बरे गच्छन्नगच्छत्स्वं विमानकम् ॥ १३६ ॥  
 लोकमानो विभङ्गेन °स्पष्टप्राग्वैरबन्धनः । रोषात्कृतमहाघोषो महावृष्टिमपातयत् ॥ १३७ ॥  
 व्यधात्तदैव सप्ताहान्यन्यांश्च विविधान्विधीः । महोपसर्गान् शैलोपनिपातान्तानिवास्तकः ॥ १३८ ॥  
 १ तं ज्ञात्वाऽवधिबोधेन धरणीशो विनिर्गतः । धरण्याः प्रस्फुरद्वत्नफणामण्डपमण्डितः ॥ १३९ ॥  
 २ भद्रं तमस्थादावृत्य तत्पत्नी च फणाततेः । उपर्युञ्जैः समुद्धृत्य स्थिता वज्रातपच्छिदम् ॥ १४० ॥  
 अमू क्रूरौ प्रकृत्यैव नागौ सस्मरतुः कृतम् । नोपकारं परे तस्माद्विस्मरन्त्याद्रंचेतसः ॥ १४१ ॥  
 ततो भगवतो ध्यानमाहात्म्यान्मोहसंक्षये । विनाशमगमद्विश्वो विकारः कमठद्विपः ॥ १४२ ॥  
 द्वितीयशुक्लध्यानेन मुनिनिर्जित्य कर्मणाम् । त्रितयं चैत्रमासस्य काले<sup>३</sup> पक्षे दिनादिमे ॥ १४३ ॥  
 भागे विशाखनक्षत्रे चतुर्दश्यां महोदयः । सम्प्रापत्केवलज्ञानं लोकालोकावभासनम् ॥ १४४ ॥  
 तदा केवलपूजाञ्च सुरेन्द्रा निरवर्तयन् । शम्बरोंऽप्यात्तकालादिलब्धिः शममुपागमत् ॥ १४५ ॥  
 प्रापत्सम्यक्त्वशुद्धिञ्च दृष्ट्वा तद्वनवासिनः । तापसास्यकमिध्यार्त्वाः शतानां सप्त संयमम् ॥ १४६ ॥  
 गृहीत्वा शुद्धसम्यक्त्वाः पार्श्वनाथं कृतादराः । सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्राणेषुः पादयोर्द्वयाः ॥ १४७ ॥

योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ॥ १३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवान्ने छद्मस्थ अवस्थाके चार माह व्यतीत किये । तदनन्तर जिस वनमें दीक्षा ली थी उमी वनमें जाकर वे देवदारु नामक एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहाँ तैलाका नियम लेनेसे उनकी विशुद्धता बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर धर्मध्यानका बढ़ाते हुए विराजमान थे । इसी समय कमठका जीव शम्बर नामका असुर आकाशमार्गसे जा रहा था कि अक्रस्मान् उसका विमान रुक गया । जब उसने विभङ्गावधि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्वभवका सब वैर-बन्धन स्पष्ट दिखने लगा । फिर क्या था, क्रोधवश उसने महा गर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया । इस प्रकार यमराजके समान अतिशय दुष्ट उस दुर्बुद्धिने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकार के महा उपसर्ग किये । यहाँ तक कि छांटे-मांटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये ॥ १३४-१३८ ॥ अवधिज्ञानसे यह उपसर्ग जानकर धरणेन्द्र अपनी पत्नीके साथ पृथिवीतलसे बाहर निकला, उस समय वह, धरणेन्द्र जिसपर रत्न चमक रहे हैं ऐसे फणारूपी मण्डपसे मुशोभित था । धरणेन्द्रने भगवान्को सब ओरसे घेरकर अपने फणाओंके उपर उठा लिया और उसकी पत्नी वज्रमय छत्र तानकर खड़ी हो गई ॥ १३९-१४० ॥ आचार्य कहते हैं कि देवों, स्वभावसे ही क्रूर रहनेवाले सर्प-सर्पिणीने अपने उपर किया उपकार याद रखना सो ठीक ही है क्योंकि दयालु पुरुष अपने उपर किये उपकारको कभी नहीं भूलते हैं ॥ १३६-१४१ ॥

तदनन्तर भगवान्के ध्यानके प्रभावसे उनका मोहनीय कर्म क्षीण होगया इस लिए वैरी कमठका सब उपसर्ग दूर हो गया ॥ १४२ ॥ मुनिराज पार्श्वनाथने द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा अवशिष्ट तीन घातिया कर्मोंको और भी जीत लिया जिससे उन्हें चैत्रकृष्ण त्रयोदशीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें लोक-अलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया और इस कारण उनका अभ्युदय बहुत भारी हो गया ॥ १४३-१४४ ॥ उसी समय इन्द्रोंने केवलज्ञानकी पूजा की । शम्बर नामका ज्यौतिषीदेव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने सम्यग्दर्शन सम्बन्धी विशुद्धता प्राप्त कर ली । यह देख, उस वनमें रहनेवाले सात सौ तपस्वियोंने मिथ्यादर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यग्दृष्टि हो गये और बड़े आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान्

१ तद् ज्ञात्वा ल० । २ भदन्तमस्थादावृत्य ल० । भट्टारमस्था—इति कचित् । भर्तारमस्थादावृत्य ल० । ३ काष्ठपक्षे ल० ।

क तद्वैरं वृथा शान्तिरीदृशी कास्य पापिनः । सख्यमास्तां विरोधश्च वृद्धये हि महात्मभिः ॥ १४८ ॥  
 १ गणेशा दश तस्यासन् विधायादि स्वयम्भुवम् । सार्धानि त्रिशतान्युक्ता मुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥ १४९ ॥  
 गनयोऽयुतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः । चतुःशत्तोत्तरं प्रोक्ताः सहस्रमवधित्विपः ॥ १५० ॥  
 सहस्रमन्तिमज्ञानास्तावन्तो विक्रियद्विकाः । शतानि ससपञ्चाशच्चतुर्थावगमाश्रिताः ॥ १५१ ॥  
 वादिनः पट्टशतान्येव ते सर्वेऽपि समुच्चिताः । अभ्यर्णांकृतनिर्वाणाः स्युः सहस्राणि षोडश ॥ १५२ ॥  
 सुलोचनाद्याः पट्टत्रिंशत्सहस्राण्यायिका विभोः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ १५३ ॥  
 देवा<sup>२</sup> देव्योऽप्यसङ्ख्याताः सङ्ख्यातास्तिर्यगङ्गिनः । एवं द्वादशभिर्युक्तो गणैर्धर्मोपदेशनम् ॥ १५४ ॥  
 कुवणः पञ्चभिर्मासैर्विरहीकृतसप्ततिः । संवत्सराणां मासं स संहत्य विहृतिक्रियाम् ॥ १५५ ॥  
 पट्टत्रिंशन्मुनिभिः सार्धं प्रतिमायोगमास्थितः । श्रावणे मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ १५६ ॥  
 भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानद्वयसमाश्रयान् । गुणस्थानद्वये स्थित्वा सम्मेदाचलमस्तके ॥ १५७ ॥  
 तन्कालोचितकार्याणि वर्तयित्वा यथाक्रमम् । निःशेष कर्मनिर्णाशाश्रिवाणे<sup>३</sup> निश्चलं स्थितः ॥ १५८ ॥  
 कृतनिर्वाणकल्याणाः सुरेन्द्रास्तं ववन्दिरे । वन्दामहे वयञ्चैनं नन्दितुं सुन्दरैर्गुणैः ॥ १५९ ॥  
 आदिमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽम्भोनिधिसन्निभाः । उदाहरणमेतेषां पार्श्वो गण्यः क्षमावताम् ॥ १६० ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

वज्रन्माभिपवोत्सवे सुरगिरौ स्वोच्छ्वासनिःश्वासजैः

स्वर्गेशान्भृशमानयस्त्वमनिलैरान्दोललीलां मुहुः ।

किं कुर्यात्तव तादृशोऽथममरस्त्वन्क्षान्तिलब्धोदयः

पाटीनो जलधेरिवेन्यभिनृतः पार्श्वो जिनः पातु नः ॥ १६१ ॥

पार्श्वनाथके चरणोंमें नमस्कार करने लगे । आचार्य कहते हैं कि पापी कमठके जीवका कहाँ तो निष्कारण वैर और कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कहा है कि महापुरुषोंके साथ मित्रता तो दूर रही शत्रुता भी वृद्धिका कारण होती है ॥ १४५-१४८ ॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें स्वयंभूको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सौ पचास मुनिराज पूर्वके ज्ञानाथे, दश हजार नौ सौ शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधिज्ञानी थे, एक हजार केवलज्ञानी थे, इतने ही विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, सात सौ पचास मनःपर्यय ज्ञानी थे, और छह सौ वादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जानेवाले सोलह हजार मुनिराज उनके समवसरणमें थे ॥ १४९-१५२ ॥ सुलोचनाको आदि लेकर छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस प्रकार बारह सभाओंके साथ धर्मोपदेश करते हुए भगवान्ने पांच माह कम सत्तर वर्ष तक विहार किया । अन्तमें जब उनकी आयुका एक माह शेष रह गया तब वे विहार बन्दकर सम्मेदाचलकी शिखर पर छत्तीस मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गये । श्रावणशुक्ला सप्तमीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें शुकृध्यानके तीसरे और चौथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य कार्य कर समस्त कर्मोंका क्षय हो जानेसे मोक्षमें अविचल विराजमान हो गये । उसी समय इन्द्रोंने आकर उनके निर्वाण कल्याणकका उत्सव कर उनकी वन्दना की । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे सद्बुद्ध हानेके कारण हम भी इन भगवान् पार्श्वनाथको नमस्कार करते हैं ॥ १५३-१५६ ॥ जो समुद्रके समान आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं ऐसे सज्जनोंका यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो क्षमावानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान् पार्श्वनाथ ही हो सकते हैं ॥ १६० ॥ 'भगवन् ! जन्माभिषेकके समय सुमेरुपर्वत पर अपने उच्छ्वास और निःश्वाससे उत्पन्न वायुके द्वारा आपने इन्द्रोंको

निष्कम्पं तव शुक्रतामुपगतं बोधं पयोधिर्महा-

वातोद्भूततनुर्विनीलसलिलः प्राप्नोति दूरान्न तम् ।

ध्यानं ते वत वाचलस्य महतां श्वासानिलाद्दामरात्

क्षोभः कः कथमित्यभीष्टुतिपतिः पार्श्वप्रभुः पातु नः ॥ १६२ ॥

तीर्थेशाः सदृशो गुणैरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिभिः

सन्त्यप्येवमधीश विश्वविदितास्ते ते गुणाः प्रीणनाः ।

तत्सर्वं कमटात्तथाहि महतां शत्रोः कृतापक्रियात्

ख्यातिर्यां महती न जातुचिदसौ मित्रात्कृतोपक्रियात् ॥ १६३ ॥

दूरस्थामरविक्रियस्य भवतो वाधा न शान्तात्मनो

न क्रोधो न भयञ्च तेन न बुधैः सोढेति संस्तूयमे ।

साहाय्यप्रशमौ तु विस्मयकरौ तौ तेन तीर्थेशिनः

स्तोतव्यं किमिति स्तुतो भवतु नः पार्श्वो भवोच्छित्तये ॥ १६४ ॥

परयंतौ कृतवेदिनौ हि धरणी धर्म्यावितीडाङ्गती

तावेवोपकृतिर्न ते त्रिभुवनक्षेमैकभूमेस्तनः ।

भूभृत्पातनिषेधनं ननु कृतं चेत्प्राक्तनोपद्रवाः

कैर्नासन्निति सारसंस्तुतिकृतः पार्श्वो जिनः पातु नः ॥ १६५ ॥

भी अच्छी तरह वार-वार झूला झूला दिया था फिर भला यह शम्बर जैसा लुद्रदेव आपका क्या कर सकता है ? जिम प्रकार मच्छ समुद्रमें उजल-कूदकर उसे पीड़ित करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीवित रहता है—उससे अलग होते ही छटपटाने लगता है उसी प्रकार इस लुद्रदेवने आपको पीड़ा पहुँचाई है तो भी यह अन्तमें आपकी ही शान्तिसे अभ्युदयको प्राप्त हुआ है' इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ १६१ ॥ हे प्रभो ! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त है उसे समुद्रकी उपमा कैसे दी जा सकती है क्योंकि समुद्र तो महावायुके चलनेपर चंचल हो जाता है और उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार समुद्र दूरसे ही आपके ज्ञानको नहीं पा सकता है । इसी तरह आपका ध्यान भी अकम्प है तथा अत्यन्त शुक्रताको प्राप्त है उसे भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती है । हे नाथ ! आप सुमेरु पर्वतके समान अचल हैं फिर भला श्वासोच्छ्वासकी वायुके समान इस लुद्रदेवसे आपको क्या चोभ हो सकता है ?" इस प्रकार अनेक स्तुतियोंके स्वामी पार्श्वनाथ भगवान् हमारी रक्षा करें ॥ १६२ ॥ हे स्वामिन् ! धैर्य आदि बड़े-बड़े गुणोंसे यद्यपि सभी तीर्थंकर समान हैं तथापि सबको संतुष्ट करनेवाले आपके जो गुण संसारमें सर्वत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठके कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं । सो ठीक ही है क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है वह उपकार करनेवाले मित्रसे कभी नहीं होती ? ॥ १६३ ॥ हे देव ! आपने शान्तचित्त रहकर शम्बर देवकी विक्रिया दूर कर दी उससे आपको न कोई वाधा हुई, न क्रोध आया और न भय ही उत्पन्न हुआ इस कारण 'आप सहनशील हैं' इस प्रकार विद्वज्जन आपकी स्तुति नहीं करते किन्तु आपका साहाय्य और शान्ति आश्चर्यजनक है इसलिए आपकी स्तुति की जानी चाहिये । इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई थी वे पार्श्वनाथ भगवान् हम सबके संसारका उच्छेद करनेवाले हों ॥ १६४ ॥ देखो, ये धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों ही बड़े कृतज्ञ हैं, और बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संसारमें स्तुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तु तीनों लोकोंके कल्याणकी एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही यह उपकार है ऐसा समझना चाहिये । यदि ऐसा न माना जाय और दोनों ही पर्वतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना जाय तो फिर यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी सारभूत स्तुति की जाती है वे पार्श्वनाथ भगवान् हम सबकी रक्षा करें ॥ १६५ ॥ हे विभो ! पर्वतका

१भेदोऽद्रेः फणिमण्डपः फणिवधूच्छन्नं क्षतिर्घातिनां

कैवल्यासि २रधातुदेहमहिमा हानिर्भवस्यामरी ।

भीतिस्तीर्थं कृदुद्गमोऽपगमनं विघ्नस्य चासन्समं

भर्तुर्यस्य स सन्ततान्तकभयं हन्तुग्रवंशाप्रणाः ॥ १६६ ॥

किं ध्यानात्फणिनः फणीन्द्रयुचतेः क्षान्तेर्महेन्द्रास्त्वत-

स्तन्त्रान्मन्त्रविजृम्भणाद् वत रिपांभौतिरयस्योदयान् ।

काकादधातिहतेरिदं शममभूदित्यर्घ्यहस्तैः सुरै-

३राशङ्कथामरविघ्नविच्युतिरर्थं हन्यात्स धीराप्रणाः ॥ १६७ ॥

भ्रुत्वा यस्य वचोऽमृतं श्रुतिसुखं हृद्यं हितं हेतुम-

न्मिध्यात्वं दिविजोऽवमीद्विपमिव स्याविद्धवैरोद्धुरम् ।

यं स्तौति ४ स्म च तादृशोऽप्युपनतश्रेयः स पार्श्वो विभु-

विघ्नौघं हरिसन्धृतासनशिखामध्याम्य सिद्धो हनान् ॥ १६८ ॥

जातः प्राङ्मरुभूतिरन्विभपतिर्देवः सहस्रारजां

विघ्नेशोऽच्युतकल्पजः क्षितिभृतां श्रीवज्रनाभिः पतिः ।

देवो मध्यममध्यमे नृपगुणैरानन्दनामाऽऽनते ५

देवेन्द्रो हतघानिसंहतिरवम्बस्मान्त्स पार्श्वेश्वरः ॥ १६९ ॥

फटना, धरणेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्मावतीके द्वारा छत्र लगाया जाना, घातिया कर्माका क्षय होना, कैवल्यज्ञानकी प्राप्ति होना, धातुरहित परमौदारिक शरीरकी प्राप्ति होना, जन्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत होना, आपके तीर्थकर नामवर्मका उदय होना और समस्त विघ्नोंका नष्ट होना ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे ऐसे उग्र वंशके शिरोमणि भगवान् पार्श्वनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें—जन्ममरणसे हमारी रक्षा करें ॥ १६६ ॥ यह शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हुई है ? वा धरणेन्द्रसे हुई है ? अथवा पद्मावतीसे हुई है ? अथवा भगवानकी क्षमासे हुई है ? अथवा इन्द्रसे हुई है ? अथवा स्वयं अपनेआप हुई है ? अथवा मन्त्रके विस्तारसे हुई है ? अथवा शत्रुके भयभीत हो जानेसे हुई है ? अथवा भगवानके पुण्योदयसे हुई है ? अथवा समय पाकर शान्त हुई है ? अथवा घातिया कर्माका क्षय होनेसे हुई है ? इस प्रकार अर्ध हाथमें लिये हुए देव लोग, शंवरदेवके द्वारा किये हुए जिनके विघ्नोंकी शान्तिकी आशंका कर रहे हैं ऐसे धीर वीरोंमें अग्रगण्य भगवान् पार्श्वनाथ हमारे पाप नष्ट करें ॥ १६७ ॥ कानोंको सुख देनेवाले, हृदयको प्रिय लगानेवाले, हित करनेवाले और हेतुसे युक्त जिनके वचन सुनकर शम्बरदेवने परम्परागत वैरसे उत्कट मिध्यात्वको विषके समान छोड़ दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की और उस प्रकारका क्रूर होनेपर भी वह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो इन्द्रके द्वारा धारण किये हुए सिंहासनके अग्रभाग पर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए ऐसे भगवान् पार्श्वनाथ हमारे विघ्नोंके समूहको नष्ट करें ॥ १६८ ॥ पार्वनाथका जीव पहले मरुभूति मंत्री हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर विद्याधर हुआ, फिर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम भ्रैव्यकमें अहमिन्द्र हुआ, वहाँसे आकर राजाओंके गुणोंसे सुरोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनत स्वर्गमें इन्द्र हुआ और तदनन्तर घातिया

१ भेदोहेः ल० । २-रधात् ल० । ३-राशङ्कथोऽमर ल० । ४ नौति स्म ल० । ५ नतो घ०, म०, क०, । ततो ख० ।

## आर्या

कमठः कुक्कुटसर्पः पञ्चमभूजोऽहिरभवदथ नरके ।

भ्याधोऽधोगः सिंहो नरकी नरपोऽनु शम्बरो द्विविजः ॥ १७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पार्श्वतीर्थकरपुराणं नाम  
त्रिसप्ततितमं पर्व ॥ ७३ ॥

—:ॐ०ॐ:—

कर्माके समूहको नष्ट करनेवाला भगवान् पार्श्वनाथ हुआ ॥ १६६ ॥ कमठका जीव पहले कमठ था, फिर कुक्कुट सर्प हुआ, फिर पाँचवें नरक गया, फिर अजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया और फिर महीपाल राजा होकर शम्बर देव हुआ ॥ १७० ॥

इस प्रकार आर्षि नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें पार्श्वनाथ तीर्थकरके पुराणका वर्णन करनेवाला निहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ७३ ॥

—:ॐ०ॐ:—



## चतुःसप्ततितमं पर्व

१ वर्धमानो जिनः श्रीमान्नामान्वर्थ समुद्रहन् । देयान्मे वृद्धिमुद्धतघातिकर्मविनिमित्ताम् ॥ १ ॥  
 तत्त्वार्थनिर्णयात्प्राप्य सन्मतिस्त्वं सुबांधवाक् । पूज्यो देवागमाद्भूत्वात्रकलङ्को बभूविथ ॥ २ ॥  
 वीरसेनो महावीरो वीरसेनेन्द्रतां गतः । वीरसेनेन्द्रवन्द्याग्निवीरसेनेन भावितः ॥ ३ ॥  
 देवालोकस्तथैवैको लोकालोकावलोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनानवलोकितम् ॥ ४ ॥  
 रूपमेव तव श्रुते नाथ कोपाद्यपोहनम् । मणेर्मलस्य वैकल्प्यं महनः केन कथ्यते ॥ ५ ॥  
 अतिक्रम्य कुतीर्थानि तव तीर्थं प्रवर्तते । सम्प्रत्यपीति नुवानु पुराणं तत्प्रवक्ष्यते ॥ ६ ॥  
 महापुराणवाराशिपारावारप्रतिष्ठया । जिनसेनानुगामित्वमस्माभिर्निर्विबुधुभिः ॥ ७ ॥  
 अगाधोऽयं पुराणाब्धिपरपरश्च मतिर्भम । पदयोत्ताना सपारा च तं तित्तीर्षुः किलैतया ॥ ८ ॥  
 मतिरस्तु ममैपाल्पा पुराणं महदस्त्विदम् । नावेवामभानिधेरस्य प्राप्तोहं<sup>२</sup> पारमेतया ॥ ९ ॥  
 कथाकथकयोस्तावद्वर्णना<sup>३</sup> प्राग्विधीयते । दोषं ताभ्यामदोषाभ्यां पुराणं नोपदौकते ॥ १० ॥  
 सा कथा यां समाकर्ण्यं हेयांपादेयनिर्णयः । कर्णकटवीभिरेन्याभिः किं कथाभिर्हिताधिनाम् ॥ ११ ॥  
 रागादिदोषनिर्मुक्तो निरपेक्षोपकारकृत् । भव्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥ १२ ॥

अथानन्तर—सार्थक नामको धारण करनेवाले श्रीमान् वर्धमान जिनन्द्र, घातिया कर्मके नाशसे प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दे ॥ १ ॥ जिनके वचनोंसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होना है ऐसे आप तत्त्वार्थ का निर्णय करनेसे सन्मति नामको प्राप्त हुए और देवोंके आगमनसे पूज्य होकर आप अकलङ्क हुए हैं ॥ २ ॥ आपका नाम वीरसेन है, रुद्रके द्वारा आप महावीर कहलाये हैं, ऋद्धिधारी मुनियोंकी सेनाके नायक हैं । गणधरदेव आपके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं, तथा अनेक मुनिराज आपका ध्यान करते हैं ॥ ३ ॥ हे देव ! लोक और अलोकके देखनेमें आपका ही केवलज्ञानरूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है जिसे आपका केवलज्ञान नहीं देख सका ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें है ? ॥ ४ ॥ हे नाथ ! आपका रूप ही आपके क्रोधादिकके अभावको सूचित करता है सो ठीक ही है क्योंकि बहुमूल्य मणियोंकी कालिमाके अभावका कौन कहता है ? भावार्थ—जिस प्रकार मणियोंकी निमलता स्वयं प्रकट हो जाती है उसी प्रकार आपका शान्त भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! अन्य अनेक कुतीर्थका उल्लङ्घनकर आपका तीर्थ अब भी चल रहा है इसलिए स्तुतिके अनन्तर आपका पुराण कहा जाता है ॥ ६ ॥ यह महापुराण एक महासागरके समान है इसके पार जानेके लिए कुछ कहनेकी इच्छा करनेवाले हम लोगोंको श्रीजिनसेन स्वामीका अनुगामी होना चाहिये ॥ ७ ॥ यह पुराण रूपी महासागर अगाध और अपार है तथा मेरी बुद्धि थोड़ी और पारसहित है फिर भी मैं इस बुद्धिके द्वारा इस पुराणरूपी महासागरको पार करना चाहता हूँ ॥ ८ ॥ यद्यपि मेरी बुद्धि छोटी है और यह पुराण बहुत बड़ा है तो भी जिस प्रकार छोटी-सी नावसे समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार हो जाऊँगा ॥ ९ ॥ सबसे पहले कथा और कथाके कहनेवाले वक्ताका वर्णन किया जाता है क्योंकि यदि ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ॥ १० ॥ कथा वही कहलाती है कि जिसके सुननेसे हेय और उपादेयका निर्णय हो जाता है । हित चाहनेवाले पुरुषोंके कानोंको कड़वी लगनेवाली अन्य कथाओंसे क्या प्रयोजन है ? ॥ ११ ॥ कथक—कथा कहनेवाला वह कहलाता है जो कि रागादि दोषोंसे रहित हो और अपने दिव्य वचनोंके द्वारा निरपेक्ष होकर भव्य

१ ल० पुस्तकेऽयं श्लोकोऽभिधकः 'वन्दारुन् वर्धमानोऽस्तु वर्धमानशिवप्रदः । दितकमानैकविधैः परीपह-  
 गणैर्यकः' ॥ २ प्राप्ताहं ल० । ३ वर्णनं ल० ।

एतद्विदितममत्रैव पुराणे जिनभाषिते । नान्येषु हुष्पुराणेषु तस्माद् प्राह्यमिदं बुधैः ॥ १३ ॥  
 अथ जम्बूद्वीपमालक्ष्ये द्वीपानां मध्यवर्तिनि । द्वीपे विदेहे पूर्वस्मिन् सीतासरिदुदक्षटे ॥ १४ ॥  
 विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाख्ये<sup>१</sup> वने तस्या नाम्ना व्याधाधिपोऽभवत् ॥ १५ ॥  
 पुरुरवाः प्रियान्यासीत्कालिकास्थानुरागिणी । अनुरूपं विधत्ते हि वेधाः सङ्गममङ्गिनाम् ॥ १६ ॥  
 कदाचित्कानने तस्मिन् दिग्बिभागविमोहनात् । मुनिं सागरसेनाख्यं पर्यटन्तमितस्ततः ॥ १७ ॥  
 विलोष्य तं मृगं मत्वा हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाश्चरन्तीमे मावधीरिति वारितः ॥ १८ ॥  
 तदैव स प्रसन्नात्मा समुपेत्य पुरुरवाः । प्रणम्य तद्वचः श्रुत्वा सुशान्तः श्रद्धयाहितः ॥ १९ ॥  
 शीतलाग्भस्तटाकं वा निदाघे कृषितो जनः । संसारदुःखहेतोर्वा भीरुजैनेश्वरं मतम् ॥ २० ॥  
 शास्त्राभ्यासनशीलो वा ख्यातं गुरुकुलं महत् । मध्वादित्रिनयत्यागलक्षणं व्रतमासदत् ॥ २१ ॥  
 जीवितावसितो सम्यक्पालयित्वादराद् व्रतम् । सागरापमदिध्यायुः सौधर्मैऽनिमिषोऽभवत् ॥ २२ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते देशः कोसलाख्योऽस्ति<sup>२</sup> विश्रुतः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सौस्थित्यर्थं सर्वदा भजन् ॥ २३ ॥  
 बाधाभावादरक्षात् रक्षकेभ्यो विना न सा । अदातारो न<sup>३</sup> कैनाश्यात्ते कृप्या प्राहकैविना ॥ २४ ॥  
 काठिन्यं कुत्रयोरेव नैव चेतसि कस्यचिन् । देहि पाहीति समग्रैपो नाथिन्वेन भयेन वा ॥ २५ ॥  
 कलङ्कक्षीणते राशि चन्द्र एव परत्र न । स्थितिस्तपोधनेष्वेव विनाहारात्परेषु न ॥ २६ ॥

जीवोंका उपकार करता हों ॥ १२ ॥ ये दोनों ही अर्थात् कथा और कथक, जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए इसी महापुराणमें हैं अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए विद्वानोंके द्वारा यही पुराण ग्रहण करनेके योग्य हैं ॥ १३ ॥

अथानन्तर—सब द्वीपोंके मध्यमें रहनेवाले इस जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर किनारेपर पुष्कलावती नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी नगरामें एक मधु नामका वन है । उसमें पुरुरवा नामका एक भीलोंका राजा रहता था । उसकी कालिका नामकी अनुराग करनेवाली स्त्री थी सो ठीक ही है क्योंकि विधाता प्राणियोंका अनुकूल ही समागम करता है ॥ १४-१६ ॥ किसी एक दिन दिग्भ्रम हो जानेके कारण सागरसेन नामके मुनिराज उस वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे । उन्हें देख, पुरुरवा भील मृग समझकर उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुआ परन्तु उसकी स्त्रीने यह कहकर मना कर दिया कि 'ये वनके देवता घूम रहे हैं इन्हें मत मारो' ॥ १७-१८ ॥ वह पुरुरवा भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके पास गया और श्रद्धाके साथ नमस्कारकर तथा उनके वचन सुनकर शान्त हो गया ॥ १९ ॥ जिस प्रकार ग्रीष्मऋतुमें प्यासा मनुष्य शीतल जलसे भरे हुए तालाबको पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोंमें डरनेवाला जीव, जिनेन्द्र भगवानका मन पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार शास्त्राभ्यास करनेवाला विद्यार्थी किसी बड़े प्रसिद्ध गुरुकुलको पाकर शान्त होता है उसी प्रकार वह भील भी सागरसेन मुनिराजको पाकर शान्त हुआ था । उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका व्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यन्त उसका बड़े आदरसे अच्छी तरह पालन किया । आयु समाप्त होनेपर वह सौधर्म स्वर्गमें एक सागरका उत्तम आयुको धारण करनेवाला देव हुआ ॥ २०-२२ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्र सम्बन्धी आर्यक्षेत्रके मध्यभागमें स्थित तथा सदा अच्छी स्थितिको धारण करनेवाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥ २३ ॥ उस देशमें कभी किसीका बाधा नहीं होती थी इसलिए अरक्षा थी परन्तु वह अरक्षा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी । इसी तरह वहाँपर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव कृपणतासे नहीं था परन्तु संतुष्ट रहनेके कारण कोई लेनेवाले नहीं थे इसलिए था ॥ २४ ॥ वहाँ कठोरता स्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी, वहाँ रहनेवाले किसी मनुष्यके चित्तमें कठोरता-क्रूरता नहीं थी । इसी तरह मुझे कुछ देओ, यह शब्द माँगनेके लिए नहीं निकलता था । और हमारी रक्षा करो यह शब्द भयसे निकलता था ॥ २५ ॥ इसी प्रकार कलङ्क

पीडा निलातसीक्षुणां नान्यप्राणिषु केपुष्वित् । नान्यत्र शिरसच्छेदः प्रवृद्धेष्वेव शालिषु ॥ २७ ॥  
 बन्धो मोक्षश्च राद्धान्ते श्रूयते नापराधिषु । विना विमुक्तरागेभ्यो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहः<sup>१</sup> ॥ २८ ॥  
 जाल्घं जलेषु नान्येषु<sup>२</sup> सूच्यादिष्वेव तीक्ष्णता । नान्यत्र कुञ्चिकास्त्रेव कृत्ये नान्यत्र वक्रता ॥ २९ ॥  
 नाविदग्धाश्च गोपाला न स्त्रीबालाश्च<sup>३</sup> भालुकाः । शठा न वामनाश्चोक्ताश्चण्डालाश्च न दुश्चराः ॥ ३० ॥  
 नानिक्षुशालिका भूमिर्न क्षमाभृदचन्दनः ।<sup>४</sup> नानभोजं जलस्थानं नैवास्वादुफलं वनम् ॥ ३१ ॥  
 मध्ये तस्य विनीताख्या हृदयप्राहिणी पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सन्मुखप्रदा ॥ ३२ ॥  
 प्रकाशयितुमात्मीयं पुरनिर्माणकौशलम् । भक्तिञ्च तीर्थकृत्ववादी सा शक्रंणैव निमिता ॥ ३३ ॥  
 मुनेर्धौविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा सालेन व्यभासत<sup>५</sup> ॥ ३४ ॥  
 भूषणार्थैव सालोऽस्याः खातिकापरिवेष्टितः । शक्रः कर्ता पतिश्चक्री यदि कौतम्कुतं भयम् ॥ ३५ ॥  
 वर्तते जिनपूजास्या दिनं प्रति गृहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां तत्पूर्वत्वाद् गृहेशिनाम् ॥ ३६ ॥  
 विद्याभ्यासाद्रिना बाल्यं विना भोगेन यौवनम् । वार्धक्यं न विना धर्माद्विनान्तोऽपि समाधिना ॥ ३७ ॥  
 नावबोधः क्रियाशून्यो न क्रिया फलवजिता । अभुक्तं न फलं भोगो नार्थधर्मद्वयच्युतः ॥ ३८ ॥  
 प्रधानप्रकृतिः प्रायः स्वामित्वेनैव साधिका । जनेभ्यस्तस्त्रिवासिभ्यो न भूपादिपरिच्छदैः ॥ ३९ ॥

और क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके वाचक राजासमें ही पाये जाते थे अन्य किसी राजासमें नहीं पाये जाते थे । निराहार रहना तपस्वियोंमें ही था अन्यमें नहीं ॥ २६ ॥ पीड़ा अर्थात् पेला जाना तिल अलसी तथा ईखमें ही था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात् कष्ट नहीं था । शिरका काटना बढ़ी हुई धानके पौधोंमें ही था किसी दूसरेमें नहीं । बन्ध और मोक्षकी चर्चा आगममें ही सुनाई देती थी किसी अपरार्थोंमें नहीं । इन्द्रियोंका निग्रह विरागी लोगोंमें ही था किन्हीं दूसरे लोगोंमें नहीं । जड़ता जलमें ही थी किन्हीं अन्य मनुष्योंमें जड़ता—मूर्खता नहीं थी, तीक्ष्णता सुई आदिमें ही थी वहाँके मनुष्योंमें उग्रता नहीं थी, वक्रता तालियोंमें ही थी किसी अन्य कार्यमें कुटिलता—मायाचारिता नहीं थी । वहाँके गोपाल भी अचतुर नहीं थे, स्त्रियों तथा बालक भी डरपोक नहीं थे, बौने भी धूर्त नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं थे ॥ वहाँ ऐसी कोई भूमि नहीं थी जो कि ईश्वरसे मुशोभित नहीं हो, ऐसा कोई पर्वत नहीं था जिसपर चन्दन न हो, ऐसा कोई सरोवर नहीं था जिसमें कमल न हो और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें मीठे फल न हों ॥ २७-३९ ॥

उस देशके मध्यभागमें हृदयको ग्रहण करनेवाली विनीता (अयोध्या) नामकी नगरी थी जो कि विनीत स्त्रीके समान मनुष्योंको उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥ ३२ ॥ वह नगरी अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथवा तीर्थकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करनेके लिए इन्द्रने ही सबसे पहले बनाई थी ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार विनयसे मुनिकी बुद्धि मुशोभित होती है, स्वामीसे सेना शांभायमान होती है और मणिसे मेखला मुशोभित होती है, उसी प्रकार मध्यभागमें बने हुए परकोटसे वह नगरी मुशोभित थी ॥ ३४ ॥ खाईसे घिरा हुआ इस नगरीका कोट, केवल इसकी शोभाके लिए ही था क्योंकि इसका बनानेवाला इन्द्र था और स्वामी चक्रवर्ती था फिर भला इसे भय किससे हो सकता था ? ॥ ३५ ॥ वहाँ पर प्रतिदिन घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि गृहस्थोंके सब माङ्गलिक कार्य जिन-पूजापूर्वक ही होते थे ॥ ३६ ॥ वहाँपर विना विद्या-भ्यासके बालक-अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, विना भोगोंके यौवन व्यतीत नहीं होता था, विना धर्मके बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था और विना समाधिके मरण नहीं होता था ॥ ३७ ॥ वहाँपर किसीका भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, क्रिया फलरहित नहीं थी, फल विना उपभोगके नहीं था और भोग अर्थ तथा धर्म दोनोंसे रहित नहीं था ॥ ३८ ॥ यदि वहाँके रहनेवाले लोगोंसे मन्त्री आदि प्रधान प्रकृतिका पृथक्करण होता था तो केवल स्वामित्वसे ही होता था आभूषणादि उप-

१ विग्रहः ल० । २ शुष्क्यादिष्वेव इति कश्चित् । मुंठादिष्वेव ल० । ३ मीरुकाः ल० । ४ तृतीयचतुर्थ पादौ ल० पुस्तके वृद्धितौ । ५ ह्यभासत ल० ।

सुरास्तत्र समागत्य स्वर्गायानैर्नरोत्तमैः । स्वर्गसम्भूतसौहादांश्च रमन्ते सन्ततं मुदा ॥ ४० ॥  
 सुराः केऽत्र नराः के वा सर्वे रूपादिभिः समाः । इत्यामताः खगावीशाः मांसुह्यन्ते विवेचने ॥ ४१ ॥  
 तत्र पण्यस्त्रियो वीक्ष्य बाढं सुरकुमारकाः । विस्मयन्ते न रज्यन्ते ताभिर्जातिविशेषतः ॥ ४२ ॥  
 करणानामभीष्टा<sup>१</sup> ये विषयास्तत्र ते ततः । न नाकेऽपि यतस्तत्र<sup>२</sup> नाकिपूज्यसमुद्भवः ॥ ४३ ॥  
 अकृत्रिमाणि निजेतुं विमानानि स्वकौशलात् । सुरैः कृतगृहाण्यत्र चेत्कान्या तेषु वर्णना ॥ ४४ ॥  
 बभूवास्याः पतिः पंक्तेः स्वर्गस्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोस्सूनुरिक्ष्वाकु कुलवर्धनः ॥ ४५ ॥  
 भकम्पनाद्या भूपाला नमिसुख्याश्च खेचराः । मागधाद्याश्च देवेशास्त्यक्तमानाः समुत्सुकाः ॥ ४६ ॥  
 यस्याज्ञां मालतीमालामिव स्वानम्रमौलयः । भूषाभिकेयमस्माकमिति सन्धारयन्ति ते ॥ ४७ ॥  
 सत्कर्मभावितैर्भावेः क्षायोपशमिकैश्च सः । भव्यभावविशेषाच्च श्रेष्ठकाष्ठामधिष्ठितः ॥ ४८ ॥  
 आदितीर्थकृतो ज्येष्ठपुत्रो राजसु पोडशः<sup>३</sup> । ज्यायांश्चक्री मुहूर्तेन मुक्तोऽयं कैस्तुलां ब्रजेत् ॥ ४९ ॥  
 तस्यानन्तमतिर्देवी प्रख्यातिरिव देहिनी । विमुच्य कमलावासं रेजे<sup>४</sup> श्रीरिव चागता ॥ ५० ॥  
 प्रज्ञाविक्रमयोर्लक्ष्मीविशेषो वा पुरुरवाः । मरुद्भूतस्तयोरासीन्मरीचिः सूनुरप्रणोः ॥ ५१ ॥  
 स्वपितामहसन्त्यागो स्वयञ्च गुरुभक्तिः । राजभिः सह कच्छाद्यैः परित्यक्तपरिग्रहः ॥ ५२ ॥  
 चिरं सोढ्वा तपःक्लेशं क्षुच्छीतादिपरीपहान् । दीर्घसंसारवासित्वात्पश्चात्सोढुमशक्नुवन् ॥ ५३ ॥

करणोंसे नहीं होता था ॥ ३६ ॥ वहाँके उत्तम मनुष्य स्वर्गमें आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वर्गमें हुई मित्रताके कारण बहुतसे देव स्वर्गमें आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते थे ॥ ४० ॥ इनमें देव कौन हैं ? और मनुष्य कौन हैं ? क्योंकि रूप आदिसे सभी समान हैं इस प्रकार आये हुए विद्याधरोंके राजा उनको अलग-अलग पहिचाननेमें मोहिन हो जाते थे ॥ ४१ ॥ वहाँकी वंश्याओंको देखकर देवकुमार बहुत ही आश्चर्य करते थे परन्तु जाति भिन्न होनेके कारण उनके साथ क्रीड़ा नहीं करते थे ॥ ४२ ॥ इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले जो विषय वहाँ थे वे विषय चूँकि स्वर्गमें भी नहीं थे इसलिए देवताओंके द्वारा पूज्य तीर्थकर भगवानका जन्म वहीं होता था ॥ ४३ ॥ देवोंने अपने कौशलसे जो घर वहाँ बनाये थे वे अकृत्रिम विमानोंको जीतनेके लिए ही बनाये थे, इससे बढ़कर उनका और क्या वर्णन हो सकता है ? ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार स्वर्गकी पंक्तिका स्वामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था जो कि इक्ष्वाकुवंशका बढ़ानेवाला था और भगवान् वृषभदेवका पुत्र था ॥ ४५ ॥ अकम्पन आदि राजा, नमि आदि विद्याधर और मागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर और उत्कण्ठित होकर अपना मस्तक भुकाते हुए मालतीकी मालाके समान जिसकी आज्ञाका 'यह हमारा सबसे अधिक आभूषण है' यह विचारकर धारण करते थे ॥ ४६-४७ ॥ अपने सत्कर्मकी भावनासे तथा कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले भावासे और भव्यत्व भावकी विशेषतासे वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी अन्तिम सीमाको प्राप्त था अर्थात् सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥ ४८ ॥ वह भरत भगवान् आदिनाथका ज्येष्ठ पुत्र था, सोलहवें मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुहूर्तमें ही मुक्त हो गया था ( केवल ज्ञानी हो गया था ) इसलिए वह कितने साथ सादृश्यको प्राप्त हो सकता था ? अर्थात् किसीके साथ नहीं, वह सर्वथा अनुपम था ॥ ४९ ॥ उसकी अनन्तमति नामकी वह देवी थी जो कि ऐसी सुशोभित होती थी मानो शरीरधारिणी कीर्ति हो अथवा कमल रूपी निवासस्थानका छोड़कर आई हुई माना लक्ष्मी ही हो ॥ ५० ॥ जिसप्रकार बुद्धि और पराक्रमसे विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन दोनोंके पुरुरवा भीलका जीव देव, मरीचि नामका ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ५१ ॥ अपने बाबा भगवान् वृषभदेवकी दीक्षाके समय स्वयं ही गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर मरीचिने कच्छ आदि राजाओंके साथ सब परिग्रहका त्यागकर दीक्षा धारण कर ली थी । उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणका क्लेश सहा और लुधा शीत

स्वयं गृहीतुमारब्धः फलं प्रावरणादिकम् । दृष्ट्वा तं देवता नार्यं क्रमो नैर्ग्रन्थधारिणाम् ॥ ५४ ॥  
 गृहाण वेपमन्थं त्वं यथेष्टमिति चाब्रुवन् । श्रुत्वा तद्वचनं सोऽपि गाढमिथ्यात्वचोदितः ॥ ५५ ॥  
 परित्राजकदीक्षायाः प्राथम्यं प्रत्यपद्यत । दीर्घाजवक्षत्रवानां तत्कर्म दुर्मागंदेशनम् ॥ ५६ ॥  
 तच्छास्त्रानुष्ठुताप्यस्य स्वयमेव किलाजनि । सतामिवासतां च स्याद्बोधः स्वविषये स्वयम् ॥ ५७ ॥  
 श्रुत्वापि तीर्थं कृद्वाचं सख्यं नामहीदसौ । पुरुषं ध्यात्मानैवात्र सर्वसङ्गविमोचनात् ॥ ५८ ॥  
 भुवनत्रयसंश्लोभं कारिसामर्थ्यमासवान् । मनुपुत्रं तथा लोके व्यवस्थाप्य मतान्तरम् ॥ ५९ ॥  
 अहञ्च तन्निमित्तोत्प्रभावात्प्रदिवप्रभोः । प्रतीक्षां प्राप्तुमिच्छामि तन्मेऽवश्यं भविष्यति ॥ ६० ॥  
 इति मानोदयात्पापी न व्यरंसीच्च दुर्मतात् । तमेव वेपमादाय तस्थिवान् दोषदूषितः ॥ ६१ ॥  
 त्रिदण्डधारकोऽप्येष सहण्डपरिवर्जितः । प्राप्ता कुराजवदण्डान् बहून्प्रनमभादिषु ॥ ६२ ॥  
 सम्यग्ज्ञानविहीनत्वात्सकमण्डलुरप्यसौ । अशौचवृत्तिरेवासीज्जलेः किं शुद्धिरात्मनः ॥ ६३ ॥  
 प्रातः शीतजलस्नानात्कन्दमूलफलाशनान् । परिग्रहपरित्यागात्कुर्वन्प्रस्थ्यातिमात्मनः ॥ ६४ ॥  
 महेन्द्रजालकानीतचन्द्राकारंभोधिससिन्धुम् । तत्त्वाभासमिदं तत्त्वमिति सन्देष्टमात्मना ॥ ६५ ॥  
 कपिलादिस्वशिष्याणां यथार्थं प्रतिपादयन् । सृनुर्भरतराजस्य धरित्र्यां चिरमभसन् ॥ ६६ ॥  
 स जीवितान्ते सम्भूय ब्रह्मकल्पेऽमृताशनः । दशाब्ध्युपमदेवायुरनुभूय सुखं ततः ॥ ६७ ॥

आदि परीपह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीर्घताके कारण पीछे चलकर वह उन्हें सहन करनेके लिए असमर्थ हो गया इसलिए स्वयं ही फल तथा वस्त्रादि ग्रहण करनेके लिए उद्यत हुआ । यह देख यन-देवताओंने कहा कि निर्ग्रन्थ वेप धारण करनेवाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है । यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार दूसरा वेप ग्रहण कर लो । यन-देवताओंके उक्त वचन सुनकर प्रबल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए मरीचिने भी सबसे पहले परित्राजककी दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि जिनका संसार दीर्घ होता है उनके लिए वह मिथ्यात्व कर्म मिथ्यामार्ग ही दिखलाता है ॥ ५२-५६ ॥ उस समय उसे परित्राजकोंके शास्त्रका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके समान दुर्जनोंको भी अपने विषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ॥ ५७ ॥ उसने तीर्थकर भगवान्की दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म ग्रहण नहीं किया था । वह सोचता रहता था कि जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवने अपने आप समस्त परिग्रहोंका त्याग कर तीनों लोकोंमें श्लोभ उत्पन्न करनेवाली सामर्थ्य प्राप्त की है उसी प्रकार मैं भी संसारमें अपने द्वारा चलाये हुए दूसरे मतकी व्यवस्था करूँगा और उसके निमित्तसे होनेवाले बड़े भारी प्रभावके कारण इन्द्रकी प्रतीक्षा प्राप्त करूँगा—इन्द्र द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे यह सब अवश्य होगा ॥ ५८-६० ॥ इस प्रकार मानकर्मके उदयसे वह पापी खोटे मतसे विरत नहीं हुआ और अनेक दोषोंसे दूषित होनेपर भी वही वेप धारण कर रहने लगा ॥ ६१ ॥ यद्यपि वह तीन दण्ड रखता था परंतु समीचीन दण्डसे रहित था अर्थात् इन्द्रिय दमन रूपी समीचीन दण्ड उसके पास नहीं था । जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डोंका, सजाओंका पाता है उसी प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें अनेक प्रकारके दण्डोंको पानेवाला था ॥ ६२ ॥ वह सम्यग्ज्ञानसे रहित था अतः कण्डलु सहित होनेपर भी शौच जानेके बाद शुद्धि नहीं करता था और कहता था कि क्या जलसे आत्माकी शुद्धि होती है ॥ ६३ ॥ वह यद्यपि प्रातःकाल शीतल जलसे स्नान करता था और कन्दमूल तथा फलोंका भोजन करता था फिर भी परिग्रहका त्याग बतलाकर अपनी प्रसिद्धि करता था, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता था कि मैं परिग्रहका त्यागी हूँ ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार इन्द्रजालियाके द्वारा लाये हुए सूर्य चन्द्रमा तथा समुद्र अवास्तविक होते हैं—आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तत्त्व अवास्तविक थे—तत्त्वाभास थे ॥ ६५ ॥ इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्योंके लिए अपने कल्पित तत्त्वका उपदेश देता हुआ सम्राट् भरतका पुत्र मरीचि चिरकाल तक इस पृथिवीपर भ्रमण करता रहा ॥ ६६ ॥ आयुके अन्तमें मरकर वह ब्रह्म स्वर्गमें दश सागरकी

प्रभ्युत्थागत्य साकेते कपिलब्राह्मणप्रभोः । कात्याञ्च तनयो जज्ञे जटिलो नाम वेदवित् ॥ ६८ ॥  
 परिव्राजकमार्गस्थस्तन्मार्गं सम्प्रकाशयन् । पूर्ववत्सुचिरं मृत्वा सौधर्मेऽभूत्सुरः पुनः ॥ ६९ ॥  
 द्विसमुद्रोपमं कालं तत्र भुक्त्वोचितं सुखम् । प्रान्ते ततः समागत्य भरतेऽस्मिन्पुरोत्तमे ॥ ७० ॥  
 स्थूणागाराभिधानेऽभूद्भारद्वाजद्विजस्य सः । तनूजः दुष्पदशायां पुष्यमित्राङ्ग्यः पुनः ॥ ७१ ॥  
 स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं प्रकृत्यादिप्ररूपितम् । पञ्चविंशतिदुस्तत्त्वं मूढानां मतिमानयत् ॥ ७२ ॥  
 निष्कपायतया बद्ध्वा देवायुरभवत्सुरः । सौधर्मकल्पे तत्सौख्यमेकवाभ्युपमायुषा ॥ ७३ ॥  
 भुक्त्वा ततः समागत्य भरते <sup>१</sup>सूतिकाङ्ग्ये । पुरेऽग्निभूतेगौतम्यामभूदग्निसहः सुतः ॥ ७४ ॥  
 परिव्राजकदीक्षायां नीत्वा कालं सपूर्ववत् । सनत्कुमारकल्पेऽल्पं देवभूयं प्रपन्नवान् ॥ ७५ ॥  
 सप्ताभ्युपमितायुष्को भुक्त्वा तन्नामरं सुखम् । आयुषोऽन्ते ततश्च्युत्वा विषयेऽस्मिन् पुरेऽभवत् ॥ ७६ ॥  
 मन्दिराख्येऽग्निमित्राख्यो गौतमस्य तनूजवः । <sup>२</sup>कौशिक्यां दुःश्रुतेः पारं गत्वागत्य पुरातनीम् ॥ ७७ ॥  
 दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य ततश्च्युत्वा पुरातने । मन्दिराख्यपुरे शालङ्कायनस्य सुतोऽभवत् ॥ ७८ ॥  
 मन्दिरायां जगत्ख्यातो भारद्वाजसमाङ्ग्यः । त्रिदण्डमण्डितां दीक्षामक्षूणां च समाचरन् ॥ ७९ ॥  
 सप्ताभ्युपमितायुः सन् कल्पे माहेन्द्रनामनि । भूत्वा ततोऽवनीयात्र दुर्गार्गप्रकटीकृतेः ॥ ८० ॥  
 फलेनाधोगतीः सर्वाः प्रविश्य गुरुदुःखभाक् । त्रसस्थावरवर्गेषु सङ्घातीतसमाश्रितम् ॥ ८१ ॥  
 परिभ्रम्य परिश्रान्तस्तदन्ते मगधाङ्ग्ये । देशे राजगृहे जातः सुतोऽस्मिन्वेदवेदिनः ॥ ८२ ॥  
 शाण्डिलाख्यस्य <sup>३</sup>मुख्यस्य पारशर्यां स्वसञ्ज्ञया । स्थावरो वेदवेदाङ्गपारगः पापभाजनम् ॥ ८३ ॥  
 मतिः श्रुतं तपः शान्तिः समाधिस्तत्त्ववीक्षणम् । सर्वं सम्यक्त्वशून्यस्व मरीचेरिव निष्फलम् ॥ ८४ ॥

आयुवाला देव हुआ । वहाँसे च्युत हुआ और अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणकी काली नामकी स्त्रीसे वेदोंका जाननेवाला जटिल नामका पुत्र हुआ ॥ ६७-६८ ॥ परिव्राजकके मतमें स्थित होकर उमने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मार्गका उपदेश दिया और मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । दो सागर तक वहाँके मुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरत क्षेत्रके स्थूणागर नामक श्रेष्ठ नगरमें भारद्वाज नामक ब्राह्मणकी पुष्पदत्ता स्त्रीसे पुष्यमित्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ६९-७१ ॥ उसने वड़ी पहला पारिव्राजकका वेप धारणकर प्रकृति आदिके द्वारा निरूपित पचीस मिथ्यातत्त्व मूर्ख मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थात् मूर्ख मनुष्योंकी पचीस तत्त्वोंका उपदेश दिया । यह सब होनेपर भी उसकी कपाय मन्द थी अतः देवायुका बन्धकर सौधर्म स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥ ७२-७३ ॥ वहाँके सुख भोगकर वहाँसे आया और इसी भरत क्षेत्रके सूतिका नामक गाँवमें अग्निभूति नामक ब्राह्मणकी गौतमी नामकी स्त्रीसे अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७४ ॥ वहाँ भी उसने परिव्राजककी दीक्षा लेकर पहलेके समान ही अपनी आयु बिताई और आयुके अन्तमें मरकर देवपदको प्राप्त हुआ । वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी । देवोंक मुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके मंदिर नामक गाँवमें गौतम ब्राह्मणकी कौशिकी नामकी ब्राह्मणीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ । वहाँपर भी उसने वड़ी पुरानी परिव्राजककी दीक्षा धारणकर मिथ्याशास्त्रोंका पूर्णज्ञान प्राप्त किया । अबकी बार वह माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर उम्मी मंदिर नामक नगरमें शालङ्कायन ब्राह्मणकी मंदिरा नामकी स्त्रीसे भारद्वाज नामका जगत्प्रसिद्ध पुत्र हुआ और वहाँ उसने त्रिदण्डसे सुशोभित अश्वपट दीक्षाका आचरण किया । तदनन्तर वह माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी आयु वाला देव हुआ । फिर वहाँसे च्युत होकर कुमार्गके प्रकट करनेके फलस्वरूप समस्त अधोगतियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे । इस प्रकार त्रस स्थावर योनियोंमें अस्संख्यात वर्ष तक परिभ्रमण करता हुआ बहुत ही श्रान्त हो गया—खेद खिन्न हो गया । तदनन्तर आयुका अन्त होनेपर मगधदेशके इसी राजगृह नगरमें वेदोंके जानने वाले शाण्डिल्य नामक ब्राह्मणकी पारशरी नामकी स्त्रीसे स्थावर नामका पुत्र हुआ । वह वेद वेदाङ्गका पारगामी था, साथ ही अनेक पापोंका पात्र भी था ॥ ७५-८३ ॥ वह सम्यग्दर्शनसे शून्य

१ श्वेतिकाङ्ग्ये इत्यपि क्वचित् । २ कौशाङ्ग्यां ल० । ३ विप्रस्य घ० । मूल्ये भवो मुखो विप्रस्तस्य ।

परिव्राजकदीक्षायामासक्तिं पुनरादधत् । सप्तान्ध्युपमितायुष्को माहेन्द्रे समभून्मरुत् ॥ ८५ ॥  
 ततोऽवतीर्य देशेऽस्मिन् मगधाख्ये पुरोत्तमे । जातो राजगृहे विश्वभूतिनाममहीपतेः ॥ ८६ ॥  
 जैन्याद्य तनयो विश्वनन्दी विख्यातपौरुषः । विश्वभूतिमहीभर्तुरनुजातो महोदयः ॥ ८७ ॥  
 विशाखभूतिरेतस्य लक्ष्मणायामभूद्विधाः<sup>१</sup> । पुत्रो विशाखनन्दाख्यस्ते सर्वे सुखमास्थिताः ॥ ८८ ॥  
 अन्येषुः शरदधस्य विभंशं वीक्ष्य शुभधीः । निविण्णो विश्वभूत्याख्यः स्वराज्यमनुजन्मनि ॥ ८९ ॥  
 विधाय यौवराज्यञ्च स्वसूनौ महद्प्रणीः । सार्विकैस्त्रिंशतैः सार्द्धं राजभिर्जातरूपताम् ॥ ९० ॥  
 श्रीधराख्यगुरोः पार्श्वे समादाय समत्वभाक् । बाह्यमाभ्यन्तरञ्चोपमकरोत्स तपश्चिरम् ॥ ९१ ॥  
 अधान्यदा कुमारोऽसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोद्याने समं स्वाभिर्देवीभिः क्रीडया स्थितः ॥ ९२ ॥  
 विशाखनन्दस्तं दृष्ट्वा तदुद्यानं मनोहरम् । स्वीकर्तुं मतिमादाय गत्वा स्वपितृसन्निधिम् ॥ ९३ ॥  
 मद्यं मनोहरोद्यानं दीयतां भवतान्यथा । कुर्यां देशपरित्यागमहमित्यभ्यधादसौ ॥ ९४ ॥  
 सत्सु सत्स्वपि भोगेषु विरुद्धविषयप्रियः । भवेद्भाविवे भूयो भविष्यद्दुःखभारधृत् ॥ ९५ ॥  
 श्रुत्वा तद्वचनं चित्ते निधाय खेहनभरं ।<sup>२</sup> कियत्ते ददामीति सन्तोष्य तनुजं निजम् ॥ ९६ ॥  
 विश्वनन्दिनामहाह्वय राज्यभारस्त्वयाधुना । गृह्यतामहमाक्रम्य प्रत्यन्तप्रतिभूतः ॥ ९७ ॥  
 कृत्वा तज्जनितक्षोभप्रशान्तिं गणितैर्दिनैः । प्रत्येष्यामीति सोऽवांचच्छ्रुत्वा तत्प्रत्युवाच तम् ॥ ९८ ॥  
 पूज्यपादं न्वयाग्रैव निश्चिन्तमुपविश्यताम् । गत्वाहमेव तं ग्रैषं करोमीति सुतोषमः ॥ ९९ ॥

था अतः उसका मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि और तत्त्वावलोकन—सभी कुछ मरीचिके समान निष्फल था ॥ ८४ ॥ उसने फिर भी परिव्राजक मतकी दीक्षा में आसक्ति धारण की और मरकर माहेन्द्र स्वर्ग में सात सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥ ८५ ॥ वहाँसे च्युत होकर वह इसी मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राजाकी जैनी नामकी स्त्रीसे प्रसिद्ध पराक्रमका धारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ । इसी राजा विश्वभूतिका विशाखभूति नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था । उसकी लक्ष्मणा नामकी स्त्रीसे विशाखनन्द नामका मूल्य पुत्र उत्पन्न हुआ था । ये सब लोग मुखसे निवास करते थे ॥ ८६-८८ ॥

किसी दूसरे दिन कुछ बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विश्वभूति, शरद्व्रतके भेद्यका नाश देखकर विरक्त हो गया । महापुरुषोंमें आगे रहनेवाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे भाईके लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया । तदनन्तर उसने सार्विक वृत्तिको धारण करनेवाले तीन सौ राजाओंके साथ श्रीधर नामक गुरुके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली और समजा भावसे युक्त हो चिरकाल तक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके कठिन तप किये ॥ ८९-९१ ॥

तदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दी कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनी स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा कर रहा था । उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानको अपने आधीन करनेकी इच्छासे पिताके पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया जाय अन्यथा मैं देश परित्याग कर दूंगा—आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा । आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम भोगोंके रहते हुए भी विरुद्ध विषयोंमें प्रेम करता है वह आगामीभवमें होनेवाले दुःखोंका भार ही धारण करता है ॥ ९२-९५ ॥ पुत्रके वचन सुनकर तथा हृदयमें धारणकर स्नेहसे भरे हुए पिताने कहा कि 'वह वन किननी-सी वस्तु है, मैं तुम्हे अभी देता हूँ' इस प्रकार अपने पुत्रको सन्तुष्टकर उसने विश्वनन्दीको बुलाया और कहा कि 'इस समय यह राज्यका भार तुम ग्रहण करो, मैं समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर आक्रमणकर उनके द्वारा किये हुए क्षोभको शान्तकर कुछ ही दिनोंमें वापिस आ जाऊंगा । राजाके वचन सुनकर श्रेष्ठपुत्र विश्वनन्दीने उत्तर दिया कि 'हे पूज्यपाद ! आप यहीं निश्चिन्त होकर रहिये, मैं ही जाकर उन राजाओंको दास

१ विगता धीर्यस्य सः । २ कियत् ते प्रददामीति ल० ।

राज्यमत्स्यैव मे खेहाद् भ्रात्राऽदायीत्यतर्कयन् । वनार्थमतिसन्धिस्तुरभूतं धिगदुरानयम् ॥ १०० ॥  
 ततः स्वानुमते तस्मिन् स्वबलेन समं रिपून् । निर्जेतुं विहितोद्योगं गते विक्रमशालिनि ॥ १०१ ॥  
 वनं विशाखनन्दाय खेहादन्यायकांक्षिणे । विशाखभूतिरुल्लङ्घ्य क्रमं गतमतिर्ददौ ॥ १०२ ॥  
 विश्वनन्दी तदाकर्ण्य सद्यः क्रोधाग्निदीपितः । पश्य मामतिसन्धाय प्रत्यन्तनृपतीन्प्रति ॥ १०३ ॥  
 ग्रहित्य मद्रुनं दत्तं पितृव्येनात्मसूनुवे । देहीति वचनाच्चाहं किं ददामि कियद्गनम् ॥ १०४ ॥  
 विदधात्यस्य दुःश्रेष्टा मम सौजन्यभक्षणम् । इति मत्वा निवृत्त्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम् ॥ १०५ ॥  
 प्रारब्धवान् भयाद्गत्वा स कपिल्यमहीरुहम् । कृत्वावृत्तिं स्थितः स्फीतं कुमारोऽपि महीरुहम् ॥ १०६ ॥  
 समुन्मूल्य निहन्तुं सं तेनाधावसतोऽप्यसौ । अपस्त्य शिलास्तम्भस्यान्तर्धानं ययौ पुनः ॥ १०७ ॥  
 बली तलप्रहारेण स्तम्भश्चाहत्य स द्रुतम् । पलायमानमालोक्य तस्मादप्यपकारिणम् ॥ १०८ ॥  
 मा भैवीरिति सौहार्दकारुण्यभ्यां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै दत्त्वा संसारदुःस्थितिम् ॥ १०९ ॥  
 भावयित्वा ययौ दीक्षां सम्भूतगुरुसन्धिधौ । अपकारोऽपि नीचानामुपकारः सतां भवेत् ॥ ११० ॥  
 तदा विशाखभूतिश्च सञ्जातानुशयो मया । कृतं पापमिति प्रायश्चित्तं वा प्राप संयमम् ॥ १११ ॥  
 कुर्वन् घोरं तपो विश्वनन्दी देशान्परिभमन् । कृशीभूतः क्रमात्प्राप्य मथुरां स्वतनुस्थितेः ॥ ११२ ॥  
 प्रविष्टवान् विनष्टामवलश्चलपदस्थितिः । तदा <sup>१</sup>व्यसनसंसर्गाद् भ्रष्टराज्यो महीपतेः ॥ ११३ ॥  
 कस्यचिद्भूतभावेन <sup>२</sup>मथुरां पुरमागतः । विशाखनन्दो वेदयायाः प्रासादतलमाश्रितः ॥ ११४ ॥

वनायें लाता हूँ ॥ ६६-६६ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, भाईने स्नेह वश ही मुझे दिया है। केवल वनके लिए ही वह उस श्रेष्ठ पुत्रको ठगनेके लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट अभिप्रायको धिक्कार है ॥ १०० ॥

तदनन्तर पराक्रमसे सुशोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शत्रुओंको जीतनेके लिए अपनी सेनाके साथ उद्यम करता हुआ चला गया तब बुद्धिहीन विशाखभूतिने क्रमका उल्लंघनकर वह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्दके लिए दे दिया ॥ १०१-१०२ ॥ विश्वनन्दीको इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया। वह क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो कहने लगा कि देखो काकाने मुझे तो धोखा देकर शत्रु राजाओंके प्रति भेज दिया और मेरा वन अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्या 'देओ' इतना कहनेसे ही मैं नहीं दे देता? वन है कितनी-सी चीज? इसकी दुःश्रेष्ठा मेरी सज्जनताका भङ्ग कर रही है। ऐसा विचारकर वह लौट पड़ा और अपना वन हरण करनेवालेको मारनेके लिए उद्यत हो गया। इसके भयसे विशाखनन्द बाड़ी लगाकर किसी ऊँचे कँथाके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीने वह कँथाका वृक्ष जड़से उखाड़ डाला और उसीसे मारनेके लिए वह उद्यत हुआ। यह देख विशाखनन्द वहाँसे भागा और एक पत्थरके खम्भोके पीछे छिप गया परन्तु बलवान् विश्वनन्दीने अपनी हथेलियोंके प्रहारसे उस पत्थरके खम्भोको शीघ्र ही तोड़ डाला। विशाखनन्द वहाँसे भी भागा। यद्यपि वह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्तु उसे इस तरह भागता हुआ देखकर कुमारको सौहार्द और करुणा दोनोंने प्रेरणा दी जिससे प्रेरित होकर कुमारने उससे कहा कि डरो मत। यही नहीं, उसे बुलाकर वह वन भी दे दिया तथा स्वयं संसारकी दुःखमय स्थितिका विचारकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि नीचजनोंके द्वारा किया हुआ अपकार भी सज्जनोंका उपकार करनेवाला ही होता है ॥ १०३-११० ॥ उस समय विशाखभूतिको भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 'यह मैंने बड़ा पाप किया है' ऐसा विचारकर उसने प्रायश्चित्त स्वरूप संयम धारण कर लिया ॥ १११ ॥

इधर विश्वनन्दी सब देशोंमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा। उसका शरीर अत्यन्त फूरा होगया। अनुक्रमसे वह मथुरा नगरीमें पहुँचा और आहार लेनेके लिए भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी निजकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगमग पड़ रहे थे। व्यसनोंके



भवप्रसूतस्क्रुद्धगोषेनुप्रतिपातनात् । प्रस्खलन्तं समाक्षयैर्न मुनिं कांपपरायणः ॥ ११५ ॥  
 तथाद्य तच्छिलास्तम्भभङ्गदृष्टः पराक्रमः । क्व यात इति दुःखितः परिहासं व्यधादसौ ॥ ११६ ॥  
 मुनिश्च तद्वचश्चेतस्यवधार्यं प्रकोपवान् । परिहासफलं प्राप्स्यसीति स्वान्तर्गतं वदन् ॥ ११७ ॥  
 सनिदानोऽभवत्प्रान्ते कृतसन्न्यासनक्रियः । स्वयं विशाखभूतिश्च महाशुकमुपाश्रितौ ॥ ११८ ॥  
 तत्र षोडशवाराशिमानमेयायुषौ चिरम् । भोगान्भुक्त्वा ततश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन्नेव भारते ॥ ११९ ॥  
 सुरम्यविषये रम्ये पोदनाख्यपुरे नृपः । प्रजापतिमहाराजोऽजनि देवी जयावती ॥ १२० ॥  
 तस्यासीदनयोः सुनुः पितृष्यो विश्वनन्दिनः । विजयाख्यस्ततोऽस्यैव विश्वनन्दप्यनन्तरम् ॥ १२१ ॥  
 मृगाधत्यामभूपुत्रश्चिपृष्ठो भाविचक्रभृत् । त्रिखण्डाधिपतित्वस्य सपूर्वगणनां गतः ॥ १२२ ॥  
 उद्गमेनैव निर्धूतरिपुचक्रोऽयमकमान् । अर्कस्येव प्रतापोऽस्य व्याप्य विश्वमनुस्थितः ॥ १२३ ॥  
 अनन्यगोचरा लक्ष्मीरसङ्ख्येयसमाः स्वयम् । इममेव प्रतीक्ष्यास्त गाढौत्सुक्यार्थचक्रिणम् ॥ १२४ ॥  
 लक्ष्मीलाञ्छनमेवास्य चक्रं विक्रमसाधितम् । मागधाघामरारक्ष्यं ससमुद्रं महीतलम् ॥ १२५ ॥  
 सिंहशौषोऽयमित्येषोऽशेषुपीकेऽभिष्टुतः । किं सिंह इव 'निर्धीको नमितामरमस्तकः ॥ १२६ ॥  
 जित्वा ज्योत्स्नां मितक्षेत्रीं वृद्धिहानिमतीं चिरम् । कीर्तिरस्याखिलं व्याप्य ज्ञातिर्वा वैधसः स्थिता ॥ १२७ ॥  
 उदकक्षेत्र्यां खगाधीशो मयूरधीवनामभाक् । नीलाञ्जना प्रिया तस्याभूतायोरलकापुरे ॥ १२८ ॥  
 विशाखनन्दः संसारे चिरं भ्रान्त्वातिदुःखितः । अश्वप्रीवाभिधः सुनुरजनिप्यापचारवान् ॥ १२९ ॥

संसर्गसे जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा विशाखनन्द भी उस समय किसी राजाका दूत बनकर उसी मथुरा नगरीमें आया हुआ था। वहाँ एक वैश्याके मकानकी छत पर बैठा था। दैव योगसे वहीं हालकी प्रसूता एक गायने क्रुद्ध होकर विश्वनन्दी मुनिको धक्का देकर गिरा दिया उन्हें गिरता देख, क्रोध करना हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि 'तुम्हारा जो पराक्रम पत्थरका खम्भा तोड़ते समय देखा गया था वह आज कहाँ गया?' इस प्रकार उसने खोटे परिणामोंसे उन मुनिकी हँसी की ॥ ११२-११६ ॥ मुनि भी उसके वचन चित्तमें धारणकर कुछ कुपित हुए और मन ही मन कहने लगे कि इस हँसीका फल तू अवश्य ही पावेगा ॥ १७ ॥ अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक स्वर्गमें देव हुए और विशाखभूतिका जीव भी वहीं देव हुआ ॥ ११७-११८ ॥ वहाँ उन दोनोंकी आयु सालह सागर प्रमाण थी। चिर काल तक वहाँके सुख भोग कर दोनों ही वहाँसे च्युत हुए। उनमेंसे विश्वनन्दीके काका विशाखभूतिका जीव सुरम्य देशके पोदनपुर नगरमें प्रजापति महाराजकी जयावती रानीसे विजय नामका पुत्र हुआ और उसके बाद ही विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी मृगावतीके त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ। यह होनहार अर्ध चक्रवर्ती था ॥ ११९-१२२ ॥ उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला इसका प्रताप, सूर्यके प्रतापके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर भर गया था ॥ १२३ ॥ अर्ध चक्रवर्तियोंमें गाढ़ उत्सुकता रखनेवाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सके ऐसी लक्ष्मी असंख्यात वर्षसे स्वयं इस त्रिपृष्ठकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥ १२४ ॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत्न क्या था मानो लक्ष्मीका चिह्न ही था और मगधादि जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त महीतल उसके आधीन था ॥ १२५ ॥ यह त्रिपृष्ठ 'सिंहके समान शूर वीर है' इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी समझसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देवोंके भी मस्तकको नश्रीभूत करनेवाला वह त्रिपृष्ठ क्या सिंहके समान निर्बुद्धि भी था? ॥ १२६ ॥ उसकी कान्तिने परिमित क्षेत्रमें रहनेवाली और हानि वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चाँदनी भी जीत ली थी तथा वह ब्रह्माकी जातिके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर चिरकालके लिए स्थित हो गई थी ॥ १२७ ॥

इधर विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीके अलकापुर नगरमें मयूरधीव नामका विद्याधरोंका राजा रहता था। उसकी रानीका नाम नीलाञ्जना था। विशाखनन्दका जीव, चिरकाल तक संसारमें

ते सर्वेऽपि पुरोपारापुण्यपाकविशेषतः<sup>१</sup> । अभीष्टकामभोगोपभोगैस्तृप्ताः स्थिताः सुखम् ॥ १३० ॥  
 इतः खेचरमूर्धुर्दक्षिणश्रेण्यलंकृतिः । रथनूपुरशब्दादिचक्रवालपुरी परा ॥ १३१ ॥  
 ज्वलनजिह्वी पाति तां स वा पाकशासनः । कुलसाधितसम्प्राप्तविद्यात्रयविभूषितः ॥ १३२ ॥  
 प्रतापोपनताशेषावाक्श्रेणीखचरेशिनाम् ।<sup>२</sup> विनमन्मौलिमालाभिरलंकृतपदाम्बुजः ॥ १३३ ॥  
 वायुवेगा प्रिया तस्य चन्द्राभखचरेशिनः । सुभद्रायाश्च तनया पुरे द्युतिलकाङ्गये ॥ १३४ ॥  
 अर्ककीर्तिस्तयोः सूनुः प्रतापेनार्कजिस्सुधीः । सुता स्वयंप्रभाख्याभूत्प्रभयेव महामणिः ॥ १३५ ॥  
 स्त्रीलक्षणानि सर्वाणि शस्यान्यापादमस्तकम् । उदाहरणतामापन्त्याप्य व्यक्तानि तत्रानुम् ॥ १३६ ॥  
 संप्राप्य यौवनं तन्वी भूषणानाम् भूषणम् । योषित्सर्गे कृतार्थत्वं स्वयासावनयद्विधिम् ॥ १३७ ॥  
 तां वीक्ष्यापूर्णसौन्दर्यां समीपीकृतचिराजाम् । पिता वितरितुं कस्य योग्येयमिति चिन्तयन् ॥ १३८ ॥  
 तदैवाह्वय सम्भिन्नश्रोतारं तत्प्रयोजनम् । अपृच्छत्स निमित्तेषु कुशलः समभाषत ॥ १३९ ॥  
 केशवस्यादिमस्येयं महादेवी भविष्यति । त्वमप्याप्त्यसि तद्दत्तां खगानां चक्रवर्तिताम् ॥ १४० ॥  
 इति तद्वचनं चित्ते प्रत्येयमवधार्य सः । अमात्यमिन्द्रनामानं<sup>३</sup> भाक्तिकं<sup>४</sup> सुश्रुतं ह्युचिम् ॥ १४१ ॥  
 सलेखं प्राभृतं दत्त्वा प्राहिणोत्पोदनं प्रति । गत्वाऽविलम्बितं सोऽपि वने<sup>५</sup> पुष्पकरण्डके ॥ १४२ ॥  
 पोदनाधिपतिं संप्रणाममालोक्य पत्रकम् । संप्राभृतं प्रदायान्मै यथास्थानमुपाविशत् ॥ १४३ ॥  
 विलोक्य सुद्रामुद्भिद्य तदन्तःस्थितपत्रकम् । प्रसार्य वाचयामास नियुक्तः सन्धिविग्रहे ॥ १४४ ॥

भ्रमणकर तथा अत्यन्त दुखी होकर अनेक दुराचार करनेवाला उन दोनोंके अश्वप्रीव नामका पुत्र हुआ ॥ १२८-१२९ ॥ वे सब, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके विशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए इच्छित काम भोग तथा उपभोगोंसे संतुष्ट होकर सुखसे रहते थे ॥ १३० ॥ इधर विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीकी अलंकृत करनेवाला 'रथनूपुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था ॥ १३१ ॥ इन्द्रके समान ज्वलनजटी नामका विद्याधर उसका पालन करता था। वह ज्वलनजटी, कुल परम्परामें आई हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन तीन विद्याओंसे विभूषित था ॥ १३२ ॥ उसने अपने प्रतापसे दक्षिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंको वश कर लिया था इसलिए उनके नर्त्रीभूत मुकुटोंकी मालाओंसे उसके चरणकमल सदा मुशोभित रहते थे ॥ १३३ ॥ उसकी रानीका नाम वायुवेगा था जो कि द्युतिलक नगरके राजा विद्याधर और सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥ १३४ ॥ उन दोनोंके अपने प्रतापसे सूर्यका जीतनेवाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ था और स्वयंप्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे महामणिके समान मुशोभित थी ॥ १३५ ॥ उस स्वयंप्रभाके शरीरमें शिरसे लेकर पैर तक स्त्रियोंके समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके शरीरमें व्याप्त होकर उदाहरणताको प्राप्त हो रहे थे ॥ १३६ ॥ आभूषणोंको भी मुशोभित करनेवाले यौवनको पाकर उस स्वयंप्रभाने अपने आपके द्वारा, विधाताको स्त्रियोंकी रचना करनेके कार्यमें कृतकृत्य बना दिया था ॥ १३७ ॥ उसे पूर्ण सुन्दरी तथा कामको निकट बुलानेवाली देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह किसे देनी चाहिये? किसके देनेके योग्य है? ॥ १३८ ॥ उसी समय उसने संभिन्नश्रोता नामक पुरोहितको बुलाकर उससे वह प्रयोजन पूछा। वह पुरोहित निमित्तशास्त्रमें बहुत ही कुशल था इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंप्रभा पहले नारायणकी महादेवी होंगी और आप भी उसके द्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रवर्ती पदको प्राप्त होंगे ॥ १३९-१४० ॥ उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य वचन चित्तमें धारणकर उसने पवित्र हृदयवाले, शास्त्रोंके जानकार और राजभक्त इन्द्र नामक मन्त्रीको लेख तथा भेंट देकर पोदनपुरकी ओर भेजा। वह शीघ्रतासे जाकर पोदनपुर जा पहुँचा। उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक वनमें विराजमान थे। मन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की और वह यथास्थान बैठ गया ॥ १४१-१४३ ॥ राजा प्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला और भीतर

१ पुण्यपाकविशेषितम् क० । २ विनम-म०, ल० । ३-मिन्द्रनामानं इत्यपि क्वचित् । ४ भक्तिकं ल० । ५ पुष्पकरण्डके ल० ।

श्रीमानितः खगाधीशो जिनलोकशिखामणिः । स्वानुरक्तप्रजा राजा नगराद्रथनूपुरान् ॥ १४५ ॥  
ज्वलनादिजटी <sup>१</sup>ख्यातो नमिबंधाशम्बरान्शुमान् । पोदनाख्यपुराधीशं प्रजापतिमहानूपम् ॥ १४६ ॥  
आदिभट्टारकोत्पन्नबाहुवल्यन्वयोद्भवम् । प्रणम्य शिरसा स्नेहाकुशलप्रश्नपूर्वकम् ॥ १४७ ॥  
सप्रश्रयं प्रजानाथमित्थं विज्ञापयत्यसौ । वैवाहिकः स सम्बन्धो विधेयां नाधुना मया ॥ १४८ ॥  
त्वया वास्त्यावयोरत्र पारम्पर्यसमागतः । न कार्यं वंशयोरद्य गुणदोषपरीक्षणम् ॥ १४९ ॥  
विशुद्धयोः प्रसिद्धत्वात्प्राक्चन्द्रादित्ययोरिव । पूज्य मद्भागिनेयस्य त्रिपृष्ठस्य स्वयंप्रभा ॥ १५० ॥  
मत्सुता भामिनीवास्थ्य लक्ष्मीः खण्डन्नयोद्भृता । आतनंतु रतिं स्वस्यां स्वमताद्भूयसीमिति ॥ १५१ ॥  
प्रजापतिमहाराजः श्रुत्वा तदन्धुभापितम् । मया तेनेष्टमेवेष्टमित्यमात्यमतोपयत् ॥ १५२ ॥  
सोऽपि सम्प्राप्तसम्मानदानस्तेन विसजितः । सद्यः सम्प्राप्य तत्सर्वं स्वमहेशं न्यवेदयत् ॥ १५३ ॥  
ज्वलनादिजटी चाशु सार्ककीर्तिः स्वयंप्रभाम् । आनीय सर्वसम्पत्त्या त्रिपृष्ठाय समर्पयत् ॥ १५४ ॥  
यथोक्तविधिना सिंहवाहिनीं गरुडादिकाम् । वाहिनीञ्च ददौ सिद्धविद्ये विदितशक्तिके ॥ १५५ ॥  
<sup>२</sup>चरोपनीततद्वाताज्वलनज्वलिताशयः । विद्यात्रितयसम्पन्नैविद्याधरधराधिपैः ॥ १५६ ॥  
अध्वन्यैरभ्यमित्रीणैरायुधीर्यैर्भटैर्द्वृतः । रथावर्ताचलं प्रापदश्रम्रीवो युयुत्सया ॥ १५७ ॥  
तदागमनमाकर्ण्य चतुरङ्गबलान्वितः । प्रागेवागत्य तत्रास्थात्त्रिपृष्ठो रिपुनिष्ठुरः ॥ १५८ ॥  
क्रुध्वा तौ युद्धसङ्घाद्बुद्धतौ रुद्धभास्करौ । स्वयं स्वधन्वभिः सार्धं शरसङ्घातवर्षणैः ॥ १५९ ॥  
<sup>३</sup>अश्वै रथैर्गजैर्नैश्च पदातिपरिवारितैः । यथोक्तविहितव्यूहैरयुध्येतां <sup>४</sup>महाबलौ ॥ १६० ॥

रखा हुआ पत्र निकालकर बाँचा । उसमें लिखा था कि सन्धि विग्रहमें नियुक्त, विद्याधरोंका स्वामी, अपने लोकका शिखामणि, अपनी प्रजाका प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके वंशरूपी आकाशका सूर्य, श्रीमान्, प्रसिद्ध राजा ज्वलनजटी रथनूपुर नगरसे, पोदनपुर नगरके स्वामी, भगवान् ऋषभ-देवके पुत्र बाहुवलीके वंशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रजापतिको शिरसे नमस्कार कर बड़े स्नेहसे कुशल प्रश्न पूछता हुआ बड़ी विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा और आपका वैवाहिक सम्बन्ध आजका नहीं है क्योंकि हम दोनोंकी वंश-परम्परासे वह चला आ रहा है । हम दोनोंके विशुद्धवंश सूर्य और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं अतः इसकार्यमें आज दोनों वंशोंके गुण-दोषकी परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है । हे पूज्य ! मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लक्ष्मीके समान है वह मेरे भानेज त्रिपृष्ठीकी स्त्री हो और अपनेगुणोंके द्वारा अपने आपमें इसकी बड़ी प्रीतिको बढ़ानेवाली हो ॥ १४४-१५१ ॥ प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीका यह कहकर मन्तुष्ट किया, कि जो बात ज्वलनजटीको इष्ट है वह मुझे भी इष्ट है ॥ १५२ ॥ प्रजापति महाराजने बड़े आदर-सत्कारके साथ मन्त्रीको बिदा किया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने स्वामीसे निवेदन कर दिये ॥ १५३ ॥ ज्वलनजटी अर्ककीर्तिके साथ शीघ्र ही आया और स्वयंप्रभाको लाकर उसने बड़े वैभवके साथ उसे त्रिपृष्ठके लिए सौप दी—विवाह दी ॥ १५४ ॥ इसके साथ-साथ ज्वलनजटीने त्रिपृष्ठके लिए यथाक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथा जो सिद्ध हैं ऐसी सिंहवाहिनी और गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ भी दीं ॥ १५५ ॥

इधर अश्वघ्रीवने अपने गुप्तचरोंके द्वारा जब यह बात सुनी तो उसका हृदय क्रोधाग्निसे जलने लगा । वह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्याओंसे सम्पन्न विद्याधर राजाओं, शत्रुके सन्मुख चढ़ाई करनेवाले मार्ग कुशल एवं अनेक अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित योद्धाओंसे आवृत होकर रथावर्त नामक पर्वतपर आ पहुँचा ॥ १५६-१५७ ॥ अश्वघ्रीवकी चढ़ाई सुनकर शत्रुओंके लिए अत्यन्त कठोर त्रिपृष्ठकुमार भी अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ पहलेसे ही आकर वहाँ आ बटा ॥ १५८ ॥ जो युद्धके लिए तैयार हैं, अतिशय उद्वत हैं, स्वयं तथा अपने साथी अन्य धनुषधारियोंके साथ बाण-वर्षाकर जिन्होंने सूर्यको ढक लिया है और जो यथोक्त व्यूहकी रचना करनेवाले, पैदल सिपाहियोंसे

गजः कण्ठारवेणेव वज्रेणेव महाचलः । भास्करेणान्धकारो वा त्रिपृष्ठेन पराजितः ॥ १६१ ॥  
 स विलक्षो ह्यश्रीवो मायायुद्धेऽपि निजितः । चक्रं सम्प्रेषयामास त्रिपृष्ठमभि निष्ठुरम् ॥ १६२ ॥  
 तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य मरुक्षु तद्दक्षिणे भुजे । तस्थौ सोऽपि तदादाय रिपुं प्रत्यक्षिपत्कुधा ॥ १६३ ॥  
 खण्डद्वयं ह्यश्रीवश्रीवां सद्यो व्यधाददः । त्रिखण्डाधिपतित्वेन त्रिपृष्ठद्वार्षचक्रिणम् ॥ १६४ ॥  
 विजयेनात्र लब्धेन विजयेनेव चक्रभृत् । विजयार्थं समं गत्वा रथनूपुरभूपतिम् ॥ १६५ ॥  
 श्रेणिद्वयाधिपत्येन प्रापयंश्चक्रवर्तिताम् । प्रभोरभूत्फलस्यात्र व्यक्तिः कोपप्रसादयोः ॥ १६६ ॥  
 राज्यलक्ष्मीं चिरं भुक्त्वाप्यनृप्या भोगकांक्षया । मृत्वागात्समीं पृथ्वीं बह्मरम्भपरिग्रहः ॥ १६७ ॥  
 परस्परकृतं दुःखमनुभूय चिरायुषा । स्वधाम्नीकृतदुःखञ्च तस्मात्किर्गत्य दुस्तरात् ॥ १६८ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्भारते गङ्गानदीतटसमीपगे । वने सिंहगिरौ सिंहो भूत्वाऽसौ बृहिताहसा ॥ १६९ ॥  
 रत्नप्रभं प्रविश्यैव प्रज्ज्वलद्दृष्टिमाप्तवान् । दुःखमेकाब्धिमेयायुस्ततश्च्युत्वा पुनश्च सः ॥ १७० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् 'सिन्धुकूटस्य प्राग्भागे हिमवद्गिरेः । सानावभून्मृगाधीशो ज्वलत्केसरभासुरः ॥ १७१ ॥  
 तीक्ष्णद्रंष्ट्राकरालाननः कदाचिद्विभोषणः । कञ्चिन्मृगमवष्टभ्य<sup>१</sup> भक्षयन् स समीक्षितः ॥ १७२ ॥  
 अब्र<sup>२</sup> उमितगुणेनामा गच्छतातिक्पालुना । अजितअयनामाप्रचारणेन मुनीशिना ॥ १७३ ॥  
 स मुनिस्तीर्थनाथोऽकमनुस्मृत्यानुकम्पया । अवतीर्थं नभोमार्गात्समासाद्य मृगाधिपम् ॥ १७४ ॥  
 शिलातले निविश्योच्चैर्धर्म्यां वाचमुदाहरत् । 'भो भो भव्यमृगाधीश त्वं त्रिपृष्ठमभवे पुरा ॥ १७५ ॥  
 परार्थं पञ्चधा प्रोक्तं मृदुशय्यातले चिरम् । स्वैरं कान्ताभिरिष्टाभिरभीष्टं सुखमन्वभूः ॥ १७६ ॥

धिरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियोंसे महाबलवान् हैं ऐसे वे दोनों यांदा क्रद्ध होकर परस्पर युद्ध करने लगे ॥ १५६-१६० ॥ जिस प्रकार सिंह हाथीको भगा देता है, वज्र महापर्वतको गिरा देता है और सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार त्रिपृष्ठने अश्वप्रीवकां पराजित कर दिया ॥ १६१ ॥ जब अश्वप्रीव मायायुद्धमें भी पराजित हो गया तब उसने लज्जित होकर त्रिपृष्ठके ऊपर कठोर चक्र चला दिया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजा पर आकर स्थिर हो गया । त्रिपृष्ठने भी उसे लेकर क्रोधवश शत्रुपर चला दिया ॥ १६२-१६३ ॥ उसने जाते ही अश्वप्रीवकी श्रीवाके दो टुकड़े कर दिये । त्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिपृष्ठको अर्धचक्रवर्तीका पद मिला ॥ १६४ ॥ युद्धमें प्राप्त हुई विजयके समान विजय नामके भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ, विजयार्थ पर्वतपर गया और वहाँ उसने रथनूपुर नगरके राजा ज्वलनजटीको दोनों श्रेणियोंका चक्रवर्ती बना दिया सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके क्रोध और प्रसन्न होनेका फल यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥ १६५-१६६ ॥ उस त्रिपृष्ठने चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग किया परन्तु तृप्त न होनेके कारण उसे भोगोंकी आकांक्षा बनी रही । फलस्वरूप बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहका धारक होनेसे वह मरकर सातवें नरक गया ॥ १६७ ॥ वह वहाँ परस्पर किये हुए दुःखका तथा पृथिवी सम्बन्धी दुःखको चिरकाल तक भोगता रहा । अन्तमें उस दुस्तर नरकसे निकलकर वह तीव्र पापके कारण इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें गङ्गानदीके तटके समीपवर्ती वनमें सिंहगिरि पर्वतपर सिंह हुआ । वहाँ भी उसने तीव्र पाप किया अतः जिसमें अग्नि जल रही है ऐसी रत्नप्रभा नामकी पृथिवीमें गया । वहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख भोगता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपमें सिन्धुकूटकी पूर्व दिशामें हिमवत् पर्वतकी शिखरपर देदीप्यमान बालोंसे सुशोभित सिंह हुआ ॥ १६८-१७१ ॥ जिसका मुख पैनी दाँदोंसे भयंकर है ऐसा भय उत्पन्न करनेवाला वह सिंह किसी समय किसी एक हरिणको पकड़कर खा रहा था । उसी समय अतिशय दयालु अजितजयनामक चारण मुनि, अमितगुण नामक मुनिराजके साथ आकाशमें जा रहे थे । उन्होंने उस सिंहको देखा, देखते ही वे तीर्थंकरके वचनोंका स्मरण कर दयावश आकाशमार्गसे उतर कर उस सिंहके पास पहुँचे और शिलातलपर बैठकर जोर-जोरसे धर्ममय वचन कहने लगे । उन्होंने कहा कि हे भव्य मृगराज ! तूने पहले त्रिपृष्ठके भवमें पाँचों इन्द्रियोंके श्रेष्ठ विषयोंका अनुभव

दिव्यं सर्वैरसं भोग्यं रसनेन्द्रियतर्पणम् । स्पर्धमानमभुङ्क्थाः प्राक्तुवाभृतरसायनैः ॥ १७७ ॥  
 धूपानुलेपनैर्मास्त्र्यैश्चूर्णैर्वासीः<sup>१</sup> सुगन्धिभिः । तोषितं सुचिरं तत्र त्वया प्राणपुटद्वयम् ॥ १७८ ॥  
 रसभावसमाविष्टं विचित्रकरणोचितम् । नृपं निरीक्षितं चित्रमङ्गनाभिः प्रयोजितम् ॥ १७९ ॥  
 शुद्धदेशजभेदं तत् पङ्जादिस्वरसप्तकम् । चेतनेतरमिश्रोत्थं पूरितं कर्णयोर्द्वयोः ॥ १८० ॥  
 त्रिखण्डमण्डिते<sup>२</sup> क्षेत्रे जातं सर्वं मयैव तत् । इत्याभिमानिकं सौख्यं मनसा चिरमन्वभूः ॥ १८१ ॥  
 एवं वैषयिकं सौख्यमन्वभूयाप्यनृसवान् । श्रद्धापञ्चम्रतापेतः प्रविष्टोऽसि तमस्तमः ॥ १८२ ॥  
 भीमां वैतरणीं तत्र प्रज्वलद्गारिपूरिताम् । प्रवेशितोऽसि पापिष्ठैः प्राक्शकथा कृतसज्जनः ॥ १८३ ॥  
 ज्वलज्ज्वालाकरालो<sup>३</sup>ऽथाखण्डगण्डोपलाचले ।<sup>४</sup> प्रधावितोऽसि तद्दृक्छिन्नच्छिन्नाखिलाङ्गकः ५ १८४ ॥  
 कदम्बबालुकातापद्मुष्टाप्टावयवोऽप्यभूः । प्रज्वलच्चितिकाक्षिसो भस्मसाद्भावमागतः ॥ १८५ ॥  
 तन्नायस्त्रिण्डनिर्घातैश्चण्डैः सञ्चूणितोऽप्यभूः । निस्त्रिंशच्छदसंछन्नवनेषु भ्रान्तवान्मुहुः ॥ १८६ ॥  
 नानापक्षिमृगीः कालकौलेयककुलैरलम् । परस्पराभिघातेन ताडनेन च पीडितः ॥ १८७ ॥  
 बद्धो बहुविधैर्बन्धैर्निधुरं निधुराशयैः । कर्णोष्ठनासिकादीनां छेदनैर्बाधितो मृशम् ॥ १८८ ॥  
 पापैः समानशूलानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दुःखमवशोऽनुभवश्चिरम् ॥ १८९ ॥  
 प्रलापाक्रन्दरोदादिवाह्निरुद्धहरिद्वया । शरणं प्रार्थयन्द्दैन्यादप्राप्यातीव दुःखितः ॥ १९० ॥

किया है । तूने कोमल शय्यातलपर मनाभिलाषित स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक मनचाहा सुख स्वच्छन्दता पूर्वक भोगा है ॥ १७२-१७६ ॥ रसना इन्द्रियको तृप्त करनेवाले, सब रसोंसे परिपूर्ण तथा अमृतरमायनके साथ स्पर्धा करनेवाले दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है ॥ १७७ ॥ उसी त्रिपुष्टके भयमें तूने सुगन्धित धूपके अनुलेपनोंसे, मालाओंसे, चूर्णोंसे तथा अन्य मुवासोंमें चिरकाल तक अपनी नाकके दोनों पुट संतुष्ट किये हैं ॥ १७८ ॥ रस और भावमें युक्त, त्रिविध करणोंसे संगत, स्त्रियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा है ॥ १७९ ॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, और जो चेतन-अचेतन एवं दोनोंसे उत्पन्न होते हैं ऐसे पङ्कज आदि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं ॥ १८० ॥ तीन खण्डसे सुशोभित क्षेत्रमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह सब मेरा ही है इस अभिमानसे उत्पन्न हुए मानसिक सुखका भी तूने चिरकाल तक अनुभव किया है ॥ १८१ ॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख भोगकर भी संतुष्ट नहीं हो सका और सम्यग्दर्शन तथा पाँच व्रतोंसे रहित होनेके कारण सप्तम नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १८२ ॥ वहाँ खौलते हुए जलसे भरी वैतरणी नामक भयंकर नदीमें तुम्हें पापी नारकियोंने घुसाया और तुम्हें जवर्दस्ती स्नान करना पड़ा ॥ १८३ ॥ कभी उन नारकियोंने तुम्हें जिसपर जलनी हुई ज्वालाओंसे भयंकर उछल-उछलकर बड़ी-बड़ी गोल चट्टानें पड़ रही थीं ऐसे पर्वतपर दौड़ाया और तेरा समस्त शरीर टांकीसे छिन्न-भिन्न हो गया ॥ १८४ ॥ कभी भाड़की बालूकी गर्मीसे तेरे आठों अङ्ग जल जाते थे और कभी जलती हुई चितामें गिरा देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था ॥ १८५ ॥ अत्यन्त प्रचण्ड और तपाये हुए लोहेके घनोंकी चोटसे कभी तेरा चूर्ण किया जाता था तो कभी तलवार-जैसे पत्तोंसे आच्छादित वनमें बार-बार घुसाया जाता था ॥ १८६ ॥ अनेक प्रकारके पक्षी वनपशु और कालके समान कुत्तोंके द्वारा तू दुःखी किया जाता था तथा परस्पर की मारकाट एवं ताडनाके द्वारा तुम्हें पीड़ित किया जाता था ॥ १८७ ॥ दुष्ट आशयवाले नारकी तुम्हें बड़ी निर्दयताके साथ अनेक प्रकारके बन्धनोंसे बाँधते थे और कान ओठ तथा नाक आदि काटकर तुम्हें बहुत दुःखी करते थे ॥ १८८ ॥ पापी नारकी तुम्हें कभी अनेक प्रकारके तीक्ष्ण शूलोंपर चढ़ा देते थे । इस तरह तूने परवश होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारके दुःख भोगे ॥ १८९ ॥ वहाँ तूने प्रलाप आक्रन्द तथा रोना आदिके शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशाओंको व्याप्त कर बड़ी दीनतासे शरणकी

१ वामाः ल० । २ मण्डितक्षेत्रे ल० । ३ करालोग्र-म० । करालोष्वा-इति क्वचित् ।  
 ४ प्रधावितोऽस्मि इत्यपि क्वचित् ।

म्वायुरन्ते विनिर्याय ततो भूत्वा सृगाधिपः । क्षुत्पिपासादिभिर्वातातपवर्षादिभिश्च धिक् ॥ १९१ ॥  
 'वाध्यमानः पुनः प्राणिहिंसया मांसमाहरन् । क्रूरः पापं समुच्चित्य पृथिवीं प्रथमामगाः' ॥ १९२ ॥  
 ततोऽपीह समुद्भूय क्रौर्यमेवं समुद्रहन् । महदंहः समावर्ज्य दुःखायोस्सहसे पुनः ॥ १९३ ॥  
 अहो प्रवृद्धमज्ञानं तत्ते यस्य प्रभावतः । पापिस्तत्त्वे न जानासीत्याकर्ण्य तदुदीरितम् ॥ १९४ ॥  
 सद्यो जातिस्मृतिं गत्वा घोरसंसारदुःखजात् । भयाच्चलितसर्वाङ्गी गल्गद्वाप्पजलोऽभवत् ॥ १९५ ॥  
 लोचनाभ्यां हरेर्बाष्पसलिलं न्यगलच्चिरम् । सम्यक्त्वाय हृदि स्थानं मिथ्यात्वमिव दित्सु तत् ॥ १९६ ॥  
 प्रत्यासन्नविनेयानां स्मृतप्राग्जन्मजन्मिनाम् । पश्चान्तापेन यः शोकः संसृतौ स न कस्यचित् ॥ १९७ ॥  
 हरिं शान्तान्तरङ्गत्वास्वस्मिन्बद्धनिरीक्षणम् । विलोक्यैष हितप्राहीत्याहैवं स मुनिः पुनः ॥ १९८ ॥  
 पुरा पूरुत्वा भूत्वा धर्मासौधर्मकल्पजः । जातस्ततोऽवतीर्यान्न मरीचिरतिदुर्मतिः ॥ १९९ ॥  
 सन्मार्गदूषणं कृत्वा कुमार्गमतिवर्धयन् । वृषभस्वामिनो वाक्यमनादृत्याजबज्रवे ॥ २०० ॥  
 भान्तो जातिजरासृत्युसन्ततेः पापसञ्चयात् । विप्रयोगं प्रियैर्यांगमप्रियैरामुर्वश्विरम् ॥ २०१ ॥  
 अपरञ्च महादुःखं बृहत्पापोदयोदितम् । त्रसस्थावरसम्भूतावसङ्ख्यातसमा भ्रमन् ॥ २०२ ॥  
 केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दिखमासवान् । संयमं त्वं निदानेन त्रिपृष्टवमुपेयिवान् ॥ २०३ ॥  
 इतोऽस्मिन्दशमे भावी भवेऽन्यस्तीर्थकृद्भवान् । सर्वमश्रावि तीर्थेशान्मयेदं श्रीधराङ्कयात् ॥ २०४ ॥  
 अद्यप्रभृति संसारघोरारण्यप्रपातनात् । धीमन्विरम दुर्मागद्वारमात्महिते मते ॥ २०५ ॥  
 क्षेमञ्चेदासुमिच्छास्ति कामं लोकाप्रधामनि । आसागमपदार्थेषु श्रद्धां धत्स्वेति तद्वचः ॥ २०६ ॥

प्रार्थना की परन्तु तुम्हें कहीं भी शरण नहीं मिली जिसमें अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ १९० ॥ अपनी आयु समाप्त होनेपर तू वहाँ से निकलकर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख-प्यास वायु गर्मी वर्षा आदि की बाधासे अत्यन्त दुःखी हुआ । वहाँ तू प्राणिहिंसाकर मांसका आहार करना था इसलिए क्रूरताके कारण पापका संचयकर पहले नरक गया ॥ १९१-१९२ ॥ वहाँसे निकलकर तू फिर सिंह हुआ है और इस तरह क्रूरता कर महान् पापका अर्जन करता हुआ दुःखके लिए फिर उत्साह कर रहा है ॥ १९३ ॥ अरे पापी ! तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीके प्रभावसे तू तत्त्वको नहीं जानता है । इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उस सिंहको शीघ्र ही जातिस्मरण हा गया । संसारके भयंकर दुःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा आँखोंसे आँसू गिरने लगे ॥ १९४-१९५ ॥ सिंहकी आँखोंसे बहुत देर तक अश्रुरूपी जल गिरता रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदयमें सम्यक्त्वके लिए स्थान देनेकी इच्छासे मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥ १९६ ॥ जिन्हें पूर्व जन्मका स्मरण हो गया है ऐसे निकटभव्य जीवोंको पश्चान्तापसे जो शोक होता है वह शोक संसारमें किसीका नहीं होता ॥ १९७ ॥ मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया है और यह मेरी ही आँर देख रहा है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवश्य ही अपना हित ग्रहण करेगा, ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरुरवा भील था फिर धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रमें अत्यन्त दुर्मति मरीचि हुआ ॥ १९८-१९९ ॥ उस पर्यायमें तूने सन्मार्गको दूषित कर कुमार्गकी वृद्धि की । श्री ऋषभदेव तीर्थकरके वचनोंका अनादर कर तू संसारमें भ्रमण करता रहा । पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और मरणके दुःख भोगता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट संयोगका तीव्र दुःख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रसस्थावर योनियोंमें असंख्यात वर्ष तक भ्रमण किया ॥ २००-२०२ ॥ किसी कारणसे विश्वनन्दीकी पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान कर त्रिपृष्ठ नारायणका पद प्राप्त किया ॥ २०३ ॥ अब इस भवसे तू दशवें भवमें अन्तिम तीर्थकर होगा । यह सब मैंने श्रीधर तीर्थकरसे सुना है ॥ २०४ ॥ हे बुद्धिमान् ! अब तू आजसे लेकर संसाररूपी अटवीमें गिरानेवाले मिथ्यामार्गसे विरत हो और आत्माका हित करनेवाले मार्गमें रमण कर—उसीमें लीन रह ॥ २०५ ॥ यदि आत्मकल्याणकी तेरी इच्छा है और लोकके अग्रभाग पर तू

विधाय हृदि योगीन्द्रयुग्मं भक्तिभराहितः । मुहुः प्रदक्षिणीकृत्य प्रप्रणम्य मृगाधिपः ॥ २०७ ॥  
 तत्त्वश्रद्धानामसाद्य सद्यः कालादिलब्धितः । प्रणिधाय मनःश्रावकव्रतानि समाददे ॥ २०८ ॥  
 दया मुनिगिरास्यन्ती क्रूरतां तन्मनोऽविशन् । कालस्य बलमप्राप्य को विपक्षं निरस्यति ॥ २०९ ॥  
 स्थिररौद्ररसः सद्यः स शमं समधारयत् । यच्छैलूपसमो मोहक्षयोपशमभावतः ॥ २१० ॥  
 व्रतं नैतस्य सामान्यं निराहारं यतो विना । कव्यादन्यस्य नाहारः साहसं किमतः परम् ॥ २११ ॥  
 व्रतं प्राणव्ययात्तेन यन्निर्युद्धमखण्डितम् । ततोऽभूरफलितं शौर्यं प्राच्यं तस्यैव घातकम् ॥ २१२ ॥  
 तमस्तमःप्रभायाञ्च खलु सम्यक्त्वमादिमम् । निसर्गादेव गृह्णन्ति तस्मादस्मिन्न विस्मयः ॥ २१३ ॥  
 निरुद्धसर्वदुर्वृत्तः सर्वसद्गुणसंमुखः । प्रावर्तत चिरं धीरः समीप्सुः परमं पदम् ॥ २१४ ॥  
 संयमासंयमादूर्ध्वं तिरश्चां नेति सूनुते । रुद्धस्तेनान्यथा मोक्षेत्युक्तेरासीत्स गोचरः ॥ २१५ ॥  
 तच्छौर्यं क्रौर्यसन्दीप्यं किल सम्प्रति सख्यभयम् । कलधौतमिवातसं निक्षिप्तं शीतलेऽम्भसि ॥ २१६ ॥  
 स्वार्थं मृगारिशब्दांसौ जहौ तस्मिन् दभावति । प्रायेण स्वामिशीलत्वं संश्रितानां १ प्रवर्तते ॥ २१७ ॥  
 १ लिखितो वा सजीवानां वपुषैव न चेतसा । अभयाय तथा शान्तो दयामाहात्म्यमीदृशम् ॥ २१८ ॥  
 एवं व्रतेन सन्न्यस्य समाहितमतिर्व्यसुः । सद्यः सौधर्मकल्पेऽसौ सिंहकेतुः सुरोऽजनि ॥ २१९ ॥  
 ततो द्विसागरायुष्को ३ निविष्टामरसौख्यकः । निष्कम्य घातकीखण्डपूर्वमन्दरपूर्वगे ॥ २२० ॥

स्थिर रहना चाहता है तो आप आगम और पदार्थोंकी श्रद्धा धारण कर ॥ २०६ ॥

इस प्रकार उस सिंहेने मुनिराजके वचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजोंकी भक्तिके भारसे नम्र होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि लब्धियोंके मिल जानेसे शीघ्र ही तत्त्वश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावकके व्रत ग्रहण किये ॥ २०७-२०८ ॥ मुनिराजके वचनोंमें क्रूरता दूरकर दयाने सिंहके मनमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि कालका बल प्राप्त किये विना ऐसा कौन है जो शत्रुको दूर हटा सकता है ? ॥ २०९ ॥ मोहनीय कर्मका क्षयोपशम होनेसे उस सिंहका रौद्र रस स्थिर हो गया और उसने नटकी भँति शीघ्र ही शान्तरस धारण कर लिया ॥ २१० ॥ निराहार रहनेके सिवाय उस सिंहेने और कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया क्योंकि मांसके सिवाय उसका और आहार नहीं था । आचार्य कहते हैं कि इससे बढ़कर और साहस क्या हो सकता है ? ॥ २११ ॥ प्राण नष्ट होनेपर भी चूँकि उसने अपने व्रतका अखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पड़ता था कि उसकी शूरवीरता सफल हुई थी और उसकी वह पुरानी शूरता उसीका घात करनेवाली हुई थी ॥ २१२ ॥ तमस्तमःप्रभा नामक सातवें नरकके नारकी उपशम सम्यग्दर्शनको स्वभावसे ही ग्रहण कर लेते हैं इसलिए सिंहके सम्यग्दर्शन ग्रहण करनेमें आश्चर्य नहीं है ॥ २१३ ॥ परमपदकी इच्छा करनेवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको छोड़कर सब सदाचारोंके सन्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥ २१४ ॥ 'तिर्यञ्चोके संयमासंयमके आगेके व्रत नहीं होते ऐसा आगममें कहा गया है इसी लिए वह रुक गया था अन्यथा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता' वह इस कहावतका विषय हो रहा था ॥ २१५ ॥ जिस प्रकार अग्निमें तपाया हुआ सुवर्ण शीतल जलमें डालनेसे ठंडा हो जाता है उसी प्रकार क्रूरतासे बढ़ी हुई उसकी शूरवीरता उस समय विलकुल नष्ट हो गई थी ॥ २१६ ॥ दयाको धारण करनेवाले उस सिंहेमें मृगारि शब्दने अपनी सार्थकता छोड़ दी थी अर्थात् अब वह मृगोंका शत्रु नहीं रहा था सो ठीक ही है क्योंकि आश्रित रहनेवाले मनुष्योंका स्वभाव प्रायः स्वामीके समान ही हो जाता है ॥ २१७ ॥ वह सिंह सब जीवोंके लिए केवल शरीरसे ही चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे भी वह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किसीको भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक ही है क्योंकि दयाका माहात्म्य ही ऐसा है ॥ २१८ ॥ इस प्रकार व्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकाम चित्तसे मरा और शीघ्र ही सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका देव हुआ ॥ २१९ ॥ वहाँ उसने दो सागरकी

१ प्रवर्तितम् ष० । २ लिखितः सोऽन्यजीवानां क०, म० । ३ द्विसागरायुष्यः ल० ।

विदेहे मङ्गलावत्यां विषये 'लक्ष्मराचले । परार्ध्वसुत्तरश्रेण्यां नगरं कनकप्रभम् ॥ २२१ ॥  
 पतिः कनकपुङ्गवस्तस्य विद्याधराधिपः । प्रिया कनकमालाभूरायोस्तुङ्गनकोज्ज्वलः ॥ २२२ ॥  
 सार्धं कनकवत्यासौ मन्दरं क्रीडितुं गतः । समीक्ष्य प्रियमित्राल्यमवधिज्ञानवीक्षणम् ॥ २२३ ॥  
 भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य कृती कृतनमस्कृतिः । ब्रूहि धर्मस्य सङ्गावं 'पूज्यंति परिपृष्टवान् ॥ २२४ ॥  
 धर्मो दयामयो धर्म श्रय धर्मेण नीचसे । मुक्तिं धर्मेण कर्माणि छिन्धि<sup>१</sup> धर्माय सन्मतिम् ॥ २२५ ॥  
 देहि 'नापेहि धर्मात्वं चाहि धर्मस्य भृत्यताम् । धर्मे तिष्ठ चिरं धर्मं पाहि मामिति 'चिन्तय ॥ २२६ ॥  
 इति धर्मं विनिश्चित्य नीत्वाप्यत्वादिपर्ययम् । सन्ततं चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितैः क्षणैः ॥ २२७ ॥  
 इत्यब्रवीदसौ सोऽपि निधाय हृदि तद्रुचः । तृषितो वा जलं तस्मात् पीतधर्मरसायनः ॥ २२८ ॥  
 भोगनिर्वेगयोगेन दूरीकृतपरिग्रहः । चिरं संयम्य सन्न्यस्य कल्पेऽभूत्सप्तमेऽमरः ॥ २२९ ॥  
 प्रयोदशाब्धिमानायुरात्समाकृततत्सुखः । सुखेनास्मात्समागत्य सुसमाहितचेतसा ॥ २३० ॥  
 द्वीपेऽस्मिन्कोसले देशे साकेतनगरेशिनः । वज्रसेनमहीपस्य शीलवत्यामजायत ॥ २३१ ॥  
 हरिषेणः कृताशेषहर्षो नैसर्गिकैर्गुणैः । वशीकृत्य श्रियं स्वस्य चिरं कुलवधूमिव ॥ २३२ ॥  
 मालां वा लुप्तसारां तां परित्यज्य ययौ शमम् । 'सुव्रतं 'सुश्रुतं श्रित्वा सद्गुणं श्रुतसागरम् ॥ २३३ ॥  
 वर्धमानव्रतः प्रान्ते महाशुक्रेऽजनिष्ट सः । षोडशाम्भोधिमैयापुराविर्भूतसुखोदयः ॥ २३४ ॥  
 अस्तमभ्युद्यताको वा प्रान्तकालं समाप्तवान् । धातकीखण्डपूर्वाशा विदेहे पूर्वभागरे<sup>२</sup> ॥ २३५ ॥

आयु तक देवोंके सुख भोगे । तदनन्तर वहाँसे चयकर वह, धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे पूर्वकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसके मङ्गलावती देशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें अत्यन्त श्रेष्ठ कनक-प्रभ नगरके राजा कनकपुङ्गव विद्याधर और कनकमाला रानीके कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ ॥ २२०-२२२ ॥ किसी एक दिन वह अपनी कनकवती नामक स्त्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्दर-गिरि पर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनिके दर्शन किये ॥ २२३ ॥ उस चतुर विद्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजको नमस्कार किया और 'हे पूज्य ! धर्मका स्वरूप कहिये' इस प्रकार उनसे पूछा ॥ २२४ ॥ उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि धर्म दयामय है, नू धर्मका आश्रय कर, धर्मके द्वारा नू मोक्षके निकट पहुंच रहा है, धर्मके द्वारा कर्मका बन्धन छेद, धर्मके लिए सद्बुद्धि दे, धर्मसे पीछे नहीं हट, धर्मकी दासता स्वीकृत कर, धर्ममें स्थिर रह और 'हे धर्म मेरी रक्षाकर' सदा इस प्रकारकी चिन्ता कर ॥ २२५-२२६ ॥ इस प्रकार धर्मका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका निरन्तर चिन्तन किया कर । ऐसा करनेसे नू कुछ ही समयमें मोक्षको प्राप्त हो जावेगा ॥ २२७ ॥ इस तरह मुनिराजने कहा । मुनिराजके वचन हृदयमें धारण कर और उनसे धर्मरूपी रसायनका पानकर वह ऐसा सन्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर संतुष्ट होता है ॥ २२८ ॥ उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया और चिर काल तक संयम धारणकर अन्तमें सन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे वह सातवें स्वर्गमें देव हुआ ॥ २२९ ॥ वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण उम्रने वहाँके सुख भाँगे और सुखसे काल व्यतीतकर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े । वहाँ से च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीपके कोसल देश सम्बन्धी साकेत नगरके स्वामी राजा वज्रसेनकी शीलवती रानीसे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सबको हर्षित करने वाला हरिषेण नामका पुत्र हुआ । उसने कुलवधूके समान राज्यलक्ष्मी अपने वश कर ली ॥ २३०-२३२ ॥ अन्तमें उसने सारहीन मालाके समान वह समस्त लक्ष्मी छोड़ दी और उत्तम व्रत तथा उत्तम शास्त्र-ज्ञानसे सुशोभित श्रीश्रतसागर नामके सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥ २३३ ॥ जिसके व्रत निरन्तर बढ़ रहे हैं ऐसा हरिषेण आयुका अन्त होनेपर महाशुक्र स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ । वहाँ वह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा ॥ २३४ ॥ जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह देव भी अन्तकालको

१ लक्ष्मराचले ल० । २ ममेति ल० । ३ इन्ता ल० । ४ मावेहि ल० । ५ चार्थय इति कश्चित् ।

६ सव्रतं । ७ सुश्रुतं इति कश्चित् । ८ पूर्वसागरे ल० ।



विषये पुष्कलावत्यां धरेशः पुण्डरीकिणी । पतिः सुमित्रविक्र्यातिः सुव्रतास्य<sup>१</sup> मनोरमा ॥ २३६ ॥  
 प्रियमित्रस्तयोरासीशानयो नयभूषणः । नात्रैव नमिताशेषविद्विषश्चक्रवर्तिताम् ॥ २३७ ॥  
 सम्प्राप्य भुक्तभोगाङ्गो भङ्गुरान्सर्वसङ्गमान् । क्षेमङ्करजिनाधीशवक्त्राम्भोजविनिर्गतात्<sup>२</sup> ॥ २३८ ॥  
 तत्त्वगर्भगभीरार्थवाक्यान्मत्वा विरक्तवान् । सर्वमित्राख्यसूनौ स्वं राज्यभारं निघाय सः ॥ २३९ ॥  
<sup>३</sup>भयभूपसहस्रेण सह संयममाददे । प्रतिष्ठानं यमास्तस्मिन्नुवा<sup>४</sup>पंस्तेऽष्टमातृभिः ॥ २४० ॥  
 प्रान्ते प्राप्य सहस्रारमभूसूर्यप्रभोऽमरः<sup>५</sup> । सुखाष्टादशवाध्यायुर्द्विभुक्तभोगकः ॥ २४१ ॥  
 मेघाद्विद्युद्विशेषो वा ततः स्वर्गाद्विनिर्गतः । छत्राकारपुरेऽथैव नन्दिवर्धनभूभुजः ॥ २४२ ॥  
 वीरवत्याश्च नन्दाख्यस्तनूजः सुजनोऽजनि । निष्ठाप्येष्टमनुष्ठानं स श्रेष्ठं प्रोष्ठिलं गुरुम् ॥ २४३ ॥  
 सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्य<sup>६</sup> निर्णीतास्रगमार्थकः । संयमं सम्प्रपद्याद्यु स्वीकृतैकादशाङ्गकः ॥ २४४ ॥  
 भावयित्वा भवध्वंसि तीर्थकृत्कामकारणम् । बध्वा तीर्थकरं नाम सहोच्चैर्गोत्रकर्मणा ॥ २४५ ॥  
 जीवितान्ते<sup>७</sup> समासाद्य सर्वभाराधनाविधिम् । पुष्पोशरविमानेऽभूदच्युतेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ २४६ ॥  
 द्वाविंशत्यब्धिमेयायुररन्निव्यदेहकः । शुक्ललेख्याद्वयोपेतो द्वाविंशत्या स निःश्वसन् ॥ २४७ ॥  
 पद्मैस्तावत्सहस्राब्दैराहरन् मनसामृतम् । सदा मनःप्रवीचारो भोगसारेण वृत्तवान् ॥ २४८ ॥  
<sup>८</sup>आषष्ठपृथिवीभागाद्वासावधिविलोचनः । स्वावधिक्षेत्रसंमेयबलाभाविक्रियावधिः ॥ २४९ ॥

प्राप्त हुआ और वहाँसे चलकर धातकीखण्डद्वीपकी पूर्व दिशा सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके पूर्वभागमें स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा नामकी रानीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ । वह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे विभूषित था, उसने अपने नामसे ही समस्त शत्रुओंका नश्रीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद प्राप्तकर समस्त प्रकारके भोगोंका उपभोग किया था । अन्तमें वह क्षेमङ्कर नामक जिनेन्द्र भगवान्के मुखारविन्दसे प्रकट हुए, तन्वों से भरे हुए और गम्भीर अर्थको सूचित करने वाले वाक्योंसे सब पदार्थोंके समागमको भङ्कर मानकर विरक्त हो गया तथा सर्वमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार देकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गया । पाँच समितियों और तीन गुप्तियों रूप आठ प्रवचन-मातृकाओंके साथ-साथ अहिंसा महाव्रत आदि पाँच महाव्रत उन मुनिराजमें पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए थे ॥ २३५-२४० ॥ आयुका अन्त होनेपर वे सहस्रार स्वर्गमें जाकर सूर्यप्रभ नामके देव हुए । वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्धियाँ बढ़ रही थीं और वे सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे ॥ २४१ ॥ जिस प्रकार मेघसे एक विशेष प्रकारकी बिजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वर्गसे च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीपके छत्रपुर नगरके राजा नन्दिवर्धन तथा उनकी वीरवती नामकी रानीसे नन्दनामका सज्जन पुत्र हुआ । इष्ट अनुष्ठानको पूरा कर अर्थान् अभिलषित राज्यका उपभोग कर वह प्रोष्ठिल नामके श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा । वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुनकर आप्त, आगम और पदार्थका निर्णय किया; संयम धारण कर लिया और शीघ्र ही ग्यारह अङ्गोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ २४२-२४४ ॥ उसने तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कारण भूत और संसारका नष्ट करने वाली दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओंका चिन्तनकर उच्चोत्तरेके साथ-साथ तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया ॥ २४५ ॥ आयुके अन्त समय सब प्रकारकी आराधनाओं को प्राप्तकर वह अच्युत स्वर्गके पुष्पात्तर विमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ॥ २४६ ॥ वहाँ उसकी बाईस सागर प्रमाण आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्त लेह्याएं थीं, बाईस पक्षमें एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतका आहार लेता था, सदा मानसिक प्रवीचार करता था और श्रेष्ठ भोगोंसे सदा वृत्त रहता था ॥ २४७-२४८ ॥ उसका अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्र छठवीं पृथिवी तककी वात जानता था और उसके

१ सुव्रताख्या ल० । २ विनिर्गतात् ल० । ३ राजकेन सहस्रेण इत्यपि क्वचित् । ४ नवापुस्ते ल० । नवापन् नष्ट ल० । ५ सूर्यप्रभामरः ल० । ६ निर्णीतास्रगमार्थकः ल० । ७ समासाद्य क०, ल०, म० । ८ आषष्ठपृथिवी बीमात्तविद्यावधि ल० ।

सामानिकादिभिर्देवैर्देवीभिश्च परिष्कृतः । पुण्योदयविशेषेण मज्जति स्म सुखाम्बुधौ ॥ २५० ॥  
 तस्मिन्पद्मासशेषायुष्यानाकादागमिष्यति । भरतेऽस्मिन्विदेहाख्ये विषये भवनाङ्गणे ॥ २५१ ॥  
 राक्षः कुण्डपुरेणस्य वसुधारापतस्तुष्टुः । सप्तकोटिर्मणिः सार्धां सिद्धार्थस्य दिनम्प्रति ॥ २५२ ॥  
 आषाढस्य सिते पक्षे पण्ड्यां शशिनि चोसरा । पादे सप्ततलप्रासादस्याभ्यन्तरवर्तिनि ॥ २५३ ॥  
 नन्वावर्तंगृहे रत्नदीपिकाभिः प्रकाशिते । रत्नपर्यङ्कके हंसतूलिकादिविभूषिते ॥ २५४ ॥  
 रौद्रराक्षसगन्धर्वयामत्रितयनिर्गमे । मनोहराख्यतुर्यस्य यामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥ २५५ ॥  
 १ दरनिद्रावलोकिष्ट विशिष्टफलदायिनः । स्वमान् षोडशविच्छिन्नान् प्रियास्य प्रियकारिणी ॥ २५६ ॥  
 तदन्तेऽपश्यदन्वञ्च गजं वक्रप्रवेशिनम् । प्रभातपटहध्वानैः पठितैर्विन्दिभ्रागधैः ॥ २५७ ॥  
 मङ्गलैश्च प्रबुद्धयाशु ज्ञात्वा पुण्यप्रसाधना । सा सिद्धार्थमहाराजमुपगम्य कृतानतिः ॥ २५८ ॥  
 सम्प्राप्तार्थासना स्वमान्यथाक्रममुदाहरत् । सोऽपि तेषां फलं भावि १ यथाक्रममम्बुबुधत् ॥ २५९ ॥  
 श्रुत्वास्वप्नफला देवी तुष्टा प्राप्तेव तत्फलम् । अथामराधिपाः सर्वे तयोरभ्येत्य सम्पदा ॥ २६० ॥  
 कल्याणाभिषवं कृत्वा नियोगेषु यथोचितम् । देवान् देवीश्च संयोज्य स्वं स्वं धाम ययुः पृथक् ॥ २६१ ॥  
 नवमे मासि सम्पूर्णं चैत्रे मासि त्रयोदशी- । दिने शुक्ले शुभे योगे सत्यर्यमणि नामनि ॥ २६२ ॥  
 ३ अलङ्कारः कुलस्याभूच्छीलानामालयो महान् । आकरो गुणरत्नानामाश्रयो विश्रुतश्रियः ४ ॥ २६३ ॥

वल, कान्ति तथा विक्रियाकी अवधि भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर ही थी ॥ २४६ ॥ सामानिक देव और देवियोंसे विरा हुआ वह इन्द्र अपने पुण्य कर्मके विशेष उदयसे मुख रूपी सागरमें सदा निमग्न रहता था ॥ २५० ॥ जब उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गई और वह स्वर्गसे आनेका उद्यत हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थके भवनके आंगनमें प्रतिदिन साढ़े सातकरोड़ रत्नोंकी बड़ी मोटी धारा बरसने लगी ॥ २५१-२५२ ॥ आषाढ़ शुक्ल षष्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तरापादा नक्षत्रमें था तब राजा सिद्धार्थकी प्रसन्नबुद्धि वाली रानी प्रियकारिणी, सातखण्ड वाले राजमहलके भीतर रत्नमय दीपकोंमें प्रकाशित नन्वावर्त नामक राजभवनमें हंस-तूलिका आदिसे मुशोभित रत्नोंके पलंगपर सो रही थी । जब उस रात्रिके रौद्र, राक्षस और गन्धर्व नामके तीन पहर निकल चुके और मनोहर नामक चौथे पहरका अन्त होनेको आया तब उसने कुछ खुली-सी नींदमें सोलह स्वप्न देखे । सोलह स्वप्नोंके बाद ही उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा । तदनन्तर सबेरके समय बजने वाले नगाड़ोंकी आवाजसे तथा चारण और मागधजनोंके द्वारा पड़े हुए मङ्गलपाठोंसे वह जाग उठी और शीघ्र ही स्नान कर पवित्र वस्त्राभूषण पहन महाराज सिद्धार्थके समीप गई । वहाँ नमस्कार कर वह महाराजके द्वारा दिये हुए अर्धासनपर विराजमान हुई और यथाक्रमसे स्वप्न सुनाने लगी । महाराजने भी उसे यथाक्रमसे स्वप्नोंका होनहार फल बतलाया ॥ २५३-२५६ ॥ स्वप्नोंका फल सुनकर वह इतनी संतुष्ट हुई मानो उसने उनका फल उसी समय प्राप्त ही कर लिया था । तदनन्तर सब देवोंने आकर बड़े वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, देव और देवियोंको यथायोग्य कार्योंमें नियुक्त किया और यह सब करनेके बाद वे अलग-अलग अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ २६०-२६१ ॥ तदनन्तर नौवाँ माह पूर्ण होनेपर चैत्र-शुक्ल त्रयोदशीके दिन अर्यमा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार पूर्व दिशामें-बाल सूर्योत्पन्न होता है, रात्रिमें चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पद्म नामक हृदयमें गङ्गाका प्रवाह उत्पन्न होता है, पृथिवीमें धनका समूह प्रकट होता है, सरस्वतीमें शब्दोंका समूह उत्पन्न होता है और लक्ष्मीमें सुखका उदय उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस रानीमें वह अच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह पुत्र अपने कुलका आभूषण था, शीलका बड़ा भारी घर था, गुणरूपी रत्नोंकी खान था, प्रसिद्ध

१ दरमुक्ता ख०, ग०, व० । २ यथाचिन्त्य-व० । यथावका-इति क्वचित् । ३ अलङ्कारः कुलस्यैर्ह-त्सपदामास्यो महान् ल० । ४ विश्रुतश्रियाम् ल० ।

भानुमान् बन्धुपद्मानां भुवनत्रयनायकः । दायको मुक्तिसौख्यस्य त्रायकः सर्वदेहिनाम् ॥ २६४ ॥  
 भर्मद्युतिर्भवध्वंसी मर्मभिकर्मविद्विषाम् । धर्मतीर्थस्य धीरेयो निर्मलः १ शर्मवारिधिः ॥ २६५ ॥  
 प्राश्यां दिशीव बालार्को यामिन्यामिव चन्द्रमाः । पद्मयामिव गङ्गौघो धात्र्यामिव धनोत्करः ॥ २६६ ॥  
 वागवध्यामिव वाप्राशिलक्ष्यामिव सुभोदयः । तस्यां सुतोऽच्युताधीशां लोकालोकैकभास्करः ॥ २६७ ॥  
 मानुषाणां सुराणाञ्च तिरश्चाञ्च चकार सा । तत्प्रसूत्या पृथुं प्रीतिं तत्सत्यं प्रियकारिणी ॥ २६८ ॥  
 मुखाम्भोजानि सर्वेषां तदाकस्माद्दधुः श्रियम् । प्रमुक्तानि प्रसूनानि प्रमोदास्त्राणि वा दिवा ॥ २६९ ॥  
 ननादानकसङ्घातो ननाट प्रमदागणः । २ जगाद् गायकानीकः पपाठौघोऽपि वन्दिनाम् ॥ २७० ॥  
 अवातरन्सुराः सर्वेऽप्युद्वास्यावासमात्मानः । मायाशिशुं पुरोधाय मातुः सौधर्मनायकः ॥ २७१ ॥  
 नागेन्द्रस्कन्धमारोप्य बालं भास्करभास्वरम् । तत्तेजसा दिशो विश्वाः काशयन्मराहृतः ॥ २७२ ॥  
 सम्प्राप्य मेरुमारोप्य शिलायां सिंहविष्टरम् । अभिषिच्य ज्वलत्कुम्भैः क्षीरसागरवारिभिः २७३ ॥  
 विशुद्धपुद्गलारब्धदेहस्य विमलात्मनः । शुद्धिरेतस्य कामभोभिर्दुर्घैरशुचिभिः स्वयम् ॥ २७४ ॥  
 चोदितास्तीर्थकृष्णाम्ना स्वाम्नायोऽयं समागतः । इति कैङ्कर्यमस्यैव कृताभिषेचना वयम् ॥ २७५ ॥  
 अलं तदिति तं भक्त्या विभूष्योद्घविभूषणैः । वीरः श्रीवर्धमान<sup>३</sup>श्चेत्यस्याख्याद्वितयं व्यधात् ॥ २७६ ॥  
 ततस्तं स समानीय सर्वामरसमन्वितः । मानुरङ्गे निवेश्योच्चैर्विहितानन्दनाटकः ॥ २७७ ॥  
 विभूष्य पितरौ चास्य तयांविहितसंमदः । श्रीवर्धमानमानस्य ४स्वं धाम समगात्सुरैः ॥ २७८ ॥

लक्ष्मीका आधार था, भाईरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्य था, तानां लोकोका नायक था, मांत्तका मुख देनेवाला था, ममस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेवाला था, सूर्यके समान कान्तिवाला था, संसारको नष्ट करनेवाला था, कर्मरूपी शत्रुके मर्मको भेदन करनेवाला था, धर्मरूपी तीर्थका भार धारण करनेवाला था, निर्मल था, मुखका सागर था, और लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेके लिए एक सूर्यके समान था ॥ २६२-२६७ ॥ रानी प्रियकारिणीने उस बालकको जन्म देकर मनुष्यों, देवों और तिर्यञ्चोंको बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम साथेक हुआ था ॥ २६८ ॥ उस समय सबके मुख-कमलोंने अकस्मात् ही शोभा धारण की थी और आकाशसे आनन्दके आँसुओंके समान फूलोंकी वर्षा हुई थी ॥ २६९ ॥ उस समय नगाड़ोंका समूह शब्द कर रहा था, स्त्रियोंका समूह नृत्य कर रहा था, गानेवालोंका समूह गा रहा था और वन्दीजनोंका समूह मङ्गल पाठ पढ़ रहा था ॥ २७० ॥ सब देव लोग अपने-अपने निवासस्थान को उजड़ बनाकर नीचे उतर आये थे । तदनन्तर, सौधर्मेन्द्रने मायामय बालकको माताके सामने रखकर सूर्यके समान देदीप्यमान उस बालकको ऐरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया । बालकके तेजसे दशों दिशाओंको प्रकाशित करता और देवोंसे घिरा हुआ वह इन्द्र सुमेरु पर्वतपर पहुँचा । वहाँ उसने जिनबालकको पाण्डुकशिलापर विद्यमान सिंहासनपर विराजमान किया और क्षीरसागरके जलसे भर हुए देदीप्यमान कलशोंसे उनका अभिषेककर निम्न प्रकार स्तुति की । वह कहने लगा कि हे भगवन् ! आपकी आत्मा अत्यन्त निर्मल है, तथा आपका यह शरीर विशुद्ध पुद्गल परमाणुओंसे बना हुआ है इसलिए स्वयं अपवित्र निन्दनीय जलके द्वारा इनकी शुद्धि कैसे हो सकती है ? हम लोगोंने जो अभिषेक किया है वह आपके तीर्थकर नामकर्मके द्वारा प्रेरित होकर ही किया है अथवा यह एक आम्नाय है—तीर्थकरके जन्मके समय होनेवाली एक विशिष्ट क्रिया ही है इसीलिए हम लोग आकर आपकी किङ्करताको प्राप्त हुए हैं ॥ २७१-२७५ ॥ अधिक कहनेसे क्या ? इन्द्रने उन्हें भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूषितकर उनके वीर और श्रीवर्धमान इस प्रकार दो नाम रखे ॥ २७६ ॥ तदनन्तर सब देवोंसे घिरे हुए इन्द्रने, जिन-बालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें विराजमान किया, बड़े उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, माता पिताको आभूषण पहिनाये, उत्सव मनाया और यह सब कर चुकनेके बाद श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कारकर देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥ २७७-२७८ ॥

पाषाणतीर्थसन्ताने पञ्चाशद्द्विशताब्दके । तदभ्यन्तरवर्षाद्युर्महावीरोऽत्र जातवान् ॥ २७९ ॥  
 द्वाप्तसतिसमाः किञ्चिद्वृत्तस्तस्यायुषः स्थितिः । सप्तारभिमितोऽस्त्रेः सर्वलक्षणभूषितः ॥ २८० ॥  
 निःस्वेदत्वादिनिर्दिष्टदशात्मजगुणोदयः ॥ १भयसप्तकनिर्मुक्तः सर्वचेष्टाविराजितः ॥ २८१ ॥  
 सञ्जयस्यार्थसन्देहे सम्जाते विजयस्य च । जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्यालोकाप्रतः ॥ २८२ ॥  
 तत्सन्देहे ३ गते ताम्बां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । अस्त्रेषु सन्मतिर्देवो भावीति समुदाहृतः ॥ २८३ ॥  
 भयिनः किं पुनर्वाच्याः शब्दाश्च गुणगोचराः । अप्राप्तार्थाः परेष्वस्मिन्नर्थवन्तोऽभवन् यदि ॥ २८४ ॥  
 १त्यागोऽयमेव दोषोऽस्य शब्दा २दोषाभिधायिनः । पुष्कलार्थाः परत्रास्माद्गता दूरमनर्थकाः ॥ २८५ ॥  
 न गोमिन्यां न कीर्त्यां वा प्रीतिरस्याभवद्विभोः । गुणेष्विव सुलेख्यानां प्रायेण हि गुणाः प्रियाः ॥ २८६ ॥  
 तस्य कालवयोवाञ्छावशेनैलबिलः स्वयम् । भोगोपभोगवस्तुनि स्वर्गसारान्यहृदिवम् ४ ॥ २८७ ॥  
 शक्राज्ञया समानीय न्ययं प्रावर्तयत्सदा । अन्येषुः स्वर्गनाथस्य सभायामभवत्कथा ॥ २८८ ॥  
 देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तच्छ्रुतेः । देवः सङ्गमको नाम सप्रसासस्तं परीक्षितुम् ॥ २८९ ॥  
 दृष्टोद्यानवने राजकुमारैर्बहुभिः सह । काकपक्षधरैरेकवयोभिर्बाल्यचोदितम् ॥ २९० ॥  
 कुमारं भास्वराकारं द्रुमक्रीडापरायणम् । स विभीषयितुं वाञ्छन् महानागाकृतिं दधत् ॥ २९१ ॥  
 मूलाप्रभृति भूजस्य यावत्स्कन्धमवेष्टत ५ । विटपेभ्यो निपत्याशु धरित्रीं भयविह्वलाः ॥ २९२ ॥  
 प्रपलायन्त तं दृष्ट्वा बालाः सर्वे यथायथम् । महाभये समुत्पन्ने मूहतोऽन्यो न तिष्ठति ॥ २९३ ॥

श्री पाश्र्वनाथ तीर्थकरके बाद दो सौ पचास वर्ष वीत जानेपर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे उनकी आयु भी इसीमें शामिल है । कुछ कम बहत्तर वर्षकी उनकी आयु थी, वे सात हाथ ऊंचे थे, सब लक्षणोंसे विभूषित थे, पसीना नहीं आना आदि दशगुण उनके जन्म से ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशोभित थे ॥ २७९-२८१ ॥ एक बार सञ्जय और विजय नामके दो चारणमुनियोंका किसी पदार्थमें संदेह उत्पन्न हुआ था परन्तु भगवान्के जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये और उनके दर्शन मात्रसे ही उनका संदेह दूर हो गया इस-लिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थकर होनेवाला है, अर्थात् उन्होंने उनका सन्मति नाम रक्खा था ॥ २८२-२८३ ॥ गुणोंको कहनेवाले सार्थक शब्दोंकी तो बात ही क्या थी श्रीवीरनाथको छाड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द भी श्रीवीरनाथमें प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे ॥ २८४ ॥ उन भगवान्के त्यागमें यही दोष था कि दोषोंको कहनेवाले शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर खूब सार्थक हो जाते थे वहाँ वे ही शब्द उन भगवान्के पास आकर दूरसे ही अनर्थक हो जाते थे ॥ २८५ ॥ उन भगवान्की जैसी प्रीति गुणोंमें थी वैसी न लक्ष्मीमें थी और न कीर्तिमें ही थी । सो ठीक ही है क्योंकि शुभलेख्याके धारक पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते हैं ॥ २८६ ॥ इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन उन भगवान्के समय आयु और इच्छाके अनुसार स्वर्गकी सारभूत भोगोपभोगकी सब वस्तुएँ स्वयं लाया करता था और सदा खर्च करवाया करता था । किसी एक दिन इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर श्रीवर्धमान स्वामी ही हैं । यह सुनकर एक सङ्गम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया ॥ २८७-२८९ ॥ आते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारके धारक बालक वर्द्धमान, बाल्यावस्थासे प्रेरित हो, बालकों जैसे केश धारण करनेवाले तथा समान अवस्थाके धारक अनेक राजकुमारोंके साथ बगीचामें एक वृक्षपर चढ़े हुए क्रीड़ा करनेमें तत्पर हैं । यह देख संगम नामका देव उन्हें डरवानेकी इच्छासे किसी बड़े सांपका रूप धारणकर उस वृक्षकी जड़से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया । सब बालक उसे देखकर भयसे काँप उठे और शीघ्र ही डालियोंपरसे नीचे जमीनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक ही है क्योंकि महाभय उपस्थित होनेपर महापुरुषके सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥ २९०-२९३ ॥

१ मद्रसप्तक-ख० । २ तत्सन्देहगते ख० । ३ त्यागोऽयमेव ख० । ४ दोषोऽभिधायिनः क०, म० ।

५-प्यहर्निशम् ख०, ख० । ६-मधिष्ठितः ख० ।

ककजिह्वाक्षतात्पुत्रमास्त्र तमहिं विभीः । कुमारः क्रीडयामास <sup>१</sup>मातृपर्यङ्कवरादा ॥ २९४ ॥  
 विजृम्भमाणहर्षाभ्मोनिभिः सङ्गमकोऽमरः । स्तुत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥ २९५ ॥  
 त्रिंशच्छरन्नितस्तैश्च कौमारमगमद् वयः । ततोऽन्येषुर्मतिज्ञानक्षयोपशमभेदतः ॥ २९६ ॥  
 समुत्पन्नमहाबोधिः स्मृतपूर्वभवान्तरः । लौकान्तिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तुतः ॥ २९७ ॥  
 सकलामरसन्दोहकृतनिष्क्रमणक्रियः । स्ववाक्प्रीणिनसद्बन्धुसम्भावितविसर्जनः ॥ २९८ ॥  
 चन्द्रप्रभाख्यशिबिकामधिरूढो दृढव्रतः । ऊढां परिदृष्टैर्नृणां ततो विद्याधराधिपैः ॥ २९९ ॥  
 ततश्चानिमिषाधीशैश्चल्लक्षामरसंहतिः । प्रधमदध्रमराराधैः कोकिलालापनैरपि ॥ ३०० ॥  
 भाङ्गयद्वा प्रसूनौषैः प्रहसद्वा प्रमोदतः । पल्लवैरनुरागं वा स्वकीयं सप्रकाशयत् ॥ ३०१ ॥  
 नाथः षण्डवनं प्राप्य स्वयानादवदद्य सः । श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन <sup>२</sup>स्वप्रभापटलाद्युते ॥ ३०२ ॥  
 निविद्योदङ्मुखो धीरो रुद्ररत्नशिलालले । दशम्यां मार्गशीर्षस्य कृष्णायां क्षिप्रिने ॥ ३०३ ॥  
 हस्तोत्तरार्धयोर्मध्यं भागं <sup>३</sup>वापास्तलक्ष्मणि । दिवसावसितौ धीरः संयमाभिमुखोऽभवत् ॥ ३०४ ॥  
 वस्त्राभरणमाख्यानि <sup>४</sup> स्वयं शक्रः समाददे । मुक्तान्येतेन पूतानि मत्वा माहात्म्यमीदृशम् ॥ ३०५ ॥  
 भङ्गरागोऽङ्गलप्रोऽस्य सगन्धोऽहं कथं मया । मोक्ष्योऽयमिति मत्वेव स्थितः शोभां समुद्बहन् ॥ ३०६ ॥  
 मलिनाः कुटिला मुषैः पूज्यास्त्याज्या मुमुक्षुभिः । केशाः छेशसमास्तेन यूना मूलास्तमुद्धृताः ॥ ३०७ ॥

जो लहलहाती हुई सौ जिह्वाओंसे अत्यन्त भयंकर दिव्य रहा था ऐसे उस सर्पपर चढ़कर कुमार महावीरने निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार कि मानाके पलंगपर किया करते थे ॥ २९४ ॥ कुमारकी इस क्रीड़ामे जिसका हर्षरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम देवने भगवानकी स्तुति की और 'महावीर' यह नाम रक्खा ॥ २९५ ॥ इस प्रकार तीस वर्षोंमें भगवानका कुमार काल व्यतीत हुआ । तदनन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोंपशमविशेषसे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया और पूर्वभवका स्मरण हो उठा । उसी समय स्तुति पढ़ते हुए लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥ २९६-२९७ ॥ समस्त देवोंके समूहने आकर उनके निष्क्रमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर वचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्नकर उनसे विदाली । तदनन्तर व्रतोंको दृढ़तासे पालन करनेवाले वे भगवान् चन्द्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार हुए । उस पालकीको सबसे पहले भूमिगाचरी राजाओंने, फिर विद्याधर राजाओंने और फिर इन्द्रोंने उठाया था । उनके दोनों ओर चामरोंके समूह टुल रहे थे । इस प्रकार वे षण्ड नामके उस वनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरोंके शब्दों और कोकिलाओंकी कमनीय कूकसे ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो, फूलोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो हर्षसे हँस ही रहा हो, और लाल-लाल पल्लवोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥ २९८-३०१ ॥ अतिशय श्रेष्ठ भगवान् महावीर, षण्डवनमें पहुँचकर अपनी पालकीसे उतर गये और अपनी ही कान्तिके समूहसे धिरी हुई रत्नमयी बड़ी शिलापर उत्तरकी ओर मुँहकर तैलाका नियम ले विराजमान हो गये । इस तरह मंगसिर वदी दशमीके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमें था, तब संध्याके समय अतिशय धीर-वीर भगवान् महावीरने संयम धारण किया ॥ ३०२-३०४ ॥ भगवान्ने जो वस्त्र, आभरण तथा माला, आदि उतारकर फेंक दिये थे उन्हें इन्द्रने स्वयं उठा लिया सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्का माहात्म्य ही ऐसा था ॥ ३०५ ॥ उस समय भगवान्के शरीरमें जो सुगन्धित अङ्गराग लगा हुआ था वह सोच रहा था कि मैं इन उराम भगवान्को कैसे छोड़ दूँ? ऐसा विचारकर ही वह मानो उनके शरीरमें स्थित रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ ३०६ ॥ मलिन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनोंके द्वारा पूज्य होते हैं परन्तु मुमुक्षु लोग उन्हें त्याग्य समझते हैं ऐसा जानकर ही मानो उन तरुण भगवान्ने मलिन और कुटिल ( काले और धुंधुराले ) केश जड़से उखाड़कर दूर फेंक दिये

सुरार्थीशः स्वहस्तेन तान्प्रतीक्ष्य महामणि । ज्वलत्पटलिकामध्ये विन्यस्याभ्यर्च्य मानितान् ॥ ३०८ ॥  
 विभिन्नकरवक्षेण पिपाय विष्टतान्सुरैः । स्वयं गत्वा समं क्षीरवारिराशौ न्यवेशयत् ॥ ३०९ ॥  
 तपोलक्ष्या निगूढोऽभूद्दार्ढ्यं बाढममूढधीः । अभ्येत्य मोक्षलक्ष्मीष्टशफल्ब्ये विदग्धया ॥ ३१० ॥  
 अन्तर्ग्रन्थपरित्यागात्तस्य नैर्ग्रन्थमाबभौ । भोगिनोऽन्यस्य निर्मोकत्यागवन्नावभासते ॥ ३११ ॥  
 चतुर्थोऽप्यवबोधोऽस्य संयमेन समर्पितः । तदैवान्यावबोधस्य सत्यङ्कार इवेशितुः ॥ ३१२ ॥  
 अप्रमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्राज्यकण्ठिका । <sup>१</sup>तपस्तेन <sup>२</sup>तदालम्बि तत्कथं स्यात्प्रमादिनः ॥ ३१३ ॥  
 चतुर्थज्ञाननेत्रस्य निसर्गबलशालिनः । तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयं तु प्रमादिनाम् ॥ ३१४ ॥  
 सिंहेनैव मया प्राप्तं वने मुनिमताद् व्रतम् । मत्वेवेत्येकतां तत्र सैहीं वृत्ति समाप सः ॥ ३१५ ॥  
 अतीक्षणनखदंष्ट्रोऽयमक्रूरोऽरक्तकेसरः । शौर्यैकत्ववनस्थानैरन्वयान्मृगविद्विषम् ॥ ३१६ ॥  
 सुराः सर्वेऽपि नचैनमेतत्साहससंस्तवे । सक्ताः समगमन् स्वं स्वमोकः सन्तुष्टचेतसः ॥ ३१७ ॥  
 अथ भट्टारकोप्यस्मादगात्कायस्थितिं प्रति । कूलग्रामपुरीं<sup>३</sup> श्रीमान्<sup>४</sup> ज्योमगामिपुरोपमम् ॥ ३१८ ॥  
 कूलनाम महीपालो दृष्ट्वा तं भक्तिभावितः । प्रियङ्गुकुसुमाङ्गाभङ्गिः परीत्य प्रदक्षिणम् ॥ ३१९ ॥  
 प्रणम्य पादयोर्मुखं<sup>५</sup> निधि वा गृहमागतम् । प्रतीक्ष्यार्ध्यादिभिः <sup>६</sup>पूज्यस्थाने सुस्थाप्य सुव्रतम् ॥ ३२० ॥  
 गन्धादिभिर्विभूष्यैतत्पादोपान्तमहीतलम् । परमाञ्च <sup>७</sup>त्रिशुद्धयाम् सौऽदित्येष्टार्थसाधनम् ॥ ३२१ ॥

थे ॥ ३०७ ॥ इन्द्र ने वं सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोंके देदीप्यमान पिटारमें रखकर उनकी पूजा की, आदर साकार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी वस्त्रसे उन्हें लपेटकर रक्खा और फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीरसागरमें पधरा दिया ॥ ३०८-३०९ ॥ मोक्षलक्ष्मीकी इष्ट और चतुर दूतीके समान तपोलक्ष्मीने स्वयं आकर उनका आलिङ्गन किया था ॥ ३१० ॥ अंतरङ्ग परिग्रहोका त्याग कर देनेसे उनका निर्ग्रन्थपना अच्छी तरह सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार साँपका केवल कांचली छोड़ना शोभा नहीं देता उसी प्रकार केवल बाह्य परिग्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता ॥ ३११ ॥ उसी समय संयमने उन भगवानको केवलज्ञानके वयानेके समान चौथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥ ३१२ ॥ अप्रमत्त गुणस्थानमें जाकर उन भगवानने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त किया था वह प्रमादी जीवको कहां सुलभ है ? ॥ ३१३ ॥ मनःपर्ययज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले और स्वाभाविक बलसे सुशोभित उन भगवानके पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापनाचरित्र प्रमादी जीवोंके ही होता है ॥ ३१४ ॥ मैंने पहले सिंह पर्यायमें ही वनमें मुनिराजके उपदेशसे व्रत धारण किये थे यही समझकर मानो उन्होंने सिंहके साथ एकताका ध्यान रखते हुए सिंहवृत्ति धारण की थी ॥ ३१५ ॥ यद्यपि उनके सिंहके समान तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दाँड़े नहीं थीं, वे सिंहके समान क्रूर नहीं थे और न सिंहके समान उनकी गरदनपर लाल बाल ही थे फिर भी शूरवीरता, अकेला रहना तथा वनमें ही निवास करना इन तीन विशेषताओंसे वे सिंहका अनुकरण करते थे ॥ ३१६ ॥ सब देव, उन भगवान् को नमस्कारकर तथा उनके साहसकी स्तुति करनेमें लीन हो संतुष्टचित्त हो कर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३१७ ॥

अथानन्तर पारणाके दिन वे भट्टारक महावीर स्वामी आहारके लिए वनसे निकले और विद्याधरोंके नगरके समान सुशोभित कूलग्राम नामकी नगरीमें पहुँचे । वहां प्रियङ्गुके फूलके समान कान्ति वाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, चरणों में शिर झुकाकर नमस्कार किया और घर पर आई हुई निधिके समान माना । उत्तम व्रतोंको धारण करने वाले उन भगवान्को उस राजाने श्रेष्ठ स्थान पर बैठाया, अर्घ्य आदिके द्वारा उनकी पूजा की, उनके चरणोंके समीपवर्ती भूतलको गन्ध आदिकसे विभूषित किया और उन्हें मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ इष्ट अर्थको सिद्ध करने वाला परमान्न ( खीरका आहार ) समर्पण किया ।

१ तपस्विना ल० । तपःस्थेन इत्यापि क्वचित् । २ सतालम्बि ल० । समालम्बि ल० । ३ पुरम् इति क्वचित् । ४ श्रीमद् ल० । ५ विधिना इति क्वचित् । ६ पूज्यं घ०, क० । ७ विशुद्धया ल० ।

आनुषङ्गिकमेतत्से फलं भावि महत्तरम् । इति वक्तुमिवाश्वर्यपञ्चकं तद्गृहेऽभवत् ॥ ३२२ ॥  
 पुण्यहेतुविनेयानां वीरो निर्गत्य तद्गृहात् । विहितेषु विविधैः विविधैः ॥ ३२३ ॥  
 विषयद्रुमसङ्कीर्णं करणाटविकोक्तम्<sup>३</sup> । परीपहमहाघोरविश्वधापदसङ्कुलम् ॥ ३२४ ॥  
 कपायमत्तमातङ्गसङ्घातघातसन्ततम् । विवृतास्पान्तकानन्तकुम्भीनसविभीषणम् ॥ ३२५ ॥  
 चतुर्विधोपसर्गोप्रकण्ठीरवकठोरितम् । विघ्नौघतस्करारुद्धं त्यक्त्वा भववनं शनैः ॥ ३२६ ॥  
 तपोवनं सतां सेव्यमध्याहृतसुखावहम् । महाजनसमाकीर्णं विस्तीर्णमनुपप्लुतम् ॥ ३२७ ॥  
 महाव्रतमहासामन्तान्वितः सुनयानुगः । दर्शनज्ञानचारित्र्यं<sup>४</sup> कशक्तित्रयोजितः ॥ ३२८ ॥  
 शीलायुधो गुणव्रातकवचः शुद्धमार्गः । सद्भावनासहायः सन् प्रविश्य परमः पुमान् ॥ ३२९ ॥  
 "आवसंस्तत्र निशङ्कं नानायोगान्प्रवर्तयन् । धर्म्यध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन् दशविधं मुहुः ॥ ३३० ॥  
 उज्जयिन्यामथान्येषुस्तं श्मशानेऽतिमुक्तके । वर्धमानं महासत्त्वं प्रतिमायोगधारिणम् ॥ ३३१ ॥  
 निरीक्ष्य स्थणुरेतस्य दौष्ट्याद्धैर्यं परीक्षितुम् । उत्कृत्य कृत्तिकास्तीक्ष्णाः प्रविष्टजटराण्यलम् ॥ ३३२ ॥  
 "व्याप्ताननाभिभीष्माणि नृत्यन्ति चिद्विधैर्लघैः । तर्जयन्ति स्फुरद्ध्वानैः सादृहासैर्दुरीक्षणैः ॥ ३३३ ॥  
 स्थूलवेतालरूपाणि निशि कृत्वा समन्ततः । पराण्यपि फणीन्द्रेभसिहवह्वयानिलैः समम् ॥ ३३४ ॥  
 किरातसैन्यरूपाणि<sup>५</sup> पापैर्कार्जनपण्डितः । विद्याप्रभावसम्भावितोपसर्गैर्भयावहैः ॥ ३३५ ॥  
 स्वयं स्खलयितुं चेतः समाधेरसमर्थकः । स महतिमहावीराख्यां कृत्वा विविधाः स्तुतीः ॥ ३३६ ॥

यह तो तुम्हारे दानका आनुषङ्गिक फल है परन्तु इसका हानहार फल बहुत बड़ा है यही कहनेके लिए मानो उसके घर पञ्चाश्रयोकी वर्षा हुई ॥ ३१८-३२२ ॥ तदनन्तर शिष्योंका पुण्य बढ़ाने वाले वे भगवान् एकान्त स्थानोंमें विधिपूर्वक तप करनेकी इच्छामें उसके घरसे निकले ॥ ३२३ ॥ जो विषयरूपी वृत्तोंसे सङ्कीर्ण है, इन्द्रिय रूपी व्याधियोंसे भरा हुआ है, परीपह रूपी महाभयंकर सब प्रकारके दुष्ट जीवोंसे सहित है, कपाय रूपी मदान्मत्त हाथियोंके सैकड़ों समूहसे व्याप्त है, मुँह फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोंसे भयंकर है, चार प्रकारके उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंहोंसे कठोर है, और विघ्नोके समूह रूपी चारोंसे घिरा हुआ है ऐसे संसार रूपी उनको धीरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुष भगवान्ने, जो सज्जनोंके द्वारा सेवन करने योग्य है, जिसमें अव्यावाध—वाधारहित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्योंसे व्याप्त है, विस्तीर्ण है और सब तरहके उपद्रवोंसे रहित है ऐसे तपोवनमें, महाव्रत रूपी महा सामन्तों सहित, उत्तम नयोंकी अनुकूलता धारणकर, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य रूपी प्रकट हुई तीन शक्तियोंसे अत्यन्त बलवान्, शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समूहका कवच पहिनकर, शुद्धता रूपी मार्गमें चलकर और उत्तम भावनाओं की सहायता लेकर प्रवेश किया ॥ ३२४-३२६ ॥) वहाँपर निःशङ्क रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति की और एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-बार दश प्रकारके धर्म्यध्यानका चिन्तन किया ॥ ३३० ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन अतिशय धीर वीर वर्धमान भगवान् उज्जयिनीके अतिमुक्तक नामक श्मशानमें प्रतिमा योगसे विराजमान थे । उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्रने अपनी दुष्टतासे उनके धैर्यकी परीक्षा करनी चाही । उसने रात्रिके समय ऐसे अनेक बड़े-बड़े वेतालोंका रूप बनाकर उपसर्ग किया कि जो तीक्ष्ण चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उदरमें प्रवेश करना चाहते थे, खोले हुए मुँहोंसे अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोंसे नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों, अदृहास और विकराल दृष्टिसे डरा रहे थे । इनके सिवाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, अग्नि और वायुके साथ भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया । इस प्रकार एक पापका ही अर्जन करनेमें निपुण उस रुद्रने, अपनी विद्याके प्रभावेने किये हुए अनेक भयंकर उपसर्गोंसे उन्हें समाधिसे विचलित करनेका प्रयत्न

१ विभक्तेषु क्वचित् । २ विविधं तपः क्वचित् । ३ करणाटविधोक्तम् ल० । ४ व्यक्ति ल० । ५ भाव यंस्तत्र क०, ख०, ग०, घ०, म० । ६ व्याप्ताननानि भीष्माणि क्वचित् । ७ पापोपार्जनपण्डितः क्वचित् ।

उमया सममाख्याय नतित्वागादमत्सरः । पापिनोऽपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पष्टं दृष्टसाहसाः ॥ ३३७ ॥  
 कदाचिच्छेटकाख्यास्य नृपतेश्चन्दनाभिधाम् । सुतां वीक्ष्य वनक्रीडासक्तां कामशरानुरः ॥ ३३८ ॥  
 कृतोपायो गृहीत्वैनां कश्चिन्नृपञ्चभ्ररः । पञ्चाङ्गित्वा स्वभार्याया महादृष्ट्यां व्यसर्जयत् ॥ ३३९ ॥  
 वनेचरपतिः कश्चित्प्राणलोक्य धनेच्छया । पुनां वृषभदत्तस्य <sup>१</sup>वाणिजस्य समर्पयत् ॥ ३४० ॥  
 तस्य भार्या सुभद्राख्या तया सम्पर्कमात्मनः । बणिजः <sup>२</sup>शङ्कमानासौ पुराणं <sup>३</sup>कोद्रवौदनम् ॥ ३४१ ॥  
 आरनालेन सम्मिश्रं शरावे निहितं सदा । दिशती शृङ्खलाबन्धभागिनीं तां व्यधाद्रुपा ॥ ३४२ ॥  
 परेद्युर्वत्सदेशस्य कौशाम्बीनगरान्तरम् । कायस्थित्यै विशन्तं तं महावीरं विलोक्य सा ॥ ३४३ ॥  
 प्रत्युद्भवजन्ती विच्छिन्नशृङ्खलाकृतबन्धना । लोलालिकुलीलोरुकेशभाराच्चलाचलात् ॥ ३४४ ॥  
 विगलन्मालतीमालादिव्याम्बरविभूषणा । नवप्रकारपुण्येशा भक्तिभावभरानता ॥ ३४५ ॥  
 शीलमाहात्म्यसम्भूतप्रथुहेमशराविका । शाल्यन्नभाववत्कोद्रवौदनं <sup>४</sup>विधिवत्सुधीः ॥ ३४६ ॥  
 भङ्गमाश्राणयत्समै तेनाप्याश्चर्यपञ्चकम् । बन्धुभिश्च समायोगः कृतश्चन्दनया तदा ॥ ३४७ ॥  
 भगवान्बर्धमानोऽपि नीत्वा द्वादशवयससन् । समस्थेव जम्बूनजुर्गन्मिकप्रामसञ्चिधौ ॥ ३४८ ॥  
 ऋजुकूलानदीतीरे मनोहरवनान्तरे । महादहनशिलापट्टे प्रतिमायोगमावसन् ॥ ३४९ ॥  
 स्थित्वा षष्ठोपवासेन <sup>५</sup>सोऽधस्तात्सालभूरुहः । वैशाखे मासि सज्यांत्सदशम्यामपराङ्गके ॥ ३५० ॥  
 हस्तोत्तरान्तरं याते शशिन्यारूढशुद्धिकः । क्षपकश्रेणिमारुह्य शुक्लध्यानेन सुस्थितः ॥ ३५१ ॥

किया परन्तु वह उसमें समर्थ नहीं हो सका । अन्तमें उसने भगवान्के महति और महावीर ऐसे दो नाम रख कर अनेक प्रकारकी स्तुति की, पार्वतीके साथ नृत्य किया और सब मात्सर्यभाव छोड़ कर वह वहाँसे चला गया सो ठीक ही है क्योंकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखने वाले पापी जीव भी सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ३३१-३३७ ॥

अथानन्तर—किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री वनक्रीडामें आसक्त थी, उसे देख कोई विद्याधर कामवाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायसे लेकर चलता बना । पीछे अपनी स्त्रीसे ढरकर उसने उस कन्याको महाद्वीमें छोड़ दिया ॥ ३३८-३३९ ॥ वहाँ किसी भीलने देख कर उसको धनकी इच्छासे वृषभदत्त सेठको दी ॥ ३४० ॥ उस सेठकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था उसे शंका हो गई कि कहीं अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाय । इस शङ्कासे वह चन्दनाको खानेके लिए मिट्टीके शकोरामें कांजीमे मिला हुआ कोदोंका भात दिया करती थी और क्रोध वश उसे सदा सांकलसे बाँधे रहती थी ॥ ३४१-३४२ ॥ किसी दूसरे दिन वत्स देशकी उसी कौशाम्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान् महावीर स्वामी गये । उन्हें नगरीके भीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जाने लगी । उसी समय उसके सांकलके सब बन्धन टूट गये, चञ्चल भ्रमर-समुद्रके समान काले उसके बड़े-बड़े केश चञ्चल हो उठे और उनसे मालतीकी माला टूटकर नीचे गिरने लगी, उसके वस्त्र आभूषण सुन्दर हो गये, वह नव प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गई, भक्तिभावके भारसे मुक्त गई, शीलके माहात्म्यसे उसका मिट्टीका शकोरा सुवर्णपात्र बन गया और कोदोंका भात शाली चाँवलोंका भात हो गया । उस बुद्धिमतीने विधिपूर्वक पड़गाहकर भगवान्को आहार दिया इसलिये उसके यहाँ पञ्चाश्रयोंकी वर्षा हुई और भाई-बन्धुओंके साथ उसका समागम हो गया ॥ ३४३-३४७ ॥

इधर जगद्बन्धु भगवान् बर्धमानने भी छद्मस्थ अवस्थाके बारह वर्ष व्यतीत किये । किसी एक दिन वे जम्बिक ग्रामके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक वनके मध्यमें रत्नमयी एक बड़ी शिलापर सालवृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान हुए । वैशाख शुक्ला दशमीके दिन अपराहण कालमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके बीचमें चन्द्रमाके आ जाने पर परिणामोंकी विशुद्धताको बढ़ाते हुए वे क्षपकश्रेणीपर आरूढ हुए । उसी समय उन्होंने

१ वणिजोऽपत्यं पुमान् वाणिजः तस्य । २ शङ्कमानोऽसौ ल० । ३ कोद्रवौदनम् ल० । ४ कोद्रवोदनं क०, ख०, ग०, घ०, म० । ५ सोऽधःस्थात् ल० ।



धातिकर्माणि निर्मूल्य प्राप्थानन्तचतुष्टयम् । चतुस्त्रिंशदतीशेषव्याभासिमहिमालयः ॥ ३५२ ॥  
सयोगभागपर्यन्ते स्वपरार्थप्रसाधकः । परमौदारिकं देहं बिभ्रदभाङ्गणे बभौ ॥ ३५३ ॥  
चतुर्विधामरैः सार्धं सौधर्मैन्द्रस्तदागतः । तुर्थकल्याणसत्पूजात्रिभिः सर्वं समानयत् ॥ ३५४ ॥  
अपापप्राप्तितन्विज्यास्थायिकालिशयोर्जितः । <sup>१</sup>परमात्मपदं <sup>२</sup>प्रापत्परमेष्ठी स सम्मतिः ॥ ३५५ ॥  
अथ दिव्यध्वनेर्हेतुः को<sup>३</sup>भावीत्युपयोगवान् । तृतीयज्ञाननेत्रेण ज्ञात्वा मां परितुष्टवान् ॥ ३५६ ॥  
तद्देवागस्य मद्भ्रामं गौतमार्यं शचीपतिः । तत्र गौतमगोत्रोत्थमिन्द्रभूतिं द्विजोत्तमम् ॥ ३५७ ॥  
महाभिमानमादित्यविमानादेव्य<sup>४</sup>भास्वरम् । शोषैः पुण्यैः समुत्पन्नं वेदवेदाङ्गवेदिनम् ॥ ३५८ ॥  
दृष्ट्वा केनाप्युपायेन समानीयान्तिकं विभोः । स्वपिपृच्छिपितं जीवभावं पृच्छेत्यचोदयत् ॥ ३५९ ॥  
अस्ति किं नास्ति वा जीवस्तत्स्वरूपं निरूप्यताम् । इत्यप्राक्षमतो मद्भं भगवान्भव्यवत्सलः ॥ ३६० ॥  
अस्ति जीवः स चापाचदेहमात्रः सदादिभिः । किमादिभिश्च निर्देश्यो नोत्पन्नो न विनङ्क्ष्यति ॥ ३६१ ॥  
द्रव्यरूपेण पर्यायैः परिणामी प्रतिक्षणम् । चैतन्यलक्षणः कर्ता भोक्ता सर्वैकदेशवित् ॥ ३६२ ॥  
संसारो निर्बृत्तश्चेति द्वैविध्येन निरूपितः । अनादिरस्य संसारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥ ३६३ ॥  
न निर्बृत्तस्य संसारो नित्या कस्यापि संसृतिः । अनन्ताः संसृतौ मुक्तास्तदनन्ताः <sup>५</sup>सुलक्षिताः ॥ ३६४ ॥  
सन्ति व्ययेऽपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्त्यमेव तद्धेतुः शक्तीनामिव वस्तुनः ॥ ३६५ ॥

शुक्लध्यानकं द्वारा चारों धातिया कर्माका नष्टकर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये और चौतीस अतिशयोसे सुशोभित हो कर वे महिमाके घर हो गये ॥ ३४८-३५२ ॥ अब वे सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गये, निज और परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा परमौदारिक शरीरको धारण करते हुए आकाशरूपी आंगनमें सुशोभित होने लगे ॥ ३५३ ॥ उसी समय सौधर्म स्वर्गका इन्द्र चारों प्रकारके देवोंके साथ आया और उसने ज्ञानकल्याणक सम्बन्धी पूजाकी समस्त विधि पूर्ण की ॥ ३५४ ॥ पुण्यरूप परमौदारिक शरीरकी पूजा तथा समत्रसरणकी रचना होना आदि अतिशयोसे सम्पन्न श्रीवर्धमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे और परमात्मा पदको प्राप्त हो गये ॥ ३५५ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानकी दिव्यध्वनिका कारण क्या होना चाहिये इस बातका विचार किया और अवधिज्ञानसे मुझे उसका कारण जानकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ ॥ ३५६ ॥ वह उसी समय मेरे गाँवमें आया । मैं वहाँ पर गौतमगोत्रीय इन्द्रभूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमान था, आदित्य नामक विमानसे आकर शेष वने हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था, मेरा शरीर अतिशय देदीप्यमान था, और मैं वेद-वेदाङ्गका जानने वाला था ॥ ३५७-३५८ ॥ मुझे देखकर वह इन्द्र मुझे किसी उपायसे भगवानके समीप ले आया और प्रेरणा करने लगा कि तुम जीव तत्त्वके विषयमें जो कुछ पृच्छना चाहते थे सो पूछ लो ॥ ३५९ ॥ इन्द्रकी बात सुनकर मैंने भगवानसे पूछा कि हे भगवन् ! जीव नामका कोई पदार्थ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिये । इसके उत्तरमें भव्यवत्सल भगवान् कहने लगे कि जीव नामका पदार्थ है और वह ग्रहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या आदि सदादिक और निर्देश आदि किमादिकसे उसका स्वरूप कहा जाता है । वह द्रव्य रूपसे न कर्मा उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिक्षण परिणमन करता है । चेतना उसका लक्षण है, वह कर्ता है, भोक्ता है, और पदार्थोंके एकदेश तथा सर्वदेशका जानकार है ॥ ३६०-३६२ ॥ संसारी और मुक्तके भेदसे वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है । इसका संसार अनादि कालसे चला आ रहा है और मोक्ष सादि माना जाता है ॥ ३६३ ॥ जो जीव मोक्ष चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता अर्थात् वह लौटकर संसारमें नहीं आता । किसी-किसी जीवका संसार नित्य होता है अर्थात् वह अभ्यय या दूराद्दूर भव्य होनेके कारण सदा संसारमें रहता है । इस संसारमें अनन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त जीव ही अभी बाकी हैं । कर्मबन्धनमें बंधे हुए जीवोंमेंसे

१ परमात्मा-इति कवित् । २ प्राप म०, ल० । ३ कोऽसावीत्युप-ल० । ४-दित्यभासुरं ल० । ५ सुलक्षिता क०, ख०, ग०, घ०, म० ।

इति जीवस्य याथात्म्यं युक्त्या व्यक्तं न्यवेद्यत् । द्रव्यहेतुं विधायास्य वचः कालादिसाधनः ॥ ३११ ॥  
 विनेयोऽहं कृतश्राद्धो जीवतस्त्वविनिश्चये । सौधर्मपूजितः पञ्चशतब्राह्मणसूनुभिः ॥ ३१० ॥  
 श्रीवर्धमानमानस्य संयमं प्रतिपद्यमान् । तदैव मे समुत्पन्नाः परिणामविशेषतः ॥ ३१८ ॥  
 ऋद्धयः सप्तसर्वाङ्गानामप्यर्थपदान्यतः । भट्टारकोपदेशेन श्राद्धेण बहुले तिष्ठैः ॥ ३१९ ॥  
 पक्षादावर्थरूपेण सद्यः पर्याणमन् स्फुटम् । पूर्वाह्णे पश्चिमे भागे पूर्वाणामप्यनुकमात् ॥ ३०० ॥  
 इत्यनुज्ञातसर्वाङ्गपूर्वार्थो धीचतुष्कवान् । अङ्गानां ग्रन्थसन्दर्भं पूर्वरात्रौ व्यधामहम् ॥ ३०१ ॥  
 पूर्वाणां पश्चिमे भागे ग्रन्थकर्ता ततोऽभवम् । इति श्रुतद्धिभिः पूर्णोऽभूवं गणभृदादिमः ॥ ३०२ ॥  
 ततः परं जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यग्निभृत्किौ । सुधर्ममौर्यौ मौन्द्राख्यः पुत्रमैत्रेयसम्भक्तौ ॥ ३०३ ॥  
 अकम्पनोऽन्धवेलाख्यः प्रभासश्च भया सह । एकादशेन्द्रसम्पूज्याः सन्मतेर्गणनायकाः ॥ ३०४ ॥  
 शतानि त्रीणि पूर्वाणां धारिणः शिक्षकाः परे । शून्यद्वितयरन्ध्रादिरन्ध्रोक्ताः सत्यसंयमाः ॥ ३०५ ॥  
 सहस्रमेकं त्रिज्ञानलोचनास्त्रिशताधिकम् । पञ्चमावगमाः सप्तशतानि परमेष्ठिनः ॥ ३०६ ॥  
 शतानि नवविज्ञेया विक्रियद्धिविद्विंशतिः । शतानि पञ्च सम्पूज्याश्चतुर्थज्ञानलोचनाः ॥ ३०७ ॥  
 षतुःशतानि सन्प्रोक्तास्तत्रानुत्तरवादिनः । चतुर्दशसहस्राणि पिण्डिताः स्युर्मुनीश्वराः ॥ ३०८ ॥  
 चन्दनाद्यायिकाः शून्यत्रयषड्वह्निसम्मिताः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ३०९ ॥  
 देवा देव्योप्यसंख्यातास्तित्यञ्चः कृतसङ्ख्यकाः । गणैर्द्वादशभिः प्रोक्तैः परीतेन जिनेशिना ॥ ३१० ॥  
 सिंहाविष्टरमध्यस्थेनार्धमागधभाषया । पड्द्रव्याणि पदार्थाश्च सप्तसंस्तृतिमांक्षयोः ॥ ३११ ॥

मुक्त हो जानेपर हानि अवश्य होती है परन्तु उनका क्षय नहीं होता और उमका कारण जीवोंका अनन्तपना ही है । जिस प्रकार पदार्थमें अनन्त शक्तियाँ रहती हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसी प्रकार संसारमें अनन्त जीव रहते हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता ॥ ३६४-३६५ ॥ इस प्रकार भगवान्ने युक्ति पूर्वक जीव तत्त्वका स्पष्ट स्वरूप कहा । भगवान्के वचनका द्रव्यहेतु मानकर तथा काललब्धि आदिकी कारण सामग्री मिलनेपर मुझे जीवतत्त्वका निश्चय हो गया और मैं उसकी श्रद्धाकर भगवान्का शिष्य बन गया । तदनन्तर सौधर्मैन्द्रने मेरी पूजा की और मैंने पाँच सौ ब्राह्मणपुत्रोंके साथ श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कारकर संयम धारण कर लिया । परिणामोंकी विशेष शुद्धि होनेसे मुझे उसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गईं । तदनन्तर भट्टारक वर्धमान स्वामीके उपदेशसे मुझे श्रावण वदी प्रतिपदाके दिन पूर्वाह्ण कालमें समस्त अङ्गोंके अर्थ और पद स्पष्ट जान पड़े । इसी तरह उसी दिन अपराह्ण कालमें अनुक्रमसे पूर्वोंके अर्थ तथा पदोंका भी स्पष्ट बोध हो गया ॥ ३६६-३७० ॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वोंका ज्ञान हुआ है और जो चार ज्ञानसे सम्पन्न है ऐसे मैंने रात्रिके पूर्व भागमें अङ्गोंकी और पिछले भागमें पूर्वोंकी ग्रन्थ-रचना की । उसी समयसे मैं ग्रन्थकर्त्ता हुआ । इस तरह श्रुतज्ञान रूपी ऋद्धिसे पूर्ण हुआ मैं भगवान् महावीर स्वामीका प्रथम गणधर हो गया ॥ ३७१-३७२ ॥ इसके बाद वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मौर्य, मौन्द्रय, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्धवेला तथा प्रभास ये गणधर और हुए । इस प्रकार मुझे मिलाकर श्रीवर्धमान स्वामीके इन्द्रों द्वारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥ ३७३-३७४ ॥ इनके सिवाय तीन सौ ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्वोंके धारक थे, नौ हजार नौ सौ यथार्थ संयमका धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हजार तीन सौ अवधिज्ञानी थे, सात सौ केवलज्ञानी परमेष्ठी थे, नौ सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, पाँच सौ पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे और चार सौ अनुत्तरवादी थे इस प्रकार सब मुनीश्वरोंकी संख्या चौदह हजार थी ॥ ३७५-३७८ ॥ चन्दनाको आदि लेकर छत्तीस हजार आयिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव देवियाँ थीं, और संख्यात तिर्यञ्च थे । इस प्रकार ऊपर कहे हुए बारह गणोंसे परिवृत भगवान्ने सिंहासनके मध्यमें स्थित हो अर्धसागधी भाषाके द्वारा छह द्रव्य, सात तत्त्व, संसार और मोक्षके

१ प्रत्ययस्तत्फलञ्चैतत्सर्वमेव प्रपञ्चतः । प्रमाणनयनिक्षेपाद्युपायैः सुनिरूपितम् ॥ ३८२ ॥  
 २ औपत्तिकादिधीशुक्ताः श्रुतवन्तः सभासदाः । केचित्संयमापन्नाः संयमासंयमं परे ॥ ३८३ ॥  
 सम्यक्त्वमपरे सद्यः स्वभयस्त्वविशेषतः । एवं श्रीवर्धमानेशो विदुषधर्मदेशनाम् ॥ ३८४ ॥  
 क्रमाद्वाजगृहं प्राप्य तस्थिवान् विपुलाचले । श्रुत्वैतदागमं सद्यो मगधेशत्वमागतः ॥ ३८५ ॥  
 इति सर्वं समाकर्ण्य प्रतुष्टः प्रणतो मुहुः । जालसंवेगनिर्वेदः स्वपूर्वभवसन्ततिम् ॥ ३८६ ॥  
 भन्वयुक् क गणाधीशं सोऽपीति प्रत्यब्रुवुधत् । त्रिपष्टिलक्षणं पूर्वं पुराणं पृष्टमादितः ॥ ३८७ ॥  
 निर्दिष्टञ्च मया स्पष्टं श्रुतञ्च भवता स्फुटम् । शृणु चित्तं समाधाय श्रेणिक श्रावकोत्तम<sup>३</sup> ॥ ३८८ ॥  
 वृत्तकं तव वक्ष्यामि भवभ्रयनिबन्धनम् । इह जन्ममति द्वीपे विन्ध्यादौ<sup>४</sup> कुटजाह्वये ॥ ३८९ ॥  
 वने खदिरसाराख्यः किरातः सोऽन्यदा मुनिम् । समाधिगुप्तनामानं समीक्ष्य व्यनमन्मुदा ॥ ३९० ॥  
 धर्मलाभोऽस्तु तेऽद्येति चाकृताशासनं मुनिः । 'स धर्मो नाम किरूपस्तेन किं कृत्यमङ्गिनाम् ॥ ३९१ ॥  
 किरातेनेति सप्रपृष्टः सोऽपीति प्रत्यभाषत । निवृत्तिर्मधुमांसादिसेवायाः पापहेतुतः ॥ ३९२ ॥  
 स धर्मस्तस्य लाभो यो धर्मलाभः स उच्यते । तेन कृत्यं परं पुण्यं पुण्यात्स्वर्गं सुखं परम् ॥ ३९३ ॥  
 श्रुत्वा तन्नाहमस्य स्यामित्युवाच वनेचरः । 'तदाकृतं वितर्क्याह मुनिः किं काकमांसकम् ॥ ३९४ ॥  
 भव्य भक्षितपूर्वं ते न वेति सुधियां वरः । तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याख्यरक्तदापि न भक्षितम् ॥ ३९५ ॥  
 मयेत्येवं यदि व्याज्यं तत्त्वयेत्यब्रवीन्मुनिः । सोऽपि तद्वाक्यमाकर्ण्य प्रतुष्टो दीयतां व्रतम् ॥ ३९६ ॥  
 तदित्यादाय वन्दित्वा गतस्तस्य कदाचन । व्याधावसाभ्ये सम्भूते काकमांसस्य भक्षणान् ॥ ३९७ ॥

कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय और निक्षेप आदि उपायोंके द्वारा विस्तारपूर्वक निरूपण किया। भगवानका उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने ही शास्त्रज्ञ सभासदोंने संयम धारण किया, कितनों ही ने संयमासंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी विशेषतासे शीघ्र ही सम्यग्दर्शन धारण किया। इस प्रकार श्रीवर्धमान स्वामी धर्मदेशना करते हुए अनुक्रमसे राजगृह नगर आये और वहाँ विपुलाचल नामक पर्वतपर स्थित हो गये। हे मगधेश ! जब तुमने भगवानके आगमनका सभाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आये ॥ ३७६-३८५ ॥ यह सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसने बार-बार उन्हें प्रणाम किया, तथा संवेग और निर्वेदसे युक्त होकर अपने पूर्वभव पूछे। उसके उत्तरमें गणधर स्वामी भी सम्भ्रान्ते लगे कि तूने पहले तिरसठशलाका पुरुषोंका पुराण पढ़ा था सो मैंने स्पष्ट रूपसे तुम्हे कहा है और तूने उसे स्पष्ट रूपसे सुना भी है। हे श्रावकोत्तम श्रेणिक ! अब मैं तेरे तीन भवका चरित कहता हूँ सो तू चित्तका स्थिरकर सुन। इसी जन्मद्वीपके विन्ध्याचल पर्वतपर एक कुटज नामक वन है उसमें किसी समय खदिरसार नामका भील रहता था। एक दिन उसने समाधिगुप्त नामके मुनिराजके दर्शनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ३८६-३९० ॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने 'आज तुम्हे धर्म लाभ हो' ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उस भीलने पूछा कि हे प्रभो ! धर्म क्या है ? और उससे लाभ क्या है ? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे कि मधु, मांस आदिका सेवन करना पापका कारण है अतः उससे विरक्त होना धर्म कहलाता है। उस धर्मकी प्राप्ति होना धर्मलाभ कहलाता है। उस धर्मसे पुण्य होता है और पुण्यसे स्वर्गमें परम सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ३९१-३९३ ॥ यह सुनकर भील कहने लगा कि मैं ऐसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता। मुनिराज उसका अभिप्राय समझ कर कहने लगे कि, हे भव्य ! क्या तूने कभी पहले कौआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भील, मुनिराजके वचन सुनकर और विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है। इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिये। मुनिराजके वचन सुनकर उसने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो ! यह व्रत मुझे दिया जाय ॥ ३९४-३९६ ॥ तदनन्तर

१ प्रत्ययः ल० । २ उपत्तिकादि ल० । ३ श्रावकोत्तमः ल० । ४ कुटजाह्वये ल० । ५ किरातः कौहशो धर्मस् ल० । ६ तदा कुल-ल० ।

शान्तिरन्वेति निदिष्टे भिषग्भिः स वनेचरः । प्रयान्त्वमी मम प्राणाः किं कृत्यमिव तैश्चरैः ॥ ३९८ ॥  
 व्रतं तपोधनान्यायो गृहीतं धर्ममिच्छता । कृतसङ्कल्पभङ्गस्य कुतस्तत्पुरुषव्रतम् ॥ ३९९ ॥  
 पापेनानेन मांसेन नाद्य प्राणिणिषाम्यहम् । इति नैच्छतादुक्तं तच्छ्रुत्वा तन्मैथुनः पुरात् ॥ ४०० ॥  
 सारसौस्थ्यात्समागच्छन् शूरवीरामिधानकः । महागहनमध्यस्थान्यप्रोधयृथिवीरुहः ॥ ४०१ ॥  
 अधस्ताद्योषितं काञ्चिद्रुदतीमभिवीक्ष्य सः । रोदिषीत्थं कुतो ब्रूहीत्यब्रवीत्साप्युवाच तम् ॥ ४०२ ॥  
 शृणु चित्तं समाधाय वनयक्षी वसाम्यहम् । वने खदिरसारस्ते मैथुनो व्याधिपीडितः ॥ ४०३ ॥  
 काकमांसनिवृत्त्यासौ पतिर्मम भविष्यति । गच्छस्त्वं तं परित्यक्तमांसं भोजयितुं पुनः ॥ ४०४ ॥  
 नरके घोरदुःखानां भाजनं कर्तुमिच्छसि । ततो मे रोदनं तस्मात्त्वज भद्र तवाग्रहम् ॥ ४०५ ॥  
 इति तद्देवताप्रोक्तमवगम्याटवीपतिः<sup>१</sup> । सम्प्राप्यातुरमालोक्य भिषङ्कथितमौषधम् ॥ ४०६ ॥  
 स्वया मयोपनोदार्थमुपयोक्तव्यमित्यसौ । जगाद सोऽपि तद्वाक्यमनिच्छन्नेवमब्रवीत् ॥ ४०७ ॥  
 त्वं मे प्राणसमो बन्धुर्मां जिजीवयिषुः स्निहा । ब्रवीष्येवं हितं नैवं जीवितं व्रतभङ्गनात् ॥ ४०८ ॥  
 दुर्गतिप्राप्तिहेतुत्वादिति तद्व्रतानिश्चितम् । ज्ञात्वा यक्षीप्रपञ्चं तं शूरवीरोऽप्यबोधयत् ॥ ४०९ ॥  
 तद्वृत्तान्तं विचार्यासौ श्रावकव्रतपञ्चकम् । समादायाखिलं जीवितान्ते सौधर्मकल्पजः ॥ ४१० ॥  
 देवोऽभवदनिर्देयः शूरवीरोऽपि दुःखितः । परलोकक्रियां कृत्वा स्वावासं समुपव्रजन् ॥ ४११ ॥  
 वटद्रुमसमीपस्थो यक्षि किं मे स मैथुनः । पतिस्तवाभवन्निति यक्षीमाहावदच्च सा ॥ ४१२ ॥  
 समस्तव्रतसम्पन्नो व्यन्तरत्वपराङ्मुखः । अभूत्सौधर्मकल्पेऽसौ पतिर्मम कथं भवेत् ॥ ४१३ ॥

वह भील व्रत लेकर चला गया । किसी एक समय उस भीलका असाध्य वीमारी हुई तब वैद्योंने बतलाया कि कौआका मांस खानेसे यह वीमारी शान्त हो सकती है । इसके उत्तरमें भीलने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जावें ? मुझे इन चञ्चल प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, मैंने धर्मकी इच्छासे तपस्वी- मुनिराजके समीप व्रत ग्रहण किया है । जो गृहीत व्रतका भङ्ग कर देता है उससे पुरुष व्रत कैसे हो सकता है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज जीवित नहीं रहना चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कौआका मांस खाना स्वीकृत नहीं किया । यह सुनकर उसका साला शूरवीर जो कि मारसौख्य नामक नगरसे आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने सघन वनके मध्यमें स्थित वट वृक्षके नीचे किसी स्त्रीको राती हुई देखा । उसे राती देख, मैंने पूछा कि तू क्यों रो रही है ? इसके उत्तरमें वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन । मैं बनकी यक्षी हूँ और इसी वनमें रहती हूँ । तेरा वहनोई खदिरसार रोगसे पीडित है और कौआका मांस त्याग करनेसे वह मेरा पति होगा ! पर अब तू उसे त्याग किया हुआ मांस खिलानेके लिए जा रहा है और उसे नरक गतिके भयंकर दुःखोंका पात्र बनाना चाहता है । मैं इसीलिए रो रही हूँ । हे भद्र ! अब तू अपना आग्रह छोड़ दे ॥ ४०७-४०९ ॥ इस प्रकार देवीके वचन सुनकर शूरवीर, वीमार-खदिरसारके पास पहुँचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैशने जो औषधि बतलाई है वह और नहीं तो मेरी प्रसन्नताके लिए ही तुझे खाना चाहिये । खदिरसार उसकी बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू प्राणोंके समान मेरा भाई है । स्नेह वश मुझे जीवित रखनेके लिए ही ऐसा कह रहा है परन्तु व्रत भंगकर जीवित रहना हिनकारी नहीं है क्योंकि व्रत भंग करना दुर्गतिकी प्राप्तिका कारण है । जब शूरवीरको निश्चय हो गया कि यह अपने व्रतमें दृढ़ है तब उसने उसे यक्षीका वृत्तान्त बतलाया ॥ ४०६-४०८ ॥ यक्षीके वृत्तान्तका विचारकर खदिरसारने श्रावकके पाँचों व्रत धारण कर लिये जिससे आयु समाप्त होनेपर वह सौधर्मस्वर्गमें अनुपम देव हुआ । इधर शूरवीर भी बहुत दुखी हुआ और पारलौकिक क्रिया करके अपने घर की ओर चला । मार्गमें वह उसी वटवृक्षके समीप खड़ा होकर उस यक्षीसे कहने लगा कि हे यक्षि ! क्या हमारा वह वहनोई तेरा पति हुआ है ? इसके उत्तरमें यक्षीने कहा कि नहीं, वह समस्त व्रतोंसे

प्रकृष्टदिव्यभोगानां भोक्तेति वननायकः । तत्त्वार्थं तद्वचो ध्यायन्नहो माहात्म्यमीदृशम् ॥ ४१४ ॥  
 व्रतस्याभीप्सितं सौख्यं प्रापयेदिति भावयन् । समाधिगुप्तमभ्येत्य श्रावकव्रतमग्रहीत ॥ ४१५ ॥  
 भण्योऽर्थमिति तं मत्वा यक्षी तत्पक्षपाततः । उपायेनानयज्जैनं धर्मं सा हि हितैपिता ॥ ४१६ ॥  
 स्वर्गाखदिरसारोऽपि द्विसागरमितायुषा । दिव्यं भोगोपभोगान्ते निदानात्प्रच्युतस्ततः ॥ ४१७ ॥  
 सन्तुः कुणिकभूपस्य श्रीमत्यां त्वमभूरसौ । अथान्यदा पिता तेऽसौ<sup>१</sup> मत्पुत्रेषु भवेत्पतिः ॥ ४१८ ॥  
 राज्यस्य कतमोऽप्रेति निमित्तैः सकलैरपि । सम्यक्परीक्ष्य सन्तुष्टो निसर्गात्क्षोहितस्त्वयि ॥ ४१९ ॥  
 राज्यस्याहोऽयमेवेति निश्चित्यापायशङ्कया । दायादेभ्यः परित्रातुं त्वां सुधीः कृत्रिमकृषा ॥ ४२० ॥  
 निराकरोत्पुरातास्माद्देशान्तरमभीयुषः । <sup>२</sup>अप्रकाशनृपादेशभयात्ताः सकलाः प्रजाः ॥ ४२१ ॥  
 नन्दिग्रामनिवासिन्यः प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । ज्ञानभोजनशय्यादिक्रियावैमुख्यमागमन् ॥ ४२२ ॥  
 ततस्त्वमपि केनापि ब्राह्मणेन समं व्रजन् । देवताजातिपाप<sup>३</sup>ण्डिमोहप्रतिविधायिनीः ॥ ४२३ ॥  
 कथाः प्ररूपयन्प्रीत्या नदीयस्थानमापिवान् । त्वद्वागिमत्वयुवत्वादिगुणरक्तमतिद्विजः ॥ ४२४ ॥  
 वितीर्णवान् सुतां तुभ्यं निजामापूर्णयौवनाम् । तत्पाणिग्रहणं कृत्वा चिरं तत्रावसः <sup>४</sup>सुखम् ॥ ४२५ ॥  
 कदाचित्केनचिद्धेतुनाथं राज्यं परित्यजन् । भवन्तं ब्राह्मणप्रामादानीय कुणिकक्षितिट् ॥ ४२६ ॥  
 स्वं राज्यं दत्त्वास्तुभ्यं त्वञ्च तत्प्रतिपालयन् । अनभिव्यक्तकांपः सन् पूर्वावज्ञानसंस्मृतेः ॥ ४२७ ॥  
 विभित्सुनिग्रहं सृष्टं नन्दिग्रामनिवासिनाम् । आदिष्टवान् करं तेषां निर्वाहुमनिदुष्करम् ॥ ४२८ ॥

सम्पन्न हो गया था अतः व्यन्तर यानिसे पराङ्मुख होकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ है वह मेरा पति कैसे हो सकता था ॥ ४१०-४१३ ॥ वह तो स्वर्गके श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है। इस प्रकार धनका स्वामी शरवीर, यक्षीके यथार्थ वचनोंपर विचार करता हुआ कहने लगा कि अहो ! व्रतका ऐसा माहात्म्य है ? अवश्य ही वह इच्छित सुख को प्राप्त कराता है। ऐसा विचारकर उसने समाधिगुप्त मुनिराजके समीप जाकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये ॥ ४१४-४१५ ॥ इस प्रकार उस यक्षीने उसे भव्य समझकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्म धारण कराया सो ठीक ही है क्योंकि हितैपिता—पर हितर्का चाह रखना, यही है ॥ ४१६ ॥ उधर खदिरसारका जीव भी दो सागर तक दिव्य भोगोंका उपभोगकर स्वर्गसे च्युत हुआ और यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानीसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है। अथानन्तर किमी दिन तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंमें राज्यका स्वामी वौन होगा ? उसने निमित्तज्ञानियोंके द्वारा बताया हुए समस्त निमित्तोंमें तेरी अच्छी तरह परीक्षा की और वह इस बातका निश्चय कर बहुत ही संतुष्ट हुआ कि राज्यका स्वामी तू ही है। तुझपर वह स्वभावसे ही स्नेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुझपर कोई संकट न आ पड़े इस भयसे दायादोंसे तेरी रक्षा करनेके लिए उस बुद्धिमानने तुम्हें बनावटी क्रोधसे उस नगरसे निकाल दिया। तू दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दिग्राममें पहुँचा। राजाकी प्रकट आज्ञाके भयसे नन्दिग्राममें रहने वाली ममस्त प्रजा तुम्हें देखकर न चठी और न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्योंकी व्यवस्था ही की, वह इन सबसे विमुख रही ॥ ४१७-४२२ ॥

तदनन्तर तू भी किसी ब्राह्मणके साथ आगे चला और देवमूढ़ता, जातिमूढ़ता तथा पापण्डिमूढ़ताका खण्डन करने वाली कथाओंको कहता हुआ बड़े प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँचा। तेरे वचनकौशल और यौवन आदि गुणोंसे अनुरञ्जित हो कर उस ब्राह्मणने तेरे लिए अपनी यौवनवती पुत्री दे दी और तू उसके साथ विवाहकर वहाँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा ॥ ४२३-४२५ ॥ किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तब उन्होंने उस ब्राह्मणके गाँवसे तुम्हें बुलाकर अपना सब राज्य तुम्हें दे दिया और तू भी राज्यका पालन करने लगा। यद्यपि तूने अपना क्रोध बाह्यमें प्रकट नहीं होने दिया था तो भी पहले किये हुए अनादर

१ ते स ल० । २ सुप्रकाशनृपादेशभयात् सकलाः ल० । ३ पाखण्ड-ल० । ४ तत्रावसत्सुखी ल० ।

भवतो विप्रकन्यायां सुतोऽभूदभयाङ्गयः । स कदाचिन्निरस्थानादागच्छंस्त्वां समीक्षितुम् ॥ ४२९ ॥  
 समं जनन्या सन्नन्दिप्रामे त्वत्तः समाकुलाः । प्रजाः समीक्ष्य ते कोपमुपायैः 'समशीशमत् ॥ ४३० ॥  
 नानोपायप्रवीणोयमभयाख्योऽस्तु पण्डितः । नाम्नेति विन्निराहूतः स तदा तेन धीमता ॥ ४३१ ॥  
 पुत्रेणानेन सार्धं त्वमिहाद्यैनमुपस्थितः । शृण्वन्पुराणसंज्ञावमित्याहाकर्ण्यं तद्वचः ॥ ४३२ ॥  
 सर्वं निधाय तच्चित्ते श्रद्धाभून्महती मते । जैने कुतस्तथापि स्यान्न मे व्रतपरिग्रहः ॥ ४३३ ॥  
 हृद्यनुश्रेणिकप्रश्नाद्वादीङ्गणनायकः । भोगसञ्जननाद्वाढमिथ्यात्वानुभवोदयात् ॥ ४३४ ॥  
 दुश्चरित्रान्महारम्भात्सञ्चित्यैनो निकाचितम् । नारकं बद्धवानायुस्त्वं प्रागेवात्र जन्मनि ॥ ४३५ ॥  
 बद्धदेवायुषोन्यायुर्नाङ्गी स्वीकुरुते व्रतम् । श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्त्वं नाग्रहीव्रतम् ॥ ४३६ ॥  
 पुराणश्रुतसम्भूतविशुद्धया करणत्रयात् । सम्यक्त्वमादिमं प्राप्य शान्तसप्तमहारजाः ॥ ४३७ ॥  
 अन्तर्मुहूर्तकालेन सम्यक्त्वोदयभाविता । क्षायोपशमिके स्थित्वा श्रद्धाने सञ्चलात्मके ॥ ४३८ ॥  
 सप्तप्रकृतिनिर्मूलक्षयात्क्षायिकमागतः । आज्ञामार्गोपदेशोत्थं सूत्रबीजसमुद्भवम् ॥ ४३९ ॥  
 सङ्क्षेपाद्विसृतेरथाच्चावासमवगाढकम् । परमायवगाढञ्च सम्यक्त्वं दशधोदितम् ॥ ४४० ॥  
 सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन पद्भद्रव्यादिषु या रुचिः । साज्ञा निस्सङ्गनिश्चलपाणिपात्रत्वलक्षणः ॥ ४४१ ॥  
 मोक्षमार्गं इति श्रुत्वा या रुचिर्मार्गंजा त्वसौ । त्रिषष्टिपुरुषादीनां या पुराणप्ररूपणात् ॥ ४४२ ॥

की याद आनेसे तू नन्दिप्रामके निवासियोंका अत्यन्त कठोर निग्रह करना चाहता था इसी इच्छासे तू ने वहाँ रहने वाले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं कर सकते थे ॥ ४२६-४२८ ॥ तेरे उस ब्राह्मणकी पुत्रीसे अभयकुमार नामका पुत्र हुआ था वह किसी समय अपने घरसे तेरे दर्शन करनेके लिए माताके साथ आ रहा था । जब वह नन्दिप्राममें आया तब उसने वहाँकी प्रजाको तुझसे अत्यन्त व्यग्र देखा, इसलिए उसने वहीं ठहर कर योग्य उपायोंसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ॥ ४२६-४३० ॥ तेरा वह अभय नामका पुत्र नाना उपायोंमें निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे 'पण्डित' इस नामसे पुकारा था ॥ ४३१ ॥ हे राजन् ! आज तू इहाँ उसी बुद्धिमान् पुत्रके साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण कर रहा है । इस प्रकार गणधर स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयमें धारण किये और कहा कि हे भगवन् ! यद्यपि मेरी जैनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं व्रत ग्रहण क्यों नहीं कर पाता ? ॥ ४३२-४३३ ॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त होनेपर गणधर स्वामीने कहा कि तूने इसी जन्ममें पहले भोगोंकी आसक्ति, तीव्र मिथ्यात्वका उदय, दुश्चरित्र और महान् आरम्भके कारण, जो बिना फल दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध कर लिया है । ऐसा नियम है कि जिसने देवायुको छोड़कर अन्य आयुका बन्ध कर लिया है वह उस पर्यायमें व्रत धारण नहीं कर सकता । हाँ, सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है । यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है ॥ ४३४-४३६ ॥ इस प्रकार पुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रभावसे मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंका उपशमकर प्रथम अर्थात् उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया ॥ ४३७ ॥ अन्तर्मुहूर्तके बाद उसके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनमें आ गया और उसके कुछ ही बाद सातों प्रकृतियोंका निर्मूल नाशकर वह ज्ञायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो गया । सम्यग्दर्शन उत्पत्तिकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है—आज्ञा, मार्ग, उपदेशोत्थ, सूत्रसमुद्भव, बीजसमुद्भव, संक्षेपज्ञ, विस्तारज्ञ, अर्थज्ञ, अवगाढ और परमावगाढ ॥ ४३८-४४० ॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदिमें श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं । मोक्षमार्ग परिग्रह रहित है, वस्त्र रहित है और पाणिपात्ररूप है इस प्रकार मोक्षमार्गका स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है वह मार्गज्ञ सम्यक्त्व है । तिरसेठ शलाका पुरुषोंका

श्रद्धा सद्यः समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्भवा । आचाराख्यादिमाङ्गोक्तपोभेदश्रुतेर्मुक्तम् ॥ ४४३ ॥  
 प्रादुर्भूता रुचिस्तज्जैः सूत्रजेति निरूप्यते । या तु बीजपदादानं पूर्वसूक्ष्मार्थजा रुचिः ॥ ४४४ ॥  
 बीजजासौ पदार्थानां सङ्क्षेपोक्तया समुद्भवा । या सा सारङ्क्षेपजा यान्या तस्या विस्तारजा तु सा ॥ ४४५ ॥  
 प्रमाणनयनिक्षेपाद्युपायैरतिविस्तृतैः । अवगाह्य परिज्ञानासत्त्वस्याङ्गादिभाषितम् ॥ ४४६ ॥  
 वाग्विस्तरपरिस्थ्यागादुपदेष्टुर्महामतेः । अर्थमात्रं समादानसमुत्था रुचिरर्थजा ॥ ४४७ ॥  
 अङ्गाङ्गबाह्यसन्नावभाषनातः समुद्भवा । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाहेति कथ्यते ॥ ४४८ ॥  
 केवलावगमाङ्कोकिताखिलार्थगता रुचिः । परमाद्यवगाहाऽसौ श्रद्धेति परमर्षिभिः ॥ ४४९ ॥  
 एतास्त्वपि महाभाग तत्र सत्यद्य काश्चन । दर्शनाथागमप्रोक्तशुद्धपोद्धकारणैः ॥ ४५० ॥  
 भव्यो व्यवस्तैः समस्तैश्च नामात्मीकुरुतेऽन्तिमम् । तेषु श्रद्धादिभिः कैश्चिद्ब्रह्मा तन्नामकारणैः ॥ ४५१ ॥  
 रत्नप्रभां प्रविष्टः सन् तत्फलं मध्यमायुषा । भुक्त्वा निर्गत्य भव्यास्मिन् महापद्मालयतीर्थकृत् ॥ ४५२ ॥  
 आगाम्युत्सर्पिणीकालस्यादिमः क्षेमकृत्सताम् । तस्मादासन्नभव्योऽसि मा मैषीः संसृतेरिति ॥ ४५३ ॥  
 स्वस्य रत्नप्रभावासेविषण्णः श्रेणिकः पुनः । अप्राक्षीद्धीधनान्योऽपि पुरेऽस्मिन्पुण्यधामनि ॥ ४५४ ॥  
 किमस्यधोगतिं यास्यन्नित्यतो मुनिरादिशत् । कालसौकरिकस्यात्र शुभायाश्च प्रवेशनम् ॥ ४५५ ॥  
 अस्ति द्विजतन्जायास्तत्कुतश्चेन्निसम्यताम् । कालसौकरिकोऽत्रैव पुरे नीचकुले भृशम् ॥ ४५६ ॥  
 भवस्थितिवशाद्ब्रह्मनरायुः पापकर्मणा । ससकृत्वोऽधुना जातिस्मरो भूत्वैवमस्मरत् ॥ ४५७ ॥

पुराण मुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत्थ सम्यग्दर्शन है । आचाराङ्ग  
 आदि शास्त्रोंमें कहे हुए तपके भेद मुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सूत्रज सम्यग्दर्शन  
 कहलाता है । बीजपदोंके ग्रहण पूर्वक सूत्रमपदार्थोंसे जो श्रद्धा होती है उसे बीजज सम्यग्दर्शन  
 कहते हैं । पदार्थोंके संक्षेप कथनसे जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज सम्यग्दर्शन है, जो विस्तारसे  
 कहे हुए प्रमाण नय विक्षेप आदि उपायोंके द्वारा अवगाहनकर अङ्ग पूर्व आदिमें कहे हुए तत्त्वोंकी  
 श्रद्धा होती है वह विस्तारज सम्यग्दर्शन कहलाता है । वचनोंका विस्तार छोड़कर महबुद्धिमान्  
 उपदेशकसे जो केवल अर्थमात्रका ग्रहण होनेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थज सम्यग्दर्शन है ।  
 जिसका माहनीय कर्म शीघ्र हो गया है ऐसे मनुष्यको अङ्ग तथा अङ्गबाह्य ग्रन्थोंकी भावनासे  
 जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाह्य सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ ४४१—४४८ ॥ केवल-  
 ज्ञानके द्वारा देख हुए समस्त पदार्थोंकी जो श्रद्धा होती है उसे परमावगाह्य सम्यग्दर्शन कहते  
 हैं ऐसा परमर्षियोंने कहा है ॥ ४४९ ॥ हे महाभाग ! इन श्रद्धाओंमेंसे आज तेरे कितनी ही  
 श्रद्धाएँ—सम्यग्दर्शन विद्यमान है । इनके सिवाय आगममें जिन दर्शन-विशुद्धि आदि शुद्ध सोलह  
 कारण भावनाओंका वर्णन किया गया है उन सभीसे अथवा यथा सम्भव प्राप्त हुई पृथक्-पृथक्  
 कुछ भावनाओंमें भव्य जीव तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध करता है । उनमेंसे दर्शनविशुद्धि आदि  
 कितने ही कारणोंसे तू तीर्थंकर नामकर्मका बन्धकर रत्नप्रभा नामक पहिली पृथिवीमें प्रवेश करेगा,  
 मध्यम आयुसे वहाँका फल भोगकर निकलेगा और तदनन्तर हे भव्य ! तू इसी भरतक्षेत्रमें  
 आगामो उत्सर्पिणी कालमें सज्जनोंका कल्याण करनेवाला महापद्म नामका पहला तीर्थंकर होगा ।  
 तू निकट भव्य है अतः संसारसे भय मत कर ॥ ४५०—३५३ ॥ तदनन्तर अपने आपको रत्नप्रभा  
 पृथिवीकी प्राप्ति मुनकर जिसे खेद हो रहा है ऐसे राजा श्रेणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धनको  
 धारण करनेवाले गुरुदेव ! पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिवाय और भी क्या कोई नरक  
 जानेवाला है ? उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसौकरिक और ब्राह्मण-  
 की पुत्री शुभाका भी नरकमें प्रवेश होगा । उनका नरकमें प्रवेश क्यों होगा ? यदि यह जानना  
 चाहता है तो मुन मैं कहता हूँ । कालसौकरिक इसी नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था । वह  
 यद्यपि पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थितिके वशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया  
 था । अबकी बार उसे जातिस्मरण हुआ है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है

१ समुद्भवा ल० । २ पूर्वा ख०, घ० । ३ अर्थमात्रं समादाय म०, ल० । अर्थमात्रसमाधान इति क्वचित् ।

पुण्यपापफलेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम् । मया कथमिवात्मि मनुष्यभवसम्भवः ॥ ४५८ ॥  
 ततः पुण्यं न पापं वा यथेष्टं वर्तनं सुखम् । इति कृत्वानु निश्शङ्कं पापी हिंसादिपञ्चकम् ॥ ४५९ ॥  
 मांसाद्याहारसंस्को बह्वारम्भपरिग्रहैः<sup>१</sup> । अनुबद्धोऽपि<sup>२</sup> बद्ध्वायुनारकं परमावधि ॥ ४६० ॥  
 तेन यास्यत्यसौ पृथ्वीं सप्तमीं घोरदुःखदाम् । शुभा चोभानुभागोत्थस्त्रीवेदोदयभाविता ॥ ४६१ ॥  
 प्रवृद्धरागद्वेषपैशुन्यादिप्रदूषिता । गुणशीलसदाचारान् श्रुत्वालोभ्य च कोपिनी ॥ ४६२ ॥  
 सङ्क्षेपेण सदाबद्धनरकायुस्तनुच्युतौ । तमःप्रभामहादुःखभागिनीर्यं भविष्यति ॥ ४६३ ॥  
 इति तद्वचनप्रान्ते प्रणिपत्य मुनीश्वरम् । कुमारोऽप्यभयोऽपृच्छस्त्वभवान्तरसन्ततिम् ॥ ४६४ ॥  
 तदनुग्रहबुद्धयैवमाहासौ भव्यवत्सलः । इतोऽभवत्तृतीयेऽत्र भवे भव्योऽपि सन्सुधीः<sup>४</sup> ॥ ४६५ ॥  
 कश्चिद्विप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभ्रमन् । देवान्तराणि पापण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६६ ॥  
 लोकेन च विमुह्यत्कुलीभूतस्तत्प्रशंसनम् । तदाचरितमप्युच्चैरनुतिष्ठन्नृच्छया ॥ ४६७ ॥  
 केनचित्पथिकेनामा जैनेन पथि स ब्रजन् । पाषाणराशिसंलक्ष्य भूताधिष्ठितभूरुहः ॥ ४६८ ॥  
 समीपं प्राप्य भक्त्यातो दैवमेतदिति<sup>५</sup> द्रुमम् । परीत्य प्राणमद्दृष्ट्वा तच्चेष्टां श्रावकः स्मिती ॥ ४६९ ॥  
 तस्यावमतिविध्वंस्यं तद्द्रुमाज्ञापल्लवैः । परिमृज्य स्वपादाकधूलिं ते पश्य देवता ॥ ४७० ॥  
 नार्हतानां विघाताय समर्थेत्यवदद्विजम् । विप्रेणानु तथैवास्तु को दोषस्तव देवताम् ॥ ४७१ ॥  
 परिभूतिपदं नेष्याम्युपाध्यायस्वमम्र मे । इत्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेशान्तरमाप्तवान् ॥ ४७२ ॥

॥४५४-४५७॥ कि यदि पुण्य-पापके फलके साथ जीवोंका सम्बन्ध रहता है तो फिर मुझ जैसे पापी-को मनुष्य-भव कैसे मिल गया ? इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है और न पाप है—इच्छानुसार प्रवृत्ति करना ही सुख है । ऐसा विचारकर वह पापी निःशङ्क हो हिंसादि पाँचों पाप करने लगा है, मांस आदि खानेमें आसक्त हो गया है और बहुत आरम्भ तथा परिग्रहोंके कारण नरककी उत्कृष्ट आयुका दन्ध भी कर चुका है । अब वह मरकर भयंकर दुःख देनेवाली सानवीं पृथिवीमें जावेगा । इसी प्रकार शुभा भी तीव्र अनुभागजन्य स्त्रीवन्दके उदयसे युक्त है, अतिशय बड़े हुए रागद्वेष पैशुन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दूषित है, गुण शील तथा सदाचारकी वान सुनकर और देखकर बहुत क्रोध करती है । निरन्तर संक्लेश परिणाम रखनेसे वह नरकायुका दन्ध कर चुकी है और शरीर छूटनेपर तमःप्रभा पृथिवी सम्बन्धी घोर दुःख भोगेगी ॥ ४५८-४६३ ॥ इस प्रकार गणधरके वचन समाप्त होनेपर अभयकुमारने उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भवान्तरोंका समूह पूछा ॥ ४६४ ॥

भव्य जीवों पर स्नेह रखनेवाले गणधर भगवान्, अभय कुमारका उपकार करनेकी भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भवसे तीसरे भवमें कोई ब्राह्मणका पुत्र था और भव्य होनेपर भी दुर्बुद्धि था । वह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घूमता-फिरता था, पापण्डिमूढता, देवमूढता, तीर्थमूढता, जातिमूढता और लोकमूढतासे माहित हो व्याकुल रहता था, उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योंकी बहुत प्रशंसा करता था और पुण्य-प्राप्तिकी इच्छामें उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योंका स्वयं आचरण करता था ॥ ४६५-४६७ ॥ एक बार वह किसी जैनी पथिकके साथ मार्गमें कहीं जा रहा था । मार्गमें पथरोंके ढेरके समीप दिखाई देने वाला भूतोंका निवासस्थान स्वरूप एक वृक्ष था । उसके समीप जाकर और उसे अपना देव समझकर ब्राह्मण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया । उसकी इस चेष्टाको देखकर श्रावक हँसने लगा तथा उसका अनादर करनेके लिए उसने उस वृक्षके कुछ पत्ते तोड़कर उनसे अपने पैरोंकी धूलि झाड़ ली और ब्राह्मणसे कहा कि देख तेरा देवता जैनीयोंका कुछ भी विघात करनेमें समर्थ नहीं है । इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि अच्छा ऐसा ही सही, क्या दोष है ? मैं भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर लूँगा, इस विषयमें तुम मेरे गुरु ही सही । इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चतने लगे और किसी एक

१ परिग्रहः ल० । २ अनुबद्धोऽस्ति ल० । ३ इतो भवात्तृतीयेऽत्र ल० । ४ कुधीः ल० ।

५ द्रुतम् ल० ।



श्रावकः कपिरोमाख्यवल्लीजालं समीक्ष्य मे । दैवमेतदिति व्यक्तमुक्त्वा भक्त्या परीत्य तन् ॥ ४७३ ॥  
 प्रणम्य स्थितवान् विप्रोऽप्याविष्कृतरुषाञ्जकः<sup>१</sup> । कराभ्यां तत्समुच्छिन्दन् विमृद्वन्श्च समन्ततः ॥ ४७४ ॥  
 तत्कृतासङ्कण्डूयाविशेषेणातिबाधितः । एतस्सन्निहितं दैवं स्वदीयमिति भीतवान् ॥ ४७५ ॥  
 सहासो विद्यते नान्यद्विधा तु सुखदुःखयोः । प्राणिनां प्राक्तनं कर्म मुक्त्वास्मिन्मूलं<sup>२</sup>कारणम् ॥ ४७६ ॥  
 श्रेयोऽवासुं ततो यत्नं तपोदानादिकर्मभिः । कुरु त्वं मतिमन्मौढ्यं हित्वा दैवनिबन्धनम् ॥ ४७७ ॥  
 देवाः खलु सहायत्वं यान्ति पुण्यवतां नृणाम् । न ते किञ्चित्कराः पुण्यविलये भृत्यसञ्चिभाः ॥ ४७८ ॥  
 इत्युक्त्वास्तद्विजोद्भूतदैवमूढ्यस्ततः क्रमात् । श्रावकस्तेन विप्रेण गङ्गातीरं समागमत् ॥ ४७९ ॥  
 बुभुक्षुस्तत्र विप्रोऽसौ मणिगङ्गाख्यसुरामम् । तीर्थमेतदिति ज्ञात्वा तीर्थमूढं समागमत् ॥ ४८० ॥  
 अध्यासै भोक्तुकामाय भुक्त्वा स श्रावकः स्वयम् । स्वोच्छिष्टं सुरसिन्ध्वम्बुमिश्रितं पावनं त्वया ॥ ४८१ ॥  
 भोक्तव्यमिति विप्राय ददौ ज्ञापयितुं हितम् । तदृष्ट्वाहं कथं भुञ्जे तवोच्छिष्टं विशिष्टताम् ॥ ४८२ ॥  
 किं न वेत्सि ममैवं त्वं वक्तोति स तमब्रवीत् । कथं तीर्थजलं पापमलापनयने क्षमम् ॥ ४८३ ॥  
 पद्योच्छिष्टदोषश्चेन्नापनेतुं समीहते । ततो निर्हेतुकामेतां<sup>३</sup>प्रत्येयां मुग्धचेतसाम् ॥ ४८४ ॥  
 त्यज दुर्वासनां पापं प्रक्षाल्यमिति वारिणा । तथैव चेत्तपोदानाद्यनुष्ठानेन किं वृथा ॥ ४८५ ॥  
 तेनैव पापं प्रक्षाल्यं सर्वत्र सुलभं जलम् । मिथ्यात्वादिवचतुष्केण बध्यते पापमूर्जितम् ॥ ४८६ ॥  
 सम्यक्त्वादिवचतुष्केण पुण्यं प्राप्ते च निर्धृतिः । एतज्जैनेश्वरं तत्त्वं गृह्णेत्यवदत्पुनः ॥ ४८७ ॥

स्थानमं जा पहुँचे । वहाँ करेचकी लताओंका समूह देखकर श्रावकने कहा कि 'यह हमारा देवता है' यह कहकर श्रावकने उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और यह सबकर वह वहीं खड़ा हो गया । अज्ञानी ब्राह्मणने कुपित होकर दोनों हाथोंमे उस लतासमूहके पत्ते तोड़ लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रङ्ग सब शरीरमें लगा लिया । लगाते देर नहीं हुई कि वह, उस करेचके द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजलीकी भारी पीड़ासे दुःखी होने लगा तथा डरकर श्रावकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है ॥ ४७६-४७५ ॥ ब्राह्मण-पुत्रकी बात सुन, श्रावक हँसता हुआ कहने लगा कि जीवोंको जो सुख-दुःख होता है उसमें उनके पूर्वकृत कर्मको छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है ॥ ४७६ ॥ इसलिए तू तप दान आदि सत्कार्योंके द्वारा पुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर और हे बुद्धिमन् ! इस देवविषयक मूढताको छोड़ दे । निश्चयसे देवता पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं वे भृत्यके समान हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर किसीका कुछ भी नहीं कर सकते हैं ॥ ४७७-४७८ ॥ इस प्रकार कहकर श्रावकने उस ब्राह्मणकी देवमूढता दूर कर दी । तदनन्तर अनुक्रमसे उस ब्राह्मणके साथ चलता हुआ श्रावक गङ्गा नदीके किनारे पहुँचा ॥ ४७९ ॥ भूख लगनेपर उस ब्राह्मणने 'यह मणिगङ्गा नामका उत्तम तीर्थ है' यह सम्भकर वहाँ स्नान किया और इस तरह वह तीर्थमूढताको प्राप्त हुआ ॥ ४८० ॥ तदनन्तर जब वह ब्राह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने लगा तब उस श्रावकने पहले स्वयं भोजनकर अपनी जूँठनमें गङ्गाका जल मिला दिया और हितका उपदेश देनेके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि 'यह पवित्र है तुम खाओ' । यह देख ब्राह्मणने कहा कि 'मैं तुम्हारी जूँठन कैसे खाऊँ ? क्या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते ? ब्राह्मणकी बात सुनकर श्रावक कहने लगा कि तीर्थजल यदि आज जूँठनका दोष दूर करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मलका दूर हटानेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनोके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या धासनाको छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है । यदि जलके द्वारा पाप धोये जाने लगे तो फिर व्यर्थ ही तप तथा दान आदिके करनेसे क्या लाभ है ? ॥ ४८१-४८२ ॥ जल सब जगह सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाहिये । यथार्थमें बात यह है कि मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद तथा कषाय इन चारके द्वारा तीव्र पापका बन्ध होता है और सम्यक्त्व,

१ रूपोत्पुङ्कः ज० । २ मूढ इत्यपि क्वचित् । ३ तके किञ्चित्कराः पुण्यविलये क० ।

श्रुत्वा तद्वचनं विप्रस्तीर्यमौख्यं निराकरोत् । अथ तत्रैव पञ्चाग्निमध्येऽन्यैर्दुस्सहं तपः ॥ ४८८ ॥  
 कुर्वतस्तापसस्योच्चैः प्रज्वलद्ब्रह्मिंसंहतौ । व्यञ्जयन्प्राणिनां घातं पङ्कभेदानामनारतम् ॥ ४८९ ॥  
 तस्य पाषण्डमौख्यञ्च युक्तिभिः स 'निराकृत । गोमांसभक्षणगायत्र्यागमाद्यैः पतितेक्षणात् ॥ ४९० ॥  
 वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्नप्यदर्शनात् । ब्राह्मण्यादिषु शूद्राद्यैर्गर्भाधानप्रदर्शनात् ॥ ४९१ ॥  
 नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् । आकृतिग्रहणारास्मादन्यथा परिकल्प्यते ॥ ४९२ ॥  
 जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्लध्यानस्य हेतवः । येषु ते स्युस्त्रयो वर्णाः शेषाः शूद्राः प्रकीर्तिताः ॥ ४९३ ॥  
 अच्छेदो मुक्तियोग्याथा विदेहे जातिसन्ततेः । तद्धेतुनामगोत्राख्यजीवाविच्छिन्नसम्भवात् ॥ ४९४ ॥  
 शेषयोस्तु चतुर्थे स्यात्काले तज्जातिसन्ततिः । एवं वर्णविभागः स्यान्मनुष्येषु जिनागमे ॥ ४९५ ॥  
 इत्यादिहेतुभिर्जातिमौख्यमस्य निराकरोत् । वटेऽस्मिन् खलु विरोधो वसतीत्येवमादिकम् ॥ ४९६ ॥  
 वाक्यं श्रद्धाय तद्योग्यमाचरन्तो महीभुजः । किं न जानन्ति लोकस्य मागोयं प्रथितो महान् ॥ ४९७ ॥  
 न त्यक्तुं शक्य इत्यादि न प्राह्यं लौकिकं वचः । आसोक्तागमबाह्यत्वा 'न्मरोन्मराकवाक्यवत् ॥ ४९८ ॥  
 इति तल्लोकमौख्यञ्च अनिरास्थदथ सोऽब्रवीत् । आसोक्तागमवैमुख्यादिति हेतुर्न मां प्रति ॥ ४९९ ॥  
 साङ्ख्याद्यासप्रवादानां पौरुषेयत्वदोषतः । दूषिताः पुरुषाः सर्वे बाढं रागाद्यविद्यया ॥ ५०० ॥

ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है । और अन्तमें इन्हींसे मोक्ष प्राप्त होता है । यह जिनेन्द्र देवका तत्त्व है—मूल उपदेश है, इसे तू ग्रहण कर । ऐसा उस श्रावकने ब्राह्मणसे कहा ॥ ४८६-४८७ ॥ श्रावकके उक्त वचन सुनकर ब्राह्मणने तीर्थमूढ़ता छोड़ दी । तदनन्तर वहीं एक तापस, पञ्चाग्नियोंके मध्यमें अन्य लोगोंके द्वारा दुःसह—कठिन तप कर रहा था । वहाँ जलती हुई अग्निके बीचमें छह कायके जीवोंका जो निरन्तर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावकने युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पाषण्डमूढ़ता भी दूर कर दी । तदनन्तर जातिमूढ़ता दूर करनेके लिए वह श्रावक करने लगा कि गोमांस भक्षण और अग्न्यस्त्रीसेवन आदिसे लोग पतित हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस शरीरमें वर्ण तथा आकृतिकी अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं आता और ब्राह्मणी आदिमें शूद्र आदिके द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्योंमें गाय और घोड़ेके समान जाति कृत कुछ भी भेद नहीं है यदि आकृतिमें कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शूद्रमें आकृति भेद नहीं है अतः उनमें जातिकी कल्पना करना अन्यथा है । जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे त्रिवर्ण कहलाते हैं और बाकी शूद्र कह गये हैं । विदेह क्षेत्रमें मोक्ष जाननेके योग्य जातिका कर्तव्य विच्छेद नहीं होता क्योंकि वही उस जातिमें कारणभूत नाम और गोत्रसे सहित जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्यकालमें ही जातिकी परम्परा चलती है अन्य कालोंमें नहीं । जिनागममें मनुष्योंका वर्णविभाग इस प्रकार बतलाया गया है ॥ ४८८-४९५ ॥ इत्यादि हेतुओंके द्वारा श्रावकने ब्राह्मणकी जातिमूढ़ता दूर कर दी । 'इस वटवृक्षपर कुबेर रहता है' इत्यादि वाक्योंका विश्वासकर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो क्या कुछ जानते नहीं है । कुछ मचाई हांगी तभी तो ऐसा करते हैं । यह लोकका मार्ग बहुत बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता—लोकमें जो रुद्धियाँ चली आ रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये इत्यादि लौकिक जनोके वचन, आप्त भगवान्के द्वारा कहे इस आगमसे बाह्य होनेके कारण नशेसे मस्त अथवा पागल मनुष्यके वचनोंके समान ग्राह्य नहीं हैं ॥ ४९६-४९८ ॥ इस प्रकार श्रावकने उस ब्राह्मणकी लोकमूढ़ता भी दूर कर दी । तदनन्तर ब्राह्मणने श्रावकसे कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्त भगवान्के द्वारा कहे हुए आगमसे बाह्य होनेके कारण लौकिक वचन ग्राह्य नहीं हैं सो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता क्योंकि सांख्य आदि आप्तजनोके जो भी आगम विद्यमान हैं वे पौरुषेयत्व दोषसे प्रमाणभूत नहीं

इत्यनालोचितार्थस्य वचस्तेनैति सारताम् । यतो रागाद्यविधानां क्वचिन्निर्मूलसंक्षयः ॥५०१॥  
 सर्वज्ञस्य विरागस्य प्रयोगः साधनं प्रति । क्रिपते युक्तिवादानुसारिणां विदुषस्तव ॥ ५०२ ॥  
 क्वचिदाव्यन्तिकीं युक्तिं यान्ति सार्धमविद्यया । रागाद्यस्तितरोभूतिं तारतम्यावलोकनात् ॥ ५०३ ॥  
 सामग्रीसंज्ञिधानेन कनकावमकलङ्कवत् । तत्राथावन्न जायेत तारतम्यञ्च नो भवेत् ॥ ५०४ ॥  
 दृष्टेस्तदस्तु चेन्मूलहानिः केन निवार्यते । सर्वशास्त्रकलाभिज्ञे सर्वज्ञाक्तिर्जिनोदिता ॥ ५०५ ॥  
 मुख्यसर्वज्ञसंसिद्धिं गौणत्वात्साधयेदियम् । चैत्रे सिंहाभिधानेन मुख्यसिंहस्य सिद्धिवत् ॥ ५०६ ॥  
 न मां प्रति प्रयोगोऽयं मुक्तिहेतोर्निराकृतेः । अवस्थादेशकालादिभेदाद्भिन्नासु शक्तिसु ॥ ५०७ ॥  
 भावानामनुमानेन प्रतीतिरतिदुर्लभा । यत्नेन साधितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ॥ ५०८ ॥  
 अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथा क्रियते यतः । हस्तस्पर्शादिवाञ्छस्य विषमे पथि धावतः ॥ ५०९ ॥  
 अनुमानप्रधानस्य विनिपातो न दुर्लभः । इति चेद्भिन्न नैतेन गृह्यते महतां मनः ॥ ५१० ॥  
 हेतुवादोऽप्रमाणं चेद्यथाश्रुतिरकृत्रिमा । इतीदं सत्यमेवं किं कृत्रिमा श्रुतिरित्यपि ॥ ५११ ॥  
 वाक्यप्रयोगो न तथ्यः स्याद्धेत्वभावाविशेषतः । मृत्वा शीर्वापि तद्धेतुरेपितव्यस्ववयापि सः ॥ ५१२ ॥  
 दृष्टं तस्मिन्मयाभीष्टो विश्ववित्किं न सिध्यति । ततस्तत्प्रोक्तमूक्तेन विरुद्धं नेष्यते बुधैः ॥ ५१३ ॥

हैं। पुरुषकृत रचना हानेसे ग्राह्य नहीं हैं। यथार्थमें संसारमें जितने पुरुष हैं वे सभी रागादि अविद्यासे दूषित हैं अतः उनके द्वारा बनायं हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं ? ॥ ४६६-५०० ॥ इसके उत्तरमें श्रावकने कहा कि चूंकि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है इसलिए तुम्हारे वचन सारताका प्राप्त नहीं हैं—ठीक नहीं हैं। तुमने जो कहा है कि संसारके सभी पुरुष रागादि अविद्यासे दूषित हैं यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसी पुरुषमें राग आदि अविद्याओंका निर्मूल क्षय हो जाना संभव है। तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेवाले विद्वान् हो अतः तुम्हारे लिए सर्वज्ञवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है ॥ ५०१-५०२ ॥ रागादिक भावों और अविद्यामें तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुषमें अविद्याके साथ-साथ रागादिक भाव सर्वथा अभावका प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलनेसे सुवर्ण पापाणकी कीट कालिमा आदि दोष दूर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामग्री मिलनेपर पुरुषके रागादिक दोष भी दूर हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो उनमें तारतम्य—हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए रागादि दोषोंकी निर्मूल हानिको कौन रोक सकता है ? समस्त शास्त्रों और कलाओंके जानने वाले मनुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैं सो उनकी यह सर्वज्ञकी गौण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञको सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषको सिंह कह देनेसे मुख्य सिंहकी सिद्धि हो जाती है ॥ ५०३-५०६ ॥ 'कदाचित् यह कहा जाय कि सर्वज्ञ सिद्ध करनेका यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो मांशका कारण बनलाया है उसका निराकरण किया जा चुका है ॥ अत्रस्था देश-काल आदिके भेदसे शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं इसलिए रागादि दोषोंकी हीनाधिकता तो संभव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है। अनुमानके द्वारा भावोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि बड़े कुशल अनुमाता यत्न पूर्वक जिस पदार्थको सिद्ध करते हैं अन्यप्रवादियोंकी ओरसे वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शसे विषय-मार्गमें दौड़ने वाले अन्धे मनुष्यका मार्गमें पड़जाना दुर्लभ नहीं है उसीप्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलने वाले पुरुषका भी पड़ जाना दुर्लभ नहीं है। हे विप्र ! यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन आकर्षित नहीं हो सकता ॥ ५०७-५१० ॥ इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवादको अप्रमाण मान लिया जाता है तो जिस प्रकार 'वेद अकृत्रिम हैं—अपौरुषेय हैं' आपका यह कहना सत्य है तो उसी प्रकार 'वेद कृत्रिम हैं—पौरुषेय हैं' हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना चाहिये ? हेतुके अभावकी बात कहो तो वह दोनों ओर समान है। इस प्रकार मर-सड़ कर भी आपको हेतुवाद स्वीकृत करना ही पड़ेगा और जब आप इस तरह हेतुवाद स्वीकृत कर लेते हैं तब मेरे द्वारा

विप्रस्त्वं षट्प्रमावादी न चार्वाको न मां प्रति । प्रयोगोऽनभ्युपेतत्वादित्युक्तिर्घटते न ते ॥ ५१४ ॥  
 साध्यसाधनसम्बन्धो हेतुश्चाध्यक्षगोचरः । ऊहाद्वयातिः कथं न स्यात्प्रयोगस्त्वं प्रति प्रमा ॥ ५१५ ॥  
 काचित्कस्यभिचाराच्चेत्प्रत्यक्षेऽपि न सोऽस्ति किम् । नानुमानं प्रमेत्यार्यं मुच्यतामयमाग्रहः ॥ ५१६ ॥  
 प्रत्यक्षमविसंवादि प्रमाणमिति चेत्कुतः । अनुमानेऽपि तन्नेष्टमनिष्टं किं क्षितिशितिभिः ॥ ५१७ ॥  
 अस्तु साङ्ख्यादिवादानामप्रामाण्यं विरोधतः । हृष्टेन तेन संवादसिद्धेर्वादस्य नार्हतः ॥ ५१८ ॥  
 इत्यार्हतोक्तं तत्तथ्यं श्रुत्वा सर्वं द्विजात्मजः । त्वद्गृहीतो ममाप्यस्तु धर्मोऽद्य प्रभृतीति सः ॥ ५१९ ॥  
 तदाज्ञयाऽग्रहीद्धर्मं निर्मलं जिनभाषितम् । सद्दर्शो हितमन्ते स्यादातुरायेव भेषजम् ॥ ५२० ॥  
 अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहान्तरे । पापीदयात्परिभ्रष्टमार्गो दिङ्मूढताङ्गतौ ॥ ५२१ ॥  
 देशकोऽस्ति न मार्गस्य वनमेतदमानुषम् । नास्ति कश्चिदुपायोऽत्र विहाय जिनभाषितम् ॥ ५२२ ॥  
 परिच्छेदो हि पाण्डित्यं शूरस्याहारदेहयोः । इति सन्न्यस्य सद्धयानेनासीनं श्रावकं द्विजः ॥ ५२३ ॥  
 बिलोक्य स्वयमप्येतदुपदेशेन 'शुद्धधीः । स्थित्वा तथैव सम्प्राप्तसमाधिर्जीवितत्वधौ ॥ ५२४ ॥  
 सौधर्मकल्पे देवोऽभूद्भुक्त्वा तत्रामरं सुखम् । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपतेः ॥ ५२५ ॥

अभीष्ट सर्वज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है । इसलिए विद्वान् लोग सर्वज्ञ भगवान्‌के द्वारा कहे हुए वचनोंके विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते हैं ॥ ५११-५१३ ॥ इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय ! तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंको मानने वाले मीमांसक हो, केवल प्रत्यक्षका मानने वाले चार्वाक नहीं हो अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानका प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है । संगत नहीं बैठता ॥ ५१४ ॥ साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहते हैं वह प्रत्यक्षका विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्तिका ज्ञान होता है फिर आप अनुमानको प्रमाण क्यों नहीं मानते ? ॥ ५१५ ॥ यदि यह कहा जाय कि अनुमानमें कदाचित् व्यभिचार ( दोष ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमें भी नहीं होता ? अवश्य होता है । इसलिए हे आर्य ! 'अनुमान प्रमाण नहीं है' यह आप्रह छोड़िये ॥ ५१६ ॥ यदि यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष विसंवादाहित है इसलिए प्रमाणभूत है तो अनुमानमें भी तो विसंवादका अभाव रहता है उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो । युक्तिकी समानता रहते हुए एकको प्रमाण माना जाय और दूसरेको अप्रमाण माना जाय यदि यही आपका पक्ष है तो फिर राजाओंकी क्या आवश्यकता ? अथवा सांख्य आदि दर्शनोंमें अप्रामाणिकता भले ही रहे क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है परन्तु अरहन्त भगवान्‌के दर्शनमें अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता है । इस प्रकार साथके जैनी-श्रावकके द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्त्वको सुनकर ब्राह्मणने कहा कि जिस धर्मको आपने ग्रहण किया है वही धर्म आजते मेरा भी हो ॥ ५१७-५१९ ॥ श्रावककी आज्ञासे उस ब्राह्मणने जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म ग्रहण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार औषधि, बीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सज्जन पुरुषके वचन भी अन्तमें हित ही करते हैं ॥ ५२० ॥

अथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसी सघन अटवीके बीचमें पापके उदयसे मार्ग भूल कर दिशाभ्रान्त हो गये ॥ ५२१ ॥ उस समय श्रावकने विचार किया कि चूँकि यह वन मनुष्य रहित है अतः वहाँ कोई मार्गका बतलानेवाला नहीं है । इस समय जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हुए उपायको छोड़कर और कोई उपाय नहीं है । ऐसी दशामें आहार तथा शरीरका त्याग कर देना ही शूरवीरकी पण्डिताई है ऐसा विचार कर वह संन्यासकी प्रतिज्ञा लेकर उत्तमध्यानके लिए बैठ गया । श्रावकको बैठे देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है ऐसा ब्राह्मण भी समाधिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया । आयु पूर्ण होने पर वह ब्राह्मण

अभयारुह्यः सुतो धीमानजनिष्ठास्त्वमीदृशः । अतः परं तपः कृत्वा जिनैर्द्वादशबोदितम् ॥ ५२६ ॥  
 अवाप्यसि पदं मुक्तेरित्यसौ चावबुध्य तत् । अभिवन्द्य जिनं राजा सह तुष्टोऽविश्रापुरम् ॥ ५२७ ॥  
 अधान्धेषुर्महाराजः श्रेणिकः सदसि स्थितः । अभयं सर्वशास्त्रज्ञं कुमारं वरवाग्मिनम् ॥ ५२८ ॥  
 तन्माहात्म्यप्रकाशार्थं तत्त्वं पप्रच्छ वस्तुनः । सोऽप्यासन्नविनेयत्वाद्वस्तुयाथात्म्यदर्शिधीः ॥ ५२९ ॥  
 स्वद्विजोत्सर्पिभाभारविभासितसभान्तरः । एवं निरूपयामास स्पष्टमृष्टेऽष्टगीर्गुणः ॥ ५३० ॥  
 यस्य जीवादिभावानां याथात्म्येन प्रकाशनम् । तं पण्डितं बुधाः प्राहुः परे नामनैव पण्डिताः ॥ ५३१ ॥  
 जीवाद्याः कालपर्यन्ताः पदार्था जिनभाषिताः । द्रव्यपर्यायभेदाभ्यां नित्यानित्यस्वभावकाः ॥ ५३२ ॥  
 सर्वथात्मादितत्वानां मोहास्त्रित्यत्वकल्पने । सर्वद्रव्येषु सम्भूतिः परिणामस्य नो भवेत् ॥ ५३३ ॥  
 क्षणिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारकञ्च न । न फलञ्च तथालोकव्यवहारविलोपनम् ॥ ५३४ ॥  
 नित्यत्वस्योपचारेण सत्त्वात्म्य विलोपनम् । नो चेन्मिथ्योपचारेण कथं तथ्यस्य साधनम् ॥ ५३५ ॥  
 धर्मद्रव्योपलम्भाभ्यां दृष्टोऽप्यर्थक्रियां ब्रुवन् । भ्रान्तमन्यतरं ब्रूयादन्यस्याभ्रान्ततां कुतः ॥ ५३६ ॥  
 एकधर्मात्मकं सर्वं वाञ्छतोऽस्त्रितवादिनः । सामान्येतरसम्भूतौ कुतः संशयनिर्णयौ ॥ ५३७ ॥  
 प्रतीयमानज्ञानाभिधानासत्याभिधायिनः । तयोरसत्यज्ञानाभिधानयोः केन सत्यता ॥ ५३८ ॥

सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ और वहां देवोंके सुख भोग कर आयुके अन्तमें अपने पुण्यके उदयसे यहां राजा श्रेणिकके नू अभय नामका ऐसा बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न हुआ है । आगे नू श्री जिनेन्द्र-देवका कहा हुआ वारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद प्राप्त करेगा । यह सब जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रीजिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर राजा श्रेणिकके साथ नगरमें चला गया ॥ ५२९-५२७ ॥

अथानन्तर किमी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामें बैठे हुए थे वहां उन्होंने समस्त शास्त्रोंके जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छासे तत्त्वका यथार्थ स्वरूप पूछा । अभय कुमार भी निकटभव्य होनेके कारण वस्तुके यथार्थ स्वरूपको देखने वाला था तथा स्पष्ट सिद्ध और दृष्टरूप वाणीके गुणोंसे सहित था इसलिए अपने दाँतोकी फैलने वाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यभागको सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा ॥ ५२९-५३० ॥ आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थोंका ठीक-ठीक बांध होता है विद्वान् लोग उसे ही पण्डित कहते हैं बाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके पण्डित कहलाते हैं ॥ ५३१ ॥ अभय-कुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवानने जीवसे लेकर काल पर्यन्त अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह पदार्थ कहे हैं । ये सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभाव वाले हैं ॥ ५३२ ॥ यदि जीवादि पदार्थोंको अज्ञान वश सर्वथा नित्य मान लिया जावे तो सभी द्रव्योंमें जो परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा ॥ ५३३ ॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोंको सर्वथा क्षणिक मान लिया जावे तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रियाका फल सिद्ध हो सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहार का सर्वथा नाश हो जावेगा ॥ ५३४ ॥ कदाचित् यह कहा जाय कि उपचारसे पदार्थ नित्य है इसलिए लोकव्यवहारका सर्वथा नाश नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि उपचारसे सत्य पदार्थकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? आखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदार्थका निर्णय होना संभव नहीं है ॥ ५३५ ॥ जब कि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोंसे ही पदार्थकी अर्थ क्रिया होती देखी जाती है तब दो धर्मोंमेंसे एकको भ्रान्त कहने वाला पुरुष दूसरे धर्मको अभ्रान्त किस प्रकार कह सकता है ? भावार्थ—जब अर्थ क्रियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनों ही अभ्रान्त हैं यह मानना चाहिये ॥ ५३६ ॥ जो वादी समस्त पदार्थोंको एक धर्मात्मक ही मानते हैं उनके मतमें सामान्य तथा विशेषसे उत्पन्न होने वाले संशय और निर्णय, सामान्य और विशेष धर्मके आश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं इसलिए जब पदार्थको सामान्य विशेष—दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना जायगा तो उनकी उत्पत्ति असंभव हो जायगी ॥ ५३७ ॥ पदार्थ अभय धर्मात्मक है ऐसा ही ज्ञान

गुणगुण्यभिसम्बन्धे सम्बन्धान्तरवादिनः । निस्सम्बन्धानवस्थाभ्युपेतहान्यनिवारणम् ॥ ५३९ ॥  
 तस्यैकैकान्तदुर्वादागर्भं सर्वज्ञभाषितम् । नित्यानित्यात्मकं तत्त्वं प्रत्येतत्त्वं मनीषिणा ॥ ५४० ॥  
 'सर्वविधान्तश्रद्धा सम्यग्दर्शनमिष्यते । ज्ञातिस्तद्योक्तवस्तूनां सम्यग्ज्ञानमुदाहृतम् ॥ ५४१ ॥  
 तदागमोपदेशेन योगत्रयनिषेधनम् । चारित्रं तत्प्रयं युक्तं मुक्तेर्भव्यस्य साधनम् ॥ ५४२ ॥  
 समेतमेव सम्यक्त्वज्ञानाभ्यां चरितं मतम् । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुर्थके ॥ ५४३ ॥  
 काल्त्सेन कर्मणां कृत्या संवरं निर्जरां पराम् । १ प्राप्नोतु परमस्थानं विनेयो विश्वदक्त्ततः ॥ ५४४ ॥  
 इति सर्वं मनोहारिं श्रुत्वा तस्य निरूपणम् ३ । वस्तुतरोपदेशोऽयं कुशलोऽभयपण्डितः ॥ ५४५ ॥  
 इति सर्वे समासीनास्तन्माहात्म्यं समस्तुवन् । समात्सर्यां न चेत्के वा न स्तुवन्ति ४ गुणान्सताम् ॥ ५४६ ॥

### पृथिवीच्छन्दः

धियोऽस्य सहजन्मना कुशलिनः कुशामीयता

श्रु तेन कृतसंस्कृतेनिशिततानु चान्यैव सा ।

होता है और ऐसा ही कहने में आता है फिर भी जो उसे असत्य कहता है सो उसके उस असत्य ज्ञान और असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है ? भावार्थ—जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोकव्यवहारमें जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी असत्य बतलाता है सो उसके इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस हेतुसे होना है ? प्रतीयमान पदार्थको असत्य और अप्रतीयमान पदार्थको सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है ॥ ५३८ ॥ पदार्थोंमें गुणगुणी सम्बन्ध विद्यमान है उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उसके मतमें सम्बन्धका अभाव होनेसे अभ्युपेत—स्वीकृत मतकी हानि होती है और अनवस्था दोषकी अनिवार्यता आती है । भावार्थ—गुणगुणी सम्बन्धके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है या नहीं ? यदि नहीं है तो सम्बन्धका अभाव कहलाया और ऐसा माननेसे 'तुम्हारा जो स्वीकृत पक्ष है कि सम्बन्धरहित कोई पदार्थ नहीं है' उस पक्षमें बाधा आती है । इससे बचनेके लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न-होता है कि कौन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी कल्पना करोगे तो उस दूसरे सम्बन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी इस तरह अनवस्था दोष अनिवार्य हो जावेगा ॥ ५३९ ॥ इसलिए बुद्धिमानोंको एकान्त मिथ्या-वादका गर्व छोड़कर सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहा हुआ नित्यानित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥ ५४० ॥ सर्वज्ञ और सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए पदार्थोंका जानना सो सम्यग्ज्ञान है और सर्वज्ञप्रणीत आगमके कहे अनुसार तीनों योगोंका रोकना सम्यक्चारित्र कहलाता है । ये तीनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं ॥ ५४१-५४२ ॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान चतुर्थगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रके विना भी होते हैं ॥ ५४३ ॥ इसलिए सम्यग्दृष्टि भव्य जीवको समस्त कर्मोंका उच्छ्रित संवर और उच्छ्रित निर्जरा कर मोक्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५४४ ॥ इस प्रकार मनको हरण करने वाला, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतत्त्वका उपदेश देनेमें बहुत ही कुशल पण्डित है । इस तरह सभी लोगोंने उसके माहात्म्यकी स्तुति की सो ठीक ही है क्योंकि ईर्ष्या रहित ऐसे कौन मनुष्य है जो सर्वज्ञोंके गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥ ५४५-५४६ ॥ इस बुद्धिमानकी बुद्धि जन्मसे ही कुशाग्र थी फिर शास्त्रके संस्कार और भी तेज होकर अनोखी हो गई

१ सर्ववित् तन्मते श्रद्धा क०, ख०, ग०, घ० । २ प्राप्नोति इत्यपि क्वचित् । ३ प्ररूपणम् इत्यपि क्वचित् । ४ गुणामताम् ल० ।

ततः स निखिलां सभामभयपण्डितो वाग्गुणे-

हपायनिपुणेषु लब्धविजयध्वजोऽरक्षयत् ॥ ५४७ ॥

मालिनीच्छन्दः

॥ स सुषिदिततत्त्वः श्रावकः कायमज्ञः

स्फुरितदुरितदूरारूढमौख्यैर्द्रवीयान् ।

अमरपरिवृद्धत्वं प्राप्य<sup>१</sup> तस्योपदेशा-

दभयविभुरभूत्सत्सङ्गमः किं न कुर्यात् ॥ ५४८ ॥

शार्दूलविक्रीडितम्

स्याद्दीप्तिस्त्वविमशिनी कृतधियः श्रद्धानुविद्धा तथा

हिन्वा हेयमुपेयमाप्य विचरन् विच्छिद्य बन्धास्ततः ।

सत्कर्मणि च सन्ततं बहुगुणं संखावपन् सन्ततेः

प्रान्तं प्राप्य भवेद्दिवाभयविभुर्निर्वाणसौख्यालयः ॥ ५४९ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अन्तिमतीर्थकर-श्रेणिकाभय-

कुमारचरितव्यावर्णनं नाम चतुःसप्ततितमं पर्वः ॥ ७३ ॥

—:ॐ०ॐ:—

श्री इसीलिंग अनेक उपायोंमें निपुण मनुष्योंमें विजयपताका प्राप्त करने वाले उस अभयकुमार पण्डितने अपने वचनके गुणोंमें समस्त सभाको प्रसन्न कर दिया था ॥ ५४७ ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो, कहाँ तो अच्छे तत्त्वोंको जानने वाला वह श्रावक और कहाँ उदयागत पापकर्मके कारण बहुत दूरतक बढ़ी हुई मूढ़ताओंसे अस्यन्न दृढ यह अज्ञानी ब्राह्मण ? फिर भी उसके उपदेशसे देवपद पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका समागम क्या नहीं करता है ? अर्थात् सब बुद्ध करता है ॥ ५४८ ॥ जिस कुशल पुरुषकी बुद्धि तत्त्वोंका विचार करने वाली है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है वह उस बुद्धिके द्वारा छोड़ने योग्य तत्त्वको छोड़कर तथा ग्रहण करने योग्य तत्त्वको ग्रहण कर विचरता है । मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्नता करता है, सत्तामें स्थित कर्मोंकी निरन्तर असंख्यातगुणी निर्जरा करता है और इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान मोक्षमुखका स्थान बन जाता है ॥ ५४९ ॥

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें अन्तिम तीर्थकर वर्धमान स्वामी, राजा श्रेणिक और अभयकुमारके चरितका वर्णन करने वाला चौहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

—:ॐ०ॐ:—

## पञ्चसप्ततितमं पर्व

अथान्येद्युः समासीनं गणेन्द्रं विपुलाचले । श्रेणिकः प्रीणितशेषभयं सुव्यक्ततेजसम् ॥ १ ॥  
गणिन्याश्चन्दनार्यायाः सर्वन्धमिह जन्मनः । अन्वयुङ्क्त गणी चैवमाहाहितमहद्विकः ॥ २ ॥  
सिन्ध्वाख्यविषये भृशुद्वैशाली नगरेऽभवत् । चेटकाख्योऽतिविख्यातो विनीतः परमार्हतः ॥ ३ ॥  
तस्य देवी सुभद्राख्या तयोः पुत्रा दशाभवन् । धनाख्यौ दत्तभद्रान्तातुपेन्द्रोऽन्यः सुदत्तावाक् ॥ ४ ॥  
सिंहभद्रः सुकुम्भोजोऽकम्पनः सपतङ्गकः । प्रभञ्जनः प्रभासश्च धर्मा इव सुनिर्मलाः ॥ ५ ॥  
सप्तर्धयो वा पुण्यश्च ज्यायसी प्रियकारिणी । ततो मृगावती पश्चात्सुप्रभा च<sup>१</sup> प्रभावती ॥ ६ ॥  
चेलिनी पञ्चमी ज्येष्ठा पृथी चान्या च चन्दना । विदेहविषये कुण्डसम्प्रायां पुरि भूपतिः ॥ ७ ॥  
नमभो-नमभकुलस्यैकः सिद्धायाख्यस्त्रिसिद्धिभाक्<sup>२</sup> । तस्य पुण्यानुभावेन<sup>३</sup> प्रियासीप्रियकारिणी ॥ ८ ॥  
विषये वत्सवासाख्ये कौशाम्बीनगरस्थिपः । सोमवंशे शतानीको देव्यस्यासीन्मृगास्वती ॥ ९ ॥  
दशार्णविषये राजा हेमकच्छपुराधिपः । सूर्यवंशाम्बरे राजसमो दशरथोऽभवत् ॥ १० ॥  
तस्याभूत्सुप्रभा देवी भास्वती वा प्रभामला । कच्छाख्यविषये रोरुकाख्यायां पुरि भूपतिः ॥ ११ ॥  
महानुदयनस्तस्य<sup>४</sup> प्रमदाऽभूत्प्रभावती । प्राप शीलवतीख्यातिं सा सम्यक्श्रीलधारणात् ॥ १२ ॥  
गान्धारविषये ख्यातो महींपालो महीपुरे । याचिन्वा सत्यको ज्येष्ठामलदध्वा क्रुद्धवान् विभीः ॥ १३ ॥  
युद्धं रणाङ्गणे प्राप्तमानभङ्गः स सत्रपः । सद्यो दमवरं प्राप्य तनः संयममग्रहीत् ॥ १४ ॥

अथानन्तर—किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके धारक गौतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे । उनके समीप जाकर राजा श्रेणिकने समस्त आर्थिकाओंकी स्वामिनी चन्दना नामकी आर्थिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूछी तो अनेक बड़ी बड़ी ऋद्धियोंको धारण करने वाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ सिन्धु नामक देशकी वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत और जिनेन्द्र देवका अतिशय भक्त राजा था । उसकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके दश पुत्र हुए जो कि धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकुम्भोज, अकम्पन, पतङ्गक, प्रभञ्जन और प्रभास नामसे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंके समान जान पड़ते थे ॥ ३-५ ॥ इन पुत्रोंके सिवाय सात ऋद्धियोंके समान सात पुत्रियां भी थीं । जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी थी, उससे छोटी मृगावती, उससे छोटी, सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेलिनी, उससे छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चन्दना थी । विदेह देशके कुण्डनगरमें नाथ वंशके शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे । पुण्यके प्रभावेन प्रियकारिणी उन्हींकी स्त्री हुई थी ॥ ६-८ ॥ वत्सदेशकी कौशा-म्बीनगरीमें चन्द्रवंशी राजा शतानीक रहते थे । मृगावती नामकी दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी ॥ ९ ॥ दशार्ण देशके हेमकच्छ नामक नगरके स्वामी राजा दशरथ थे जो कि सूर्यवंश रूपी आकाशके चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे । सूर्यकी निर्मलप्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छदेशकी रोरुका नामक नगरीमें उदयन नामका एक बड़ा राजा था । प्रभावती नामकी चौथी पुत्री उसीकी हृदयवत्तमा हुई थी । अच्छी तरह शीलव्रत धारण करनेसे इसका दूसरा नाम शीलवती भी प्रसिद्ध हो गया था ॥ १०-१२ ॥ गान्धार देशके महीपुर नगरमें राजा सत्यक रहता था । उसने राजा चेटकसे उसकी ज्येष्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं दी इससे उस दुर्बुद्धि मूर्खने क्रुपित होकर रणाङ्गणमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें वह हार गया जिससे मानभङ्ग होनेसे लजित होनेके कारण उसने शीघ्र ही दमवर नामक मुनिराजके समीप जाकर

१ सुप्रभातः ज्ञ०, कचिदन्यापि च । २ स्वसिद्धिभाक् ज्ञ० । ३ प्रियाभूत् ज्ञ० । ४ प्रमदा ज्ञ० ।



स चेटकमहाराजः खंहाद्रूपमर्लालिखत्<sup>१</sup> । पट्टके सप्तपुत्रीणां विशुद्धं शश्वदीक्षितम् ॥ १५ ॥  
 निरीक्ष्य तत्र चेलिन्या रूपस्य पतितं मनाक् । बिन्दुमूरौ विधात्रेऽभ्य नृपे कुपितवत्यसौ ॥ १६ ॥  
 पूज्यद्विस्त्रिर्मया बिन्दुः प्रसृष्टः<sup>२</sup> संस्तथापि सः । तथैव पतितस्तस्मिन्भाग्यमङ्केन तादृशः<sup>३</sup> ॥ १७ ॥  
 इति मत्वानुमानेन पुनर्न तममाजिपम् । इत्यब्रवीच्चटुक्तेन भूपतिः प्रीतिमीयिवान्<sup>४</sup> ॥ १८ ॥  
 स देवार्चनवेलायां जिनबिम्बोपकण्ठके । तत्पट्टकं प्रसार्येज्यां निर्वर्तयति सर्वदा ॥ १९ ॥  
 कदाचिच्छेटको गत्वा ससैन्यो मागधं पुरम् । "राजा राजगृहं बाह्योद्याने स्नानपुरस्सरम् ॥ २० ॥  
 जिनप्रतिनिधीन्पूर्वमभ्यर्च्याभ्यर्णपट्टकम् । आनर्चं तद्विलोक्य त्वमप्राक्षीः पार्श्ववतिनः ॥ २१ ॥  
 किमेतदिति तेऽब्रुवन् राजः ससापि पुत्रिकाः । लिखितास्तासु कल्याणं चतस्रः समवापिताः ॥ २२ ॥  
 तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते तत्र द्वे प्राश्रयौवने । कनिष्ठा बालिका राजज्जित्ति तद्वचनश्रुतेः ॥ २३ ॥  
 "भवान् रफं तयोश्चित्रं मन्त्रिणः समजिज्ञपत् । तेऽपि तत्कार्यमभ्येत्य कुमारमवदञ्चिति ॥ २४ ॥  
 चेटकाख्यमहीशस्य सुतयोरनुरक्तवान् । पिता ते याच्यमानोऽसौ न दशे वयसश्च्युतेः ॥ २५ ॥  
 हृद्बन्धवश्यकर्तव्यं कोऽप्युपायोऽत्र कथ्यताम् । सांऽपि मन्त्रिवचः श्रुत्वा तत्कार्योपायपण्डितः ॥ २६ ॥  
 "जोपमाध्वमहं कुर्वे तत्समर्थनमित्यमून् । सन्तोष्य मन्त्रिणः सोऽपि तत्स्वरूपं विलासवत् ॥ २७ ॥  
 पट्टके सम्यगालिख्य वस्त्रेणाच्छाद्य यत्नतः । तत्पार्श्ववतिनः सर्वान् स्वीकृत्योत्कोचदानतः ॥ २८ ॥

दीक्षा धारण कर ली ॥ १३-१४ ॥ तदनन्तर महाराज चेटकने खंहेके कारण सदा देखनेके लिए पट्टकपर अपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये । चेलिनीके चित्रमें जाँघपर एक छोटा-सा बिन्दु पड़ा हुआ था उसे देखकर राजा चेटक बनानेवालेपर बहुत कुपित हुए । चित्रकारने नम्रतासे उत्तर दिया कि हे पूज्य ! चित्र बनाने समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो तीन बार साफ किया परन्तु यह फिर-फिरकर पड़ना जाता था इसलिए मैंने अनुमानसे विचार किया कि यहाँ ऐसा चिह्न होगा ही । यह मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया है । चित्रकारकी बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए ॥ १५-१८ ॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिन-प्रतिमाके समीप ही अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फैलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥ १९ ॥ किसी एक समय राजा चेटक अपनी सेनाके साथ मगधदेशके राजगृह नगरमें गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य उपवनमें डेरा दिया । स्नान करनेके बाद उन्होंने पहले जिन-प्रतिमाओंकी पूजा की और उसके बाद समीपमें रखे हुए चित्रपटकी पूजा की । यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि यह क्या है ? तत्र उन लोगोंने कहा कि हे राजन् ! ये राजाकी सातों पुत्रियोंके चित्रपट है इनमेंसे चार पुत्रियाँ तो विवाहित हो चुकी हैं परन्तु तीन अविवाहित हैं उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है । इन तीनमें दो तो यौवनवती हैं और छोटी अभी बालिका है ! लोगोंके उक्त वचन सुनकर तूने अपने मन्त्रियोंको बतलाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंमें अनुरक्त हो रहा है । मन्त्री लोग भी इस कार्यको ले कर अभयकुमारके पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियोंमें अनुरक्त हैं उन्होंने वे पुत्रियाँ माँगी भी हैं परन्तु अवस्था ढल जानेके कारण वह देता नहीं है ॥ २०-२५ ॥ यह कार्य अवश्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइये । मन्त्रियोंके वचन सुनकर उस कार्यके उपाय जाननेमें चतुर अभयकुमारने कहा कि आप लोग चुप बैठिये, मैं इस कार्यको सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार संतुष्ट कर अभयकुमारने मन्त्रियोंको विदा किया और स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका विलास पूर्ण चित्र बनाया । उसे वस्त्रसे ढककर बड़े यत्नसे ले गया । राजाके समीपवर्ती लोगोंको धूस दे कर उसने अपने वश कर लिया और स्वयं बोद्रक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकके घरमें प्रवेश

१ व्यलीलिखत् ख० । रूपान्मूर्तिलिखत् ग०, क०, घ० । २ सम चापि सः ल० । ३ तादृशम् क०, ग०, घ० । ४-मातवान् ल० । ५ राजद्राजगृहं ल० । ६ भवद् ल० । ७ योप-ल० । ८ स्वीकृत्योत्कोचदानतः ल०, म०, स्वीकृत्योत्कटदानतः ग०, घ०, क० । 'उत्कोचो दौकनं तथा । उपप्रदानमुपदोपहारोपायने समे' इति नामकोशे यतीन्द्राः ( ल०, टि० ) ।

स्वयञ्च बोद्धको नाम वणिग्भूत्वा तदालयम् । प्राविक्षत्पट्टके रूपं कन्ये ते तत्करस्थिते<sup>१</sup> ॥ २९ ॥  
 विलोक्य भवति प्रीत्या<sup>२</sup> सौरङ्गादतिसाहसान् । कुमारविहितान्मार्गाद्गत्वा किञ्चिदातोऽन्तरे ॥ ३० ॥  
 चेलिनी कुटिला ज्येष्ठा मुक्त्वा त्वं गच्छ विस्मृता । न्यानयाभरणानीति स्वयं तेन सहागमत ॥ ३१ ॥  
 साप्यासाभरणाऽऽगत्य तामदृष्टातिसन्धिता । तयाहमिति शोकार्ता निजमार्मी यशस्वतीम् ॥ ३२ ॥  
 दृष्ट्वा क्षान्तिं सगीपेऽस्याः श्रुत्वा धर्मं जिनोदितम् । निविद्य संसृतेर्दीक्षां प्राप पापविनाशिनीम् ॥ ३३ ॥  
 भवतापि महाप्रीत्या चेलिनीं यथाविधि । गृहीतानुमहादेवी पट्टबन्धास्तोष सा ॥ ३४ ॥  
 चन्दना च यशस्वत्या गणिन्याः सन्निधौ स्वयम् । सन्यक्तं श्रावकाणाञ्च व्रतान्यादरा सुव्रता ॥ ३५ ॥  
 ततः खगाद्रयवाकश्रेणीसुवर्णाभपुरेश्वरः । मनोवेगः खगार्धशः स मनोवेगया समम् ॥ ३६ ॥  
 स्वच्छन्दं चिरमाक्रीड्य प्रत्यायाँश्चन्दनां वने । अशोकाख्ये समाक्रीडमानां परिजनैः सह ॥ ३७ ॥  
 बिलोक्यानङ्गनिर्मुक्तशरजर्जरिताङ्गकः । प्रापय्य स्वप्रियां गेहं रूपिणी विद्यया स्वयम् ॥ ३८ ॥  
 विकृत्य रूपं त्वं तत्र निधाय हरिविष्टरे । अशोकवनमध्येत्य गृहीत्वा चन्दनां द्रुतम् ॥ ३९ ॥  
 प्रत्यागतो मनोवेगाप्येत<sup>३</sup> विहितवञ्चनम् । ज्ञात्वा कोपारुणीभूतविभीषणविलोचना ॥ ४० ॥  
 तां विद्यादेवतां वामपादेनाक्रम्य सावधीत् । कृतादृहासा सा विद्याप्यगात्सिंहासनारादा ॥ ४१ ॥  
 \*चेष्टामालोकिनीविद्यातो ज्ञात्वा स्वपतेरनु । गच्छन्त्यर्धपथे दृष्ट्वा विसृजेतां स्वजीवितम् ॥ ४२ ॥  
 यदि बान्धेरिति क्रोधात् निर्भर्त्सयति स्म सा । स भूतरमणेऽरण्ये तां स्वदारातिभीलुकः ॥ ४३ ॥

किया। वहाँ वे दोनों कन्याएं बोद्धकके हाथमें स्थित पटियं पर लिखा हुआ आपका रूप देखकर आपमें प्रेम करने लगीं। कुमारने एक सुरङ्गका मार्ग पहलेसे ही तैयार करवा लिया था अतः वे कन्याएं बड़े साहसके साथ उस मार्गसे चल पड़ीं। चेलिनी कुटिल थी इसलिए कुछ दूर जानेके बाद ज्येष्ठसे बोली कि मैं आभूषण भूल आई हूँ तू जाकर उन्हें ले आ। यह कहकर उसने ज्येष्ठाको तो वापिस भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ आ गई ॥ २६-३१ ॥ जब ज्येष्ठा आभूषण ले कर लौटी तो वहाँ चेलिनी तथा अभयकुमारको न पाकर बहुत दुःखी हुई और कहने लगी कि चेलिनीने मुझे इस तरह ठगा है। अन्तमें उसने अपनी मार्मी यशस्वती नामकी आर्यिकाके पास जाकर जैन धर्मका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त हो कर पापोंका नाश करने वाली दीक्षा धारण कर ली ॥ ३२-३३ ॥ आपने भी बड़ी प्रीतिसे विधिपूर्वक चेलिनाके साथ विवाह कर उसे महादेवीका पट्ट बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥ ३४ ॥

उधर उत्तम व्रत धारण करने वाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती आर्यिकाके समीप जाकर सम्यग्दर्शन और श्रावकोंके व्रत ग्रहण कर लिये ॥ ३५ ॥ किसी एक समय वह चन्दना अपने परिवारके लोगोंके साथ अशोक नामक वनमें क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय दैवयोगसे विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके सुवर्णाभ नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानीके साथ स्वच्छन्द क्रीडा करता हुआ वहाँसे निकला और क्रीड़ा करती हुई चन्दनाको देखकर कामके द्वारा छोड़ हुए बाणोंसे जर्जरशरीर हो गया। वह शीघ्र ही अपनी स्त्रीको घर भेजकर रूपिणी विद्यासे अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर बैठा आया और अशोक वनमें आकर तथा चन्दनाको लेकर शीघ्र ही वापिस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी मायाको जान गई जिससे क्रोधके कारण उसके नेत्र लाल हो कर भयंकर दिखने लगे। उसने उस विद्या देवताको बायें पैरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे वह अदृहास करती हुई सिंहासनसे उसी समय चली गई ॥ ३६-४१ ॥ तदनन्तर वह मनोवेगा रानी आलोकिनी नामकी विद्यासे अपने पतिकी सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी और आधे मार्गमें चन्दना सहित लौटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो। इस प्रकार क्रोधसे उसने उसे बहुत ही डाँटा। मनोवेग अपनी स्त्रीसे बहुत

१ करस्थितम् छ०। २ सौभाग्या-प०, ग०, क०। ३-येतन्निहितवञ्चनम् म०, ल०।  
 ४-आभोगिनी छ०।

ऐरावतीसरिद्विष्णुनाम्ने साञ्चितविद्यया । पर्णलक्ष्या तदैवान्तःकृतशोको विस्पष्टवान् ॥ ४४ ॥  
 सापि पञ्चनमस्कारपरिवर्तनतत्परा । निनाय शर्वरीं कृष्णाम्नानुमत्युदिते स्वयम् ॥ ४५ ॥  
 तत्र सञ्चिहितो वैवाङ्कालकाल्यो वनेचरः । तस्मै निजपराध्व्योःस्फुरिताभरगान्यदात् ॥ ४६ ॥  
 धर्मञ्च कथयामास तेन तुष्टो वनेचरः । भीमकूटाचलोपान्तनिवासी सिंहसञ्ज्ञकः ॥ ४७ ॥  
 भयङ्कराल्यपल्लीशस्तस्य तां स समर्पयत् । सोऽपि पापो<sup>१</sup> विलांक्यैनां कामव्यामोहिताशयः ॥ ४८ ॥  
 निग्रहेण ग्रहः क्रूरो वाल्मसात्कर्तुमुद्यतः । तद्वीक्ष्य पुत्र मैवं त्वं कृथाः प्रत्यक्षदेवता ॥ ४९ ॥  
 यदि कुप्येदियं तापशापदुःखप्रदायिनी । इति मातृक्तिभीत्या तां दुर्जनाऽपि व्यसर्जयत् ॥ ५० ॥  
 तत्रैव चन्दना तस्य मात्रा सम्यन्विधानतः । पोष्यमाणा विनिश्चिन्ता कञ्चित्कालमजीगामत् ॥ ५१ ॥  
 अथ वत्साङ्ग्ये देवो कौशाम्ब्यां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी वृषभसेनाख्यस्तस्य कर्मकरोऽभवत् ॥ ५२ ॥  
 मित्रवीरो वनेशस्य मित्रं तस्य वनाधिपः । चन्दनामर्पयामास सोऽपि भक्त्या वणिक्पतेः ॥ ५३ ॥  
 धनेन महता सार्वं नीत्वा कन्यां न्यवेदयत् । कदाचिच्छ्रेष्ठिनः पातुं जलमुद्धृत्य यन्ततः ॥ ५४ ॥  
 भावर्जयन्त्याः केशानां कलापं मुक्तबन्धनम् । लम्बमानं करेणादात्सजलाद्रं धरातले ॥ ५५ ॥  
 चन्दनायास्तदालोक्य तद्रूपादतिशङ्किनी<sup>२</sup> । श्रेष्ठिनी तस्य भद्राख्या स्वभर्तुरनया समम् ॥ ५६ ॥  
 सम्पर्कं मनसा मत्वा कोपात्स्फुरिताधरा । निक्षिप्तशृङ्खलां कन्यां दुराहारेण दुर्जना ॥ ५७ ॥  
 प्रतर्जनादिभिश्चैनां निरन्तरमबाधत । सापि मत्कृतपापस्य विपाकोऽयं वराकिका ॥ ५८ ॥

ही डर गया । इसलिए उसने हृदयमें बहुत ही शोककर सिद्ध की हुई पर्णलक्ष्मी नामकी विद्यासे उस चन्दनाको भूतरमण नामक वनमें ऐरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया ॥ ४२-४४ ॥ पञ्चनमस्कार मन्त्रका जप करनेमें तत्पर रहने वाली चन्दनाने वह रात्रि बड़े कष्टसे बिताई । प्रातःकाल जब सूर्यका उदय हुआ तब भाग्यवशा एक कालक नामका भील वहाँ स्वयं आ पहुँचा । चन्दनाने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिये और धर्मका उपदेश भी दिया जिससे वह भील बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । वहीं कहीं भीमकूट नामक पर्वतके पास रहनेवाला एक सिंह नामका भीलका राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्लीका स्वामी था । उस कालक नामक भीलने वह चन्दना उसी सिंह राजाको सौंप दी । सिंह पापी था अतः चन्दनाको देखकर उसका हृदय कामसे मोहित हो गया ॥ ४५-४८ ॥ वह क्रूर ग्रहके समान निग्रह कर उसे अपने आधीन करनेके लिए उद्यत हुआ । यह देख उसकी माताने उसे समझाया कि हे पुत्र ! तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है, यदि कुपित हो गई तो कितने ही संताप, शाप और दुःख देने वाली होगी । इस प्रकार माताके कहनेसे डरकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी वह चन्दना छोड़ दी ॥ ४९-५० ॥ तदनन्तर चन्दनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ काल वहीं पर व्यतीत किया । वहाँ भीलकी माता उसका अच्छी तरह भरण-पोषण करती थी ॥ ५१ ॥

अथानन्तर-वत्स देशके कौशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरमें एक वृषभसेन नामका सेठ रहता था । उसके मित्रवीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराज का मित्र था । भीलके राजाने वह चन्दना उस मित्रवीरके लिए दे दी और मित्रवीरने भी बहुत भारी धनके साथ भक्तिपूर्वक वह चन्दना अपने सेठके लिए सौंप दी । किसी एक दिन वह चन्दना उस सेठके लिए जल पिला रही थी उस समय उसके केशोंका कलाप छूट गया था और जलसे भीगा हुआ पृथिवीपर लटक रहा था उसे वह बड़े यत्नसे एक हाथसे संभाल रही थी ॥ ५२-५५ ॥ सेठकी स्त्री भद्रा नामक सेठानीने जब चन्दनाका वह रूप देखा तो वह शङ्कासे भर गई । उसने मनमें समझा कि हमारे पतिका इसके साथ सम्पर्क है । ऐसा मानकर वह बहुत ही कुपित हुई । क्रोधके कारण उसके आँठ काँपने लगे । उस दुष्टाने चन्दनाको साँकलसे बाँध दिया तथा खराब भोजन और ताड़न मारण आदिके द्वारा वह उसे निरन्तर कष्ट पहुँचाने लगी । परन्तु चन्दना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किये हुए पाप-कर्मका फल है यह वैचारी सेठानी क्या कर सकती है ? ऐसा विचारकर वह निरन्तर

श्रेष्ठिनी किं करोतीति कुर्वन्त्यात्मविगर्हणम् । स्वाप्रजाया मृगावत्या अन्वेष्य न्यवेदयत् ॥ ५९ ॥  
 अन्यदा नगरे तस्मिन्नेव वीरस्तनुस्थितेः । प्रविष्टवाञ्छिरीक्ष्यासौ तं भक्त्या मुक्तशृङ्खला ॥ ६० ॥  
 सवाभरणदृश्याङ्गी<sup>१</sup> तद्गारेणेव भूतलम् । शिरसा स्पृश्य नत्वोच्चैः प्रतिपृच्छ यथाविधि ॥ ६१ ॥  
 भोजयित्वाप तद्दानान्मानिनी मानितामरैः । वसुधारां मरुत्पुष्पवृष्टिं सुरभिमारुतम् ॥ ६२ ॥  
 सुरदुन्दुभिनिर्घोषं दानस्तवनघोषणम् । तदैवोत्कृष्टपुण्यानि फलन्ति विपुलं फलम् ॥ ६३ ॥  
 अग्रजास्थास्तदागत्य पुत्रेणामा मृगावती । तद्ज्ञात्वोदयनाख्येन स्नेहादालिङ्ग्य चन्दनाम् ॥ ६४ ॥  
 पृष्ठा तां प्राक्तनं वृत्तं श्रुत्वा शोकाकुला भृशम् । निजगेहं समानीय सुस्थिता भयविह्वलौ ॥ ६५ ॥  
 स्वपादशरणौ भद्रां श्रेष्ठिनञ्च दयावती<sup>२</sup> । चन्दनापादपङ्केजयुगलं तावर्नाननमत् ॥ ६६ ॥  
 क्षमा मूर्तिमतीवेयं कृत्वाह्लादं तयोस्ततः । तद्द्वार्ताकर्णनोदीर्णरागादागतबन्धुभिः ॥ ६७ ॥  
 प्रापितैतत्पुरं वीरं वन्दितुं निजबान्धवान् । विसृज्य जातनिर्वेगा गृहीत्वात्रैव संयमम् ॥ ६८ ॥  
 तपोवगममाहात्म्यादध्यस्थाद्गणिनीपदम् । इतीहजन्मसम्बन्धं श्रुत्वा तत्रानुचेटकः ॥ ६९ ॥  
 प्राङ्किं कृत्वागता चन्दनात्रैतस्स च पृष्टवान् । सोऽप्यवार्तादिहैवास्ति मगधे नगरी पृथुः ॥ ७० ॥  
 वसेति पालयत्येनां महीपाले प्रसेनिके । विप्रस्तत्राग्निमित्राख्यस्तस्यैका ब्राह्मणी प्रिया ॥ ७१ ॥  
 परा वैश्यसुता<sup>४</sup> सूनुर्ब्राह्मण्यां शिवभूतिवाक् । दुहिता चित्रसेनाख्या<sup>५</sup> विदुसुतायामजायत ॥ ७२ ॥

आत्मनिन्दा करती रहती थी । उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहिन मृगावतीके लिए भी कहलाकर नहीं भेजे थे ॥ ५६-५९ ॥

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान् महावीर स्वामीने आहारके लिए उर्मी नगरीमें प्रवेश किया । उन्हें देख चन्दना बड़ी भक्तिसे आगे बढ़ी । आते बढ़ते ही उसकी साँकला टूट गई और आभरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने लगा । उन्हींके भारसे मानो उसने भुक्कर शिरसे पृथिवी तलका स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया और विधिपूर्वक पङ्गाह कर उन्हें भोजन कराया । इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सन्तुष्ट हुई, दोनोंने उसका सन्मान किया, रत्नधारा की वृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुभियोंका शब्द हुआ और दानकी स्तुतिकी घोषणा होने लगी सो ठीक ही है क्योंकि उक्तप्र पुण्य अपने बड़े भारी फल तत्काल ही फलते हैं ॥ ६०-६३ ॥ तदनन्तर चन्दनाकी बड़ी बहिन मृगावती यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र उदयनके साथ उसके समीप आई और स्नेहसे उसका आलिङ्गन कर पिछला समाचार पूछने लगी तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत ही व्याकुल हुई । तदनन्तर रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई । यह देख भद्रा सेठानी और वृषभसेन सेठ दोनों ही भयसे धवड़ाये और मृगावतीके चरणोंकी शरणमें आये । दयालु रानीने उन दोनोंसे चन्दनाके चरण-कमलोंमें प्रणाम कराया ॥ ६४-६६ ॥ चन्दनाके क्षमाकर देनेपर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानो मूर्तिमती क्षमा ही है । इस समाचारके सुननेसे उत्पन्न हुए स्नेहके कारण चन्दनाके भाई-बन्धु भी उसके पास आ गये । उसी नगरमें सबलोग महावीर स्वामीकी चन्दनाके लिए गये थे, चन्दना भी गई थी, वहाँ वैराग्य उत्पन्न होनेसे उसने अपने सब भाई-बन्धुओंको छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपश्चरण तथा सम्यग्ज्ञानके माहात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया । इस प्रकार चन्दना वर्तमानके भयकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्दना पूर्व जन्ममें ऐसा कौन-सा कार्य करके यहाँ आई है । इसके उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे—इसी मगध देशमें एक वत्सा नामकी विशाल नगरी है । राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था । उसी नगरीमें एक अग्निमित्र नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी दो बियाँ थीं एक ब्राह्मणी और दूसरी वैश्यकी पुत्री । ब्राह्मणीके शिवभूति नामका पुत्र हुआ और वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की

१ सर्वाभरणदृश्याङ्गा ल० । २ निजगेहं व० । ३ मृगावती ल० । ४ सूनुर्ब्राह्मण्यां ल० । ५ वैश्य-पुण्या इति कचित् ।

शिवभूतेरभूत्कार्या सोमिला सोमशर्मणः । सुता गुग्देवशर्माख्यचित्रसेनास्य च प्रिया ॥ ७१ ॥  
 अभिभूती गतप्राणे तनूजस्तत्पदेऽभवत् । विधवा चित्रसेनापि पोष्यत्वं सह सूनुभिः ॥ ७४ ॥  
 शिवभूतेः समापन्ना दैवस्य कुटिला गतिः । सोमिला चित्रसेनायास्तत्सुतानां च पोषणम् ॥ ७५ ॥  
 पापिष्ठाऽसहमानाऽसौ तजिता शिवभूतिना । क्रुध्वा जीवत्यमा चित्रसेनयायं स चेत्यसन् ॥ ७६ ॥  
 अकरोद्दूषणं धिग्धिहूनाकार्यं नाम योषिताम् । चित्रसेनापि मामेषा रूपैवाद्दूषयन्मृषा ॥ ७७ ॥  
 निग्रहं प्यामि मृतैनां निदानमकरोदिति । अन्यदामन्त्रणे पूर्वं शिवगुप्तमुनीश्वरम् ॥ ७८ ॥  
 सोमिलाभोजयतास्यै शिवभूतिः स्म कुप्यति । तत्रापोघनमाहात्म्यकथनेन तया पतिः ॥ ७९ ॥  
 प्रसादितस्ततः साधु तद्दानं सोऽन्वमन्यत । स कालान्तरमाश्रित्य लोकान्तरगतः सुतः ॥ ८० ॥  
 जानोत्र विषये 'वङ्गे कान्ते कान्तपुरेशिनः । सुवर्णवर्मणो विद्युल्लेखायाश्च महाबलः ॥ ८१ ॥  
 देशेऽङ्गेश्रैव चम्पायां श्रीषेणालयमहापतेः । सुवर्णवर्मसौदर्या धनश्रीः प्रेमदायिनी ॥ ८२ ॥  
 सोमिलाभूतयोः पुत्री कनकादिलताभिधा । महाबलकुमाराय दातव्येयमिति स्वयम् ॥ ८३ ॥  
 जन्मन्येवाभ्युपेतैषा मात्रा पित्रा च सम्मदान् । वर्धमानः पुरे तस्मिन्नेव बालिकया समम् ॥ ८४ ॥  
 अभ्यर्णे यौवने यावद्विवाहसमयो भवेत् । 'तावत्पृथग्बसेदस्मादिति मानुलवाक्यतः ॥ ८५ ॥  
 बहिः स्थितः कुमारोऽसौ कन्यायामनिसक्तवान् । तयोर्योगोऽभवत्कामावस्थामसहमानयोः ॥ ८६ ॥  
 ततः कान्तपुरं लज्जाप्रेरितौ तौ गतौ तदा । 'दृष्ट्वा तत्र कुमारस्य' मात्रा पित्रा च शोकतः ॥ ८७ ॥

उत्पन्न हुई ॥ ६७-७२ ॥ शिवभूतिकी स्त्रीका नाम सोमिला था जो कि सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री थी और उसी नगरमें एक देवशर्मा नामका ब्राह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना व्याही गई थी ॥ ७३ ॥  
 किन्तु ही दिन बाद जब अभिभूति ब्राह्मण मर गया तब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिष्ठित हुआ । इधर चित्रसेना विधवा हो गई इसलिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभूतिके घर आकर रहने लगी मां ठीक ही है क्योंकि कर्मोंकी गति बड़ी टेढ़ी है । शिवभूति, अपनी वहिन चित्रसेना और उसके पुत्रोंका जो भरण-पोषण करता था वह पापिनी सोमिलाको सह्य नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिने उसे ताड़ना दी तब उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोष लगाया कि यह मेरा भर्ता चित्रसेनाके साथ जीवित रहता है अर्थात् इसका उसके साथ अनुराग है । यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्त्रियोंको कोई भी कार्य अकार्य नहीं है अर्थात् वे बुरासे बुरा कार्य कर सकती हैं इसलिए इन स्त्रियोंको चार-चार धिक्कार हो । चित्रसेनाने भी क्रोधमें आकर निदान किया कि इसने मुझे मिथ्या दोष लगाया है । इसलिए मैं मरनेके बाद इसका निग्रह करूंगी—वदला लूँगी । तदनन्तर किसी एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक मुनिराजको पड़गाहकर आहार दिया जिससे शिवभूतिने सोमिलाके प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया परन्तु उन मुनिराजका माहात्म्य कह कर सोमिलाने शिवभूतिको प्रसन्न कर लिया और उसने भी उस दानकी अच्छी तरह अनुमोदना की । समय पाकर वह शिवभूति मरा और अत्यन्त रमणीय बङ्ग देशके कान्तपुर नगरमें वहाँके राजा सुवर्णवर्मा तथा रानी विद्युल्लेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ ॥ ७४-८१ ॥ इसी भरतक्षेत्रके अङ्ग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीषेण राज्य करते थे । इनकी रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर नगरके राजा सुवर्णवर्माकी वहिन थी । सोमिला उन दोनोंके कनकलता नामकी पुत्री हुई । जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता-पिताने बड़े हृषते अपने आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमारके लिए देनी चाहिये और उसके माता-पिताने भी यह स्वीकृत कर लिया था । महाबलका लालन-पालन भी इसी चम्पा नगरीमें मामाके घर बालिका कनकलताके साथ होता था । जब वह क्रमसे वृद्धिको प्राप्त हुआ और यौवनका समय निकट आ गया तब मामाने कहा कि जबतक तुम्हारे विवाहका समय आता है तबतक तुम यहाँसे पृथक् रहो । मामाके यह कहनेसे महाबल यद्यपि बाहर रहने लगा तो भी वह कन्यामें सदा आसक्त रहता था । वे दोनों ही कामकी अवस्था को सह नहीं सके इसलिए उन दोनोंका समागम हो गया ॥ ८२-८६ ॥ इस कार्यसे वे दोनों स्वयं

तयोर्विरुद्धचारित्वादिप्रियाबावथोरपि । धातं देशान्तरं नाम स्थानव्यमिति जल्पितौ ॥ ८८ ॥  
 तदैवाकुरुतां तौ च प्रत्यन्तनगरे स्थितिम् । विहरन्तावथान्येषु हृद्याने मुनिपुङ्गवम् ॥ ८९ ॥  
 मुनिगुप्ताभिर्धं वीक्ष्य भक्त्या भिक्षागवेषिणम् । प्रत्युत्थाय परीत्याभिवन्द्याभ्यर्च्य यथाविधि ॥ ९० ॥  
 स्वोपयोगनिमित्तानि तानि स्वाद्यानि मोदतः । स्वादूनि लड्डुकादीनि दत्त्वा तस्मै तपोभृते ॥ ९१ ॥  
 नवभेदं जिनोद्दिष्टमदष्टं स्वेष्टमापतुः । वनेऽन्यदा कुमारोऽसौ मधुमासे विषाहिना ॥ ९२ ॥  
 दष्टो नष्टासुको जातो दृष्ट्वा तं देहमाश्रकम् । तस्यासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम् ॥ ९३ ॥  
 अगात्तदनुमार्गेण तमन्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्ठामवाप्तस्य भवेद्धि गतिरीदृशी ॥ ९४ ॥  
 अस्मिन्नेवोज्जयिन्याख्यमवन्तिविषये पुरम् । प्रजापतिमहाराजः पालकस्तस्य हेलया ॥ ९५ ॥  
 तत्रैव धनदेवाख्यश्रेष्ठी तद्देहिनी सती । धनमित्रा तयोः सूनूर्नागदशो महाबलः ॥ ९६ ॥  
 तनूजा चानुजास्यासीदर्धस्वामिन्यभिरुचया । पलाशद्वीपमध्यस्थपलाशनगरेशिनः ॥ ९७ ॥  
 महाबलमहीशस्य कनकादिलताऽभवन् । काञ्चनादिलतायाश्च ख्याता पद्मलता सुता ॥ ९८ ॥  
 उपयम्यापरां श्रेष्ठी श्रेष्ठिनीं विससर्ज ताम् । सापि देशान्तरंगत्वा ससुता जातसंविदा ॥ ९९ ॥  
 शीलदत्तगुरोः पार्श्वे गृहीतश्रावकप्रता । सूनुमप्यर्पयामास शास्त्राभ्यासनिमित्ततः ॥ १०० ॥  
 सोऽपि कालान्तरे बुद्धिनौनिस्तीर्णश्रुताम्बुधिः<sup>१</sup> । सत्कविश्च स्वयम्भूत्वा शास्त्रव्याख्यासप्तसप्तधाः ॥ १०१ ॥  
 नानालङ्काररम्योक्तिसुप्रसन्नसुभाषितैः । विशिष्टजनचेतस्सु प्रह्लादमुदपादयत् ॥ १०२ ॥

ही लज्जित हुए और कान्तपुर नगरको चले गये । उन्हें देख, महाबलके माता-पिताने बड़े शोकसे कहा कि चूँकि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करने वाले हो अतः हम लोगोंको अच्छे नहीं लगते । अब तुम किसी दूसरे देशमें चले जाओ यहाँ मत रहो । माता-पिताके ऐसा कहनेपर वे उसी समय वहाँसे चले गये और प्रायन्तनगरमें जाकर रहने लगे । किमी एक दिन वे दोनों उद्यानमें विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी । वे मुनिराज भिक्षाकी तलाशमें थे । महाबल और कनकलताने भक्तिपूर्वक उनके दर्शन किये, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और विधिपूर्वक पूजा की । तदनन्तर उन दोनोंने अपने उपयोगके लिए तैयार किये हुए लड्डू आदि मिष्ट खाद्य पदार्थ, हर्ष पूर्वक उन मुनिराजके लिए दिये जिससे उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया । किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास-चैत्रमासमें धनमें घूम रहा था वहाँ एक विपैले साँबने उसे काट खाया जिससे वह शीघ्र ही मर गया । पतिको शरीर मात्र (मृत) देखकर उसकी स्त्री कनकलताने उसीकी तलवारसे आत्मघात कर लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसीकी पीछे ही चल पड़ी हो । आचार्य कहते हैं कि जो स्नह अन्तिम साँभाको प्राप्त हो जाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है ॥ ८७-९४ ॥

इसी भरत क्षेत्रके अवन्ति देशमें एक उज्जयिनी नामका नगर है । प्रजापति महाराज उसका अनायास ही पालन करते थे ॥ ९५ ॥ उसी नगरमें धनदेव नामका एक सेठ रहता था । उसकी धन-मित्रा नामकी पतिव्रता सेठानी थी । महाबलका जीव उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र हुआ ॥ ९६ ॥ इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तकी छोटी बहिन थी । पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । कनकलता, इसी महाबल राजाकी काञ्चनलता नामकी रानीसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई ॥ ९७-९८ ॥ किसी एक समय उज्जयिनी नगरीके सेठ धनदेवने दूसरी स्त्रीके साथ विवाहकर पहिली स्त्री धनमित्राको छोड़ दिया इसलिए वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चली गई । एक समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शील-दत्त गुरुके पास श्रावकके व्रत ग्रहण किये और शास्त्रोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं मुनिराजको सौंप दिया ॥ ९९-१०० ॥ समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिरूपी नौकाके द्वारा शास्त्र रूपी समुद्रको पार कर गया । वह उत्तम कवि हुआ और शास्त्रोंकी व्याख्यासे सुयश प्राप्त करने लगा ॥ १०१ ॥ वह नाना अलंकारोंसे मनोहर वचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुभाषितोंसे विशिष्ट

तत्रैवारक्षिपुत्रेण दृढरक्षेण संगतिम् । कृत्वा तत्पुरशिष्टानां शास्त्रव्याख्यानकर्मणा ॥ १०३ ॥  
 उपाध्यायत्वमध्यास्य तत्राप्तवसुना निजाम् । जननीं स्वस्वसारञ्च स्वयञ्च<sup>१</sup> परिपोषयन् ॥ १०४ ॥  
 स्वमानुलानीपुत्राय नन्दिप्रामनिवासिने । कुलवाणिजनान्ने स्वामनुजामदितादरात् ॥ १०५ ॥  
 स कदाचिदुपश्लोकपूर्वकं क्षितिनायकम् । विलोक्य तत्प्रसादात्सम्मानधनसम्पदः ॥ १०६ ॥  
 कृतमातृपरिभ्रमः पितुरागत्य सञ्चिधिम् । प्रणमत्पदाभोजं धनदेवः समीक्ष्य तम् ॥ १०७ ॥  
 जीव पुत्रान्न तिष्ठेति प्रियैः प्रीणयति स्म सः । सोऽपि रत्नादितद्वस्तुभागं देहीत्ययाचत ॥ १०८ ॥  
 पिता तु पुत्र मद्रस्तु पलाशद्वीपमध्यगे ।<sup>२</sup> स्थितं पुरे पलाशाख्ये तत्त्वयानीय गृह्यताम् ॥ १०९ ॥  
 इत्याख्यञ्चकुलेनामा भ्रात्रा दायदकेन सः । सहदेवेन चासेष्टसिद्धिर्यदि भवेदहम् ॥ ११० ॥  
 प्रत्यागत्य करिष्यामि पुजां जैनेश्वरीमिति । आशास्यानु जिनाङ्गुत्वा<sup>३</sup> कृतात्मगुरुवन्दनः<sup>४</sup> ॥ १११ ॥  
 आरुह्य नावमभोधिमवगाह्य ब्रजन् द्रुतम् । पलाशपुरमासाद्य तत्र स्थापितपोतकः ॥ ११२ ॥  
 पुरं<sup>५</sup> विनरसञ्चारं किमेतदिति विस्मयात् । ततः प्रसारितायामिरज्जुभिस्तदवासवान् ॥ ११३ ॥  
 प्रविश्य तत्पुरं तत्र कन्यामेकाकिनीं स्थिताम् । एकत्रालोक्य तामाह वदैतन्नगरं कुतः ॥ ११४ ॥  
 जातमीदृक्स्वयं का वेत्यादरात्साध्वीदलम् । प्रागेतन्नगरेशस्य दायदः कोऽपि कोपतः<sup>६</sup> ॥ ११५ ॥  
 सिद्धराक्षसविद्यत्वात्सम्प्राप्तो राक्षसाभिधाम् । पुरं पुराधिनाथञ्च स निर्मूलं व्यनीनशन् ॥ ११६ ॥  
 तद्वंशजेन केनापि समन्त्रं साधितासिना । कृतरक्षं तदैवैतत्स्थापितं नगरं पुनः ॥ ११७ ॥

मनुष्योंके हृदयोंमें आह्लाद उत्पन्न कर देता था ॥ १०२ ॥ वहाँ के कोटपालके पुत्र दृढरक्षके साथ मित्रताकर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी व्याख्या सुनाई जिससे उपाध्याय पद प्राप्तकर बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहिन और अपने आपको पोषण किया ॥ १०३-१०४ ॥ नन्दी नामक गाँवमें रहने वाले कुलवाणिज नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने बड़े आदरसे अपनी छोटी बहिनका विवाह कर दिया ॥ १०५ ॥ किसी एक दिन उसने बहुतसे श्लोक सुनाकर राजाके दर्शन किये और राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, धन तथा हर्ष प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ किसी एक दिन मातासे पूछकर वह अपने पिताके पास आया और उनके चरण-कमलोंको प्रणामकर खड़ा हो गया । सेठ धनदेवने उसे देखकर 'हे पुत्र चिरंजीव रहो, यहाँ बैठो' इत्यादि प्रिय वचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर नागदत्तने अपने भागकी रत्नादि वस्तुएं माँगी ॥ १०७-१०८ ॥ इसके उत्तरमें पिताने कहा कि 'हे पुत्र मेरी सब वस्तुएं पलाशद्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नामक नगरमें रखी हैं सो तू लाकर ले ले' । पिताके ऐसा कहनेपर वह अपने हिस्सेदार नकुल और सहदेव नामक भाइयोंके साथ नावपर बैठकर समुद्रके भीतर चला । चलते समय उसने यह आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इष्टसिद्धि हो गई तो मैं लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा करूँगा । ऐसी इच्छाकर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की और पिताको नमस्कारकर चला । वह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने अपना जहाज खड़ाकर देखा कि यह नगर मनुष्योंके संचारसे रहित है । यह देख वह आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है ? तदनन्तर लम्बी रस्सी फेंककर उनके आशयसे वह उस नगरके भीतर पहुँचा ॥ १०९-११३ ॥ नगरके भीतर प्रवेशकर उसने एक जगह अकेली बँठी हुई एक कन्याको देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? तथा तू स्वयं कौन है ? सो कह । इसके उत्तरमें वह कन्या आदरके साथ कहने लगी कि 'पहले इस नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होनेके कारण 'राक्षस' इस नामको ही प्राप्त हो गया था । उसीने क्रोधवश नगरको और नगरके राजाको समूल नष्ट कर दिया था । तदनन्तर उसके वंशमें होने वाले किसी पुरुषने मन्त्र-पूर्वक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवारके प्रभावसे उसने इस नगरको सुरक्षित कर फिरसे

१ परितोषयन् ख०, म० । २ स्थिते ल० । ३-ङ्गुत्वा ख०, म० । ४ वन्दनम् म० । ५ विगतस-ञ्चारं ल० । ६ कोपनः ल० ।

पतिर्महाबलोऽथास्य<sup>१</sup> काञ्चनादिलता मिथा । तस्यै<sup>२</sup> तयोरहं पद्मकृताऽभूवं सुताप्यया ॥११८ ॥  
 कदाचिन्मत्पिता मन्त्रसाधितं खड्गमात्मनः । प्रमादाद्वा करोति स्म करे तद्रन्ध्रवीक्षणान् ॥ ११९ ॥  
 राक्षसेन हतस्तस्मात्पुरं शून्यमभूदिदम् । मत्सुता निविशेति मां मत्वामारयन् गतः ॥ १२० ॥  
 आगन्तासौ पुनर्नेतुमिति तद्वचनभ्रुतेः । वैश्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्तर्हितः खगम् ॥ १२१ ॥  
 आयान्तमवधीत्सोऽपि पठन् पञ्चनमस्कृतिम् । न्यपतन्मेदिनीभागे समाहितमतिस्तदा ॥ १२२ ॥  
 श्रुत्वा श्रीनागदत्तोऽपि नमस्कारपदावलीम् । मिथ्या मे दुष्कृतं सर्वमित्यपास्यायुधं निजम् ॥ १२३ ॥  
 कुतो धर्मस्तवेत्येतमब्रवीत्साम्रणं खगम् । सोऽपि श्रावकपुत्रोऽहं क्रोधादेतत्कृतं मया ॥ १२४ ॥  
 क्रोधान्मित्रं भवेच्छत्रुः क्रोधाद्धर्मो विनश्यति । क्रोधाद्वाज्यपरिभ्रंशः क्रोधान्मोमुच्यतेऽमुभिः ॥ १२५ ॥  
 क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेत्क्रोधादधोगतिः । ततः श्रेयोधिनां त्याज्यः स सदेति जिनादितम् ॥ १२६ ॥  
 तज्जानन्नपि पापेन क्रोपेनाहं वशीकृतः । प्राप्तं तत्फलमद्यैव परलोके किमुच्यते ॥ १२७ ॥  
 इत्यात्मानं विनिन्द्यैवं कुतस्तत्त्वं ब्रजेः क्व वा । इत्यवोचन्नभोगस्तं वैश्योऽप्येवमुदाहरत् ॥१२८ ॥  
 प्रापृणिकोऽहं<sup>३</sup> दृष्ट्वां कन्यकां शोकविह्वलाम् । त्वद्भयाद्भव्य<sup>४</sup> पास्यामीत्याविष्कृतपराक्रमः ॥ १२९ ॥  
 अद्युष्वा धर्मभक्तं<sup>५</sup> तत् कृतवान्कार्यमीदृशम् । त्यक्तं सद्धर्मवात्सल्यं सारं जैनेन्द्रशासने ॥ १३० ॥  
 जैनशासनमर्यादांमत्तिलङ्घयतो मम । अपराधं क्षमस्वेति तदुक्तमवगम्य सः ॥ १३१ ॥  
 किं कृतं भवता पूर्वं मदुपाजितकर्मणः । परिपाकविशेषोऽयमिति पञ्चनमस्कियाम् ॥ १३२ ॥

वसाया है ॥ ११४-११७ ॥ इस समय इस नगरका राजा महावल है और उसकी रानीका नाम काञ्चनलता है । मैं इन्हीं दोनोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी ॥ ११८ ॥ मेरा पिता उस मन्त्र-साधित तलवारको कभी भी अपने हाथसे अलग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे अलग रख दिया और छिद्र देखकर राक्षसने उसे मार डाला जिससे यह नगर फिरसे सूना हो गया है । उसने मुझे अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह मुझे बिना मारे ही चला गया । अब वह मुझे लेनेके लिए फिर आवेगा । कन्याकी बात सुनकर वह वैश्य उम तलवारको लेकर नगरके गोपुर ( मुख्य द्वार ) में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया । वह विद्याधर भी उसी समय पञ्चनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिरकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ ११९-१२० ॥ पञ्चनमस्कार पदको सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने यह सब पाप व्यर्थ ही किया है । उसने भट्ट अपनी तलवार फेंक दी और उम घाव लगे विद्याधरसे पूछा कि तेरा धर्म क्या है ? इसके उत्तरमें विद्याधरने कहा कि, मैं भी श्रावकका पुत्र हूँ, मैंने यह कार्य क्रोधसे ही किया है ॥ १२३-१२४ ॥ देखो क्रोधसे मित्र शत्रु हो जाता है, क्रोधसे धर्म नष्ट हो जाता है, क्रोधसे राज्य भ्रष्ट हो जाता है और क्रोधसे प्राण तक छूट जाते हैं । क्रोधसे माता भी क्रोध करने लगती है और क्रोधसे अधोगति होती है इसलिए कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सदाके लिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिये ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है । मैं जानता हुआ भी क्रोधके वशीभूत हो गया था मो उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया अब परलोककी बात क्या कहना है ? इस प्रकार अपनी निन्दा करना हुआ वह विद्याधर नागदत्तसे बोला कि आप यहाँ कहाँसे आये हैं ? इसके उत्तरमें वैश्यने कहा कि मैं एक पाहुना हूँ और इस कन्याका शोकसे विह्वल देखकर तेरे भयसे इसकी रक्षा करनेके लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ ॥ १२५-१२६ ॥ तू 'धर्म भक्त' है यह जाने बिना ही मैं यह ऐसा कार्य कर बैठा हूँ और मैंने जिनेन्द्रदेवके शासनमें कहे हुए सारभूत धर्म-वात्सल्यको छोड़ दिया है ॥ १३० ॥ हे भव्य ! जैन शासनकी मर्यादाका उल्लङ्घन करने वाले मेरे इस अपराधको तू क्षमा कर । नागदत्तकी कही हुई यह सब समझकर वह विद्याधर कहने लगा

१ महाबलोप्यस्य इति क्वचित् । २ तस्यै तयोरहं इति क्वचित् । ३ पृष्ट्वां ल० । ४ दास्यामी-ल० । ५ धर्मभाक्त्वं ते ।



श्रीनागदत्तसम्प्रोक्तां भावयन्नाकमापिवान् । ततः पद्मलतां कन्यां धनञ्ज पितृसञ्चितम् ॥ १३३ ॥  
समाकर्षणरज्ज्वावतार्यं चातुनिजस्य तौ । नकुलः सहदेवश्च रज्जुमाकर्षणोचिताम् ॥ १३४ ॥  
अदत्त्वा पापबुद्ध्यान्माम्नाम्नःकुक्षु स्वपुरमीयतुः । छिद्रमासाद्य तन्नास्ति दयादा यन्न कुर्वते ॥ १३५ ॥  
तौ दृष्ट्वा नागदत्तोऽपि युवाभ्यां सह यातवान् । किञ्जायादिति भूपेन साशङ्केन जनेन च ॥ १३६ ॥  
पृष्टौ सहैव गत्वासौ पृथक्स्वबापि गतस्ततः । नाविद्वेति व्यभ्रतां तावनुजावप्यपङ्कवम् ॥ १३७ ॥  
श्रीनागदत्तामातापि व्याकुलीकृतचेतसा । शीलदत्तं गुरुं प्राप्य समपृच्छत्तुजः कथाम् ॥ १३८ ॥  
सोऽपि तत्सम्भ्रमं दृष्ट्वा कारुण्याहितमानसः । निर्विघ्नं ते तनूजो द्वाङ् मा शैपीरागमित्यति ॥ १३९ ॥  
इत्याश्वासं मुनिस्तस्या व्यधात्सञ्ज्ञानलोचनः । इतः श्रीनागदत्तोऽपि विलोक्य जिनमन्दिरम् ॥ १४० ॥  
किञ्चिदप्रदक्षिणीकृत्य निषीदान्यहमित्यदः । प्रविश्य विहितस्तोत्रः सचिन्तस्तत्र संस्थितः ॥ १४१ ॥  
तदा विद्याधरः कश्चित्तं दृष्ट्वा ज्ञातवृचकः । जैनः सवितं नीत्वास्माद् द्वीपमध्यान्मनोहरे ॥ १४२ ॥  
वनेऽवतार्यं सुस्थाप्य समापृच्छादरान्वितः । यथेष्टमगमत्सा हि धर्मवत्सलता सताम् ॥ १४३ ॥  
तत्समीपेऽनुजा ग्रामे वसन्त्यस्यैव सादरम् । प्रत्यग्रहीद्धनं तत्र सोऽपि निक्षिप्य सुस्थितः ॥ १४४ ॥  
अथोपगम्य तं खेहान् स्वानुजादिसनाभयः । कुमारार्भिनवां कन्यां नकुलस्याजिघृक्षुणा ॥ १४५ ॥  
श्रेष्ठिना वयमाहूता निस्सत्त्वाद्रिक्पणयः । कथं तत्र ब्रजिष्याम इत्यत्याकुलचेतसः ॥ १४६ ॥  
अथ सर्वेऽपि जाताः स्म इति ते न्यगदन्नसौ । तच्छ्रुत्वा साररत्नानि निजरत्नकदम्बकात् ॥ १४७ ॥

कि इसमें आपने क्या किया है यह मेरे ही पूर्वोपाजित कर्मका विशिष्ट उद्देश्य हैं। इस प्रकार नागदत्तके द्वारा कहे हुए पञ्चनमस्कार मन्त्रकी भावना करना हुआ विद्याधर स्वर्गको प्राप्त हुआ। तदनन्तर पद्मलता कन्या और पिताके कमाये हुए धनको खींचनेकी रस्सीसे उतारकर जहाजपर पहुँचाया तथा सहदेव और नकुल भाईको भी जहाजपर पहुँचाया। नकुल और सहदेवने जहाजपर पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदत्तको नहीं दी और दोनों भाई अकेले ही उस नगरसे चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे दयाद-भागीदार न कर सकें ॥ १३१-१३५ ॥ उन दोनों भाइयोंको देखकर वहाँके राजा तथा अन्य लोगोंको कुछ शङ्का हुई और इसीलिए उन सभने पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भी तो गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यद्यपि नागदत्त हमलोगोंके साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जाकर कहीं अन्यत्र चला गया इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन दोनोंने भाई होकर भी नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा ली ॥ १३६-१३७ ॥ पुत्रके न आनेकी बात सुनकर नागदत्तकी माता बहुत व्याकुल हुई और उसने श्री शीलदत्त गुरुके पास जाकर अपने पुत्रकी कथा पूछी ॥ १३८ ॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय दयासे भर आया अतः उन्होंने सम्यग्ज्ञान रूपी नेत्रपे देखकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विघ्नके बिना शीघ्र ही आवेगा। इधर नागदत्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी कुछ प्रदक्षिणा दी और मैं यहाँ बैठूँगा इस विचारसे उसके भीतर प्रवेश किया। भीतर जाकर उसने भगवान्की स्तुति पढ़ी और फिर चिन्तातुर हो कर वह वहीं बैठ गया ॥ १३९-१४१ ॥ दैवयोगसे वहीं पर एक जैनी विद्याधर आ निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये और फिर उसे धन सहित इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वनमें जा उतारा। तदनन्तर उसे यहाँ अच्छी तरह ठहराकर और बड़े आदरसे पूछकर वह विद्याधर अपने इच्छित स्थानपर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी धर्म-वत्सलता यही कहलाती है ॥ १४२-१४३ ॥ उस मनोहर वनके समीप ही नन्दीग्राममें नागदत्तकी छोटी बहिन रहती थी इसलिए वह वहाँ पहुँचा और अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहने लगा ॥ १४४ ॥ कुछ समय बाद उसकी बहिनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास आकर कहने लगे कि हे कुमार ! नई आई हुई कन्याको सेठ अपने नकुल पुत्रके लिए ग्रहण करना चाहता है इसलिए उसने हम सबको बुलाया है परन्तु निर्धन होनेसे हम सब खाली हाथ वहाँ कैसे जावेंगे ? यह विचारकर हम सभी

तेभ्यो नाना मुदा दत्त्वा यूयमागमनं मम । ददध्वं सच्चिवेद्यैतां कन्यायै रत्नमुद्रिकाम् ॥ १४८ ॥  
 इत्युक्त्वा स्वयमित्त्वानु शीलदत्तागुहं मिथः । वन्दित्वा रक्षिसूनुञ्च दृष्ट्वा सन्मित्रमात्मनः ॥ १४९ ॥  
 आमूलाकार्यमाख्याय सह तेन ततो गतः । साररत्नैर्महीपालं सानुरागं व्यलोकत ॥ १५० ॥  
 दृष्ट्वा भवानहो नागदत्त कस्मात्समागतः । क्व वा गतं त्वयेत्येष नृपः पृष्टो महीभुजा ॥ १५१ ॥  
 भागयाचनयान्नादि सर्वमामूलतोऽश्ववीत् । तदाकर्ण्य नृपः क्रुध्वा प्रवृत्तः श्रेष्ठिनिग्रहे ॥ १५२ ॥  
 न युक्तमिति निर्बन्धाद्भागदत्तेन वारितः । दत्त्वा श्रेष्ठिपदं तस्मै सारवित्तसमन्वितम् ॥ १५३ ॥  
 विवाहविधिना पञ्चलतामपि समर्पयत् । अथात्मसंसदि व्यक्तमवनीन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ १५४ ॥  
 पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं राक्षसाघ्नन्तरायतः । व्यपेत्यार्यं महारत्नान्यात्माकृत्यागतः सुखम् ॥ १५५ ॥  
 पुण्याञ्जलायते बह्विधिमप्यमृतस्यदे । मिश्रमवन्ते द्विषः पुण्यात्पुण्यवच्छामन्ति भीतवः<sup>१</sup> ॥ १५६ ॥  
 दुर्विधाः सधनाः पुण्यात् पुण्यात्स्वर्गश्च लभ्यते । तस्मात्पुण्यं विचिन्वन्तु<sup>२</sup> हतापस्सप्यदेविणः ॥ १५७ ॥  
 जिनोक्तधर्मशास्त्रानुयानेन विहितक्रियाः । इति सभ्याश्च तद्वाक्यं बहवश्चेतसि व्यधुः ॥ १५८ ॥  
 अथ श्रीनागदत्तोऽपि सञ्जातानुशयं तदा । क्षमस्व मे कुमारेति प्रणमन्तं<sup>३</sup> स्वपुत्रकम् ॥ १५९ ॥  
 सभार्यं श्रेष्ठिनं मैवमित्युत्थाप्य प्रियोक्तिभिः । सन्तोष्य जिनपूजाञ्च प्राक्प्रोक्तमकरोत्कृता ॥ १६० ॥  
 एवं श्रावकसद्धर्ममधिगम्य परस्परम् । जातसौहार्दचित्तानां दानपूजादिकर्मभिः ॥ १६१ ॥

लोग आज अत्यन्त व्याकुलचित्त हो रहे हैं । उनकी बात सुनकर नागदत्तने अपने रत्नोंके समूहमेंसे निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रत्न प्रसन्नतासे उन्हें दिये और साथ ही यह कहकर एक रत्नमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खबर देकर उस कन्याके लिए यह अंगूठी दे देना ! यही नहीं, नागदत्त, स्वयं भी उनके साथ गया । वहाँ जाकर उसने पहले शीलदत्त मुनिराजकी वन्दना की । तदनन्तर अपने मित्र कोतवालके पुत्र दृढरक्षके पास पहुँचा । वहाँ उसने प्रारम्भसे लेकर सब कथा दृढरक्षको कह सुनाई । फिर उरुतीके साथ जाकर अच्छे-अच्छे रत्नोंकी भेंट देकर वड़ी प्रसन्नतासे राजाके दर्शन किये ॥ १४५-१५० ॥ उसे देखकर महाराजने पूछा कि अहो नागदत्त ! तुम कहाँसे आ रहे हो और कहाँ चले गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागदत्त बड़ा संतुष्ट हुआ । उसने अपना हिस्सा मांगने और उसके लिए यात्रा करने आदिके सब समचार आदिसे लेकर अन्ततक कह सुनाये । उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और सेठका निग्रह करनेके लिए तैयार हो गया परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यह कह कर आग्रहपूर्वक नागदत्तने राजाको मना कर दिया । राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तको सेठका पद दिया और विधिपूर्वक विवाहकर वह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दी । तदनन्तर राजाने अपनी सभामें स्पष्ट रूपसे कहा कि देखो, पुण्यका कैसा माहात्म्य है ? यह नागदत्त राक्षस आदि अनेक विघ्नोंसे बचकर और श्रेष्ठ रत्नोंको अपने आधीन कर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है ॥ १५१-१५५ ॥ इसलिए कहना पड़ता है कि पुण्यसे अग्नि जल हो जाती है, पुण्यसे विष भी अमृत हो जाता है, पुण्यसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते हैं, पुण्यसे निर्धन मनुष्य भी धनवान् हो जाते हैं और पुण्यसे स्वर्ग भी प्राप्त होता है इसलिए आपत्तिरहित सम्पदाकी इच्छा करने वाले पुरुषोंको श्रीजिनेन्द्रदेवके कहें हुए धर्मशास्त्रके अनुसार सब क्रियाएं कर पुण्यका बन्ध करना चाहिये ! राजाका यह उपदेश सभाके सब लोगोंने अपने हृदयमें धारण किया ॥ १५६-१५८ ॥ तदनन्तर सेठको भी बहुत पश्चात्ताप हुआ वह उसी समय 'हे कुमार ! क्षमा करो' यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा स्त्री सहित प्रणाम करने लगा परन्तु नागदत्तने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनोंसे उसे संतुष्ट कर दिया । तदनन्तर उस बुद्धिमानने यात्राके पहले कही हुई जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की ॥ १५९-१६० ॥ इस प्रकार सबने श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृदयोंमें परस्पर मित्रता

काले गच्छति जीवान्ते सन्न्यासविधिमाश्रितः । श्रीनागदत्तः सौधर्मकल्पेऽनल्पामरोऽभवत् ॥ १६२ ॥  
 तत्र निर्विष्टविद्योरुभोगश्च्युत्वा ततोऽजनि । द्वीपेऽस्मिन् भारते खेचराचलं नगरे वरे ॥ १६३ ॥  
 शिवङ्करे तदीशस्य विद्याधरधरोशिनः । सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावहः ॥ १६४ ॥  
 मनोवेगोऽन्यजन्मोद्यत्स्नेहेन विवशीकृतः । अनैपीच्छन्दनामेनामतिच्छेहोऽपथं नयेत् ॥ १६५ ॥  
 स एषोऽभ्यर्णभग्नत्वादमुष्मिन्नेव जन्मनि । जिनाकृतिं समादाय सम्प्राप्त्यत्यग्रिमं पदम् ॥ १६६ ॥  
 ततः श्रीनागदत्तस्य नाकलोकात्कनीयसी । इहागत्याभवज्जात्ना मनोवेगा महाश्रुतिः ॥ १६७ ॥  
 पलाशनगरे नागदत्तहस्तमृतः खगः । सुरलोकादभूः सोमवंशे त्वं चेटको नृपः ॥ १६८ ॥  
 माता श्रीनागदत्तस्य धनमित्रा दिवङ्गता । ततश्च्युत्वा तवैवासीत्सुभद्रेयं मनःप्रिया ॥ १६९ ॥  
 यासौ पद्मलता सापि कृतोपवसना दिवम् । गत्वागत्य जनिष्टेयं चन्दना नन्दना तव ॥ १७० ॥  
 नकुलः संसृतौ भ्रान्त्वा सिंहाख्यांऽभूद्भ्रूनेचरः । प्राग्जन्मच्छेहवैराभ्यामबाधिष्ट स चन्दनाम् ॥ १७१ ॥  
 सहदेवोऽपि सभ्रम्य संसारे सुचिरं पुनः । कौशाब्ध्यां वैश्यतुग्भूत्वा मित्रवीराङ्गयः सुधीः ॥ १७२ ॥  
 भृत्यो वृषभसेनस्य चन्दनां स समर्पयत् । पिता श्रीनागदत्तस्य धनदेवां वणिग्वरः ॥ १७३ ॥  
 स्वर्लोकं शान्तचित्तेन गत्वैत्य श्रेष्ठिताङ्गतः । श्रीमान्वृषभसेनाख्यः कौशाब्ध्यां कलितो गुणैः ॥ १७४ ॥  
 सोमिलायां कृतद्वेषा चित्रसेना चतुर्गतिम् । परिभ्रम्य चिरं शान्त्वा मनाक् तत्रैव विट्सुता ॥ १७५ ॥  
 भूत्वा वृषभसेनस्य पत्नी भद्राभिधाऽभवत् । निदानकृतवैरेण न्यगृह्णाच्छन्दनामसौ ॥ १७६ ॥  
 चन्दनैषाच्युतात्कल्पाप्रत्यागत्य शुभोदयात् । द्वितीयवेदं सम्प्राप्य पारमात्म्यमवाप्स्यति ॥ १७७ ॥

हो गई और दान पूजा आदि उत्तम कार्योंसे सबका समय व्यतीत होने लगा । आयुके अन्तमें नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़ जिनसे वह सौधर्म स्वर्गमें वड़ा देव हुआ ॥ १६१-१६२ ॥ स्वर्गके श्रेष्ठ भागोंका उपभोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरतक्षेत्रके विजयाध पर्वत पर शिवंकर नगरमें विद्याधरोंके स्वामी राजा पवनवेगकी रानी सुवेगासे यह अत्यन्त सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है । दूसरे जन्मके बढ़ते हुए खेदसे विवश होकर ही इसने चन्दनाका हरण किया था सां ठीक ही है क्योंकि भारी स्नेह कुमागमें ले ही जाता है ॥ १६३-१६५ ॥ यह निकटभव्य है और इसी जन्ममें दिग्ग्वर मुद्रा धारणकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा ॥ १६६ ॥ नागदत्तकी छोटी बहिन अर्थस्वामिनी स्वर्गलोकमें आकर यहाँ महाकान्तिकी धारण करने वाली मनोवेगा हुई है ॥ १६७ ॥ जो विद्याधर पलाशनगरमें नागदत्तके हाथसे मारा गया था वह स्वर्गसे आकर तू सोमवंशमें राजा चेटक हुआ है ॥ १६८ ॥ धनमित्रा नामकी जो नागदत्तकी माता थी वह स्वर्ग गई थी और वहाँसे च्युत होकर मनको प्रिय लगनेवाली वह तेरी सुभद्रा रानी हुई है ॥ १६९ ॥ जो नागदत्तकी स्त्री पद्मलता थी वह अनेक उपवासकर स्वर्ग गई थी और वहाँसे आकर यह चन्दना नामकी तेरी पुत्री हुई है ॥ १७० ॥ नकुल संसारमें भ्रमणकर सिंह नामका भील हुआ है उसने पूर्व जन्मके खेद और वैरके कारण ही चन्दनाको तंग किया था ॥ १७१ ॥ सहदेव भी संसारमें चिरकाल तक भ्रमणकर कौशाब्धी नगरीमें मित्रवीर नामका बुद्धिमान् वैश्यपुत्र हुआ है जो कि वृषभसेनका सेवक है और उसीने यह चन्दना वृषभसेन सेठके लिए समर्पित की थी । नागदत्तका पिता सेठ धनदेव शान्तचित्तेसे मरकर स्वर्ग गया था और वहाँसे आकर कौशाब्धी नगरीमें अनेक गुणोंसे युक्त श्रीमान् वृषभसेन नामका सेठ हुआ है ॥ १७२-१७४ ॥ चित्रसेनाने सोमिलासे द्वेष किया था इसलिए वह चिरकालतक संसारमें भ्रमण करती रही । तदनन्तर कुछ शान्त हुई तो कौशाब्धी नगरीमें वैश्यपुत्री हुई और भद्रा नामसे प्रसिद्ध हांकर वृषभसेनकी पत्नी हुई है । निदानके समय जो उसने वैर किया था उसीसे उसने चन्दनाका निग्रह किया था-उसे कष्ट दिया था ॥ १७५-१७६ ॥ यह चन्दना अच्युत स्वर्ग जायगी और वहाँसे वापिस आकर शुभ कर्मके उदयसे पुंवेदको पाकर

एवं बन्धविधानोक्तमिथ्याभावादिपञ्चकात् । सञ्चितैः कर्मभिः प्राप्य द्रव्यादिपरिवर्तनम् ॥ १७८ ॥  
 संसारे पञ्चधा प्रोक्तं दुःखान्मुप्राण्यनारतम् । प्राप्नुवन्तः कृतान्तास्ये हन्त सीदन्ति जन्तवः ॥ १७९ ॥  
 त एव<sup>१</sup> लब्धकालादिसाधना मुक्तिसाधनम् । सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोरूपमनुत्तरम् ॥ १८० ॥  
 अभ्येत्य पुण्यकर्माणः परमस्थानसप्तके । सम्प्राप्तपरमैश्वर्या भवन्ति सुखभागिनः ॥ १८१ ॥  
 इति तद्वीतमाधीशश्रीमद्बुधनिरसायनात् । सभा सर्वा बभूवासौ तदैवेवाजगरामरा ॥ १८२ ॥  
 अन्यदाऽसौ महाराजः श्रेणिकाल्यः परिभ्रमन् । प्रीत्या गन्धकुटीबाह्यभास्वद्वनचतुष्टये ॥ १८३ ॥  
 स्थितं पिण्डोद्गमस्याधो जीवनन्धरमुनीश्वरम् । ध्यानारूढं विलोक्यैतद्रूपादिषु विषक्तधीः ॥ १८४ ॥  
 सकौतुकः समभ्येत्य सुधर्मगणनायकम् । भाक्तिकोऽभ्यर्च्यं वन्दित्वा यथास्थानं निबिद्य तम् ॥ १८५ ॥  
 प्राञ्जलिर्भगवन्नेष यतीन्द्रः सर्वकर्मणा<sup>२</sup> । मुक्तो वाद्यैव को वेति यप्रच्छ प्रश्रयाश्रयः ॥ १८६ ॥  
 अवबोधचतुष्कात्मा सोप्येवं समभाषत । खेदो न हि सतां वृत्तेर्वक्तुः श्रोतुश्च चेतसः ॥ १८७ ॥  
 शृणु श्रेणिक जम्बूभुजविभूषितभूतले । अत्र हेमाङ्गदे देशे राजन् राजपुराधिपः ॥ १८८ ॥  
 राजेव रञ्जिताशेषः सत्यन्धरमहीपतिः । विजयास्य महादेवी विजयश्रीरिवापरा ॥ १८९ ॥  
 सर्वकर्मचणोऽमात्यः काष्ठाङ्गारिकनामभृत् । हन्ता देवोपघातानां रुद्रदत्तः पुरोहितः ॥ १९० ॥  
 कदाचिद्विजया देवी सुप्ता गर्भगृहे सुखम् । मुकुटं भूभुजा हेमघण्टाष्टकविराजितम् ॥ १९१ ॥  
 दारं स्वस्यै श्रिताशोक्ततरोर्मूल्लब्ध केनचिन् । छिन्नं परशुना जातं पुनर्बालमहीरुहम् ॥ १९२ ॥

अवश्य ही परमात्मपद—मांक्षपद प्राप्त करेगी ॥ १७७ ॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें जो मिथ्यादर्शन आदि पाँच प्रकारके भाव कहे गये हैं उनके निमित्तसे संचित हुए कर्मोंके द्वारा ये जीव द्रव्य क्षेत्र आदि परिवर्तनोंको प्राप्त होते रहते हैं । ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे भयंकर दुःख हैं । खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पञ्च प्रकारके दुःखोंको पाते हुए यम-राजके मुहमें जा पड़ते हैं ॥ १७८-१७९ ॥ फिर ये ही जीव, कालतन्धि आदिका निमित्त पाकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप रूप मांक्षके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य कर्म करते हुए स्नात परमस्थानोंमें परम ऐश्वर्यका प्राप्त होते हैं और यथा क्रमसे अनन्त सुखके भाजन होते हैं ॥ १८०-१८१ ॥ इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लक्ष्मीसे युक्त ध्वनि रूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरके समान हो गई ॥ १८२ ॥

अथानन्तर—किसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यमान चारों वनोंमें बड़े प्रेमसे घूम रहे थे । वहाँ पर एक अशोक वृक्षके नीचे जीवनन्धर मुनिराज ध्यानारूढ हो कर विराजमान थे । महाराज श्रेणिक उन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तचित्त हो गये और कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधर्म गणधरदेवकी बड़ी भक्तिसे पूजा वन्दना की तथा यथायोग्य स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे उनसे पूछा कि हे भगवन् ! जो मानो आज ही समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जावेंगे ऐसे ये मुनिराज कौन हैं ? ॥ १८३-१८६ ॥ इसके उत्तरमें चार ज्ञानके धारक सुधर्माचार्य निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके चरित्रका कहने वाले और सुनने वाले—दोनोंके ही चित्तमें खेद नहीं होता है ॥ १८७ ॥ वे कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, इसी जम्बू वृक्षसे सुशोभित होने वाली पृथिवीपर एक हेमाङ्गद नामका देश है और उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है । उसमें चन्द्रमाके समान सबको आनन्दित करने वाला सत्यन्धर नामका राजा था और दूसरी विजयलक्ष्मीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥ १८८-१८९ ॥ उसी राजाके सब कामोंमें निपुण काष्ठाङ्गारिक नामका मन्त्री था और दैवजन्य उपद्रवोंको नष्ट करने वाला रुद्रदत्त नामका पुरोहित था ॥ १९० ॥ किसी एक दिन विजया रानी घरके भीतर सुखसे सो रही थी वहाँ उसने बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिके पिछले पहरमें दो स्वप्न देखे । पहला स्वप्न देखा कि

१ एवं ल० । २ सर्वकर्मभिः ल० । ३ चन्द्र इव । 'राजा प्रभौ वृषे चन्द्रे यत्ने क्षत्रियशक्रयोः'  
 इति कोशः । ४ भक्त्वा ल० ।

निष्ठायाः पश्चिमे यामे स्वभावेतौ प्रसन्नधीः । विलोक्य सा तयोर्जातुं फलमभ्येत्य भूपतिम् ॥ १९३ ॥  
सप्रभयं सन्नीक्ष्यैनमन्वयुंक्तं मदत्यये । अष्टौ लाभाश्चवाप्यान्ते क्षितेर्भोक्तारमात्मजम् ॥ १९४ ॥  
भाप्स्यस्याशु खमित्याह महीपालः प्रियाप्रियम् । श्रुत्वा शोकप्रमोदाभ्यां तामाविर्भूतचेतसम् ॥ १९५ ॥  
राज्ञीं राजा समालोक्य सदुक्तया समतर्पयत् । सुखेनैवं तयोः काले याति कश्चित्समागतः ॥ १९६ ॥  
देवलोकात्स्थितिं लेभे देवीगर्भगृहे सुखम् । स पुण्यो राजहंसो वा शारदाब्जसरोवरे ॥ १९७ ॥  
अधान्येद्युर्वणिग्वर्यो वास्तव्यस्तत्पुरान्तरे । धनी गन्धोत्कटो नाम शीलगुप्तमहामुनिम् ॥ १९८ ॥  
मनोहरवनोद्याने ज्ञानत्रयविलोचनम् । विलोक्य विनयाश्रित्वा प्राप्राक्षीद्भगवन्मम ॥ १९९ ॥  
वहवोऽन्पायुषोऽभूवंस्तनयाः पापपाकतः । दीर्घायुषो भविष्यन्ति सुता मे किमतः परम् ॥ २०० ॥  
इति सोऽपि दयालुत्वान्मुनीशः प्रत्यभाषत । वारं समुपलप्स्यन्ते त्वया सुचिरजीविनः ॥ २०१ ॥  
अभिज्ञानमिदं तस्य सम्यक्कृणुषु वणिग्वर । लप्स्यमानं सुतं सद्यो मृतं त्यक्तुं वनं गतः ॥ २०२ ॥  
तत्र कञ्चिरानूजं त्वं लप्स्यसे पुण्यभाजनम् । स समस्तां महीं भुक्त्वा वृष्टौ वैपयिकैः सुखैः ॥ २०३ ॥  
प्रान्ते विध्वंस्य कर्माणि मोक्षलक्ष्मीमवाप्स्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा काचित्सात्सन्निधौ स्थिता ॥ २०४ ॥  
यक्षी भविष्यतो राजसूनोः पुण्यप्रचोदिता । तस्योत्पत्तौ स्वयं भानुरूपकारविधित्सया ॥ २०५ ॥  
गत्वा राजकुलं वैनतेययन्त्रगताभवत् । प्रायः प्राक्कृतपुण्येन सन्निधित्सन्ति देवताः ॥ २०६ ॥  
अथागते मधौ मासे सर्वसत्त्वसुखावहे । पुराहितोऽहितोऽन्येद्युः प्रातरेव समागतः ॥ २०७ ॥

राजाने मुवर्णके आठ घंटोंसे मुशाभित अपना मुकुट मेरे लिए दे दिया है और दूसरा स्वप्न देखा कि मैं अशोक वृक्षके नीचे बैठी हूँ परन्तु उस अशोक वृक्षकी जड़ किसीने कुल्हाड़ीसे काट डाली है और उसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृक्ष उत्पन्न हो गया है। स्वप्न देखकर उनका फल जाननेके लिए वह राजाके पास गई ॥ १९१-१९३ ॥ और बड़ी विनयके साथ राजाके दर्शन कर स्नानोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि तू मेरे मरनेके बाद शीघ्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जो आठ लाभोंको पाकर अन्तमें पृथिवीका भोक्ता होगा। स्वप्नोंका प्रिय और अप्रिय फल सुनकर रानीका चित्र शोक तथा दुःखसे भर गया। उसकी व्यग्रता देख राजाने उसे अच्छे शब्दोंसे संतुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने लगा। इसके बाद किसी पुण्यात्मा देवता जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानीके गर्भरूपी गृहमें आया और इस प्रकार सुखसे रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके सरावरमें राजहंस रहता है ॥ १९४-१९७ ॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगरमें रहनेवाले गन्धोत्कट नामके धनी सेठने मनोहर नामक उद्यानमें तीन ज्ञानके धारी शीलगुप्त नामक मुनिराजके दर्शनकर विनयसे उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन्! पाप कर्मके उदयसे मेरे बहुतसे अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी दीर्घायु पुत्र भी होंगे? ॥ १९८-२०० ॥ इस प्रकार पूछनेपर दयालुतावश मुनिराजने कहा कि हाँ तुम भी चिरजीवी पुत्र प्राप्त करोगे ॥ २०१ ॥ हे वैश्य वर! चिरजीव पुत्र प्राप्त होनेका चिह्न यह है, इसे तू अच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह भी सुन। तेरे एक मृत पुत्र होगा उसे छोड़नेके लिए तू वनमें जायगा। वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा। वह पुत्र समस्त पृथिवीका उपभोगकर विषय सम्बन्धी सुखोंसे संतुष्ट होगा और अन्तमें समस्त कर्मोंको नष्टकर मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करेगा। जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोत्कट सेठसे ऊपर लिखे वचन कह रहे थे उस समय वहाँ एक पक्षी भी बैठी थी। मुनिराजके वचन सुनकर पक्षीके मनमें हान हार राजपुत्रकी माताका उपकार करनेकी इच्छा हुई। निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब वह यज्ञी उसके पुण्यसे प्रेरित होकर राजकुलमें गई और एक गरुड यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची। सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वकृत पुण्यके प्रभावसे प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं ॥ २०१-२०६ ॥ तदनन्तर

महीपतिगृहं देवीं वीक्ष्य वीतविभूषणाम् । उपविष्टां क राजेति समपृच्छस्व सादरम् ॥ २०८ ॥  
 साप्याह सुसवान् राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम् । इति तद्वचनं सोऽपि दुर्निमित्तं विभावयन् ॥ २०९ ॥  
 ततो निवृत्तः सम्प्राप्य काष्ठाङ्गारिकमन्त्रिणः । भास्करोदयवेलायां गेहं तन्नावलोक्य तम् ॥ २१० ॥  
 पापबुद्धिमिथोऽवादीद्राज्यं तव भविष्यति । महीपतिनिहन्तव्यस्त्वयेति तदुदीरितम् ॥ २११ ॥  
 श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयत् । राजायमकृतज्ञो वा कथं वापकरोम्यहम् ॥ २१२ ॥  
 रुद्रदत्ता स्वया प्रज्ञावताप्येतत्सुदुर्नयम् । निरूपितमिति श्रोत्रपिधानं सभयो व्यधात् ॥ २१३ ॥  
 पुरोहितस्तदाकर्ण्य भविष्यत्सुनुरस्य ते । प्राणहारी भवेत्प्र प्रतीकारं ततः कुरु ॥ २१४ ॥  
 इत्येतदभिधायाञ्चु गत्वा तत्पापपाकतः । तृतीयदिवसे न्याभिर्पाडितो विगतासुकः ॥ २१५ ॥  
 रुद्रदत्तोऽगमत्प्रबार्थी गतिं सुचिरदुःखदाम् । काष्ठाङ्गारिकमन्त्री च रुद्रदत्तानिरूपितात् ॥ २१६ ॥  
 नृपं स्वमृत्युमाशङ्क्य प्रजिघांसुर्दुराशयः । द्विसहस्रमहीपालैर्दानभिर्द्वैर्भटोकटैः ॥ २१७ ॥  
 राजगेहं समुद्दिश्य सङ्घट्टगजवार्जिभिः । समं समाभियाति स्म तद्विदित्वा महीपतिः ॥ २१८ ॥  
 देवीं गरुडयन्त्रस्थामपसार्य प्रयत्नतः । प्राङ्मन्त्रिस्वीकृतामीयमहीपालैः स्वदर्शनात् ॥ २१९ ॥  
 विमुक्तमन्त्रिभिः सार्धं क्रुध्वा सम्प्राप्य मन्त्रिणम् । युद्धे सद्यः स निजित्य भयोन्मार्गमनीनयन् ॥ २२० ॥  
 तुक्कालाङ्गारिकस्तस्य सङ्करे भङ्गवार्तया । सक्रोधो बहुसङ्घबलेन सहसागतः ॥ २२१ ॥  
 काष्ठाङ्गारिकपापोऽपि पुनस्तेनैव सङ्गतः । हत्वा युद्धे महीपालं तस्मिन् राज्येऽप्यवस्थितः ॥ २२२ ॥

सब जीवोंको सुख देने वाला वसन्तका महीना आ गया । किसी एक दिन अहित करने वाला रुद्र-  
 दत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया । वहाँ रानीको आभूषणरहित बैठी  
 देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ? ॥ २०७-२०८ ॥ रानीने भी उत्तर दिया कि  
 राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते । रानीके इन वचनोंको ही अपशकुन  
 समझता हुआ वह वहाँसे लौट आया और सूर्योदयके समय काष्ठाङ्गारिक मन्त्रीके घर जाकर उससे  
 मिला । उस पापबुद्धि पुरोहितने एकान्तमें काष्ठाङ्गारिकसे कहा कि यह राज्य तेरा हो जावेगा तू  
 राजाको मार डाल । पुरोहितकी बात सुनकर काष्ठाङ्गारिकने कहा कि मैं तो राजाका नौकर हूँ,  
 राजाने ही मुझे मन्त्रीके पदपर नियुक्त किया है । यद्यपि यह राजा अकृतज्ञ है—मेरा किया हुआ  
 उपकार नहीं मानता है तो भी मैं यह अपकार कैसे कर सकता हूँ ? ॥ २०९-२१२ ॥ हे रुद्रदत्त !  
 तू ने बुद्धिमान् हो कर भी यह अन्यायकी बात क्यों कही । यह कहकर उसने भयभीत हो अपने  
 कान ढक लिये ॥ २१३ ॥ काष्ठाङ्गारिकके ऐसे वचन सुनकर पुरोहितने कहा कि इस राजाके जो पुत्र  
 होने वाला है वह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर ॥ २१४ ॥ इतना कह कर  
 रुद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया और इस पापके उदयसे रोगपीडित हो तीसरे दिन मर गया  
 तथा चिरकाल तक दुःख देने वाली नरकगतिमें जा पहुँचा । इधर दुष्ट आशयवाले काष्ठाङ्गारिक  
 मन्त्रीने रुद्रदत्तके कहनेसे अपनी मृत्युकी आशंका कर राजाको मारनेकी इच्छा की । उसने धन देकर  
 दो हजार शूरवीर राजाओंको अपने आधीन कर लिया था । वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार  
 किये हुए हाथियों और घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी ओर चला । जब राजाको इस बातका पता-  
 चला तो उसने शीघ्र ही रानीको गरुडयन्त्र पर बैठाकर प्रयत्न पूर्वक वहाँ से दूर कर दिया । काष्ठाङ्ग-  
 ारिक मन्त्रीने पहले जिन राजाओंको अपने वश कर लिया था उन राजाओंने जब राजा सत्यन्धरको  
 देखा तब वे मन्त्रीको छोड़कर राजाके आधीन हो गये । राजाने उन सब राजाओंके साथ कुपित  
 होकर मन्त्रीपर आक्रमण किया और उसे शीघ्र ही युद्धमें जीतकर भयके मार्गपर पहुँचा दिया—  
 भयभीत बना दिया ॥ २१५-२२० ॥ इधर काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने जब युद्धमें अपने  
 पिताकी हारका समाचार सुना तब वह बहुत ही कुपित हुआ और युद्धके लिए तैयार खड़ी बहुत  
 सी सेना लेकर अकस्मान् आ पहुँचा । पापी काष्ठाङ्गारिक भी उसीके साथ जा मिला । अन्तमें वह

सविषं वाचानं मित्रं कृतज्ञं वा सहिसकम् । धर्मं वाचानं राज्यं तद्वैद्यः<sup>१</sup> सचिवाधमः ॥ २२३ ॥  
 भतो विजयदेवी च यन्त्रमारुह्य गारुडम् । शोकाग्निदह्यमानाङ्गी रुदन्ती यक्षिरक्षिता ॥ २२४ ॥  
 ब्रणवक्त्रगलङ्कारालोहिताक्रान्तशूलकैः । शूलनिर्भेदसम्भृतवेदनालुलितासुकैः ॥ २२५ ॥  
 कम्पमानैरधोवक्त्रैः स्तेनैर्नानाविधै रवैः । सामिदग्धं शवं वह्नेराकृष्याच्छिष्य खण्डशः ॥ २२६ ॥  
 क्रथिकाग्निनिशाताभिर्डाकिनीभिः समन्ततः । खादन्तीभिश्च सङ्कीर्णं पितृणामगमद् वनम् ॥ २२७ ॥  
 तत्र रात्रौ कृतारक्षा यक्ष्या विगतबाधिका । अलब्ध तनयं कान्तं द्यौरिवामृतदीधितिम् ॥ २२८ ॥  
 नाभूदस्यास्ततोऽल्पोऽपि पुत्रोत्पत्तिसमुत्सवः । शोकः प्रत्युत सम्भतो विलोमविधिवधितः ॥ २२९ ॥  
 सद्यो यक्षी च सुस्थाप्य समन्तान्मणिदीपिकाः । शोकाकुला विलोक्यैनां दावालीडलतोपमाम् ॥ २३० ॥  
 सर्वस्थानानि दुःस्थानि गत्वयौ यौवनश्रियः । विध्वंसी बन्धुसम्बन्धो जीवितं दीपसञ्चलम् ॥ २३१ ॥  
 कायः सर्वाशुचिप्रायो हेयोऽयमिह धीमताम् । राज्यं सर्वजगत्पूज्यं विश्वदुष्टोत्सङ्गिभम् ॥ २३२ ॥  
 पर्यायेष्वेव सर्वेषां प्रीतिः सर्वेषु वस्तुषु । तेऽवश्यं नश्वरास्तस्मात्प्रीतिः पर्यन्ततापिनी ॥ २३३ ॥  
 सत्यप्यर्थे रतिर्न स्यात् स्वयं वासनि चेप्सिते । सति स्वस्मिन्नतौ चासौ त्रयाणां वा स्थिते क्षतिः ॥ २३४ ॥  
 यस्य निष्कममाक्रम्य<sup>२</sup> विश्वं विजसिरीक्षते । नेक्षितं स्थासु तेनापि कापि किञ्चित्कदाचन ॥ २३५ ॥  
 सत्सु भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । वृथा प्रथयति प्रीतिं विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥  
 इति संसारसञ्जावं विचिन्त्य विजये प्रिये । शुचं मा गा व्यतीतेषु कृथाः प्रीतिञ्च मा वृथा ॥ २३७ ॥

युद्धमें राजाको मारकर उसका राज्य पर आरूढ हो गया ॥ २२१-२२२ ॥ उस नीच मन्त्रीने विष मिले हुए भोजनके समान, कृतघ्न मित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दुःख देने वाला वह राज्य प्राप्त किया था ॥ २२३ ॥ इधर विजया महादेवी गरुड़ यन्त्रपर बैठकर चली । शोक रूपी अग्निसे उसका मारा शरीर जल रहा था और वह रो रही थी परन्तु यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी ॥ २२४ ॥ इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस श्मशानभूमिमें जा पहुँची जहाँ घावोंके अग्रभागसे निकलती हुई खूनकी धाराओंसे शूल भोग रहे थे, शूल छिद जाने से उत्पन्न हुई वेदनासे जिनके प्राण निकल गये हैं तथा जिनके मुख नीचेकी ओर लटक गये हैं ऐसे चार जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे । कहींपर डाकिनियाँ अधजले मुरदेको अग्निमेंसे खींचकर और तीक्ष्ण छुरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं । ऐसी डाकिनियोंसे वह श्मशान सब ओरसे व्याप्त था ॥ २२५-२२७ ॥ उस श्मशानमें यक्षी रातभर उसकी रक्षा करती रही जिससे उसे रक्षमात्र भी कोई बाधा नहीं हुई । जिस प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त करता है उसी प्रकार उस रानीने उसी रात्रिमें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ॥ २२८ ॥ उस समय विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुआ था किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलतासे बढ़ा हुआ शोक ही उत्पन्न हुआ था । यक्षीने सब ओर शांति ही मणिमय दीपक रख दिये और दावानलने कुलसी हुई लताके समान महारानीको शोकाकुल देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया । वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुःखसे भरे हैं, यौवनकी लक्ष्मी नश्वर है, भाई-बन्धुओंका समागम नष्ट हो जाने वाला है, जीवन दीपकके समान चञ्चल है, यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ है अतः बुद्धिमान् पुरुषोंके द्वारा हेय है-छोड़ने योग्य है । जिसकी समस्त संसार पूजा करता है ऐसा यह राज्य विजलीकी चमकके समान है । सब जीवोंकी समस्त वस्तुओंकी पर्यायोंमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्ताप करने वाली होती है । अनिष्ट पदार्थके रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती और इष्ट पदार्थके रहते हुए उस पर अपना अधिकार नहीं होता तथा अपने आपमें प्रीति होनेपर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी ही स्थितिका क्षय हो जाता है । जिनका ज्ञान विना किसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थोंको देखता है उन्होंने भी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है । यदि विद्यमान और होनहार वस्तुओंमें प्रेम होता है तो भले ही हो परन्तु जो नष्ट हुई वस्तुओंमें भी प्रेम करता है उसे बुद्धिमान् कैसे कहा जा सकता है ?

श्रीमानामुक्तिपर्यन्तं युतोऽप्यमुदितोदितः । निहत्यारातिदुष्टं मोदं ते जनयिष्यति ॥ २३८ ॥  
 आहि चितं समावेहि योग्यमाहारमाहार । किं कृत्यानेन शोकेन भिग्देहक्षयकारिणा ॥ २३९ ॥  
 गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता न हि शोकेन कम्प्यसे । गतयो भिन्नवर्तमानः कर्मभेदेन देहिनाम् ॥ २४० ॥  
 इत्यादिभ्युक्तिमद्भागिनः संविधाय विशोकिकाम् । पार्श्वं तस्याः स्वयं सास्थात्सतां सौहार्दमीदृशाम् ॥ २४१ ॥  
 तत्र गन्धोक्तः स्वस्य स्वयं शिशुशब्दं तदा । गच्छन्निक्षिप्य गम्भीरमाकर्ण्यार्भकसुस्वरम् ॥ २४२ ॥  
 जीव जीवेति जीवन्धराख्यां वा भाविनीं वदन् । सत्यं मुनिसमादिष्टमिति तुष्टोऽवगम्य तम् ॥ २४३ ॥  
 करौ प्रसार्य सखेहं बालं समुदतिष्ठिपत् । देवी तत्स्वरमाकर्ण्य बुध्वा गन्धोक्तदाह्वयम् ॥ २४४ ॥  
 भवबोधय तमात्मानं भद्र त्वं तनयं मम । वर्षयान्यैरविज्ञातमिति तस्मै क्षमर्षयत् ॥ २४५ ॥  
 सोऽपि तं प्रतिगृह्यं करोमीति कृतत्वरः । गत्वा गृहं स्वकान्तायै नन्दायै तत्प्रवृत्तकम् ॥ २४६ ॥  
 किमप्यप्रतिपाद्यास्यै क्लृप्यन्निव गतस्मृते । सप्राणमपरीक्ष्यैव भवत्या तदपत्यकम् ॥ २४७ ॥  
 विसर्जनाय मद्रस्ते निविचारं समर्पितम् । आयुष्मान्पुण्यवानेय गृहाणेति वितीर्णवान् ॥ २४८ ॥  
 प्रत्यैच्छत्साऽपि सन्तुष्टा कराभ्यां बालभास्करम् । विराजितं पराजित्य बालं लोलविलोचना ॥ २४९ ॥  
 तस्वान्यदा वणिग्वर्यः कृतमङ्गलसक्रियः । अन्नप्राशनपर्यन्ते व्यधाज्जीवन्धराभिधाम् ॥ २५० ॥  
 अथेत्वा तेन पन्त्रेण तस्मात्सा विजयाह्वया । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम् ॥ २५१ ॥  
 तत्राप्रकाशमेवैषा वसति स्म समाकुलाम् । तां यक्षीं समुपागत्य तच्छोकापनुदेच्छया ॥ २५२ ॥

इसलिए हे विजये ! संसारके स्वरूपका विचारकर शोक मत कर, और अनीत पदार्थोंमें व्यर्थ ही प्रीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान् हैं और मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त इसका अभ्युदय निरन्तर बढ़ता ही रहेगा । यह दुराचारी शत्रुको नष्टकर अवश्य ही तुझे आनन्द उपन्न करेगा । तू स्नान कर, चित्तको स्थिर कर और योग्य आहार ग्रहण कर । शरीरका क्षय करने वाला यह शोक करना बुरा है, इस शोकको धिक्कार है, शोक करनेसे इस पर्यायकी बात तो दूर रही, दूसरी पर्यायमें भी तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि अपने-अपने कर्मोंमें भेद होनेसे जीवोंकी गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं । इत्यादि युक्ति भरे वचनोंसे यक्षीने विजया रानीको शोक रहित कर दिया । इतना ही नहीं वह स्वयं रात्रिभर उसके पास ही रही सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी मित्रता ऐसी ही होती है ॥ २२६-२४१ ॥ इतनेमें ही गन्धोक्त सेठ, अपने मृत पुत्रका शव रखनेके लिए वहाँ स्वयं पहुँचा । वह शवको रख कर जब जाने लगा तब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना । शब्द सुनते ही उसने “ जीव जीव ” ऐसे आशीर्वादात्मक शब्द कहे मानो उसने आगे प्रचलित होने वाले उस पुत्रके ‘जीवन्धर’ इस नामका ही उच्चारण किया हो । मुनिराजने जो कहा था वह सच निकला यह जान कर गन्धोक्त बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने दोनों हाथ फैला कर बड़े स्नेहसे उस बालकको छटा लिया । विजया देवीने गन्धोक्तकी आवाज सुनकर ही उसे पहिचान लिया था । इसलिए उसने अपने आपका पारचय देकर उससे कहा कि हे भद्र, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन करना जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके । यह कह कर उसने वह पुत्र गन्धोक्तके लिए सौंप दिया ॥ २४२-२४५ ॥ सेठ गन्धोक्तने भी ‘मैं ऐसा ही कहूँगा’ यह कह कर वह पुत्र ले लिया और शीघ्रताके साथ घर आकर अपनी नन्दा नामकी स्त्रीके लिए दे दिया । देते समय उसने स्त्रीके लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ कुपित-सा होकर कहा कि हे मूर्ख ! वह बालक जीवित था, तू ने बिना परीक्षा किये ही श्मशानमें छोड़ आनेके लिए मेरे हाथमें विचार किये बिना ही रख दिया था । ले, यह बालक चिरजीवी है और पुण्यवान् है, यह कह कर उसने वह पुत्र अपनी स्त्रीके दिया था ॥ २४६-२४८ ॥ सुनन्दा सेठानीने संतुष्ट हो कर वह बालक दोनों हाथोंसे ले लिया । वह बालक प्रातः कालके सूर्यको पराजित कर मुशोभित हो रहा था और सेठानी की स्त्रीके उसे देख-देख कर सत्पुण्य हो रही थी ॥ २४६ ॥ किसी एक दिन उस सेठने अनेक माङ्गलिक क्रियाएँ कर अन्नप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका ‘जीवन्धर’ नाम रक्खा ॥ २५० ॥

अथानन्तर—विजया रानी उसी गरुड़मन्त्र पर बैठकर दण्डकके मध्यमें स्थित तपस्विष्योंके



तद्वत्सोचितश्रव्यकथाभिः संसृतेः स्थितिम् । प्रहृष्य धर्ममार्गञ्च प्रत्यहं समरीरमत् ॥ २५३ ॥  
 इतः सत्यन्धराख्यस्य नृपेन्द्रस्य कनीयसी । भामारतिः परानङ्गपताका च मनोरमे ॥ २५४ ॥  
 मधुरं वकुलञ्चान्यमलभेतां सुतावुभौ । ज्ञात्वा तद्धर्मसद्भावं गृहीतश्रावकप्रते ॥ २५५ ॥  
 तौ च गन्धोक्तनैव पोषितौ वृद्धिमापतुः । तत्रैव श्रावको जातो मत्यन्तविजयाह्वयः ॥ २५६ ॥  
 सागरो धनपालाख्यश्चतुर्थो मतिसागरः । सेनापतिः पुरोधाश्च श्रेष्ठी मन्त्री च भूमुजः ॥ २५७ ॥  
 भार्या जयावती श्रीमती श्रीदत्ता यथाक्रमम् । चतुर्थ्यनुपमा तेषां देवसेनः सुतोऽपरः ॥ २५८ ॥  
 बुद्धिषेणो वरादिश्च दशो मधुमुखः क्रमात् । षट् ते जीवन्धराख्येन मधुराद्याः सुताः समम् ॥ २५९ ॥  
 अवर्धन्त कुमारेण बालकेलीपरायणाः । जीवाद्यः पदार्था वा लोकात्स्मान्महाशयात् ॥ २६० ॥  
 नक्तं दिवं निजप्राणसमाः काप्यनपायिनः । अथ नन्दापि नन्दाह्वयं क्रमेणासवती सुतम् ॥ २६१ ॥  
 अन्येद्युर्नगरोद्याने कोऽपि तापस्वरूपदृत् । कुमारं गोलकाद्युक्तबालक्रीडानुबन्धिणम् ॥ २६२ ॥  
 विलोक्यास्माकियद्दूरं पुरं ब्रूहीति पृष्टवान् । वृद्धस्यापि तवाज्ञस्त्वं बालोऽप्यत्र न मुद्यति ॥ २६३ ॥  
 बाह्यां पुरवरोद्याने बालक्रीडावलोकनान् । पुरस्यासन्नवर्तित्वं केन वा नानुमीयते ॥ २६४ ॥  
 धूमोपलम्भनादाग्निद्रव्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवदत्तस्य चेष्टाञ्च याम्बरादिकम् ॥ २६५ ॥  
 दृष्ट्वा श्रुत्वा विविच्यैष सामान्यो नैव बालकः । राजवंशसमुद्भूतिः चिह्नैरस्यानुमीयते ॥ २६६ ॥  
 इति केनाप्युपायेन तद्वंशं स परीक्षितुम् । वाञ्छन्नयाचतैनं मे भोजनं दीयतामिति ॥ २६७ ॥

किसी बड़े आश्रममें पहुँची और वहाँ गुप्त रूपसे—अपना परिचय दिये बिना ही रहने लगी । जब वह विजया रानी शोकसे व्याकुल होनी थी तब वह यक्षी आकर उसका शोक दूर करनेकी इच्छासे उसकी अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे संभारकी स्थिति बतलाती थी, धर्मका मार्ग बतलाती थी और इस तरह प्रति दिन उमका चित्त बहलाती रहती थी ॥ २५१-२५३ ॥ इधर महाराज सत्यन्धरकी भामारति और अनंगपताका नामकी दो छोटी स्त्रियाँ और थीं । उन दोनोंने मधुर और वकुल नामके दो पुत्र प्राप्त किये । इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप जानकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये थे । इसलिए ये दोनों ही भाई गन्धोक्तके यहाँ ही पालन-पोषण प्राप्तकर बढ़े हुए थे । उसी नगरमें विजयमति, सागर, धनपाल और मतिसागर नामके चार श्रावक और थे जो कि अनुक्रमसे राजाके सेनापति, पुरोहित, श्रेष्ठी और मन्त्री थे ॥ २५४-२५७ ॥ इन चारोंकी स्त्रियोंके नाम अनुक्रमसे जयावती, श्रीमती, श्रीदत्ता और अनुपमा थे । इनसे क्रमसे देवसेन, बुद्धिषेण, वरादत्त और मधुमुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे । मधुरको आदि लेकर वे छहों पुत्र, जीवन्धर कुमारके साथ ही वृद्धिको प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके साथ ही बालक्रीडा करनेमें तत्पर रहते थे और जिस प्रकार जीवाजीवाद छह पदार्थ कभी भी लोकाकाशको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं उसी प्रकार वे छहों पुत्र उत्कृष्ट अभिप्रायके धारक जीवन्धर कुमारको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे । रात-दिन उनके साथ ही रहते थे और उनके प्राणोंके समान थे । तदनन्तर गन्धोक्तकी स्त्री सुनन्दाने भी अनुक्रमसे नन्दाह्वय नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २६२-२६१ ॥

किसी एक दिन जीवन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोंके साथ गोली बँटा आदि बालकोंके खेल खेलनेमें व्यस्त थे कि इतनेमें एक तपस्वी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे नगर कितनी दूर है ? तपस्वीका प्रश्न सुनकर जीवन्धर कुमारने उत्तर दिया कि 'आप वृद्ध तो हो गये परन्तु इतना भी नहीं जानते । अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते । नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंको खेलता देख भला कौन नहीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास ही है ? जिस प्रकार कि धूम देखनेसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी क्रीडा देख नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है' इस प्रकार मुस्सुराते हुए जीवन्धर कुमारने कहा । कुमारकी चेष्टा कान्ति तथा स्वर आदिको देखकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, इसके चिह्नोंसे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति राजवंशमें हुई है । ऐसा विचार कर उस तपस्वीने किसी उपायसे उसके वंशकी परीक्षा करनी चाही । अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए उसने जीवन्धर

कुमारोऽपि प्रतिज्ञाय नीत्वा साध्वं तमात्मना । पितुः सन्निधिमाहारो मयास्मै स्म प्रदीयते ॥ २६८ ॥  
 भवान्प्रमाणमित्याख्यञ्चूत्वा तथात्पिता मुदा । विनीतोऽयं सुतः श्लाघ्यो ममेत्याश्लिष्य तं मुहुः ॥ २६९ ॥  
 पुत्रं ज्ञानावसानेऽयं मयासा साधु भोक्ष्यते । त्वया व्यपगताशङ्कं भोक्तव्यमिति सोऽभ्यधात् ॥ २७० ॥  
 सहायैः सह संविष्य भोक्तुं प्रारब्धवानसौ । अथार्भकस्वभावेन सर्वमुष्णमिदं कथम् ॥ २७१ ॥  
 भुञ्जेऽहमिति रोदित्वा जननीमकदर्शयत् । रुदन्तं तं समालोक्य भद्रैरात्ते न युज्यते ॥ २७२ ॥  
 अपि त्वं बयसात्पीयान् धीस्थो वीर्यादिभिर्गुणैः । अधरीकृतविश्रान्तोऽसि हेतुना केन रोदिषि ॥ २७३ ॥  
 इति तापसवेपेण भाषितः स कुमारकः । शृणु पूज्य न वेत्सि त्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान् ॥ २७४ ॥  
 मित्राति संहतश्लेष्मा वैमल्यमपि नेत्रयोः । शीतीभवति चाहारः कथमेतन्निवार्यते ॥ २७५ ॥  
 इत्याख्यचत्समाकर्ण्य मातास्य मुदिता सती । यथाविधि सहायैस्तं सह सम्यग्भोजयत् ॥ २७६ ॥  
 ततो गन्धोत्कटो भुक्त्वा सन्निविष्टो यथासुखम् । तेन तापसवेपांऽपि भुक्त्वात्मैवमभाषत् ॥ २७७ ॥  
 कुमारोऽस्मिन्मम ज्ञेहोऽभूदवेक्ष्यास्य योग्यताम् । मया शास्त्राब्धिसन्धौतमतिरेप करिष्यते ॥ २७८ ॥  
 इति तन्नापितं श्रुत्वा वरिष्ठः श्रावकेष्वहम् । नान्यलिङ्गिनमस्कारं कुर्वे केनापि हेतुना ॥ २७९ ॥  
 स्याद्द्वैमनस्यं तेऽवश्यं तद्भावेऽतिमानिनः । इति श्रेष्ठगाह तच्छ्रुत्वा स्वसङ्गावमथाश्रवीन् ॥ २८० ॥  
 राजा सिंहपुरस्थाहमार्यवर्माभिधानकः । वीरनन्दिमुनेः श्रुत्वा धर्मं संशुद्धदर्शनः ॥ २८१ ॥  
 धृतिषेणाय भद्राज्यं प्रदायादाय संयमम् । तीव्रोदराभिसम्भूतमहादाहासहिष्णुकः ॥ २८२ ॥

कुमारसे याचना की कि तुम मुझे भोजन दो ॥२६२-२६७॥ जीवन्धरकुमार उसे भोजन देना स्वीकृत कर अपने साथ ले पिताके पास पहुँचे और कहने लगे कि मैंने इसे भोजन देना स्वीकृत किया है फिर, जैसी आप आज्ञा दें । कुमारकी बात सुनकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही चिन्मत्र और प्रशंसनीय है । यह कहकर उन्होंने उसका बार-बार आलिङ्गन किया और कहा कि हे पुत्र ! यह तपस्वी स्नान करनेके बाद मेरे साथ अच्छी तरह भोजन कर लेगा । तू निःशङ्क होकर भोजन कर ॥ २६८-२७० ॥ तदनन्तर जीवन्धरकुमार अपने मित्रोंके साथ बैठकर भोजन करनेके लिए तैयार हुए । भोजन गरम था इसलिए जीवन्धर कुमार रोकर कहने लगे कि यह सब भोजन गरम रहा है मैं कैसे खाऊँ ? इस प्रकार रोकर उन्होंने माताको तंग किया । उन्हें रोता देख तपस्वी कहने लगा कि भद्र ! तुम्हें रोना अच्छा नहीं लगता । यद्यपि तू अवस्थासे छाँटा है तो भी बड़ा बुद्धिमान है, तूने अपने वीर्य आदि गुणोंसे सबको नीचा कर दिया है । फिर तू क्यों रोता है ? ॥ २७१-२७३ ॥ तपस्वीके ऐसा कह चुकने पर जीवन्धरकुमारने कहा कि हे पूज्य ! आप जानते नहीं हैं । सुनिये, रानेमें ये गुण हैं—पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचिन हुआ कफ निकल जाता है, दूसरा गुण यह है कि नेत्रोंमें निर्मलता आ जाती है और तीसरा गुण यह है कि भोजन ठण्डा हो जाता है । इतने गुण होनेपर भी आप मुझे रानेसे क्यों रोकते हैं ? ॥ २७४-२७५ ॥ पुत्रकी बात सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने मित्रोंके साथ उसे विधिपूर्वक अच्छी तरह भोजन कराया ॥ २७६ ॥ तदनन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर मुखसे बैठा और तपस्वी भी उसीके साथ भोजन कर चुका तब तपस्वीने गन्धोत्कटसे कहा कि इस बालककी योग्यता देखकर इसपर मुझे स्नेह हो गया है अतः मैं इसकी बुद्धिको शास्त्र रूपी समुद्रमें अवगाहन कर निर्मल बनाऊँगा ॥२७७-२७८ ॥ तपस्वीकी बात सुनकर गन्धोत्कटने कहा कि मैं श्रावकोंमें श्रेष्ठ हूँ—श्रावकके श्रेष्ठ व्रत पालन करता हूँ इसलिए अन्य लिङ्गियोंको किसी भी कारणसे नमस्कार नहीं करता हूँ और नमस्कारके अभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अवश्य ही बुरा लगेगा । सेठकी बात सुनकर वह तपस इस प्रकार अपना परिचय देने लगा ॥ २७९-२८० ॥

मैं सिंहपुरका राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वीरनन्दी मुनिसे धर्मका स्वरूप सुनकर मैंने निर्मल सम्यग्दर्शन धारण किया था । तदनन्तर धृतिषेण नामक पुत्रके लिए राज्य देकर मैंने संयम धारण कर लिया था—मुनिव्रत अंगीकृत कर लिया था परन्तु जठराभिकी तीव्र बाधासे ऊपन्न

सम्यग्दृष्टिर्मुहूर्तसंज्ञा-पत्रः । इति तद्वचनं सम्यक्परिक्षय वणिजां वरः ॥ २८३ ॥  
 सुतं ससर्पयामास तस्मै १ तं सखिभिः समम् । क्षेत्रे बीजमिव स्थाने योष्ये किं नार्पयेत्सुधीः ॥ २८४ ॥  
 १ स सृष्टिस्तमादाय निसर्गमतिविस्तृतिम् । अचिरेणैव कालेन विश्वविद्यान्तमानयत् ॥ २८५ ॥  
 कुमारोऽपि श्विर्वाग्भोदान्ते विद्याभिरद्युतत् । प्राप्तैश्चर्यो द्विपो बानु सन्प्राप्तनवयौवनः ॥ २८६ ॥  
 उपाध्यायोऽपि कालान्तरेणापत्स्यतः शिवम् । तत्काले कालकूटार्यो मुख्यो वननिवासिनाम् ॥ २८७ ॥  
 मर्याकारं प्रपन्नो वा सूर्यरश्मिभयात्स्वयम् । अन्धकारः सकोदण्डशरहस्तं दुरीक्षकम् ॥ २८८ ॥  
 केनाप्यसन्नमापाते कटुकं वा महौषधम् । निर्घृणं बलमादाय त्रिपाणोद्धोषभीषणम् ॥ २८९ ॥  
 तमालारामनिर्भासिभूगोचरमुपागतः । गोघ्नो विघ्नं स साधूनां गामण्डलजिघृक्षया ॥ २९० ॥  
 तं किंवदन्तीमाकर्ण्य कन्यां गोदावरीं सतीम् । पुत्रीं गोपेन्द्रगोपश्रीसम्भूतां गोविमांक्षणम् ॥ २९१ ॥  
 विधास्यते दशमीति काष्ठाङ्गारिकभूभुजा । घोषणां कारितां श्रुत्वा कालाङ्गारिकसङ्गतः ॥ २९२ ॥  
 जीवन्धरः सहायैः स्वैः परीतो व्याधसन्निधिम् । सम्प्राप्याकृष्टकोदण्डनिज्ञातशरसन्ततिम् ॥ २९३ ॥  
 सन्धत्सन्ततिं मुञ्चल्लवु शिक्षाविशेषतः । धनुर्वेदसमादिष्टं स्थानकं सर्वमात्रजन् ॥ २९४ ॥  
 बाणपातान्परेषाञ्च वज्रयन्भक्षु सञ्चरन् । विक्रान्तन् शत्रुबाणौघं रुद्रमन्त्राणि भीरुम् ॥ २९५ ॥  
 इति युध्वा चिरं व्याधान् जित्वा वा दुर्नयान्नयः । जयश्रिया समालोढः सर्वाशा यशसा भृशम् ॥ २९६ ॥  
 पर्यञ्छशिशंसासकुन्दप्रसवहासिना । समागमत्पुरं चञ्चद्वैजयन्ती विराजितम् ॥ २९७ ॥

हुई महादाहको सहन नहीं कर सका इसलिए मैंने यह ऐसा वेष धारण कर लिया है, मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, तुम्हारा धर्मबन्धु हूँ । इस प्रकार तपस्वीके वचन सुनकर और अच्छी तरह परीक्षा कर बैठने उसके लिए मित्रों सहित जीवन्धरकुमारको सौंप दिया सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम स्वेतमं बीजकी तरह योग्य स्थानमें बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है ? अर्थात् सभी कुल्ल अर्पित कर देता है ॥ २८१-२८४ ॥ उस सम्यग्दृष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत बड़ा विस्तार था ऐसे जीवन्धर कुमारको लेकर थोड़े ही समयमें समस्त विद्याओंका पारगामी बना दिया ॥ २८५ ॥ जिस प्रकार शरद् ऋतुमें सूर्य देदीप्यमान होता है और ऐश्वर्य पाकर हाथी सुशोभित होता है उसी प्रकार नव यौवनको पाकर जीवन्धरकुमार भी विद्याओंसे देदीप्यमान होने लगे ॥ २८६ ॥ वह उपाध्याय भी समयानुसार संयम धारण कर मोक्षको प्राप्त हुआ । अथानन्तर—उस समय कालकूट नामका एक भीलोंका राजा था जो ऐसा काला था मानो सूर्यकी किरणोंसे डरकर स्वयं अन्धकारने ही मनुष्यका आकार धारण कर लिया था, वह पशुहिसक था और साधुओंके विघ्नके समान जान पड़ता था । जो धनुष-बाण हाथमें लिया है, जिसे कोई देख नहीं सकता, युद्धमें जिसे कोई सहन नहीं कर सकता, जो महौषधिके समान कटुक है, दयारहित है और सींगोंके शब्दोंसे भयंकर है ऐसी सेना लेकर वह कालकूट गामण्डलके हरण करनेकी इच्छासे तमानुओंके वनसे सुशोभित नगरके बाह्य मैदानमें आ डटा ॥ २८७-२९० ॥ इस समाचारको सुनकर काष्ठाङ्गारिक राजाने घोषणा कराई कि मैं गायों, छुड़ानेवालेके लिए गोपेन्द्रकी स्त्री गोपश्रीसे उत्पन्न गोदावरी नामकी उत्तम कन्या दूंगा । इस घोषणाको सुनकर जीवन्धर कुमार काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिक तथा अपने अन्य मित्रोंसे युक्त होकर उस कालकूट भीलके पास पहुंचे । वहाँ जाकर उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया, उसपर तीक्ष्ण बाण रक्खे, वे अपनी विशिष्ट शिष्टाके कारण जल्दी-जल्दी बाण रखते और छोड़ते थे, धनुर्वेदमें बतलाये हुए सभी पैतरा बदलते थे, दूसरोंकी बाण-वर्षाको वचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शत्रुओंके बाणोंके समूहको काटते थे और कायर लोगोंपर अस्त्र छोड़नेसे रोकते थे, अर्थात् कायर लोगोंपर अस्त्रोंका प्रहार नहीं करते थे । इस तरह जिस प्रकार नय मिथ्या नयोंको जीत लेना है उसी प्रकार उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलोंको जीत लिया । जयलक्ष्मीने उनका आलिङ्गन किया और वे चन्द्रमा, हंस, तूल तथा कुन्दके फूलके समान सुशोभित यश के द्वारा समस्त दिशाओंको व्याप्त करते हुए फहराती हुई पताकाओंसे सुशोभित नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ २९१-२९७ ॥

वेहृत्ते कुमारस्य सौर्षादिप्रसवाचितैः । जननेत्रालयः पेतुः कीर्तिगन्धावकषिताः ॥ ३९८ ॥  
 तदा कुमारसन्देशादेकवाक्येन विट्सुताः । गोविमोक्षणमेतेन कृतं युध्वेति भूपतिम् ॥ ३९९ ॥  
 विशाध्यादापयन् कन्यां नन्दाख्याय पुरोदिताम् । गोदावरीं विवाहेन विचित्राः कार्यकृतयः ॥ ३०० ॥  
 अथात्र भारते खेचराद्री दक्षिणभागगम् । गगनाच्छीरिवाभाति पुरं गगनवल्लभम् ॥ ३०१ ॥  
 तत्पुराधिपतिः खेचरेन्द्रो गरुडवेगकः । दायादास्ताभिमानः सन्नतद्वीपे परं पुरम् ॥ ३०२ ॥  
 रमणीयाभिर्भू कृत्वा नात्राद्री मनुजोदये । निविष्टवान्पुरेऽस्यासीद्धारिणी प्राणवल्लभा ॥ ३०३ ॥  
 तत्सुतामुपवासेन परिम्लानशरीरिकाम् । गन्धर्वदत्तामन्येषुः पुजयित्वा जिनेश्वरान् ॥ ३०४ ॥  
 शेषमालां समादाय दातुं स्वस्मै समागताम् । आपूर्णयौवना वीक्ष्य कस्मै देयेयमित्यसौ ॥ ३०५ ॥  
 अपृच्छखेचराधीशो मन्त्रिणं मतिसागरम् । सोऽपि प्राक्कृतमित्याह सिद्धादेशमपारधीः ॥ ३०६ ॥  
 जिनेन्द्रानहमन्येषुर्बन्धुं मन्दरं गतः । नन्दने पूर्वदिग्भागे वने जिननिकेतनम् ॥ ३०७ ॥  
 भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा विधिपुरस्सरम् । तत्रस्थचारणं नत्वा मत्यन्तविपुलादिकम् ॥ ३०८ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं जगत्पूज्य सती मत्स्वामिनः सुता । कस्य गन्धर्वदत्ताख्या भोगभोग्या भविष्यति ॥ ३०९ ॥  
 इत्यप्राक्षं तदाबोचत्सोऽप्येवमवधीक्षणः । द्वीपेऽस्मिन्भारते हेमाङ्गदेशे मनोहरे ॥ ३१० ॥  
 राजा राजपुरे सत्यधरः सत्यविभूषणः । विजयास्य महादेवी तयोः श्रीमान्सुधीः सुतः ॥ ३११ ॥  
 वीणास्वर्यवरे तस्य दत्ता भार्या भविष्यति । इति मन्त्रिवचः श्रुत्वा खगेशः किञ्चिदाकुलः ॥ ३१२ ॥

उस समय शूरवीरता आदि गुण रूपी फूलोंसे सुशोभित कुमारके शरीर-रूपी आमके वृक्षपर कीर्ति रूपी गन्धसे खिचे हुए मनुष्योंके नेत्ररूपी भौरे पड़ रहे थे ॥ २९८ ॥ तदनन्तर जीवन्धर कुमारने सब वैश्यपुत्रोंसे कहा कि तुम लोग एक स्वरसे अर्थात् किसी मतभेदके बिना ही राजासे कहो कि इस नन्दाङ्गने ही युद्ध कर गायोंको छुड़ाया है । इस प्रकार राजाके पास संदेश भेजकर पहले कहीं हुई गोदावरी नामकी कन्या विवाहपूर्वक नन्दाङ्गके लिए दिलवाई । सां ठीक ही है क्योंकि कार्योंकी प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है । अर्थात् कोई कार्योंका बिना किये ही यश लेना चाहते हैं और कोई कार्य करके भी यश नहीं लेना चाहते ॥ २९९-३०० ॥

अथानन्तर—इसी भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी दक्षिणश्रृंगीमें एक गगनवल्लभ नामका नगर है जो आकाशसे पड़ती हुई श्रीके समान जान पड़ता है । उसमें विद्याधरोंका स्वामी गरुड-वेग राज्य करता था । दैवयोगसे उसके भागीदारोंने उसका अभिमान नष्ट कर दिया इसलिए वह भागकर रत्नद्वीपमें चला गया और वहाँ मनुजोदय नामक पर्वत पर रमणीय नामका सुन्दर नगर बसा कर रहने लगा । उसकी रानीका नाम धारिणी था ॥ ३०१-३०३ ॥ किसी दिन उसकी गन्धर्व-दत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर मुरझा गया । वह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर शेष बची हुई माला लेकर पिताको देनेके लिए गई । गन्धर्वदत्ता पूर्ण यौवनवती हो गई थी । उसे देख पिताने अपने मतिसागर नामक मन्त्रीसे पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिये । इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके धारक मन्त्रीने भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे पहले जो बात सुन रखी थी वह कह सुनाई ॥ ३०४-३०६ ॥ उसने कहा कि हे राजन् ! किसी एक दिन मैं जिनेन्द्र-भगवान्की वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर गया था । वहाँ नन्दन वनकी पूर्वा दिशाके वनमें जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर तथा विधिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति कर मैं बैठा ही था कि मेरा दृष्टि वहाँ पर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजपर पड़ी । मैंने उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मका उपदेश सुना । तदनन्तर मैंने पूछा कि हे जगत्पूज्य । हमारे स्वामीके एक गन्धर्वदत्ता नामकी पुत्री है वह किसके भोगने योग्य हांगी ? मुनिराज अर्वाध-ज्ञानी थे अतः कहने लगे कि इसी भरतक्षेत्रके हेमाङ्ग देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका नगर है । उसमें सत्यरूपी आभूषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है । उसकी महारानीका नाम विजया है उन दोनोंके एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है । वीणाके स्वर्यवरमें वह

भविता कथमस्माकं सन्ध्यां भूमिगोचरैः । इत्यप्राक्षीत्पुनश्चैनं मन्त्रिणं मतिसागरम् ॥ ३१३ ॥  
 सोऽप्यन्यच्च मुनेर्ज्ञातं स्पष्टमेवमभाषत । श्रेष्ठी वृषभदत्ताख्यस्तस्मिन् राजपुरे प्रिया ॥ ३१४ ॥  
 तस्य पद्मावतीसुजिनदरास्तयोरभूत् । स कदाचित्पुरे तस्मिन्नुद्याने प्रीतिवर्धने ॥ ३१५ ॥  
 जिन् सागरसेनाकर्यं केवलज्ञानपूजने । भक्त्या वन्दितुमायातस्तच्च तद्गुरुणा समम् ॥ ३१६ ॥  
 दृष्ट्वा तं तत्र तेनामा प्रीतिस्ते समजायत । देहभेदाद्विनाभ्येन भेदो न युषयोरभूत् ॥ ३१७ ॥  
 एवं दिनेषु गच्छन्सु केपुचिद्विजां वरः । जिनदत्तामवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥ ३१८ ॥  
 गुणपालाभिधानस्य कृष्णबोधिरदीक्षत । सुव्रताक्षान्तिसाभिर्धयं सम्प्राप्यादाय संयमम् ॥ ३१९ ॥  
 पद्मावती च कौलीन्यं सुव्रता सान्त्वपालयत् । जिनदत्तोऽपि विचोशः पितुः पदमधिष्ठितः ॥ ३२० ॥  
 \*मनोहरादिरामाभिः कामं कामान्समन्वभूत् । स रत्नद्वीपमर्थार्थं स्वयमेवागमिष्यति ॥ ३२१ ॥  
 तेनैवात्मदम्भितकार्यसिद्धिर्भविष्यति । इत्यसौ चागमत्केपुचिद्विनेषु तदन्तिकम् ॥ ३२२ ॥  
 ततस्तुष्टः स्वगाधीशः कृतप्रावृणिकक्रियः । भिन्न गन्धर्वदत्तायाः मत्सुतायाः स्वयंवरम् ॥ ३२३ ॥  
 त्वत्पुरे कारयेत्येनमभ्यधादधिकारदरः । जिनदत्तोऽपि तां नीत्वा सह राजपुरं स्वर्गैः ॥ ३२४ ॥  
 स्वयंवरं <sup>१</sup>समुद्घोष्य मनोहरवनान्तरे । मनोहरं समुत्पाद्य स्वयंवरमहागृहम् ॥ ३२५ ॥  
<sup>२</sup>कलाविदग्धविद्येशभूगोचरमहीशिषु । <sup>४</sup>कुमारेषु प्रयातेषु जिनपूजां न्यवर्तयत् ॥ ३२६ ॥

गन्धर्वदत्ताको जीतेगा और इस तरह गन्धर्वदत्ता उसीकी भार्या हांगी । मन्त्रीके इस प्रकारके वचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल हुआ और उसी मतिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम लोगोंका भूमि-गोचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ? ॥ ३०७-३१३ ॥ इसके उत्तरमें मन्त्रीने मुनिराजसे जो कुछ अन्य बातें मालूम की थीं वे सब स्पष्ट कह सुनाईं । उसने कहा कि उसी राजपुर नगरमें एक वृषभदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम पद्मावती था । उन दोनोंके एक जिन-दत्त नामका पुत्र हुआ था । किसी एक समय उसी राजपुर नगरके प्रीतिवर्धन नामक उद्यानमें सागरसेन नामक जिनराज पधारं थे उनके केवलज्ञानकी भक्तिसे पूजा-वन्दना करनेके लिए वह अपने पिताके साथ आया था । आप भी वहाँ पर गये थे इसलिए उसे देखकर आपका उसके साथ प्रेम हो गया था । इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीरभेदको छोड़ कर और किसी बातकी अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह गया था ॥ ३१४-३१७ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन वृषभदत्त सेठ अपने स्थान पर जिनदत्ताको बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेसे गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया और उसकी स्त्री पद्मावतीने भी सुव्रता नामकी आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम व्रत धारण कर वह अपनी कुलीनता की रक्षा करने लगी । इधर जिनदत्त भी धनका मालिक होकर अपने पिताके पद पर आरूढ़ हुआ और मनोहरा आदि स्त्रियोंके साथ इच्छानुसार भोग भोगने लगा । वह जिनदत्त धन कमानेके लिए स्वयं ही इस रत्नद्वीपमें आवेगा ॥ ३१८-३२१ ॥ उसीसे हमारे इष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । इस तरह कितने ही दिन बीत जानेपर वह जिनदत्त गरुड़वेगके पास आया । इससे गरुड़वेग बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने जिनदत्तका अच्छा सत्कार किया । तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगने बड़े आदरके साथ जिनदत्तसे कहा कि हे मित्र ! आप अपनी नगरीमें मेरी पुत्री गन्धर्वदत्ताका स्वयंवर करा दो । उसकी आज्ञानुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोंके साथ गन्धर्वदत्तको राजपुर नगर ले गया ॥ ३२२-३२४ ॥ वहाँ जाकर उसने मनोहर नामके वनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा कराई और एक बहुत सुन्दर बड़ा भारी स्वयंवर-गृह बनवाया ॥ ३२५ ॥ जब अनेक कलाओंमें चतुर विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तब उसने जिनदत्त भगवान्की पूजा कराई ॥ ३२६ ॥

१ मनोरमादि-ल० । २ समुद्घोष्य ल० । ३ कलाविद्याविदग्धेषु ल० । ४ सुकुमारेषु यातेषु ल०, ग०, म० ।

तदा गन्धर्वदत्तापि स्वयंवरसभागृहम् । प्रविश्य <sup>१</sup>वीणास्त्रादाय सुघोषाख्यां सुलक्षणाम् ॥ ३२७ ॥  
 स्वरप्रामादिसद्वाहं शुद्धदेशजलक्षणम् । गीतमिश्रं विधायैतानधरीकृत्य भूभुजः ॥ ३२८ ॥  
<sup>२</sup>स्थिता जीवन्धरस्तस्या वीणाविद्याकृतं मदम् । निराचिकीर्षुरागत्य स्वयंवरसभागृहम् ॥ ३२९ ॥  
 अपक्षपतितान् प्राज्ञान् वीणाविद्याविशारदान् । गुणदोषपरीक्षायां नियोज्योभयसम्मतान् ॥ ३३० ॥  
 निर्दोषा दीयतां वीणेत्यभ्यधात्स्त्रियोगिनः । वीणास्त्रिचतुरास्तस्मै तदानीय समर्पयन् ॥ ३३१ ॥  
 केशरोमलवादीनां दोषाणां तासु दर्शनात् । स ताः सर्वा निराकृत्य कन्यकां प्रत्यपादयत् ॥ ३३२ ॥  
 यदि निर्मात्सरसि त्वं स्वद्वीणा दीयतामिति । अदितासौ च तां वीणां स्वकरस्थां कृतादरम् ॥ ३३३ ॥  
 तामादाय कुमारेण शास्त्रमार्गानुसारिणा । गीतमिश्रितवाद्येन मन्द्रतारेण हारिणा ॥ ३३४ ॥  
 मधुरेण शृगाणाञ्च मनोविभ्रमकारिणा । गीतञ्च साधुवादोद्घप्रसूनार्चनभासिना ॥ ३३५ ॥  
 हृदि गन्धर्वदत्तैर्न पञ्चबाणप्रचोदिता । मालयालञ्चकाराये<sup>३</sup> सम्मुखे किं न जायते ॥ ३३६ ॥  
 हीनभासोऽभवन्केचिद्दिनदीपोपमाः परे । निज्ञाप्रदीपसङ्काशा भासमानाननास्तदा ॥ ३३७ ॥  
 सुघोषाहेतुना प्राप्तकुमारा परितोषिणी । गन्धर्वदत्ता तां वीणामात्मन्येषमभाषत ॥ ३३८ ॥  
 कुलोचिता सुघोषा त्वं मधुरा चित्तहारिणी । कुमारसङ्गमे हेतुर्वृत्तीव कुशला मम ॥ ३३९ ॥  
 काष्ठाङ्गारिकपुत्रेण चोदितेन सुदुर्जनैः । गन्धर्वदत्तामाहर्तुमुद्यमो विहितस्तदा ॥ ३४० ॥  
 कुमारोऽपि विदित्वैतद्द्वलाधिकपुरस्सरैः । विद्याधरैः समं गन्धगजं जयगिरिश्रुतिम् ॥ ३४१ ॥

उसी समय गन्धर्वदत्ताने भी सुघोषा नामकी उत्तम लक्षणों वाली वीणा लेकर स्वयंवरके सभागृहमें प्रवेश किया ॥ ३२७ ॥ वहाँ आकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोंके समूहसे वीणा बजाई और सब राजाओंको नीचा दिवा दिया । तदनन्तर उसका वीणासम्बन्धी मद दूर करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वयंवर-सभाभवनमें आये । आते ही उन्होंने उन लोगोंको गुण और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो किसीके पक्षपाती नहीं थे, बुद्धिमान् थे, वीणाकी विद्यामें निपुण थे और दोनों पक्षके लोगोंको इष्ट थे ॥ ३२८-३३० ॥ इसके बाद उन्होंने कार्य करनेके लिए नियुक्त पुरुषोंसे 'निर्दोष वीणा दी जाय' यह कहा । नियोगी पुरुषोंने तीन-चार वीणाएँ लाकर उन्हें सौंप दीं परन्तु जीवन्धर कुमारने उन सबमें केश रोम लव आदि दोष दिखाकर उन्हें वापिस कर दिया और कन्या गन्धर्वदत्तासे कहा कि 'यदि तू ईर्ष्या रहित है तो अपनी वीणा दे' । गन्धर्वदत्ताने अपने हाथकी वीणा बड़े आदरसे उन्हें दे दी । कुमारने उसकी वीणा ले कर गाया, उनका वह गाना शास्त्रके मार्गका अनुसरण करने वाला था, गीत और वाजेकी आवाजसे मिला हुआ था, गंभीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणोंके मनमें विभ्रम उत्पन्न करनेवाला था और उम विद्याके जानकार लोगोंके धन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलोंकी पूजासे सुशोभित था ॥ ३३१-३३५ ॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धर्वदत्ता हृदयमें कामदेवके वाणोंसे प्रेरित हो उठी । इसलिए इसने उन्हें मालासे अलंकृत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ होता है ॥ ३३६ ॥ उस समय कितने ही लोग दिनमें जलाये हुए दीपकोंके समान कान्तिहीन हो गये और कितने ही लोग रात्रिमें जलाये हुए दीपकोंके समान देदीप्यमान मुखके धारक हो गये । भावार्थ—जो ईर्ष्यालु थे वे जीवन्धर कुमारकी कुशलता देख कर मलिनमुख हो गये और जो गुणग्राही थे उनके मुख सुशोभित होने लगे ॥ ३३७ ॥ गन्धर्वदत्ता सुघोषा नामक वीणाके द्वारा ही जीवन्धर कुमारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए वह सन्तुष्ट हो कर अपने मनमें इस प्रकार कह रही थी कि हे सुघोषा ! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर है, और मनको हरण करने वाली है, कुमारका संग प्राप्त करानेमें तू ही चतुर दूतीके समान कारण हुई है ॥ ३३८-३३९ ॥ उस समय दुर्जनोके द्वारा प्रेरित हुए काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने गन्धर्वदत्ताको हरण करनेका उद्यम किया । जब जीवन्धर कुमारको इस बातका पता चला तब वे अधिक

भारुह्य शत्रुसैन्यस्य प्रतीपमगमत्कुचा । तदा गरुडवेगाख्यविद्याधरधराधिपः ॥ ३४२ ॥  
 पिता गन्धर्वदत्ताया गत्वा मध्यस्थतां तयोः । उपायकुशलः शत्रुबलं प्रशममानयत् ॥ ३४३ ॥  
 ततस्तथोविधाहेन विधायाम्नी समागमम् । कृतार्थोऽभूत्पितुर्नान्यत्कार्यं कन्यासमर्पणात् ॥ ३४४ ॥  
 तयोः परस्परप्रेमप्रबुद्धसुखयोरगात् । निर्बृतिः परमां काष्ठां समसंयोगसम्भवा ॥ ३४५ ॥  
 अथान्यदा मधो माले मदनांदयसाधने । सुरादिमलयोद्याने वनक्रीडानिमिश्रकम् ॥ ३४६ ॥  
 नृपेण सह सर्वेषु पौरेषु सुखलिप्सया । आविष्कृतस्वसम्पत्सु यातेषु परमोत्सवात् ॥ ३४७ ॥  
 पुरे तस्मिन्वणिङ्मुख्योऽभूद्द्वैश्रवणदत्तावाक् । तनूजा चूतमञ्जरी तस्यासीत्सुरमञ्जरी ॥ ३४८ ॥  
 तस्याः श्यामलता चेटक्यसौ चन्द्रोदयाङ्ग्यः । चूर्णवासोऽयमस्यन्यो नास्मान्दन्वेन बन्धुरः ॥ ३४९ ॥  
 ह्यस्यात्मस्वामिनीदाक्ष्यप्रकाशनपरायणा । इतस्ततः समुद्ध्वय विचचार जनान्तरे ॥ ३५० ॥  
 कुमारदत्तवैश्यस्य विमलायां सुताभवत् । गुणमालामला तस्याश्चेतकी पटुभाषिणी ॥ ३५१ ॥  
 विद्युलताभिधा चूर्णवासोऽयं षट्पदावृतः । वर्यः सूर्योदयो नाम नेदक्स्वर्गोऽपि विद्यते ॥ ३५२ ॥  
 इति विद्वत्सभामध्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम् । विद्योतयन्ती बभ्राम सुभूर्गर्वग्रहाहिता ॥ ३५३ ॥  
 एवं तयोः समुद्भूतमात्सर्याहितचेतसोः । विवादे सति तद्विद्यावेदिनस्तपरीक्षितुम् ॥ ३५४ ॥  
 अभूवन्नक्षमास्तत्र जीवन्धरयुवैश्वरः । परीक्ष्य तत्स्वयं सम्यक्छ्रेष्ठश्चन्द्रोदयोऽनयोः ॥ ३५५ ॥  
 प्रत्ययः कोऽस्य चेद्द्वयकतं दर्शयामांति तद्द्वयम् । अवष्टभ्य स्वहस्ताभ्यां विचिक्षेप ततो द्रुतम् ॥ ३५६ ॥  
 चन्द्रोदयमलिब्रान्तो गन्धांकर्यांपरीतवान् । दृष्ट्वा सर्वेऽपि तत्रस्थास्तत्तमेवास्तुवन्विदः ॥ ३५७ ॥

बलवान् विद्याधरोंके साथ जयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर बड़े क्रोधसे शत्रु-सेनाके सम्मुख गये । उसी समय उपाय करनेमें निपुण गन्धर्वदत्ताके पिता गरुडवेग नामक विद्याधरोंके राजाने उन दोनोंकी मध्यस्थता प्राप्त कर शत्रुकी सेनाको शान्त कर दिया ॥ ३४०-३४३ ॥ तदनन्तर विवाहके द्वारा जीवन्धर कुमार और गन्धर्वदत्ताका समागम कराकर गरुडवेग कृतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पिताको कन्या समर्पण करनेके सिवाय और कुछ काम नहीं है ॥ ३४४ ॥ परस्परके प्रेमसे जिनका मुख बढ़ रहा है ऐसे उन दोनोंकी सम संयोगसे उत्पन्न होने वाली तृप्ति परम सीमाको प्राप्त हो रही थी ॥ ३४५ ॥

अथानन्तर—कामदेवको उत्तंजित करने वाला वसन्त ऋतु आया । उसमें सब नगर-निवासी लोग सुख पानेकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवसे राजाके साथ सुरमलय उद्यानमें वन-क्रीडाके निमित्त गये ॥ ३४६-३४७ ॥ उसी नगरमें वैश्रवणदत्त नामक एक सेठ रहता था । उसकी आन्नमञ्जरी नामकी स्त्रीसे सुरमञ्जरी नामकी कन्या हुई थी । उस सुरमञ्जरीकी एक श्यामलता नामकी दासी थी । वह भी सुरमञ्जरीके साथ उसी उद्यानमें आई थी । उसके पास एक चन्द्रोदय नामका चूर्ण था उसे लेकर वह यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस चूर्णसे बढ़कर दूसरा चूर्ण है ही नहीं । इस प्रकार वह अपनी स्वामिनीकी चतुराईको प्रकट करती हुई लोगोंके बीच घूम रही थी ॥ ३४८-३५० ॥ उसी नगरमें एक कुमारदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी विमला स्त्रीसे अत्यन्त निर्मल गुणमाला नामकी पुत्री हुई थी । गुणमालाकी विद्युलता नामकी दासी थी जो बात-चीत करनेमें बहुत ही चतुर थी । अच्छी भौंहोंको धारण करने वाली तथा अभिमान रूपी पिशाचसे प्रती वह विद्युलता विद्वानोंकी सभामें बार-बार अपनी स्वामिनीके गुणोंको प्रकाशित करती और यह कहती हुई घूम रही थी कि यह सूर्योदय नामका श्रेष्ठ चूर्ण है और इतना सुगन्धित है कि इस पर भौरे आकर पड़ रहे हैं ऐसा चूर्ण स्वर्गमें भी नहीं मिल सकता है ॥ ३५१-३५३ ॥ इस दोनों दासियोंमें जब परस्पर विवाद होने लगा और इस विद्याके जानकार लोग जब इसकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सके तब वहीं पर खड़े हुए जीवन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरह परीक्षा कर कह दिया कि इन दोनों चूर्णोंमें चन्द्रोदय नामका चूर्ण श्रेष्ठ है । इसका क्या कारण है ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ । ऐसा कह कर जीवन्धर कुमारने उन दोनों चूर्णोंको दोनों हाथोंसे लेकर ऊपरकी फेंक दिया । फेंकते

तदा प्रभृति ते कन्ये परस्परनिबन्धनम् । विद्याविहितसङ्घर्षं स्वजतः १स्मास्तमसरे ॥ ३५८ ॥  
 अथात्र नागरेष्वात्मवाङ्मया क्रीडनं वने । कुर्वत्स्वेकं समालोक्य कुक्कुरं खलबालकाः ॥ ३५९ ॥  
 भर्त्सयन्ति स्म चापल्यात्सोऽपि धावन् भयाकुलः । हृदे निपत्य तत्रैव प्राणमोक्षोन्मुखोऽभवत् ॥ ३६० ॥  
 भृत्यैस्ततस्तमानाय्य जीवन्धरकुमारकः । कर्णौ तस्य नमस्कारपदैः सम्पर्शपुरयत् ॥ ३६१ ॥  
 प्रनिगृह्य नमस्कारं चन्द्रोदयगिरावभृत् । यक्षः सुदर्शनो नाम स्मृतपूर्वभवस्तदा ॥ ३६२ ॥  
 प्रत्यागत्य कुमारं तं स्वप्नसादान्मयेदृशी । लब्धा विभूतिरित्युच्चैः स्तुत्या सम्पाद्य विस्मयम् ॥ ३६३ ॥  
 सर्वेषां १दिभ्यभूवाभिः कृतचिरामपूजयत् । हृतः प्रभृत्यहं स्मर्यां व्यसनोत्सवयोस्त्वया ॥ ३६४ ॥  
 कुमारेति ३तमन्वर्थ्यं स्वं धामैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवश्यंभावि तत्फलम् ॥ ३६५ ॥  
 चिरं वने विहृत्यैवं निहृता गन्धवारणः । तन्महीशस्य नात्राशनिघोषो जनघोषतः ॥ ३६६ ॥  
 समुद्भ्रान्तो निवार्योऽन्यैरधावत्स्यन्दनं प्रति । सुदसः सुरमञ्जरीः स कुमारो विलोक्य तम् ॥ ३६७ ॥  
 विनयोच्चयनिर्णीतक्रियः सम्प्राप्य हेलया । कृत्वा परिश्रमं तस्य द्वात्रिंशत्केलिभिः स्वयम् ॥ ३६८ ॥  
 वीतश्रमस्तमस्पन्दं हेलयालानमापयत् । दृष्ट्वात्य गजविज्ञानं पुरं शंसन् जनोऽविशत् ॥ ३६९ ॥  
 तदा प्रभृत्यगात्कामव्यामोहे सुरमञ्जरी । जीवन्धरकुमारावलोकनाकुलिताशया ॥ ३७० ॥  
 हृङ्गितैश्चेष्टितैस्तस्याः सङ्ग्रहामिश्च युक्तिः । माता पिता च जीवन्धराभिलाषपरायणाम् ॥ ३७१ ॥

देर नहीं लगी कि सुगन्धिकी अधिकताके कारण भौरोंके समूहने चन्द्रोदय चूर्णको घेर लिया । यह देख, वहाँ जो भी विद्वान् उपस्थित थे वे सब जीवन्धर कुमारकी स्तुति करने लगे ॥३५४-३५७॥ उस समयसे उन दोनों कन्याओंने विद्यासे उत्पन्न होनेवाली परस्परकी ईर्ष्या छोड़ दी और दोनों ही मात्सर्यरहित हो गई ॥ ३५८ ॥ तदनन्तर—उधर नगरवासी लोग वनमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे इधर कुछ दृष्ट बालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपलता वश मारना शुरू किया । भयसे व्याकुल हो कर वह कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर मरणान्मुख हो गया । जब जीवन्धर कुमारने यह हाल देखा तो उन्होंने अपने नौकरोंसे उस कुत्तेको वहाँसे निकलवाया और उसके दोनों कान पञ्चनमस्कार मन्त्रसे भर दिये । नमस्कार मन्त्रको ग्रहण कर वह कुत्ता चन्द्रोदय पर्वत पर सुदर्शन नामका यक्ष हुआ । पूर्व भवका स्मरण होते ही वह जीवन्धर कुमारके पास वापिस आया और कहने लगा कि मैंने यह उच्छृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पाई है । इस प्रकार दिव्य आभूषणोंके द्वारा उस कृतज्ञ यत्ने सबको आश्चर्यमें डालकर जीवन्धर कुमारकी पूजा की और कहा कि हे कुमार ! आजसे लेकर दुःख और सुखके समय आप मेरा स्मरण करना । इस प्रकार कुमारसे प्रार्थना कर वह अपने स्थान पर चला गया । आचार्य कहते हैं कि विना कारण ही जो उपकार किये जाते हैं उनका फल अवश्य होता है ॥ ३५९-३६५ ॥

इस प्रकार वनमें चिरकाल तक क्रीड़ा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका अशनिघोष नामका मदीन्मत्त हाथी लोगोंका हल्ला सुन कर बिगड़ उठा । वह अहंकारसे भरा हुआ था और साधारण मनुष्य उसे वश नहीं कर सकते थे । वह हाथी सुरमञ्जरीके रथकी ओर दौड़ा चला आ रहा था । उसे देख कर जीवन्धर कुमारने हाथीकी विनय और उन्नय क्रियाका शीघ्र ही निर्णय कर लिया, वं लीला पूर्वक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी क्रीड़ाओंके द्वारा उसे खेद खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भी खेद नहीं होने दिया । अन्तमें वह हाथी निश्चप्र खड़ा हो गया और उन्होंने उसे आलानसे बाँध दिया । यह सब देख नगरवासी लोग जीवन्धर कुमारके हस्ति-विद्वानकी प्रशंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ३६६-३६९ ॥ जीवन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्याकुलित हो रहा है ऐसी सुरमञ्जरी उसी समयसे कामसे मोहित हो गई ॥ ३७० ॥ सुरमञ्जरीके माता-पिताने, उसकी इगितोंसे, चेष्टाओंसे तथा बात-चीतसे युक्ति पूर्वक यह जान लिया कि इसकी



विज्ञाय तां निवेष्टेनरात्पित्रे तदनुज्ञया । विभूतिमत्कुमाराय शुभयोगे वितेरतुः ॥ ३७२ ॥  
 ततः समुचितप्रेम्णा स कामं सुखमन्वभूत् । तत्र तच्छौर्यं सौभाग्यसङ्घर्षां सन्ततं जनैः ॥ ३७३ ॥  
 क्रियमाणां दुरात्माऽसौ काष्ठाङ्गारिकभूपतिः । कोपादशक्रुवन्सोढुं गन्धराजबाधनम् ॥ ३७४ ॥  
 कृत्वा जीवन्धरस्तस्य परिभूतिं व्यधादधीः । पथ्यामलकशुण्ठ्यादिदानग्रहणकर्षणः ॥ ३७५ ॥  
 निजजात्यनुरूपाद्यो विमुखः सुष्टु गवितः । राजपुत्रोचिते वृत्ते विषकोऽर्थं वराटजः ॥ ३७६ ॥  
 कृतान्तवदनं सद्यः प्रापयेमं कुचेष्टितम् । इत्याख्यक्षण्डदण्डाख्यं मुख्यं तत्पुररक्षणम् २ ॥ ३७७ ॥  
 स सङ्घबलोऽधावदभि जीवन्धरं कृत्वा । स कुमारोऽपि तज्जत्वा ससहायो युयुत्सया ॥ ३७८ ॥  
 तमभ्येत्य तदेवास्मै ददौ भङ्गमभङ्गुरः । पुनः कुपितवान्काष्ठाङ्गारिकः स्वबलं बहु ॥ ३७९ ॥  
 प्राहिणोराक्षिरीक्ष्यार्द्राचितां जीवन्धरो वृथा । क्षुद्रप्राणिविघातेन किमनेन दुरात्मकम् ॥ ३८० ॥  
 काष्ठाङ्गारिकमेवैनमुपायैः प्रक्षमं नये । इति यक्षं निजं मित्रमस्मरत्तोऽप्युपागतः ॥ ३८१ ॥  
 ज्ञातजीवन्धराकृतस्तरसर्वं शान्तिमानयत् । ततो विजयगिर्याख्यं समारोप्य गजाधिपम् ॥ ३८२ ॥  
 कुमारं तदनुज्ञानात्स्वावासमनयत्सुहृत् । स्वगेहदर्शनं नाम सद्भावः सुहृदां स हि ॥ ३८३ ॥  
 सहाया बान्धवाश्चास्य प्रवृत्तेरनभिज्ञकाः । पवनान्दोलितालोलबालपल्लवलीलया ॥ ३८४ ॥  
 अकम्पित सर्वेऽपि स्वान्तन्धर्तुमशक्तकाः । गन्धर्वदत्ता तद्याननिमिराज्ञा निराकुला ॥ ३८५ ॥  
 कुमारस्य न भीरस्ति तद्विभीत स्म मात्र भोः । स मङ्क्ष्वेतीतितान् सर्वान् प्रशान्तिं प्रापयत्सुधीः ॥ ३८६ ॥  
 जीवन्धरोऽपि यक्षस्य वसतौ सुचिरं सुखम् । स्थित्वा जिगमिषां स्वस्याज्ञापयत्यक्षमिङ्गितैः ॥ ३८७ ॥

जीवन्धर कुमारमें लग रही है । तदनन्तर उन्होंने जीवन्धर कुमारके माता-पितासे निवेदन किया और उनकी आज्ञानुसार शुभ योगमें ऐश्वर्यको धारण करने वाले जीवन्धर कुमारके लिए वह कन्या समर्पण कर दी ॥ ३७१-३७२ ॥ इसके बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमञ्जरीके साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे । तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर जीवन्धर कुमारकी शूर-वीरता और सौभाग्य-शीलताकी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काष्ठाङ्गारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रोधमें आकर लोगोंसे कहा कि इस मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथी का बाधा पहुँचा कर उसका निरस्कार किया है । यह वैश्यका पुत्र है इसलिए हरड, आँवला, शोंठ आदि चीजोंका क्रय-विक्रय करना इसका काम है परन्तु यह अपनी जातिके कार्योंसे तो विमुख रहता है और अहंकारसे चूर हो कर राजपुत्रोंके करने योग्य कार्यमें आसक्त होता है । इसलिए खांटी चेष्टा करने वाले इस दुष्टको शीघ्र ही यमराजके मुखमें भेज दो । इस प्रकार उसने चण्ड दण्ड नामक, नगरके मुख्य रक्षकका आज्ञा दी ॥ ३७३-३७७ ॥ चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्रोधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दौड़ा । इधर जीवन्धर कुमारका भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी मित्रोंको साथ ले युद्ध करनेकी इच्छामें उसके सम्मुख गये और स्वयं सुरक्षित रह कर उसे उसी समय पराजित कर दिया ॥ इससे काष्ठाङ्गारिक और भी कुपित हुआ और उसने बहुत-सी सेना भेजी । उस सेनाको देख कर जीवन्धर कुमार दयार्द्रचित्त होकर विचार करने लगे कि इन लुद्र प्राणियोंको व्यर्थ मारनेसे क्या लाभ है ? मैं किन्हीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्ठाङ्गारिकको ही शान्त करता हूँ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका उपकार किया और उसने भी आकर तथा जीवन्धर कुमारका अभिप्राय जान कर सब उपद्रव शान्त कर दिया ॥ तदनन्तर वह यक्ष, जीवन्धर कुमारकी सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथी पर बैठा कर अपने घर ले गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सद्भाव रहना ही है ॥ ३७८-३८३ ॥ जीवन्धर कुमारकी प्रवृत्तिको नहीं जानने वाले उनके साथी और भाई-बन्धुलोग हवासे हिलते हुए चञ्चल झोंटे पत्तोंके समान कँपने लगे और वे सब अपने आपका संभालनेमें समर्थ नहीं हो सके । परन्तु गन्धर्वदत्ता जीवन्धरके जानेका कारण जानती थी इसलिए वह निराकुल रही । कुमारका कुञ्ज भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग डरिये नहीं, वे शीघ्र ही आजावेंगे, ऐसा कह कर उस बुद्धि-मतीने सबको शान्त कर दिया ॥ ३८४-३८६ ॥ उधर जीवन्धर कुमार भी यक्षके घरमें बहुत दिन

तदभिप्रायमालक्ष्य यक्षो वृत्वा स्फुरत्प्रभाम् । साधनीमीप्सिताथानां मुद्रिकां कामरूपिणीम् ॥ ३८८ ॥  
 तददेरवतार्येन न भीरस्य कुतश्चन । इति किञ्चिदनुग्रज्य तममुञ्चकृताञ्जनः ॥ ३८९ ॥  
 कुमारोऽपि ततः किञ्चिद्रत्नान्तरमुपैषिवान् । पुरं चन्द्राभनामानं सञ्ज्योत्सवं वा सुधागृहैः ॥ ३९० ॥  
 नृपो धनपतिस्तस्य षालको लोकपालवत् । देवी तिलोत्तमा तस्य तयोः पद्मोत्तमा सुता ॥ ३९१ ॥  
 सा विहर्तुं वनं याता दृष्टा दुष्टाहिना तदा । य इमां निर्विषीकुर्यान्मणिमन्त्रौषधादिभिः ॥ ३९२ ॥  
 मयेयं कन्यका तस्मै सार्धराज्या प्रदास्यते । घोषणामिति नृपालः पुरे तस्मिन्नचीकरत् ॥ ३९३ ॥  
 फणिवैद्यास्तदाकर्ण्यं प्रागप्यादिष्टमीदृशम् । मुनिनादित्यनामेति कन्यालोभाच्चिकित्सितुम् ॥ ३९४ ॥  
 सरप्राप्य बहवो नोपसंहर्तुं तदशक्नुवन् । राजाज्ञया पुनर्वैद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ ३९५ ॥  
 धावन्तो दैवसंयोगात्कुमारमवलोक्य ते । किमस्ति विषविज्ञानमित्यपृच्छंस्तमाकुलाः ॥ ३९६ ॥  
 सोऽपि तज्ज्ञायते किञ्चिन्मयेति प्रत्यभाषत । तद्वचःश्रुतिसन्तुष्टास्ते नयन्ति स्म तं मुदा ॥ ३९७ ॥  
 सोऽपि यक्षमनुस्सृज्य 'फणिमन्त्रविशारदः । अभिमन्त्र्याकरोद्दीतविषवेगां नृपात्मजाम् ॥ ३९८ ॥  
 जाततोषो नृपस्तस्य सत्त्वच्छायादिलक्षणैः । अवश्यं राजवंशोऽयमिति निश्चित्य पुत्रिकाम् ॥ ३९९ ॥  
 भर्धराज्यञ्च पूर्वोक्तं तस्मै वितरति स्म सः । ततः स लोकपालादिकन्यकाभानृभिः समम् ॥ ४०० ॥  
 द्वात्रिंशता चिरं रेमे तद्गुणैरनुरञ्जितः । दिनानि कानिचिरात् स्थित्वा दैवप्रचोदितः ॥ ४०१ ॥  
 कदाचिन्निशि केनापि जनेनानुपलक्षितः । गत्वा गम्युत्तिकाः काश्चित्क्षेमाख्यविषये पुरम् ॥ ४०२ ॥

तक सुखसे रहे । तदनन्तर चंद्राआसे उन्होंने यज्ञसे अपने जानकी इच्छा प्रकट की ॥ ३८७ ॥ उनका अभिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योंको सिद्ध करने वाली है, और इच्छानुसार रूप बना देने वाली है ऐसी एक अंगूठी देकर उस पर्वतसे नीचे उतार दिया और उन्हें किसीसे भी भयकी आशंका नहीं है यह विचार कर वह यक्ष कुछ दूर तो उनके पीछे आया और बादमें पूजा कर चला गया ॥ ३८८-३८९ ॥ कुमार भी वहाँसे कुछ दूर चल कर चन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे । वह नगर चूनासे पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पड़ता था मानों चाँदनीसे सहित ही हो ॥ ३९० ॥ वहाँ के राजाका नाम धनपति था जो कि लोकपालके समान नगरकी रक्षा करता था । उसकी रानीका नाम तिलोत्तमा था और उन दोनोंके पद्मोत्तमा नामकी पुत्री थी ॥ ३९१ ॥ वह कन्या विहार करनेके लिए वनमें गई थी, वहाँ दुष्ट साँपने उसे काट खाया, यह यह देख राजाने अपने नगरमें घोषणा कराई कि जो कोई मणि मन्त्र औषधि आदिके द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या और आधा राज्य दूंगा ॥ ३९२-३९३ ॥ आदित्य नामके मुनिराजने यह बात पहले ही कह रखी थी इसलिए राजाकी यह घोषणा सुनकर साँपके काटनेका दवा करने वाले बहुत से वैद्य, कन्याके लोभसे चिकित्सा करनेके लिए आये परन्तु उस विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सके । तदनन्तर राजाकी आज्ञासे सेवक लोग फिर भी किसी वैद्यको ढूँढ़नेके लिए निकले और इधर-उधर दौड़-धूप करनेवाले उन सेवकोंने भाग्यवश जीवन्धर कुमारको देखा । देखते ही उन्होंने बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि क्या आप विष उतारना जानते हैं ? ३९४-३९६ ॥ जीवन्धर कुमारने भी उत्तर दिया कि हाँ, कुछ जानता हूँ । उनके वचन सुनकर सेवक लोग बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्हें बड़े हर्षसे साथ ले गये ॥ ३९७ ॥ साँप काटनेका मन्त्र जाननेमें निपुण जीवन्धरने भी उस यज्ञका स्मरण किया और मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीको विष-वेगसे रहित कर दिया ॥ ३९८ ॥ इससे राजाको बहुत सन्तोष हुआ उसने तेज तथा कान्ति आदि लक्षणोंसे निश्चय कर लिया कि यह अवश्य ही राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले कहा हुआ आधा राज्य उन्हें समर्पण कर दिया । उस कन्याके लोकपाल आदि बत्तीस भाई थे उनके गुणोंसे अनुरक्षित होकर जीवन्धर कुमार उन्हींके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे । तदनन्तर वहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणासे वे किसीसे कुछ कहे बिना ही रात्रिके समय चुपचाप वहाँसे

क्षेमाङ्गयभवाप्यास्य वने बाह्ये मनोरमे । सहस्रकूटै राजन्तं जिनालयमलोकत ॥ ४०३ ॥  
लोकमानन्तरं नत्वा कृताञ्जलिपुटः पुनः । त्रिःपरीत्य स्तुतिं कर्तुं विधिनारब्धवांस्तदा ॥ ४०४ ॥  
सहस्रैवात्मनो रागं व्यक्तं बहिरिवार्षयन् । चम्पकानोकहः प्रादुरार्षाद्रेको निजोद्गमैः ॥ ४०५ ॥  
कोकिलाश्च पुरा मूकीमृतास्तथानभेषजैः । चिकित्सिता इव श्राव्यमकूजन्मधुरस्वरम् ॥ ४०६ ॥  
तज्जैनभवनाभ्यर्णवतिन्यच्छाम्नुसम्भृते । स्फटिकद्रवपूर्णं वा व्यकसन् सरसि स्फुटम् ॥ ४०७ ॥  
सर्वाणि जलपुष्पाणि सम्भमवभ्रमरारवम् । तद्रोपुरकवाटानामुद्वाटनमभूस्त्वयम् ॥ ४०८ ॥  
तद्विलोक्य समुत्पन्नभक्तिः स्नानविशुद्धिभाक् । तत्सरोवरसम्भूतप्रसवैर्बहुभिर्जिनान् ॥ ४०९ ॥  
अभ्यर्चार्थ्यैर्मुंदाव्यग्रमस्तोष्टैरभिष्टवैः । सुता तत्र सुभद्राख्यश्रेष्ठिनो निर्वृतेश्च सा ॥ ४१० ॥  
साक्षात्क्षमीरिवाक्ष्णानुभूषाम्ना क्षेमसुन्दरी । तज्जावि भर्तृसाक्षिभ्ये चम्पकप्रसवादिक् ॥ ४११ ॥  
समादिशत्पुरा गर्वं मुनीन्द्रो विनयन्धरः । तत्रस्थास्तत्परीक्षार्थं नियुक्तपुरुषास्तदा ॥ ४१२ ॥  
जीवन्धरकुमारावलोकनाज्जातसम्भवाः । सफलोऽस्मन्त्रियोगोऽभृदिति तत्क्षणमेव ते ॥ ४१३ ॥  
न्यबोधयन् समस्तं तत्सम्प्राप्य स्वामिनं निजम् । सोऽपि सन्तुष्य नासत्यं मुनीनां जातुचिद्वचः ॥ ४१४ ॥  
इति तस्मै सुतां योग्यां विधिना श्रीमतेऽदित । तथा प्राङ्मे मुदा राजपुरे निवसते नृपः ॥ ४१५ ॥  
सत्यन्धरोऽददादेतद्धनुरेतान् शरांश्च ते । योग्यांस्तारवं गृहाणेति भूयस्तेनाभिभाषितः ॥ ४१६ ॥  
गृहीत्वा सुष्टु सन्तुष्टस्तत्पुरं सुखमावसत् । एवं गच्छति कालेऽस्य कदाचिन्नियोगिण्य ॥ ४१७ ॥

चल पड़े आर कितने ही कांश चलकर क्षेम देराके क्षेम नामक नगरमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने नगरके बाहर मनोहर वनमें हजार शिखरोंसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा ॥ ३६६-४०३ ॥ जिन-मन्दिरको देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और उसी समय विधिपूर्वक स्तुति करना शुरू कर दिया ॥ ४०४ ॥ उसी समय अकस्मान् एक चम्पाका वृक्ष मानों अपना अनुराग बाहिर प्रकट करता हुआ अपने फूलोंसे युक्त हाँ गया ॥ ४०५ ॥ जो कोकिलाएँ पहले गँगीके समान हो रही थीं वे उन कुमारके शुभागमन रूप औपधिसे चिकित्सा की हुईके समान ठीक होकर सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं ॥ ४०६ ॥ उस जैन-मन्दिरके समीप ही एक सरोवर था जो स्वच्छ जलसे भरा हुआ था और ऐसा जान पड़ता था मानों स्फटिक मणिके द्रवसे ही भरा हाँ । उस सरोवरमें जो कमल थे वे सबके सब एक साथ फूल गये और उनपर भ्रमर मँडराते हुए गुंजार करने लगे । इसके सिवाय उस मन्दिरके द्वारके किन्नाड़ भी अपने आप खुल गये ॥ ४०७-४०८ ॥ यह अतिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति और भी बढ़ गई उन्होंने उसी सरोवरमें स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की और फिर उसी सरोवरमें उत्पन्न हुए बहुतसे फूल लेकर जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की तथा अर्थासे भरे हुए अनेक इष्ट स्तोत्रोंसे निराकुल होकर उनकी स्तुति की । उस नगरमें सुभद्र सेठकी निर्वृति नामकी स्त्रीसे उत्पन्न हुई एक क्षेमसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षान् लक्ष्मीके समान सुशोभित थी । पहले किसी समय विनयन्धर नामके मुनिराजने कहा था कि क्षेमसुन्दरीके पतिके समीप आनेपर चंपाका वृक्ष फूल जायगा, आदि चिह्न बतलाये थे । उसी समय सेठने उसकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये थे ॥ ४०९-४१२ ॥ जीवन्धर कुमारके देखनेसे वे पुरुष बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ । उन लोगोंने उसी समय जाकर यह सब समाचार अपने स्वामीसे निवेदन किया । उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियोंका वचन कभी असत्य नहीं होता ॥ ४१३-४१४ ॥ इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रीमान् जीवन्धर कुमारके लिए विधिपूर्वक अपनी योग्य कन्या समर्पित कर दी । तदनन्तर वही सेठ जीवन्धर कुमारसे कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरने मुझे यह धनुष और ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं इसलिए इन्हें आपही ग्रहण करें—इस प्रकार कहकर वह धनुष और बाण भी दे दिये ॥ ४१५-४१६ ॥ जीवन्धर कुमार धनुष और बाण लेकर

गन्धर्वदत्ता सप्तप्राप्य जीवन्धरकुमारकम् । तं सुखार्सनमालोक्य केनाप्यविदितं पुनः ॥ ४१८ ॥  
 आवाद्वाजपुरं प्रीतिः प्रीतानां हि प्रियोत्सवः । ततः कतिपयैरेव दिनैः प्रागिव तत्पुरान् ॥ ४१९ ॥  
 चापवायधरो गत्वा विषये सुजनाह्वये । हेमाभनगरं प्राप्तः कुमारः पुण्यसाधनः ॥ ४२० ॥  
 तत्पतिर्दृढमित्राख्यो नलिना तस्य वल्लभा । हेमाभाख्या तयोः पुत्री तजन्मन्येव केनचित् ॥ ४२१ ॥  
 कृतः किलैवमादेशो मनोहरवनास्तरे । खलुरिकायां धानुष्कन्यायामे येन चोदितः ॥ ४२२ ॥  
 लक्ष्याभ्यर्णाच्चिह्नतः सन् शरः पश्चात्समेप्यति । वल्लभा तस्य बालेयं भवितेति सुलक्षणा ॥ ४२३ ॥  
 धनुर्विद्याविदः सर्वे तदादेशभ्रुतेस्तदा । तथा गुणयितुं युक्ताः समभूर्वस्तदाशया ॥ ४२४ ॥  
 जीवन्धरकुमारोऽपि तत्प्रदेशमुपागमत् । धानुष्कास्तं विलोक्याहुरादेशोक्तधनुःश्रमः ॥ ४२५ ॥  
 किमज्ञास्तीति सोऽप्याह किञ्चिदस्तीति तैरिदम् । विध्यतां लक्ष्यमिरयुक्तः सञ्जीकृतधनुः शरम् ॥ ४२६ ॥  
 आदाय विद्धवान् लक्ष्यमप्राप्यैव न्यवर्तत । तं तदालोक्य तत्रस्था महीपतिमबोधयन् ॥ ४२७ ॥  
 मृग्यमाणो हि मे वल्लीविशेषश्चरणेऽसजत् । इति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाहविधिना सुताम् ॥ ४२८ ॥  
 अश्रागयद्विभूत्वास्यै तदिदं पुण्यमुच्यते । आदिमो गुणमित्रोऽन्धो बहुमित्रस्ततः परः ॥ ४२९ ॥  
 सुमित्रो धनमित्रोऽन्यस्तथान्ये चास्य मैथुनाः । तान् सर्वान् सर्वविज्ञानकुशलान् विदधश्चिरम् ॥ ४३० ॥  
 तत्र पूर्वकृतं पुण्यं कुमारोऽनुभवन् स्थितः । इतो जीवन्धराभ्यर्णमप्रकाशं सुहृर्मुहुः ॥ ४३१ ॥  
 गत्वा गमनमालोक्य नन्दाख्येन कदाचन । अज्ञाता केनचिथासि क्व विषासुरहश्च तत् ॥ ४३२ ॥  
 वदेति पृष्ठा गन्धर्वदत्ता स्मित्वाब्रवीदिदम् । मया प्राप्यं प्रदेशं चेत्स्वच्छं गन्तुं यदीच्छसि ॥ ४३३ ॥

बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उसी नगरमें सुखसे रहने लगे । इस तरह कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी समय गन्धर्वदत्ता अपनी विद्याके द्वारा जीवन्धर कुमारके पास गई और उन्हें सुखसे बैठा देख, किसीके जाने बिना ही फिरसे राजपुर वापिस आ गई सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका उत्सव ही प्रेमी जनोका प्रेम कहलाता है । तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस नगरसे भी वे पुण्यवान् जीवन्धर कुमार धनुष बाण लेकर चल पड़े और मुजन देशके हेमाभ नगरमें जा पहुँचे ॥ ४१७-४२० ॥ वहाँके राजाका नाम दृढमित्र और रानीका नाम नलिना था । उन दोनोंके एक हेमाभा नामकी पुत्री थी । हेमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-ज्ञानीने कहा था कि मनोहर नामके वनमें जो आयुधशाला है वहाँ धनुषधारियोंके व्यायामके समय जिसके द्वारा चलाया हुआ बाण लक्ष्य स्थानसे लौटकर पीछे वापिस आ जावेगा यह उत्तम लक्षणावाली कन्या उसीकी वल्लभा होगी ॥ ४२१-४२३ ॥ उस आदेशको सुनकर उस समय जो धनुष-विद्याके जाननेवाले थे वे सभी उक्त कन्याकी आशासे उसी प्रकारका अभ्यास करनेमें लग रहे थे ॥ ४२४ ॥ भाग्यवश जीवन्धर कुमार भी उस स्थान पर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि हे भाई ! राजाके आदेशानुसार क्या आपने भी धनुष चलानेमें कुछ परिश्रम किया है ॥ ४२५ ॥ इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने कहा कि हाँ, कुछ है तो । तब उन धनुषधारियोंने कहा कि अच्छा तो यह लक्ष्य बेधो— यहाँ निशाना मारो । इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने तैयार किया हुआ धनुष-बाण लेकर उस लक्ष्यका बेध दिया और उनका वह बाण लक्ष्य प्राप्त करनेके पहले ही लौट आया । यह सब देख, वहाँ जो खड़े हुए थे उन्होंने राजाको खबर दी ॥ ४२६-४२७ ॥ राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको ढूँढ़ रहा था वह स्वयं आकर पैरोंमें लग गई । तदनन्तर उसने विवाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभवसे वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी । आचार्य कहते हैं कि देखो, पुण्य यह कहलाता है । गुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र तथा और भी कितने ही जीवन्धर कुमारके साले थे उन सबको वे समस्त विद्याओंमें निपुण बनाते तथा पूर्वकृत पुण्यका उपभोग करते हुए वहाँ चिरकाल तक रहे आये । इधर गन्धर्वदत्ता बार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारके पास आती जाती थी उसे देख एक समय नन्दाख्यने पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ । इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने हँसकर कहा कि जहाँ मैं जाता करती हूँ उस

देवताधिष्ठिता नाम्ना शय्या स्मरतरङ्गिणी । तत्राग्रजं तव स्मृत्वा स्वप्यास्त्वं विधिपूर्वकम् ॥ ४३४ ॥  
 तथा प्राप्नोषि सन्तोषात्समीपमिति स्फुटम् । तदुक्तमवधार्यासौ रात्रौ तच्छयनेऽस्वपत् ॥ ४३५ ॥  
 तं तदा भोगिनीविद्या शय्ययानयदग्रजम् । तदा कुमारनन्दाह्वौ मुदा वीक्ष्य परस्परम् ॥ ४३६ ॥  
 समाश्लिष्य सुखप्रभपूर्वकं तत्र तस्थतुः । नाधिकं प्रीलयेऽत्रान्यप्रीतसोदर्यसङ्गमात् ॥ ४३७ ॥  
 राष्ट्रेऽस्मिन्नेव विख्याते सुजनेऽस्ति परं पुरम् । नाम्ना नगरशोभाख्यं दृढमित्रस्य भूपतेः ॥ ४३८ ॥  
 आता तस्य सुमित्राख्यो राज्ञी तस्य वसुन्धरा । रूपविज्ञानसम्पन्ना श्रीचन्द्रा तनया तयोः ॥ ४३९ ॥  
 आपूर्णयौवनारम्भा सा कदाचिद्गृहाङ्गणे । वीक्ष्य पाराव्रतद्वन्द्वं स्वैरं क्रीडयदृच्छया ॥ ४४० ॥  
 जातजातिस्मृतिर्भूत्वा सहसा समुपागमत् । तद्दशालोकनव्याकुलीकृतास्तत्समीपगाः ॥ ४४१ ॥  
 कुशलाश्चन्दनोशीरशीतलाभोनिषेचिताम् । व्यजनापादिताह्लादिपवनाश्रसिताशयाम् ॥ ४४२ ॥  
 तां सम्बोध्य सुखलापैर्विभावितविबोधनाम् । विदधुः किं न कुर्वन्ति कृच्छ्रेषु सुहृदो हिताः ॥ ४४३ ॥  
 श्रुत्वात्पितरौ कन्याप्रियामलकमुन्दरीम् । पुत्रीं तिलकशब्दादिचन्द्रिकाया विमूर्च्छिताम् ॥ ४४४ ॥  
 कन्यां गवेषयेत्वेति तदा जगदतुः शुचा । सापि सम्प्राप्य सल्लापनिपुणा कन्यकां मिथः ॥ ४४५ ॥  
 भट्टारिके वदन्तौ किं मूर्च्छाकारणं मम । इति पृष्ठवती मूर्च्छाहेतुं चेच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ४४६ ॥  
 न ह्यस्यकथनीयं मे तव प्राणाधिकप्रिये । शृणु चेतः समाधायैत्यसौ सम्यगनुस्मृतिः ॥ ४४७ ॥  
 स्वपूर्वभवसम्बन्धमशेषं प्रत्यपीपदत् । तत्सर्वमवधार्याशु सुधीरलकमुन्दरी ॥ ४४८ ॥  
 तदैवागत्य तन्मूर्च्छाकारणं प्राग्यथाश्रुतम् । प्रस्पष्टमधुरालापैस्तथोरेवमभाषत् ॥ ४४९ ॥

स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे अधिष्ठित स्मरतरङ्गिणी नामक शय्यापर अपने बड़े भाईका स्मरण कर विधि-पूर्वक सो जाना । इस प्रकार संतोषपूर्वक तू उनके पास पहुँच जायगा । गन्धर्वदत्ताकी बातका निश्चय कर नन्दाह्वय रात्रिके समय स्मरतरङ्गिणी शय्यापर सो गया और भोगिनी नामकी विद्याने उसे शय्या सहित बड़े भाईके पास भेज दिया । तदनन्तर जीवन्धर कुमार और नन्दाह्वय दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले और सुख-समाचार पूछकर वहीं रहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो भाइयोंके समागमसे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाली नहीं है ॥ ४२८-४३७ ॥

अथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमें दृढमित्र राजा राज्य करता था । उसके भाईका नाम सुमित्र था । सुमित्रकी स्त्रीका नाम वसुन्धरा था और उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ॥ ४३८-४३९ ॥ जिसके यौवनका आरम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने भवनके आँगनमें इच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए कबूतर और कबूतरीका जोड़ा देखा ॥ ४४० ॥ देखते ही उसे जातिस्मरण हुआ और वह अकस्मात् ही मूर्च्छित हो गई । उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियाँ घबड़ा गई, उनमें जो कुशल थी उन्होंने चन्दन तथा खमके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पङ्कासे उत्पन्न हुई आनन्ददायी हवासे उसके हृदयको सन्तोष पहुंचाया और मीठे वचनोंसे सम्बोधक उसे सचेत किया सो ठीक ही है क्योंकि हितकारी मित्रगण कष्टके समय क्या नहीं करते हैं ? अर्थात् सब कुछ करते हैं ॥ ४४१-४४३ ॥ यह समाचार सुनकर उसके माता-पिताने तिलकचन्द्राकी पुत्री और श्रीचन्द्राकी सखी अलकमुन्दरीसे शोकवशा कहा कि तू जाकर कन्याकी मूर्च्छाका कारण तलाश कर । माता-पिताकी बात सुनकर बातचीत करनेमें निपुण अलकमुन्दरी भी श्रीचन्द्राके पास गई और एकान्तमें पूछने लगी कि हे भट्टारिके ! मुझे बतला कि तेरी मूर्च्छाका कारण क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी सखि ! यदि तू मेरी मूर्च्छाका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है जो तुझसे कहने योग्य न हो । इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूर्वभवका समस्त सम्बन्ध अलकमुन्दरीको कह सुनाया । अलकमुन्दरी बड़ी बुद्धिमती थी वह शीघ्र ही सब बातको अच्छी तरह समझकर उसी समय श्रीचन्द्राके माता-पिताके पास गई और स्पष्ट तथा मधुर शब्दोंमें उसकी मूर्च्छाका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी ॥ ४४४-४४९ ॥

इतस्तृतीये कन्यैषा बभूव किल जन्मनि । देशे हेमाङ्गदे राजपुरे वैश्यकुलाग्रणीः ॥ ४५० ॥  
 रत्नतेजाः प्रिया तस्य रत्नमाला तयोः सुता । सुरूपानुपमा नाम्ना नाम्नैव न गुणैरपि ॥ ४५१ ॥  
 तस्मिन्नेव पुरे वंशे विशां कनकतेजसः । तनूजश्चन्द्रमालायामभवद्दुविधो विधीः ॥ ४५२ ॥  
 सुवर्णतेजा नाम्नाभूयास्मै प्राक्परिभाषिताम् । पुनस्तदवमानेन तन्मातापितरौ किल ॥ ४५३ ॥  
 समभ्राणयतां वैश्यपुत्राय मणिकारिणे । गुणमित्राय तत्रेयं स्तोत्रं कालमगात्सुखम् ॥ ४५४ ॥  
 कदाचिज्जलयात्रायामम्भोनिधिनदीमुखात् । निर्गमे विषमावर्ते गुणमित्रे मृतिङ्गते ॥ ४५५ ॥  
 स्वयं चैत्वा प्रदेशं तं मृत्युमेषा समाश्रयत् । ततो राजपुरे गन्धोत्कटवैश्यसुधालये ॥ ४५६ ॥  
 पतिः पवनवेगाख्यो रतिवेगेयमप्यभूत् । पारावतकुले द्वन्द्वं तद्बालाक्षरशिक्षणे ॥ ४५७ ॥  
 स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः भावकश्च तम् । तयोर्दृष्ट्वा प्रशान्तोपयोगं जन्मान्तरागतात् ॥ ४५८ ॥  
 स्नेहादन्वोन्मत्तसंस्कृतं सुखं तत्रावसच्चिरम् । सुवर्णतेजान्तद्वन्द्वैरेव पुरुदशताम् ॥ ४५९ ॥  
 मृत्वा सम्प्राप्य तद्द्वन्द्वं दृष्ट्वा कापि यदृच्छया । भ्रमहीदृतिवेगाख्यां<sup>१</sup> राहुर्मृतिमिवैन्दवीम् ॥ ४६० ॥  
 जातकोपः कपोतोऽमुं नखपक्षप्रताडनैः । तुण्डघातैश्च<sup>२</sup> हत्वाशु निजभामाममुमुचत् ॥ ४६१ ॥  
 कदाचिरात्पुरे<sup>३</sup> प्रत्यासन्नभूध्रबिलान्तरे । पाशे विरचिते पापैः कपोते पतिते सति ॥ ४६२ ॥  
 स्वयं गृहं समागत्य रतिवेगात्मनो मृतिम् । पत्युस्तुण्डेन संल्लिख्य<sup>४</sup> तत्सर्वावबोधयत् ॥ ४६३ ॥  
 तद्वियोगमहादुःखपीडिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयमभीष्टा भवतोः सुता ॥ ४६४ ॥

इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी बात है तब इसी हेमाङ्गद देशके राजपुर नगरमें वैश्य-कुल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम रत्नमाला था। यह कन्या उन दोनोंकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी। अनुपमा केवल नामसे ही अनुपमा नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी अनुपमा (उपमा रहित) थी। उसी नगरमें वैश्यवंशमें उत्पन्न हुए कनक-तेजकी स्त्री चन्द्रमालासे उत्पन्न हुआ सुवर्णतेज नामका एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिहीन और भाग्यहीन था। अनुपमाके माना-पिताने पहले इसी सुवर्णतेजको देनी कही थी परन्तु पीछे उसे दरिद्र और मूर्खताके कारण अपमानितकर जवाहरातका काम जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी दूसरे वैश्य-पुत्रके लिए दे दी। अनुपमा उसके पास कुछ समय तक सुखसे रही ॥ ४५०-४५४ ॥ किसी एक समय गुणमित्र जलयात्राके लिए गया था अर्थात् जहाजमें बैठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नदीके मुँहानेसे जब निकल रहा था तब किसी बड़ी भँवरमें पड़कर मर गया। उसकी स्त्री अनुपमाने जब यह खबर सुनी तब यह भी स्वयं उस स्थानपर जाकर डूब मरी। तदनन्तर उसी राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुणमित्रका जीव पवनवेग नामका कबूतर हुआ और अनुपमा रतिवेगा नामकी कबूतरी हुई। गन्धोत्कटके घर उसके बालक अक्षराभ्यास करते थे उन्हें देखकर उन दोनों कबूतर-कबूतरीने भी अक्षर लिखना सीख लिया था। गन्धोत्कट और उसकी स्त्री, दोनों ही श्वाकके व्रत पालन करते थे इसलिए उन्हें देखकर कबूतर-कबूतरीका भी उपयोग अत्यन्त शान्त हो गया था। इस प्रकार जन्मान्तरसे आये हुए स्नेहसे वे दोनों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय तक सुखसे रहे आये। सुवर्णतेजको अनुपमा नहीं मिली थी इसलिए वह गुणमित्र और अनुपमासे बैर बाँधकर मरा तथा मरकर बिलाव हुआ। एक दिन वह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा था उसे देखकर उस बिलावने रतिवेगा नामकी कबूतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कि राहु चन्द्रमाके बिम्बको ग्रस लेता है ॥ ४५५-४६० ॥ यह देख कबूतरको बड़ा क्रोध आया, उसने नख और पङ्खोंकी ताड़नासे तथा चोंचके आघातसे बिलावको मारकर अपनी स्त्री छुड़ा ली ॥ ४६१ ॥ किसी एक समय उसी नगरके समीपवर्ती पहाड़की गुफाके समीप पापी लोगोंने एक जाल बनाया था, पवनवेग कबूतर उसमें फँसकर मर गया तब रतिवेगा कबूतरीने स्वयं घर आकर और चोंचसे लिखकर सब लोगोंको अपने पतिके मरनेकी खबर समझा दी ॥ ४६२-४६३ ॥ तदनन्तर उसके वियोगरूपी भारी दुःखसे पीड़ित होकर वह कबूतरी भी मर गई और यह आप दोनोंकी

अत्र पारावतद्वन्द्वं वीक्ष्य जमान्तरस्मृतेः । 'भ्रममुद्धन् नियमेनैतद्दृष्य' सर्वं ममावधीत् ॥ ४६५ ॥  
 'इत्यतोऽलकमुन्दर्या' वचः भ्रुत्वाकुलाकुलौ । सुता पतिसम्बन्धेणोच्छ्रया पितरौ तदा ॥ ४६६ ॥  
 तद्भवान्तरघृत्तान्धं पङ्के लिखितं स्फुटम् । रङ्गतेजोभिधानस्य नटवर्गं पटीयसः ॥ ४६७ ॥  
 मदनादिललायाश्च दानसन्मानपूर्वकम् । तत्कर्तव्यं समाख्याय यत्नेनाकुस्तां करे ॥ ४६८ ॥  
 पुष्पकाक्ष्ये वने तौ च कृतपट्टप्रसारणौ । स्वयं नटितुमारब्धौ नानाजनसमाकुलम् ॥ ४६९ ॥  
 पितास्यास्तद्वने रन्तुं गतस्तत्र मुनीश्वरम् । समाधिगुप्तमालोक्य परीत्य कृतवन्दनः ॥ ४७० ॥  
 धर्मसद्भावमाकर्ण्य पप्रच्छ तदनन्तरम् । पूज्य मत्पुत्रिकापूर्वभवभर्ता क्व वर्तते ॥ ४७१ ॥  
 कथ्यतामिति दिव्यावधीक्षणः सोऽप्यथावदत् । स हेमाभपुरे वैश्यतनयोऽद्यास्यौवनः ॥ ४७२ ॥  
 इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं तदैव स महीपतिः । सनटः ससुहृत्सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४७३ ॥  
 गत्वा तत्र मनोहारि नृत्तं चित्रमयोजयत् । नागरैः सह नन्दाढ्यो नृत्तमालोकितुं गतः ॥ ४७४ ॥  
 जन्मान्तरस्मृतेर्भ्रुत्वा सहसा सावपद्यत । शीतक्रियाविशेषापनीतमूर्च्छं तद्गजः ॥ ४७५ ॥  
 जीवन्धरोऽवदन्मूर्च्छांकारणं कथयेति तम् । पट्टकालिखितं सर्वमभिधायाम्बुधादिदम् ॥ ४७६ ॥  
 सोऽप्यद्य तव सोऽद्योऽजनिषीत्यग्रजं प्रति । तुष्ट्वासौ च विवाहार्थं प्रागारब्ध महामहम् ॥ ४७७ ॥  
 इदं प्रकृतमप्रान्यच्छ्रयतां समुपस्थितम् । किराताधीश्वरो नामा विश्रुतो हरिविक्रमः ॥ ४७८ ॥  
 सदायादभयाद्गत्वा कपित्थाख्यवनेऽकरोत् । दिशागिरौ पुरं तस्य वनादिगिरिसुन्दरी ॥ ४७९ ॥  
 प्रिया तुग्वनराजोऽस्याप्यजायत वनेशिनः । वटवृक्षाद्भयो मृत्युश्चित्रसेनः ससैन्धवः ॥ ४८० ॥

प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हुई ॥ ४६४ ॥ आज कबूतरोंका युगल देखकर पूर्वभवका स्मरण हो आनेसे ही यह मूर्च्छित हुई थी, यह सब बात इसने मुझे साफ-साफ बतलाई है ॥ ४६५ ॥ इस प्रकार अलकमुन्दरीके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छासे बहुत ही व्याकुल हुए ॥ ४६६ ॥ उन्होंने अपनी पुत्रीके पूर्वभवका वृत्तान्त एक पटियेपर साफ-साफ लिखवाया और नटोंमें श्रत्यन्त चतुर रङ्गतेज नामका नट तथा उसकी स्त्री मदनलताको बुलाया, दान देकर उनका योग्य सन्मान किया, करने योग्य कार्य सभझाया और 'यद्यसे यह कार्य करना' ऐसा कहकर वह चित्रपट उनके हाथमें दे दिया ॥ ४६७-४६८ ॥ वे नट और नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पक वनमें गये और उसे वहीं फैलाकर सब लोगोंके सामने नृत्य करने लगे ॥ ४६९ ॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी उसी वनमें क्रीड़ा करनेके लिए गया था वहाँ उसने समाधिगुप्त मुनिराजको देखकर प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर पूछा कि हे पूज्य ! मेरी पुत्रीका पूर्वभवका पति कहाँ है ? सो कहिये । मुनिराज अबधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कहने लगे कि वह आज हेमाभनगरमें है तथा पूर्ण यौवनको प्राप्त है ॥ ४७०-४७२ ॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर वह राजा नट, मित्र तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेमाभनगर पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उसने मनको हरण करनेवाले एक आश्चर्यकारी नृत्यका आयोजन किया । उस नृत्यको देखनेके लिए नगरके अन्य लोगोंके साथ नन्दाढ्य भी गया था ॥ ४७३-४७४ ॥ परन्तु वह जन्मान्तरका स्मरण हो आनेसे सहसा मूर्च्छित होगया । तदनन्तर विशेष-विशेष शीतलोपचार करनेसे जब उसकी मूर्च्छा दूर हुई तब बड़े भाई जीवन्धर कुमारने उससे कहा कि मूर्च्छा आनेका कारण बतला । इसके उत्तरमें नन्दाढ्यने चित्रका सब हाल कहकर जीवन्धरसे कहा कि वही गुणमित्रका जीव आज मैं तेरा छोटा भाई हुआ हूँ । यह सुनकर जीवन्धर कुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुए और विवाहके लिए पहलेसे ही महामह पूजा प्रारम्भ करने लगे ॥ ४७५-४७७ ॥ इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुनो । हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भीलोंका राजा था । उसने भाई, बन्धुओंसे ढरकर कपित्थ नामक वनमें दिशागिरि नामक पर्वतपर वनगिरि नामक नगर बसाया था । उस वनके स्वामी भीलके सुन्दरी नामकी स्त्री थी और वनराज नामका पुत्र था । वटवृक्ष, मृत्यु, चित्रसेन,

अरिजयाङ्गयः शत्रुमर्दनोऽतिबलोऽप्यमी । श्रुत्वास्तस्यात्मजस्यापि लोहजङ्घः सखापरः ॥ ४८१ ॥  
 श्रीषेणश्चान्यदा गत्वा पुरं तौ तद्वनान्तरे । रमणां समाकोष्य श्रीचन्द्रां चन्द्रकोपमाम् ॥ ४८२ ॥  
 प्रशस्य यान्तौ वीक्ष्यान्तु पातुं वातं सुरङ्गमम् । रक्षकाभिभवाप्तीत्वा दत्त्वास्मै तोषमापतुः ॥ ४८३ ॥  
 हरिविक्रमतः पश्चात्तावभ्येत्ये हितैषिणौ । मिथो वनेचरेशात्मजस्यान्यायानुसारिणः ॥ ४८४ ॥  
 वनराजस्य तत्कान्तिरूपकान्त्यादिसम्पदम् । सम्यग्वर्णयतः स्मैतच्छ्रुत्वा तदभिलाषिणौ ॥ ४८५ ॥  
 सुवर्णतेजसा प्रीतिमताभ्यां पूर्वजन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥ ४८६ ॥  
 प्रेषितावनु तेनेत्वा महाभटपरिष्कृतौ । तत्कन्याशयनागारं ज्ञात्वा कृतसुरङ्गकौ ॥ ४८७ ॥  
 निष्कृष्य कन्यां श्रीषेणलोहजङ्घौ सपौरुषौ । गतौ कन्यां गृहीत्वेति तस्मिन्लिखितपत्रकम् ॥ ४८८ ॥  
 सुरङ्गे समवस्थाप्य वनराजस्य सन्निधिम् । रजन्यां सेन्दुरेलौ वा प्रस्थितौ मन्दभूमिजौ ॥ ४८९ ॥  
 भादित्पोद्गमवेलायां विदित्वा लेखवाचनात् । कन्यापहरणं तस्या भ्रातरौ नृपचोदितौ ॥ ४९० ॥  
 अनुसृत्य द्रुतं ताभ्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मित्रान्तकिञ्चरं यक्षमित्रं चाकुलिताशया ॥ ४९१ ॥  
 श्रीचन्द्राहं न भोक्ष्येऽस्मन्नगरास्मज्जिनालयम् । अदृष्ट्वा किञ्चिदप्यस्मिन्निति मौनं समादधे ॥ ४९२ ॥  
 सखायौ वनराजस्य विनिजित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमित्राय ददतुः प्राप्तसम्मदौ ॥ ४९३ ॥  
 सुविरक्तो वनेशोऽसौ प्रत्यात्मानं विबुध्य ताम् । प्रौढास्तद्योजनोपाये स्वाः समाहूय दूतिकाः ॥ ४९४ ॥  
 कुरुते मां मयि प्रीतामुपायैरित्यभाषत । ताश्च तत्प्रेषणं कृत्वा श्रीचन्द्राभ्याशमागताः ॥ ४९५ ॥

सैन्धव, अरिजय, शत्रुमर्दन और अतिवल ये उस भीलके सेवक थे । लोहजङ्घ और श्रीषेण ये दोनों उसके पुत्र वनराजके मित्र थे । किसी एक दिन लोहजङ्घ और श्रीषेण दोनों ही हेमाभनगरमें गये । वहाँके वनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी । उसे देखकर उन दोनोंने उसकी प्रशंसा की । वहाँपर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोंने उस घोड़ेके रत्नकका तिरस्कार कर वह घोड़ा छीन लिया और ले जाकर हरिविक्रम भीलको देकर उसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर हितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर अन्याय मार्गका अनुसरण करनेवाले उसके पुत्र वनराजके समीप गये और श्रीचन्द्राके रूप कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह वर्णन करने लगे । यह सुनकर वनराजकी उसमें अभिलाषा जागृत हो गई । वनराज पूर्वभवमें सुवर्णतेज था और श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी । उस समय सुवर्णतेज अनुपमाको चाहता था परन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी । उसी अनुरागसे उसने अपने दोनों मित्रोंसे कहा कि किसी भी उपायसे उसे मेरे पास लाओ ॥ ४८८-४८९ ॥ कहा ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाओंके साथ उन दोनों मित्रोंको भेज भी दिया । दोनों मित्रोंने हेमाभ नगरमें जाकर सबसे पहले कन्याके सोनेके धरका पता लगाया और फिर सुरङ्ग लगाकर कन्याके पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन दोनोंने इस आशयका एक पत्र लिखकर सुरङ्गमें रख दिया कि पुरुषार्थी श्रीषेण तथा लोहजङ्घ कन्याको लेकर गये हैं और जिस प्रकार रात्रिके समय चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि और मङ्गल जाते हैं उसी प्रकार हम दोनों कन्याको लेकर वनराजके समीप जाते हैं । यह पत्र तो उन्होंने सुरङ्गमें रक्खा और श्रीचन्द्राको लेकर चल दिये । दूसरे दिन सूर्योदयके समय उक्त पत्र बाँचनेसे कन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने कन्याके दोनों भाइयोंको उसे वापिस लानेके लिए प्रेरित किया । दोनों भाई शीघ्र ही गये और उनके साथ युद्ध करने लगे । अपने भाई किन्नरमित्र और यक्षमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्रा को बहुत दुःख हुआ इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिनालयके दर्शन नहीं कर लूँगी तब तक कुछ भी नहीं खाऊँगी । ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मौन धारण कर लिया ॥ ४८७-४८९ ॥ इधर वनराजके मित्र श्रीषेण और लोहजङ्घने युद्धमें राजाके पुत्रोंको हरा दिया और बहुत ही प्रसन्न होकर वह कन्या वनराजके लिए सौंप दी ॥ ४९३ ॥ जब वनराजने देखा कि श्रीचन्द्रा मुझसे विरक्त है तब उसने उसके साथ मिलानेवाले उपाय करनेमें चतुर अपनी



सामभेदविधानज्ञाः प्रवेष्टुं हृदयं शनैः । किमेवं तिष्ठसि ज्ञाहि परिचत्सव विभूषणैः ॥ ४९६ ॥  
 अलङ्कुरु राज्ञं धेहि सुंक्ष्वाहारं मनोहरम् । ब्रूहि विस्त्रब्धमस्माभिः श्रीचन्द्रे सुखसङ्ग्रहाम् ॥ ४९७ ॥  
 मनुष्यजन्म सम्प्राप्तं दुःखेनानेकयोनिषु । दुर्लभं भोगवैमुख्यादेतन्मानीनशो वृथा ॥ ४९८ ॥  
 वनराजात्परो नास्ति बरो रूपादिभिर्गुणैः । लोकेऽस्मिन्लोचने सम्यक्तबोम्भीक्ष्य न पश्यसि ॥ ४९९ ॥  
 लक्ष्मीरिवादिचक्षेः भूषेवाभरणद्रुमम् । सम्पूर्णैन्दुमिव ज्योत्स्ना वनराजमुपाश्रय ॥ ५०० ॥  
 प्राप्य चूडामणिं मूढः को नामात्रावमन्यते । इत्यन्यैश्च भयप्रायैर्वचनैरकथयन् ॥ ५०१ ॥  
 तद्बुपद्रवमाकर्ण्य प्रच्छन्नैर्हरिविक्रमः । विपयिनिग्रहेणासां कन्यायाः प्रतिपत्स्यते ॥ ५०२ ॥  
 कदाचिदिति सञ्चिन्त्य निर्भर्त्स्य वनराजकम् । तस्या निजतनुजाभिः सहवासां चकार सः ॥ ५०३ ॥  
 दृढमित्रादयः सर्वे तदा सम्प्राप्य बान्धवाः । सञ्चद्वबलसम्पन्नास्तस्थुरावेष्ट्य तत्पुरम् ॥ ५०४ ॥  
 युयुत्सवो विपक्षाश्च जीवन्धरकुमारकः । तद्दृष्ट्वा स्पष्टकारुण्यो युद्धं बहुजनान्तकृत् ॥ ५०५ ॥  
 किमनेनेति यक्षेः स्वं सुदर्शनमस्मरत् । अनुस्मरणमात्रेण यक्षोप्यानीय कन्यकाम् ॥ ५०६ ॥  
 कुमारायार्पयामास कस्याप्यकृतपीडनम् । संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः ॥ ५०७ ॥  
 ते सर्वे सिद्धसाध्वत्वाद्युद्धं संहार्यं सम्मुखम् । नगरस्यागमन्नेतान्ध्वसौ वनराजकः ॥ ५०८ ॥  
 युयुत्सवा ययौ वीक्ष्य तं यक्षो दुष्टचेतसम् । परिगृह्य हठात्सद्यः कुमाराय समर्पयत् ॥ ५०९ ॥  
 वन्दीकृत्य कुमारोऽपि वनराजं निविष्टवान् । ससेनः सरसि श्रीमान्सेनारम्याभिधानके ॥ ५१० ॥

दूतियों बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुझपर प्रसन्न करो । वनराजकी प्रेरणा पाकर वे दूतियों श्रीचन्द्राके पास गईं और साम-भेद आदि अनेक विधानोंको जाननेवाली वे दूतियों धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि 'हे श्री चन्द्रे ! तू इस तरह क्यों बैठी है ? स्नान कर, कपड़े पहिन, आभूषणोंसे अलंकार कर, माला धारण कर, मनोहर भोजन कर और हम लोगोंके साथ विश्वास पूर्वक सुखकी कथाएँ कह ॥ ४९४-४९७ ॥ अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करते-करते यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे भोगोपभोगकी विमुखतासे व्यर्थ ही नष्ट मत कर ॥ ४९८ ॥ इस संसारमें रूप आदि गुणोंकी अपेक्षा वनराजसे बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं देखती है ? ॥ ४९९ ॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीके साथ लक्ष्मी रहती थी, आभूषण जातिके वृद्धोंके समीप शोभा रहती है और पूर्ण चन्द्रमाके साथ चाँदनी रहती है उसी प्रकार तू वनराजके समीप रह । चूडामणि रत्नको पाकर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसका तिरस्कार करता हो, इस प्रकारके तथा भय देनेवाले और भी वचनोंसे उन दूतियोंने श्रीचन्द्राको बहुत तङ्ग किया ॥ ५००-५०१ ॥ वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका यह उपद्रव सुनकर विचार किया कि ये दूतियों इसे तंग करती हैं इसलिए संभव है कि कदाचित् यह कन्या आत्मघात कर ले इसलिए उसने वनराजको डाँटकर वह कन्या अपनी पुत्रियोंके साथ रख ली ॥ ५०२-५०३ ॥ इधर दृढमित्र आदि सब भाई-बन्धुओंने मिलकर सेना तैयार कर ली और उस सेनाके द्वारा वनराजका नगर घेरकर सब आ डटे ॥ ५०४ ॥ उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध करनेकी इच्छासे बाहर निकले । यह देख दयालु जीवन्धर कुमारने विचार किया कि युद्ध अनेक जीवोंका विधात करनेवाला है इसलिए इससे क्या लाभ होगा ? ऐसा विचार कर उन्होंने उसी समय अपने सुदर्शन यज्ञका स्मरण किया । स्मरण करते ही यक्षने किसीको कुछ पीड़ा पहुँचाये बिना ही वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए सौंप दी सां ठीक ही है क्योंकि पापसे डरनेवाले पुरुष योग्य उपायसे ही कार्य सिद्ध करते हैं ॥ ५०५-५०७ ॥ दृढमित्र आदि सभी लोग कार्य सिद्ध हो जानेसे युद्ध बन्द कर नगरकी ओर चले गये परन्तु वनराज युद्धकी इच्छासे वापिस नहीं गया । यह देख, यक्षने उसे दुष्ट अभिप्रायवाला समझकर जबर्दस्ती पकड़ लिया और जीवन्धर कुमारको सौंप दिया । श्रीमान जीवन्धर कुमार भी वनराजको कैदकर सेनाके साथ सेनारम्य नामके सरोवरके किनारे ठहर

तत्रैकं चारणं वीक्ष्य सहसा महसां निधिम् । भिक्षाहेतोरेति प्राप्तमभ्युत्थाय यथोचितम् ॥ ५११ ॥  
 कृताभिवन्दनो योग्यं भक्तिकोऽदात्सुभोजनम् । तद्दानावजितायोऽपमयादाक्षर्यपञ्चकम् ॥ ५१२ ॥  
 तद्दानफलमालोक्ष्य वनराजः स्वजन्मनः । सम्बन्धं यद्यथावृत्तं स तत्सर्वमवागमत् ॥ ५१३ ॥  
 बलेन महता बोद्धुं हरिविक्रममागतम् । यक्षस्तत्र समावाप कुमारस्य करेऽकरोत् ॥ ५१४ ॥  
 वनराजस्तदाहोषं सर्वेषामित्यथाब्रवीत् । जन्मनीतस्तृतीयेहं बभूव वणिजां सुतः ॥ ५१५ ॥  
 सुवर्णतेजास्तस्माच्च श्रुत्वा मार्जारं तागतः । कपोतीं प्राग्भवे कन्यामिमां हन्तुं समुद्यतः ॥ ५१६ ॥  
 केनचिन्मुनिनाधीतचतुर्गतिगतश्रुतेः । मुक्तबैरोऽत्र भूत्वैतस्नेहादेनामनीनयम् ॥ ५१७ ॥  
 तदुक्तं ते समाकर्ण्य नार्यं कन्यामनीनयत् । दर्पेण किन्तु सन्ध्रीत्ये त्यवधार्यं क्षमङ्गता ॥ ५१८ ॥  
 पितरं वनराजस्य तत्र निष्ठुं कबन्धनम् । कत्वा विसर्जयाञ्चक्रुर्धार्मिकत्वं हि तत्सताम् ॥ ५१९ ॥  
 ततो राज्ञः पुरं गत्वा स्थित्वा द्वित्रिदिनानि ते । गत्वा नगरशोभाक्ये श्रीचन्द्रां बन्धभागिनीम् ॥ ५२० ॥  
 नन्दाक्षय्य वदुर्भूरिभृत्या यूने धनेशिने । एवं विवाहनिर्घृत्तौ हेमाभं बन्धुभिः समम् ॥ ५२१ ॥  
 पुरं प्रत्यागमे सत्यन्धरसूनुं निवेश्य तम् । कस्यचित्सरसस्तारे तन्वानेतुं जलं गताः ॥ ५२२ ॥  
 परिवारजना दृष्ट्वा दुष्टैर्गन्धिलमाक्षिकैः । तन्नयाद्बोधयन्ति स्म जीवन्धरकुमारकम् ॥ ५२३ ॥  
 तदाकर्ण्य विचिन्त्यैतत्कुमारोऽपि सविस्मयः । हेनुरस्यत्र कोऽपीति तज्ज्ञातुं यक्षमस्मरत् ॥ ५२४ ॥  
 सोऽपि सन्निहितस्तत्र विद्यां विध्वंस्य खेचरीम् । तं खेचरं कुमारस्य पुरस्तादकरोद्द्रुतम् ॥ ५२५ ॥

गये ॥५०८-५१०॥ वहीं उन्होंने तेजके निधि स्वरूप एक चारण मुनिराजके अकस्मान् दर्शन किये। वे मुनिराज भिक्षाके लिए आ रहे थे इसलिए जीवन्धर कुमारने उठकर उन्हें योग्य रीतिसे नमस्कार किया और बड़ी भक्तिसे यथायोग्य उन्नम आहार दिया। इस दानके फलसे उन्हें भारी पुण्यबन्ध हुआ और उसीसे उन्होंने पञ्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ५११-५१२ ॥ उस दानका फल देखकर वनराजको अपने पूर्व जन्मका सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥ ५१३ ॥ उधर हरिविक्रम अपने पुत्र वनराजको कैद हुआ सुनकर बड़ी भारी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ रहा था सां यक्षने उसे भी पकड़कर जीवन्धर कुमारके हाथमें दे दिया ॥ ५१४ ॥ तदनन्तर वनराजने सबके सामने अपना समस्त वृत्तान्त इस प्रकार निवेदन किया कि 'मैं इस जन्मसे तीसरे जन्ममें सुवर्णतेज नामका वैश्य-पुत्र था। वहाँसे मरकर विलाव हुआ। उस समय इस श्रीचन्द्राका जीव कवृत्तरी था इसलिए इसे मारनेका मैंने उद्यम किया था। किसी समय एक मुनिराज चारों गतियोंके भ्रमणका पाठ कर रहे थे उसे सुनकर मैंने सब वैर छोड़ दिया और मरकर यह वनराज हुआ हूँ। पूर्व भवके स्नेहसे ही मैंने इस श्रीचन्द्राका हरण किया था' ॥ ५१५-५१७ ॥ वनराजका कहा सुनकर सब लोगोंने निश्चय किया कि इसने अहंकारसे कन्याका अपहरण नहीं किया है किन्तु पूर्वभवके स्नेहसे किया है ऐसा सोचकर सब शान्त रह गये ॥ ५१८ ॥ और वनराज तथा उसके पिताको बन्धनरहित कर छोड़ दिया सां ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका धार्मिकपना यही है ॥ ५१९ ॥ इसके बाद वे सब लोग राजाके नगर (हेमाभनगर) में गये वहाँ दो तीन दिन ठहरकर फिर नगरशोभा नामक नगरमें गये। वहाँ कल्याण-रूप भाग्यको धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी विभूतिके साथ धनके स्वामी युवक नन्दाक्ष्यको प्रदान की। इस प्रकार विवाहकी विधि समाप्त होनेपर भाई-बन्धुओंके साथ फिर सब लोग हेमाभनगरको लौटे। मार्गमें किसी सरोवरके किनारे ठहरें। वहाँपर परिवारके लोग जीवन्धर कुमारको वैठाकर उस सरोवरमें जल लेनेके लिए गये। वहाँ जाते ही मधु-मक्खियोंने उन लोगोंको काट खाया तब उन लोगोंने उनके भयसे लौटकर इसकी खबर जीवन्धर कुमारको दी। यह सुनकर तथा विचारकर जीवन्धर कुमार आश्चर्यमें पड़ गये और कहने लगे कि इसमें कुछ कारण अवश्य है ? कारणका पता चलानेके लिए उन्होंने उसी समय यज्ञका स्मरण किया ॥ ५२०-५२४ ॥ यज्ञ शीघ्र ही आ गया और उसने उसकी सब खेचरी विद्या नष्ट कर शीघ्र ही उस विद्याधरको जीवन्धर कुमारके आगे

इदं सरस्वत्या केन रक्ष्यते हेतुनेति सः । परिपृष्टः कुमारेण खेचरः सन्ध्यागम्रवात् ॥ ५२६ ॥  
 शृणु भद्र प्रवक्ष्यामि मत्कथां कृतचेतनः । अभवत्सुष्यवन्ताख्यमालाकारधनेशिनः ॥ ५२७ ॥  
 सुतो राजपुरे जातिभटाङ्कः कुसुमभियः । तत्रैव धनदरास्य नन्दिन्यां तनयोऽभवत् ॥ ५२८ ॥  
 चन्द्राभो मे सखा तस्य कदाचिद्धर्ममभ्यधात् । भवानहञ्च धर्मेण तेन रक्षाशयस्तदा ॥ ५२९ ॥  
 विधाय मद्यमांसादिनिवृत्तिं तत्फलान्मृतः । इह विद्याधरो भूत्वा सिद्धकूटजिनाख्ये ॥ ५३० ॥  
 विलोक्य चारणद्वन्द्वं विनयेनोपसृत्य तत् । आवशोर्भवसम्बन्धमाकर्ण्य त्वां निरीक्षितुम् ॥ ५३१ ॥  
 रक्षित्वैतत्सरोऽन्येषां प्रवेशाद्विद्यया स्थितः । वक्ष्ये त्वञ्जवसम्बन्धं दिव्यावधिनिरूपितम् ॥ ५३२ ॥  
 धातकीखण्डप्राग्भागमेरुपूर्वविदेहगे । विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥ ५३३ ॥  
 पतिर्जयन्धरस्तस्य तनूजोऽभूजयद्रथः । जयवत्यास्त्वमन्येद्यत्तन्नं नाम्ना मनोहरम् ॥ ५३४ ॥  
 विहृत् प्रस्थितस्तस्य सरस्यां हंसशावकम् । विलोक्य चेटकैर्दक्षैस्तमानाय्य सकौतुकः ॥ ५३५ ॥  
 स्थितस्तत्पोषणोद्योगे तन्मातापितरौ तदा । सशोकौ करुणाक्रन्दं नभस्यकुरुतां मुहुः ॥ ५३६ ॥  
 चेटकस्ते तदाकर्ण्य कर्णास्ताकष्टचापकः । शरेणापायरातं तस्याकार्यं न पापिनाम् ॥ ५३७ ॥  
 तन्निरीक्ष्य भवन्माता कारुण्याद्गीकृताशया । किमेतदिति समृच्छथ प्रबुद्धा परिचारकात् ॥ ५३८ ॥  
 कुपित्वा चेटकर्यैव बृथा विद्ववते सती । निर्मत्स्यं त्वाञ्च ते पुत्र न युक्तमिदमभिषमम् ॥ ५३९ ॥  
 मात्रा संयोजयेत्याह त्वञ्चाज्ञानादिदं मया । कृतं कर्मेति निन्दित्वा गर्हित्वात्मानमार्द्रधीः ॥ ५४० ॥

लाकर खड़ा कर दिया ॥ ५२५ ॥ तब जावन्धर कुमारने उससे पूछा कि तू इस सरोवरकी रक्षा किस-  
 लिए करता है ? इस प्रकार कुमारके पूछने पर वह विद्याधर अच्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र !  
 मेरी कथाको चित्त लगाकर सुनिये, मैं कहता हूँ । पहले जन्ममें मैं राजपुर नगरमें अत्यन्त धनी  
 पुष्पदन्त मालाकारकी स्त्री कुसुमश्रीका जातिभट नामका पुत्र था । उसी नगरमें धनदत्तकी स्त्री  
 नन्दिनीसे उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था । वह मेरा मित्र था, किसी एक समय आपने उस  
 चन्द्राभके लिए धर्मका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी धर्मप्रेम उत्पन्न हो गया ॥ ५२६-  
 ५२६ ॥ और मैंने उसी समय मद्य-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे भरकर मैं यह विद्या-  
 धर हुआ । किसी समय मैंने सिद्धकूट जिनालयमें दो चारण मुनियोंके दर्शन किये । मैं बड़ी विनयसे  
 उनके पास पहुँचा और उनके समीप अपने तथा आपके पूर्वभवका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन  
 करनेके लिए ही अन्य लोगोंके प्रवेशसे इस सरोवरकी रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ । उन मुनिराजने  
 अपने दिव्य अवधिज्ञानसे देखकर जो आपके पूर्वभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब मैं कहता  
 हूँ ॥ ५३०-५३२ ॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरु सम्बन्धी पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है । उसकी  
 पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा जयन्धर राज्य करता था । उसकी जयवती रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र  
 हुआ था । किसी एक समय वह जयद्रथ क्रीड़ा करनेके लिए मनोहर नामके वनमें गया था वहाँ उसने  
 सरोवरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कौतुक वश चतुर सेवकोंके द्वारा उसे बुला लिया और  
 उसके पालन करनेका उद्योग करने लगा । यह देख, उस बच्चेके माता-पिता शोक सहित होकर  
 आकाशमें बार-बार करुण क्रन्दन करने लगे । उसका शब्द सुनकर तेरे एक सेवकने कान तक धनुष  
 खींचा और एक बाणसे उस बच्चेके पिताको नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्योंको  
 नहीं करने योग्य कार्य क्या है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ५३३-५३७ ॥ यह देख जयद्रथकी माताका  
 हृदय दयासे आर्द्र हो गया और उसने पूछा कि यह क्या है ? सेवकसे सब हाल जानकर वह सती  
 व्यर्थ ही पत्नीके पिताको मारनेवाले सेवक पर बहुत कुपित हुई तथा तुम्हें भी डाँटकर कहने लगी  
 कि हे पुत्र ! तेरे लिए यह कार्य उचित नहीं है, तू शीघ्र ही इसे इसकी मातासे मिला दे । इसके  
 उत्तरमें तूने कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञान वश किया है । इस प्रकार आर्द्र परिणाम होकर अपने

तदादानदिनाद्दशश्रावकं षोडशे दिने । चातकं वनकालो वा सज्जलाभोदमालया ॥ ५४१ ॥  
 प्रसवं मधुमासो वा लतया वृतसम्पन्ना । पश्चिन्यार्कोदयो वाकिं तं मात्रा समजीगमः ॥ ५४२ ॥  
 एवं विनादैरन्यैश्च काले याते निरन्तरम् । सुखेन केनचिद् भोगनिर्वेगे सति हेतुना ॥ ५४३ ॥  
 राज्यभारं परिस्थज्य तपोभारं समुद्रहन् । जीवितान्ते तनुं त्यक्त्वा सहस्रारे सुरोऽभवः ॥ ५४४ ॥  
 तत्राष्टादशवार्यायुर्दिव्यभोगाभितपितः । ततश्चुत्वेह सम्भूतः शुभाशुभविपाकतः ॥ ५४५ ॥  
 चेटकेन हतो हंसः स काष्ठाङ्गारिकोऽभवत् । तेनैव त्वत्पिता युद्धे हतः प्राक्तव जन्मनः ॥ ५४६ ॥  
 मन्दसानशिशोः पित्रोविप्रयोगकृतैरसः । फलात्षोडशवर्षाणि वियोगस्तव वन्धुभिः ॥ ५४७ ॥  
 सह सजात इत्येतद्विधाधरनिरूपितम् । श्रुत्वा कल्याणबन्धुत्वं ममेत्येनमपूजयत् ॥ ५४८ ॥  
 तस्मादागत्य हेमाभनगरं प्राप्य सम्मदात् । कामभोगसुखं स्वैरमिष्टैरनुभवन् स्थितः ॥ ५४९ ॥  
 इदं प्रकृतमत्रान्यत्संविधानमुदीर्यते । नन्दाब्जस्य पुरास्वस्मास्त्रियानान्तरे दिने ॥ ५५० ॥  
 गन्धर्वदत्ता सम्पृष्टा खेहितैर्मधुरादिभिः । वदास्माकं विवेत्सि त्वं कुमारौ क्व गताविति ॥ ५५१ ॥  
 साप्याह सुजनं देवो हेमाभनगरे सुखम् । वसतस्तत्र का चिन्ता युष्माकमिति सादरम् ॥ ५५२ ॥  
 ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ते सर्वे तद्दिदृक्षुः । आशुच्छय स्वजनान् सर्वान् सन्तोषात्तैर्विवेचिताः ॥ ५५३ ॥  
 गच्छन्तो दण्डकारण्ये व्यश्रान्यस्तापसाश्रये । तापसीषु समागत्य तान् पश्यन्तीषु कौतुकात् ॥ ५५४ ॥  
 महादेवी च तान् दृष्ट्वा यूयं कस्मात्समागताः । गमिष्यथ क्व वेत्येतदपृच्छस्नेहनिर्भरा ॥ ५५५ ॥  
 यथावृत्तान्तमेवैषु कथयत्सु प्रतोषिणी । मधुप्रपरिवारोऽयं सहो यूनामिति स्फुटम् ॥ ५५६ ॥

आपकी बहुत ही निन्दा की और जिस दिन उस बालकको पकड़वाया था उसके सोलहवें दिन, जिस प्रकार वर्षाकाल चातकको सजल मेघमालासे मिला देता है, वसन्त ऋतु फूलको आमकी लताके साथ मिला देता है और सूर्योदय भ्रमरको कमलिनीके साथ मिला देता है उसी प्रकार उसकी माताके साथ मिला दिया ॥ ५३८-५४२ ॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही वित्तोदोसे जयद्रथका काल निरन्तर सुखसे बीत रहा था कि एक दिन उसे किसी कारणवश भोगोंसे वैराग्य हो गया फल-स्वरूप राज्यका भार छोड़कर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया और जीवनके अन्तमें शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गमें देव पर्याय प्राप्त कर ली ॥ ५४३-५४४ ॥ वहाँ वह अठारह सागरकी आयु तक दिव्य भोगोंसे सन्तुष्ट रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पुण्य पापके उदयसे यहाँ उत्पन्न हुआ है ॥ ५४५ ॥ जिस सेवकने हंसको मारा था वह काष्ठाङ्गारिक हुआ है और उसीने तुम्हारा जन्म होनेके पहले ही युद्धमें तुम्हारे पिताको मारा है । तुमने हंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रक्खा था उसी पापके फलसे तुम्हारा सोलह वर्ष तक भाई-बन्धुओंके साथ वियोग हुआ है । इस प्रकार विद्याधरकी कही कथा सुनकर जीवन्धरकुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है ऐसा कह कर उन्होंने उसका खूब सत्कार किया ॥ ५४६-५४८ ॥ तदनन्तर वे बड़ी प्रसन्नतासे सबके साथ हेमाभ नगर आय और इष्ट जनोके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रहने लगे ॥ ५४९ ॥

सुधमाचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! यह तुझे प्रकृत बात बतलाई । अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही जाती है । जिस दिन नन्दाब्ज राजपुर नगरसे निकल गया उसके दूसरे ही दिन मधुर आदि मित्रोंने गन्धर्वदत्तासे पूछा कि दोनों कुमार कहाँ गये हैं ? तू सब जानती है, बतला । इसके उत्तरमें गन्धर्वदत्ताने बड़े आदरसे कहा कि आप लोग उनकी चिन्ता क्यों करते हैं वे दोनों भाई सुजन देशके हेमाभ नगरमें सुखसे रहते हैं ॥ ५५०-५५२ ॥ इस प्रकार गन्धर्वदत्ता से उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मित्रोंको उनके देखनेकी इच्छा हुई और वे सब अपने आत्मीय जनोसे पूछकर तथा उनसे विदा लेकर सन्तोषके साथ चल पड़े ॥ ५५३ ॥ चलते-चलते उन्होंने दण्डक वनमें पहुँचकर तपस्त्रियोंके आश्रममें विश्राम किया । कौतुकवश वहाँकी तापसी स्त्रियाँ आकर उन्हें देखने लगीं । उन स्त्रियोंमें महादेवी विजया भी थी, वह उन सबको देखकर कहने लगी कि आप लोग कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? और कहाँ जावेंगे ? विजयाने यह सब बड़े स्नेहके साथ पूछा ॥ ५५४-५५५ ॥ जब मधुर आदिने अपना सब वृत्तान्त कहा तब वह, यह स्पष्ट

विशयाद्यात्र विश्रम्य भवनिर्गम्यतां पुनः । समागमनकालेऽसाविहैवानीयतामिति ॥ ५५७ ॥  
 सम्यक्प्रार्थयतैतांस्तेऽप्येषा जीवन्धरश्रुतेः । रूपेण निविशेवा किं तन्मातेत्यासंशयाः ॥ ५५८ ॥  
 कुर्मस्त्येति सन्तोष्य तां प्रियाजुगतोक्तिभिः । गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चिदात्र व्याधैः कदर्थिताः ॥ ५५९ ॥  
 युद्धे पुरुषकारेण क्रम्यादानमिभूय तान् । यान्तो अटच्छया व्याधैर्मार्गोऽन्यैर्योगमागमन् ॥ ५६० ॥  
 हेमाभपुरसार्थापहरणारम्भसम्भ्रमे । तत्कर्म नागरैरूर्ध्वन्यस्तहस्तैर्निवेदितः<sup>१</sup> ॥ ५६१ ॥  
 आक्रोशजिः सकारुण्यो जीवन्धरसमाङ्गयः । गत्वा व्याधबलं युद्धे निरुध्यातकर्यविक्रमः ॥ ५६२ ॥  
 तद्गृहीतं धनं सर्वं वणिग्भ्यो ह्यार्पयत्पुनः । युद्ध्वा चिरं विमुक्तात्मनामाङ्कशरदर्शनात् ॥ ५६३ ॥  
 जीवन्धरकुमारेण विदिता मधुरादयः । सङ्गतास्ते कुमारस्य वार्तां राजपुरोद्भवाम् ॥ ५६४ ॥  
 सर्वा निर्वर्ण्य विश्रम्य कञ्चिकालं स्थिताः सुखम् । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ॥ ५६५ ॥  
 भरण्यमप्रयाणार्थं दण्डकाख्यमुपागमन् । तत्र जेहान्महादेवी क्षीरापूर्णांशतस्तनी ॥ ५६६ ॥  
 बाष्पाविलविलालाक्षी क्षामक्षामाङ्गयष्टिका । चिन्तासहस्रसन्तस्रजटीभूतशिरोरुहा ॥ ५६७ ॥  
 निरन्तरोग्णनिःश्वासवैवर्ण्यगमिताधरा । ताम्बुलादिव्यपायोःकमलदिग्धद्विजावली ॥ ५६८ ॥  
 भशोचत्प्रमालोक्य रुक्मिणीव मनोभवम् । इष्टकालान्तरालोकस्तक्षणे दुःखकारणम् ॥ ५६९ ॥  
 तन्जस्पर्शसम्भूतमस्पृशन्तीं सुखामृतम् । ज्ञापयित्वा पत्न्यादपश्ययोः सकृताञ्जलिः ॥ ५७० ॥  
 कुमारोऽपि कल्याणशतभागी भवेत्यसौ । तमाशिषां शतैः जेहादभिनन्द्यामवीदिति ॥ ५७१ ॥

जानकर बहुत ही सन्तुष्ट हुई कि यह युवाओंका सङ्घ मेरे ही पुत्रका परिवार है । उसने फिर कहा कि आज आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइये और आते समय उसे यहाँ ही लाइये ॥ ५५६-५५७ ॥  
 इस प्रकार उसने उन लोगोंसे अच्छी तरह प्रार्थना की । वह देवी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान ही थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद यह जीवन्धरकी माता ही हो । तदनन्तर उन लोगोंने प्रिय और अनुकूल वचनोंके द्वारा उस देवीको सन्तुष्ट किया और कहा कि हमलोग ऐसा ही करेंगे । इसके बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर जाने पर उन्हें भीलोंने दुःखी किया परन्तु वे अपने पुरुषार्थसे युद्धमें भीलोंको हराकर इच्छानुसार आगे बढ़े । आगे चलकर मार्गमें ये सब लोग दूसरे भीलोंके साथ मिल गये और सबने हेमाभ नगरमें जाकर वहाँके सेठोंको लूटना शुरू किया । इससे क्षुभित हुए नगरवासी लोगोंने हाथ ऊपर कर तथा जोर-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारको इस कार्यकी सूचना दी । निदान, अचिन्त्य पराक्रमके धारक दयालु जीवन्धर कुमारने जाकर युद्धमें वह भीलोंकी सेना रोकी और उनके द्वारा हरण किया हुआ सब धन छीनकर वैश्योंके लिए वापिस दिया । इधर मधुर आदिने चिरकाल तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित बाण चलाये थे उन्हें देखकर जीवन्धर कुमारने उन सबको पहिचान लिया । तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे मिलाप हो गया और सब लोग कुमारके लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल तक सुखसे रहे । इसके बाद वे कुमारको लेकर अपने नगरकी ओर चले । विश्राम करनेके लिए वे उसी दण्डक वनमें आये । वहाँ उन्हें महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दूधसे भरकर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र आँसुओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रहे थे, शरीर-यष्टि अत्यन्त कृश थी, वह हजारों चिन्ताओंसे सन्तप्त थी, उसके शिरके बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर गरम श्वास निकलनेसे उसके आँठोंका रङ्ग बदल गया था और पान आदिके न खानेसे उसके दाँतों पर बहुत भारी मैल जमा हो गया था । जिस प्रकार रुक्मिणी प्रद्युम्नको देखकर दुखी हुई थी उसी प्रकार विजया महादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थका बहुत समय बाद देखना तत्कालमें दुःखका कारण होता ही है ॥ ५६५-५६६ ॥ पुत्रके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुख रूपी अमृतका जिसने स्पर्श नहीं किया है ऐसी माताको उस सुखका अनुभव कराते हुए जीवन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-कमलोंमें गिर पड़े ॥ ५७० ॥ 'हे कुमार ! उठ, सैकड़ों

प्रतिपक्षाजवद्वृष्टिसम्भृतसुखसङ्गमात् । कुमार भीतभीतं वा मददुःखं सहसा गतम् ॥ ५७२ ॥  
 एवं देव्यां तुजा साकं निगदन्त्यां तदन्तरे । सम्प्राप्य सत्वरं यक्षो वक्षः जेहात्कुमारजात् ॥ ५७३ ॥  
 ज्ञानसङ्गलेपनाशेषभूषाबन्धाधानादिभिः । सम्पूज्य जैनसद्धर्मवात्सल्यात्सकलान्पृथक् ॥ ५७४ ॥  
 अपास्य मधुरालापैस्तत्त्वगर्भैः सयुक्तिभिः । मदनादिकथाभिश्च शोकं मातुः सुतस्य च ॥ ५७५ ॥  
 जगाम सम्मुखं धात्रः स्वस्येत्यापाद्य सत्क्रियाम् । तत्सौहार्दं यदापस्तु सुहृन्निरनुभूयते ॥ ५७६ ॥  
 राज्ञी चैष महापुण्यभागीत्यालोच्य तं पृथक् । कुमारमन्यधादेवं प्रज्ञाधिकमशाकिनम् ॥ ५७७ ॥  
 सत्यन्धरमहाराजं तव राजपुरे गुरुम् । हत्वा राज्ये स्थितः शत्रुस्तत्काष्ठाङ्गारिकस्तव ॥ ५७८ ॥  
 पितृस्थानपरित्यागो न शान्तयस्ते मनस्विनः । इत्यसौ च तदाकर्ण्य प्रतिपद्योदितं तथा ॥ ५७९ ॥  
 अकालसाधनं शौर्यं न फलाय प्रकल्पते । धान्यं वा सम्प्रतीक्ष्यो यः कालः कार्यस्य साधकः ॥ ५८० ॥  
 इति सखिष्य सञ्जातक्रोधोप्याच्छाद्य तं हृदि । अम्बैतत्कार्यपर्याप्तौ बलं नन्दाक्ष्यनायकम् ॥ ५८१ ॥  
 स्वामानेतुं प्रहेष्यामि तावदत्र ख्यास्यताम् । दिनानि कानिचिद्वीतशोक्येति महामतिः ॥ ५८२ ॥  
 तद्योग्यसर्ववस्तूनि परिवारञ्च कञ्चन । तत्सन्निधानवस्थाप्य गत्वा राजपुरं स्वयम् ॥ ५८३ ॥  
 प्राप्य तन्निजभृत्यादीन्पुरः प्रस्थाप्य कस्यचिन् । मदागतिनं वाच्येति प्रतिपाद्य पृथक् पृथक् ॥ ५८४ ॥  
 वैश्यवेषं समादाय विद्यामुद्राप्रभावतः । पुरं प्रविश्य कस्मिंश्चिदापणे समवस्थितः ॥ ५८५ ॥  
 तत्र तत्सन्निधानेन नानारत्नादिभाण्डकम् । अपूर्वलाभसंबृत्तं दृष्ट्वा सागरदत्तकः ॥ ५८६ ॥

कल्याणोको प्राप्त हो' इस प्रकार सैकड़ों आशीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेवी बड़े स्नेहसे इस प्रकार कहने लगी ॥ ५७१ ॥ कि 'हे कुमार ! तुझे देखनेसे जो मुझे मुग्व उत्पन्न हुआ है उसके समागम रूपी शत्रुसे ही मानो डरकर मेरा दुःख अकस्मान् भाग गया है' ॥ ५७२ ॥ इस प्रकार वह महादेवी पुत्रके साथ बातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारके स्नेहसे वह चतुर यक्ष भी बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचा ॥ ५७३ ॥ उसने आकर उत्तम जैनधर्मके वात्सल्यसे स्नान, माला, लेपन, समस्त आभूषण, वस्त्र तथा भोजन आदिके द्वारा सबका अलग-अलग सत्कार किया । तदनन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण और तत्त्वसे भरे हुए मधुर वचनोंसे तथा प्रद्युम्न आदिकी कथाओंसे माता और पुत्र दोनोंका शोक दूर कर दिया । इस प्रकार आदर-सत्कार कर वह यक्ष अपने स्थानकी ओर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जिसका कि मित्र लोग आपत्तिके समय अनुभव करते हैं ॥ ५७४-५७६ ॥ इसके बाद विजयादेवीने 'यह महा पुण्यात्मा है' ऐसा विचार कर बुद्धि और बलसे सुशोभित कुमारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा कि 'राजपुर नगरके सत्यन्धर महाराज तेरे पिता थे उन्हें मार कर ही काष्ठाङ्गारिक राज्य पर बैठा था अतः वह तेरा शत्रु है । तू तेजस्वी है अतः तुझे पिताका स्थान छोड़ देना योग्य नहीं है' । इस प्रकार माताके कहे हुए वचन सुनकर और अच्छी तरह समझकर जीवन्धर कुमारने विचार किया कि 'समय और साधनके बिना प्रकट हुई शूर-वीरता फल देनेके लिए समर्थ नहीं है अतः धान्यकी तरह उस कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये जो कि कार्यका साधक है' । जीवन्धर कुमारको यद्यपि क्रोध तो उत्पन्न हुआ था परन्तु उक्त विचार कर उन्होंने उसे हृदयमें ही छिपा लिया और मातासे कहा कि हे अम्ब ! यह कार्य पूरा होने पर मैं तुम्हें लेनेके लिए नन्दाक्ष्यको सेनापति बनाकर सेना भेजूँगा तब तक कुछ दिन तू शोक रहित हो यहीं पर रह । ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदार्थ और कुछ परिवारको उसके समीप रखकर महाबुद्धिमान् जीवन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गये ॥ ५७७-५८३ ॥ राजपुर नगरके समीप जाकर उन्होंने अपने सेवक आदि सब लोगोंको अलग-अलग यह कहकर कि 'किसीसे मेरे आनेकी खबर नहीं कहना' पहले ही नगरमें भेज दिया और स्वयं विद्यामयी अँगूठीके प्रभावसे वैश्याका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसीकी दूकान पर जा बैठे ॥ ५८४-५८५ ॥ वहाँ उनके समीप बैठ जानेसे सागरदत्त सेठको अनेक रत्न आदिके पिटारे तथा और भी अपूर्व वस्तुओं का लाभ हुआ । यह देख उसने विचार किया कि 'निमित्तज्ञानीने जिसके लिए कहा था यह बड़ी

वणिगादेशमिदिष्टो देवज्ञैरयमित्यसौ । दत्तवान्विमलां तस्मै सुतां १स्वा कमलोद्भवाम् ॥ ५८० ॥  
 दिनानि कानिचित्तत्र संवसन् सुखमन्वया । परिव्राजकवेषेण काष्ठाङ्गारिकसंसदम् ॥ ५८८ ॥  
 प्रविश्य तं समालोच्य कृताशीर्वादसक्तियः । शृणु राजह्वहं भोक्तुं याचे स्वामतिधिर्गुणी ॥ ५८९ ॥  
 मां भोजयेत्युवाचैतच्छ्रुत्वा सम्प्रतिपन्नवान् । मदुद्योगफलम्यैतच्चिमित्तं कुसुमं परम् ॥ ५९० ॥  
 इत्यग्रासनमास्थाय भुक्त्वा तस्मात्स निर्गतः । वशीकरणचूर्णादिप्रत्यक्षफलमौषधम् ॥ ५९१ ॥  
 मत्करे विद्यते यस्यै हृषिर्गुह्यत्वसाविदम् । इति राजकमभ्येत्य पृथक्पृथग्घोषयत् ॥ ५९२ ॥  
 तच्छ्रुत्वा पश्य नैर्लज्ज्यमस्य वार्धक्यमीदृशम् । वशीकरणचूर्णाञ्जनादिवन्धनमप्यदः ॥ ५९३ ॥  
 इति तद्वचनात्सर्वैः कृत्वा हासं द्विजोषाम । कन्यका गुणमालाख्या पुरेऽस्मिन्नस्ति विश्रुता ॥ ५९४ ॥  
 जीवन्धरेण मन्त्रार्णवासस्य न कृता स्तुतिः । इति नृद्वेषिणी जाता तां स्वचूर्णाञ्जनादिभिः ॥ ५९५ ॥  
 वशीकुरुष्व तद्वीक्ष्य तव मन्त्रौषधादिकम् । मौल्येन बहुना सर्वमाददिष्यामहे वयम् ॥ ५९६ ॥  
 इत्युक्तस्तैः सकोपो वा युष्मज्जीवन्धरो विधीः । चूर्णावासादिभेदं किं स जानाति परीक्षितुम् ॥ ५९७ ॥  
 इत्युक्त्वास्ततः सर्वे सकोपा विप्रमब्रुवन् । यद्येष्टं किं ब्रवीष्येवं नृसारमविवेचयन् ॥ ५९८ ॥  
 आत्मस्तवोऽन्यनिन्दा च मरणाच्च विशिष्यते । इति लोकप्रसिद्धं किं न श्रुतं दुःश्रुतोद्धत ॥ ५९९ ॥  
 इत्यसौ तैरधिष्ठितः किं न सन्ति प्रशंसकाः । युष्मद्विधा ममापीति सम्भाष्यात्मानमुद्धतः ॥ ६०० ॥  
 घटदासीं विधास्यामि गुणमालां मुहूर्ततः । ममेति सङ्गरं कृत्वा प्रस्थितस्तद्गृहं प्रति ॥ ६०१ ॥

पुरुष है, ऐसा विचार कर उसने अपनी स्त्री कमलासे उत्पन्न हुई विमला नामकी पुत्री उन्हें समर्पित कर दी ॥ ५८६-५८७ ॥ विवाहके बाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त सेठके यहाँ सुखसे रहे । तदनुसार किसी अन्य समय परिव्राजकका वेष रखकर काष्ठाङ्गारिककी सभामें गये । वहाँ प्रवेश कर तथा काष्ठाङ्गारको देखकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'हे राजन् ! सुनो, मैं एक गुणवान् अतिथि हूँ, तुझसे भोजन चाहता हूँ, मुझे खिला दे' । यह सुकर काष्ठाङ्गारिकने उसे भोजन कराना स्वीकृत कर लिया । 'यह निमित्त, मेरे उद्योग रूपी फलको उत्पन्न करनेके लिए मानो फूल ही हैं' ऐसा विचार कर उन्होंने अगली आसन पर आरूढ़ होकर भोजन किया और भोजनोपरान्त वहाँसे चल दिया । तदनन्तर उन्होंने राजाओंके समूहमें जाकर अलग-अलग यह घोषणा कर दी कि 'मेरे हाथमें प्रत्यक्ष फल देनेवाला वशीकरण चूर्ण आदि उत्तम औषधि है जिसकी इच्छा हो वह ले ले' । उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हँसी करते हुए कहने लगे कि 'देखो इसकी निर्लज्जता । इसका ऐसा तो बुढ़ापा है फिर भी वशीकरण चूर्ण, अञ्जन तथा बन्धक आदिकी औषधियाँ रखे हुए हैं । इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने हँसी कर कहा कि 'हे ब्राह्मण ! इस नगरमें एक गुणमाला नामकी प्रसिद्ध कन्या है । 'जीवन्धरने मेरे चूर्णकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं की है' इसलिए वह पुरुष मात्रसे द्वेष रखने लगी है । तू अपने चूर्ण तथा अञ्जन आदिसे पहले उसे वशमें कर ले, बादमें यह देख हम सब लोग तेरे मन्त्र तथा औषधि आदिको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लेंगे' ॥ ५८८-५८९ ॥ इस प्रकार लोगोंके कहने पर वह ब्राह्मण क्रोधित-सा होकर कहने लगा कि तुम्हारा जीवन्धर मूर्ख होगा, वह चूर्णकी सुगन्धि आदिके भेदकी परीक्षा करना क्या जाने ॥ ५९० ॥ इसके उत्तरमें सब लोग क्रोधित होकर उस ब्राह्मणसे कहने लगे कि 'जीवन्धर मनुष्योंमें श्रेष्ठ है' इसका विचार किये बिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या बक रहा है ॥ ५९१ ॥ हे मिथ्याशास्त्रसे उद्वण्ड ! क्या तूने यह लोक-प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दामें मरणसे कुछ विशेषता (अंतर) नहीं है अर्थात् मरणके ही समान है ॥ ५९२ ॥ इस प्रकार उन लोगोंके द्वारा निन्दित हुआ ब्राह्मण कहने लगा कि तो क्या आप जैसे लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं हैं ? 'मैं भी कोई पुरुष हूँ' इस तरह अपनी प्रशंसा कर उस उद्धत ब्राह्मणने प्रतिज्ञा की कि 'मैं क्षणभरमें गुणमालाको अपनी घटदासी बना लूँगा' । ऐसी प्रतिज्ञा कर वह गुणमालाके

तत्र तर्कटिकामेकानाहूय स्वामिनीं निजाम् । ज्ञापयेति स्थितः कश्चिद्विप्रो द्वारीत्यबुधुवत् ॥ ६०२ ॥  
 सापि स्वस्वामिनीमेतद्विप्रमोक्तमबोधयत् । ततः स्वानुमतायात् वृद्धविप्रं यथोचिन्तम् ॥ ६०३ ॥  
 प्रतिगृह्य १ कुतो वेतो गमिष्यसि कुतोऽथवा । इति तस्याः परिप्रभे पद्मादिह समागतः ॥ ६०४ ॥  
 पुनः पुरो गमिष्यामीत्याहासी तच्छूतेर्जनः । पार्श्ववर्ती ब्यधाज्ञास २ दारिकाया द्विजोऽपि तम् ॥ ६०५ ॥  
 न हास्यं कुरुतैवं भो बार्धक्यं विपरीतताम् । उत्पादयति युष्माकं किं न भावीति सोऽववत् ॥ ६०६ ॥  
 पुनः ३ पुरः क्व गन्तव्यमिति तत्रत्युदीरणे । कन्यातीर्थपरिप्राप्तेर्यावसावद्गतिर्मम ॥ ६०७ ॥  
 इति द्विजोदितं श्रुत्वा कायेन बयसाप्ययम् । वृद्धो न चेतसेत्येवं नर्मप्रायोक्तिपूर्वकम् ॥ ६०८ ॥  
 अग्रासने विधायैर्न स्वयमभ्यवहृत्य सा । इदानीं भवतो यन्न बाल्का तन्नाशु गम्यताम् ॥ ६०९ ॥  
 इत्याह सोऽपि सुदुर्गतं स्वयां भद्रे ममेति ताम् । प्रशंसन् प्रस्वन्नन् कच्छादुत्थायाल्लभ्य यष्टिकाम् ॥ ६१० ॥  
 तदीयशयनारोहं ब्यधादुक् इवैतया । चेटिकास्तद्विलोक्यास्य पश्य निर्लज्जतामिति ॥ ६११ ॥  
 हस्तावच्छम्भेनैर्न निराकर्तुं समुद्यताः । युष्माभिः सन्त्यगोवोक्तं लज्जा स्त्रीविपयैव सा ॥ ६१२ ॥  
 न पुंसु ष्वि तन्नास्ति लज्जा साधारणी भवेत् । ततः स्त्रीभिः कथं पुंसां सङ्गमोऽनङ्गसंस्कृतः ॥ ६१३ ॥  
 इति वृद्धोक्तिमाकर्ण्य ब्राह्मणोऽयं न केवलः । कोऽपि रूपपरावृत्तिविद्यया ४ समुपागतः ॥ ६१४ ॥  
 इत्याकलय्य को दोषो विप्रः प्राधूर्णिको मम । तिष्ठत्वन्नेति तर्कटिका निवारयति स्म सा ॥ ६१५ ॥  
 तस्मिन्नावसितौ शुद्धदेशजस्वरभेदवित् । गीतवान्मधुरं वृद्धश्चि्रं श्रोत्रमनोहरम् ॥ ६१६ ॥  
 गन्धर्वदत्ताकल्याणकाले सालङ्कृत्य कलम् । जीवन्धरकुमारस्य गीतं वैतच्छूतेः सुखम् ॥ ६१७ ॥

घरकी ओर चल पड़ा । वहाँ जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कहा कि तुम अपनी मालकिनसे कहो कि द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है ॥ ६००-६०२ ॥ दासीने भी अपनी मालकिनको ब्राह्मणकी कही हुई बात समझा दी । गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हुए उस वृद्ध ब्राह्मणका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि 'आप कहाँसे आये हैं और यहाँसे कहाँ जावेंगे ?' गुणमालाके इस प्रश्नके उत्तरमें उसने कहा कि 'यहाँ पीछेसे आया हूँ और आगे जाऊँगा' । ब्राह्मणकी बात सुनकर कन्या गुणमालाके समीपवर्ती लोग हँसने लगे । यह देख, ब्राह्मणने भी उनसे कहा कि इस तरह आप लोग हँसी न करें बुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्या आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं आवेगा ? ॥ ६०३-६०६ ॥ तदनन्तर उन लोगोंने फिर पूछा कि आप आगे कहाँ जावेंगे ? ब्राह्मणने कहा कि जबतक कन्या तीर्थकी प्राप्ति नहीं हो जावेंगी तबतक मेरा गमन होता रहेगा ॥ ६०७ ॥ इस प्रकार ब्राह्मणका कहा उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए कहा कि यह शरीर और अवस्थासे बूढ़ा है, मनसे बूढ़ा नहीं है । तदनन्तर गुणमालाने उसे अन्न आसन पर बैठाकर स्वयं भोजन कराया और फिर कहा कि अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ शीघ्र ही जाइये ॥ ६०८-६०९ ॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि 'हे भद्र ! तूने ठीक कहा' इस तरह उसकी प्रशंसा करता और बगमगाता हुआ वह ब्राह्मण लाठी टेक कर बड़ी कठिनाईसे उठा और उसकी शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढ़नेकी आज्ञा ही दे दी हो । यह देख, दासियों कहने लगीं कि इसकी निलज्जा देखो । वे हाथ पकड़ कर उसे शय्यासे दूर करनेके लिए उद्यत हो गईं । तत्र ब्राह्मणने कहा कि आप लोगोंने ठीक ही तो कहा है, यथार्थमें लज्जा स्त्रियोंमें ही होती है पुरुषोंमें नहीं, यदि उनमें भी स्त्रियोंके समान ही लज्जा होने लगे तो फिर स्त्रियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम कैसे हो सकता है ? ॥ ६१०-६१३ ॥ इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केवल ब्राह्मण ही नहीं है किन्तु रूपपरावर्तनी विद्याके द्वारा रूप बदल कर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है । ऐसा विचार कर उसने दासियोंको रोक दिया और उस ब्राह्मणसे कहा कि क्या दोष है ? आप मेरे पाहुने हैं अतः इस शय्यापर बैठिये ॥ ६१४-६१५ ॥ रात्रि समाप्त होनेपर शुद्ध तथा देशज स्वरके भेदोंको जाननेवाले उ० वृद्ध ब्राह्मणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा मनको हरण करनेवाले मधुर गीत गाये । गन्धर्वदत्ताके विवाहके समय जीवन्धर कुमारने जो अलंकार सहित मनोहर गीत गाये थे उन्हें सुन-



इति प्रातः समुत्थाय विनयेनोपसृत्य तम् । साप्राक्षीत्केषु क्षात्रेषु प्रबोधो भवतामिति ॥ ६१८ ॥  
 धर्मार्थकामशास्त्राणि भूयोऽभ्यस्तानि यत्नतः । तेषु धर्मार्थयोः कामशास्त्राण्यफलविनिश्चयः ॥ ६१९ ॥  
 कथं तदिति वैकिञ्चिन्मया तत्र निरूप्यते । पञ्चेन्द्रियाणि तेषाञ्च विषयाः पञ्चधा स्मृताः ॥ ६२० ॥  
 स्पर्शादयोऽष्टधा स्पर्शाः कर्कशाद्याः श्रुतांदिताः । रसोऽपि षड्विधः प्रोक्तो मधुरादिर्मनीषिभिः ॥ ६२१ ॥  
 कृतकः सहजश्चेति गन्धोऽपि द्विविधो मतः । सर्वः सुगन्धदुर्गन्धश्चेत्तनेतरवस्तुगः ॥ ६२२ ॥  
 रूपं पञ्चविधं श्वेतकृष्णादिप्रविभागभाक् । षड्जादयः स्वराः सप्त जीवाजीवसमुद्भवाः ॥ ६२३ ॥  
 इत्यष्टाविंशतिर्भूत्वा द्वैगुण्यं पुनरागताः । इष्टानिष्टविकल्पाभ्यां षट्पञ्चाशद्विकल्पनाः ॥ ६२४ ॥  
 तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि धर्मतः । निषिद्धविषयत्यागो धर्मः सद्भिर्रुदाहृतः ॥ ६२५ ॥  
 निषिद्धविषयांस्तस्मात्परिहृत्य विचक्षणः । शेषाननुभवन्तोऽत्र कामशास्त्रविदो मताः ॥ ६२६ ॥  
 स्वयानुभूयमानेषु दोषाः सन्तीह केपुञ्चित् । इति तेनोदितं श्रुत्वा तद्दोषविनिवृत्तये ॥ ६२७ ॥  
 स्वयोपदेशः कर्तव्यो बान्ध्यामि तत्र शिष्यताम् । इत्युदीर्णवतीं विप्रस्तां व्यनैषीत्कलादिषु ॥ ६२८ ॥  
 सर्वे ते पुनरन्येषुविहर्तुं वनमागमन् । स्थितस्तत्रायमेकान्तप्रदेशे गुणमालया ॥ ६२९ ॥  
 सह स्वाभाविकं रूपमात्मनः समदर्शयत् । कन्या दृष्ट्वाथ तं जातसंशया सप्रपा सती ॥ ६३० ॥  
 मौनेनावस्थिता वीक्ष्य तामेष प्राक्तनोक्तिभिः । चूर्णवासादिजाताभिः प्रत्यायवदतिव्रतम् ॥ ६३१ ॥  
 पुनः प्राक्तनरूपस्थः पुष्पशय्यामविष्टितः । कुरु मत्पदसंवाहमिति प्रेषयति स्म ताम् ॥ ६३२ ॥

कर गुणमालाको जैसा मुख हुआ था वैसा ही मुख इस वृद्धक गीत सुनकर हुआ । सबेरा होनपर गुणमालाने बड़ी विनयके साथ उसके पास जाकर पूछा कि आपको किन-किन शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान है ? ॥ ६१६-६१८ ॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि मैंने बड़े यत्नसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्रका वार-वार अभ्यास किया है । उनमें धर्म और अर्थके फलका निश्चय कामशास्त्रसे ही होता है । यह किस प्रकार होता है ? यदि यह जानना चाहती हो तो मैं इसका कुछ निरूपण करता हूँ । इन्द्रियों पाँच हैं और उनके स्पर्श आदि विषय भी पाँच ही हैं । उनमेंसे स्पर्शके कर्कश आदि आठ भेद शास्त्रोंमें कहे गये हैं । विद्वानोंने मधुर आदिके भेदसे रस भी छह प्रकारका कहा है । सुगन्ध और दुर्गन्ध रूप चेतन अचेतन वस्तुओंमें पाया जानेवाला सब तरहका गन्ध भी कृतक और सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है । श्वेत, कृष्ण आदिके भेदसे रूप पाँच तरहका कहा गया है और जीव तथा अजीवसे उत्पन्न हुए षड्ज आदि स्वर सात तरहके होते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंके अष्टाईस विषय होते हैं । इनमेंसे प्रत्येकके इष्ट, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलकर छप्पन हो जाते हैं ॥ ६१९-६२४ ॥ इनमें जो इष्ट विषय हैं वे पुण्य करने-वालोंको प्राप्त होते हैं, धर्मसे पुण्य होता है और निषिद्ध विषयोंका त्याग करना ही सज्जनोंने धर्म कहा है ॥ ६२५ ॥ इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य निषिद्ध विषयोंको छोड़कर शेष विषयोंका अनुभव करते हैं वे ही इस लोकमें कामशास्त्रके जाननेवाले कहे जाते हैं ॥ ६२६ ॥ यह कहनेके बाद उस ब्राह्मणने गुणमालासे कहा कि तू जिन विषयोंका अनुभव करती है उनमेंसे कितनेमें ही अनेक दोष हैं । इस तरह ब्राह्मणका कहा सुनकर गुणमालाने उससे कहा कि आप उन दोषोंको दूर करनेके लिए उपदेश कीजिये मैं आपकी शिष्या हो जाऊँगी । ऐसा कहनेपर उस ब्राह्मणने गुणमालाको कला आदिकी शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥ ६२७-६२८ ॥

एक दिन वे सब लोग विहार करनेके लिए वनमें गये थे । वहाँ जब वह एकान्त स्थानमें गुणमालाके साथ बैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया । उसे देखकर कन्याको संशय उत्पन्न हो गया और वह सती लज्जासहित चुप बैठ गई । यह देखकर ब्राह्मणने सुगन्धित चूर्णसे सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन कथाएँ कह कर बहुत ही शीघ्र उसे विश्वास दिला दिया ॥ ६२९-६३१ ॥ तदनन्तर वह उसी ब्राह्मणका रूप धारण कर पुष्पशय्यापर बैठ गया और गुणमाला भी

ताञ्च खेहेन तत्कर्म कुर्वती वीक्ष्य विस्मयात् । ते राजसुनवः सर्वे तन्मन्त्रादिकमस्मरन् ॥ ६३३ ॥  
 अथ तस्माद्ब्रह्महमागतो गुणमालया । मातुः पितुश्च जीवन्धरागतिः कथिता मिथः ॥ ६३४ ॥  
 विवाहविधिना तौ च तां तस्याकुर्वतां प्रियाम् । दिनानि कानिचित्पत्र स्थित्वा जीवन्धरस्तया ॥ ६३५ ॥  
 सुखानि सह भुञ्जानः सर्वबन्धुसमन्वितः । जनप्रस्तूयमानोरुभाग्यो गन्धगजं गिरिम् ॥ ६३६ ॥  
 विजयादिं समारूढा चतुरङ्गबलावृतः । गृहं गन्धोत्कटारण्यस्य प्राविष्टात्परमोदयः ॥ ६३७ ॥  
 तदुत्सर्ष समारकर्ष्य स काष्ठाङ्गारिकः क्रुधा । पश्य वैश्यात्मजो मत्तो मनाक्च न विभेति मत् ॥ ६३८ ॥  
 इति प्रकाशकोपोऽभूराह्वीक्ष्य सचिवोत्तमाः । जीवन्धरकुमारोऽयं दैवादाविष्कृतोदयः ॥ ६३९ ॥  
 गन्धर्वदत्ताया साक्षाल्लक्ष्म्येव समुपाश्रितः । यक्षेण कृतसंवृद्धिमित्रेणान्यभिचारिणा ॥ ६४० ॥  
 मधुरादिसहायैश्च सहितो यशतो महान् । अभेद्यविक्रमस्तेन विग्रहो नैव युज्यते ॥ ६४१ ॥  
 बलिना सह युद्धस्य हेतुः कोऽपि न विद्यते । इत्यादियुक्तिमद्वाग्भिस्तमाद्यु समशीलामन् ॥ ६४२ ॥  
 इदमन्वदितः किञ्चित्प्रस्तुतं प्रतिपाद्यते । विदेहविषये क्वयात् विदेहाख्यं पुरं परम् ॥ ६४३ ॥  
 गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य पाता पतितविद्विषः । मुक्पृथिव्यादिसुन्दर्यां राक्ष्यां रत्नवती सती ॥ ६४४ ॥  
 चन्द्रकव्यधने दशं मालयालङ्कारोम्यहम् । नेच्छाम्यन्यं पतिं कञ्चिदकरोदिति सङ्गरम् ॥ ६४५ ॥  
 तज्जात्वास्याः पिता चापवेदवेषुदितोदितः । जीवन्धरोऽथ तत्कन्यामिमामं तत्सन्धिं नये ॥ ६४६ ॥  
 इति राजपुरं गत्वा सकन्यः सहसावनः । घोषणां कारयामास स्वयंवरविधिं प्रति ॥ ६४७ ॥  
 तदघोषणां समारकर्ष्य सर्वे भूखेचरेधराः । कन्यापरिग्रहायान्यमंक्षु राजपुरं प्रति ॥ ६४८ ॥

स्नेह वश उसके पैर दाबने लगी। यह देख, वे सब राजकुमार, आश्रयमें पड़ कर ब्राह्मणों मन्त्र आदिकी स्तुति करने लगे ॥ ६३२-६३३ ॥ इसके बाद ब्राह्मण-वेषधारी जीवन्धर कुमार वनसे अपने घर आ गये और गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जीवन्धर कुमारके आनेका समाचार कह दिया ॥ ६३४ ॥ निदान, उसके माता-पिताने विधि-पूर्वक विवाह कर उसे जीवन्धर कुमारकी प्रिया बना दी। इसके बाद वह जीवन्धर कुछ दिन तक वहीं पर गुणमालाके साथ रहा और सब भाई-बन्धुओंके साथ सुखका उपभोग करता रहा। तदनन्तर सब लोग जिनके बड़े भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे ऐसे, उलूख वैभवको धारण करनेवाले जीवन्धर कुमारने विजयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर चतुरङ्ग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमें प्रवेश किया ॥ ६३५-६३६ ॥ इस उत्सवकी बात सुनकर काष्ठाङ्गारिक बहुत कुपित हुआ। यह कहने लगा कि देखो उन्मत्त हुआ यह वैश्याक लड़का मुझसे कुछ भी नहीं डरता है। इस प्रकार कहकर यह प्रकट रीतिसे क्रोध करने लगा। यह देख, श्रेष्ठ मंत्रियोंने उसे समझाया कि ये जीवन्धर कुमार हैं, पुण्यके उदयसे इन्हें अभ्युदयकी प्राप्ति हुई है, साक्षान् लक्ष्मीके समान गन्धर्वदत्तासे सहित हैं, यक्ष रूपी अखण्ड मित्रने इनकी वृद्धि की है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहित हैं अतः महान् हैं और अजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ द्वेष करना योग्य नहीं है। फिर बलवान्के साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं है। इत्यादि युक्ति-पूर्ण वचनोंके द्वारा मन्त्रियोंने काष्ठाङ्गारिकको शीघ्र ही शान्त कर दिया ॥ ६३७-६४३ ॥

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि अत्र इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृत कथा और कहता हूँ। विदेह देशमें एक विदेह नामका प्रसिद्ध नगर है। राजा गोपेन्द्र उसकी रक्षा करते हैं, शत्रुओंको नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रकी रानीका नाम पृथिवी सुन्दरी है और उन दोनोंके एक रत्नवती नामकी कन्या है। रत्नवतीने प्रतिज्ञा की थी कि जो चन्द्रक वेधमें चतुर होगा मैं उसे ही मालासे अलङ्कृत करूँगी—अन्य किसी पुरुषको अपना पति नहीं बनाऊँगी। कन्याकी ऐसी प्रतिज्ञा जानकर उसके पिताने विचार किया कि इस समय धनुर्वेदको जाननेवाले और अतिशय ऐश्वर्यशाली जीवन्धर कुमार ही हैं अतः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता हूँ। ऐसा विचार कर वह राजा कन्याको साथ लेकर अपनी सब सेनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने स्वयंवर विधिकी घोषणा करा दी ॥ ६४४-६४७ ॥ उस घोषणाको सुनकर सभी भूमिगोचरी और विद्याधर

स्वयंवरविधौ तस्मिन्मन्त्रकव्यधने नृपात् । स्खलितांस्तान्बहून्वीक्ष्य जीवन्धरकुमारकः ॥ ६४९ ॥  
 कृतसिद्धनमस्कारः स्वगुरोश्चार्यवर्मणः । विधाय विनयं बालमानुर्वोदयशीलगः ॥ ६५० ॥  
 स्थित्वा विभास्वरस्तस्मिन्मन्त्रे स्खलनवजितम् । कृतवेधो व्यधास्त्रिहनादं नादितदिकटम् ॥ ६५१ ॥  
 साधु विद्धमनेनेति प्राशंसन् प्राञ्जिकास्तदा । कण्ठे मालां कुमारस्य सा समासजयन्मुदा ॥ ६५२ ॥  
 साधवस्तत्र योग्योऽयमनयोर्ननु सङ्गमः । शरत्समयहंसाख्योरिवेति प्रीतिमागताः ॥ ६५३ ॥  
 सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः । इत्यौदासीन्यमापन्ना मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥ ६५४ ॥  
 काष्ठाङ्गारिकमुख्यास्ते नीचा प्राप्तपराभवाः । प्राक्तस्मादादनुस्यूत्य दुष्प्रकोपप्रचोदिताः ॥ ६५५ ॥  
 पापास्तुमुल्लुब्धेन कन्यामाहर्तुमुद्यताः । बुद्ध्या जीवन्धरस्तेषां वैषम्यं नयकोविदः ॥ ६५६ ॥  
 सत्यन्धरमहाराजसामन्ताद्यन्तिकं तदा । प्राहिणोदिति सन्दिप्ट्यान् दूतान् सोपायानाम् बहून् ॥ ६५७ ॥  
 अहं सत्यन्धराधीनाद्विजयायां सुतोऽभयम् । मत्पूर्वकृतदैवेन ताभ्यामुत्पस्यनन्तरम् ॥ ६५८ ॥  
 वियुक्तोऽस्मि वणिग्वर्यशरणे समवधिषि । काष्ठाङ्गारिकपापोऽयं काष्ठाङ्गारादिविक्रमात् ॥ ६५९ ॥  
 प्राणसन्धारणं कुर्वन्पुष्पहुवीभृता कृतः । द्वितीयप्रकृतिनीचो लब्धरन्ध्रो दुराशयः ॥ ६६० ॥  
 तमेबाहिरिवाहस्य स्वयं राज्ये व्यवस्थितः । उच्छेद्यो न ममैवास्तु शत्रुत्वाज्जवतामपि ॥ ६६१ ॥  
 रसातलं गतोऽप्यद्य भयावश्यं हनिष्यते । सत्यन्धरमहीशस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥ ६६२ ॥  
 यौधाः पुष्टा महामात्रास्तेनान्ये चानुर्जीविनः । कृतघ्नममुच्छेत्तुमर्हन्ति कृतवेदिनः ॥ ६६३ ॥

राजा उम कन्याके साथ विवाह करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥ ६४८ ॥ स्वयंवरके समय उस चन्द्रक यन्त्रके बंधनेमें अनेक राजा खलित हो गये—चूक गये । उन्हें देख, जीवन्धर कुमार उठे । सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर अपने गुरु आर्यवर्माकी विनय की और फिर जिस प्रकार बालसूर्य उदयाचलकी शिखरपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस चक्र पर आरूढ़ हो गये । उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी भूलके चन्द्रक-यन्त्रका बंध कर दिया । और दिशाओंके तट तक गूँजनेवाला सिंहनाद किया ॥ ६४९-६५१ ॥ उसी समय धनुष विद्याके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने अच्छा निशाना मारा और कन्या रत्नवर्तने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें माला पहिनाई ॥ ६५२ ॥ उस सभामें जो सज्जन पुरुष विद्यमान थे वे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि जिस प्रकार शरद् ऋतु और हंसावलीका समागम योग्य होता है उसी प्रकार इन दोनोंका समागम भी योग्य हुआ है ॥ ६५३ ॥ जो बुद्धिमान् मध्यम पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माओंकी विजय होती ही है इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ॥ ६५४ ॥ और जो काष्ठाङ्गारिक आदि नीच मनुष्य थे वे जीवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे अतः उस सब पराभवका स्मरण कर दुष्ट क्रोधसे प्रेरित हो रहे थे । वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा कन्याको हरण करनेका उद्यम करने लगे । नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह विषमता जान ली जिससे उन्होंने उसी समय भेंट लेकर तथा निम्नलिखित सन्देश देकर बहुतसे दूत सत्यन्धर महाराजके सामन्तोंके पास भेजे ॥ ६५५-६५७ ॥ 'मैं सत्यन्धर महाराजकी विजया रानीसे उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ । अपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे मैं उत्पन्न होनेके बाद ही अपने माता-पितासे वियुक्त होकर गन्धात्कट सेठके घरमें वृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ । यह पापी काष्ठाङ्गारिक काष्ठाङ्गार ( कोयला ) बेचकर अपनी आजीविका करता था परन्तु आपके महाराजने इसे मन्त्री बना लिया था । यह राजसी प्रकृति अत्यन्त नीच पुरुष है । छिद्र पाकर इस दुराशयने साँपकी तरह उन्हें मार दिया और स्वयं उनके राज्य पर आरूढ़ हो गया । यह न केवल मेरे ही द्वारा नष्ट करनेके योग्य है परन्तु शत्रु होनेसे आप लोगोंके द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य है । यदि आज यह रसातलमें भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायगा । आप लोग सत्यन्धर महाराजके सामन्त हैं, उनके भक्त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार हैं और कृतज्ञ हैं इसलिए आप तथा अन्य अनुजीवी लोग इस कृतघ्नको अवश्य ही नष्ट करें ॥ ६५८-६६३ ॥

ते तत्सन्देशसाकर्ण्यं कुमारोऽर्थं नृपाल्मजः । सत्यमेवेति सम्भाष्य बहवस्तेन सङ्गताः ॥ ६६४ ॥  
 ततः सङ्घट्टसैन्यः संस्तस्य गत्सोपरि स्वयम् । धुध्वा नानाप्रकारेण चिरं निजित्थ तद्वलम् ॥ ६६५ ॥  
 गिर्यन्तविजयं गन्धगजं समदमूजितम् । समारूढः प्ररूढाश्च काष्ठाङ्गारिकमुद्धतम् ॥ ६६६ ॥  
 उपर्यसन्नियोगाख्यविरुधातकरिणः स्थितम् । हत्वा चकार बक्रेण तनुद्योषं ह्वा द्विषम् ॥ ६६७ ॥  
 विलोक्य तद्वले भङ्गं भयादुपगते सति । तदाकार्षीत्समाश्रासं विधायाभयघोषणाम् ॥ ६६८ ॥  
 बन्धुन्सर्वांन् समाहूय <sup>१</sup> विनयेनवलोक्य तान् । तत्कालोचितसम्भाषणादिभिः ह्लादमानयत् ॥ ६६९ ॥  
 जिनपूजां विनिर्दूत्य कृतमङ्गलसक्तियः । यक्षेण भूभुजैः सर्वैश्चासराज्याभिषेचनः ॥ ६७० ॥  
 रत्नवत्या च सम्प्राप्य स विवाहमहोत्सवम् । कृत्वा गन्धर्वदत्ताया महत्याः पट्टबन्धनम् ॥ ६७१ ॥  
 बन्दाख्यादिसमानीतमानृजायादिविभुर्युतः । सम्प्राप्य परमैश्वर्यमूजितो निजितद्विषः ॥ ६७२ ॥  
 यथान्यार्थं प्रजाः सर्वाः पालयन्हेलयेप्सितान् । लीलयानुभवन् भोगान् स्वपुण्यफलितान् स्थितः ॥ ६७३ ॥  
 सुरादिमलयोधाने कदाचिद्विहरन् विभुः । बरधर्मयतिं दृष्ट्वा सम्प्राप्य विहितानतिः ॥ ६७४ ॥  
 ततस्तत्त्वं विदित्वातत्रतोऽभूद्दृशनेऽमलः । नन्दाख्याद्याश्च सम्यक्त्वव्रतशीलान्युपागमन् ॥ ६७५ ॥  
 एतैः सुखमसौ स्वासैः साकं कालमजीगमन् । अथाशोकवनेऽन्येद्युर्ध्वमानं परस्परम् ॥ ६७६ ॥  
 कपीनां यूथमालोक्य ज्वलत्कोधहुताशनम् । जानसंसारनिर्बेगस्तास्मिन्नैव वनान्तरे ॥ ६७७ ॥  
 प्रशस्तवङ्कनामानं चारणं वीक्ष्य सादरम् । पूर्वश्रुतानुसारेण श्रुतात्मभवसन्ततिः ॥ ६७८ ॥

सामन्त लोग जीवन्धर कुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपुत्र है । इस तरह सन्मान कर बहुतसे सामन्त उनके साथ आ मिले ॥ ६६४ ॥ तदनन्तर—अपनी सेना तैयार कर जीवन्धर कुमारने स्वयं ही उस पर चढ़ाई की और चिरकाज तक नाना प्रकारका युद्ध कर उसकी सेनाको हरा दिया ॥ ६६५ ॥ जीवन्धर कुमार, मदान्त तथा अतिशय बलवान् विजयगिरि नामक हाथी पर सवार थे और जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी हुई थी ऐसा उद्धत काष्ठाङ्गारिक अशनिबेग नामक प्रसिद्ध हाथी पर आरूढ़ था । जीवन्धर कुमारने क्रोधमें आकर चक्रसे शत्रु काष्ठाङ्गारिकको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे भागने लगी तब जीवन्धर कुमारने अभय घोषणा कर सबको आश्रासन दिया ॥ ६६६-६६८ ॥ तदनन्तर कुमारने अपने सब भाई-बन्धुओंको बुलाया और सबको नम्र देखकर उस कालके योग्य सम्भाषण आदिके द्वारा सबको हर्ष प्राप्त कराया ॥ ६६९ ॥ इसके बाद जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर उत्तम माङ्गलिक क्रियाएँ की गईं और फिर यक्ष तथा सब राजाओंने मिलकर जीवन्धर कुमारका राज्याभिषेक किया । तदनन्तर रत्नवतीके साथ विवाहका महोत्सव प्राप्त कर गन्धर्वदत्ताको महारानीका पट्टबन्ध बाँधा ॥ ६७०-६७१ ॥ नन्दाह्य आदि जाकर माता विजयाको तथा हेमाभा आदि अन्य स्त्रियोंको ले आये । उन सबके साथ जीवन्धर कुमार परम ऐश्वर्यको प्राप्त हुए । उस समय वे अतिशय बलवान् थे और जिसके समस्त शत्रु नष्ट कर दिये गये हैं ऐसी समस्त प्रजाका नीतिपूर्वक पालन करते थे । अपने पुण्यके फलस्वरूप अनायास ही प्राप्त हुए इष्ट भोगोंका लीलापूर्वक उपभोग करते हुए सुखसे रहते थे ॥ ६७२-६७३ ॥ किसी एक समय महाराज जीवन्धर सुरमलय नामक उद्यानमें विहार कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने बरधर्म नामक मुनिराजके दर्शन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तस्वोंका स्वरूप जाना और व्रत लेकर सम्यग्दर्शनको निर्मल किया । नन्दाह्य आदि भाइयोंने भी सम्यग्दर्शन व्रत और शील धारण किये । इस प्रकार जीवन्धर महाराज अपने इन आप्त जनोके साथ सुखसे समय बिताने लगे । तदनन्तर वे किसी एक दिन अशोक वनमें गये वहाँ पर जिनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी ऐसे दो बन्दराके झुण्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये । उसी वनके मध्यमें एक प्रशस्तवङ्क नामके चारण मुनि विराजमान थे इसलिए जीवन्धर महाराजने बड़े आदरसे उनके दर्शन किये और पहले सुने अनुसार अपने पूर्वभवोंकी परम्परा सुनी ॥ ६७४-६७८ ॥

जिनपूजां विधायानु वर्षमानविशुद्धिकः । सुरादिमलयोद्यानायानं वीरजिनेशितुः ॥ ६७९ ॥  
 श्रुत्वा विभूतिमद्रूक्षा सम्पूज्य परमेश्वरम् । महादेवीतनूजाय दत्त्वा राज्यं यथाविधि ॥ ६८० ॥  
 वसुन्धरकुमाराय वीतमोहो महामनाः । मातुलादिमहीपालैर्नन्दाद्वयमपुरादिभिः ॥ ६८१ ॥  
 सर्वसङ्गपरित्यागात्संयमं प्रत्यपद्यत । भुक्तभोगा हि निष्काङ्क्षा भवन्ति भुवनेश्वराः ॥ ६८२ ॥  
 सत्यन्धरमहादेव्या सहाष्टौ सदृशः स्तुथाः । सद्यो गन्धर्वदत्ताधास्तासामपि च मातरः ॥ ६८३ ॥  
 समीपे चन्दनार्याया जगृहुः संयमं परम् । महानेकोऽभवद्धेतुर्बहूनामर्थसिद्धये ॥ ६८४ ॥  
 भवता परिपृष्टोऽयं जीवन्धरमुनीश्वरः । महीयान् सुतपा राजन् सम्प्रति श्रतकेवली ॥ ६८५ ॥  
 घातिकर्माणि विध्वंस्य जनित्वा गृहकेवली । सार्धं विहृत्य तीर्थेशा तस्मिन्मुक्तिमधिष्ठिते ॥ ६८६ ॥  
 विपुलाद्रौ हतानेषकर्मा शमाश्रमैष्यति । इष्टाष्टगुणसम्पूर्णा निष्ठितात्मा निरञ्जनः ॥ ६८७ ॥  
 इत्याकर्ण्य सुधर्माख्यगणभृद्बचनामृतम् । प्रीतवान् श्रेणिकः कस्य न धर्मः प्रीतये भवेत् ॥ ६८८ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

अन्यैर्यः समवाप पूर्वसुकृतात्कन्याष्टकं दुर्लभं

यः शत्रुं पितृघातिनं रणमुखे लोकान्तरं प्रापयत् ।

यः प्रव्रज्य विभिन्नकर्मतिमिरोऽभासिष्ट मुक्तिभिया

तं वन्दे मुकुलीकृताञ्जलिरहं जीवन्धरं श्रीवहम् ॥ ६८९ ॥

### वसन्सतिलका

विश्लेष्य षोडशदिनानि स मन्दसान-

शावं विहाय करुणां विमतिः पितृभ्याम् ।

नदनन्तर उन्होंने जिन-पूजाकर अपनी विशुद्धता बढ़ाई फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री वीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, मुनते ही बड़े वैभवके साथ वहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी पूजा की और गन्धर्वदत्ता महादेवीके पुत्र वसुन्धर कुमारके लिये विधिपूर्वक राज्य दिया । जिनका माह शान्त हो गया है और जिनका मन अतिशय विशाल है ऐसे उन जीवन्धर महाराजने अपने मामा आदि राजाओं और नन्दाद्वय मधुर आदि भाइयोंके साथ सर्व परिग्रहका त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो राजा लोग भोग भोग चुकते हैं वे अन्तमें आकांक्षा रहित हो ही जाते हैं ॥ ६७९-६८२ ॥ सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ता आदि आठों रानियोंने तथा उन रानियोंकी माताओंने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी विजयाके साथ चन्दना आर्याके समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि एक ही बड़ा पुरुष अनेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है ॥ ६८३-६८४ ॥ सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन् ! तूने जिनके विषयमें पूछा था वे यही जीवन्धर मुनिराज हैं, ये बड़े तपस्वी हैं और इस समय श्रतकेवली हैं । घातिया कर्मोंको नष्ट कर ये अनगारकेवली होंगे और श्री महावीर भगवान्के साथ विहार कर उनके मोक्ष चले जानेके बाद विपुलाचल पर्वत पर समस्त कर्मोंको नष्ट कर मोक्षका उत्कृष्ट सुख प्राप्त करेंगे—वहाँ ये अष्टगुणोंने सम्पूर्ण, कृतकृत्य और निरञ्जन—कर्म-कालिमासे रहित हो जावेंगे ॥ ६८५-६८७ ॥ इस प्रकार सुधर्माचार्य गणधरके वचनामृतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि धर्म किसकी प्रीतिके लिए नहीं होता ? ॥ ६८८ ॥ जिन्होंने पूर्व पुण्य कर्मके उदयसे अन्य लोगोंको दुर्लभ आठ कन्याएँ प्राप्त कीं, जिन्होंने पिताका घात करने वाले शत्रुको युद्धमें परलोक पहुँचाया, जिन्होंने दीक्षा लेकर कर्म रूपी अन्धकारको नष्ट किया और जो मुक्ति रूपी लक्ष्मीसे सुशोभित हुए ऐसे लक्ष्मीपति श्री जीवन्धर स्वामीको मैं हाथ जोड़कर

सम्प्राप्य चोद्धातमाः ३ स्वसनाभिभेदं

जीवन्धरः कुरुत तद्दुरितं न भव्याः ॥ ६९० ॥

### मालिनी

क ख पितृदुपमृत्युः क श्मशाने प्रसूति-  
वर्णिगुपगमनं क क स्ववक्षोपकारः ।

क तद्दुदयविधानं शत्रुघातः क चित्रम्  
विधिविलसितमेतत्पत्रय जीवन्धरेऽस्मिन् ॥ ६९१ ॥

इत्यार्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्दनार्यिका-  
जीवन्धरचरितं नाम पञ्चसप्ततितमं पर्व ॥ ७५ ॥

—:ॐ०ॐ:—

नमस्कार करता हूँ ॥ ६८६ ॥ जीवन्धर कुमारने पूर्वभवमें मूर्खतासे दयाको दूर कर हंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे अलग रक्खा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना पड़ा था अतः हे भव्य जनो ! पापको दूरसे ही छोड़ो ॥ ६९० ॥ देखो, कहीं तो पिता राजा सत्यन्धरकी मृत्यु, कहीं श्मशानमें जन्म लेना, कहीं वैश्यके घर जाकर पलना, कहीं अपने द्वारा यत्तका उपकार होना, कहीं वह अभ्युदयकी प्राप्ति, और कहीं शत्रुका घात करना । इन जीवन्धर महाराजमें ही यह विचित्र कर्मका विपाक है ॥ ६९१ ॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें चन्दना आर्यिका और जीवन्धर स्वामीका चरित वर्णन करनेवाला यह पचहत्तरवाँ पर्व पूर्ण हुआ ।

—:ॐ०ॐ:—

## षट्सप्ततितमं पर्व

अथान्येषु महावीरः सुरासुरपरिष्कृतः । विहस्य विविधान् देशान् पुनस्तत्पुरमागतः ॥ १ ॥  
 गणैर्द्वादशभिः पूज्यः स्थितः स विपुलाचले । गच्छंस्तं श्रेणिकः स्तोतुं वृक्षमूलशिकारिके ॥ २ ॥  
 मुनिं धर्मरुचिं नाम्ना निस्तरङ्गमिषोदधिम् । प्रदीपमिव निष्कम्पं साम्बुं वाम्भोवमुच्चतम् ॥ ३ ॥  
 त्रितेन्द्रियसमाहारं पर्यङ्कविहितासनम् । ईषद्विरुद्धनिःवासं मनाङ्गमीकितलोचनम् ॥ ४ ॥  
 ध्यायन्तं वीक्ष्य धन्दिन्वा साक्षाद्गो विकृताननात् । ततो गत्वा विनं प्राप्य स्तुत्वा मुकुटिवाश्रुतिः ॥ ५ ॥  
 गौतमश्च मया दृष्टः कश्चिदेकस्तपोधनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तद्रूपेण व्यवस्थिता ॥ ६ ॥  
 स को मे कौतुकं तस्मिन् ब्रूहि नायेत्यभाषत । अनुयुक्तो गणी तेन प्रोवाच वचसां पतिः ॥ ७ ॥  
 अस्यत्र विषयोऽङ्गाख्यः सङ्गतः सर्ववस्तुभिः । नगरी तत्र चम्पाख्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥ ८ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं जिनादस्मान्निर्वेगाहिताशयः । राज्यभारं समारोप्य सुते विमलवाहने ॥ ९ ॥  
 संयमं बहुभिः सार्धमनैव प्रतिपन्नवान् । चिरं मुनिगणैः साकं विहृत्याखण्डसंयमः ॥ १० ॥  
 धर्मेषु रुचिमातन्वन् दशस्वप्यनिर्गमैः । प्राप्तधर्मरुचिक्रियातिः सख्यं यत्सर्वजन्तुषु ॥ ११ ॥  
 अथ मासोपवासान्ते भिक्षार्थं प्राविशत्पुरम् । पुरुषाः संज्ञतास्तत्र तत्समीपमितालयः ॥ १२ ॥  
 नरलक्षणशास्त्रज्ञस्तेष्वेको वीक्ष्य सं मुनिम् । लक्षणान्यस्य साम्राज्यपदवीप्राप्तिहेतवः ॥ १३ ॥

अथानन्तर—सुर-असुरोंसे विरे हुए भगवान् महावीर अनेक देशोंमें विहार कर किसी दिन फिर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे ॥ १ ॥ बारह सभाश्रमोंसे पूज्य वे भगवान् विपुलाचल पर्वत पर विराजमान हुए । राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक वृक्षके नीचे शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नामके मुनिराजको देखा । वे मुनिराज निस्तरङ्ग समुद्रके समान निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे और जल सहित मेघके समान उन्नत थे, उन्होंने इन्द्रियोंके व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यङ्कासनसे विराजमान थे, आसोच्छ्वासको उन्होंने थोड़ा रोक रक्खा था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे ॥ २-४ ॥ इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर श्रेणिकने उनकी घन्दना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विकृत हो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रेणिकको कुछ शङ्का उत्पन्न हो गई । वहाँसे चलकर वह भगवान् महावीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा । वहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर गौतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभो ! मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं वे ऐसा ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप धारण कर साक्षात् ध्यान ही विराजमान हो । हे नाथ ! वे कौन हैं ? यह जाननेका मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है सो कृपा कर कहिये । इस प्रकार राजा श्रेणिकके द्वारा पूछे जाने पर वचनोंके स्वामी श्रीगणधर भगवान् इस प्रकार कहने लगे ॥ ५-७ ॥

इसी भरत क्षेत्रके अङ्ग देशमें सर्व वस्तुओंसे सहित एक चम्पा नामकी नगरी है । उसमें राजा श्वेतवाहन राज्य करता था । इन्हीं भगवान् महावीर स्वामीसे धर्मका स्वरूप सुनकर उसका चित्त तीनों प्रकारके वैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर बहुत लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया । बहुत दिन तक मुनियोंके समूहके साथ विहारकर अखण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ आ विराजमान हुए हैं । ये दश धर्मोंमें सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगोंके द्वारा धर्मरुचिके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जो सर्व जीवोंमें होती है ॥ ८-११ ॥ आज ये मुनि एक महीनेके उपवासके बाद नगरमें भिक्षाके लिए गये थे वहाँ तीन मनुष्य मिलकर इनके पास आये । उनमें एक मनुष्य मनुष्योंके लक्षण शास्त्रका जानकार था, उसने इन मुनिराजको देखकर कहा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पदवीके कारण हैं परन्तु ये भिक्षाके लिए भटकते फिरते हैं इसलिएशास्त्रमें जो कहा है वह

अट्येष च भिक्षायै शास्त्रोक्तं तन्मृतेत्यसौ । वदन्निहितोऽन्वेन न कृत्वा शास्त्रभाषितम् ॥ १४ ॥  
 त्यक्तसाम्राज्यतन्त्रोऽथमृषिः केनापि हेतुना । निर्विण्णस्तनये बाले निवाय ध्यापृतिं विजाम् ॥ १५ ॥  
 एवं तपः करोतीति श्रुत्वा तद्बचनं परं । अशोभन्निग्रहनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥ १६ ॥  
 दुरात्मनः कृपां हित्वा बालं तमसमर्थकम् । लोकसंभ्यबहाराजं स्थापयित्वा १ परातले ॥ १७ ॥  
 स्वयं स्वार्थं समुद्दिश्य तपः कर्तुमिहागतः । मन्त्रिप्रवृत्तिभिः सर्वैः कृत्वा तं मृदुकामकृतम् ॥ १८ ॥  
 राज्यं विभज्य तत्सर्वैर्वापैस्तादनुभूयते । इति तद्बचनं श्रुत्वा खेदमानप्रचोदितः ॥ १९ ॥  
 अशुभानः पुरादाशु निवृत्तैव वनान्तरे । वृक्षमूलं समाजित्य बाह्यकारणसन्निधौ ॥ २० ॥  
 अन्तःक्रोधकषायानुवागोप्रत्यर्धकोदयात् । संक्षेपाश्ववसानेन वर्षमानभिकेवचकः ॥ २१ ॥  
 मन्व्यादिप्रतिष्कृतेषु हिंसाद्यलिलनिग्रहान् । ध्यायन् संरक्षणानन्दरीप्रधानं प्रविष्टवान् ॥ २२ ॥  
 अतः परं मुहुर्तं वेदेवनेव स्थितिं भजेत् । आयुषो नारकस्यापि प्राचोम्बोऽथ भविष्यति ॥ २३ ॥  
 ततस्त्वयाशु सम्बोध्यो ध्यानप्रेतस्यजाशुभम् । समयं क्रोधदुर्वृत्तिं मोहजालं निराकुरु ॥ २४ ॥  
 गृहाण संयमं त्यक्तं पुनस्त्वं मुक्तिसाधनम् । दारदारकवन्धादिसम्बन्धनमकन्धुरम् ॥ २५ ॥  
 संसारवर्धनं साधो जह्मीहीत्येवमादिभिः । युक्तिमन्निर्वचोभिः क्षप्रत्ववस्थानमाश्रुवान् ॥ २६ ॥  
 शुक्लध्यानाग्निदिग्ध्यातिकात्मवचनैः । नवकेवलकल्बीदशुद्धभाषो भविष्यति ॥ २७ ॥  
 इत्यसौ च गणाधीशवचनान्मगधाधिषः । गत्वा तद्गुक्तमार्गेण सद्यः प्रासादयन्मुनिम् ॥ २८ ॥  
 सोऽपि सम्प्राप्य सामग्रीं कषायक्षयक्षान्तिजाम् । द्वितीयशुक्लध्यानेन कैवल्यमुदपादयत् ॥ २९ ॥

भूठ मालूम होता है। इसके उत्तरमें दूसरे मनुष्यने कहा कि शास्त्रमें जो कहा गया है वह भूठ नहीं है। ये साम्राज्य तन्त्रका त्यागकर ऋषि हो गये हैं। किसी कारणसे विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्यका भार बाह्य-छोटे ही वयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है और स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण कर रहे हैं। इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि 'इसका तप पापका कारण है अतः इससे क्या लाभ है? यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर लोक-व्यवहारसे अनभिज्ञ असमर्थ बालकको राज्यभार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए यहाँ तप करनेके लिए आया है। मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बँध रक्खा है और राज्यका विभागकर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं'। तीसरे मनुष्य के उक्त वचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह और मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये बिना ही नगरसे लौटकर वनके मध्यमें वृक्षके नीचे आ बैठे हैं ॥ १२-२० ॥ बाह्य कारणोंके मिलनेसे उनके अन्तःकरणमें तीव्र अनुभागवाले क्रोध कषायके स्पर्धकोंका उदय हो रहा है। संक्लेशरूप परिणामोंसे उनके तीन अशुभलेश्याओंकी वृद्धि हो रही है। जो मन्त्री आदि प्रतिकूल हो गये हैं उनमें हिंसा आदि सर्व प्रकारके निग्रहोंका चिन्तन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रौद्र ध्यानमें प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि अब आगे अन्तर्मुहूर्त तक उनकी ऐसी ही स्थिति रही तो वे नरक आयुका बन्ध करनेके योग्य हो जायेंगे ॥ २१-२३ ॥ इसलिए हे श्रेणिक! तू शीघ्र ही जाकर उसे समझा दे और कह दे कि हे साधो! शीघ्र ही यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अग्निको शान्त करो, मोहके जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रक्खा है उसे फिरसे ग्रहण करो, यह स्त्री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोह है तथा संसारका बदानेवाला है। इत्यादि युक्ति पूर्ण वचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर। तेरे उपदेशसे वे पुनः स्वरूपमें स्थित होकर शुक्ल ध्यानरूपी अग्निके द्वारा चातिया कर्मरूपी सघन अटवीको भस्म कर देंगे और नव केवललब्धियोंसे देदीप्यमान शुद्ध स्वभावके धारक हो जायेंगे ॥ २४-२७ ॥ गणधर महाराजके उक्त वचन सुनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिके पास गया और उनके बताये हुए मार्गसे उन्हें प्रसन्न कर आया ॥ २८ ॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके भयसे उत्पन्न होनेवाली शान्तिसे उत्पन्न होनेवाली सामग्री प्राप्तकर द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा कैवल्यज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥ २९ ॥



तदा पूजं समावातैः श्रेणिको कृत्वादिभिः । सह धर्मरुचैः कृत्वा पुनर्वीरं समाहितः ॥ ३० ॥  
 भरते कोऽत्र परममत्तः स्तुरयः केवलधीक्षणः । इत्यग्राहीहणी धैवं विवक्षुरभवादा ॥ ३१ ॥  
 महाकल्पाचिषो ब्रह्महृत्पात्पविमानवः । विद्युन्माली उवलन्मौलिः श्रियस्वाद्युक्तिदर्शने ॥ ३२ ॥  
 विद्युदादिप्रभाभेगे श्रेणोऽन्वयात्वात्प तद्वतः । जिनमागत्य वन्दित्वा यथास्थानमुपाविशत् ॥ ३३ ॥  
 तं निरुन्म परिच्छेदोऽमेव स्वात्केवलकृतैः । सत्कथञ्चेहृदिय्यामि दिनेऽस्मात्सप्तमे दिनात् ॥ ३४ ॥  
 ब्रह्मेन्द्रोऽयं दिवोऽन्वेत्य पुरेऽस्मिन्नेव धारणम् । क्षरः शाकित्वनं निर्धुमानकं प्रज्वलन्किलम् ॥ ३५ ॥  
 कुकुमारसमाधीपमानवन्धुकाभिः च । स्वमानेतान् पुरः कुर्वन्नेहृदासामिषानकात् ॥ ३६ ॥  
 इन्वात्कृती सुतो भावी जिनदास्यां महामुक्तिः । जन्मवाक्योऽनावृताद्देवादत्तपूजोऽतिविश्रुतः ॥ ३७ ॥  
 विनीतो यौवनरश्मेऽन्वयाविष्कृतविक्रियः । वीरः परवापुरे तस्मिन् काले प्राप्स्यति निर्हुक्तिम् ॥ ३८ ॥  
 तद्वैवाहमपि प्राप्य बोधं केवलसन्धकम् । सुवर्माख्यगणेशोम सार्धं संसारवह्निना ॥ ३९ ॥  
 करिष्यन्नित्तसामां क्लृप्तं धर्मावृताम्बुना । इदमेव पुरं भूयः सप्रान्यात्रैव भूधरे ॥ ४० ॥  
 स्थास्थान्मेलत्समाकर्ण्य कुणिकञ्जेलिनीसुतः । तत्पुराधिपतिः सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४१ ॥  
 आगत्यान्वर्षं वन्दित्वा श्रुत्वा धर्मं ग्रीह्यति । दानशीलोपवासादि साधनं स्वर्गमोक्षयोः ॥ ४२ ॥  
 जन्मसमापि निर्बेदात्प्रब्रज्यामहणोस्तुकः । सहैवाक्येषु वर्षेषु व्यतीतेषु वर्षं त्वया ॥ ४३ ॥  
 सर्वे दीक्षां ग्रीह्यन्म इति बन्धुजनोदितम् । सोऽशक्रुवन्निराकर्तुमायास्यति पुरं तदा ॥ ४४ ॥  
 मोहं विविक्षुभिस्तस्य बन्धुभिः सुखबन्धनः । आरप्स्यते विवाहस्तैः श्रेयो विन्ना हि बन्धवः ॥ ४५ ॥

उसी समय इन्द्र आदि देव उन धर्मरुचि केवलीकी पूजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिकने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की और फिर वह भगवान् वीरनाथके पास आया ॥ ३० ॥ आते ही उसने गणधर स्वामीसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरतक्षेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवलज्ञानी कौन होगा ? इसके उत्तरमें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहाँ देदीप्यमान मुकुटका धारक विद्युन्माला नामका ब्रह्मस्वर्गका इन्द्र आ पहुँचा, वह इन्द्र ब्रह्महृदय नामक विमानमें उत्पन्न हुआ था, श्रियदर्शना, सुदर्शना, विद्युद्देगा और प्रभावेगा ये चार उसकी देवियाँ थीं, उन सभीके साथ वह वहाँ आया था । आकर उसने जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना की । तदनन्तर यथास्थान बैठ गया । उसकी ओर दृष्टिपातकर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवलज्ञानका विच्छेद हो जायगा अर्थात् इसके बाद फिर कोई केवलज्ञानी नहीं होगा । वह किस प्रकार होगा यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, सुन । आजसे सातवें दिन यह ब्रह्मेन्द्र, स्वर्गसे च्युत होकर इसी नगरके सेठ अर्हदासकी स्त्री जिनदासीके गर्भमें आवेगा । गर्भमें आनेके पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी—हाथी, सरोवर, चाबलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही है ऐसी धूम रहित अग्नि और देव-कुमारोंके द्वारा लाये हुए जामुनके फल । यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और कान्तिमान् होगा, जन्मूकुमार इसका नाम होगा, अनावृत देव उसकी पूजा करेगा, वह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, और यौवनके प्रारम्भसे ही वह विकारसे रहित होगा । जिस समय भगवान् महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवलज्ञान प्राप्त होगा । तदनन्तर सुधर्माचार्य गणधरके साथ संसार रूपी अग्निसे संतप्त हुए पुरुषोंको धर्माभूत रूपी जलसे आनन्दित करता हुआ मैं फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पर्वत पर स्थित होऊँगा । मेरे आनेका समाचार सुनकर इस नगरका राजा चेलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ आवेगा और पूजा वन्दना कर तथा धर्मका स्वरूप सुनकर स्वर्ग और मौक्षका साधनभूत दान, शीलौपवास आदि धारण करेगा ॥ ३१-४२ ॥ उसी समय जन्मूकुमार भी विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करनेके लिए उत्सुक होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे समझावेंगे कि थोड़े ही वर्षोंके व्यतीत होनेपर हम लोग भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा धारण करेंगे । भाई-बन्धुओंके इस कथनको वह टाल नहीं सकेगा और उस समय पुनः नगरमें वापिस आ जावेगा । तदनन्तर भाई-बन्धु लोग उसे मोहमें

सुता सागरदत्तस्य पद्मावत्यां सुलक्षणा । पद्मश्रीरपरा श्रीर्वा कनकश्रीः सुमेक्षणा ॥ ४६ ॥  
 सुता कुबेरदत्तस्य जाता कनकमालया । वीक्ष्या विनयवत्याश्च या वैश्रवणदत्तजा ॥ ४७ ॥  
 विनयश्री रैदरास्य रूपश्रीश्च धनश्रियः । आभिः सागरदत्तादिपुत्रिकाभिर्यथाविधि ॥ ४८ ॥  
 सौभाग्ये निरस्ताम्भकारे सम्मणिदीप्तिभिः । विचित्ररत्नसङ्गर्भरङ्गवल्लीविभूषिते ॥ ४९ ॥  
 नानासुरभिपुष्पोपहाराब्जे अगतीतले । स्थास्यत्यासविवाहोऽयं पाणिग्रहणपूर्वकम् ॥ ५० ॥  
 सुतो समार्थ रागेण प्रेरितो विकृतिं भजत् । स्मितहासकटाक्षेक्षणादिमान्नि भवेद्य वा ॥ ५१ ॥  
 इत्यात्मानं तिरोधाय पद्मवन्ती स्थास्यति स्त्रिया । माता तस्य तद्वैकः पाणिपुः प्रथमांशकः ॥ ५२ ॥  
 सुरस्यविषये क्वातपौदनास्यपुरेशिनः । विद्युद्वाजस्य तुविद्युत्प्रभो नाम 'मटाप्रणीः ॥ ५३ ॥  
 तीक्ष्णो विमलवत्याश्च क्रुधा केनापि हेतुना । निजाप्रजाय निर्गत्य तस्मात्पञ्चशतैर्भटैः ॥ ५४ ॥  
 विद्युत्पोराङ्गुयं क्लृवा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम् । जानन्नदृश्यदेहत्वकवाटोद्घाटनाविकम् ॥ ५५ ॥  
 चोरशास्त्रोपदेशेन तन्मन्त्रविधानतः । अर्हद्दासगृहाभ्यन्तरस्थं चोरयितुं धनम् ॥ ५६ ॥  
 प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां जिनदासीं विलोक्य सः । निवेद्यात्मानमेवं किं विनिद्रासीति वक्ष्यति ॥ ५७ ॥  
 सूनुर्मसैक एवायं प्रातरेव तपोवनम् । अहं 'गमीति सङ्कल्प्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥ ५८ ॥  
 धीमानसि यदीमं त्वं व्यावयस्वाग्रहासतः । उपायैरथ ते सर्वं धनं दास्याम्यभीप्सितम् ॥ ५९ ॥  
 इति वक्त्रा भवेत्सापि सोऽपि सम्प्रतिपद्य तत् । एवं सम्पन्नभोगोऽपि किंलैष विरिरंसति ॥ ६० ॥

फँसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो ठीक ही है क्योंकि भाई-बन्धु लोग कल्याणमें विघ्न करते ही हैं ॥ ४३-४५ ॥ इसी नगरमें सागरदत्त सेठकी पद्मावती स्त्रीसे उत्पन्न हुई उत्तम लक्ष्णोंवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती है । इसी प्रकार कुबेरदत्त सेठकी कनकमाला स्त्रीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रोंवाली कनकश्री नामकी कन्या है । इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठकी विनयवती स्त्रीसे उत्पन्न हुई देखनेके योग्य विनयश्री नामकी पुत्री है और इसके सिवाय धनदत्त सेठकी धनश्री स्त्रीसे उत्पन्न हुई रूपश्री नामकी कन्या है । इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा । तदनन्तर पाणिग्रहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मणिमय दीपकोंके द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूर्णसे निर्मित रङ्गावलीसे सुशोभित हैं और अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोंके उपहारसे सहित हैं ऐसे महलके भीतर पृथिवी तलपर बैठेगा । 'मेरा यह पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावको प्राप्त होता हुआ मन्द मुसकान तथा कटाक्षावलोकन आदिसे युक्त होता है या नहीं' यह देखनेके लिए उसकी माता स्नेह वश अपने आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी । उसी समय सुरस्य देशके प्रसिद्ध पौदनपुर नगरके स्वामी विद्युद्वाजकी रानी विमलमतासे उत्पन्न हुआ विद्युत्प्रभ नामका चोर आवेगा । वह विद्युत्प्रभ महापापी तथा नम्बर एकका चोर होगा, शूरवीरोंमें अमेसर तथा तीक्ष्ण प्रकृतिका होगा । वह किसी कारण वश अपने बड़े भाईसे कुपित होकर पाँच-सौ योद्धाओंके साथ नगरसे निकलेगा और विद्युत्चोर नाम रखकर इस नगरीमें आवेगा । वह चोर शास्त्रके अनुसार तन्त्र-मन्त्रके विधानसे अदृश्य होकर किञ्चाड़ खोलना आदि सब कार्योंका जानकार होगा और सेठ अर्हद्दासके घरके भीतर रखे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके घर आवेगा । वहाँ जम्बूकुमारकी माताको निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा और कहेगा कि तू इतनी रात तक क्यों जाग रही है ? ॥ ४६-५७ ॥ इसके उत्तरमें जिनदासी कहेगी कि 'मेरे यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सबेरे ही दीक्षा लेनेके लिए तपोवनको चला जाऊँगा' इसीलिए मुझे शोक हो रहा है । यदि तू बुद्धिमान् है और किन्हीं उपायोंसे इसे इस आग्रहसे छुड़ाता है—इसका दीक्षा लेनेका आग्रह दूर करता है तो आज मैं तुम्हें तेरा मनचाहा सब धन दे दूँगी । जिनदासीकी बात सुनकर विद्युत्चोरने यह कार्य करना स्वीकृत किया । तदनन्तर

विष्णुं धनमिहाहृतं प्रविष्टमिति निन्दनम् । स्वस्व कुर्वन्गताशङ्कः सम्प्राप्यानु तदन्तिकम् ॥ ६१ ॥  
 कन्यकानां कुमारं तं तासां मध्यमविष्टितम् । विजम्भमाणसद्बुद्धिं पञ्जरस्थमिवाण्डजम् ॥ ६२ ॥  
 जालकमनैजपोतं वा भद्रं वा कुञ्जराधिपम् । अपारकर्मै मग्नं सिंहं वा लोहपञ्जरे ॥ ६३ ॥  
 निरुद्धं लुब्धनिर्बेगं प्रत्यासन्नभवक्षयम् । विद्युच्चोरः सर्माक्षयैवं वक्तोद्ग्राह्यानकं सुधीः ॥ ६४ ॥  
 कुमारः धूयतां कश्चिदेकदा स्वेच्छया चरन् । गिरेः क्रमेणकः स्वाद्गुं नृणं तुङ्गात्प्रदेशतः ॥ ६५ ॥  
 पतन्मञ्जुरसोन्मिश्रमान्वाद्य सकृदुत्सुकः । ताडगोवाहरिव्यामीत्येतत्पातामिवाञ्छया ॥ ६६ ॥  
 नृणांन्तरोपयोगादिपराङ्मुखतया स्थितः । मृतस्तथैव त्वं कैतान् भोगान् भोक्तुमुपस्थितान् ॥ ६७ ॥  
 अनिच्छन् स्वर्गभोगार्थी भविता रहितो धिया । इत्यैकागारिकप्रोक्तं तदाकर्ण्य घर्षणवरः ॥ ६८ ॥  
 प्रतिवक्त्रा स तं चोरं स्पष्टदृष्टान्तपूर्वकम् । नरः कश्चिन्महादाहज्वरेण परिपीडितः ॥ ६९ ॥  
 नदीसरस्तटाकादिपथः पीत्वा मुहुर्मुहुः । तथाप्यगततृष्णः किं नृणांस्थान्मुविन्दुना ॥ ७० ॥  
 नृसिं प्राप्नोत्यसौ वार्यं जीवो दिव्यसुखं चिरम् । भुक्त्वाऽप्रतृप्तः स्वप्नेऽपि गजक्रगांस्थिरात्मना ॥ ७१ ॥  
 सुखेनासाधुनानेन कथं तृप्तमवाप्नुयात् । इति तद्वाचमाकर्ण्य चोरोऽनुग्याहरिष्यति ॥ ७२ ॥  
 घने वनेचरश्चण्डः कृत्वाधारं महाद्रुमम् । गण्डान्ताकृष्टकोदण्डः काण्डेनाखण्ड्य वारणम् ॥ ७३ ॥  
 महीरुट्कोटरस्थेन सन्दष्टः फणिना स्वयम् । स चाहिन्व गजश्चाज्ञो गत्यन्तरमजीगमत् ॥ ७४ ॥  
 अथ सर्वान् मृतान् दृष्ट्वा १ तान्कोट्टेकोऽतिलुब्धकः । तावदेतानहं नाभि ज्ञायुं भौर्वीह्याम्रगम् ॥ ७५ ॥

वह विचार करने लगा कि देखो यह जम्बूकुमार सब प्रकारकी भोग-सामग्री रहते हुए भी विरक्त होना चाहते हैं और मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुझे धिक्कार हो । इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्युच्चोर निःशङ्क होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हुए जीवन्धर कुमारके समीप पहुँचेगा । उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसा जम्बूकुमार, उन कन्याओंके बीचमें बैठा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो पिंजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो अथवा जालमें फँसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़में फँसा हुआ उत्तम जातिवाला गजराज ही हो, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हुआ सिंह ही हो । वह अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार भ्रमणका ज्ञय अत्यन्त निकट था । ऐसे उस जम्बूकुमारको देखकर बुद्धिमान् विद्युच्चोर ऊँटकी कथा कहेगा ॥ ५५-६४ ॥ वह कहेगा कि हे कुमार ! सुनिये, किसी समय कोई एक ऊँट स्वेच्छासे मीठे तृण चरता हुआ पहाड़के निकट जा पहुँचा । जहाँ वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पड़ते हुए मधुके रससे मिल जानेके कारण मीठी हो रहा थी । उस ऊँटने एक बार वह मीठी घास खाई तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी ही घास खाऊँगा । इस संकल्पसे वह मधुके पड़नेकी इच्छा करने लगा तथा दूसरी घासके उपभाग आदिसे विरक्त होकर वहीं बैठा रहा तदनन्तर भूखसे पीड़ित हो मर गया । इसी प्रकार हे कुमार ! तू भी इन उपस्थित भोगोंकी उपेक्षा कर स्वर्गके भोगोंकी इच्छा करता है सो तू भी उसी ऊँटके समान बुद्धिसे रहित है । इस प्रकार विद्युच्चोरके द्वारा कही हुई ऊँटकी कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले ज्वरसे पीड़ित था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका जल बार-बार पिया था तो भी उसकी व्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या तृणके अम्रभाग पर स्थित जलकी बूँदसे उसकी तृप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोगे हैं फिर भी यह तृप्त नहीं हुआ सो क्या हाथीके कानके समान चञ्चल इस वर्तमान सुखसे यह तृप्त हो जावेगा ? इस प्रकार जम्बूकुमारके वचन सुनकर विद्युच्चोर फिर कहेगा ॥ ६५-७२ ॥ कि किसी वनमें एक चण्ड नामका भील रहता था । उसने एक बड़े घृक्षको आधार बनाकर अर्थात् उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथीको मार गिराया । इतनेमें ही उस घृक्षकी कोटरसे निकल कर एक साँपने उसे काट खायो । काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस साँपको भी मार डाला । इस तरह हाथी और साँप दोनोंको मारकर वह स्वयं मर गया । तदनन्तर उन

खाद्यामीति कृतोऽजोगस्तच्छेदमकरोद्विभीः । सप्तभाषाप्रनिमित्तगणः क्षोऽपि हृथा हृतः ॥ ७९ ॥  
 ततोऽतिवृथुता त्वाभ्येत्यस्तोकिविरती सुधीः । कुमारः त्पुतिमावाच स्रुप्तं १ प्रथमिवास्वते ॥ ७७ ॥  
 चतुर्मांसमाशोरादेसमभ्ये महाद्युतिम् । स्वरामि समभ्येत्वं सुग्रहं यथिको विधीः ॥ ७८ ॥  
 तदानादाय केवपि हेतुणा गतयत्पुनः । समदित्सुस्तमागत्य किं तद्देशं कमेत सः ॥ ७९ ॥  
 तथा दुष्प्रापमाळोच्य गुणमागिन्यसञ्जयम् । अस्वीकुर्वन् कथं पञ्चात्मानुपयज्ञध्वरिभौ ॥ ८० ॥  
 तदुदीरितमेतस्य कृत्वा चित्ते परस्वहृत् । वविष्यति तदाक्याममम्यदन्वायसुखवन् ॥ ८१ ॥  
 शनाकः कश्चिदस्वत्वं मांसपिण्डं विवृष्टवाप् । संकीडमानमीनादानेषुमिषिततोऽम्यसि ॥ ८२ ॥  
 तद्देमवत्प्रवाहेण प्रेवंमाणोऽममन्वृत्तिम् । ततो मीनोऽपि दीर्घानुर्जकमभ्ये स्थितः सुखम् ॥ ८३ ॥  
 एवं शृगालकक्षुभ्यो सुग्धोऽप्योऽपि विनयति । इति तस्करसुक्नोकिमाकर्णानाकुलात्मकः ॥ ८४ ॥  
 प्रत्यासक्तग्निनेत्रवाद्भ्यः प्रतिभमिष्यति । निद्रालुको बजिकश्चिद्रासुखविमोहितः ॥ ८५ ॥  
 सुप्तः पशार्थमागिष्यगर्भकक्षुपुटे निजे । चौरैरपहतोऽनेन दुःखेनाकृत दुर्मुक्तिः ॥ ८६ ॥  
 विषयात्पसुलेष्वेवं संसक्तो १ रागचोर्कैः । ज्ञानदर्शनचारित्ररनेष्वपहृतेष्वप्यम् ॥ ८७ ॥  
 जम्भी नश्यति निर्मुक्तमित्ततः स गविष्यति । स्वमातुलानीतुर्वाभ्यकोपालकश्चिन्सुसुर्गकम् ॥ ८८ ॥  
 कुशमूढे स्थितां धीक्य सर्वाभरणभूषिताम् । अज्ञातोऽहन्धनोपायामाकुलाकुचैतसम् ॥ ८९ ॥  
 ३ सुवर्णदाकको वाम परपी मारुत्तिकस्तदा । तदाभरणमादित्सुर्ददत्तं स्वं तरोरथः ॥ ९० ॥

सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदड़ आया । वह सोचने लगा कि मैं पहले इन सबको नहीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों छोड़ पर लगी हुई ताँतको खाता हूँ । ऐसा विचार कर उस मूर्खने ताँतको काटा ही था कि उसी समय धनुषके अग्रभागसे उसका गला फट गया और वह व्यर्थ ही मर गया । इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार कहकर जब चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान् जम्बुकुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा ॥ ७३-७७ ॥ कि कोई मूर्ख पथिक कहीं जा रहा था उसे चौराहे पर महा देवीप्यमान रत्नोंकी राशि मिली, उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ले सकता था परन्तु किसी कारणवश उसे बचना लिये ही चला गया । फिर कुछ समय बाद उसे लेनेकी इच्छा करता हुआ उस चौराहे पर आया सो क्या वह उस रत्नराशिकी पा सकेगा ? अर्थात् नहीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्रमें दुर्लभ गुण रूपी मणियोंके समूहको पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता है सो क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा ? अर्थात् नहीं पा सकेगा ॥ ७८-८० ॥ जम्बुकुमारके द्वारा कही हुई बातको हृदयमें रखकर विद्युच्चोर अन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कहेगा ॥ ८१ ॥ वह कहेगा कि एक शृगाल मुखमें मांसका टुकड़ा दाबकर पानीमें जा रहा था वहाँ क्रीड़ा करती हुई मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उसने वह मांसका टुकड़ा छोड़ दिया और पानीमें कूद पड़ा । पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः वह उसीमें बह कर मर गया उसके मरनेके बाद दीर्घायु मछली पानीमें सुखसे रहने लगी । इसी प्रकार जो मूर्ख, शृगालके समान लोभी होता है वह अवश्य ही नष्ट होता है । इस तरह विद्युच्चोर की बात सुनकर निकट भय्य होनेके कारण जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई है ऐसा जम्बुकुमार कहेगा कि निद्रालु प्रकृतिका एक वैश्य नींदके सुखसे विमोहित होकर सो गया और चौरोंने उसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिये । इसी दुःखसे वह मर गया । इसी प्रकारभयह जीव विषयजन्य थोड़ेसे सुखोंमें आसक्त हो रहा है और राग रूपी चोर इसके ज्ञान-दर्शन तथा चारित्र रूपी रत्न चुरा रहे हैं । इन रत्नोंकी चोरी होने पर यह जीव निर्मूल नष्ट हो जाता है । इसके उत्तरमें वह चोर कहेगा कि कोई स्त्री सासुके दुर्बचन सुनकर क्रोधित हुई और मरनेकी इच्छासे किसी वृक्षके नीचे जा बैठी । वह सब आभूषणोंसे सुशोभित थी परन्तु फाँसी लगान्न नहीं जानती थी इसलिए उसका चित्त बड़ा ही व्याकुल हो रहा था ॥ ८२-८६ ॥ उसी समय सुवर्णदारक नामका मुदङ्ग बजानेवाला

स्थापयित्वा समस्तान् स्वयमेव ह्यनयोः शरणागतः । उद्वेगवन्तस्तस्मात् सर्वेषु च तन्वुचोदितः ॥ ९१ ॥  
 मृदङ्गे पतितो मूर्ध्नि सक्तः केवापि हेतुना । राज्यातापिकीभूतकण्ठः प्रोद्भवाकोपनः ॥ ९२ ॥  
 प्रापत्येताधिवासं तद्द्विधासौ दुर्धृतेर्नवात् । भानाद्दृष्टमस्तत्सद्वृत्तोभो हेतो महांस्त्वया ॥ ९३ ॥  
 इत्यस्य सोऽपि वस्त्राकमसोद्गोदाहरिष्वति । किल धूर्तविटं वीक्ष्य क्लिप्ताङ्गाभिधानकम् ॥ ९४ ॥  
 कन्वचित्सा महादेवी ज्ञाता मदनविह्वला । तद्विद्वाननयोपायनिरन्तरनियुक्तया ॥ ९५ ॥  
 तद्गान्धा गुप्तमानीतः 'पथिकोऽन्तः प्रवेशितः । सद् तेन महादेवी रममाणाय चोत्प्लितम् ॥ ९६ ॥  
 अहोभिर्बहुभिर्ज्ञाता सुदुः सुदान्तरङ्गिभिः । तन्मुक्तात्तदुराचारे राज्ञापि विदिते सति ॥ ९७ ॥  
 जारापनयवोपायमाश्रयाः 'परिचारिकाः । अबस्करगृहं गीत्वा सा तं तत्राक्षिपन्सखम् ॥ ९८ ॥  
 स दुर्गन्धेन तजन्तुभिश्च <sup>३</sup>दुःसमवाप्तुवत् । अत्रैव नरकावासमाप्तवान् पापपाकतः ॥ ९९ ॥  
 तद्दृष्ट्वापुत्रस्वाभिकाषिणो नरकादिषु । भवन्ति दुस्तरापाण्योरदुःखा गतिष्विति ॥ १०० ॥  
 पुनः कुमार एवैकं प्रपञ्चाद्गदिता स तम् । येन संसारनिर्वेगो जायते सहसा षसताम् ॥ १०१ ॥  
 भाम्यन्संसारकान्तारे मृत्युमराद्विपेशिता । रुषा जिघांसुना जन्तुरनुपातोऽतिभीलुकः ॥ १०२ ॥  
 पलायमानो भानुष्यभूरुहान्तर्हितात्मकः । तन्मूले कुलगोत्रादिनानावह्नीसमाकुले ॥ १०३ ॥  
 जन्मकूपे पतिवायुर्बह्नीलनशरीरकः । सितासितादिनानेकमूपकोच्छेद्यतल्लकः ॥ १०४ ॥  
 नरकव्याप्तवक्त्रोऽसत्सकसन्धिभिः<sup>५</sup> । तद्भूजेष्टार्थसूनोत्यसौख्यधौद्रसोत्सुकः ॥ १०५ ॥

पापी मृत्युसे प्रेरित हो वहाँसे आ निकला । वह उस स्त्रीके आभूषण लेना चाहता था इसलिए वृक्षके नीचे अपना मृदङ्ग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे मरनेकी रीति दिखलाने लगा । उसने अपने गलेमें रस्सी बाँधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका मृदङ्ग जमीन पर लुढ़क गया । फाँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया और आँखें निकल आईं । इस प्रकार वह मरकर यमराजके घर गया । उसका मरण देख वह स्त्री उस दुःखदायी मरणसे डर गई और अपने घर वापिस आ गई । कहनेका अभिप्राय यह है कि आपको उस मृदङ्ग बजानेवालेके समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिये ॥ ९०-९३ ॥ इस प्रकार उस चोरका वाग्जाल जन्म-कुमार सहन नहीं कर सकेगा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कहेगा । वह कहेगा कि ललिताङ्ग नामके किसी धूर्त व्यभिचारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी कामसे विह्वल हो गई । उसने किसी भी उपायसे उस पथिकका लानेके लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूपसे महलके भीतर ले गई । महारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले सुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी यह बात जान ली और उनके कहनेसे राजाको भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ ९४-९७ ॥ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी उपायसे उस जारको पकड़नेके लिए सेवकोंको आज्ञा दी । यह जानकर रानीने उसे टट्टीमें ले जाकर छिपा दिया । वहाँकी दुर्गन्ध और कीड़ोंसे वह वहाँ बहुत दुःखी हुआ तथा पाप कर्मके उदयसे इसी जन्ममें नरक वासके दुःख भोगने लगा ॥ ९८-९९ ॥ इसी प्रकार थोड़े सुखकी इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं और वहाँके दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं ॥ १०० ॥ इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा और कहेगा जिसके कि द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीघ्र ही निर्वेग हो जाता है ॥ १०१ ॥ वह कहेगा कि एक जीव संसार रूपी वनमें घूम रहा था । एक मदान्मत्त हाथी क्रोधवशा उसे मारनेकी इच्छासे उसके पीछे-पीछे दौड़ा । वह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्य रूपी वृक्षकी आड़में छिप गया । उस वृक्षके नीचे कुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे भरा हुआ एक जन्म रूपी कुआँ था । वह जीव उस जन्मरूपी कुएँमें गिर पड़ा परन्तु आयुरूपी लतामें उसका शरीर उलक गया जिससे नीचे नहीं जा सका । वह आयुरूपी लताको शुरुपक्ष और कृष्णपक्षके दिनरूपी अनेक चूहे कुनर रहे थे । सातों नरकरूपी सर्प ऊपरकी ओर मुँह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा

१ पथिकान्तरङ्गेशिना ज० ( ! ) । २ परिचारिकाः ज० । ३-मवाप्तुवात् ग० । ४ ससत् ज० ।

५ सन्धिभिः ज० ।

तद्ग्रहोत्थापितास्तुप्रध्यापन्माज्ञिकभक्षितः । तत्संसेवां सुखं मत्वा कथं सर्वोऽपि जीवति ॥ १०१ ॥  
 विधीविषयसंसाक्तो धीमानपि कथं तथा । वर्तते त्यक्तसङ्गः सङ्गकुर्वन्सुखं तपः ॥ १०० ॥  
 इत्याकर्ण्य वचस्तस्य माता कन्याश्च तस्करः । तनुसंसारभोगेषु यातातोऽतिविरागताम् ॥ १०८ ॥  
 तदा तमः समाभूय भासमानो विवाकरः । भोजयन् प्रियया कोकं कुमारमिव दीक्षया ॥ १०९ ॥  
 करैर्निजैः कुमारस्य मनो वास्पृश्य रजयन् । उद्यमस्तपसीबोध्यैः शिखरेऽग्रेरुदेव्यति ॥ ११० ॥  
 सर्वसन्तापकृत्सीङ्गकरः क्रूरोऽनवस्थितः । रविः कुवलयध्वंसी व्रजिता कुनृपोपमाम् ॥ १११ ॥  
 नित्योदयो बुधाधीशो विष्णुदाखण्डमण्डलः । पद्माहादी प्रवृद्धोष्मा सुराजानं स जेष्यति ॥ ११२ ॥  
 ज्ञात्वा संसारवैमुक्त्यं कुमारस्यास्य बान्धवाः । तदा कुणिमहाराजः श्रेणयोऽष्टादशापि च ॥ ११३ ॥  
 सहानावृतदेवेन परिनिष्क्रमणं प्रति । अभिवेकं करिष्यन्ति सङ्गता मङ्गलैर्जैः ॥ ११४ ॥  
 तत्कालोचितवेधोऽसौ शिबिकां देवनिमितताम् । आरुह्य भूतिभूत्योऽर्चैर्विपुलाचलमस्तके ॥ ११५ ॥

कर रहे थे । उसी वृक्षपर पुत्रादिक इष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा था जिसे स्वानेके लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था । उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हुई भयङ्कर आपत्तिरूपी मधुकी मक्खियाँ उसे काट रही थीं परन्तु वह जीव मधु-बिन्दुओंके उस सेवनको सुख मान रहा था । इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्टसे जीवन बिता रहे हैं । जो मूर्ख हैं वे भले ही विषयोंमें आसक्त हो जायं परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं ? उन्हें तो सब परिग्रहका त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिये ॥ १०२-१०७ ॥ जम्बुकुमारकी यह बात सुनकर उसकी माता, वे कन्याएं, और वह चोर सब, संसार शरीर और भोगोंसे विरक्त होंगे ॥ १०८ ॥ तदनन्तर चकवा को चकवीके समान कुमारको दीक्षाके साथ मिलाता हुआ अपनी किरणोंसे कुमारके मनको स्पर्शकर प्रसन्न करता हुआ, तपश्चरणके लिए श्रेष्ठ उद्यमके समान सब अन्धकारको नष्टकर उदयाचलकी शिखरपर सूर्य उदित होगा ॥ १०९-११० ॥ उस समय वह सूर्य किसी अन्यायी राजाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व सन्तापकृन् होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी सबको संताप करने वाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीक्ष्णकर होता है अर्थात् कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार वह सूर्य भी तीक्ष्णकर था अर्थात् उष्ण किरणोंका धारक था, जिस प्रकार अन्यायी राजा क्रूर अर्थात् निर्दय होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी क्रूर अर्थात् अत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है—एक समान नहीं रहता है—कभी संतुष्ट रहता है और कभी असंतुष्ट रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था—एक जगह स्थिर नहीं रहता था और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुवलयध्वंसी होता है अर्थात् पृथ्वी मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलयध्वंसी था अर्थात् नीलकमलोंको नष्ट करनेवाला था ॥ १११ ॥ अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाको जीतनेवाला होगा क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजाका नित्योदय होता है अर्थात् उसका अभ्युदय निरन्तर बढ़ता रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है अर्थात् प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है, जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधीश होता है अर्थात् विद्वानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी बुधाधीश था अर्थात् बुधग्रहका स्वामी था, जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल अर्थात् देश विशुद्ध-शात्रुरहित और अखण्ड होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थात् बिम्ब भी विशुद्ध और अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माहादी होता है अर्थात् लक्ष्मीसे प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माहादी था अर्थात् कमलोंको विकसित करनेवाला था और जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवृद्धोष्मा होता है अर्थात् बढ़ते हुए अहंकारको धारण करता है उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोष्मा था अर्थात् उसकी गर्मी निरन्तर बढ़ती जाती थी ॥ ११२ ॥ जम्बुकुमार संसारसे विमुख—विरक्त हुआ है यह जान कर उसके सब भाई-बन्धु, कुणिक राजा, उसकी अठारह प्रकारकी सेनाएं और अनावृत देव आर्षेण तथा सब लोग माङ्गलिक जलसे उसका दीक्षा-कल्याणकका अभिवेक करेंगे ॥ ११३-११४ ॥ उस समयके योग्य वैषभूषा धारण कर वह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार होकर बड़े वैभवके साथ विपुलाचल

मां विधिष्टं समभ्येत्य महासुविनिवेदितम् । भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य यथाविधि ॥ ११६ ॥  
 वर्णप्रपन्नमुद्भूतैर्विनेयैर्वहुभिः समम् । विद्युच्चोरेण तत्पञ्चशतभृत्यैश्च संयमम् ॥ ११७ ॥  
 सुधर्मगणभृत्यार्षे समचित्तो प्रहीण्यति । कैवल्यं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्यां गौतमज्ञान्ते ॥ ११८ ॥  
 सुधर्मा केवली जम्बूनामा च अंतकेवली । भूत्वा पुनस्ततो द्वादशाब्दान्ते निर्भूतिज्ञते ॥ ११९ ॥  
 सुधर्मण्यन्तिमं ज्ञानं जम्बूनाम्नो भविष्यति । तस्य शिष्यो भवो नाम चत्वारिंशत्समा महान् ॥ १२० ॥  
 इह धर्मोपदेशेन धरिभ्यां विहरिष्यति । इत्यवादीरादाकर्ण्य स्थितस्तस्मिन्नात्तः ॥ १२१ ॥  
 देवो मदीयवंशाभ्य माहात्म्यमिदमद्भुतम् । अन्यत्रादृष्टमित्युच्चैरकृतानन्दनाटकम् ॥ १२२ ॥  
 कस्माद्भवेन बन्धुत्वमस्येति श्रेणिकोऽन्यथात् । गौतमं विनयात्सोऽपि म्यगदरादतिस्फुटम् ॥ १२३ ॥  
 जम्बूनाम्नोऽन्वये पूर्वं धर्मप्रियवणिक्पतेः । गुणदेव्याश्च नाग्नार्हहासः पुत्रोऽजनिष्ट सः ॥ १२४ ॥  
 धनयौवनदर्पेण शिष्याभागाणयन् पितुः । निर्ऋतोऽभवत्सप्तम्यसनेषु विवेकज्ञात् ॥ १२५ ॥  
 स हृद्यचेदितदीर्गत्यासञ्जातानुशयो मया । न भ्रुता मत्पितुः शिष्येत्यवाप्तशमभावनः ॥ १२६ ॥  
 किञ्चित्पुण्यं समावर्ष्यं व्यन्तरत्स्वमुपागतः । आददेऽनादृताक्योऽयं तत्र सम्यक्त्वसम्पदम् ॥ १२७ ॥  
 इति तद्वचनप्राप्ते गौतमं मगधाधिपः । अन्वयुक्कागतः कस्मात्किं पुण्यं कृतवानयम् ॥ १२८ ॥  
 विद्युन्माली भवेऽतीते प्रभाऽस्यान्तेऽप्यनाहता । इत्थनुग्रहबुद्धयैव भगवानेवमब्रवीत् ॥ १२९ ॥  
 अस्मिन्विदेहे पूर्वस्मिन् वीतशोकाङ्ग्यं पुरम् । विषये पुष्कलावत्यां महापद्मोऽस्य पाठकः ॥ १३० ॥  
 वनमाळास्य देव्यस्याः सुतः शिवकुमारकः । नवयौवनसम्पन्नः सवयोभिः समं वने ॥ १३१ ॥

की शिखर पर पहुँचेगा । वहाँ विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा । उस समय बड़े-बड़े मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे । वह आकर बड़ी भक्तिसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक नमस्कार करेगा ॥ ११५-११६ ॥ तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह जम्बूकुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णोंमें उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्युच्चर और उसके पाँच सौ भृत्योंके साथ सुधर्माचार्य गणधरके समीप संयम धारण करेगा । जब केवलज्ञानके बारह वर्ष बाद मुझे निर्वाण प्राप्त होगा तब सुधर्माचार्य केवली और जम्बूकुमार श्रुतकेवली होंगे । उसके बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोक्ष चले जावेंगे तब जम्बूकुमारको केवलज्ञान होगा । जम्बू-स्वामीका भव नामका एक शिष्य होगा, उसके साथ चालीसवर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए जम्बू-स्वामी पृथिवीपर विहार करेंगे । इस प्रकार गौतम स्वामीने जम्बू स्वामीकी कथा कही । उसे सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ अनावृत नामका यक्ष कहने लगा कि मेरे वंशका यह ऐसा अद्भुत माहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता । ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया ॥ ११७-१२२ ॥

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गौतम गणधरसे पूछा कि इस अनावृत देवका जम्बू स्वामीके साथ भाईपना कैसे है ? इसके उत्तरमें गणधर भगवान् स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥ १२३ ॥ कि जम्बूकुमारके वंशमें पहले धर्मप्रिय नामका एक सेठ था । उसकी गुणदेवी नामकी स्त्रीसे एक अर्हहास नामका पुत्र हुआ था ॥ १२४ ॥ धन और यौवनके अभिमानसे वह पिताकी शिक्षाको कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदयसे सातों व्यसनोमें स्वच्छन्द हो गया था । इन खोटी चेष्टाओंके कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी तब उसे पश्चात्ताप हुआ और 'मैंने पिताकी शिक्षा नहीं सुनी' यह विचार करते हुए उसकी भावना कुछ शान्त हो गई ॥ १२५-१२६ ॥ तदनन्तर कुछ पुण्यका संचय कर वह अनावृत नामका व्यन्तर देव हुआ है । इसी पर्यायमें इसने सम्यग्दर्शन धारण किया है ॥ १२७ ॥ इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके तब राजा श्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया । उसने पूछा कि हे भगवन् ! यह विद्युन्माली कहाँसे आया है ? और इसने पूर्वभवमें कौनसा पुण्य किया है क्योंकि अन्तिम दिनमें भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई है । इसके उत्तरमें गणधर भगवान् अनुग्रहकी बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १२८-१२९ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत एक वीतशोका नामका नगर है । वहाँ महापद्म नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका

विहृत्य पुनरागच्छन्सन्धमेण समन्ततः । गन्धपुष्पादिनात्सम्पन्नसहस्रिबस्यथा ॥ १३२ ॥  
 जनानाव्रजतो हृष्टा किमेतदिति विस्मयत । तनूजं वृच्छति स्मत्सौ बुद्धिसागरमन्त्रिणः ॥ १३३ ॥  
 कुमार ऋषु बह्वसि मुनीन्द्रः भुक्तकेवली । क्वातः सागरदशाक्यस्तपसा दीप्तसम्पन्ना ॥ १३४ ॥  
 भसी मासोपवासान्ते पारणायै प्रविष्टवान् । पुरं सायसमृद्धाक्यः श्रेही तन्मै वधाविधि ॥ १३५ ॥  
 क्त्वा विष्वगर्न भक्त्या प्रापदाश्रयपञ्चकम् । मुनि मनोहरोद्यानवासिनं तं सकौतुकाः ॥ १३६ ॥  
 सम्पूज्य बन्दिंतुं यान्ति पौराः परमभक्तिः । इत्याक्यत्सोऽपि तच्छ्रुत्वा पुनरप्यन्वयुक्त्वा सः ॥ १३७ ॥  
 कथं सागरदशाक्यां विविधर्दीस्तपः भुतीः । प्रापदित्वब्रवीन्मन्त्रिसुतोऽप्यनु यथाश्रुतम् ॥ १३८ ॥  
 विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । वज्रदन्तः पतिस्तस्वाक्यक्रोणाक्रान्तभूतलः ॥ १३९ ॥  
 देवी यशोधरा तस्य गर्भिणी जातदौहदा । महाविभूत्या गत्वासी सीतासागरसङ्गमे ॥ १४० ॥  
 महाद्वारेण सम्प्राप्य जलधिं जलजानना । जलकेलीविधौ पुत्रमलक्याभ्यर्णनिर्हृतिम् ॥ १४१ ॥  
 तस्मात्सागरदशाक्यामस्याकुर्वन्सनाभयः । अथ यौवनसम्प्राप्ते स कदाचन नाटकम् ॥ १४२ ॥  
 सार्धं स्वपरिवारेण पद्मयन् हर्म्यतले स्थितः । शेटकेनानुकूलाक्यनामधेयेन भावितः ॥ १४३ ॥  
 कुमार मन्दराकारस्तिष्ठत्येष पयोधरः । पश्याश्रयमिति प्रीत्या प्रोन्मुखो लोचनप्रियम् ॥ १४४ ॥  
 तं निरीक्षितुमैहिष्ट नष्टस्तत्काल एव सः । जलदस्तद्विचिन्त्यैवं यौवनं विभवो वपुः ॥ १४५ ॥

नाम वनमाला था । उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था । नवयौवनसे सम्पन्न होनेपर किसी दिन वह अपने साथियोंके साथ क्रीड़ा करनेके लिए वनमें गया था । वहाँ क्रीड़ा कर जब वह वापिस आ रहा था तब उसने सब ओर बड़े संभ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदि मङ्गलमय पूजाकी सामग्री लेकर आते हुए बहुत-से आदमी देखे । उन्हें देखकर उसने बड़े आश्चर्यके साथ बुद्धिसागर नामक मन्त्रीके पुत्रसे पूछा कि 'यह क्या है ?' ॥ १३०-१३३ ॥ इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि 'हे कुमार ! सुनिये, मैं कहता हूँ, दीप्त नामक तपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक श्रुतकेवली मुनिराज हैं । उन्होंने एक मासका उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिए आज उन्होंने नगरमें प्रवेश किया था । वहाँ सामसमृद्ध नामक सेठने उन्हें विधिपूर्वक भक्तिसे आहार दान देकर पञ्चाश्रय प्राप्त किये हैं । वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतुकसे भरे हुए नगरवासी लोग बड़ी भक्तिसे उन्हींकी पूजा-वन्दना करनेके लिए जा रहे हैं' । इस प्रकार मन्त्रीके पुत्रने कहा । यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋद्धियाँ, तपश्चरण और शास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें मन्त्री-पुत्रने भी जैसा सुन रक्खा था वैसा कहना शुरू किया । वह कहने लगा कि पुष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है । उसके स्वामीका नाम वज्रदत्त था । वह वज्रदन्त चक्रवर्ती था इसलिए उसने चक्रवर्तसे समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी ॥ १३४-१३६ ॥ जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हुई तब उसे दोहला उत्पन्न हुआ और उसी दोहलेके अनुसार वह कमलमुखी बड़े वैभवके साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिलती है उसी महाद्वारसे जलक्रीड़ा करनेके लिए समुद्रमें गई । वहाँ उसने निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेवाला पुत्र प्राप्त किया । चूँकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसलिए परिवारके लोगोंने उसका सागरदत्त नाम रख लिया । तदनन्तर यौवन अवस्था प्राप्त होनेपर किसी दिन वह सागरदत्त महलकी छतपर बैठा हुआ अपने परिवारके लोगोंके साथ नाटक देख रहा था, उसी समय अनुकूल नामक एक सेवकने कहा कि हे कुमार ! यह आश्चर्य देखो, यह बादल मन्दर-गिरिके आकारसे कैसा सुन्दर बना हुआ है ? यह सुनकर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्योंही ऊपरकी ओर मुँह कर उस नयनाभिराम दृश्यको देखनेके लिए उद्यत हुआ त्योंही वह बादल नष्ट हो गया । उसे नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार

१ विविधर्दीस्तपः भुती ग० । विविधर्दीश्वरो भुती श० । विविधर्दीश्व स भुतीः इति क्वचित् ।



‘अयुरन्वद्य विध्वंसि यथायं स्तनविजुकः । इति संसारनिर्वेद्ययोगभाक्समजायत ॥ १४६ ॥  
 स्वपित्रा सममन्त्रेणः सन्प्राप्यामृतसागरम्’ । स्थितं मनोहरोद्याने धर्मतीर्थस्य नायकम् ॥ १४७ ॥  
 श्रुत्वा धर्मं तदभ्यर्णं निर्णीतसकलस्थितिः । संयमं बहुभिः सार्धं कृतबन्धुविसर्जनम् ॥ १४८ ॥  
 प्रतिगृह्य मनःपर्वयादिं प्राप्यद्विसम्पदम् । देवान् विद्वत्स्य सख्यमदेशेनेह समागतः ॥ १४९ ॥  
 इति तच्छृण्वणात्सद्यः प्रतिचेलाः स्वयञ्च सः । गत्वा मुनीश्वरं स्तुत्वा पीत्वा धर्माभ्युत्तं ततः ॥ १५० ॥  
 भवन्तं भगवन्द्वा स्नेहो मे समभून्महान् । हेतुना केन वक्तव्यमित्यपृच्छत्स चाश्रवीत् ॥ १५१ ॥  
 द्वीपेऽस्मिन् भवते क्षेत्रे विषये मगधाह्वये । बृहद्रामे सुतौ जातौ रेवत्यां नरजन्मनः ॥ १५२ ॥  
 ज्येष्ठोऽथ राष्ट्रकूटस्य<sup>३</sup> भगदत्तस्ततः परः । भवदेवस्तयोर्ज्यायान् संयमं प्रत्यपद्यत ॥ १५३ ॥  
 सुस्थिताख्यगुरुं प्राप्य तेनामा विनयान्वितः । नानादेशान् विद्वत्प्रायात् स्वजन्मग्राममेव सः ॥ १५४ ॥  
 तदा तद्बान्धवाः सर्वे समागत्य ससम्मदाः । मुनिं प्रदक्षिणीकृत्य सम्पूज्यान्तमुद्यताः ॥ १५५ ॥  
 ग्रामे दुर्मर्षणो नाम तस्मिन्नेव गृहाधिपः । तस्य नागवसुर्भायां नागश्रीरनयोः सुता ॥ १५६ ॥  
 ताभ्यां सा भवदेवाय प्रादायि विधिपूर्वकम् । अग्रजागमनं श्रुत्वा सद्यः सन्जातसम्मदः ॥ १५७ ॥  
 भवदेवोऽप्युपागत्य भगवत्सुनीश्वरम् । विनयात्प्रणम्यास्त तत्कृताशासनाद्रितः ॥ १५८ ॥  
 आख्याय धर्मयाथात्म्यं वैरूप्यमपि संसृतेः । गृहीतपाणिरैकान्ते संयमो गृह्यतां त्वया ॥ १५९ ॥  
 इत्याह तं मुनिः सोऽपि प्रत्यवादीदिदं वचः । नागश्रीमोक्षणं कृत्वा कर्तास्मि भवतोदितम् ॥ १६० ॥  
 इति तन्मुनिराकर्ण्य जगादाजनने जनः । भार्यादिपाशसंलग्नः करोत्यात्महितं कथम् ॥ १६१ ॥

यह यौवन, धन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभी कुछ नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसा विचारकर वह संसारसे विरक्त हो गया ॥ १४०-१४६ ॥ दूसरे दिन ही वह मनोहर नामके उद्यानमें स्थित अमृतसागर नामक तीर्थद्वारके समीप पहुँचा, वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुना । समस्त पदार्थोंकी स्थितिका निर्णय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया । तदनन्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋद्धियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सब देशोंमें विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं ॥ १४७-१४९ ॥ इस प्रकार मन्त्री-पुत्रके वचन सुनकर वह राजकुमार-शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने शीघ्र ही स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनकी स्तुति की, धर्मरूपी अमृतका पान किया और तदनन्तर बड़ी विनयसे पूछा कि हे स्वामिन ! आपको देखकर मुझे बड़ा भारी खेद उत्पन्न हुआ है । इसका क्या कारण है ? आप कहिये । इसके उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि—॥ १५०-१५१ ॥

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक वृद्ध नामका ग्राम था । उसमें राष्ट्रकूट नामका वैश्य रहता था । उसकी रेवती नामक स्त्रीसे दो पुत्र हुए थे । एक भगदत्त और दूसरा भवदेव । उनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली । तदनन्तर उन्हीं गुरुके साथ बड़ी विनयसे अनेक देशोंमें विहार कर वह अपनी जन्मभूमिमें आया ॥ १५२-१५४ ॥ उस समय उनके सब भाई-बन्धु बड़े हर्षसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्षिणा तथा पूजाकर उन्हें नमस्कार करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १५५ ॥ उसी नगरमें एक दुर्मर्षण नामका गृहस्थ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नागवसु था । उन दोनोंके नागश्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । उन दोनोंने अपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे भाई भवदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी । बड़े भाईका आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित हुआ । वह भी उनके समीप गया और विनयके साथ बार-बार प्रणाम कर वहाँ बैठ गया । उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम बहुत ही आर्द्र हो रहे थे ॥ १५६-१५८ ॥ धर्मका यथार्थ स्वरूप और संसारकी विरूपता बतलाकर मुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई भवदेवका हाथ पकड़कर एकान्तमें कहा कि तू संयम ग्रहण कर ले ॥ १५९ ॥ इसके उत्तरमें भवदेवने कहा कि मैं नागश्रीसे छुट्टी लेकर आपका कहा करूँगा ॥ १६० ॥ यह सुनकर मुनिराजने कहा कि इस संसारमें स्त्री आदिकी पाशमें फँसा हुआ यह प्राणी आत्माका हित कैसे कर सकता

त्यज तन्मोहमित्येन भवदेवोऽप्यनुसरः । मतिं ज्येष्ठानुरोधेन व्यधादीक्षाविधौ च सः ॥ १६२ ॥  
 नीत्वा स्वगुरुसामीप्यं भगवत्तो भवच्छिदे । दीक्षामप्राहवन्मौर्खीं सतां 'सोदर्यमीदृशम् ॥ १६३ ॥  
 स प्रथमसंयमी भूत्वा 'विधीर्द्वादशवत्सरात् । विद्वत्पु गुरुभिः सार्वमन्वेद्युरसहायकः ॥ १६४ ॥  
 वृद्धप्राप्तं निजं गत्वा सुव्रतागमिनीमभि । समीक्ष्यास्मिन् किमल्पम्वा नागमोर्नाम काचन ॥ १६५ ॥  
 इति सग्रप्रसवामास सा तस्येकितवेदिनी । नाहं वेद्यि मुने सम्बन्धुदन्तं तन्निबन्धनम् ॥ १६६ ॥  
 इत्वौदासीन्यनापक्षा गुणवत्यायिकां प्रति । संयमे तं स्थिरीकर्तुमर्थाख्यानकमत्रवीत् ॥ १६७ ॥  
 वैश्यः सर्वसमृद्धाख्यस्तदासीतनयः शुचिः । दारुकाख्यः स्वमात्रात्मच्छ्रेष्ठ्युच्छिष्टाशितं त्वया ॥ १६८ ॥  
 भोक्तव्यमिति निर्बन्धाद्भोजितः स जुगुप्सया । बान्तवान् कंसपात्रेण तत्तन्मात्रादितं पुनः ॥ १६९ ॥  
 बुभुक्षुर्मातरं भोक्तुं प्रार्थयामास दारुकः । तथापि कंसपात्रस्थं पुरस्तादुपदौकितम् ॥ १७० ॥  
 बुभुक्ष्वापीदितोऽप्येव नाग्रहीद्वान्तमात्मना । सोऽपि चेत्तादृशः साधुः कथं त्यक्तमभीप्सति ॥ १७१ ॥  
 'अथाख्यानमिदञ्चैकं शृणु' हृष्टाशयं स्थिरम् । नरेशो नरपालाख्यः श्वानमेकं सकौतुकः ॥ १७२ ॥  
 श्रुष्टाशनेन सम्प्राप्य स्वर्णभरणभूषितम् । सदा वनविहृत्यादिगतौ कनककल्पिताम् ॥ १७३ ॥  
 आरोप्य शिबिकामेवं मन्दबुद्धिरपालयत् । कदाचिच्छिबिकां रूढो गच्छन्कौलेयकाचमः ॥ १७४ ॥  
 विष्टामालोक्य बालस्य लिप्पुरापतति स्म ताम् । तद्दृष्ट्वापाकरोद्भूपो लकुटीताडनेन तम् ॥ १७५ ॥  
 तद्वन्मुनिश्च सर्वेषां पूजनीयः पुरातनः । त्यक्ताभिवान्छया भूयः सप्रामोति पराभवम् ॥ १७६ ॥

है ? ॥ १६१ ॥ इसलिए तू खीका मोह छोड़ दे । बड़े भाईके अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा धारण करनेका विचार कर लिया ॥ १६२ ॥ अन्तमें भगवत्तने अपने गुरुके पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा ग्रहण करवा दी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका भाईपना ऐसा ही होता है ॥ १६३ ॥ उस मूर्खने द्रव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक गुरुओंके साथ विहार किया । एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्राममें आया और सुव्रता नामकी गणिनीके पास जाकर पूछने लगा कि हे माता ! इस नगरमें क्या कोई नागश्री नामकी स्त्री रहती है ? ॥ १६४-१६५ ॥ गणिनीने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया कि हे मुने ! मैं उसका वृत्तान्त अच्छी तरह नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रव्य-लिङ्गी मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दूसरी आर्थिकासे निम्नलिखित कथा कहनी शुरू कर दी ॥ १६६-१६७ ॥ वह कहने लगी कि एक सर्वसमृद्ध नामका वैश्य था । उसके श्रुद्ध हृदयवाला दारुक नामका दासी-पुत्र था । किसी एक दिन उसकी माताने उससे कहा कि तू हमारे सेठका जूठा भोजन खाया कर । इस तरह कहकर उसने जबर्दस्ती उसे जूठा भोजन खिला दिया । वह खा तो गया परन्तु ग्लानि आनेसे उसने वह सब भोजन वमन कर दिया । उसकी माताने वह सब वमन काँसेकी थालीमें ले लिया और जब उस दारुकको भूख लगी और उसने मातासे भोजन माँगा तब उसने काँसेके पात्रमें रक्खा हुआ वही वमन उसके सामने रख दिया । दारुक यद्यपि भूखसे पीड़ित था तो भी उसने वह अपना वमन नहीं खाया । जब दासी-पुत्रने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया तब मुनि छोड़े हुए पदार्थको किस तरह चाहते हैं ? ॥ १६८-१७१ ॥ 'अब मैं एक कथा और कहती हूँ तू चित्त स्थिर कर सुन' यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने लगी । उसने कहा कि एक नरपाल नामका राजा था । कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रक्खा था । वह मीठे-मीठे भोजनके द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुवर्णके आभूषण पहिनाता था । जब वह वनविहार आदि कार्योंके लिए जाता था, तब वह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ले जाता था । एक दिन वह नीच कुत्ता, पालकीमें बैठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि किसी बालककी विष्टापर पड़ी । दृष्टि पड़ते ही वह, उस विष्टाको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर कूद पड़ा । यह देख राजाने उसे ढण्डेसे पीटकर भगा दिया ॥ १७२-१७५ ॥ इसी प्रकार जो मुनि पहले

इदमन्यत्कथित्विदमपथिकः सद्गन्तरे । सुगन्धिकलपुष्पादिसेवयाऽऽथन् सुखं ततः ॥ १७७ ॥  
 गत्वा विहाय सन्मार्गं महागहनसङ्घटे । दृष्ट्वा क्षुभितमधुमं स चमूरं त्रिषुसुकम् ॥ १७८ ॥  
 भीत्वा धावन् तदैकस्मिन् भीमकूपेऽपतद्विभीः । तत्र शीतादिभिः पापाहोषत्रितयसम्भवे ॥ १७९ ॥  
 बाग्दष्टिभ्रुतिगत्यादिहीनं सर्पादिबाधितम् । तं तच्चिर्गमनोपायमजानन्तं यदृच्छया ॥ १८० ॥  
 कच्चिन्निसम्बरो वीक्ष्य दययात्रीकृताक्षयः । निर्गमय्य ततः केनाप्युपायेन महादरात् ॥ १८१ ॥  
 मन्त्रौषधिप्रयोगेण कृतपादप्रसारणम् । सूक्ष्मरूपसमाकोकनोन्मीलितविकोचनम् ॥ १८२ ॥  
 स्पष्टाकर्षणविज्ञातस्वशक्तिव्यञ्जकम् । व्यक्तवाक्प्रसरोपेतरसनं च व्यवधादनु ॥ १८३ ॥  
 स सर्वरमणीयाख्यं पुरं तन्मार्गदर्शनात् । प्रास्थापयन्न कस्योपकुर्वन्ति विशदाशयाः ॥ १८४ ॥  
 पुनः स विषमासक्तमतिः पथिकहुर्मतिः । प्रकटीकृतदिग्भ्रेयमोहः प्राक्तनकूपकम् ॥ १८५ ॥  
 सन्मार्ग्य प्रतिपत्तस्मिन्स्तथा कांश्चन संसृती । मिथ्यात्वादिकपञ्चोपब्रज्यादीन्पुपागतान् ॥ १८६ ॥  
 जन्मकूपे क्षुबादाहायातान् संवीक्ष्य सन्मतिः । गुरुवैद्यो दयालुत्वाद्दमार्क्योपायपण्डितः ॥ १८७ ॥  
 निर्गमय्य ततो जैनभाषोषधनिषेवणान् । सम्यक्त्वनेत्रमुन्मील्य सम्यग्ज्ञानभ्रुतिद्वयम् ॥ १८८ ॥  
 समुद्घटय्य सद्गुणपादौ कृत्वा प्रसारितौ । व्यक्तां दयामर्थी जिह्वां विधाय विधिपूर्वकम् ॥ १८९ ॥  
 पञ्चप्रकारस्वाध्यायवचनान्यभिधाय तान् । सुधीरगमयन्मार्गं साधुः स्वर्गापवर्गयोः ॥ १९० ॥  
 निजपापोदयारीर्षसंसारस्तत्र केचन । सुगन्धिकलपुष्पोद्भिन्नचम्पकाभ्याशवतिनः ॥ १९१ ॥  
 तत्सौरभावबोधायमुक्ताः षट्चरणा यथा । पार्श्वस्थाख्याः सद्गुणान्चारित्र्योपास्तवर्तनात् ॥ १९२ ॥

सबके पूजनीय होते हैं वही छोड़ी हुई वस्तुकी इच्छाकर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं । इस कथाके बाद एक कथा और कहती हैं—

किसी उत्तम वनमें कोई पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रहा था परन्तु वह अच्छा मार्ग छोड़कर महासंकीर्ण वनमें जा पहुँचा । वहाँ उसने भूखा, अतिशय दुष्ट और मारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याघ्र देखा । उसके भयसे वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा । वहाँ पाप-कर्मके उदयसे उसे शीत आदिके कारण वात-पित्त-कफ-तीनों दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथा चलने आदिमें बाधा होने लगी । इनके सिवाय उसे सर्प आदिकी भी बाधा थी । वह पथिक उस कुएँसे निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था । दैववश कोई एक उत्तम वैद्य वहाँसे आ निकला । उस पथिकको देखकर उसका हृदय दयासे आर्द्र हो गया । उसने बड़े आदरसे किसी उपायके द्वारा उसे कुएँसे बाहर निकलवाया और मन्त्र तथा औषधिके प्रयोगसे उसे ठीककर दिया । उसके पाँच पसरने लगे, सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसकी जिह्वासे भी वचन स्पष्ट निकलने लगे ॥ १७६-१८३ ॥ यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैद्यने उसे मार्ग दिखाकर सर्वरमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्यों कि जिनका अभिप्राय निर्मल है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥ १८४ ॥ इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिरसे विषयोंमें आसक्त हो गया, फिरसे दिशा भ्रान्त हो गया और फिरसे उसी पुराने कुएँके पास जाकर उसमें गिर पड़ा । इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएँमें पड़कर मिथ्यात्व आदि पाँच कारणोंसे बाधिर्य-बहिरापन आदि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा लुधा, दाह आदिसे पीड़ित हो रहे हैं । उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथाधर्मका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरु रूपी वैद्य दयालुताके कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकालते हैं । तदनन्तर जैनधर्मरूपी औषधिके सेवनसे इनके सम्यग्दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यग्ज्ञान रूपी दानों कान ठीक करते हैं, सम्यक् चारित्र्यरूपी पैरोंको फैलाते हैं, दयारूपी जिह्वाको विधिपूर्वक प्रकट करते हैं, और पाँच प्रकारके स्वाध्याय रूपी वचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षके मार्गमें भेजते हैं । वे गुरुरूपी वैद्य अस्यन्त बुद्धिमान और उत्तम प्रकृतिके होते हैं ॥ १८५-१९० ॥ उनमेंसे बहुतसे लोग पाप-कर्मके उदयसे दीर्घसंसारी होते हैं । जिस प्रकार सुगन्धिसे भरे विकसित चम्पाके समीप रहते

कषायविषयारम्भकौतिकज्ञानवेदकैः । जिह्वाचक्षुर्दृश्यान्वन्वाः कुशीकाख्या दुराशयः ॥ १९१ ॥  
 संसक्तत्वा निषिद्धेषु भ्रमभावेषु कोलुपाः । अवसक्तान्नुवा इष्यमानज्ञानादिकल्पतः ॥ १९४ ॥  
 समाचारबहिर्भूता मृगचार्यनिधानकाः । महामोहानिवृत्त्याजवञ्जवागावकूपके ॥ १९५ ॥  
 पतन्ति स्म पुनश्चेति भवदेवोऽपि तच्छृतेः । स्वप्नप्रसन्नान्तभाषोऽभृद्ज्ञात्वा तत्सामिकप्रणीः ॥ १९६ ॥  
 नागशिर्यं च दौर्गत्यभावोत्पादितदुःस्थितिम् । आनाभ्यादर्शयत्सोऽपि तां दृष्ट्वा संसृतिन्वितम् ॥ १९७ ॥  
 स्युत्वा विगिति निन्दित्वा गृहीत्वा संवत्सं पुनः । भाषा सहायुषः प्रान्ते क्रमात्स्वाराधनां भितः ॥ १९८ ॥  
 श्रुत्वा माहेन्द्रकल्पेऽभृद्भ्रमविमानके । सामानिकः सुरः सप्तसागरोपमजीवितः ॥ १९९ ॥  
 ज्यायानहमजाये त्वं कनिष्ठोऽभूस्ततश्च्युतः । इति सोऽपि मुनिप्रोक्तवचनेन विरक्तवान् ॥ २०० ॥  
 दीक्षां गृहीतुमुक्तो मात्रा पित्रा च वारितः । प्रविषय नगरं जातसंघिदप्रासुकाननम् ॥ २०१ ॥  
 नाहमहारथामीति कुमारोऽकृत निश्चितम् । तद्द्वार्ताश्रवणाद्भूयो यः कश्चिज्जोषयत्यमुम् ॥ २०२ ॥  
 तस्मै 'सम्प्रापितं दास्यामीति संसद्यबोधयत् । तद्ज्ञात्वा दृढवर्माक्यः सप्तस्थानसमाश्रयः ॥ २०३ ॥  
 श्रावकः ससुपेत्यैव कुमार, ज्ञातिशत्रवः । तवैते स्वपरध्वंसकोविदाः पापहेतवः ॥ २०४ ॥  
 भावसंयमविश्वस्तिमकृत्वा प्रासुकाशयैः । करिष्ये भद्रं 'पशुंष्टिमविमुक्तस्य वन्धुभिः ॥ २०५ ॥  
 दुर्लभा संयमे वृषिरित्यबोधितं वचः । सोऽपि मत्वा तदाचान्कनिर्विकृत्य 'रसाशनः ॥ २०६ ॥  
 दिव्यकीलशिखी स्थित्वा सदाबिहृतचेतसा । तृणाय मन्यमानस्तास्तपो द्वादशवत्सरान् ॥ २०७ ॥

हुए भी भ्रमर उसकी सुगन्धिसे दूर रहते हैं उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्वा-  
 रित्रके समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं ॥१९१-१९२॥  
 जो कषाय, विषय, आरम्भ तथा लौकिक ज्ञानके बशीभूत होकर जिह्वा, इन्द्रिय सम्बन्धी छह रसोंमें  
 आसक्त रहते हैं वे दुष्ट अभिप्राय वाले कुशील कहलाते हैं ॥१९३॥ जो निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें  
 लोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं । जिनके ज्ञान, चारित्र आदि घटते रहते हैं वे अचसन्न कह-  
 लाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं वे मृगचारी कहलाते हैं । ये सब लोग महामोहका त्याग  
 नहीं होनेसे संसाररूपी अगाध कुँमें बार-बार पड़ते हैं । गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव  
 मुनिको भी शान्त भावकी प्राप्ति हुई । यह जानकर गणिनीने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिति  
 हो रही थी ऐसी नागश्रीको बुलवाकर उसे दिखाया । भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका  
 स्मरण किया, अपने आपको धिक्कार दिया, अपनी निन्दाकर फिरसे संयम धारण किया और बड़े  
 भाई भगदत्त मुनिराजके साथ आयुके अन्तमें अनुक्रमसे चारों आराधनाओंका आश्रय लिया ।  
 मरकर अपने भाईके ही साथ माहेन्द्रस्वर्गके वयभद्र नामक विमानमें सात सागरकी आयु वाला  
 सामानिक देव हुआ ॥ १९४-१९६ ॥ वहाँसे चयकर बड़े भाई भगदत्तका जीव मैं हुआ हूँ और  
 छोटे भाई भवदेवका जीव तू हुआ है । इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ  
 ॥ २०० ॥ वह दीक्षा लेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया । जिसे आत्म-  
 ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा वह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रा-  
 सुक आहार नहीं ग्रहण करूँगा । यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दी कि जो कोई कुमारको  
 भोजन करा देगा मैं उसे इच्छानुसार धन दूँगा । राजाकी यह घोषणा जानकर सात धर्मक्षेत्रोंका  
 आश्रयभूत दृढवर्मा नामक श्रावक कुमारके पास आकर कहने लगा कि हे कुमार ! अपने और  
 दूसरेके आत्माको नष्ट करनेमें पण्डित तथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्रु हैं इसलिए  
 हे भद्र ! भाव-संयमका नाश नहीं कर प्रासुक भोजनके द्वारा मैं तेरी सेवा करूँगा । जो परिवारके  
 लोगोंसे विमुक्त नहीं हुआ है अर्थात् उनके अनुरागमें फँसा हुआ है उसकी संयममें प्रवृत्ति होना  
 दुर्लभ है, इस प्रकार हितकारी वचन कहे । कुमारने भी उसकी बात मानकर निर्विकार आचान्त  
 रसका आहार किया ॥ २०१-२०६ ॥ वह यद्यपि सुन्दर स्त्रियोंके समीप रहता था तो भी उसका

परशिव निशततासिबारायां सस्त्रकर्तव्यम् । सन्मन्त्र जीवितप्रान्ते कल्पे 'ब्रह्मोद्भवाम्नि ॥ २०८ ॥  
 विद्युन्मास्वैव देवोऽभूद्देवीन्वसतदिकटः । इत्यथ श्रेणिकप्रभादिदं बोवाच नीतमः ॥ २०९ ॥  
 विद्युन्मास्विन पृथामूर्ध्वोऽश्रित्वेभ्यपुत्रिकाः । जम्बूनाम्नस्रतकोऽपि भार्वास्तेनाप्य संभमम् ॥ २१० ॥  
 सहान्यकल्पे भूत्वेह वास्यन्ति परमं पद्म् । गत्वा सागरदत्ताक्यो दिवमश्रैत्य गिहृत्विम् ॥ २११ ॥  
 जम्बूनाको गृहत्यागसमये वास्यतीत्यपि । सर्वमेतद्गभाधीशानत्वकम्बाद्गतं मुदा ॥ २१२ ॥  
 निशाम्य मगाभाधीको विनं तं चान्ववन्दत् । मानवन्ति न के सन्तः श्रेषो मार्गोपदेशिनम् ॥ २१३ ॥  
 जयाम्येद्यः पुनः प्राप्य भगवन्तं भवान्तकम्<sup>१</sup> । प्रपूज्य मणवस्तस्मिन् सदस्तुदितेजसम् ॥ २१४ ॥  
 दृष्ट्वा तारागणे तारापतिं वा प्रीतिकेतनम् । प्रीतिङ्करं पुरावेन किं कृत्वा रूपमीदृशम् ॥ २१५ ॥  
 सप्साप्तमिति सोऽप्राक्षीद्गणभृच्चैवममधीत् । एतस्मिन् मगधे देसे सुप्रतिष्ठङ्गम् पुरम् ॥ २१६ ॥  
 जयसेनो महीपालः पालकस्तस्य लीलया । तत्र सागरदत्ताक्यः श्रेही तस्य प्रभाकरी ॥ २१७ ॥  
 भार्या तयोरभूत्सागदत्तो ज्येष्ठः सुतोऽनुजः । कुबेरदत्तो विरोधासमस्तवृगुदवासिनः ॥ २१८ ॥  
 नागदत्तं विवर्ज्यान्वे सर्वेऽभूवकुपासकाः । रत्नाकरेऽपि सद्रत्नं नामोत्पृष्टतपुण्यकः ॥ २१९ ॥  
 तेषां काले ब्रजत्येवं गिरौ धरणिभूषणे । वने प्रियङ्करोत्थाने कदाचित्समवस्थितम् ॥ २२० ॥  
 मुनिं सागरसेनाक्यं जयसेनवृपादयः । गत्वा सम्पूज्य बन्दित्वा धर्मं साध्वन्वबुधत ॥ २२१ ॥  
 सोऽप्येवममवीथ्याससम्यग्दर्शनलोचनाः<sup>२</sup> । दानपूजाप्रतोपोषितादिभिः प्राप्तपुण्यकाः ॥ २२२ ॥

चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुच्छ मानता था । इस तरह उसने बारह वर्ष तक तीक्ष्ण तलवारकी धारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारणकर आयुके अन्त समयमें संन्यास धारण किया जिसके प्रभावसे ब्रह्मस्वर्गमें यह अपने शरीरकी कान्तिसे दिशाओंको व्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है । यह कथा कहनेके बाद राजा श्रेणिकके पूछनेपर गौतम गणधर फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देवकी जो स्त्रियाँ हैं वे सेठोंकी पुत्रियाँ होकर जम्बूकुमारकी चार स्त्रियाँ होंगी और उसीके साथ संयम धारण कर अन्तिम स्वर्गमें उत्पन्न होंगी तथा वहाँसे आकर मोक्ष प्राप्त करेंगीं । सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, फिर वहाँसे आकर जम्बूकुमारकी दीक्षा लेनेके समय मुक्त होगा । इस प्रकार गणधरोंमें प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ । अन्तमें उसने वर्धमान स्वामी और गौतम गणधर दोनोंको नमस्कार किया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सज्जन हैं जो कि कल्याण मार्गका उपदेश देने वालेको नहीं मानते हैं—उसकी विनय नहीं करते हैं। २०७-२१३॥

अथानन्तर—दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी भगवान् महावीर स्वामीके समीप पहुँचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया । वहाँ उसने ताराओंमें चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिङ्कर मुनिको देखकर गणधर देवसे पूछा कि पूर्व जन्ममें इन्होंने ऐसा कौन-सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है । राजा जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था । उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम प्रभाकरी था । उन दोनोंके दो पुत्र हुए—उनमें नागदत्त बड़ा था और छोटा कुबेरकी समता रखने वाला कुबेरदत्त था । नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग श्रावक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य समुद्रमें भी उत्तम रत्नको नहीं प्राप्त करता है ॥ २१४-२१६ ॥ इस तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी समय धरणिभूषण नामक पर्वतके प्रियङ्कर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए । यह सुन राजा जयसेन आदिने जाकर उनकी पूजा-बन्दना की तथा धर्मका यथार्थ स्वरूप पूछा ॥ २२०-२२१ ॥ उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यग्दर्शन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं

प्राप्नुवन्ति सुखं स्वर्गं चापवर्गे च संयमात् । मिथ्याहवात् दानादिपुण्येन स्वर्गं सुखम् ॥ २२३ ॥  
 सम्प्राप्नुवन्ति तत्रैते क्षममाहात्म्यतः पुनः । कर्मादिभक्तिभक्त्यास्त्रिय स्वर्गो वा परतोऽपि वा ॥ २२४ ॥  
 सद्धर्मकामधेन्याश्च भवन्त्यभ्यर्णमोचनाः । अन्ये तु भोगसंसक्ता गाढमिथ्यात्वात्कथकाः ॥ २२५ ॥  
 हिंसानृतान्तरैरामारत्याहम्भपरिग्रहैः । पापं सञ्चित्य संसारदुष्कूपे निपतन्ति ते ॥ २२६ ॥  
 इति तद्वचनं श्रुत्वा बहवो धर्ममाचरन् । अथ सागरदत्ताख्यश्रेष्ठिना स्वासुषोऽवधौ ॥ २२७ ॥  
 परिपृष्टे मुनिश्चाह दिवसाक्षिप्तदित्यसौ । तच्छ्रुत्वा २नगरं श्रेष्ठी प्रविश्याष्टाक्षिकीं मुदा ॥ २२८ ॥  
 पूजां विधाय दत्त्वाभपदं ज्येष्ठाय सूनवे । आपृच्छथ बान्धवान् सशान्द्ं ह्यविशतिदिनानि सः ॥ २२९ ॥  
 सन्न्यस्य विधिवल्लोकमवापददृष्टतापिनाम् । अन्येक्षुर्नागदत्तोऽसौ लोभेनाद्येन चोदितः ॥ २३० ॥  
 कुबेरदत्तामहूय तप सागरधनं पिता । किमदर्शयदित्येवं पृष्टवान् दुष्टचेतसा ॥ २३१ ॥  
 तीव्रलोभविषक्तोऽयमित्यसावबगम्य तत् । किमावाभ्यामविज्ञातं धनमस्ति गुरोः पृथक् ॥ २३२ ॥  
 सन्न्यस्य विधिना स्वर्गगतस्वोपरि कृषणम् । महत्पापमिदं वक्तुं भ्रातस्तव न युज्यते ॥ २३३ ॥  
 श्रोतुं ममापि चेत्साह सोऽप्यपास्वास्त्य दुर्मतिम् । विभज्य सकलं वस्तु चैत्यचैत्यालकाविकम् ॥ २३४ ॥  
 निर्मांस्य जिनपूजाश्च विधाय विविधाः सदा । दानं चतुर्विधं पात्रत्रये भक्त्या प्रवर्त्य तौ ॥ २३५ ॥  
 कालं गमयतः स्मोक्षस्मीती प्रति परस्परम् । दत्त्वा सागरसेनाय कदाचिन्नक्तिपूर्वकम् ॥ २३६ ॥  
 भिक्षां कुबेरदत्ताख्यः सहितो धनमित्रया । अभिवन्द्य किमावाभ्यां तनूजो लभ्यते न वा ॥ २३७ ॥  
 मैत्रं चेत्प्रव्रजिष्याव इत्यप्राक्षीत्स चात्रवीत् । सुवां सुतं महापुण्यभागिनं चरमाज्ञकम् ॥ २३८ ॥

ऐसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वर्गके सुख पाते हैं और संयम धारण कर मोक्षके सुख पाते हैं । यदि मिथ्या-दृष्टि जीव दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग-सम्बन्धी सुख प्राप्त करते हैं । वहाँ कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोंके प्रभावसे कालादि लब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समीचीन धर्मको प्राप्त होनेके योग्य हो जाते हैं । यह बात निकट कालमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंकी है परन्तु जो तीव्र मिथ्यादृष्टि निरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, भूठ, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, आरम्भ और परिग्रहके द्वारा पापका संचय करते हैं वे संसार-रूपी दुःखदायी कुण्डमें गिरते हैं ॥ २२२-२२६ ॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर बहुत लोगोंने धर्म धारण कर लिया । इसके पश्चात् सेठ सागरदत्तने अपनी, आयुकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस दिनकी बतलाई । यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया और बड़े हर्षसे आष्टाहिक पूजाकर अपना पद अपने बड़े पुत्रके लिए सौंप दिया । तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुओंसे पूछकर उसने विधिपूर्वक बाईस दिनका संन्यास धारण किया और अन्त समयमें देव पद प्राप्त किया । किसी दूसरे दिन अनन्तानुबन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागदत्तने कुबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ धन दिखला गये हैं ? ॥ २२७-२३१ ॥ 'यह तीव्र लोभसे आसक्त हो रहा है' ऐसा समझकर कुबेरदत्तने उत्तर दिया कि क्या पिताजीके पास अलगसे ऐसा कोई धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों । वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हैं अतः उनपर दूषण लगाना बड़ा पाप है । भाई ! यह बात न तो तुम्हें कहनेके योग्य है और न मुझे सुननेके योग्य है । इस तरह कुबेरदत्तने नागदत्तकी सब दुर्बुद्धि दूर कर दी । सब धनका बाँट किया, अनेक चैत्य और चैत्यालय बनवाये, अनेक तरहकी जिन-पूजाएँ कीं, तीनों प्रकारके पात्रोंके लिए भक्तिपूर्वक चार प्रकारका दान दिया । इस प्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ़ रही है ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे । किसी एक दिन कुबेरदत्तने अपनी स्त्री, धन, मित्रोंके साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपूर्वक आहार दिया । आहार देनेके बाद नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं ? ॥ २३२-२३७ ॥ यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन-दीक्षा धारण कर लें । इसके उत्तरमें

कभेधामिति तद्वाच्यभवणासोचिताशयौ । यद्येवं पूज्यपादस्य भवतः कुल्लकोऽस्वसौ ॥ २३९ ॥  
 तस्मिन्पुण्यवत्त्वेव दास्याव इति तौ सुखम् । भुञ्जानी कतिचिन्म्यासान्गामवित्वा सुतोत्तमम् ॥ २४० ॥  
 कृत्वा प्रीतिङ्कराङ्गानमेतस्याकुलां मुदा । करोतु स्वगुणैस्तोष सर्वेषां जगतामिति ॥ २४१ ॥  
 पञ्चसंवत्सरातीतौ तस्मिन्वाभ्यपुरान्मुनी । आगते सति गत्सैनमभिवन्द्य मुनीन्द्र ते ॥ २४२ ॥  
 कुल्लकोऽर्चं गृह्णाति तस्मै दत्तः स्म ते तदा । प्रतिगृह्य गुरुधाम्यपुरमेव गतः पुनः ॥ २४३ ॥  
 तत्र तं सर्वशास्त्राणि दशवर्षाण्यशिक्षयत् । सोऽप्यासन्नविनेयत्वात्संयमप्रहणोत्सुकः ॥ २४४ ॥  
 \*गुरुभिर्नार्थं ते दीक्षाकालोऽयमिति वारितः । तथैवास्त्विति तान्भक्त्या वन्दित्वा पितरौ प्रति ॥ २४५ ॥  
 पथि \*स्वाभ्यस्तशास्त्राणि शिष्यानां समुपादशन् । छात्रवेषधरो गत्वा सर्वबन्धुकदम्बकम् ॥ २४६ ॥  
 मिलोत्पानन्तरं राज्ञा सम्पत्तिवहितसत्कृतिः । असाधारणमात्मानं मन्यमानः कुलादिभिः ॥ २४७ ॥  
 धनं बहुतरं सारं यावन्नावर्जयाम्यहम् । तावन्न संप्रहीप्यामि पत्नीमिति विचिन्तयन् ॥ २४८ ॥  
 अन्येद्युर्नागैः कैश्चिज्जलयात्रोन्मुखैः सह । यियासुर्धाम्वान्स्वार्वाणापृच्छयैतप्रयोजनम् ॥ २४९ ॥  
 सम्मनस्सैनमस्कर्तुं गत्वा गुरुमुदाराधीः । पत्रमेकं निजामिप्रेतार्थाङ्गरसमर्थितम् ॥ २५० ॥  
 गुरुणापितमादाय कर्णे सुस्थाप्य सादरम् । शकुनाद्यनुकूल्येन ससत्सः पोतसाधनः ॥ २५१ ॥  
 अवगाह्य पयाराशिं पुरं भूतिलकाङ्गयम् । परीतं बलयकारगिरिणा प्राप पुण्यवान् ॥ २५२ ॥

मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेंगे । इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दसे भर गया । वे प्रसन्नचित्त होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पूज्यपादके चरणोंमें लुल्लक होवे । उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे । इस तरह सुखका उपभोग करते हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये । कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया । 'यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगा' ऐसा विचार कर उन्होंने उसका बड़े हर्षसे प्रीतिङ्कर नाम रक्खा ॥ २३८-२४१ ॥ पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष बीत जानेपर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये । कुबेरदन और धनमित्राने जाकर उनकी वन्दना की तथा कहा कि 'हे मुनिराज ! यह आपका लुल्लक है, इसे ग्रहण कीजिए' इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया । मुनिराज भी उस बालकको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरमें चले गये ॥ २४२-२४३ ॥ वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस वर्ष तक समस्त शास्त्रोंकी शिक्षा दी । वह बालक निकटभव्य था अतः संयम धारण करनेके लिए उत्सुक हो गया परन्तु गुरुओंने उसे यह कह कर रोक दिया कि हे आर्य ! यह तेरा दीक्षा-ग्रहण करनेका समय नहीं है । प्रीतिङ्करने भी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर ली । तदनन्तर वह भक्ति-पूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया । वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्त्रोंका मार्गमें शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जाता था । इस प्रकार वह छात्रका वेष रखकर अपने समस्त बन्धुओंके पास पहुँचा । जब राजाको उसके आनेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया । अपने-आपको कुल आदिके द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिङ्करने विचार किया कि जब तक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ धन नहीं कमा लेता हूँ तब तक मैं पत्नीको ग्रहण नहीं करूँगा ॥ २४४-२४८ ॥

किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जलयात्रा-समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए । उनके साथ प्रीतिङ्कर भी जानेके लिए उद्यत हुआ । उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई-बन्धुओंसे पूछा । सम्पत्ति मिल जानेपर उत्कृष्ट बुद्धिका धारक प्रीतिङ्कर नमस्कार करनेके लिए अपने गुरुके पास गया । गुरुने अपने अभिप्रेत अर्थको सूचित करनेवाले अक्षरोंसे परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया । उसने वह पत्र बड़े आदरके साथ लेकर कानमें बाँध लिया तथा शकुन आदिकी अनुकूलता देख मित्रोंके साथ जहाज पर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया । तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद वह पुण्यात्मा, बलयके

साहसपूर्वाविभित्तस्त्रिभुध्वजनिः सभुजाश्वनाम् । निर्गच्छतो प्रपश्यन्निरस्तङ्क्य कनिकां वीरः ॥ २५३ ॥  
 मल्लैरुपुस्यन्निबन्ध प्रत्येतुनिह कः सहः । इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रीतिङ्करकुमारकः ॥ २५४ ॥  
 कर्मण्येऽस्य समर्थोऽहमिति सङ्गीर्णवाक्त्रया । चोचककजनिष्पहरज्ज्वा तैरवतारितः ॥ २५५ ॥  
 विस्मयात्परितः १ चक्रवर्णप्रविद्यय नगरं पुरा । किरीक्ष्य भवनं कैर्म बरीत्य विहितस्तुतिः ॥ २५६ ॥  
 ततो गत्वाशुभापातविगतसूचिकृष्यम् । सान्मत्तात्कन्यकां काञ्चिद्रुच्छन्तीं सरसो २ गृहान् ॥ २५७ ॥  
 केयमित्यनुगतोऽश्वी तं साकमेव गृहङ्गणे । भद्रागतः कुतो वेति वीठमस्मै समर्पयत् ॥ २५८ ॥  
 स्नेऽपि तस्योपरि स्मिन्वा नगरं केन हेतुना । सञ्जातबीदर्यं ब्रूहत्याह तामथ साजगती ॥ २५९ ॥  
 तद्वक्तुं नास्ति काकोऽस्मान्नात्र त्वं पाहि सत्वरम् । भयं महत्तवेहास्तीत्येतच्छ्रुत्वा स्र निर्भयः ॥ २६० ॥  
 यो भयं मम कर्ताऽत्र स किं बाहुसहस्रकः । इत्याह तत्रयोष्णुकवाग्भीरकिञ्चभगात् ॥ २६१ ॥  
 शिथिलीभूतभीः कन्धाप्यवोचद्विस्तरेण तत् । एतस्वगात्र्युदीच्यालकेभवाः सहजाक्षयः ॥ २६२ ॥  
 ज्यावान्हरिबलस्तस्य महासेनोऽनुजोऽनुजः । तस्य भूतिलकस्तेषु धारिण्यां ज्यायसोऽभवत् ॥ २६३ ॥  
 तनूजो भीमकस्तस्मादेव विद्याधरोऽसिचः । हिरण्यवर्मा भीमत्यामजायत सुतोऽपरः ॥ २६४ ॥  
 महासेनस्य सुन्दर्यामुप्रसेनः सुतोऽजनि । वरसेनञ्च तस्यानुजा जाताह वसुन्धरा ॥ २६५ ॥  
 कदाचिन्मरिपिता भीमविहारे विपुलं पुरम् । निरीक्ष्येदं चिरं चित्तहारीति स्वीचिकीर्षुकः ॥ २६६ ॥  
 एतच्चिवासिनीजित्वा रणे व्यन्तरदेवताः । ३ अत्र भूतिलकाख्येन सोदर्येण समन्वितः ॥ २६७ ॥

आकारवाले पर्वतसे घिरे हुए भूमितिलक नामके नगरमें पहुँचा ॥ २४६-२५२ ॥ उस समय शङ्क, तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगरके बाहर निकल रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्योंने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमें जाकर तथा इस बातका पता चलाकर वापिस आनेके लिए कौन समर्थ है ? यह घोषणा सुनकर प्रीतिङ्कर कुमारने कहा कि मैं यह कार्य करनेके लिए समर्थ हूँ । वैश्योंने उसी समय उसे दालचीनीकी झालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥ २५३-२५५ ॥ आश्चर्यसे चारों ओर देखते हुए कुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई दिया । उसने मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर स्तुति की । उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह-जगह शकोंके आघातसे बहुत लोग मरे पड़े हैं । उसी समय उसे सरोवरसे निकलकर घरकी ओर जाती हुई एक कन्या दिखी । यह कौन है ? इस बातका पता चलानेके लिए वह कन्याके पीछे चला गया । घरके आँगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिङ्करको देखा तो उसने कहा, हे भद्र ! यहाँ कहाँ से आये हो ? यह कह कर उसके बैठनेके लिए एक आसन दिया ॥ २५६-२५८ ॥ कुमारने उस आसन पर बैठ कर कन्यासे पूछा कि कहो, यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि यह कहनेके लिए समय नहीं है । हे भद्र ! तुम यहाँसे शीघ्र ही चले जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत भय भय उपस्थित है । कन्याकी बात सुनकर निर्भय रहनेवाले कुमारने कहा कि यहाँ जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार भुजाएँ हैं ? कुमारका ऐसा भयरहित गम्भीर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या विस्तारसे उसका कारण कहने लगी । उसने कहा कि इस विजयार्थ पर्वतकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उसके स्वामी तीन भाई थे । हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे छोटा था । हरिबलकी रानी धारिणीसे भीमक नामका पुत्र हुआ था और उसीकी दूसरी रानी श्रीमतीसे हिरण्यवर्मा नामका दूसरा पुत्र हुआ था । महासेनकी सुन्दरी नामक स्त्रीसे उग्रसेन और वरसेन नामके दो पुत्र हुए और मैं वसुन्धरा नामकी कन्या हुई ॥ २५९-२६५ ॥ किसी एक समय मेरे पिता पृथिवी पर विहार करनेके लिए निकले थे उस समय इस मनोहरी विशाल नगरको देख कर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हुई । पहले यहाँ कुछ व्यन्तर देवता रहते थे, उन्हें युद्धमें जीतकर हमारे पिता यहाँ भूतिलक नामक भाईके

१ पुरतः पुरम् म० । नगरं प्रियः क०, घ०, ग० । पुरा ल० । २ रहम् म०, ल० । ३ भतो क०, ग०, घ० ।



इह संवाप्तिभिर्भूयैः सेव्यमानः सुखेन सः । कालं गमयति स्मैवं कञ्चित्सञ्चितपुण्यकः ॥ २६८ ॥  
 इतः कनीयसे विद्यां भीमकायालकश्रियम् । दत्त्वा संसारभीरुत्वाक्विद्यया विजितेन्द्रियः ॥ २६९ ॥  
 कर्मनिर्मुक्तं कर्तुं दीक्षां हरिबलाह्वयः । विद्वान्बिपुलमत्याख्यचारणस्याप्यसन्निधौ ॥ २७० ॥  
 शुक्लभ्यानानलाहीढदुरिताष्टकदुष्टकः । अष्टमीमगमत्पृथ्वीमिष्टामष्टगुणान्वितः ॥ २७१ ॥  
 प्रकुर्वन् भीमको राज्यं विद्याः<sup>१</sup> शास्त्रेण केनचित् । हिरण्यवर्मणो हत्वा तं च हन्तुं समुद्यतः ॥ २७२ ॥  
 ज्ञात्वा हिरण्यवर्मैतत्सम्मेदाद्रिमशिश्रियत् । भीमकर्स्तं ऋधान्वितस्य गिरिं गन्तुमशक्तकः ॥ २७३ ॥  
 तीर्थैकसन्निधानेन तीर्थत्वादागमत्पुरम् । ततो हिरण्यवर्मोपि पितृव्यं समुपागतः ॥ २७४ ॥  
 तच्छ्रुत्वा तं निराकर्तुं पूज्यपादोऽहंतीत्यसौ । महासेनमहाराजं<sup>२</sup> प्राहिणोत्प्रतिपन्नकम् ॥ २७५ ॥  
 तस्यानिराकृतिं<sup>३</sup> तस्माद्ज्ञात्वाघातं युयुत्सया । क्रूरं पृथुं दुरात्मेति मत्पिता भीमकं ऋणे ॥ २७६ ॥  
 निश्चित्य शृङ्खलाकान्तमकरोत्कर्मयोर्द्वयोः । पुनः क्रमेण शान्तात्मा नैतद्युक्तं ममेति तम् ॥ २७७ ॥  
 मुक्त्वा विधाय सन्धानं प्रशमय्य हितोक्तिभिः । हिरण्यवर्मणा सार्धं दत्त्वा राज्यञ्च पूर्ववत् ॥ २७८ ॥  
 विससर्ज तथावशा बद्धवैरः स भीमकः । हिरण्यवर्मणि प्रायो विद्यां संसाध्य राक्षसीम् ॥ २७९ ॥  
 तथा हिरण्यवर्मणं पापी मरिपतरं पुरम् । मद्बन्धूनपि विष्वस्य मामुद्दिश्यागमिष्यति ॥ २८० ॥  
 इति सर्वं समाकर्ण्य कुमारो विस्मयं बहन् । शय्यातलस्थमालोक्य खड्गमेघ सुलक्षणः ॥ २८१ ॥

साथ सुखसे रहने लगे । यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया ॥ २६६-२६८ ॥ उधर इन्द्रियोंको जीतनेवाले विद्वान् राजा हरिबलको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्माके लिए विद्या दी और बड़े पुत्र भीमकको अलकापुरीका राज्य दिया । संसारसे भयभीत होनेके कारण विरक्त होकर उसने समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिए विपुलमति नामक चारण मुनिराजके पास जाकर उसने दीक्षा ले ली और शुक्लस्थान रूपी अग्निके द्वारा आठों दुष्ट कर्मोंको जलाकर आठ गुणोंसे सहित हो इष्ट आठवीं पृथिवी प्राप्त कर ली ( मोक्ष प्राप्त कर लिया ) ॥ २६९-२७१ ॥ उधर भीमक राज्य करने लगा उसने किसी छलसे हिरण्यवर्माकी विद्याएँ हर लीं । यही नहीं, वह उसे मारनेके लिए भी तैयार हो गया ॥ २७२ ॥ हिरण्यवर्मा यह जानकर सम्मेदशिखर पर्वतपर भाग गया । क्रोधवशा भीमकने वहाँ भी उसका पीछा किया परन्तु तीर्थकर भगवान्के सन्निधान और स्वयं तीर्थ होनेके कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लौट आया । तदनन्तर हिरण्यवर्मा अपने काका महासेनके पास चला गया ॥ २७३-२७४ ॥ जब भीमकने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं—हमारे पूजनीय हैं इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्माको वहाँसे निकाल दीजिए । महाराज महासेनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता । यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छासे यहाँ आया । 'यह दुरात्मा बहुत ही क्रूर है' यह समझ कर हमारे पिताने युद्धमें भीमकको जीत लिया तथा उसके दोनों वैर सांकलसे बाँध लिये । तदनन्तर अनुक्रमसे शान्त होनेपर हमारे पिताने विचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है ऐसा विचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हितसे भरे शब्दोंसे उसे शमन्त कर हिरण्यवर्माके साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया । भीमक उस समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यवर्माके साथ वैर नहीं छोड़ा । कलस्वरूप उस पापी भीमकने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्माको, मेरे पिताको तथा मेरे भाइयोंको मार डाला है, इस नगरको उजाड़ दिया है और अब मुझे लेनेके उद्देश्यसे आनेवाला है ॥ २७५-२८० ॥ यह सब कथा सुनकर आश्चर्यकी धारण करते हुए कुमार प्रीतिकरने शय्यातलपर घड़ी हुई एक तलवारको देखकर कहा कि इस तलवारके बहुत ही अच्छे लक्षण हैं । यह तलवार जिसके हाथमें होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता है । क्या तुम्हारे पिताने इस

वस्य हस्तगतो 'जेतुं तं शकोऽपि न शक्नुयात् । इति मत्वा पितानेन किं ते केनापि युद्धवात् ॥ २८२ ॥  
 इत्यप्राहीस्व तां सापि न स्वप्नेऽपीत्यभाषत । तदा प्रीतिङ्करो हस्तगतमर्धं विधाय तत् ॥ २८३ ॥  
 तं हन्तुं निर्भयो भीमं गोपुराम्बन्तरे स्थितः । निगूढतनुरविष्कृतोन्नतिर्वसुनं दधत् ॥ २८४ ॥  
 तस्मिन्क्षणे समागत्य समन्ताद्दीक्ष्य भीमकः । स्वविद्यां प्रेषयामास दृष्ट्वा दुष्टं जहीति तम् ॥ २८५ ॥  
 सम्यग्दृष्टिरयं सप्तविधभीतिविद्वरगः । चरमाङ्गो महाशूरो नाहं हन्तुमिमं क्षमा ॥ २८६ ॥  
 इति भीत्वा तदभ्यर्णे सञ्चरन्तीमितस्ततः । विलोक्य भीमको विद्यां शक्तिहीनो व्यसर्जयत् ॥ २८७ ॥  
 निस्सारामूर्धजेत्युक्त्वा साप्यगच्छददृश्यताम् । स्वयमेवासिमुत्स्वाय भीमकस्तं जिघांसुकः ॥ २८८ ॥  
 सम्प्राप्तवान्कुमारोऽपि तर्जयन्नतिभीषणम् । तद्वधतं वञ्चयित्वाहंस्तं प्राणैः सोऽप्यमुच्यत ॥ २८९ ॥  
 ततो विष्वस्य दुष्टारिमायान्तमभिवीक्ष्य सा । कुमारं कन्यकाभ्येत्य व्यधास्त्वं भद्र साहसम् ॥ २९० ॥  
 इत्यारोप्यासनं स्वर्णमयं राजगृहाङ्गणे । अभिविच्य जलापूर्णैः कलशैः कलशौतकैः ॥ २९१ ॥  
 विन्ध्यस्य मणिभासासि मुकुटं चारुमस्तके । यथास्थानमशेषाणि विशिष्टाभरणान्यपि ॥ २९२ ॥  
 विलासिनीकरोद्भूयमानचामरशोभिनम् । अकरोत्क्षिरीक्ष्याह प्रीतिङ्करकुमारकः ॥ २९३ ॥  
 किमेतदिति साबोधवस्यस्याः स्वामिनी पुरः । दत्त्वा राज्यं मदीयं ते 'पट्टबन्धपुरस्सरम् ॥ २९४ ॥  
 रत्नमालां गले कृत्वा त्वां प्रेम्णा समभीभवम् । इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्य कुमारः प्रत्यभाषत ॥ २९५ ॥  
 विना पित्रोरनुज्ञानात्स्वै स्वीक्रियसे मया । कोऽपि प्रागेव सङ्कल्पो विहितोऽयमिति स्फुटम् ॥ २९६ ॥  
 यद्येवं तत्समायोगकालेऽभीष्टं भविष्यति । इति तद्वचनं कन्या प्रतिपद्य धनं महत् ॥ २९७ ॥

तलवारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा । कन्याने उत्तर दिया कि इस तलवारसे पिताने स्वप्नमें भी युद्ध नहीं किया है । तदनन्तर प्रीतिङ्कर कुमारने वह तलवार अपने हाथमें ले ली ॥ २८१-२८३ ॥ जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रक्खा है और जो देदीप्यमान दिव्य तलवारको धारण कर रहा है ऐसा प्रीतिङ्कर भीमकको मारनेके लिए गोपुरके भीतर छिप गया । उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सब ओर देखकर तथा यह कहकर अपनी विद्याको भेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालो ॥ २८४-२८५ ॥ विद्या प्रीतिङ्करके पास जाते ही डर गई, वह कहने लगी कि यह सम्यग्दृष्टि है, सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है और महाशूरवीर है; मैं इसे मारनेके लिए समर्थ नहीं हूँ । इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी । यह देख, भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिहीन है तब उसने 'तू सारहीन है अतः चली जा' यह कह कर उसे छोड़ दिया और वह भी अदृश्यताको प्राप्त हो गई । विद्याके चले जानेपर प्रीतिङ्करको मारनेकी इच्छासे भीमक स्वयं तलवार उठाकर उस पर झपटा । इधर प्रीतिङ्करने भी उसे बहुत भयंकर डाँट दिखाकर तथा उसके वारको बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गये ॥ २८६-२८९ ॥ तदनन्तर दुष्ट शत्रुको मारकर आते हुए कुमारको देखकर कन्या सामने आई और कहने लगी कि हे भद्र ! आपने बहुत बड़ा साहस किया है ॥ २९० ॥ इतना कहकर उसने राजभवनके आँगनमें सुवर्ण-सिंहासनपर उसे बैठाया और जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशोंसे उसका राज्याभिषेक किया ॥ २९१ ॥ मणियोंकी कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दर मस्तक पर बाँधा; यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहिनाये और विलासिनी स्त्रियोंके हाथोंसे ढाँरे हुए चमरोंसे उसे सुशोभित किया । यह सब देख प्रीतिङ्कर कुमारने कहा कि यह क्या है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि 'मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँध कर अपने लिए देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गलेमें डालकर प्रेमपूर्वक आपकी सहधामिणी हो रही हूँ । यह सुनकर कुमारने उत्तर दिया कि मैं माता-पिताकी आज्ञाके बिना तुम्हें स्वीकृत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहलेसे ऐसा ही संकल्प कर रक्खा है । यदि तुम्हारा ऐसा आग्रह ही है तो माता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा । कन्याने प्रीतिङ्करकी यह बात मान ली और बहुत-सा धन बाँधकर उस लम्बी रस्सीके द्वारा जहाजपर उतारनेके लिए

बभ्रावतरणायामि रञ्जदा तेन सह स्वयम् । वियासुरासीद्रजुं तां <sup>१</sup>प्रमोदात्सोऽप्यचालयन् ॥ २९८ ॥  
सद्यस्तच्छालनं दृष्ट्वा नागदत्तो बहिर्गतः । समाकृष्याग्रहीतश्च ताञ्च द्रव्यञ्च तुष्टवान् ॥ २९९ ॥  
पोतप्रस्थानकालेऽस्याः साराभरणसंहतिम् । विस्मृतां स कुमारस्तामानेतुं गतवान् पुनः ॥ ३०० ॥  
नागदत्तस्तदा रञ्जुमाकृष्य द्रव्यमेतया । सारं सम्प्राप्तमेतन्मे भोक्तुमामरणाञ्जवेत् ॥ ३०१ ॥  
कृतार्थोऽहं कुमारेण यद्वा तद्गानुभूयताम् । इति <sup>२</sup>प्रास्थित सार्धं तैर्लक्ष्यरन्ध्रो वणिजजनैः ॥ ३०२ ॥  
नागदत्तोऽग्नितं ज्ञात्वा कन्यका मौनमब्रवीत् । प्रीतिकृराद्विनाशान्मूर्धैर्न वदाम्यहमित्यसौ ॥ ३०३ ॥  
नागदत्तोऽपि कन्वैषा भूकीर्तिं प्रतिपादयन् । तां द्रव्यरक्षणेऽथौष्णीत्प्रीत्या स्वाङ्गुलिसञ्चया ॥ ३०४ ॥  
कामात्स्वनगरं प्राप श्रेष्ठो प्रीतिकृरस्तदा । गतो भूतिलकं नापाकुत इत्यवदत्स तम् ॥ ३०५ ॥  
नागदत्तमसौ नाहं जानामीधुत्तरं ददौ । भूषणानि समादाय समुद्रतटमागतः ॥ ३०६ ॥  
नागदत्तेन पापेन स कुमारोऽतिसन्धितः । अदृष्ट्वा पोतमुद्दिप्तः पुरं प्रति निवृत्तवान् ॥ ३०७ ॥  
संचिन्तस्तत्र जैनेन्द्रगेहमेकं विलोक्य तम् । पुष्पादिभिः समभ्यर्च्य विधाय विधिवन्दनाम् ॥ ३०८ ॥  
जिन <sup>३</sup>त्वदृष्टमात्रेण मत्पापं काप्यलीयत । निशि दीपेन वा ध्वान्तं समुन्मीलितचक्षुषः ॥ ३०९ ॥  
चेतनः कर्मभिर्प्रस्तः सर्वोऽप्यन्यदचेतनम् । सर्वविल्कर्मनिर्मुक्तो जिन केनोपमीयसे ॥ ३१० ॥  
साङ्ख्यादीन् लोकविख्यातान् सर्वथा सावधारणान् । एको भवान् जिनाजैषीष्टिञ्च निरवधारणः ॥ ३११ ॥  
अबोधतमसाक्रान्तमनाशन्तं जगत्त्रयम् । सुप्तं त्वमेव जागसि शशद्विञ्च च पश्यसि ॥ ३१२ ॥

कुमारके साथ किनारे पर आ गई। कुमारने भी बड़े हर्षसे वह रस्सी हिलाई। रस्सीका हिलना देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्याको तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत संतुष्ट हुआ। जब जहाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूले हुए सारपूर्ण आभरणोंको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया ॥ २९२-३०० ॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने वह रस्सी खींच ली और 'इस कन्याके साथ मुझे बहुत-सा अच्छा धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्रीतिकृरकुमार जैसा-तैसा रहे' ऐसा विचार कर और छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया ॥ ३०१-३०२ ॥ कन्याने नागदत्तका अभिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाजपर प्रीतिकृरके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूंगी ॥ ३०३ ॥ नागदत्तने भी लोगों पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या गूँगा है और उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके साथ द्रव्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया ॥ ३०४ ॥ अनुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया। पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिकृर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको गया था वह क्यों नहीं आया? इसके उत्तरमें नागदत्तने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आभूषण लेकर प्रीतिकृर कुमार समुद्रके तटपर आया परन्तु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर पहले ही चला गया था। जहाजको न देखकर वह अद्विप्त होता हुआ नगरकी ओर लौट गया ॥ ३०५-३०७ ॥ चिन्तासे भरा प्रीतिकृर वहाँ एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिकसे उसने वहाँ विधिपूर्वक भगवान्की पूजा-वन्दना की। तदनन्तर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा ॥ ३०८ ॥

'हे जिनेन्द्र! जिस प्रकार रात्रिमें सुले नेत्रवाले मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दर्शन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥ ३०९ ॥ हे जिनेन्द्र! आप, शुद्ध जीव, कर्मोंसे प्रसिद्ध संसारी जीव और जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य, इन सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है? ॥ ३१० ॥ हे भगवन्! यद्यपि आप इन्द्रिय-ज्ञानसे रहित हैं तो भी इन्द्रिय-ज्ञानसे सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत लिया है यह आश्चर्यकी बात है ॥ ३११ ॥ हे देव! आदि और अन्तसे रहित यह तीनों लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा

वस्तुबोधे जिनेवस्थ जिनेन्द्र भवदागमः । निर्मलः शर्मदो हेतुरालोको<sup>१</sup> वा सचक्षुषः ॥ ३१३ ॥  
 इत्थं स्वकृतसंस्तोत्रः शुद्धअक्षयवोधनः । सम्भवत्संसारसन्नावं भाग्यवन्कर्मनिमित्तम् ॥ ३१४ ॥  
<sup>२</sup>अभिवेचनशालायां सुसंघान्कश्चिदाकुलः । तदा मन्दमहानन्दावागती गुणकामरी ॥ ३१५ ॥  
 वन्दितुं मन्दिरं जैनं बौद्धं तं कर्मव्रतकम् । तौ तदीयं समादाय सधर्मा<sup>३</sup> वा कुमारकः ॥ ३१६ ॥  
 इति प्रान्वयतं देवीं ब्रह्मेण महता सह । सुप्रतिष्ठं पुरं प्रीतिङ्करनेन प्रमोदिनम् ॥ ३१७ ॥  
 प्रेषयं युवयोरेतत्समाकर्मिणि तत्रतम् । गुरोः सन्देशमालोक्य<sup>४</sup> स्मृत्वा प्राग्भववृत्तकम् ॥ ३१८ ॥  
 वानरायस्वां दुरे पूर्वं धनदेवविजयपतेः । भूत्वायां जिनदत्तायां शान्तवो रमणः सुती ॥ ३१९ ॥  
 तत्र शास्त्राणि स्वर्णानि विदित्वा ग्रन्थतोऽर्थतः । चौरशास्त्रबलत्वापी परार्थहरणे रती ॥ ३२० ॥  
 अभूवास्मद्गुरुस्तत्प्राप्तित्वारभितुमक्षमः । सर्वसङ्गपरित्यागमकरोदतिदुस्तरम् ॥ ३२१ ॥  
 इतो धान्यपुराभ्यर्णेशिखिभूधरनामनि । भूधरे मुनिमाहात्म्याद् दुष्टाः सार्दूलकादयः ॥ ३२२ ॥  
 मृगः काञ्चिच्च वाचन्त इति भ्रुवा जनोदितम्<sup>५</sup> । कृततद्भूधरावासौ तत्र भूरितपोधनम् ॥ ३२३ ॥  
 इष्ट्वा सागरखेनाकर्षं तत्समीपे जिनोदितम् । भ्रूयः धर्मं परित्यज्य मधुमांसादिभक्षणम् ॥ ३२४ ॥  
 तस्मिन्पुरी ततः सुप्रतिष्ठास्त्वनगरं गते । सार्दूलोपद्रवान्मृत्वा देवभूयं गताविदम् ॥ ३२५ ॥  
 सर्वमेतद्गुरोरात्प्रतादित्यभिमत्य तम् । गत्वा सग्राप्य सगृज्य किमावाभ्यां निदेशनम् ॥ ३२६ ॥  
 कर्तव्यमिति सगृष्टो मुनिनाथोऽजर्षीदसौ । अतः परं दिनैः कैश्चित्कर्तव्यं यज्ञविष्यति ॥ ३२७ ॥

है उसमें केवल आप ही जग रहे हैं और समस्त संसारको देख रहे हैं ॥ ३१२ ॥ हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार चक्षुसहित मनुष्यको पदार्थका ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण है उसी प्रकार शिष्यजनोंको वस्तु-तत्त्वका ज्ञान होनेमें आपका निर्मल तथा सुखदायी आगम ही कारण है ॥ ३१३ ॥ इस प्रकार शुद्ध ज्ञानको धारण करनेवाले प्रीतिङ्कर कुमारने अपने द्वारा बनाया हुआ सत्तांत्र पदा तथा कर्मके द्वारा निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह विचार किया ॥ ३१४ ॥ तदनन्तर कुछ व्याकुल होता हुआ वह अभिवेकशाला ( स्नानगृह ) में सो गया । उसी समय नन्द और महानन्द नामके दो यक्ष देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए आये ॥ ३१५ ॥ उन्होंने जिन-मन्दिरके दर्शनकर प्रीतिङ्करके कानमें बँधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया । पत्रमें लिखा था कि 'यह प्रीतिङ्करकुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमारको तुम बहुत भारी द्रव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो । तुम दोनोंके लिए मेरा यही कार्य है' इस प्रकार उन दोनों देवोंने उस पत्रसे अपने गुणका संदेश तथा अपने पूर्वभवका सब समाचार जान लिया ॥ ३१६-३१८ ॥ पहले बनारस नगरमें धनदेव नामका एक वैश्य रहता था । हम दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्तव और रमण नामके दो पुत्र हुए थे ॥ ३१९ ॥ वहाँ हमने ग्रन्थ और अर्थसे सब शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया परन्तु चोर शास्त्रका अधिक अभ्यास होनेसे हम दोनों दूसरेका धन-हरण करनेमें तत्पर हो गये ॥ ३२० ॥ हमारे पिता भी हम लोगोंको इस चोरीके कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके इसलिए उन्होंने अत्यन्त कठिन समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया अर्थात् मुनिदीक्षा धारण कर ली ॥ ३२१ ॥ इधर धान्यपुर नगरके समीप शिखिभूधर नामक पर्वत पर मुनिराजके माहात्म्यसे वर्हापर रहनेवाले सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव भी किसीको बाधा नहीं पहुँचाते हैं इस प्रकार लोगोंका कहना सुनकर हम दोनोंने उस पर्वतको सागरसेन नामके अतिशय तपस्वी मुनिराज रहते थे हम लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये, उनके समीप जैनधर्मका उपदेश सुना और मधु, मांस आदिका त्याग कर दिया ॥ ३२२-३२४ ॥ तदनन्तर वे मुनिराज सुप्रतिष्ठ नगरमें चले जानेपर सिंहके उपद्रवसे मरकर हम दोनों इस देव-पर्यायको प्राप्त हुए हैं ॥ ३२५ ॥ 'यह सब गुरु महाराजसे लिये हुए व्रतके प्रभावसे ही हुआ है' ऐसा जानकर हम दोनों उनके समीप गये, उनकी पूजा की और

भवाद्भयमेव तद्ब्रह्मकव विधेयमिति सादरम् । स पृथ तस्य कन्दोक इति पत्रं प्रदत्तम् तत् ॥ ३२८ ॥  
 द्रव्येण बहुना सार्धं विमानमधिरोह्य तत् । सुप्रतिष्ठपुराम्पर्णं गिरिं धरणिभूषणम् ॥ ३२९ ॥  
 सद्यः प्रापयतः स्मैती किं न कुर्वाणोद्यतः । तदागमनमाकर्ण्य भूपतिस्तस्य वान्धवारः ॥ ३३० ॥  
 मगाराश्च विभूषैर्न सम्मन्त्रास्तनुपागताः । तेभ्यः प्रीतिङ्करं दत्त्वा स्वावासं जन्मतुः सुहृ ॥ ३३१ ॥  
 पुत्रं प्रविश्य सद्भ्यैः स महीशमपूजयत् । सोऽपि स्त्रभाभ्य तं स्थानमानादिभिरतोषयत् ॥ ३३२ ॥  
 अथान्येषुः कुमारस्य उवाचसीं प्रियमित्रिकाम् । मातरं स्वतनूजस्य प्राप्ते परिणयोत्सवे ॥ ३३३ ॥  
 आत्मस्तुषामकुरुतुं स्तनाभरणसंहतिम् । गृहीत्वा रथमारुह्य महादर्शनकर्मणे ॥ ३३४ ॥  
 यान्तीं द्रष्टुं समायाता रथ्यायां मूकिका स्वयम् । वीक्ष्य स्वभूषासन्दोहं स्पष्टमङ्गुलिसम्भ्रया ॥ ३३५ ॥  
 मदीयमेतदित्युक्त्वा जनान् सा तां रथस्थिताम् । रुध्वा स्थितवती सापि प्राहैषा प्रहिलेति ताम् ॥ ३३६ ॥  
 तद्भ्रातृ मन्त्रतन्त्रादिविधिभिः सुप्रयोजितैः । परीक्षयेयं न भूतोपसृष्टेति ध्यकमब्रुवन् ॥ ३३७ ॥  
 कुमारोऽपि तदाकर्ण्य न विभेतु कुमारिका । राजान्यासं समभ्येतु तत्राहं चास्त्युपस्थितः ॥ ३३८ ॥  
 इत्यस्याः प्राङ्घिण्यत्र गृहं तद्वीक्ष्य तत्राथा । श्रद्धायाह्वयिता राज्ञः समीपमगमन्मुदा ॥ ३३९ ॥  
 तदाभरणवृत्तान्तपरिच्छेदाय भूपतिः । धर्माध्यक्षान्समाहूय विचाराय न्ययोजयत् ॥ ३४० ॥  
 वसुन्धराञ्च तत्रैव कृत्वा सन्निहितां तदा । राजा कुमारमप्राक्षीद्वैसीदं किं भवानिति ॥ ३४१ ॥  
 अभिधाय स्वविज्ञातं शेषं वेतीयमेव तत् । देवता नाहमित्येवं सोऽपि भूपमवोधयत् ॥ ३४२ ॥

तदनन्तर दोनोंने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा था कि कुछ दिनोंके बाद मेरा कार्य होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आक्षरसे करना । सो मुनिराज हा वह संदेश यही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ॥ ३२६-३२८ ॥ इसके पश्चात् उन देवोंने बहुतसे धनके साथ उस प्रीतिङ्करको विमानमें बैठाया और सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवर्ती धरणिभूषण नामके पर्वतपर उसे शीघ्र ही पहुँचा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यका उदय क्या नहीं करता है ? प्रीतिङ्करका आना सुनकर राजा, उसके भाई-बन्धु और नगरके लोग बड़े हर्षसे अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीप आये । उन देवोंने वह प्रीतिङ्कर कुमार उन सबके लिए सौपा और उसके बाद वे अपने निवास-स्थानपर चले गये ॥ ३२९-३३१ ॥ प्रीतिङ्करने नगरमें प्रवेश कर समीचीन रत्नोंकी भेंट देकर राजाकी पूजा की और राजाने भी योग्य स्थान तथा मान आदि देकर उसे संतुष्ट किया ॥ ३३२ ॥

अथानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीतिङ्कर कुमारकी बड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके विवाहोत्सवमें अपनी पुत्रबधूको अलंकरण करनेके लिए रत्नमय आभूषणोंका समूह लेकर तथा 'रथपर सवार होकर सबको दिखलानेके लिए जा रही थी । उसे देखनेके लिए वह गूंगी कन्या स्वयं मार्गमें आई और अपने आभूषणोंका समूह देखकर उसने अँगुलीके इशारेसे सबको बतला दिया कि यह आभूषणोंका समूह मेरा है । तदनन्तर वह कन्या रथमें बैठी हुई प्रियमित्राको रोककर खड़ी हो गई । इसके उत्तरमें रथपर बैठी हुई प्रियमित्राने सबको समझा दिया कि यह कन्या पगली है ॥ ३३३-३३६ ॥ तब मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेवाले लोगोंने विधिपूर्वक मन्त्र-तन्त्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतला दिया कि न यह पगल है और न इसे भूत लगा है ॥ ३३७ ॥ यह सुनकर प्रीतिङ्कर कुमारने उस कन्याके पास गुप्त रूपसे इस आशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारि ! तू बिलकुल भय मत कर, राजाके पास आ, मैं भी वहीं उपस्थित रहूँगा । पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हर्षसे राजाके समीप गई । राजाने भी उसके आभूषणोंका वृत्तान्त जाननेके लिए धर्माधिकारियोंको बुलाकर नियुक्त किया ॥ ३३८-३४० ॥ राजाने वसुन्धरा कन्याको समीप ही आड़में बिठलाकर कुमार प्रीतिङ्करसे पूछा कि क्या आप इसका कुछ हाल जानते हैं ? ॥ ३४१ ॥ इसके उत्तरमें कुमारने अपना जाना हुआ हाल कह दिया और फिर राजासे सम्झाकर कह दिया कि बाकीका हाल मैं नहीं जानता

गन्धाविभिः समम्बर्ष्यं तां पटान्तरितां वृषः । देव ते ब्रूहि वद्वृष्टं तपसेष्वनुपुष्कवान् ॥ ३४३ ॥  
 सा नागदक्षदुरचेष्टां महीनाथमवबुधत् । श्रुत्वा तत्सुविचार्यास्मै कुपित्वात्नेन पापिना ॥ ३४४ ॥  
 कृतः पुत्रवधः स्वामिवधश्चेति महीपतिः । सर्वस्वहरणं कृत्वा निगृहीतुं तमुचतः ॥ ३४५ ॥  
 प्रतिषिद्धः कुमारेण नैतद्युक्तं तथेति सः । सौजन्यतस्तदा तुष्ट्वा कुमाराय निजात्मजाम् ॥ ३४६ ॥  
 पृथिवीसुन्दरीं नाम्ना कन्यकाञ्च वसुन्धराम् । द्वात्रिंशद्द्वैदयपुत्रीञ्च कल्याणविधिना ददौ ॥ ३४७ ॥  
 सह पूर्वधनस्थानमर्धराज्यञ्च माव्रते । पुरा विहितपुण्यानां स्वयमायान्ति सम्पदः ॥ ३४८ ॥  
 प्रीतः प्रीतिङ्करस्तत्र कामभोगान्समीप्सितान् । स्वेच्छया वर्धमानेच्छभिरायानुवभूव सः ॥ ३४९ ॥  
 मुनौ सागरसेनाख्ये सन्न्यस्यान्येधरीयुषि । लोकान्तरं तदागत्य चारणौ समुपस्थितौ ॥ ३५० ॥  
 ऋजुञ्च विपुलाख्यञ्च मत्पत्नीं मतिभूषणौ । रम्ये मनोहरोद्याने गत्वा स्तुत्वा वणिगवरः ॥ ३५१ ॥  
 धर्मं समन्वयुक्तैवावित्याहर्जुमतिस्तयोः<sup>१</sup> । धर्मोऽपि द्विविधो ज्ञेयः स गृहागृहभेदतः ॥ ३५२ ॥  
 एकादशविधस्तत्र धर्मो गृहनिवासिनाम् । श्रद्धा न अतभेदादिः शेषो दशविधः स्मृतः ॥ ३५३ ॥  
 क्षान्त्यादिः कर्मविध्वंसी तच्छ्रुत्वा तदनन्तरम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं पप्रच्छैवञ्च सोऽब्रवीत् ॥ ३५४ ॥  
 शृणु सागरसेनाख्यमुनिमानपयोगिनम् । पुरेऽस्मिन्नेव भूपालप्रमुखा वन्दितुं गताः ॥ ३५५ ॥  
 नानाविधाचर्चनाद्रम्यैः सम्पूज्य पुरमागताः । शङ्कतूर्यादिनिर्वातं<sup>२</sup> श्रुत्वैकमिह जम्बुकम् ॥ ३५६ ॥  
 कश्चिन्नोकान्तरं यातः पुरेऽधैतं जनो बहिः । क्षिप्त्वा यातु ततो भङ्गविष्यामीत्यागतं<sup>३</sup> मुनिः ॥ ३५७ ॥

यह देवी ही जानती है ॥ ३४२ ॥ राजाने कपड़ेकी आड़में बैठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे पूजा कर पूछा कि हे देवि ! तूने जो देखा हो वह ज्योंका त्यों कह ॥ ३४३ ॥ इसके उत्तरमें उस देवीने राजाको नागदक्षकी सब दुष्ट चेष्टाएँ बतला दीं । उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह विचार कर राजा नागदत्तसे बहुत ही कुपित हुआ । उसने कहा कि इस पापीने पुत्रवध किया है और स्वामि-द्रोह भी किया है । यह कहकर उसने उसका सब धन लुटवा लिया और उसका निग्रह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिङ्करने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है । उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी पृथिवीसुन्दरी नामकी कन्या, वह वसुन्धरा नामकी कन्या तथा वैश्योंकी अन्य बर्त्तास कन्याएँ विधिपूर्वक उसके लिए ब्याह दीं ॥ ३४४-३४७ ॥ इसके सिवाय पहलेका धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य किया है ऐसे मनुष्योंको सम्पदाएँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३४८ ॥ इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिङ्कर कुमारने वहाँ अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक मनचाहे काम-भोगोंका उपभोग किया ॥ ३४९ ॥

तदनन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर स्वर्ग चले गये । उसी समय वहाँ बुद्धि-रूरी आभूषणोंसे सहित ऋजुमति और विपुलमति नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये । प्रीतिङ्कर सेठने जाकर उनकी स्तुति की और धर्मका स्वरूप पूछा । उन दोनों मुनियोंमें जो ऋजुमति नामके मुनिराज थे वे कहने लगे कि गृहस्थ और मुनिके भेदसे धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए । गृहस्थोंका धर्म दर्शन-प्रतिमा, व्रत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है और कर्मोंका ज्ञय करनेवाला मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके भेदसे दश प्रकारका है । धर्मका स्वरूप सुननेके बाद प्रीतिङ्करने मुनिराजसे अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा । इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि मुनो, मैं कहता हूँ—किसी समय इसी नगरके बाहर सागरसेन मुनिराजने आतापन योग धारण किया था इसलिए उनकी वन्दनाके लिए राजा आदि बहुतसे लोग गये थे, वे नाना प्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शङ्क-दुरही आदि बाजोंके साथ नगरमें आये थे । उन बाजोंका शब्द सुनकर एक शृगालने विचार किया

भय्योऽर्थं व्रतमादाय मुक्तिमाशु गमिष्यति । इति मत्वा तमासन्नमसावेवमभाषत ॥ ३५८ ॥  
 प्राग्जन्मकृतपापस्य फलेनाभूः शृगालकः । इदानीञ्च कुम्भीः साधुसमायोगेऽपि मन्वसे ॥ ३५९ ॥  
 दुष्कर्म विरमैतस्माद्दुरन्तदुरितावहात् । गृहाण व्रतमभ्येहि परिणामशुभावहम् ॥ ३६० ॥  
 इति तद्वचनादेशे मुनिर्मन्मनसि स्थितम् । ज्ञातवानिति सञ्जातसम्भदं स शृगालकम् ॥ ३६१ ॥  
 मुनिस्तद्विक्रिताभिज्ञः पुनरेवं समब्रवीत् । स्वमन्यस्य न शक्नोपि व्रतस्यामिपलाकसः ॥ ३६२ ॥  
 गृहाणेदं व्रतं श्रेष्ठं रात्रिभोजनवर्जनम् । परलोकस्य पाथेयमिति धर्म्यं मुनेर्वचः ॥ ३६३ ॥  
 श्रुत्वा भक्त्या परीत्यैवं प्रणम्य कृतसम्भदः । गृहीत्वा तद्व्रतं मद्यमांसादीनि च सोऽव्यजत् ॥ ३६४ ॥  
 तदा प्रभृति शाल्यादि विशुद्धाशनमाहरन् । अतिकृच्छ्रं तपः कुर्वन् कञ्चित्कालमजीगमत् ॥ ३६५ ॥  
 शुष्काहारमथान्येद्यभुक्त्वा तृष्णातिबाधितः । अर्कास्तमयवेलायां पयःपानाभिलाषया ॥ ३६६ ॥  
 कृपं सोपानमार्गेण प्रविदधान्तः किमप्यसौ । तत्रालोकमनालोक्य दिनेशांस्तस्तुपागतः ॥ ३६७ ॥  
 इति निर्गम्य दृष्ट्वा मां पुनः पातुं प्रविष्टवान् । गोमायुरेवं द्विखिर्वा कुर्वस्तत्र गमागमौ ॥ ३६८ ॥  
 दिनेशमस्तमानीय सोढवृष्णापरीषहः । विशुद्धपरिणामेन मृतिमित्वा ददव्रतः ॥ ३६९ ॥  
 एवं कुबेरदास्य भूत्वा प्रीतिङ्करः सुतः । व्रतेन धनमित्रायामीदृगैश्वर्यमाप्तवान् ॥ ३७० ॥  
 इति तद्वचनाज्जातसंवेगस्तं यतीश्वरम् । शंसन् व्रतस्य माहात्म्यमभिवन्द्य ययौ गृहम् ॥ ३७१ ॥  
 निर्ध्रतः संघृती दीर्घमदनन् दुःखान्वयनारतम् । अपारं खेदमायाति दुर्भिक्षे दुर्बिभो यथा ॥ ३७२ ॥

कि 'आज कोई नगरमें मर गया है इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आये हैं, मैं जाकर उसे खाऊँगा' ऐसा विचार कर वह शृगाल मुनिराजके समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समझ गये कि यह भय्य है और व्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज उस निकटभय्यसे इस प्रकार कहने लगे कि 'पूर्व जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे अब शृगाल हुआ है और अब फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलने पर भी उसी दुष्कर्मका विचार कर रहा है। हे भय्य ! तू दुःखदायी पापका देनेवाले इस जुर्मसे विरत हो व्रत ग्रहण कर और शुभ परिणाम धारण कर ॥ ३५०-३६० ॥ मुनिराजके यह वचन सुनकर शृगालको इस बातका बहुत हर्ष हुआ कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित बातको जानते हैं। शृगालकी चेष्टाको जाननेवाले मुनिराजने उस शृगालसे फिर कहा कि तू मांसका लोभी होनेसे अन्य व्रत ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है अतः रात्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ व्रत धारण कर ले। मुनिराजके वचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल (पाथेय) ही थे। मुनिराजके धर्मपूर्ण वचन सुनकर वह शृगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया और रात्रिभोजन त्यागका व्रत लेकर मद्य-मांस आदिका भी त्याग कर दिया ॥ ३६१-३६४ ॥ उस समयसे वह शृगाल चावल आदिका विशुद्ध आहार लेने लगा। इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया ॥ ३६५ ॥ किसी एक दिन उस शृगालने सूखा आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर वह सूर्यास्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीदियोंके मार्ग-द्वारा किसी कुएँके भीतर गया। कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझा कि सूर्य अस्त हो गया है इसलिए पानी बिना पिये ही बाहर निकल आया। बाहर आनेपर प्रकाश दिखा इसलिए पानी पीनेके लिए फिरसे कुएँके भीतर गया। इस तरह वह शृगाल दो तीन बार कुएँके भीतर गया और बाहर आया। इतनेमें सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान, उस शृगालने अपने व्रतमें दृढ़ रहकर तृषः-परिषह सहन किया और विशुद्ध परिणामोंसे मरकर कुबेरदत्त सेठकी धनमित्रा स्त्रीसे प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ। व्रतके प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर प्रीतिकर संसारसे भयभीत हो उठा, उसने व्रतके माहात्म्यको बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराजको नमस्कार कर वह अपने घर लौट आया ॥ ३६६-३७१ ॥ आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार दुर्भिक्ष पड़ने पर दरिद्र मनुष्य बहुत ही दुःखी होता है उसी प्रकार इस संसारमें व्रतरहित मनुष्य दीर्घकाल तक दुःख भोगता हुआ निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता

व्रताप्रत्ययमायाति निर्मलतः सङ्गृह्यते जनैः । व्रती सफलवृद्धो वा निर्मलतो बन्ध्यवृक्षवत् ॥ ३०३ ॥  
 अभीष्टफलमाप्नोति व्रतवान्परजन्मनि । न व्रतादपरो बन्धुनां व्रतादपरो रिपुः ॥ ३०४ ॥  
 सर्वैर्वाग्जतिनो प्राज्ञा निर्मलतस्य न केनचित् । उग्रभिर्देवताभिश्च व्रतवाचाभिभूयते ॥ ३०५ ॥  
 जन्तोऽपि नमस्येव व्रतवन्तं 'वयोनवम् । वयोवृद्धो व्रताद्धीनस्तृणवद्गणयते जनैः ॥ ३०६ ॥  
 प्रवृत्त्यादीयते पापं निवृत्त्या तस्य सकृद्वयः । व्रतं निवृत्तिमेवाहुस्तद्गृह्णात्युत्तमो व्रतम् ॥ ३०७ ॥  
 व्रतेन जायते सम्पत्ताव्रतं सम्पदे भवेत् । तस्मात्सम्पदमाकोक्षाच्चिःकांक्षः सुव्रतो भवेत् ॥ ३०८ ॥  
 स्वर्गापवर्गयोर्बीजं जन्तोः स्वल्पमपि व्रतम् । तत्र प्रीतिकुरो वाच्यो ह्यक्तं दृष्टान्तकांक्षिणाम् ॥ ३०९ ॥  
 पूर्वोपातव्रतस्वेष्टं फलमत्राशुभूयते । कथितकदाचित्किञ्चित्किञ्चित् जायते कारणाद्विना ॥ ३१० ॥  
 कारणादिच्छता कार्यं कार्ययोः सुखदुःखयोः । धर्मपापे विपर्यस्ते तदा धान्यरादीक्ष्यताम् ॥ ३११ ॥  
 धर्मपापे 'विमुच्यान्यद्द्वितीयं कारणं वदन् । को विधीर्भ्रसनी नोवेक्षिर्दुणो नास्तिकोऽथवा ॥ ३१२ ॥  
 धीमानुदीक्षते ऽपवयम् जन्मनोऽस्य हिवाहिते । भाविनस्ते प्रपवयन्तः स्युर्न धीमशमाः कथम् ॥ ३१३ ॥  
 इति मत्वा जिनप्रोक्तं व्रतमादाय शुद्धधीः । स्वर्गापवर्गसौख्याय यतेताविष्कृतोद्यमः ॥ ३१४ ॥  
 अथ प्रियङ्कराख्याय साभिषेकं स्वसम्पदम् । वसुन्धरातुजे प्रीतिकुरोऽद्या विरक्षधीः ॥ ३१५ ॥  
 पुष्य राजगृहं सार्धं बहुभिर्भृत्यवान्धवैः । भगवत्पार्श्वमासाद्य संयमं प्राप्तवानयम् ॥ ३१६ ॥

रहता है ॥ ३०२ ॥ व्रतके कारण इस जीवका सब विश्वास करते हैं और व्रतरहित मनुष्यसे सब लोग सदा शङ्कित रहते हैं । व्रती फलसहित वृक्षके समान हैं और अव्रती फलरहित बन्ध्य वृक्षके समान हैं ॥ ३०३ ॥ व्रती मनुष्य पर-जन्ममें इष्ट फलका प्राप्त हाता है इसलिए कहता पढ़ता है कि इस जीवका व्रतसे बढ़कर कोई भाई नहीं है और अव्रतसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है ॥ ३०४ ॥ व्रती मनुष्यके वचन सभी स्वीकृत करते हैं परन्तु व्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता । बढ़े-बढ़े देवता भी व्रती मनुष्यका निरस्कार नहीं कर पाते हैं ॥ ३०५ ॥ व्रती मनुष्य अथस्याका नया हो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं और वृद्धजन व्रतरहित हो तो उसे लोग तृणके समान तुच्छ समझते हैं ॥ ३०६ ॥ प्रवृत्तिसे पापका ग्रहण होता है और निवृत्तिसे उसका क्षय होता है । यथार्थमें निवृत्तिकी ही व्रत कहते हैं इसलिए उत्तम मनुष्य व्रतको अवश्य ही ग्रहण करते हैं ॥ ३०७ ॥ व्रतसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है और अव्रतसे कभी संपत्ति नहीं मिलती इसलिए सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको निष्काम होकर उत्तम व्रती होना चाहिये ॥ ३०८ ॥ इस जीवके लिए छोटा-सा व्रत भी स्वर्ग और मोक्षका कारण होता है इस विषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं उन्हें प्रीतिकरका दृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥ ३०९ ॥ जिन्होंने पूर्वभवमें अच्छी तरह व्रतका पालन किया है वे इस भवमें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है क्योंकि बिना कारणके क्या कभी कोई कार्य होता है ? ॥ ३१० ॥ जो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःख रूपी कार्यका कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिये अर्थात् धर्मसे सुख और पापसे दुःख होता है ऐसा मानना चाहिये । जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फलकी ही प्राप्ति होती देखी जाती है ॥ ३११ ॥ यदि वह मूर्ख, व्यसनी, निर्देय, अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म और पापको छोड़कर सुख और दुःखका कारण कुछ दूसरा ही है ऐसा कौन कहेगा ? ॥ ३१२ ॥ जो केवल इसी जन्मके हित अहितको देखता है वह भी बुद्धिमान् कहलाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-अहितका विचार रखते हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान् क्यों नहीं कहलावें ? अर्थात् अवश्य ही कहलावें ॥ ३१३ ॥ ऐसा मानकर शुद्ध बुद्धिके धारक पुरुषको चाहिये कि वह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्षके सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे ॥ ३१४ ॥ तदनन्तर विरक्त बुद्धिको धारण करनेवाले प्रीतिकरने अपनी स्त्री वसुन्धराके पुत्र प्रियङ्करके लिए अभिषेकपूर्वक अपनी सब सम्पदाएँ समर्पित कर दीं और अनेक सेवक तथा भाई-बन्धुओंके साथ राजगृह नगरमें भगवान्

१ वयसा नवो वयोनवस्तम् नवयौवनसम्पन्नम् । 'सयौवनम्' इति क्वचित्, नवयौवनम् (?) २ विमुच्यन् मे छ० । ३ पर्य छ० ।



निष्प्रव्यवहारालसारनिर्वाणसाधनम् । त्रिरूपमोक्षसन्मार्गभावन्नं तद्वलोदयात् ॥ ३८० ॥  
 निहृत्य घातिकर्माणि प्राप्त्यानन्तचतुष्टयम् । अघातीनि च विष्वस्य पारमात्म्यं प्रयास्यति ॥ ३८८ ॥  
 इति श्रीमद्गणगणधरनिदेशान्मगधेश्वरः । प्रीतवानभिवन्द्यायान्मन्वानः स्वकृतार्थताम् ॥ ३८९ ॥  
 अथान्यदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकीं एवम् । दधत्त्वा गणधरं कुड्मलीकृतहस्तकः ॥ ३९० ॥  
 केषावसर्पिणीकालस्थितिं निरवशेषतः । आगाम्युत्सर्पिणीकालस्थितिमप्यनुयुक्तवान् ॥ ३९१ ॥  
 गणी निजद्विजाभीषुप्रसरैः प्रीणयन् सभाम् । गिरा गम्भीरया व्यक्तमुक्तवानिति स क्रमात् ॥ ३९२ ॥  
 चतुर्थकालपर्यन्ते स्थिते संवत्सरत्रये । साष्टमासे सपक्षे स्यात्सिद्धः सिद्धार्थनन्दनः ॥ ३९३ ॥  
 दुष्यमायाः स्थितिर्वर्षसहस्राण्येकविंशतिः । शतवर्षायुषस्तस्मिन्नुक्त्येन मता नराः ॥ ३९४ ॥  
 सत्सारस्त्रिप्रमाणगङ्गा रक्षच्छाया विरूपकाः । त्रिकालाहारनिरताः सुरतासक्तमानसाः ॥ ३९५ ॥  
 परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषां स्युः कालदोषतः । यतोऽस्यां पापकर्माणो जनिष्यन्ते सहस्रशः ॥ ३९६ ॥  
 यथोक्तभूजामावाज्जाते वर्णादिसङ्करे । दुष्यमायां सहस्राब्दव्यतीती धर्महानितः ॥ ३९७ ॥  
 पुरे पाटलिपुत्राख्ये शिशुपालमहीपतेः । पापी तनूजः पृथिवीसुन्दर्यां दुर्जनादिमः ॥ ३९८ ॥  
 चतुर्मुखः कल्किराजो वैजितभूतलः । उत्पत्स्यते माघसंवत्सरयोगसमागमे ॥ ३९९ ॥  
 समानां सप्ततिस्तस्य परमायुः प्रकीर्तितम् । चत्वारिंशत्समा राज्यस्थितिश्चाक्रमकारिणः ॥ ४०० ॥  
 वृष्णवत्युक्तपापण्डिवर्गस्याज्ञाविधायिनः । निजभृत्यस्वमापाद्य महीं कृत्वां स भोक्ष्यति ॥ ४०१ ॥  
 अधान्येषः स्वमिथ्यात्वपाकाविष्कृतचेतसा । पापण्डु किमस्माकं सन्ध्याज्ञापरारम्भताः ॥ ४०२ ॥

महावीर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है ॥३८५-३८६॥ निश्चय और व्यवहार रूप मोक्षका साधन, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप मोक्षमार्गकी भावना ही है । सो इसके बलसे ये प्रीतिकर मुनिराज घातिया कर्मोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अघातिया कर्मोंको नष्ट कर परमात्म-पद प्राप्त करेंगे ॥ ३८७-३८८ ॥ इस प्रकार श्रीमान् गणधरदेवकी कही कथासे राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ नगरमें चला गया ॥३८९॥  
 अथानन्तर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी कालकी स्थिति और आनेवाले उत्सर्पिणी कालकी समस्त स्थिति पूछी ॥ ३९०-३९१ ॥ तब गणधर भगवान् अपने दाँतोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको संतुष्ट करते हुए गम्भीर-वाणी द्वारा इस प्रकार अनुक्रमसे स्पष्ट कहने लगे ॥ ३९२ ॥ उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी रह जावेंगे तब भगवान् महावीर स्वामी सिद्ध होंगे ॥ ३९३ ॥ दुःषमा नामक पञ्चम कालकी स्थिति इक्कीस हजार सागर वर्षकी है । उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सौ वर्षकी आयुके धारक होंगे ॥ ३९४ ॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायगी, रूप भद्दा होगा, वे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे और उनके मन काम-सेवनमें आसक्त रहेंगे ॥ ३९५ ॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्योंकि पाप करनेवाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे ॥ ३९६ ॥ शास्त्रोक्त लक्षणवाले राजाओंका अभाव होनेसे लोग वर्णसंकर हो जावेंगे । उस दुःषमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर धर्मकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा शिशुपालकी रानी पृथिवीसुन्दरीके चतुर्मुख नामका एक ऐसा पापी पुत्र हांगा जो कि दुर्जनोंमें प्रथम संख्याका होगा, पृथिवीको कम्पायमान करेगा और कल्कि राजाके नामसे प्रसिद्ध होगा । यह कल्कि मघा नामके संवत्सरमें होगा ॥ ३९७-३९८ ॥ आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु सत्तर वर्षकी होगी और उसका राज्यकाल चालीस वर्ष तक रहेगा ॥ ४०० ॥ पाण्डी साधुओंके जो द्वियानव वर्ग हैं उन सबका वह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरह समस्त पृथिवीका उपभोग करेगा ॥ ४०१ ॥ तदनन्तर मिथ्यात्वके उदयसे जिसका चित्त भर रहा है ऐसा पापी कल्कि अपने मन्त्रियोंसे पूछेगा कि कहो इन पाण्डी साधुओंमें अब भी क्या कोई ऐसे है जो हमारी

कथ्यतामिति पापेन प्रह्वय्यास्तेन मन्त्रिणः । निर्ग्रन्थाः सन्ति देवैति ते वदिव्यन्ति सांसपि तान् ॥ ४०३ ॥  
 आचारः कीदृशस्तेषामिति प्रदयति भूपतिः । निजपाणिपुटामत्रा धनहीना गतस्पृहाः ॥ ४०४ ॥  
 अहिंसाव्रतरक्षार्थं त्यक्तकेलादिसंवराः । साधनं तपसो मत्वा देहस्थित्यर्थमाहूतिम् ॥ ४०५ ॥  
 एकद्वयुपोषितप्रान्ते भिक्षाकालेऽङ्गदर्शनात् । नियाचनास्त्वशाब्दोक्तां प्रहातुमभिलाषिणः ॥ ४०६ ॥  
 आत्मनां घातके त्रायके च ते समदर्शिनः । क्षुत्पिपासादिवाधायाः सहाः सत्यपि कारणे ॥ ४०७ ॥  
 परपापिण्डवचान्यैरदत्तमभिलाषुकाः । सर्पा वा विहितावासा ज्ञानध्यानपरायणाः ॥ ४०८ ॥  
 अनृतसञ्चारदेशेषु संवसन्ति सृगैः समम् । इति वक्ष्यन्ति द्रष्टुं स्वैर्विशिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४०९ ॥  
 श्रुत्वा तत्सहितुं नाहं शाक्रोग्यक्रमवर्तनम् । तेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्डः शुल्को विधायताम् ॥ ४१० ॥  
 इति राजोपदेशेन याचिष्यन्ते नियोगिनः । अग्रपिण्डमभुञ्जानाः स्थास्यन्ति मुनयोऽपि ते ॥ ४११ ॥  
 तद्दृष्ट्वा दृषिणो नम्रा नाज्ञां राज्ञः प्रतीप्सवः । किं जातमिति ते गत्वा ज्ञापयिष्यन्ति तं नृपम् ४१२ ॥  
 सोपि पापः स्वयं क्रोधादरूणीभूतवीक्षणः । उद्यमी पिण्डमाहर्तुं प्रस्फुरद्दशनच्छदः ॥ ४१३ ॥  
 सोढुं तदक्षमः कश्चिदसुरः शुद्धहृददा । हनिष्यति तमन्यायं शक्तः सन् सहते न हि ॥ ४१४ ॥  
 सोऽपि रक्षप्रभां गत्वा सागरोपमजीवितः । चिरं चतुर्मुखो दुःखं लोभादनुभविष्यति ॥ ४१५ ॥  
 धर्मनिर्मूलविध्वंसं सहन्ते न प्रभावुकाः । नास्ति सावच्छलेशेन विना धर्मप्रभावना ॥ ४१६ ॥

आज्ञासे पराङ्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्त्री कहेंगे कि हे देव ! निर्ग्रन्थ साधु अब भी आपकी आज्ञासे बहिर्भूत हैं ॥ ४०२-४०३ ॥ यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार कैसा है ? इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बर्तन है अर्थात् वे हाथमें ही भोजन करते हैं, धनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिए वस्त्रादिका आवरण छोड़कर दिगम्बर रहते हैं, तपका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए एक दो उपवासके बाद भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनाके विना ही अपने शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार आहार ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, वे लोग अपना घात करनेवाले अथवा रक्षा करनेवाले पर समान दृष्टि रखते हैं, लुधा वृषा आदिकी वाधाको सहन करते हैं, कारण रहते हुए भी वे अन्य साधुओंके समान दूसरेके द्वारा नहीं दी हुई वस्तुकी कभी अभिलाषा नहीं रखते हैं, वे सर्पके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते हैं, ज्ञान-ध्यानमें तन्पर रहते हैं और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ रहते हैं । इस प्रकार उस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे ॥ ४०४-४०६ ॥ यह सुनकर राजा कहेगा कि मैं इनकी अक्रम प्रवृत्तिको सहन करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ, इसलिए इनके हाथमें जो पहला भोजनका भास दिया जाय वही कर रूपमें इनसे वसूल किया जावे ॥ ४१० ॥ इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम भास माँगेंगे और मुनि भोजन किये बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे । यह देख अहंकारसे भरे हुए कर्मचारी राजासे जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्या हो गया है ? दिगम्बर साधु राजाकी आज्ञा माननेको तैयार नहीं हैं ॥ ४११-४१२ ॥ कर्मचारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र लाल हो जावेंगे और आँठ फड़कने लगेगा । तदनन्तर वह स्वयं ही भास छीननेका उद्यम करेगा ॥ ४१३ ॥ उस समय शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सकेगा इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्यायको सहन नहीं करता है ॥ ४१४ ॥ यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली पृथिवीमें जावेगा, वहाँ एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभ-कषायके कारण चिरकाल तक दुःख भोगेगा ॥ ४१५ ॥ प्रभावशाली मनुष्य धर्मका निर्मूल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ सावध ( हिंसापूर्ण ) कार्यके बिना धर्म-प्रभावना हो नहीं सकती इसलिए सम्यग्दृष्टि असुर अन्यायी

धर्मो माता पिता धर्मो धर्मच्छाताभिवर्धकः । धर्ता भवन्मृतां धर्मो निर्मले निश्चले पदे ॥ ४१७ ॥  
 धर्मध्वंसे सतां ध्वंसस्तस्माद्धर्मद्रुहोऽधमान् । निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तैः सतां जगत् ॥ ४१८ ॥  
 निमित्तैरुद्धारप्रोक्तैस्तपोभिर्जनरञ्जनैः । धर्मोपदेशनैरन्ववादिदपातिशातनैः ॥ ४१९ ॥  
 नृपचेतोहरैः श्रम्यैः काव्यैः शब्दार्थसुन्दरैः । सन्निः शौर्येण वा कार्यं शासनस्य प्रकाशनम् ॥ ४२० ॥  
 चिन्तामणिसमाः केचित्प्रार्थितार्थप्रदायिनः । दुर्लभा धीमतां पूज्या धन्या धर्मप्रकाशकाः ॥ ४२१ ॥  
 रुचिः प्रवर्तते यस्य जैनशासनभासने । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूत्रे निगद्यते ॥ ४२२ ॥  
 स शाब्दः स हि तर्कज्ञः स सैद्धान्तः स सत्पापाः । यः शासनसमुद्राप्सी न चेत्किं तैरनर्थकैः ॥ ४२३ ॥  
 भास्वतेव जगद्येन भासते जैनशासनम् । तस्य पादाङ्गुजद्वन्द्वं ध्रियते मूर्ध्नि धार्मिकैः ॥ ४२४ ॥  
 उद्वानिव रत्नस्य मलयश्चन्दनस्य वा । धर्मस्य प्रभवः श्रीमान् पुमान् शासनभासनः ॥ ४२५ ॥  
 कण्टकानिव राज्यस्य नेता धर्मस्य कण्टकान् । सद्बोद्धरतिसोद्योगो यः स लक्ष्मीचरो भवेत् ॥ ४२६ ॥  
 प्रमदप्रसवाकीर्णं मनोरङ्गे महानटः । नटताज्जैनसद्धर्मभासनाभिनयो मम ॥ ४२७ ॥  
 तनूजः कल्किराजस्य बुद्धिमानजितञ्जयः । पत्न्या वाकनया सार्धं यात्येन शरणं सुरम् ॥ ४२८ ॥  
 सम्यग्दर्शनरत्नञ्च महार्घं स्वीकरिष्यति । जिनेन्द्रधर्ममाहात्म्यं दृष्ट्वा सुरविनिर्मितम् ॥ ४२९ ॥  
 तदा प्रभृति दुर्दर्पस्त्याज्यः पाषण्डिपापिभिः । कञ्चिक्कालं जिनेन्द्रोक्तधर्मो वतिष्यतेतराम् ॥ ४३० ॥

चतुर्मुख राजाको मारकर धर्मकी प्रभावना करेगा ॥ ४१६ ॥ इस संसारमें धर्म ही प्राणियोंकी माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही बढ़ानेवाला है, और धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मात्र पदमें धारण करनेवाला है ॥ ४१७ ॥ धर्मका नाश होनेसे सज्जनोंका नाश होता है इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्मका द्रोह करनेवाले नीच पुरुषोंका निवारण करते ही हैं और ऐसे ही सत्पुरुषोंसे सज्जन-जगत्की रक्षा होती है ॥ ४१८ ॥ आठ प्रकारके निमित्तज्ञान, तपश्चरण करना, मनुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्तको हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और अर्थसे सुन्दर काव्य बनाना, तथा शूरवीरता दिखाना-इन सब कार्योंके द्वारा सज्जन पुरुषोंको जिन-शासनकी प्रभावना करनी चाहिये ॥ ४१९-४२० ॥ चिन्तामणि रत्नके समान अभिलषित पदार्थोंको देकर धर्मकी प्रभावना करनेवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं ॥ ४२१ ॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि प्रवर्तमान है मानो मुक्ति उसके हाथमें ही स्थित है ऐसा जिनागममें कहा जाता है ॥ ४२२ ॥ जो जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला है वही वैयाकरण है, वही नैयायिक है, वही सिद्धान्तका ज्ञाता है और वही उचाम तपस्वी है । यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थकी उपाधियोंसे क्या लाभ है ? ॥ ४२३ ॥ जिस प्रकार सूर्यके द्वारा जगत् प्रकाशमान हो उठता है उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंको धर्मात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं ॥ ४२४ ॥ जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है और मलय-गिरि चन्दनकी उत्पत्तिका स्थान है उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला श्रीमान् पुरुष धर्मकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ४२५ ॥ जिस प्रकार राजा राज्यके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार जो सदा धर्मके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है वह लक्ष्मीका धारक होता है ॥ ४२६ ॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्ष-रूपी फूलोंसे व्याप्त मेरे मन-रूपी रङ्गभूमिमें जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्मकी प्रभावनाका अभिनय रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे ॥ ४२७ ॥

तदनन्तर उस कल्किका अजितजय नामका बुद्धिमान् पुत्र, अपनी बालना नामकी पत्नीके साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दर्शन रूपी रत्न स्वीकृत करेगा । देवके द्वारा किया हुआ जिनधर्मका माहात्म्य देखकर पापी पाषण्डी लोभ उस समयसे मिथ्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिरसे प्रवर्तमान होगा ॥ ४२८-

एवं प्रतिसहस्राब्दं तत्र विंशतिकल्किषु । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जलमन्थनः ॥ ४३१ ॥  
 राज्ञां स भविता नाम्ना तदा मुनिषु पश्चिमः । बन्दाचार्यस्य सिष्यः स्यान्मुनिर्वीराङ्गजाह्वयः ॥ ४३२ ॥  
 सर्वश्रीरायिकावर्गे पश्चिमः श्रावकोत्तमः । अग्निः फल्गुसेनाख्या श्राविका चापि सद्मता ॥ ४३३ ॥  
 एते सर्वेऽपि साकेतवास्तव्या दुष्प्रमान्यजाः । सत्सु पञ्चमकालस्य त्रिषु वर्षेष्वथाष्टसु ॥ ४३४ ॥  
 मासेष्वहःसु मासार्थमितेषु च सुभावनाः । कार्तिकस्यादिपक्षान्ते पूर्वाह्ने स्वातिसङ्गमे ॥ ४३५ ॥  
 वीराङ्गजोऽग्निः सर्वश्रीस्थक्त्वा श्राविकापि सा । देहमायुश्च सद्धर्माद् गमिष्यन्त्यादिमां दिवम् ॥ ४३६ ॥  
 मध्याह्ने भृशुजो ध्वंसः सायाह्ने पाकभोजनम् । षट्कर्मकुलदेशार्थहेतुधर्माश्च मूलतः ॥ ४३७ ॥  
 सार्धं स्वहेतुसम्प्राप्तौ प्राप्स्यन्ति विक्रयं ध्रुवम् । ततोऽतिदुष्प्रमादौ स्युर्विषात्पदपरायुषः ॥ ४३८ ॥  
 नरोऽर्धान्यधिकारत्नित्रयमानशरीरकाः । सतताहारितः पाप गतिद्वयसमागताः ॥ ४३९ ॥  
 पुनस्त्वदेव भास्यन्ति तिर्यङ्नारकनामकम् । कार्पासवसनाभावाद् गतेष्वब्देषु केपुचित् ॥ ४४० ॥  
 पर्णादिवसनाः कालस्यान्ते नग्ना यथेप्सितम् । चरिष्यन्ति फलादीनि दीनाः शालामृगोपमाः ॥ ४४१ ॥  
 एकविंशतिरब्दानां सहस्राण्यल्पवृष्टयः । जलदाः कालदोषेण कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ४४२ ॥  
 क्रमाद्दीबलकायायुरादिद्वांसो भविष्यति । प्रान्ते षोडशवर्षायुर्जाविनो हस्तदेहकाः ॥ ४४३ ॥  
 अस्थिराद्यशुभान्येव प्रफलिष्यन्ति नामसु । कृष्णा रूक्षतनुच्छाया दुर्भंगा दुस्वराः खलाः ॥ ४४४ ॥  
 दुरीक्ष्या विकटाकारा दुर्बला विरलद्विजाः । निमग्नवक्षोगण्डाक्षिदेशाक्षिपुटनासिकाः ॥ ४४५ ॥

४३० ॥ इस प्रकार दुष्प्रमा नामक पञ्चम कालमें एक एक हजार वर्षके बाद जब क्रमशः बीस कल्कि हो चुकेंगे तब अत्यन्त पापी जलमन्थन नामका पिछला कल्कि होगा। वह राजाओंमें अन्तिम राजा होगा अर्थात् उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस समय चन्द्राचार्यके शिष्य वीराङ्गज नामके मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्वश्री सबसे पिछली आर्यिका होंगी, अग्नि सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम व्रत धारण करनेवाली फल्गुसेना नामकी सबसे पिछली श्राविका होगी ॥ ४३१-४३३ ॥ वे सब अयोध्याके रहनेवाले होंगे, दुःप्रमा कालके अन्तिम धर्मात्मा होंगे और पञ्चम कालके जब साढ़ेआठ माह बाकी रह जावेंगे तब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय स्वातिनक्षत्रका उदय रहते हुए वीराङ्गज मुनि, अग्नि श्रावक, सर्वश्री आर्यिका और फल्गुसेना श्राविका ये चारों ही जीव, शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धर्मके प्रभावसे प्रथम स्वर्गमें जावेंगे। मध्याह्नेके समय राजाका नाश होगा, और सायंकालके समय अग्निका नाश होगा। उसी समय षट्कर्म, कुल, देश और अर्थके कारणभूत धर्मका समूल नाश हो जावेगा। ये सब अपने-अपने कारण मिलने पर एक साथ विनाशको प्राप्त होंगे। तदनन्तर अतिदुःप्रमा काल आवेगा। उसके प्रारम्भमें मनुष्य बीस वर्षकी आयुवाले, साढ़ेतीन हाथ ऊँचे शरीरके धारक, निरन्तर आहार करनेवाले पापी, नरक अथवा तिर्यञ्च इन दो गतियोंसे आनेवाले और इन्हीं दोनों गतियोंमें जानेवाले होंगे। कपास और बखीके अभावसे कुछ वर्षों तक तो वे पत्ते आदिके वस्त्र पहिनंगे परन्तु छठवें कालके अन्त समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे और बन्दरोंके समान दीन होकर फलादिका भक्षण करने लगेंगे ॥ ४३४-४४१ ॥ कालदोषके कारण मेघोंने इक्कीस हजार वर्ष तक थोड़ी थोड़ी वर्षा की सो ठीक ही है क्योंकि कालका कोई उल्लेख नहीं कर सकना ॥ ४४२ ॥ मनुष्योंकी बुद्धि बल काय और आयु आदिका अनुक्रमसे ह्रास होता जावेगा। इस कालके अन्तिम समयमें मनुष्योंकी आयु सोलह वर्षकी और शरीरकी ऊँचाई एक हाथकी रह जावेगी ॥ ४४३ ॥ उस समय नामकर्मकी प्रकृतियोंमेंसे अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ ही फल देंगी। उस समयके मनुष्य काले रङ्गके होंगे, उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगी, वे दुर्भंग, दुःस्वर, खल, दुःखसे देखनेके योग्य, विकट आकारवाले, दुर्बल तथा विरल दाँतवाले होंगे। उनके वस्त्रःस्थल, गाल और नेत्रोंके स्थान, भीतरको धँसे होंगे, उनकी नाक चपटी होगी, वे सब प्रकारका सदाचार छोड़ देंगे, भूख प्यास आदिसे पीड़ित

त्वक्सर्वसदाचाराः क्षुत्पिपासादिबाधिताः । सरोगा निष्प्रतीकारा दुःखास्वादकवेदिनः ॥ ४४९ ॥  
 पर्वं गच्छति कालेऽस्मिन्नेतस्य परमावधौ । निवशेषसोषमेताम्बु शरीरमिव संक्षयम् ॥ ४४७ ॥  
 \*अतिरौक्ष्या चरा तत्र भाविनी स्फुटिता स्फुटम् । विनाशचिन्तवेवोन्निपाश प्रम्हानयष्यः ॥ ४४८ ॥  
 प्रलयः प्राणिनामेवं प्रायेणोपजनियते । सुरसिन्धोश्च सिन्धोश्च खेचराद्रेश्च वेदिकाः ॥ ४४९ ॥  
 श्रिता नदीसमुज्जतमीनमण्डककच्छपान् । कृत्वा कर्कटकादींश्च निजाहारान्मनुष्यकाः ॥ ४५० ॥  
 विष्टा क्षुद्रबिलादीनि द्वांससतिकुलोद्भवाः । हीना दीना दुराचारास्तदा स्यास्यन्ति केचन ॥ ४५१ ॥  
 सरसं विरसं तीक्ष्णं रूक्षमुष्णं विषं विषम् । \*क्षारं मेघाः क्षरिष्यन्ति सप्त सप्तदिनान्यलम् ॥ ४५२ ॥  
 ततो धरण्या वैषम्यविगमे सति सर्वतः । भवेच्चित्रा समा भूमिः समाहात्रावसर्पिणी ॥ ४५३ ॥  
 इतोऽतिदुष्पमोऽसर्पिण्याः पूर्वोक्तप्रमाणभाक् । वतिष्यति प्रजावृद्धयै ततः क्षीरपयोधराः ॥ ४५४ ॥

रहेंगे, निरन्तर रोगी होंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे और केवल दुःखके स्वादका ही अनुभव करनेवाले होंगे ॥ ४४४-४४६ ॥ इस प्रकार समय बीतने पर जब अतिदुःषमा कालका अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और शरीरके समान ही नष्ट हो जावेगा ॥ ४४७ ॥ पृथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब चीजोंके नाश हो जानेकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जावेंगे ॥ ४४८ ॥ प्रायः इस तरह समस्त प्राणियोंका प्रलय हो जावेगा । गङ्गा सिन्धु नदी और विजयार्ध पर्वतकी वेदिकापर कुछ थोड़ेसे मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदीके मुखमें उत्पन्न हुए मछली, मेंढक, कछुए और केंकड़ा आदिको खाकर जीवित रहेंगे । उनमेंसे बहत्तर कुलोंमें उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी दीन-हीन जीव छोटे-छांटे बिलोंमें घुसकर ठहर जावेंगे ॥ ४४९-४५० ॥ तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक क्रमसे सरस, विरस, तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, विष-रूप और खारें पानीकी वर्षा करेंगे। इसके बाद पृथिवीकी विषमता ( ऊँच-नीपपना ) नष्ट हो जायगी, सब ओर भूमि चित्रा पृथिवीके समान हो जावेगी और यहाँ वर अपसर्पिणी कालकी सीमा समाप्त हो जायगी ॥ ४५१-४५३ ॥ इसके आगे उत्सर्पिणी कालका अतिदुःषमा काल चलेगा, वह भी इक्कीस हजार वर्षका होगा । इसमें प्रजाकी वृद्धि

१ अतिरूक्षाधरा ल० । २ क्षारमेघाः ल० ।

\* त्रिलोकसारमें नेमिचन्द्राचार्यने अतिदुःषमा कालके अन्तमें होनेवाले प्रलयका वर्णन इस प्रकार किया है—

संवत्तयणामणिलो गिरि तरुभूपहुदि चुण्णं करिय ।  
 भमदि दिसंतं जीवा मरंतं मुञ्छति छडते ॥ ८६१ ॥  
 खग गिरि गंग दुवेदी खुद्विलादि विसंति आसण्णा ।  
 णैति दया खचरसुरा मणुस्स जगलादि बहुजीवे ॥ ८६५ ॥  
 छुडमचरिमे होति मरुदादी सत्तसत्त दिवसवही ।  
 अदिसीद खार विसपरुसग्गीरजभूमवरिसाओ ॥ ८६६ ॥

अर्थात्—छठवें कालके अन्त समय संवर्तक नामका पवन चलता है जो पर्वत, वृक्ष, पृथिवी आदिको चूर्ण कर अपने क्षेत्रकी अपेक्षा दिशाओंके अन्त तक भ्रमण करता है । उस पवनके आघातसे वहाँ रहनेवाले जीव मूच्छित होकर मर जाते हैं । विजयार्ध पर्वत, गङ्गा सिन्धु नदी, इनकी वेदिका और इनके शुद्ध बिल आदिकमें वहाँके निकटवर्ती प्राणी घुस जाते हैं तथा कितने ही दयालु विद्याधर और देव, मनुष्य युगलको आदि लेकर बहुतसे जीवोंको बाधारहित स्थानमें ले जाते हैं । छठवें कालके अन्तमें पवन आदि सात वर्षा सात सात दिन पर्यन्त होता है । वे ये हैं—१ पवन २ अन्यन्त शीत ३ क्षाररस ४ विष ५ कठोर अग्नि ६ भूमि और ७ धुआँ । इन सात रूप परिणत पुद्गलोंकी वर्षा ४६ दिन तक होती है ।

उत्तर पुराणके ४५१वें श्लोकमें जो क्रम दिया है उसका क्रम कुछ दूसरा ही है । पं० लालारामजीने श्लोकका जो अनुवाद दिया है वह मालूम होता है त्रिलोकसारके आधार पर दिया है ।

तावद्दिननिबन्धेन निविराममहदिवम् । पयः पयांसि दास्यन्ति धात्री त्यक्ष्यति रूक्षताम् ॥ ४५५ ॥  
 तत्रिष्वधमवर्षादिगुणं चाकारप्सवति क्रमात् । तथैवाप्तमेवाश्च तावद्विषसगोचराः ॥ ४५६ ॥  
 वृद्धिमायातविष्यन्ति निषत्स्वन्तेऽत्र पूर्णवत् । ओषधयस्तरवो गुल्मातृणादीन्यप्यनन्तरम् ॥ ४५७ ॥  
 ततो रसाधिकान्मोक्षवर्षणाल्पद्वसोद्भवः<sup>१</sup> । यस्यामादौ बिल्वादिभ्यो निर्गत्य मनुजास्तदा ॥ ४५८ ॥  
 तेषां रसोपयोगेन जीविष्यन्त्वाससम्मदाः । वृद्धिर्गच्छति कालेऽस्मिन् क्रमात्प्राग्ज्ञासमात्मनाम् ॥ ४५९ ॥  
 तन्वादीनां पुनर्दुष्पमासमावाः प्रवेशने । आयुर्विज्ञतिवर्षाणि नराणां परमं मतम् ॥ ४६० ॥  
 साधारन्निष्प्रबोत्सेषदेहानां वृद्धिमीशुषाम् । प्राक्प्रणीतप्रमापेऽस्मिन् काले विमलबुद्धयः ॥ ४६१ ॥  
 षोडशविर्भविष्यन्ति क्रमेण कुलधारिणः । प्रथमस्य मनागूना तनुश्चतुरस्त्रिणु ॥ ४६२ ॥  
 अन्वस्यस्यति तनुः सप्तारत्निभिः सम्मिता भवेत् । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रभः ॥ ४६३ ॥  
 ततः कनकहाज्यश्चतुर्थः कनकध्वजः ।<sup>२</sup> कनकः पुङ्गवान्तोऽस्माच्छलिनो नलिनप्रभः ॥ ४६४ ॥  
 ततो नलिनराजाक्यो नवमो नलिनध्वजः । पुङ्गवान्तश्च नलिनः पद्मः पद्मप्रभाङ्गयः ॥ ४६५ ॥  
 पद्मराजस्ततः पद्मध्वजः पद्मादिदुङ्गवः । महापद्मश्च विज्ञेयाः<sup>३</sup> प्रजापौरुषशालिनः ॥ ४६६ ॥  
 पृतेषां क्रमशः काले शुभभावेन वर्षेनम् । महीसलिलकालानां धान्यादीनाञ्च<sup>४</sup> सङ्गतम् ॥ ४६७ ॥  
 मनुष्याणामनाचारत्यागो योग्यान्नभोजनम् । काले पर्सिमिते मैत्री लज्जा सत्यं दया दमः ॥ ४६८ ॥  
 सन्नुष्टिविनयक्षान्ती रागद्वेषघटीश्रुता । इत्यादि साधुवृत्तञ्च वद्विपाकेन भोजनम् ॥ ४६९ ॥  
 द्वितीयकाले वर्तेत तृतीयस्य प्रवर्तने । सप्तारत्निप्रमाणाङ्गाः खद्वयेकाब्दायुषो नराः ॥ ४७० ॥  
 ततस्तीर्थकरोपतिस्तेषां नामाभिधीयते । आदिमः श्रेणिकस्तस्मात्सुपार्श्वोदङ्कसम्भ्रकः ॥ ४७१ ॥

होगी । पहले ही क्षीर जातिके मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल और दूधकी वर्षा करेंगे जिससे पृथिवी रूक्षता छोड़ देगी और उसीसे पृथिवी अनुक्रमसे वर्षादि गुणोंको प्राप्त होगी । इसके बाद अमृत जातिके मेघ सात दिन तक अमृतकी वर्षा करेंगे जिससे औषधियाँ, वृत्त, पौधे और घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥ ४५४-४५७ ॥ तदनन्तर रसाधिक जातिके मेघ रसकी वर्षा करेंगे जिससे छह रसोंकी उत्पत्ति होगी । जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे वे अब उनसे बाहर निकलेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हर्षसे जीवित रहेंगे । ज्यों-ज्यों कालमें वृद्धि होती जावेगी त्यों-त्यों प्राणियोंके शरीर आदिका हास दूर होता जावेगा—उनमें वृद्धि होने लगेगी ॥ ४५८-४५९ ॥ तदनन्तर दुःपमा नामक कालका प्रवेश होगा उस समय मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु बीस वर्षकी और शरीरकी ऊँचाई साठेतीन हाथकी होगी । इस कालका प्रमाण भी इकीस हजार वर्षका ही होगा । इसमें अनुक्रमसे निर्मल बुद्धिके धारक सोलह कुलकर उत्पन्न होंगे । उनमेंसे प्रथम कुलकरका शरीर चार हाथमें कुछ कम होगा और अन्तिम कुलकरका शरीर सात हाथ प्रमाण होगा । कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकप्रभ, तीसरा कनकराज, चौथा कनकध्वज, पाँचवाँ कनकपुंगव, छठा नलिन, सातवाँ नलिनप्रभ, आठवाँ नलिनराज, नौवाँ नलिनध्वज, दशवाँ नलिनपुंगव, ग्यारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्मप्रभ, तेरहवाँ पद्मराज, चौदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ पद्मपुंगव और सोलहवाँ महापद्म नामका कुलकर होगा । ये सभी बुद्धि और बलसे सुशोभित होंगे ॥ ४६०-४६६ ॥ इनके समय में क्रमसे शुभ भावोंकी वृद्धि होनेसे भूमि, जल तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ॥ ४६७ ॥ मनुष्य अनाचारका त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मैत्री, लज्जा, सत्य, दया, दमन, संतोष, विनय, क्षमा, रागद्वेष आदिकी मन्दता आदि सज्जनोचित चारित्र्य प्रकट होंगे और लोग अग्निमें पकाकर भोजन करेंगे ॥ ४६८-४६९ ॥ यह सब कार्य दूसरे कालमें होंगे । इसके बाद तीसरा काल लगेगा । उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ बीस वर्षकी होगी ॥ ४७० ॥ तदनन्तर इसी कालमें तीर्थकरोंकी उत्पत्ति होगी । जो जीव तीर्थकर होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं—श्रेणिक १, सुपार्श्व २, उदङ्क ३, प्रोष्ठिल ४, कटपू ५, त्रिजिय ६, श्रेष्ठी ७, शङ्ख ८,

प्रोष्ठिलक्यः ऋतुप्रश्न क्षत्रियः श्रेष्ठिसम्पन्नकः । सप्तमः शङ्खनामा च नन्दमोऽथ मुनन्दवाक् ॥ ४७२ ॥  
 शशाङ्कः सेवकः प्रेमकश्चातोरणसम्पन्नकः । रैवतो वासुदेवाक्यो बलदेवस्ततः परः ॥ ४७३ ॥  
 भगलिर्वागलिर्द्वैपायनः कनकसम्पन्नकः । पादान्तो नारदश्चारुपादः सत्यकिपुत्रकः ॥ ४७४ ॥  
 त्रयोविंशतिरित्येते सप्तारत्नप्रमादिकाः । तत्रैवान्येऽपि तीर्थेशाश्चतुर्विंशतिसम्प्रिताः ॥ ४७५ ॥  
 तत्राद्यः षोडशप्रान्तशताब्दायुःप्रमाणकः । सप्तारत्नितन्त्सेधक्षरमस्तीर्थनायकः ॥ ४७६ ॥  
 पूर्वकोटिमिताब्दायुश्चापपञ्चशतोच्छ्रितः । तेषामाद्यो महापद्मः सुरदेवः सुपार्श्ववाक् ॥ ४७७ ॥  
 स्वयंप्रभश्च सर्वात्मभूताक्यो देवपुत्रवाक् । कुलपुत्रस्तथोदङ्कः प्रोष्ठिल जयकीर्तिवाक् ॥ ४७८ ॥  
 मुनिसुव्रतनामारसम्पन्नोऽपापामिधानकः । निष्कषायः सविपुलो निर्मलश्चित्रगुप्तकः ॥ ४७९ ॥  
 समाधिगुप्तसम्पन्नश्च स्वयम्भूरिति नामभाक् । अनिवर्ती च विजयो विमलो देवपालवाक् ॥ ४८० ॥  
 अनन्तवीर्यो विश्वेन्द्रवन्दिताक्षिप्रसरोरुहः । कालेऽस्मिन्नेव चक्रेशा भाविनो द्वादशोच्छ्रियः ॥ ४८१ ॥  
 भरतो दीर्घदन्तश्च मुक्तदन्तस्तृतीयकः । गूढदन्तश्चतुर्थस्तु श्रीषेणः पद्ममो बलः ॥ ४८२ ॥  
 षष्ठः श्रीभूतिशब्दाक्यः श्रीकान्तः सप्तमः स्मृतः । पद्मोऽष्टमो महापद्मो विचित्रादिश्च वाहनः ॥ ४८३ ॥  
 दशमोऽस्मात्परः क्थ्यातश्चक्री विमलवाहनः । अरिष्टसेनः सर्वान्यः सम्पन्नः सर्वसम्पदा ॥ ४८४ ॥  
 सीरिणोऽपि नवैवात्र तत्राद्यश्चन्द्रनामकः । महाचन्द्रो द्वितीयः स्यात्ततश्चक्रधरो भवेत् ॥ ४८५ ॥  
 हरिचन्द्राभिधः सिंहचन्द्रश्चन्द्रो वरादिकः । पूर्णचन्द्रः सुचन्द्रश्च श्रीचन्द्रः केशवाचितः ॥ ४८६ ॥  
 केशवाश्च नवैवात्र तेष्वामो नन्दिनामकः । नन्दिमित्रो द्वितीयः स्याच्चन्द्रिवेणस्ततः परः ॥ ४८७ ॥  
 नन्दिभूतिश्चतुर्थस्तु प्रतीतः पद्ममो बलः । षष्ठो महाबलस्तेषु सप्तमोऽतिबलाङ्कयः ॥ ४८८ ॥  
 अष्टमोऽभूत् त्रिष्टुष्टाक्यो द्विष्टुष्टो नवमो विभुः । तद्वैरिणापि तावन्त एव विज्ञेयसम्पन्नकाः ॥ ४८९ ॥  
 ततस्तत्कालपर्यन्ते भवेत्सुषमदुष्पमा । आदौ तस्या मनुष्याणां पञ्चचापशतोच्छ्रितः ॥ ४९० ॥

नन्दन ६, मुनन्द १०, शशाङ्क ११, सेवक १२, प्रेमक १३, अतोरण १४, रैवत १५, वासुदेव १६, भगलि १७, वागलि १८, द्वैपायन १९, कनकपाद २०, नारद २१, चारुपाद २२, और सत्यकिपुत्र २३, ये तेईस जीव आगे तीथकर होंगे । सात हाथको आदि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी । इस प्रकार तेईस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौबीस तीर्थकर होंगे ॥ ४७१-४७५ ॥ उनमेंसे पहले तीर्थकर सोलहवें कुलकर होंगे । सौ वर्ष उनकी आयु होगी और सात अरत्न ऊँचा शरीर होगा । अन्तिम तीर्थकरकी आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होगी और शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा होगा । उन तीर्थकरोंमें पहले तीर्थकर महापद्म होंगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ तीर्थकर और होंगे—सुरदेव १, सुपार्श्व २, स्वयंप्रभ ३, सर्वात्मभूत ४, देवपुत्र ५, कुलपुत्र ६, उदङ्क ७, प्रोष्ठिल ८, जयकीर्ति ९, मुनिसुव्रत १०, अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कषाय १३, विपुल १४, निर्मल १५, चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त १७, स्वयम्भू १८, अनिवर्ती १९, विजय २०, विमल २१, देवपाल २२ और अनन्तवीर्य २३ । इन समस्त तीर्थकरोंके चरण-कमलोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा करेंगे । इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक १२ बारह चक्रवर्ती भी होंगे ॥ ४७६-४८१ ॥ उनके नाम इस प्रकार होंगे—पहला भरत, दूसरा दीर्घदन्त, तीसरा मुक्तदन्त, चौथा गूढदन्त, पाँचवाँ श्रीषेण, छठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, आठवाँ पद्म, नौवाँ महापद्म, दशवाँ विचित्र-वाहन, ग्यारहवाँ विमलवाहन और बारहवाँ सब सम्पदाओंसे सम्पन्न अरिष्टसेन ॥ ४८२-४८४ ॥ नौ बलभद्र भी इसी कालमें होंगे । उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं १ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंहचन्द्र, ६ वरचन्द्र, ७ पूर्णचन्द्र, ८ सुचन्द्र और नौवाँ नारायणके द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥ ४८५-४८६ ॥ नौ नारायण भी इसी कालमें होंगे उनके नाम इस प्रकार होंगे । पहला नन्दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नन्दिषेण, चौथा नन्दिभूति, पाँचवाँ सुप्रसिद्धबल, छठवाँ महाबल, सातवाँ अतिबल, आठवाँ त्रिष्टुष्ट और नौवाँ द्विष्टुष्ट नामक विभु होगा । इन नारायणोंके शत्रु नौ प्रतिनारायण भी होंगे । उनके नाम अन्य ग्रन्थोंसे जान लेना चाहिए ॥ ४८७-४८९ ॥ तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्पम काल आवेगा उसके

१ 'निष्कषायः सविपुलश्चित्रगुप्तसमाङ्कयः' इत्यपि पाठः किन्त्वत्रैकतीर्थकरनाम वृत्तं भवति ।

साधिका पूर्वकोट्यायुःस्थितिर्यातेषु केषुचित् । वर्षेषु विविधेषाम् जघन्यार्षजगस्थितिः ॥ ४९१ ॥  
 ततः पञ्चमकालेऽपि मध्यभोगभुवः स्थितिः । षष्ठकालेऽपि विज्ञेया वर्षभोगभुवः स्थितिः ॥ ४९२ ॥  
 एवं शेषनवस्थानकर्मभूमिषु वर्तनम् । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्वपि च भाविषु ॥ ४९३ ॥  
 एष एव विधिर्ज्ञेयः कल्पेषु जिनभाषितः । विदेहेषु च सर्वेषु पञ्चापरातोऽभूत् ॥ ४९४ ॥  
 मनुष्याणां परञ्चायुः \*पूर्वकोटिमितं मतम् । तत्र तीर्थकृतश्चक्रवर्तिनो रामकेशवाः ॥ ४९५ ॥  
 पृथक्पृथक् बहुत्वेन क्षतं षष्ठ्यधिकं स्मृताः । अल्पस्वेनापि ते विंशतिर्भवन्ति पृथक्पृथक् ॥ ४९६ ॥  
 उत्कृष्टेन क्षतं सप्ततिश्च स्युः सर्वभूमिजाः । उत्पद्यन्ते नरास्तत्र चतुर्गतिसमागताः ॥ ४९७ ॥  
 गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि निजाचारवशीकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कर्मभूमिसमुद्भवाः ॥ ४९८ ॥  
 मनुष्याः सञ्जिनस्तिर्यञ्च यान्युपपादनम् । आदिकल्पद्वये भावनादिदेवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ॥  
 जीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवभाविनः । मनुष्येषूत्तमा भोगभूमिजाः कर्मभूभुवः ॥ ५०० ॥  
 निजवृत्तिविशेषेण त्रिविधास्ते प्रकीर्तिताः । शलाकापुरुषाः कामः खगाश्चान्ये सुरार्चिताः ॥ ५०१ ॥  
 \*सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः षष्ठकालाः कनिष्ठकाः । एकोरुकास्तथा भाषाविहीनाः ३शङ्कुकर्णकाः ॥५०२॥  
 कर्णप्रावरणालम्बशाशाकाश्चादिकर्णकाः । अश्वसिंहमुखाश्चान्ये दुष्टप्रेक्ष्या महिषाननाः ॥ ५०३ ॥

प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयु होगी । इसके बाद कुछ वर्ष व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जघन्यभोगभूमिके आर्य जनोंके समान सब स्थिति आदि हो जावेंगी ॥ ४९०-४९१ ॥ फिर पञ्चम काल आवेगा । उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति होगी और उसके अनन्तर छठवाँ काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥ ४९२ ॥ जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके सिवाय और जो बाकी नौ कर्मभूमियाँ हैं उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी स्थिति बतलाई गई है अर्थात् उत्सर्पिणीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर और अत्रसर्पिणीके १० कोड़ा-कोड़ी सागर दोनों मिलाकर बीस कोड़ा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है और यह सभी उत्सर्पिणियों तथा अत्रसर्पिणियोंमें होता है । सभी विदेहक्षेत्रोंमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष प्रमाण होती है और आयु एक करोड़ वर्ष पूर्व प्रमाण रहती है । वहाँ तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, बलभद्र और नारायण अधिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सौ साठ, एक सौ साठ हाँते हैं और कमसे कम हों तो प्रत्येक बीस-बीस हाँते हैं । भावार्थ—अढ़ाई द्वीपमें पाँच विदेह क्षेत्र हैं और एक-एक विदेह-क्षेत्रके बत्तीस-बत्तीस भेद हैं इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ भेद हो जाते हैं, यदि तीर्थङ्कर आदि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह क्षेत्रमें एक-एक हाँते तो एक सौ साठ हो जाते हैं और कमसे कम हों तो एक-एक महाविदेह सम्बन्धी चार-चार नगरियोंमें अवश्यमेव होनेके कारण बीस ही हाँते हैं ॥ ४९३-४९६ ॥ इस प्रकार सब कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए तीर्थङ्कर आदि महापुरुष अधिकसे अधिक हों तो एक सौ सत्तर हो सकते हैं । इन भूमियोंमें चारों गतियोंसे आयु हुए जीव उत्पन्न होते हैं और अपने-अपने आचारके वशीभूत होकर मोक्षसहित पाँचो गतियोंमें जाते हैं । सभी भोग-भूमियोंमें, कर्मभूमिज मनुष्य और संह्री तीर्थञ्च ही उत्पन्न होते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले और दूसरे स्वर्गमें अथवा भवनवासी आदि तीन निकायोंमें उत्पन्न हाँते हैं । यह नियम है कि भोगभूमिके सभी मनुष्य और तीर्थञ्च नियमसे देव ही हाँते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य उत्तम ही होते हैं और कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन प्रकारके कहे गये हैं—उत्तम, मध्यम और जघन्य । शलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो देवपूजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य कहलाते हैं । इनके सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शङ्कुकर्णके समान कानवाले, कानको ही आदने-बिद्वानेवाले अर्थात्

१ पूर्वकोटीपरं मतम् क०, ख०, ग०, घ० । २ सन्तो दिव्यमनुष्या स्युः षष्ठकालाः कनिष्ठकाः । क०, ग०, घ० । सन्तो दिव्यमनुष्याश्च षष्ठिकालाः कनिष्ठकाः म० । सन्तो दिव्यमनुष्यासु षष्ठकालाः कनिष्ठकाः क० । ३ शङ्कुकर्ण इत्यपि क्वचित् ।



१ क्रोलुग्याग्रमुखाश्चैवमुल्लूकमुखनामकाः । शाखाभृगुमुखा मस्त्यमुखाः कालमुखास्तथा ॥ ५०४ ॥  
 गोमेषमेघवक्त्राश्च विद्युदादर्शवक्त्रकाः । हस्तिवक्त्रा कुमानुष्यजा लाङ्गूलविषाणिनः ॥ ५०५ ॥  
 एते च नीचका यस्मादन्तरद्वीपवासिनः । म्लेच्छखण्डेषु सर्वेषु विजयार्थेषु च स्थितिः ॥ ५०६ ॥  
 तीर्थकृत्कालवद्धृद्दिहासवत्कर्मभूमिषु । इदञ्च श्रेणिकप्रदनादिन्द्रभूतिर्गणाधिपः ॥ ५०७ ॥  
 इत्याह वचनाभीषु निरस्तान्तस्तेमस्ततिः । इहान्यतीर्थनाथोऽपि विहृत्य विषयान् बहून् ॥ ५०८ ॥  
 क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे । बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०९ ॥  
 स्थित्वा दिनद्वयं वीजविहारो बृद्धनिर्जरः । कृष्णकातिकपक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये ॥ ५१० ॥  
 स्वातियोगे तृतीयेद्बुद्धध्यानपरायणः । कृतत्रियोगसंरोधः समुच्छिन्नक्रियं धितः ॥ ५११ ॥  
 हताघातित्तुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः । गन्ता मुनिसहस्रेण निर्वाणं सर्ववाम्बित्तम् ॥ ५१२ ॥  
 तदेव पुरुषार्थस्य पर्यन्तोऽनन्तसौख्यकृत् । अथ सर्वेऽपि देवेन्द्रा बह्नीन्द्रमुकुटस्फुरत् ॥ ५१३ ॥  
 हुताशनशिखान्यस्ततद्देहा मोहविद्विषम् । अभ्यर्च्य गन्धमाल्यादिद्रव्यैर्दिव्यैर्यथाविधि ॥ ५१४ ॥  
 वन्दिष्यन्ते भवातीतमथ्यैर्वन्दारवः स्तवैः । चीरनिर्घृत्तिसम्प्रासदिन एवास्तघातिकः ॥ ५१५ ॥  
 भविष्याम्यहमप्युद्यत्केवलज्ञानलोचनः । भयानां धर्मदेशेन विहृत्य विषयांस्ततः ॥ ५१६ ॥  
 गत्वा त्रिपुल्लब्दादिगिरौ प्राप्स्यामि निर्घृतिम् । मन्निर्घृतिदिने लब्धा सुधर्मः श्रुतपारगः ॥ ५१७ ॥  
 लोकालोकावलोकैकालोकमन्यविलोचनम् । तस्मिन्निर्वाणक्षणे भावी जम्बूनामातकेवलः ॥ ५१८ ॥  
 अन्त्यः केवलिनामस्मिन्भरते स प्ररूप्यते । नन्दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिमित्रोऽपराजितः ॥ ५१९ ॥

लम्बे कानवाले, खरगांशके समान कानवाले, घोड़े आदिके समान कानवाले, अश्वमुख, सिंहमुख, देखनेके अयोग्य महिपमुख, कोलमुख (शूकरमुख), व्याघ्रमुख, उलूकमुख, वानरमुख, मस्त्यमुख, कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, आदर्शमुख, हस्तिमुख, पूँछवाले, और सींगवाले ये कुभागभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। ये सब अन्तर्द्वीपोंमें रहते हैं। सब म्लेच्छखण्डों और विजयार्थ पर्वतोंकी स्थिति तीर्थकरोंके समयके समान होती है और वृद्धि ह्रास सदा कर्मभूमियोंमें ही रहता है। इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्ररुनेके अनुसार इन्द्रभूति गणधरने वचन रूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूहको नष्ट करते हुए यह हाल कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान् महावीर भी बहुतसे देशोंमें विहार करेंगे ॥ ४९७-५०८ ॥ अन्तमें वे प्राञ्जपुर नगरमें पहुँचेंगे वहाँके मनोहर नामके वनके भीतर अनेक सरोवरोंके बीचमें मणिमयी शिलापर विराजमान होंगे। विहार छोड़कर निर्जराको बढ़ाते हुए वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे और फिर कान्तिककृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्यमान तीसरे शुक्लध्यानमें तत्पर होंगे। तदनन्तर तीनों योगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्लध्यानको धारण कर चारों अघातिया कर्मोंका क्षय कर देंगे और शरीररहित केवलगुण रूप हाँकर एक हजार मुनियोंके साथ सबके द्वारा वाञ्छनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे ॥ ५०९-५१२ ॥ वही उनका, अनन्त सुखको करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा—उनके पुरुषार्थकी वही अन्तिम सीमा होगी। तदनन्तर इन्द्रादि सब देव आवेंगे और अग्नीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निकी शिखा पर भगवान् महावीर स्वामीका शरीर रक्खेंगे। स्वर्गसे लाये हुए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम पदार्थोंके द्वारा मोहके शत्रुभूत उन तीर्थकर भगवान्की विधिपूर्वक पूजा करेंगे और फिर अनेक अर्थोंसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-भ्रमणसे पार होनेवाले उन भगवान्की स्तुति करेंगे। जिस दिन भगवान् महावीर स्वामीको निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान रूपी नेत्रको प्रकट करनेवाला होऊँगा और भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देता हुआ अनेक देशोंमें विहार करूँगा। तदनन्तर त्रिपुलाचल पर्वतपर जाकर निर्वाण प्राप्त करूँगा। मेरे निर्वाण जानेके दिन ही समस्त-श्रुतज्ञानके दारगामी सुधर्म गणधर भी लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञान रूपी अन्तिम लोचनको प्राप्त करेंगे और उनके मोक्ष जानेके समय ही जम्बू स्वामी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। वह जम्बू स्वामी भरत क्षेत्रमें अन्तिम केवली कहलावेंगे।

गोवर्धनश्चतुर्थोऽन्वो भद्रबाहुर्महातपाः । नानानयविचित्रार्थसमस्तश्रुतपूर्णताम् ॥ ५२० ॥  
 एते क्रमेण पञ्चापि प्राप्स्यन्त्यासविशुद्धयः । ततो भावी विशाखार्यः प्रोष्ठिलः क्षत्रियागतकः ॥ ५२१ ॥  
 जयनामानुनागाङ्गः सिद्धार्थो धृतिषेणकः । विजयो बुद्धिलो गङ्गदेवश्च क्रमतो मताः ॥ ५२२ ॥  
 एकादश सह श्रीमद्धर्मसेनेन धीमता । द्वादशाङ्गार्यकुशाला दशपूर्वधराश्च ते ॥ ५२३ ॥  
 भय्यानां कल्पवृक्षाः स्युजिनधर्मप्रकाशकाः<sup>१</sup> । ततो नक्षत्रनामा च<sup>२</sup> जयपालश्च पाण्डुना ॥ ५२४ ॥  
 दुमसेनोऽनुकंसार्यो विदितैकादशाङ्गकाः । सुभद्रश्च यशोभद्रो यशोबाहुः प्रकृष्टधीः ॥ ५२५ ॥  
 लोहनामा चतुर्थः स्यादाचाराङ्गविदस्त्वमी । जिनेन्द्रवदनोद्गीर्णं पावनं पापलोपनम् ॥ ५२६ ॥  
 श्रुतं तपोभृतामेवां प्रणेप्यति परम्परा । शोषैरपि श्रुतज्ञानस्यैको देशस्तपोधनैः ॥ ५२७ ॥  
 जिनसेनानुगैर्वीरसेनैः प्राप्तमहद्भिः । समाप्ते दुष्पमाथाः प्राक्प्रायशो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥  
 भरतः सागराख्योऽनु सत्यवीर्यो<sup>३</sup> जनैः स्तुतः । महीशो मित्रभावाङ्गो मित्रवीर्योऽर्यमद्युतिः ॥ ५२९ ॥  
 धर्मदानादिवीर्यं च मघवान् बुद्धवीर्यकः । सीमन्धरश्चित्रपृष्ठाख्यः स्वयम्भूः पुरुषोरामः ॥ ५३० ॥  
 पुण्डरीकान्तपुरुषो दपः सत्यादिभिः स्तुतः । कुनालः पालकः पृथ्व्याः पतिनारायणो नृणाम् ॥ ५३१ ॥  
 सुभौमः सार्वभौमोऽजितञ्जयो विजयाभिधः । उग्रसेनो महासेनो जिनस्त्वं श्रेणिकेत्यमी ॥ ५३२ ॥  
 सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो धर्मप्रभविदां वराः । चतुर्विंशतितीर्थेणां सन्ततं पादसेविनः ॥ ५३३ ॥  
 पुरुरवाः सुरः प्राप्यकल्पेऽभून्नरताम्रजः । मरीचिर्ब्रह्मकल्पोत्थस्ततोऽभूज्जटिलद्विजः ॥ ५३४ ॥  
 सुरः सौधर्मकल्पेऽनु पुष्यमित्रद्विजस्ततः । सौधर्मजोऽमरस्तस्माद्विजन्माप्रिसमाङ्गयः ॥ ५३५ ॥  
 सनत्कुमारदेवोऽस्मादग्निमित्राभिधो द्विजः । मरुन्माहेन्द्रकल्पेऽभूद्भारद्वाजो द्विजान्वये ॥ ५३६ ॥

इनके बाद नन्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और महातपस्वी भद्रबाहु मुनि होंगे । ये पाँचो ही मुनि अतिशय विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र अर्थोंका निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रुतज्ञानको प्राप्त होंगे अर्थात् श्रुतकेवली होंगे । इनके बाद विशाखार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गङ्गदेव और बुद्धिमान् धर्मसेन ये ग्यारह अनुक्रमसे होंगे तथा द्वादशाङ्गका अर्थ कहनेमें कुशल और दश पूर्वक धारक होंगे ॥ ५२३-५२२ ॥ ये ग्यारह मुनि भयोंके लिए कल्पवृक्षके समान तथा जैनधर्मका प्रकाश करनेवाले होंगे । उनके बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंसार्य ये ग्यारह अङ्गोंके जानकार होंगे । इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान्, यशोबाहु और चौथे लांहाचार्य ये चार आचाराङ्गके जानकार होंगे । इन सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जिनेन्द्रदेवके मुखकमलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप करनेवाले शास्त्रोंका प्ररूपण करेंगे । इनके बाद बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारण करनेवाले जिनसेन, वीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रुतज्ञानके एकदेशका प्ररूपण करेंगे । प्रायः कर श्रुतज्ञानका यह एकदेश दुःपमा नामक पञ्चम कालके अन्त तक चलता रहेगा ॥ ५२३-५२८ ॥ भरत, सागर, मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीर्य, राजा मित्रभाव, सूर्यके समान कांतिवाला मित्रवीर्य, धर्मवीर्य, दानवीर्य, मघवा, बुद्धवीर्य, सीमन्धर, त्रिपृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्य-दत्त, पृथिवीका पालक कुनाल, मनुष्योंका स्वामी नारायण, सुभौम, सार्वभौम, अजितञ्जय, विजय, उग्रसेन, महासेन और आगे चलकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करनेवाला नू, गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! ये सभी पुरुष श्रीमान् हैं, धर्म सम्बन्धी प्रश्न करनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं, और निरन्तर चौबीस तीर्थंकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं ॥ ५२६-५३३ ॥ भगवान् महावीर स्वामीका जीव पहले पुरुरवा नामका भील था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हुआ, फिर ब्रह्मस्वर्गमें देव हुआ, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुआ ॥ ५३४ ॥ फिर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर अग्निमित्र नामका ब्राह्मण हुआ ॥ ५३५ ॥ फिर सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ, फिर अग्निमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र

जातो माहेन्द्रकल्पेऽनु मनुष्योऽनु ततश्च्युतः । नरकेषु त्रसस्थावरेष्वसंख्यातवत्सरान् ॥ ५३७ ॥  
 भ्रान्त्वा ततो विनिर्गम्य स्थावराख्यो द्विजोऽभवत् । ततश्चतुर्थकल्पेऽभूद्विश्वनन्दी ततश्च्युतः ॥ ५३८ ॥  
 महाशुक्रे ततो देवस्त्रिखण्डेशस्त्रिपृष्ठवाक् । सप्तमे नरके तस्मात्तस्माच्च गजविद्विषः ॥ ५३९ ॥  
 आदिमे नरके तस्मात्सिंहः सद्धर्मनिर्मलः । ततः सौधर्मकल्पेऽभूत्सिंहकेतुः सुरोत्तमः ॥ ५४० ॥  
 कनकोऽज्वलनामाभूरातो विद्याधराधिपः । देवः सप्तमकल्पेऽनु हरिषेणस्ततो नृपः ॥ ५४१ ॥  
 महाशुक्रे ततो देवः प्रियमित्रोऽनु चक्रभृत् । स सहस्रारकल्पेऽभूद्देवः सूर्यप्रभाङ्गयः ॥ ५४२ ॥  
 राजा नन्दाभिधस्तस्मात्पुष्पोत्तरविमानजः । अच्युतेन्द्रस्ततश्च्युत्वा वर्धमानो जिनेश्वरः ॥ ५४३ ॥  
 प्राप्तपञ्चमहाकल्याणद्विः प्रस्तुतसिद्धिभाक् । प्रद्विषयाद्गुणभद्रेभ्यः स विशुः सर्वमङ्गलम् ॥ ५४४ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं गौतमवक्त्रवारिजलसद्वाग्वल्लभावाहभयैः

पीयूषैः सुकथारसातिमधुरैर्भक्तयोपयुक्तैश्चिरम् ।

सा संसन्मगधाधिपश्च महतीं तुष्टिं समं जग्मतुः

तुष्टिं दृष्टिविबोधयोविदधतीं सर्वार्थसम्पत्करीम् ॥ ५४५ ॥

### वसन्ततिलका

श्रीवर्धमानमनिशं<sup>१</sup> जिनवर्धमानं

त्वां तं नये स्तुतिपथं पथि सप्रधौते ।

योऽन्त्योऽपि तीर्थकरमग्रिमप्यजैषीत्

काले कलौ च पृथुर्लोकृतधर्मतीर्थः ॥ ५४६ ॥

स्वर्गमें देव हुआ, फिर भारद्वाज नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों और त्रस स्थावर योनियोंमें भ्रमण करता रहा ॥ ५३६-५३७ ॥ वहाँसे निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर त्रिपृष्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी—नारायण हुआ, फिर सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ वहाँसे निकल कर सिंह हुआ ॥ ५३८-५३९ ॥ फिर पहले नरकमें गया, वहाँसे निकल कर फिर सिंह हुआ, उसी सिंहकी पर्यायमें उसने समीचीन धर्म धारण कर निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोज्वल नामका विद्याधरोका राजा हुआ, फिर सप्तम स्वर्गमें देव हुआ, फिर हरिषेण राजा हुआ, फिर महाशुक स्वर्गमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका देव हुआ, वहाँसे आकर नन्द नामका राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें उत्पन्न हुआ और फिर वहाँसे च्युत होकर वर्धमान तीर्थकर हुआ है ॥ ५४०-५४३ ॥ जो पञ्चकल्याण रूप महाऋद्धिको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे वे वर्धमान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा गुणोंसे श्रेष्ठ समस्त पुरुषोंके लिए सर्व प्रकारके मङ्गल प्रदान करें ॥ ५४४ ॥

इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे आस्वादित, गौतम स्वामीके मुख-कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अमृतसे, वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणिक दोनों ही, समस्त अर्थ रूप सम्पदाओंको देनेवाले एवं ज्ञान और दर्शनको पुष्ट करनेवाले बड़े भारी सन्तोषको प्राप्त हुए ॥ ५४५ ॥ जो निर्मल मोक्षमार्गमें रात-दिन लक्ष्मीसे बढ़ते ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तीर्थका भारी विस्तार किया है, और जिन्होंने अन्तिम तीर्थकरको भी जीत लिया है ऐसे श्रीवर्धमान जिनेन्द्रको मैं स्तुतिके मार्गमें लिये जाता हूँ—अर्थात् उनकी स्तुति

स्तुत्यं प्रसादयितुमर्थिजनो विनौति  
 न त्वय्यदस्तव स मोहजयस्तवोऽयम् ।  
 तन्नाथिनः स्तुतिरिहेश ममास्ति बाढं  
 स्तुत्यस्तुतिप्रथिनोऽर्धपराङ्मुखस्य ॥ ५४७ ॥  
 येषां प्रमेयविमुखं सुमुखप्रमाणं  
 ते न स्तुतेर्हितजुषां विषयीभवेयुः ।  
 त्वं विश्वभावविहितावगमात्मकोऽर्हन्  
 वक्ता हि तस्य तत एव हितैषिवन्द्यः ॥ ५४८ ॥  
 दातासि न स्तुतिफलं समुपैत्यवश्यं  
 स्तोता महज्झटिति शुभमयाचितोऽयम् ।  
 कुर्यां कुतस्तव न संस्तवर्न जिनेश  
 दैन्यातिभीरुहमभ्यफलाभिलाषी ॥ ५४९ ॥  
 निष्कारणं तृणलवञ्च ददद्विर्धाः को  
 लोके जिन त्वयि ददाति निरर्थकृत्वम् ।  
 मुक्तिप्रदायिनि तथापि भवन्तमेव  
 प्रेक्षावतां प्रथमगण्यमुशन्ति चित्रम् ॥ ५५० ॥  
 सर्वस्वमर्थिजनताः स्वमिह स्वकीयं  
 चक्रुः परे निरूपधिस्थिरसत्त्वसाराः ।  
 प्रोल्लङ्घय तान् जिन वदन्ति वदान्यवर्यं  
 त्वां वाग्भरेव वितरन्तमहो विद्मधाः ॥ ५५१ ॥

करता हूँ ॥ ५४६ ॥ हे ईश ! अर्थी लोग—कुछ पानेकी इच्छा करने वाले लोग, किसी स्तुत्य अर्थात् स्तुति करनेके योग्य पुरुषकी जो स्तुति करते हैं सां उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हैं परन्तु यह बात आपमें नहीं है क्योंकि आप मांहको जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तुकी आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ स्तुति करने योग्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, मैं सब प्रयोजनोंसे विमुख हूँ ॥ ५४७ ॥ हे सुमुख ! जिनका प्रमाण अर्थात् ज्ञान, प्रमेय अर्थात् पदार्थसे रहित है—जो समस्त पदार्थोंको नहीं जानते हैं वे हिताभिलाषी लोगोंकी स्तुतिके विषय नहीं हो सकते । हे अर्हन् ! आप समस्त पदार्थोंको जानते हैं—समस्त पदार्थोंका जानना ही आपका स्वरूप है और आप ही उन समस्त पदार्थोंके वक्ता हैं—उपदेश देनेवाले हैं इसलिए हिताभिलाषी लोगोंके द्वारा आप ही स्तुति किये जानेके योग्य हैं ॥ ५४८ ॥ हे जिनेन्द्र ! यद्यपि आप स्तुतिका फल नहीं देते हैं तो भी स्तुति करनेवाला मनुष्य विना किसी याचनाके शीघ्र ही स्तुतिका बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है इसलिए दीनतासे बहुत डरनेवाला और श्रेष्ठ फलकी इच्छा करने वाला मैं आपका स्तवन क्यों न करूँ ? ॥ ५४९ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदि इस संसारमें कोई किसीके लिए विना कारण तृणका एक टुकड़ा भी देता है तो वह मूर्ख कहलाता है परन्तु आप विना किसी कारण मात्र लक्ष्मी तक प्रदान करते हैं ( इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिये ) परन्तु आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने जाते हैं यह महान् आश्चर्यकी बात है ॥ ५५० ॥ इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने अपना सर्वस्व-धन देकर याचक जनोंके लिए छलरहित स्थायी धनसे श्रेष्ठ बनाया है और हे जिनेन्द्र ! आप केवल वचनोंके द्वारा ही दान करते हैं फिर भी आश्चर्यकी बात है कि चतुर मनुष्य उन सबका उल्लङ्घन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं । भावार्थ— धन सम्पत्तिका दान करनेवाले पुरुष संसारमें फँसानेवाले हैं परन्तु आप वैराग्यसे ओत-प्रोत उपदेश देकर जीवोंको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं अतः सब और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं ॥ ५५१ ॥

धीः पौरुषञ्च विजयार्जनमेव येषां

सौख्यञ्च विद्वद्विषया विरतोपभोगः ।

तेषां कथं तदुभयप्रतिपक्षरूपं

त्वच्छासनं श्रवणभिज्जिन मा जनिष्ट ॥ ५५२ ॥

पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेयमिष्टं

गत्यादिभिः परमनिर्वृत्तिसाधनत्वात् ।

नैवामराखिलसुखं प्रति तच्च यस्माद्

बन्धप्रदं विषयनिष्ठमभीष्टघाति ॥ ५५३ ॥

कायादिकं 'सदसि ते विफलं किलाहु-

नैतद्वचस्तव निशम्य निशाम्य साक्षात् ।

त्वां यान्ति निर्वृत्तिमिहैव विनेयमुख्या

मुख्यं फलं ननु फलेषु परोपकारः ॥ ५५४ ॥

यल्लक्षणक्षतिकृदात्मनि तद्धि कर्म

नामादिकं किमु निहन्ति तबोपयोगम् ।

तत्सत्तया जिन भवन्तर्मासिद्धमिच्छ-

न्निच्छेदन्ध्वंगमनादतनोरसिद्धिम् ॥ ५५५ ॥

साद्यन्तहीनमनवद्यमनादिसान्तं

सावद्यमादिरहितानवसानमाहुः ।

हे जिन ! विषयोंका अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ रह गया है तथा समस्त विषयों का निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला आपका शासन, उन लोगोंके कानको फोड़नेवाला क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥ ५५२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वही ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्वाणका साधन होनेसे इष्ट है तथा भव्य जीवोंके द्वारा करनेके योग्य है । देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि वह बन्धका देनेवाला है, विषयोंमें फँसानेवाला है और अभीष्ट ( मोक्ष ) का घात करनेवाला है ॥ ५५३ ॥ हे भगवन् ! समयसरणमें आपके जो शरीरादिक विद्यमान हैं वे निष्फल नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात् आपके दर्शन कर इसी लोकमें परम आनन्दको प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि जितने फल हैं उन सबमें परोपकार करना ही मुख्य फल है ॥ ५५४ ॥ हे भगवन् ! ज्ञान दर्शनादिरूप लक्षणोंका घात करनेवाला जो नामादि कर्म आपकी आत्मामें विद्यमान है वह क्या आपके उपयोगको नष्ट कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता । हे जिनेन्द्र ! आत्मामें कर्मोंकी सत्ता होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर ऊर्ध्वगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान् भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं । भावार्थ—यद्यपि श्ररहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं हैं अतः उनकी जीवन्मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है ॥ ५५५ ॥ हे प्रभो ! गणधरादिक देव, आपको आदिसहित, अन्त रहित, आदिरहित, अन्तसहित, अनादि-अनन्त, पापसहित, पापरहित, दुःखी, सुखी और दुःख-सुख दोनोंसेरहित कहते हैं इसलिए जो मनुष्य नयोंसे अनभिज्ञ है वे आपको नहीं जान सकते हैं—उनके द्वारा आप अज्ञेय हैं । भावार्थ—आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिए सिद्ध पर्यायकी अपेक्षा आप सादि हैं तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती इसलिए आप अन्तरहित हैं । आपकी संसारी पर्याय आदि-रहित है अतः उसकी अपेक्षा अनादि है और कर्म क्षय हो जाने पर संसारी पर्यायका अन्त हो जाता

१ सदपि इत्यपि क्वचित् ।

त्वां दुःखिनं सुखिनमप्युभयव्यपेतं  
 तेनैव दुर्गमतमोऽसि नयानभिज्ञैः ॥ ५५१ ॥  
 संयोगजः स्वज इति द्विविधो हि भावो  
 जीवस्य योगविगमाद्विगमी तदुत्थः ।  
 स्वोत्थे स्थितिः परमनिर्घृतिरेष मार्गो  
 दुर्गः परस्य तव वाक्यबहिष्कृतस्य ॥ ५५७ ॥  
 आस्तामनादि निगलच्छिद्यया ददासि  
 यन्मुक्तिमन्तरहितां तदिहालमेवा ।  
 स्नेहादिहेतुविनिवृत्तसमस्तसत्त्व-  
 सम्पालनप्रवणतैव तवासतायै ॥ ५५८ ॥  
 बोधस्तवाखिलविलोकनविभ्रमी किं  
 किं वाग्मितामितपदार्थनिरूपणायाम् ।  
 किं स्वार्थसम्पदि परार्थपराङ्मुखस्त्वं  
 किं नासि सत्सु जिन पूज्यतमस्त्वमेव ॥ ५५९ ॥  
 विदवावलोकनवितन्वदनन्तवीर्य-  
 व्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यात् ।  
 चित्रं तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्तं  
 सन्तो वदन्ति किमु भक्तिरुतावबोधः ॥ ५६० ॥

है उसकी अपेक्षा अन्तसहित हैं। द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वभावसे आप न  
 आदि हैं और न अन्त है अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित हैं। हिंसादि पापोंका आप-  
 त्याग कर चुके हैं अतः अनवद्य हैं—निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप  
 प्रकृतियोंका उदय अरहन्त अवस्थामें भी विद्यमान हैं अतः सावद्य हैं—पाप प्रकृतियोंसे सहित हैं।  
 अरहन्त अवस्थामें असातावेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुःखी हैं, मोह  
 कर्मका अभाव हो जानेसे आकुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी हैं, और आप  
 अव्यावाधगुणसे सहित हैं अतः सुखी और दुःखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं। इस प्रकार भिन्न-  
 भिन्न नयोंकी अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समझता है वह आपके इन  
 विविध रूपोंको कैसे समझ सकता है ? ॥ ५५६ ॥ हे देव ! जीवोंके भाव दो प्रकारके हैं एक संयोग  
 से उत्पन्न होनेवाले और दूसरे स्वाभाविक। जो संयोगसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट  
 हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स्वाभाविक भावोंमें आत्माकी जो स्थिति  
 है वही परमनिर्घृति या परम मुक्ति कहलाती है परन्तु यह मार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य  
 दर्शनकारोंको कठिन है ॥ ५५७ ॥ हे भगवन् ! आप अनादि कर्मबन्धनको छेदकर जो अन्तरहित  
 मुक्ति प्रदान करते हैं वह बात तो दूर ही रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त  
 प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपकी दक्षता है वही आपकी आपत्ता सिद्ध करनेके लिए बहुत है  
 ॥ ५५८ ॥ हे भगवन् ! क्या आपका ज्ञान समस्त पदार्थोंके देखनेके कौतूहलसे सहित नहीं है ?  
 क्या अशरमित पदार्थोंके निरूपण करनेमें आपकी वचन-कुशलता नहीं है ? क्या परपदार्थोंसे  
 पराङ्मुख रहनेवाले आप स्वाथैरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं और क्या सज्जनोंके बीच  
 एक आप ही पूज्य नहीं हैं ? ॥ ५५९ ॥ हे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेवाले आपके  
 अन्तन्तवीर्यके व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्चर्य है कि सज्जन लोग  
 आपको ही सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थज्ञान

भय्यात्मना परमनिर्वृत्तिसाधनार्थं

त्वच्छेषितं तत्र न तत्र फलोपलिप्सा ।

तस्मात्त्वमेव जिन वागमृताग्नुवृष्ट्या

सन्तर्पयन् जगदकारणबन्धुरेकः ॥ ५६१ ॥

जीवोऽयमुद्यदुपयोगगुणोपलक्ष्य-

स्तस्थोपहन्तु ननु घातिचतुष्कमेव ।

घातेन तस्य जिन पुष्कललक्षणस्त्वं

त्वां तादृशं वद वदन्तु कथं न सिद्धम् ॥ ५६२ ॥

साधारणास्तत्र न सन्तु गुणास्तदिष्ट<sup>१</sup>

<sup>२</sup>इदयो न तेषु जिन सत्सु गुणेषु साक्षात् ।

दृष्टे भवेद्भवति भक्तिरसौ यथाय<sup>३</sup>-

इच्छेद्यते स्रवति पापमपि ४प्रभूतम् ॥ ५६३ ॥

देवावगाढमभवत्तव मोहघाता-

च्छुद्धानमावृत्तिहतेः परमावगाढम् ।

आद्ये चरित्रपरिपूतिरथोत्तरत्र-

विश्रवावदोषविभुतासि ततोऽभिवन्धः ॥ ५६४ ॥

ध्वस्तं त्वया प्रबलपापबलं परञ्च

प्रोद्भिन्नपालिजलवत्प्रवहत्यजस्रम् ।

श्रद्धादिभिस्त्रिभिरभूत्त्रितयी च सिद्धिः

सद्धर्मचक्रसुभवद्भुवनैकनाथः ॥ ५६५ ॥

देहो विकाररहितस्तव वाग्यथार्थ-

दृक्क्षेत्रनेत्रविषयत्वमुपेत्य सद्यः ।

हे सो जान नहीं पड़ता है ॥ ५६० ॥ हे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं वे सभी भक्त जीवोंके मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हैं परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना पड़ता है कि वचनामृत्तरूपी जलकी वृष्टिसे संसारको तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बन्धु हैं ॥५६१॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता है और उस उपयोगको नष्ट करनेवाले चार घातिया कर्म हैं । उन घातिया कर्मोंको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है इसलिए हे जिनेन्द्र ! आप ही कहिए कि ऐसे आरमलक्षणवाले आपको सिद्ध कैसे न कहें ? ॥ ५६२ ॥ हे भगवन् ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह मैं मानता हूँ परन्तु उन असाधारण गुणोंके रहते हुए भी आप साक्षात् दिखते नहीं हैं यह आश्चर्य है, यदि आपके साक्षात् दर्शन हो जावें तो वह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके कि द्वारा बहुत भारी पुण्यका संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ५६३ ॥ हे देव ! मोहनीय कर्मका घात होनेसे आपके अवगाढ सम्यग्दर्शन हुआ था और अब ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणका क्षय हो जानेसे परमावगाढ सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है । अवगाढ सम्यग्दर्शनमें चारित्रकी पूर्णता होती है और परमावगाढ सम्यग्दर्शनमें समस्त पदार्थोंके जाननेकी सामर्थ्य होती है इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप वन्दनीय हैं—वन्दना करनेके योग्य हैं ॥ ५६४ ॥ हे भगवन् ! आपने प्रबल घातिया कर्मोंकी सेनाको तो पहले ही नष्ट कर दिया था अब अघातिया कर्म भी, जिसका बाँध टूट गया है ऐसे सरोवरके जलके समान निरन्तर बहते रहते हैं—खिरते जाते हैं । हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रत्नत्रयके द्वारा आपको निश्चय-रत्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है और समीचीन धर्मचक्रके द्वारा आप तीनों लोकोंके एक स्वामी हुए हैं ॥ ५६५ ॥ हे कामदेवके मानकों मर्दन करनेवाले प्रभो ! आपका शरीर विकारसे रहित है

१ तदिष्टो म०, ख० । २ यस्थोन्नतेषु ग०, क०, घ० । इष्टो नु तेषु ख० । ३ पुण्यम् । ४ प्रचुरम् ।

स्वामस्तरागमखिलावगमञ्च कस्य

न स्थापयेन्मनसि मन्मथमानमदिन् ॥ ५११ ॥

किं वस्त्वहाक्षणिकमन्वयरूपमस्ति

भ्यस्तान्वयं वद हि किं क्षणिकञ्च किञ्चित् ।

बुद्धादयो बुधप गर्भगतार्भकाभा

भेदोऽयमर्थविमुखोबगमो ह्यमीषाम् ॥ ५१० ॥

तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं ते

स्वाभाविकाद्यतिशयेष्वपरोऽपि कश्चित् ।

कस्यापि सम्भवति किं कपिलादिकानां

केनास्य पक्षिणमुपयान्ति तपस्विनोऽमी ॥ ५१८ ॥

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसं

ध्वस्तत्रिवेदमपि किं परमाङ्गसङ्गात्<sup>१</sup> ।

किं मोहमल्लदहनास्किमनन्तवीर्यात्

किं सिद्धतापरिणतेर्गुणगौरवाद्वा ॥ ५१९ ॥

देहत्रयापनयनेन विनापि सिद्धि-

स्वं शुद्धिश्चाकथतुल्यद्युदितोदितत्वात् ।

आधिक्यमस्त्य<sup>२</sup>धिपते त्वदुदीरितोरु-

सन्मार्गागान्तयसि यत्परमात्मभावम् ॥ ५२० ॥

और आपके वचन पदार्थके यथार्थ स्वरूपको देखनेवाले हैं यदि कदाचित् ये दोनों ही नेत्र और कर्ण इन्द्रियके विषय हो जावें तो वे दोनों ही, रागद्वेषसे रहित तथा समस्त पदार्थको जाननेवाले आपको किसके मनमें शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात् सभीके मनमें स्थापित कर देंगे। भावार्थ—आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्वरूपका निरूपण करनेवाली आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदयमें आपका ध्यान करने लगते हैं। आपका शरीर निर्विकार इसलिए है कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थका यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थको जाननेवाले हैं—सर्वज्ञ हैं ॥ ५६६ ॥ हे विद्वानोंके पालक ! क्या इस संसारमें वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय रूपसे क्षणिक है। कैसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें बैठे हुए बच्चेके समान हैं, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थज्ञानसे विमुख है ॥ ५६७ ॥ हे देव ! आपका अनन्तचतुष्टय कपिलादिके विषयभूत नहीं है यह बात तो दूर रही परन्तु निःस्वेदत्व आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं उनमेंसे क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एकके भी संभव है ? अर्थात् नहीं है; फिर भला ये बेचारे कपिलादि आपकी पंक्तिमें कैसे बैठ सकते हैं ? आप कैसे कहला सकते हैं ? ॥ ५६८ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपने तीनों वेदोंको नष्ट कर दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमौदारिक शरीरकी संगतिसे कहते हैं ? या मोह रूपी लताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे कहते हैं या गुणोंके गौरवसे कहते हैं ? ॥ ५६९ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि अभी आपने औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो भी शुद्धि, शक्ति और अनुपम धैर्यके सातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो चुके हैं। हे स्वामिन् ! आप अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्गमें चलनेवाले लोगोंको परमात्म-अवस्था प्राप्त

१ तपःस्विनोऽपि क०, ख०, ग०, घ०, म० । २ सङ्गम् क०, ख०, ग०, घ० । ३—मन्याधिपते क०, ख०, ग०, म० ।



अस्त्येव देव तव औदयिकोऽपि भावः

किं त्वेव मोहरहितस्य न बन्धहेतुः ।

योगानुरोधसमवासाद्भुभाणुवेद्य-

बन्धं निबन्धनं मुहान्त्यविरोधकत्वात् ॥ ५७१ ॥

त्वत्पादपङ्कजषट्कृत्रितयासप्तपुण्याद्

गण्योऽभवत्सुरगणो गणनातिगम्रीः ।

भानन्नमीलिरत एव नखोन्मुखाद्भु-

भास्वन्युस्रः शतमस्रः सुमुखस्तवाङ्कुर्योः ॥ ५७२ ॥

### मालिनी

प्रकृतमपरमकाष्ठानिष्ठितोदासमूर्तेः

क्रमकरणविहीनज्ञानधामैकधाम्नः ।

द्वितयनयमयांघडीरदिव्यध्वनेस्ते

ननु जिन परमात्मप्राभवं भाति भनुः ॥ ५७३ ॥

### शार्दूलविक्रीडितम्

ज्ञानं सर्वगतं स्वरूपनियतं ते स्यादहेतुः कृते-

र्वीतेच्छायतनाः स्वकृत्यपटवो वाचो विवाचामपि ।

प्रस्थानस्थितयोऽप्यनात्मविहिता मात्मान्यबाधाप्रदाः

स खं निर्मलबोधदर्पणतले श्रेयाकृतिं धस्व मे ॥ ५७४ ॥

विश्वस्यास्वलितं प्रशास्ति तव वाग्यायालयमात्मेशिना

यस्माद्दृष्टविरोधरोधरहिता १ रागाद्यविषाच्छिवः ।

करा देते हैं यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है ॥ ५७० ॥ हे देव ! यद्यपि आपके औदयिक भाव हैं परन्तु चूँकि आप मोहसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोधसे आपके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका कुछ भी विघात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथार्थमें बन्धरहित ही कहत हैं ॥ ५७१ ॥ हे भगवन् ! आपके चरण-कमलोंका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओंका समूह गणनीय (माननीय) गिना गया है और उसी कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याके बाहर हो गई है। यही कारण है कि नखोंकी उपरकी ओर उठनेवाली किरणोंसे जिसका मुख देदीप्यमान हो रहा है ऐसा यह इन्द्र मुकुट झुका कर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है—आपके चरणोंकी ओर निहार रहा है ॥ ५७२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशाम भावकी चरम सीमासे परिपूर्ण है, आप क्रम तथा इन्द्रियोंसे रहित केवलज्ञानरूपी तेजके एक मात्र स्थान हैं, आपकी गम्भीर दिव्यध्वनि निश्चय और व्यवहार-नयसे परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपदका प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है ॥ ५७३ ॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है तो भी स्वरूपमें नियत है और वह किसी कार्यका कारण नहीं है। आपकी वाणी इच्छाके बिना ही खिरती है तो भी वचनरहित (पशु आदि) जीवोंका भी आत्मकल्याण करनेमें समर्थ है। इसी प्रकार आपका जो विहार तथा ठहरना होता है वह भी अपनी इच्छासे किया हुआ नहीं होता है और वह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नहीं पहुँचाता है। ऐसे हे देव ! आप मेरे निर्मलज्ञानरूपी दर्पणके तलमें श्रेयकी आकृतिको धारण करो अर्थात् मेरे ज्ञानके विषय होओ ॥ ५७४ ॥ हे भगवन् ! आप आत्माके स्वामी हैं—अपनी इच्छाओंको अपने आधीन रखते हैं तथा आपने रागादि अविद्याओंका उच्छेद कर दिया है इसलिए आपके वचन प्रत्यक्षादि विरोधसे

तस्माद्धीर विकायसायकशिखामौख्यवीर्यद्गुहो  
 मोहद्रोहजयस्तवैव न परेष्वन्यायविन्यासिषु ॥ ५७५ ॥  
 वेवो वीरजिनोऽयमस्तु १जगतां बन्धः २सदा मूर्च्छि मे  
 देवस्त्वं हृदये गणेश वचसा स्पष्टेन येनाखिलम् ।  
 कारुण्यात्प्रथमानुयोगमवदः श्रद्धाभिबृद्धयावहं  
 मज्ञानयोदयतः सतां स सहजो भावो ह्ययं तादृशाम् ॥ ५७६ ॥

### मालिनी


इति कतिपयवाग्भिर्बर्धमानं जिनेन्द्रं  
 मगधपतिरुदीर्णश्रद्धया सिद्धकृत्यः<sup>१</sup> ।  
 गणधृतमपि नृत्वा गौतमं धर्मधुर्य<sup>२</sup> :  
 स्वपुरमविशदुद्यन्तुष्टिरागामिसिद्धिः ॥ ५७७ ॥  
 ३अनुष्टुप्छन्दसा ज्ञेया ग्रन्थसङ्ख्या तु विंशतिः ।  
 सहस्राणां पुराणस्य व्याख्यातृश्रोतृलेखकैः ॥ ५७८ ॥  
 इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे  
 श्रीवर्धमानस्वामिपुराणं नाम षट्सप्ततितमं पर्व ।



रहित होकर समस्त संसारके लिए बिना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते हैं । इसी तरह हं वीर ! आपने कामदेवके वाणोंकी शिखाकी वाचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी हैं इसलिये मोहकी शत्रुताको जीतना आपके ही सिद्ध हैं अन्याय करनेवाले अन्य लोगोंमें नहीं ॥ ५७५ ॥ समस्त जगत्के द्वारा वन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहें और हे गणधर देव ! आप भी सदा मेरे हृदयमें विद्यमान रहें क्योंकि आपने मेरे भाग्योदयसे करुणाकर स्पष्ट वाणोंके द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करनेवाला यह प्रथमानुयोग कहा है सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही है ॥ ५७६ ॥ इस प्रकार जिसे आगामी कालमें मोक्ष होनेवाला है जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, जो धर्मका भार धारण करनेवाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है ऐसा मगधपति राजा श्रेणिक, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गणधरकी स्तुति कर अपने नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥ ५७७ ॥

आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाले और लिखनेवालोंको इस पुराणकी संख्या अनुष्टुप् छन्दसे बीस हजार समझनी चाहिये ॥ ५७८ ॥

इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, आर्ष नामसे प्रसिद्ध, त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री वर्धमान स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला यह छिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ ७६ ॥



१ जगतां ल० । २ सतां इति क्वचित् । ३ सिद्धकृत्यं ल० । ४ धर्मधुर्यम् ल० । ५ अनुष्टुप् छन्दसा ज्ञेया चतुर्विंशसहस्रिका । पुराणे ग्रन्थके संख्या व्याख्यातृश्रोतृलेखकैः ॥ क०, ख०, ग० ।

## अथ प्रशस्तिः

'यस्यानताः पदनखैन्दवभिम्बपुग्निः चूडामणिप्रकटसन्मुकुटाः सुरेन्द्राः ।  
न्यक्कुर्वते स्म हरमर्धशशाङ्कमीलिलीलोद्धतं स जयताञ्जिनवर्धमानः ॥ १ ॥  
श्रीमूलसङ्घधाराशौ मणीनामिव साचिषाम् । महापुरुपरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥ २ ॥  
तत्र विभ्रासिताशेषप्रवादिमदवारणः । वीरसेनाग्रणीवीरसेनभट्टारको भभौ ॥ ३ ॥  
ज्ञानचारित्रसामग्रीवा<sup>१</sup>ग्रहीदिव विग्रहम् । विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम् ॥ ४ ॥  
यत्कमानन्नराजन्थमुखाब्जान्यादधुः श्रियम् । चित्रं विकासमासाद्य नखचन्द्रमरीचिभिः ॥ ५ ॥  
सिद्धिभूपद्धति<sup>३</sup> यस्य<sup>४</sup> टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः । टीक्यते हेलयान्येषां विपमापि पदे पदे ॥ ६ ॥  
यस्यास्याब्जजवाक्छ्रिया धवलया कीर्त्यैव संश्राव्यया<sup>५</sup>  
सम्प्रीतिं सततं समस्तसुधियां सत्पादयन्त्या सताम् ।  
त्रिद्वय्यासि परिश्रमादिव चिरं लोके स्थितिं<sup>६</sup> संश्रिताः  
श्रोत्रालीनमलान्यनाद्युपचितान्यस्तानि निःशेषतः ॥ ७ ॥  
अभवदिव हिमाद्रेर्देवसिन्धुप्रवाहो  
ध्वनिरिव सकलशास्वर्शशास्त्रैकमूर्तिः ।

इन्द्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे और इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके विम्बका स्पर्श करनेसे जिन इन्द्रोंके उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तक पर अर्ध चन्द्रको धारण करनेकी लीलासे उन्मत्त हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री वर्धमान स्वामी सदा जय-शील हों ॥ १ ॥ जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार मूलसंघ-रूपी समुद्रमें महापुरुष-रूपी रत्नाके स्थान स्वरूप एक सेनवंश हां गया है ॥ २ ॥ उसमें समस्त प्रवादी रूपी मदान्तत हाथियोंका त्रास देनेवाले एवं वीरसेन संघमें अग्रणी वीरसेन भट्टारक सुशोभित हुए थे ॥ ३ ॥ वे ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीके समान शरीरको धारण कर रहे थे और शिष्य जनोंका अनुग्रह करनेके लिए ही मानो सुशोभित हां रहे थे ॥ ४ ॥ यह आश्चर्यकी बात थी कि उन वीरसेन भट्टारकके चरणोंमें नख हुए राजा लोगोंके मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रफुल्लित हांकर शांभाको धारण कर रहे थे ॥ ५ ॥ सिद्धिभूपद्धति ग्रन्थ यद्यपि पद-पद पर विषम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वामीके द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिक्षु लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे ॥ ६ ॥ जिन वीरसेन स्वामीके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई वचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त बुद्धिमान् सज्जनोंको सदा प्रेम उत्पन्न करनेवाली है और समस्त संसारमें फैलनेके परिश्रमसे ही मानो इस लोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी वचनरूपी लक्ष्मीके द्वारा अनादि कालसे संचित कानांमें भरे हुए मैल पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं । विशेषार्थ—श्री वीरसेन स्वामिने पटखण्डागमके ऊपर जो धवलता नामकी टीका लिखी है वह मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लक्ष्मी ही है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती है, उसका प्रभाव समस्त लोकमें फैला हुआ है । और वह लोकमें सिद्धान्त ग्रन्थोंकी सीमाके समान स्थित है । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनकी वह धवलता टीका श्रोतृजनोंके अज्ञान रूपी मैलको चिरकाल तक सम्पूर्ण

१ मपुस्तकेऽयं श्लोकोऽधिकः—'चतुर्विंशतितीर्थैशां चतुर्गतिनिवृत्तये । वृषभादिमहावीरपर्यन्तान् प्रणामाभ्यहम् ।' २-मग्रहीदिव ल० । ३ पद्धतिर्यस्य ल० । ४ यस्या क०, ख०, ग०, घ० । ५ संश्राव्याय क०, घ०, म० । ६ स्थितिः म० ।

उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो

मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मात् ॥ ८ ॥

यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्वारान्तराविर्भवत्

पादान्भोजरजःपिशङ्गमुकुटप्रत्यग्रत्नद्युतिः ।

संस्मर्ता स्वममोघवर्षनृपतिः पूतोऽहमद्यत्पलम्

स श्रीमान्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ॥ ९ ॥

प्राचीप्यं पदवाक्चयोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे

सद्भावावगतिः कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशलम् ।

ग्रन्थग्रन्थिभिदिः सध्वकवितेत्वग्रो गुणानां गणो

ये सप्रप्राप्य चिरं कलङ्कविकलः काले कलौ सुस्थितः ॥ १० ॥

ज्योत्स्नेव तारकाभीरो सहस्रांशाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत्सहज्जास्मिन्सरस्वती ॥ ११ ॥

दशरथगुरुरासीत्स्य धीमान्सधर्मा

शशिन इव दिनेशो विश्वलोकैकचक्षुः ।

निखिलमिदमदीपि व्यापि तद्वाङ्मयसूक्ष्मैः

प्रकटितनिजभावं निर्मलैर्धर्मसारैः ॥ १२ ॥

सद्भावः शर्वशास्त्राणां तद्भास्वद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापितबिम्बाभो<sup>१</sup> बालैरप्याशु बुध्यते ॥ १३ ॥

प्रत्यङ्गीकृतलक्ष्यलक्षणविधिविश्वोपविधां<sup>२</sup> गतः

सिद्धान्ता<sup>३</sup>ऽध्यवसानयानजनित प्रागल्भ्यबुद्धीद्वधीः ।

रूपसे नष्ट करता रहे । जिस प्रकार हिमवान् पर्वतसे गङ्गानदीका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा सर्वज्ञ देवसे समस्त शास्त्रोंकी मूर्ति स्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होती है अथवा उदयाचलके तटसे देदीप्यमान सूर्य प्रकट होता है उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए ॥ ७-८ ॥ श्री जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोंके किरणसमूह धाराके समान फैलते थे और उसके बीच उनके चरण कमलके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण-कमलोंकी रजते जब राजा अमोघवर्षके मुकुटमें लगे हुए नवीन रत्नोंकी कान्ति पीली पड़ जानी थी तब वह अपने आपका ऐसा स्मरण करता था कि मैं आज अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उन पूजनीय भगवान् जिनसेनाचार्यके चरण संसारके लिए मङ्गल रूप हों ॥ ९ ॥ पद और वाक्यकी रचनामें प्रवीण होना, दूसरे पक्षका निराकरण करनेमें तत्परता होना, आगमविषयक उत्तम पदार्थोंको अच्छी तरह समझना, कल्याणकारी कथाओंके कहनेमें कुशलता होना, ग्रन्थके गूढ अभिप्रायको प्रकट करना और उत्तम मार्ग युक्त कविताका होना ये सब गुण जिनसेनाचार्यको पाकर कलिकाल में भी चिरकाल तक कलङ्करहित होकर स्थिर रहे थे ॥ १० ॥ जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रभा और स्फटिकमें स्वच्छता स्वभावसे ही रहती है उसी प्रकार जिनसेनाचार्यमें सरस्वती भी स्वभावसे ही रहती थी ॥ ११ ॥ जिस प्रकार समस्त लोकका एक चतुस्वरूप सूर्य चन्द्रमाका सधर्मा होता है । उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान् दशरथ गुरु, उन जिनसेनाचार्यके सधर्मा बन्धु थे—एक गुरु-भाई थे । जिस प्रकार सूर्य अपनी निर्मल किरणोंसे संसारके सब पदार्थोंको प्रकट करता है उसी प्रकार वे भी अपने वचनरूपी किरणोंसे समस्त जगत्को प्रकाशमान करते थे ॥ १२ ॥ जिस प्रकार दर्पणमें प्रतिबिम्बित सूर्यके मण्डलको बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हैं उसी प्रकार जिनसेनाचार्यके शोभायमान वचनोंमें समस्त शास्त्रोंका सद्भाव था यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्र ही समझ जाते थे ॥ १३ ॥ सिद्धान्त शास्त्र रूपी समुद्रके पारगामी होनेसे जिसकी बुद्धि अतिशय

१ बिम्बोऽसौ म०, घ०, ग०, क० । २ विश्वोपविद्यान्तरात् ग०, घ०, म० । विश्वोपविद्यातिगः छ० ।

३ सिद्धान्ताध्यवसानयान क०, ग०, घ०, म० ।

मानानुनयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैर्गुणैर्भूषितः

शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीज्जगद्विश्रुतः ॥ १४ ॥

पुण्यश्रियोऽयमजयत्सुभगत्सदर्प-

मित्याकलय परिशुद्धमतिस्तपश्रीः ।

मुक्तिश्रिया पटुतमा प्रहितेव दूती

प्रीत्या महागुणधनं समशिश्रियद्यम् ॥ १५ ॥

तस्य वचनांशुबिसरः सन्ततहृतवुस्तरान्तरङ्गताः ।

कुवलयपद्माह्लादी जितशिशिराशिशिररश्मिप्रसरः ॥ १६ ॥

कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामानृकं पुरोधचरितम् ।

सकलच्छन्दोलङ्कृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् ॥ १७ ॥

ध्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रसद्भावम् ।

अपहस्तितान्यकाव्यं श्रव्यं व्युत्पन्नमतिभिरादेयम् ॥ १८ ॥

जिनसेनभगवतोक्तं मिथ्याकविदर्पदलनमतिललितम् ।

सिद्धान्तोपनिबन्धनकर्त्रा भर्त्रा विनेयानाम् ॥ १९ ॥

अतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्टं सङ्गृहीतममलधिया ।

गुणभद्रसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन ॥ २० ॥

ध्यावर्णनादिरहितं सुबोधमखिलं सुलेखमखिलहितम् ।

महितं महापुराणं पठन्तु शृण्वन्तु भक्तिमद्भ्याः ॥ २१ ॥

इदं भावयतां पुंसां भूयो भवबिभित्सया । भव्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धदम्बुराविद्वताम् ॥ २२ ॥

शान्तिवृद्धिर्जयः श्रेयः प्रायः प्रेयः समागमः । विगमां विप्लवव्यासेरासित्यर्थसम्पदाम् ॥ २३ ॥

प्रगल्भ तथा देदीप्यमान ( तीक्ष्ण ) थी, जो अनेक नय और प्रमाणके ज्ञानमें निपुण था, अगणित गुणोंसे भूषित था तथा समस्त जगत्में प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्राचार्य, उन्हीं जिनसेनाचार्य तथा दशरथ गुरूका शिष्य था ॥ १४ ॥ 'गुणभद्र ने पुण्य-रूपी लक्ष्मीके सौभाग्यशाली होनेका गर्व जीत लिया है' ऐसा समझकर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उनके पास अत्यन्त चतुर दूतके समान विशुद्ध बुद्धि वाली तपोलक्ष्मीको भेजा था और वह तपोलक्ष्मीरूपी दूती महागुण-रूपी धनसे सन्पन्न रहने-वाले उस गुणभद्रकी बड़ी प्रीतिसे सेवा करती रहती थी ॥ १५ ॥

उन गुणभद्रके वचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले अज्ञानान्धकारको सदाके लिए नष्ट कर दिया था और वह कुवलय तथा कमल दोनोंको आह्लादित करनेवाला था ( पक्षमें मही-मण्डलकी लक्ष्मीको हर्षित करनेवाला था ) इस तरह उसने चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके प्रसारको जीत लिया था ॥ १६ ॥ परमेश्वर कविके द्वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्दों और अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूक्ष्म अर्थ और गूढपदोंकी रचना है, जिसने अन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिथ्या कवियोंके दर्पको खण्डित करनेवाला है, और अतिशय सुन्दर है ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त ग्रन्थपर टीका लिखनेवाले तथा शिष्यजनोंका चिरकाल तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन भगवान्ने कहा है ॥ १७-१९ ॥ ग्रन्थका जो भाग, भगवान् जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा था उसे निर्मल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके अनुरोधसे तथा भारी विस्तारके भयसे संक्षेपमें ही संगृहीत किया है ॥ २० ॥ यह महापुराण व्यर्थ-के वर्णनसे रहित है, सरलतासे समझा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीवोंका हित करनेवाला है, तथा पूजित है—सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण ग्रन्थको भक्तिसे भरे हुए भव्य जीव अच्छी तरह पढ़े तथा सुनें ॥ २१ ॥ संसारके छेदकी इच्छासे जो भव्य जीव इस ग्रन्थका बार-बार चिन्तन करते हैं, ऐसे निर्मल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यके

बन्धहेतुकलज्ञानं स्वाच्छुभाशुभकर्मणाम् । विज्ञेयो मुक्तिसञ्ज्ञानो मुक्तिहेतुश्च निश्चितः ॥ २४ ॥  
निर्वेगवितयोऽनूतिर्धर्मभङ्गाप्रवर्धनम् । भस्मङ्कयेयगुणधेय्या निर्जराशुभकर्मणाम् ॥ २५ ॥  
आस्रवस्य च संरोधः कृत्स्नकर्मविमोक्षणात् । शुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सैव संखिद्धिरात्मनः ॥ २६ ॥  
तदेतदेव व्याख्येयं श्रद्धं भव्यैरिन्तरम् । चिन्त्यं पूज्यं मुदा लेख्यं लेखनीयञ्च भाक्तिकैः ॥ २७ ॥

विदितसकलशास्त्रो लोकसेनो मुनीशः

कविरधिककृपास्तस्य शिष्येषु मुख्यः ।

सततमिह पुराणे प्रार्थ्यं साहाय्यमुच्चै-

गुरुविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सन्निः ॥ २८ ॥

यस्योत्पुङ्गमतङ्गजा निजमदस्रोतस्विनीसङ्गमा-

द्राङ्गं वारि कलङ्कितं कटु मुहुः पीत्वापगच्छत्तपः ।

कौमारं घनचन्दनं वनमपां पत्युस्तरङ्गानिलै-

मन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छायं समाशिश्रियन् ॥ २९ ॥

तुग्धान्धौ गिरिणा हरी हतसुखा गोपीकुचोद्धृष्टैः

पद्मे भानुकरैर्भिदेलिमदले रात्रौ च संकोचने ।

यस्योरःशरणे प्रथीयसि भुजस्तम्भान्तरोत्तमिभल-

स्थेये हारकलापतोरणगुणे श्रीः सौख्यमागाच्चिरम् ॥ ३० ॥

धारक पुरुषोंको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मिलती है, वृद्धि होती है, विजय होती है, कल्याणकी प्राप्ति होती है, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता है, उपद्रवोंका नाश होता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता है, शुभ-अशुभ कर्मोंके बन्धके कारण तथा उनके फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोंका निश्चय होता है, तीनों प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, धर्मकी श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यान गुणश्रेणी निर्जरा होती है, अशुभ कर्मोंका आस्रव रुकता है और समस्त कर्मोंका क्षय होनेसे वह आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त होती है जो कि आत्माको सिद्धि कही जाती है । इसलिए भक्तिसे भरे हुए भव्योंको निरन्तर इसी महा-पुराण ग्रन्थकी व्याख्या करनी चाहिये, इसे ही सुनना चाहिये, इसीका चिन्तन करना चाहिये, हर्षसे इसीकी पूजा करनी चाहिये और इसे ही लिखना चाहिये ॥ २२-२७ ॥

समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रके धारक मुनिराज लोकसेन कवि, गुणभद्रा-चार्यके शिष्योंमें मुख्य शिष्य थे । इन्होंने इस पुराणको सहायता देकर अपनी उत्कृष्ट गुरु-विनयको सत्पुरुषोंके द्वारा मान्यता प्राप्त कराई थी ॥ २८ ॥ जिनके ऊँचे हाथी अपने मद रूपी नदीके समा-गमसे कलङ्कित गङ्गा नदीका कटु जल वार-वार पीकर प्याससे रहित हुए थे तथा समुद्रकी तरङ्गोंसे जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूर्यकी किरणोंकी प्रभा अस्त हो जाती थी ऐसे कुमारीपर्वतके सघन चन्दनवनमें बार बार विश्राम लेते थे । भावार्थ—जिनकी सेना दक्षिणसे लेकर उत्तरमें गङ्गा नदी तक कई बार घूमि थी ॥ २६ ॥ लक्ष्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं—एक क्षीर-समुद्र, दूसरा नारायणका वक्षःस्थल और तीसरा कमल । इनमेंसे क्षीरसमुद्रमें लक्ष्मीको सुख इसलिए नहीं मिला कि वह पर्वतके द्वारा मथा गया था, नारायणके वक्षःस्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ गोपियोंके स्तनोंका वार-वार आघात लगता था और कमलमें इसलिए नहीं मिला कि उसके दल सूर्यकी किरणोंसे दिनमें तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे । इस तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थानोंसे हट कर, भुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अत्यन्त सुदृढ़ तथा हारोंके समूह रूपी तोरणोंसे सुसज्जित जिनके विशाल वक्षःस्थल-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी ॥ ३० ॥

अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिकाम् । तस्मिन्निवृत्तनिश्चेषद्विषि वीभ्रयशोभुषि ॥ ३१ ॥

पञ्चालवसुकुलकुलप्रविकासकसत्प्रतापततमहसि ।

श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसन्तमसे ॥ ३२ ॥

चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे ।

जैनेन्द्रधर्मवृद्धेविधायिनि विधुवीभ्रपृथुयशसि ॥ ३३ ॥

वनवासदेशमखिलं भुञ्जति निष्कण्टकं सुखं सुचिरम् ।

तत्पितृनिजनामकृते ख्याते वङ्कापुरे पुरेष्वधिके ॥ ३४ ॥

शकनृपकालाभ्यन्तरविशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते ।

मङ्गलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ ॥

श्रीपञ्चम्यां बुधार्द्रायुजि दिवसजे मन्त्रिवारे बुधांशे

पूर्वायां सिंहलग्ने धनुषि धरणिजे सैहिकेये तुलायाम् ।

सूर्ये शुके कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भव्यवर्यैः

प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ ३६ ॥

यावद्दूरा जलनिधिर्गगनं हिमांशु-

स्तिग्मद्युतिः सुरगिरिः ककुभां त्रिभागः ।

तावत्सतां वचसि चेतसि पुत्रमेत-

च्छान्तन्यतिस्थितिमुपैतु महापुराणम् ॥ ३७ ॥

धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र

तीर्थेशिनो चरितमत्र महापुराणे ।

यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्द-

निर्यद्वाचांसि न मर्गांसि हरन्ति केषाम् ॥ ३८ ॥

जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिये थे, और जो निर्मल यशको प्राप्त थे ऐसे राजा अकालवर्ष जब इस समस्त पृथिवीका पालन कर रहे थे ॥ ३१ ॥ तथा कमलाकरके समान अपने प्रपितामह मुकुलके वंशको विकसित करनेवाले सूर्यके प्रतापके समान जिसका प्रताप सर्वत्र फैल रहा था, जिसने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शत्रु रूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जो चेल्ल पताकावाला था—जिसकी पताकामें मयूरका चिह्न था—चेल्लध्वजका अनुज था, चेल्लकेतन (बंकेय) का पुत्र था, जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाला था, और चन्द्रमाके समान उज्वल यशका धारक था ऐसा श्रीमान् लोकादित्य राजा, अपने पिताके नाम पर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध वङ्कापुर नामके श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त वनवास देशका मुखपूर्वक चिरकालसे पालन करता था ॥ ३२-३४ ॥ तब महामङ्गलकारी और समस्त मनुष्योंको सुख देनेवाले पिङ्गल नामक ८२० शक संवत्में श्री पञ्चमी (श्रावण वदी ५) गुरुवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी स्थित सिंह लग्नमें जब कि बुध आर्द्रा नक्षत्र का, शनि मिथुन राशिका, मंगल धनुष राशि का, राहु तुलाराशिका, सूर्य, शुक कर्कराशि का, और बृहस्पति वृष राशि पर था तब यह उत्तरपुराण ग्रन्थ पूर्ण हुआ था, उसी दिन भव्यजीवोंने इसकी पूजा की थी। इस प्रकार सर्व श्रेष्ठ एवं पुण्यरूप यह पुराण संसारमें जयवन्त है ॥ ३५-३६ ॥ जब तक पृथिवी है, आकाश है, चन्द्रमा है, सूर्य है, सुमेरु है, और दिशाओंका विभाग है, तब तक सज्जनोंके वचनमें, चित्तमें और कानमें यह पवित्र महापुराण स्थितिको प्राप्त हो अर्थात् सज्जन पुरुष वचनों-द्वारा इसकी चर्चा करें, हृदयमें इसका विचार करें और कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ॥३७॥ इस महापुराणमें धर्मशास्त्र, मोक्षका मार्ग है, कविता है, और तीर्थकरोंका चरित्र है अथवा कविराज जिनसेनके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन

महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किञ्चित् ।

कवीचिनानेन यथा न काव्यचर्चासु चेतोविकलाः कवीन्द्राः ॥ ३९ ॥

१स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः कवीढ्यः

विमलमुनिगणेढ्यः भव्यमालासमीढ्यः ।

सकलगुणसमाह्वो दुष्टवादीभसिंहो-

विदितसकलशास्त्रः सर्वराजेन्द्रवन्द्यः ॥ ४० ॥

यदि सकलकवीन्द्रभोक्तृप्रचार-

श्रवणसरसचेतास्तस्वमेवं सखे स्याः ।

कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्द-

प्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यर्णकर्णः ॥ ४१ ॥

२स जयति गुणभद्रः सर्वयोगीन्द्रवन्द्यः

सकलकविवराणामग्रिमः सूरिवन्द्यः ।

जितमदनविलासो दिक्चलकीर्तिकेतु-

दुरिततरुकुठारः सर्वभूपालवन्द्यः ॥ ४२ ॥

धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतदुचितं वस्तुं पुराणं महत्

श्रव्याः किन्तु कथास्त्रिपष्टिपुरुषाख्यानं चरित्रार्णवः ।

किनका मन हरण नहीं करते? अर्थात् सभीका करते हैं ॥३८॥ महाप्राचीन पुराण पुरुष भगवान् आदिनाथके इस पुराणमें कवियोंके स्वामी इन जिनसेनाचार्यने ऐसा कुछ अद्भुत कार्य किया है कि इसके रहते कविलोग काव्यकी चर्चाओंमें कभी भी हृदयरहित नहीं होते ॥३९॥ वे जिनसेनाचार्य जयवन्त रहे जो कि कवियोंके द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मल मुनियोंके समूह जिनकी स्तुति करते हैं, भव्यजीवोंका समूह जिनका स्तवन करता है, जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्टवादी रूपी हाथियोंको जीतनेके लिए सिंहके समान हैं, समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, और सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं ॥ ४० ॥ हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त कवियोंके द्वारा कहे हुए सुभाषितोंका समूह सुननेमें सरस है तो तू कवि श्रेष्ठ जिनसेनाचार्यके मुखारविन्दसे कहे हुए इस पुराणके सुननेमें अपने कर्ण निकट कर ॥ ४१ ॥ वे गुणभद्राचार्य भी जयवन्त रहे जो कि समस्त योगियोंके द्वारा वन्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कवियोंमें अग्रगामी हैं, आचार्योंके द्वारा वन्दना करनेके योग्य हैं, जिन्होंने कामक विलासको जीत लिया है, जिनकी कीर्ति रूपी पताका समस्त दिशाओंमें फहरा रही है, जो पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेमें कुठारके समान हैं और समस्त राजाओंके द्वारा वन्दनीय हैं ॥ ४२ ॥ 'यह महापुराण केवल पुराण ही है, ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि यह अद्भुत धर्मशास्त्र है, इसकी कथाएं श्रवणीय हैं—अत्यन्त

१ कविवरजिनसेनाचार्यवर्यार्यमासौ मधुरमणिनवाच्यं नामिसूनोः पुराणे । तदनु च गुणभद्राचार्यवाचो विचित्राः सकलकविकवीन्द्रात्रातसिंहा जयन्ति ॥ म०, क०, ग०, घ० । २ असौ श्लोकः क०, ग०, घ०, म० पुस्तके नास्ति ।



कोऽप्यस्मिन्कवितागुणोऽस्ति कवयोऽप्येतद्गोब्जालयः

कोऽसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्राचार्यवर्यः स्वयम् ॥ ४३ ॥

इत्यार्ये भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रशस्तिव्यावर्णनं  
नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥ ७७ ॥



मनोहर हैं, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान है, चरित्र वर्णन करनेका मानो समुद्र ही हैं, इसमें कोई अद्भुत कविताका गुण है, और कविलोग भी इसके वचनरूपी कमलों पर भ्रमरोंके समान आसक्त हैं, यथार्थमें इस ग्रन्थके रचयिता श्रीगुणभद्राचार्य स्वयं कोई अद्भुत कवि हैं ॥४३॥

इस प्रकार ऋषि प्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके मंग्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेवाला सतहत्तरहॉ पर्व पूर्ण हुआ ।



पुराणाब्धिरगम्योऽयमर्थवीचिविभूषितः ।

सर्वथा शरणं मन्ये गुणभद्रं महाकविम् ॥

पारमामो जन्मभूमिर्यदीया

गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः ।

पन्नालालः स्वल्पबुद्धिः स चाहं

टीकामेतामल्पबुद्धया चकार ॥

मधुमासासितपत्ने शुके वारेऽपराह्णवेलायाम् ।

शून्याष्टचतुर्युगम-वर्षे वीराब्दसंज्ञिते पूर्णा ॥

ते ते जयन्तु विद्वान्सो वन्दनीयगुणाकराः ।


यत्कृपाकाणमालम्ब्य तीर्णोऽयं शास्त्रसागरः ॥

येषां कृपाकोमलदृष्टिपातैः सुपुष्पिताभूममसूक्तिवल्ली ।

तान्प्रार्थये वर्णिगणेशपादान् फलोदयं तत्र नतेन मूर्ध्ना ॥

यस्यानुकम्पाभृतपानतृप्ता बुधा न हीच्छन्ति सुधासमूहम् ।

भूयात्प्रमोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशिः स गुरुर्गणेशः ॥



## उत्तरपुराणस्थश्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

[ अ ]

अंसवारिपयोपेतः	४५	अङ्गं सप्तममाख्येयं	१६५	अत्र जम्बूद्रुमालक्ष्य	१७२
अकम्पनाद्या भूपाला	४४६	अङ्गप्रत्यङ्गसंस्पर्श-	१५०	अत्र नामङ्करं किञ्चि-	१६५
अकम्पनोऽन्धवेलाख्यः	४६८	अङ्गरागं समालोच्य	२५४	अत्र पाण्डुतनूजानां	४२०
अकम्पिषत सर्वेऽपि	५०७	अङ्गरागोऽङ्गलमोऽस्य	४६३	अत्रामुत्र च मित्रवन्न हितकृत्	१२
अकरोद्दूषणं विग्धिङ्	४८७	अङ्गहारैः सकरणैः	१७०	अत्रैव भरते राजा	२४५
अकपायमनारम्भ-	१८०	अङ्गाङ्गबाह्यसन्दाव-	४७३	अत्रैव भरते वङ्ग-	२३४
अकारणसमुद्भूत-	५७	अङ्गिनीं वत सीदन्ति	१०२	अत्रैव भारते श्रीमान्	६३
अकारणश्चकोच्चार-	२१०	अचलोऽपि तदुद्धेगाद्-	६५	अथ कंसवधमुक्त-	३७५
अकार्यमवशिष्टं यत्-	४१३	अचेतने कथं पूजा	४३२	अथ कश्चित्त्वगो मध्ये	१६२
अकालवषंभुगाले	५७७	अच्छेदो मुक्तियोग्याया	४७६	अथ कृत्वा महापूजां	२६१
अकालसाधनं शौर्यं	५२०	अच्युतेन्द्रोऽजनिह्रात-	५३	अथ कौशाम्ब्यधीशास्य	१६२
अकाले चम्पकाशोक-	४१७	अजनि वैश्रवणो धरणीश्वरः	२३७	अथ क्षेमङ्करः पृथ्व्याः	१८०
अकीर्तिनिष्फलाऽऽचन्द्र-	३०७	अजन्यन्वकवृष्टथाख्य	३५१	अथ गौरीभवं चैवं	४०३
अकुर्वन् पञ्चमं देवाः	३२६	अज्ञानतपसानेन	४३६	अथ चक्रपुरीखङ्ग-	१८६
अकृत्रिमजिनागारा-	१६०	अज्ञानबीजसंरूढा	१२२	अथ चन्द्रप्रभः स्वामी	६४
अकृत्रिमाणि निर्जेतुं	४४६	अज्ञानसंशयैकान्त-	१५८	अथ जम्बूद्रुमालक्ष्ये	४४४
अकृत्वा मे कुमारोऽञ्जः	४३५	अञ्जनात्माञ्जनौ श्रद्धा-	१८९	अथ जम्बूमति द्वीपे	१२९
अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं	६४	अटत्येष च भिक्षायै	५३०	अथ जाम्बूमति द्वीपे	३२९
अखण्डे चातकीखण्डे	२५	अणिमादिगुणः सप्त-	५०	अथ तन्नगराधीशः	१६१
अगत्या क्षणिकत्वं	१७६	अणिमादिगुणोपेतं	१५	अथ तस्माद्गनाद्देह-	५२४
अगन्धनस्तु तद्दह्नौ	११२	अणुमानिति हर्षेण	२६७	अथ तौ रेणुकीपुत्रौ	२२७
अगमन्युतना तासु	३६७	अतः परं मुहूर्तं चे-	५३०	अथ तौ सह गच्छन्ता-	२७८
अगात्तदनुमार्गैण	४८८	अतिक्रम्य कुतोर्यानि	४४३	अथ दर्पां दुराचारतः	२३१
अगाद्भरणिनक्षत्रे	२१०	अतिक्रम्यादिमं मार्गं	२७४	अथ दिव्यध्वनेर्हेतुः	४६७
अगाधोऽयं पुराणाब्धिः	४४१	अतिपातनिपीताल-	३२०	अथ नेमिकुमारोऽपि	३८५
अगुरुणा गुणीभाव-	८६	अतिरौक्ष्या धरा तत्र	५५०	अथ पुत्री वनात्पुष्प-	२२५
अग्रजं तव पापोऽयं	१०८	अतिवाह्यागतो वीर-	३४३	अथ मौनव्रतेनैते	२३
अग्रजात्यास्तदागत्य	४८६	अतिविस्तरभीक्ष्वा-	५७५	अथ मौनव्रतेनायं	१७
अग्रजोऽर्यैव भद्राया	१४४	अतीक्ष्णनखदंष्ट्रोऽय-	४६४	अथ प्रियङ्कराख्याय	५५४
अग्रमन्दरशैलस्य	६०	अतीतान् विश्वभूयेशान्	१४०	अथ भट्टारकोऽप्यस्मा-	४६४
अग्रासने विधायैनां	५२२	अतुलबलमलङ्कथा-	३७३	अथ मन्दरपर्यन्त-	१७६
अभिभूतिरभूत्सु-	४०७	अतुष्यदेश भूपाल-	१०२	अथ भ्रान्त्वा भवे दीर्घं	१२६
अभिभूतौ गतप्राणे	४८७	अतोऽन्यत्पङ्कतं ब्रूमो	३६२	अथ युद्धे कुरुक्षेत्रे	४२१
अभिह्ना गृहिणी तोकौ	१६०	अतो विजयदेवी च	४६७	अथ वत्साह्वये देशे	४८५
अभिहायां बनश्री-	४२२	अत्यल्पं तृप्तिमापन्न-	२१६	अथ वज्रायुषाधीशो	१८४
अग्नेसरस्फुरच्चक्र-	३१६	अत्र का गतिरन्येषां	२५०	अथवाऽहंमतेनेद-	१६६

अथ विद्याधराधीशः	१५७
अथ शत्रून् समुज्जेतुं	३८०
अथ शीलवतीं सीता-	३२३
अथ शौर्यादिभौ राम-	२६१
अथ श्रीनागदत्तोऽपि	४६१
अथ सर्वान् मृतान् हृष्ट्वा	५३३
अथ स्वज्ञातपूर्वञ्च	४०७
अथ स्वविष्टराकम्प-	३७७
अथ स्वपुण्यकर्माति-	१६२
अथ स्वपुरस्मानीय	३६४
अथाकस्मात्पुरे तस्मिन्	१६६
अथाख्यानमिदं चैकं	५४०
अथागते मघौ मासे	४६५
अथातोऽन्वकवृष्टिश्च	३४८
अथातो रामरूपेण	२६२
अथात्र नारदं काम-	४१५
अथात्र नागरेष्वात्म-	५०६
अथात्र भारते स्वेचरा-	५०२
अथात्रैव विहारार्थं	३४५
अथानन्तरमेवैनं	३६५
अथानन्तरमेवैनं	४०१
अथान्यदा किलानन्दं	४३३
अथान्यदा कुमारोऽसौ	४४६
अथान्यदा जिनं नेमिं	४१६
अथान्यदा मघौ मासे	५०५
अथान्यदा महाराजः	५५५
अथान्यदा ययौ सार्द्धं	२२५
अथान्यदा समासाद्य	१२१
अथान्येद्युः कुमारस्य	५२१
अथान्येद्युर्जगन्नन्द-	१४१
अथान्येद्युर्नटप्रेक्षां	३५२
अथान्येद्युः पुनः प्राप्य	५४३
अथान्येद्युर्महाराजः	४७६
अथान्येद्युर्महावीरः	५२६
अथान्येद्युर्वशिष्णुर्वी	४६५
अथान्येद्युर्विलोकयैन-	३६१
अथान्येद्युः समासीनं	४८२
अथान्येद्युः स्वमिथ्यात्व-	५५५
अथापराजितोऽप्यात्म-	१७५
अथाप्य पूज्यं साम्राज्य-	६८
अथाभिष्यज्यते तस्य	२७३

अथामुद्भारते क्षेत्रे	११३
अथासुरो जगत्प्रत्य-	२७५
अथास्ति नागलोकामो-	२७८
अथास्मिन्नेव तीर्थेऽभू-	२२१
अथास्मिन्भारते क्षेत्रे	२७६
अथास्मिन्भारते वर्षे	१६८
अथास्मै भोक्तुकामाय	४७५
अथास्य द्वीपनाथस्य	१३६
अथेत्वा तेन यन्त्रेण	४६८
अथेष्टोऽव्यतिरेकेण	१७६
अथेह भारते द्वारवत्यां	१२५
अथोपगम्य तं स्नेहात्	४६६
अदत्त्वा पापबुद्ध्यास्मान्	४६६
अदित द्वादशग्रामान्	३६३
अदृष्टं किं किमस्पृष्ट-	३६
अदृष्टवदनाम्भोज-	४८
अदृष्टान्विष्य सीतां च	२६४
अदृष्ट्वा मत्सुतां तत्र	१८२
अद्य मासोपवासान्ते	५२६
अद्य वारावतद्वन्दं	५१३
अद्य प्रभृति संसार-	४५६
अद्य सर्वेऽपि जाताः स्मः	४६१
अद्रिमस्तकमारुह्य	३५२
अधस्तादष्टमाहार-	४३८
अधस्ताद्योषितं काञ्चि-	४७०
अधिरत्नायुधं राज्यं	११५
अधिरुह्याहिजां शय्यां	३६६
अधीत्य सर्वशास्त्राणि	६३
अधीत्यैकादशाङ्गानि	८७
अध्यास्य काममेवाव-	१६
अध्वन्यैरभ्य-	४५३
अनगाराख्यमुख्यैका	७४
अनङ्गपूर्वरङ्गस्य	५५
अनङ्गस्तद्वलेनैनं	७१
अनणीयान् स्वपुण्येन	२८४
अनन्तजिनसन्ताने	१२६
अनन्तोऽनन्तदोषाणां	१२१
अनन्तवीर्ययत्नन्ते	३६६
अनन्तवीर्यां विश्वेन्द्र-	३६१
अनन्तशोऽहमिन्द्रत्वं	६८
अनन्यगोचरा लक्ष्मी	४५१

अनन्यवेद्यमागत्य	२६६
अनन्यशरणस्थाहुः	२८३
अनभिव्यक्तमाहात्म्या-	४२६
अनयोरनुरूपोऽयं	२६१
अनर्पयन्तं सीतां त्वां	३१२
अनादिनिघने बाल-	३७७
अनादिबन्धनैर्गाढं	३३४
अनादौ जन्मकान्तारे	८६
अनालीढमनोजपि	१४१
अनावरणमस्थान-	१८०
अनाहतस्वसौख्यस्य	२५३
अन्विच्छन् स्वर्गभोगार्थां	५३३
अनित्याशुचिदुःखत्वं	६०
अनित्ये नित्यबुद्धिर्मे	५६
अनिरुद्धय न भोक्ष्येऽहं	३४०
अनिष्टलक्षणान्दन्वै-	२८६
अनीकदत्तश्चानीक-	३६४
अनुकसिद्धमेतत्तु	२६७
अनुगङ्गं ततो गत्वा	३२३
अनुगृह्यास्य वक्तव्य-	२२६
अनुग्रहार्थं स्वस्याति-	७७
अनुग्रहार्थं स्वस्याति-	१६३
अनुजाभ्यां समं चिन्ता-	३४१
अनुतारे जयन्ताख्ये	३४२
अनुधावन्यतन्नेव	३५०
अनुप्रेक्षा स्वरूपाख्या	२५०
अनुभूय दिनान्यत्र	३५६
अनुभूय महादुःखं	४१०
अनुभूय सुखं तस्मिन्	८०
अनुभूयान् साकेत-	७
अनुमानप्रधानस्य	४७७
अनुयुज्यावधिज्ञान-	२१६
अनुरक्तं व्यधात्कुत्सन-	३३२
अनुष्णुच्छन्दसा ज्ञेया	५७२
अनुष्णाय तथा सोऽपि	२५५
अनुष्ठेयः स धर्मिष्ठै-	२७६
अनुसृत्य हृतं ताभ्यां	५२४
अनृत्यच्चोदितानन्दी	१०४
अनृतञ्चरदेशेषु	५५६
अनेमेयमवस्थाभू-	२७४
अनेनैव विधानेन	१४६

अन्तको दुर्निवारोऽत्र	१५७	अन्यैर्यः समवाप पूर्वसुकृता	५२७	अप्रियत्वात्पिता त्यक्त्वा	२४१
अन्तःश्लोथकपायानु-	५३०	अन्यैश्च पुत्रपौत्राद्यैः	३२६	अफलान् शक्तयस्तिष्ठः	२१
अन्तःपुरान्वितोऽन्येयुः	३४२	अन्योन्यदुःखहेतुत्वा-	१५६	अबुद्ध्या धर्मभक्तं तत्	४६
अन्त्यः केवलानामस्मिन्	५६३	अन्वभूत्स महाशुक-	४१०	अबोधतमसाक्रान्त-	५४९
अन्त्यद्वयं परित्यज्य	१०	अन्वभूदप्रवीचारं	११३	अभयाख्यः सुतो धीमा-	४७९
अन्त्यस्यापि तनुः सता-	५६०	अन्वभूर्वाभिरं भोगा-	४२३	अभवत्पोदनाख्येऽपि	१५५
अन्त्यादप्यल्पसावद्या-	७६	अन्वयुङ्क्त गणाधीशं	४६६	अभवत्प्रियमित्रायां	१५५
अन्तरिक्षसभौमाङ्ग-	१५०	अन्वयुङ्क्त स तं सोऽपि	२२३	अभवदिव हिमाद्रे-	५७३
अन्तर्ग्रन्थपरित्यागा-	४६४	अन्विच्छन्तं विलोक्याह	३४५	अभात्सयात्सौन्दर्यं	२४०
अन्तर्गृहूर्तकालेन	४७२	अन्विष्य प्रतियोद्धार-	६४	अभात् सुमनसां वृष्टिः	६२
अन्वसर्पविलायान-	२६४	अन्वेषितारौ पुरुषं	२६८	अभादस्य प्रभामध्ये	६२
अलमाश्राणयत्समै	४६६	अपक्षपतितान् प्राज्ञान्	५०४	अभानिभाभटोन्मुक्त-	३२१
अन्यत्संभितसतोऽत्रान्यत्	२५१	अपत्यजननाभावे	२८६	अभाषत द्विजो राजन्	३५८
अन्यथा नियहोष्यामि	१११	अप्रध्यमिति संभाव्य	३०५	अभिगम्य तमाक्रम्य	१३३
अन्यदा नगरे तस्मिन्-	४८६	अप्रबोधचतुष्कात्या	४६४	अभिजातपरीवारो	५४
अन्यदाऽमिततेजःश्री-	१६५	अप्रश्न महादुःखं	४२६	अभिजानासि किं	१७५
अन्यदा रत्नसेनाख्यो	१८४	अप्रस्मिन्दिने व्याधै-	३६६	अभिज्ञानं च तस्यैतदि-	११०
अन्यदाराद्वृत्तिर्नाम	२८६	अप्रराजितनामोऽ-	२४६	अभिज्ञानैवृषेन्द्रेण	२९९
अन्वदा सुप्रताख्यायै	१७२	अप्ररायात्तमच्छिन्न-	५२	अभिज्ञानमिदं तस्य	४९५
अन्यदासौ निरुधायं	४३७	अप्रराहे सहस्रेण	४,३३५	अभिज्ञानमिदं भावि	२२७
अन्यदासौ महाराज	४६४	अप्ररित्यक्तसङ्गस्य	२१५	अभिधाय स्वविज्ञातं	५५१
अन्यदेशानकल्पेशो	१६५	अप्रवर्त्यायुषः केचिद्	१०	अभिधाय स्ववृत्तान्त-	४१७
अन्यदोषेन्द्रसेनाख्य-	२३१	अप्रहृत्य सुरङ्गापातेन	४२०	अभिधायाम्ब पापिष्ठां	३९७
अन्यवाक्श्रोत्रयोः कीर्ति-	१६	अप्राच्यां चक्रबालान्तं	१३६	अभिनन्द्य जिनं सर्वे	१६४
अन्यायेनान्यविरास्य	११०	अप्रापं सुखमच्छिन्नं	४७	अभिभूताखिल्वाराति-	२२९
अन्ये तावदिहासतां भगवतां	२११	अप्रापप्राप्तितन्विष्या-	४६७	अभिधाता पुरारक्षा	३१४
अन्येयुरशनेः पातात्	३४३	अप्रास्यन्ती प्रयत्नेन	३६७	अभिभूयान्पतेजांसि	२१
अन्येयुर्देवतान्यापि	३६७	अप्रास्य मधुरालापै-	५२०	अभियुक्ततरैरन्यै	४७७
अन्येयुर्नगरोद्याने	४६६	अपि त्वं वयसाल्पोयान्	५००	अभिलाषातपातसा-	१४
अन्येयुर्नन्दरोपस्य	३६७	अपिधाय सरः सद्यः	१८१	अभिवन्द्य जिनाधीश-	१९१
अन्येयुर्नन्दनाख्याद्रौ	१७७	अपुत्रस्य गतिर्नास्ति	२२३	अभिवन्द्य ततो धर्म	३९३
अन्येयुर्नागरैः कैश्चिद्	५४५	अपृच्छत्सेचराधीशो	५०२	अभिवन्द्य शमं याता	१७२
अन्येयुः पुण्डरीकिण्या-	३४१	अपृच्छत् फलमेतेषां	३३३	अभिवन्द्य ततः श्रुत्वा	२४८
अन्येयुर्वसुमाकाश-	२७३	अप्रतीघातगामिन्या	१६४	अभिवन्द्य समाकर्ण्य	४३२
अन्येयुर्वारिदान्तेऽन्तः	३८३	अप्रतीपप्रतापोऽयं	१७८	अभिवन्द्यात्तसामन्तैः	३८१
अन्येयुः शरदभ्रस्य	४४६	अप्रतीपा प्रभा याति	६४	अभिषिष्य त्रिलण्डाधिराज्ये	३२४
अन्येयुः सज्जयन्ताख्यं	१०६	अप्रत्याख्यानमिश्राख्य-	१५६	अभिषिष्य यथाकाम-	३७८
अन्येयुः सिद्धकूटस्थ-	४०२	अप्रत्याख्यानमोहाना-	१५८	अभिषिष्य विभूष्येनं	२१४
अन्येयुः सुप्रतिष्ठाख्यो	३४६	अप्रमद्यगुणस्थाने	४६४	अभिषिष्य त्रिभूष्योच्चै-	१२९
अन्येयुः सुप्रकारोऽस्य	२२६	अप्रमादोरुचारित्राः	१९९	अभिषेचनशास्त्रायां	५५०
अन्येयुस्तत्पुरे गौतमा-	२५०	अप्राचीचात्परोक्षोऽयं	१६१	अभिष्टुत्य पुनर्नात्वा	३४

अभीष्टफलमाप्नोति	५५४	अयोध्यापुरवास्तव्यो	१८६	अवधार्य ववस्तस्य	१४२
अभुञ्जानः पुरादाशु-	५३०	अयोध्यामधुनाभ्यास्य	३०६	अवधार्य स्वपुत्रेण	३६९
अभूच्चित्रयो नाम	३९३	अयोध्येशोऽपि लेखार्यं	२५७	अवन्तिविषयं गत्वा	३८९
अभूच्छ्रीविजयोऽप्यत्र	१६५	अयोध्याङ्गं नृपस्तस्मिन्	५०	अवबोध्य तमात्मानं	४९८
अभूत्कल्याणयोगोऽय-	३८४	अर्जनानुभवावयं	९७	अवबोधितवैधव्य-	२९३
अभूत्पूर्वं तं दृष्ट्वा	१४५	अरजाविरजाध्वैव	१८९	अवमत्य गुरुन्काभित्	३५४
अभूतां तद्विलोक्याह	२५३	अरण्यमप्रयाणार्थं	५१९	अवमन्ये पुनः किन्तु	४३६
अभूतां भूतदैवादि-	१८८	अरविन्दमहाराज	४३०	अवर्षा नभोभागा-	४१०
अभूतामेतयोः पुत्री	४२९	अरिञ्जयाख्यस्त्रिपुरे	१४२	अवर्तिताक्षसूत्रस्य	४३२
अभूत् सिंहरथो नाम	२१३	अरिञ्जयाह्वयः शत्रु-	५१४	अवर्द्धन्त कुमारेण	४९९
अभूदखण्डितं सख्यं	२२२	अरिष्टसेनाद्यनल-	१३१	अवर्द्धन्त गुणास्तस्मिन्	६६
अभूद् गुणमयः किं वे-	२२०	अरिष्टाख्यसुरोऽन्येद्यु-	३६७	अवद्विपातां तावेवं	१६७
अभूदनिन्दिताऽऽर्थोऽयं	१६२	अरीरमन्मनः पत्यु-	४७	अवर्द्धित वपुस्तस्य	१७७
अभूवन्नक्षत्रमातत्र	५०५	अरेर्गदस्य चात्मज्ञः	१४६	अवलोक्य स्मराक्रान्त-	४१२
अभूवास्मद्गुरुस्तस्मा-	५५०	अरेयतीर्थसन्तान-	२२८, २३५	अवश्यं भङ्गुरा भोगा	२२
अभ्ययोध्यां पुरीं सीता	२८०	अरो जिनोऽर्जान श्रीमान्-	२१९	अवश्यं युवयोर्मुक्ति-	१७६
अभ्यर्च्य भक्त्या बन्दित्वा	२९७	अर्ककीर्तिमुतः कुर्वन्न-	१६४	अवताराद्दिमानस्य	४३४
अभ्यर्च्यार्थैर्मुदा व्यग्र-	५०९	अर्ककीर्तिस्तयोः सन्तुः	४५२	अवस्थितिं स सम्प्राप्य	४३४
अभ्यर्णे यौवनं यावद्-	४८७	अर्ककीर्तेः कुमारस्य	१४८	अवातरन्सुराः सर्वे-	४६१
अभ्यस्ते श्रीप्रमेशस्य	५०९	अर्थिनः किं पुनर्वाच्याः	४६२	अवादीधरदेकादशा-	२४४
अभ्रितां वाभ्रपदवीं	४९	अर्थिनो ब्रह्मसन्तुप्या	८०	अवाप्य सह सूनुभ्याम-	१८७
अभ्युद्यतास्तयोः पूर्वं	१६७	अर्थे चतुष्टयी वृत्ति-	२५	अवाप्यसि पदं मुक्ते-	४७९
अभ्येत्य पुण्यकर्माणः	४९४	अर्थे सत्ये वचः सत्यं	१९	अवार्य निजशर्येण	३४५
अभ्येत्यानेकधा युद्ध्वा	१७१	अर्द्धदग्धशवं मत्वा	१२४	अविचार्यं तदाविष्टः	४३५
अभ्रेऽमितगुणेनामा	४५४	अर्द्धराज्यञ्च पूर्वोक्तं	५०८	अविज्ञातफलाभक्षणं	४०५
अमराणां कुमरो वा	३५३	अर्हदासादिभिः सार्धं	४०८	अविन्द्रिरिव शास्त्रार्थं	२५२
अमात्योत्तमविद्वास्त्वं	२७१	अर्हन्द्रिर्भाषितं सुक्त-	४४	अविद्ययैवमाक्रान्तो	५९
अमी च विषयाः कञ्छु-	१८९	अलं तदिति तं भक्त्या	४६१	अविभक्तश्रियौ प्रीति	२३१
अमुष्मान्मरणाद्भाग्य	३५२	अलङ्कारः कुलस्याभू-	४६०	अविभक्तापि दोषाय	१३३
अमुस्मिन् भारते वर्षे	१०२	अलङ्कुर्वन्निजञ्जाया-	२०८	अविभक्तां महीमेता-	९३
अमू क्रूरौ प्रकृत्यैव	४३८	अलङ्कुरे लजं वेदि	५१५	अविवेकस्तपोरासीद-	९३
अमृतं निःप्रवीचार-	२१८	अलङ्कृत्यं केनचिच्चात्र	३०२	अविशच्चापि निःशङ्कं	३७०
अमृतैस्तनुमेतस्य	५७	अलङ्कृत्यत्वात्परैः पुण्यं	३७८	अवीवृषद्गृहीत्वैन-	३६२
अमेयवीर्यं हंसांश-	२५५	अलङ्कारज्यं प्राप्ता-	३५	अवृणोत गुणालिस्तं	३३२
अम्बिकायां सुतोऽस्यैव	१३३	अलमामूलतो दग्धुं	३१२	अव्रतस्य मनःकाय-	१५८
अम्भो वाग्भोजपत्रेषु	४१३	अलिपुंस्कोकिलालापै-	२९८	अशक्तयोरिवान्योन्यं	४८
अयं चाद्य महाकाले-	२५६	अल्लरगोमण्डलस्यार्जु-	४२१	अशक्यमिति गोपाल-	३६९
अयं पापी महाकायो	१०६	अवगम्य फलं तेषां	१२२	अशि क्षयञ्च तद्रक्षा-	३८५
अयं विनिर्जिताशेषं	२०५	अवगाह्य पयोराशि	५४५	अशीतिचापदेहेस्ता-	८५
अयाचितमनादान-	१४८	अवतीर्णमिव स्वर्गा-	४१२	अशीलभूषणा यत्र	१४०
अयोगपदमासाद्य	६४	अवतीर्थं समुत्पन्न-	३३४	अशोचत्पुत्रमालोक्य	५१९

अभाण्यदिभ्यास्मै	५१०
अश्वग्रीवाः खरग्रीवाः	१४६
अश्वग्रीवसुतो रत्न-	१८४
अश्वग्रीवश्च सम्भ्रान्तः	१४६
अश्वग्रीवस्य कनक-	१४२
अश्वग्रीवेण देवेन	१४६
अश्वग्रीवे त एतेऽपि	१४२
अश्वग्रीवोऽपिमो नील-	१४२
अश्वकृतिवरं देवं	३७६
अश्वै रयैर्गजेन्द्रैश्च	४५३
अष्टमोऽभूत् त्रिपृष्ठाख्यो	५६१
अष्टपष्टिसहस्रोक्त-	१००
अष्टाङ्गानि निमित्तानि	१५०
अष्टादशसमाः लक्षाः	८९
अष्टाधिकसहस्रेण	३७८
अष्टापदमयैः कुम्भैः	१५३
अष्टावह्वलयस्तस्य	२०६
अष्टाविंशतिपूर्वाङ्ग-	६८
अष्टाविंशतिरभ्यासन्	२३६
अष्टोत्तरसहस्रोक्त-	३२३
अष्टोपवासमादाय	३७६
अष्टौ विजयराभाषाः	३२७
अष्टौ शिष्टतमानि	१८
असंख्यदेवदेवैर्द्वय	१७,१२३
असंख्यातो महत्सङ्घः	२४७
असंयमादिकं सर्व-	५५
असंयमे त्रयं द्वे स्तः	५५
असंहतमनासेभ्य-	३७९
असह्यवेदनात्स्य	४१४
असारप्राण्यहीतार्थ	१३८
असि दानविभाराजो	१९४
असिः शङ्को धनुश्चक्रं	१४८
असुरत्वं समासाद्य	१७७
असौ कदाचिदाषाढ-	५०
असौ मनोहरोद्याने	५३
असौ मासोपवासान्ते	५३८
अस्तमभ्युद्यताको वा	४३८
अस्ति किं नास्ति वा जीव-	४६७
अस्ति चेद् द्रव्यमेकं ते	१७८
अस्ति तत्रैव देशोऽभ्यो-	६१
अस्ति मण्डोद्गरीनाम	२६३

अस्ति जीवः स चोपात्त-	४६७
अस्ति द्विजतनूजाया	४७३
अस्तु कर्णाभिधानोऽय-	३४६
अस्तु कायः शुचिः स्थास्तुः	८६
अस्तु चेन्मत्स्यबन्वादि-	२७२
अस्तु वा नाहतशक्ति-	२७३
अस्तु साङ्ख्यादिवादानां-	४७८
अस्मत्कुमारयोस्तत्र	२७६
अस्यत्र पुष्करद्वीपः	४४
अस्यत्र विषयोऽङ्गाख्यः	५२६
अस्यन्योऽपि तदुच्छ्रित्या-	२८६
अस्यैव देव तव चौदयि-	५७१
अस्यैव सुश्रुताख्यातं	१४२
अस्थानस्थं समीक्ष्यैव	१६८
अस्थिराद्यशुभान्येव	५५८
अस्मिन् खगपुराधीश-	१३२
अस्मिन् जन्मन्यसुं मन्ये	१०८
अस्मिञ्ज्वालाकरालाग्नौ	३७६
अस्मिन् त्रिलोकप्रभासि	११७
अस्मिन्नेवाभवतीर्थे	१३२
अस्मिन्निवेदे पूर्वस्मिन्	५३७
अस्मिन्नेवोज्जयिन्याख्य-	४०४,४८८
अस्मिन्नेरावते ख्याते	१८२
अस्मिन्नेरावते रत्नपुरे	१८६
अस्मिन्नुत्तरश्रेण्याम-	१४२
अस्थामावोषसन्नत्वा-	६४
अस्थावयवभावात्ते	२०६
अस्थैव तीर्थसन्ताने	४२८
अस्योपतौ समुत्पत्ति-	३४
अहं किल सुखी सौख्य-	७३
अहं गुरुस्तपस्वीति	४३६
अहञ्च तन्निमित्तोऽह	४४७
अहं प्रभुर्ममायं किं	४३६
अहं मम शुभं नित्यं	६६
अहं सःश्वराधीशा-	५२५
अहमभ्यदिति द्वाभ्यां	६६
अहार्यं तद्द्वयं ज्ञात्वा	१५४
अहिंसाव्रतद्वार्यं	५५६
अहिंसाव्रतद्वार्यं धर्म	२६३
अहिंसाव्रतद्वार्यो धर्मो	२०१
अहिर्षा स्वाकृताकासः	१३७

अहो पापस्य कोऽप्येष	२६६
अहो प्रवृद्धमशानं	४५५
अहोभिः कैश्चिदासाद्य	३६२
अहोभिर्बहुभिर्शाता	५३५
[ आ ]	
आकण्ठपूर्णहारोऽपि	३५०
आकर्णाङ्गुलिनिष्ठु क-	३१०
आकर्ण्य तत्पुराणञ्च	४१२
आकर्ण्य नारदाद्भूत	१०४
आकारेणैव कन्यार्था-	२२४
आक्रोशाद्भिः सकारण्यो	५१६
आख्याय धर्मयाथात्म्यं	५३६
आगतः कंसमञ्जुषा-	३६३
आगतामन्तरे हृष्टा	१७६
आगतामेव मत्पुत्री	३०९
आगत्य तृपतेरग्रे	३६३
आगत्याभ्यर्च्य वन्दित्वा	५३६
आगन्ताभ्यं पुनर्नेतु-	४६०
आगाम्युत्सर्पिणीकाल-	४७३
आग्रहं निग्रहं कृत्वा	३१४
आचारः कीदृशस्तेषा-	५५६
आच्छिद्यग्रहं ग्रहीष्यामि	४००
आशा यद्यस्ति देवस्य	२८१
आश्वर्यपञ्चकं प्राप्य	४०४
आतृतीयभवात्तस्य	८४
आत्तसामाधिकः शुद्धया	४३७
आत्मना मन्त्रिभिर्बन्धु-	२५३
आत्मनो घातके त्रायके	५५६
आत्मप्रदेशसञ्चारो	१५६
आत्मस्तवोऽन्यनिन्दा च	५२१
आत्मस्तुषामलङ्कृतं	५५१
आत्मार्थमात्मनात्माय-	६७
आमेन्द्रियायुरिष्टार्थ-	१६
आदेदे संयमं पश्चा-	३५१
आदाज्जैनेश्वरं रूपं	१४८
आदात्तुमिच्छतो गन्तुं	३०८
आदात्संयममासाद्य	१६
आदाय कृत्रिमं रागं	३६०
आदाय तां यथाथोभ्यं	१७०
आदाय धीमास्तां विद्यां	४१२
आदाय विद्वान् लक्ष्य	५१०

आदाय संयमं प्राप्य	१७६
आदाय साधुमूर्धन्यं	१०६
आदावनिन्दिताभोग-	२११
आदावेवाच्छिन्नतन्त्री	३५६
आदिकल्याणसत्पूजां	७३
आदितीर्थकृतो ज्येष्ठ-	४४६
आदिभट्टारकोत्पन्न-	४५३
आदिमध्यान्तगम्भी-	४३८
आदिम नरके तस्मा-	५६५
आदिस्वपादशैलेन्द्रे-	३१४
आदित्याभस्ततो मेरुः	११९
आदित्याभस्तदा वैधो	१०७
आदित्याभः स एवाहं	१७७
आदित्योद्गमवेलायाम्	५१४
आद्यचक्रियंदपोऽपि	७
आद्यसाज्जनी लोभ-	११०
आद्यश्रेणी यमारुह	१९१
आधानप्रीतिमुप्राप्ति-	१७७
आधाराधेयभात्रोऽय-	६३
आधावन्तं धिलोकियाधो	३७१
आधिक्यं चतुर्भाः प्राहुः	२०५
आधिक्याद्भावलश्येव	५७
आधिपत्यं तदा गप्यं	१०४
आधिपत्यं त्रिखण्डस्य	१७६
आधिपत्यं द्वयोः श्रेण्यो-	१४८
आनन्दनाटकं चास्य	५७
आनन्दस्तस्य भार्यायां	४०४
आनन्नामरनूनभक्षरशिरः	३२९
आनाय्य तन निर्माय	२६४
आनुपङ्गिकमेत्तते	४६४
आनेतुं तान्यशक्त्यानि	२२९
आपञ्चमक्षितिन्यात-	४३३
आपञ्चमाधनेरात्म-	२४५
आपतद्दृष्टपक्षानि-	३२०
आपतन्ती धिलोकयोल्का-	६८
आपत्य खादशानिवद्-	३७३
आपाण्डुगण्डमाभासि	१४१
आपूर्ण्यौवनारम्भा	५१२
आपतुर्नभसस्तदा	३७३
आसागमोदिनानात्वा-	१५८
आसैः कतिपयैरेव	२१४

आसैर्दुःखेन तद्दुःखाद्	३०३
आप्त्यस्याशुत्वमित्याह	४९५
आभाषमाणमाक्षिप्य	२८४
आभ्यामाद्यन्तदानाभ्या-	७६
आमध्यं रसिकामूला-	२००
आमनन्ति पुराणज्ञाः	३१२
आमूलाकायंमाख्याय	४९२
आमूलाद् भस्मितं वीक्ष्य	४३३
आम्नाः क्रमाः फलैर्नम्राः	१९९
आयद्राजपुरं प्रीतिः	५१०
आयसान्यग्निनुत्तानि	४२५
आयान्तमवधीत्सोऽपि	४९०
आयान्तीं दूरतो दृष्ट्वा	१५५
आयुः परमसङ्ख्यातः	१४
आयुर्दशसहस्राणि	३३३
आयुरन्ते ततस्तस्मिन्ना-	४०
आयुरन्तेऽवधिस्थान-	१४८
आयुरन्ते समाधाना-	२६
आयुरन्यच्च विध्वंसि	५३९
आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं	१६
आयुर्पतिं चतुर्भागि	१६
आयुषोऽन्ते स संन्यस्य	१९
आयुषोऽन्ते समाधानं	२
आयुषो वयतिः काये	१
आरनालेन सस्मश्रं	४६६
आरन्य विरहाद्बृत्तं	३२३
आर्थिकाणाञ्च दीक्षायाः	३९१
आर्षमत्रश्रुतं चास्त-	७७
आर्षोपासकवेदोक्त-	२५८
आराधनां समाराध्य	२५०
आरुह्य जाम्बवंयुद्धं	४००
आरुह्य नावनम्भोधि-	४८९
आरुह्य शत्रुसैन्यस्य	५०५
आरुह्य शिविकां सूर्य-	६८
आरुह्युर्यचारित्र-	२०९
आरोपयत चापौघान्	३८०
आरोप्य शिविकामेवं	५४०
आरोह्य शिविकां तस्मा-	२९२
आलम्ब्य लक्ष्मणैर्लक्ष्यं	८
आलोच्य मन्त्रिभिः सार्द्ध-	१५६
आवर्जयन्त्याः केशानां	४८५

आवर्तनी संग्रहणी	१६४
आवसस्तत्र निरशङ्कं	४६५
आवां तपः करिष्याव	४२४
आवां त्वामागतौ	१४६
आवां संन्यस्य तत्रैव	१७६
आवाभ्यामावयोः कार्य-	२५३
आवामप्रनयावेदं	१७६
आवेशिनी दशमन्या	१६४
आशास्य स्त्रीत्ववद्रात्रा	३६६
आशास्यासौ सुखं सुता	३३९
आश्वर्यपञ्चकं चापि	८९
आश्वसौ मे प्रहेतव्यो	९४
आपष्टृष्टधीवीभागा-	४५९
आपादमासि ज्योत्स्नायाः	४२५
आपादस्य सिते पत्ने	४६०
आपादे स्वातियोगे तं	३३३
आष्टाहिकमहापूजां	३३९
आसंश्रकृतपत्रासि	२४९
आसक्तस्तेषु चेदस्ति	२२९
आसाद्यैकादशाङ्गोर-	२१८
आसीसिंहशयो	२१६
आसीदिहैव मलये	३२९
आस्तां तावदिदं भद्र	१०८
आस्तामन्यत्र तद्गीत्या	९४
आस्तामनादिनिगल-	५६८
आस्तवस्य च संरोधः	५७६
आह्वतुमसमर्थाः स्म	३६७
आहमिन्द्रं सुखं मुख्य-	२६
आह्वतुमुद्यताः सर्वे	३६०
आहारं धर्ममित्राख्यः	२१५
आहारादित्रयोसर्गः	१९७
आहितान्यमताः सन्तु	१२१
अहिता देहिना देहे	३६
आहितो बहुधा मोहा-	७९
आहूताऽसि महीशेन	२२८
आह्वयदा प्रसूनैर्धैः	४६३

[ ३ ]

इक्ष्वाकुः कारययो वंश-	५६-६७
इक्ष्वाकुवंशश्रिख्यातो	८०
इक्ष्वाकोः पद्मनाभस्य	२३८
इक्ष्वाकौ चोष्टितैस्तस्याः	५०६

इतः कनीयसे विद्यां	५४७
इतः क्षेत्रभूमर्तु-	४५२
इतः परिजनो रामं	२६४
इतः प्रकृतमन्यतु	३६०
इतरेऽपि तयोरेव	३६२
इतश्चमरचञ्चवाख्य-	१५३
इतः सत्यधराख्यस्य	४६६
इतः स विन्ध्यशक्त्याख्यो	६३
इतः सुतवियोगेन	४११
इतस्ततो भटा व्यस्ताः	३२१
इतस्तृतीये कन्यैषा	५१२
इतः स्वामिस्त्वमेहीति	५७
इति कतिपयवाग्मिर्वर्धमानं	५७२
इति कामाग्नितप्तेन	२८५
इति केनाप्युपायेन	४६६
इति क्षीरकदम्बात्म-	२६८
इति गर्जन्समाक्रान्त-	३१५
इति गोपान्समुत्साह्य	३७१
इति चक्री समालोच्य	२३६
इति चित्ते विनम्यैत-	३०३
इति चिन्तयतस्तस्य	८६
इति चेतसि सम्प्रयन्	२०८
इति चेतोहरैः सीतां	१८८
इति चेतसंमृतौ जन्तौ	३०१
इति जीवस्य याथात्म्यं	४६८
इति जैनीमिमां षाणी-	१६३
इति तं च ततो देशो	१५८
इति तद्गृह्णहारांशोक्त-	३०८
इति तद्गौतमाधीश-	४६४
इति तच्छ्रवणात्सद्यः	५३६
इति तत्कालजं सर्वं	१८७
इति तज्जिनशीतांशु-	१६४
इति तत्र तयोरासीद्	७
इति तत्रावतीर्थेण	१७२
इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्य	३०६
इति तत्त्वं जिनादिष्ट-	५५
इति तत्सम्भगाकर्ण्य	१८७
इति तद्द्वयतद्रूप-	१७०
इति तद्देवताप्रोक्त-	४७०
इति तद्देववाक्यौष-	११८
इति तद्गायितं श्रुत्वा	५००

इति तद्भुगाकर्ण्य	११७
इति तद्वचनं चित्ते	१४४
इति तद्वचनं श्रुत्वा	१४३, ३४४, ३६३, ४०७, ५४४
इति तद्वचनप्रान्ते	४७४, ५३७
इति तद्वचनाजात-	५५३
इति तद्वचनात्सर्वैः	५२१
इति तद्वचनात्सोऽपि	३७६
इति तद्वचनाद्वीत-	१६३
इति तद्वचनादेश	५५३
इति तद्वचनललब्ध-	२६५
इति तद्वद्वेतुसम्भूत-	६८
इति तन्मुनिराकर्ण्यं	५३६
इति तल्लोकमौढ्यञ्च	४७६
इति तस्मिन् महीं पाति	५३
इति तस्मै सुतां योग्यां	५०६
इति तस्याः परिप्रश्ने	४१७
इति तां जन्मनिर्वाण -	१५६
इति तां मामिवापुण्यः	३०१
इति तान् वारयन् क्रुद्धान्	३०८
इति तापसवेषण	५००
इति तीर्थेशिना प्रोक्तं	४१६
इति तुष्ट्वा निर्वायं हाक्-	३६०
इति तेन खगाः मुग्धाः	१०६
इति तेन स पृष्टः सन्	१८६
इति तेनोक्तमाकर्ण्य	२६८
इति त्वत्कान्तया राजन्	१५५
इति त्रिविधनिर्घेद -	३६
इति दासीमुनं गेहा-	१६०
इति दूतं तदायातं	१४५
इति देवः समभ्येत्य	११
इति देवोऽप्यसौ तस्य	१८०
इति देव्या कनीयस्याः	१८५
इति द्वादशनिर्दिष्ट-	२३
इति द्वादशभेदोक्त-	१३१
इति द्विजोदितं श्रुत्वा	५२२
इति द्वितीयकल्याण-	२०४
इति द्विलक्षपञ्चाशत्-	५८
इति धर्मं विनिश्चित्य	४५८
इति धर्मविशेषं तत्	३२६
इति नाम्ना सुपुत्राय	७६
इति निर्गत्य दृष्ट्वा मां	५५३

इति निर्व्याय निर्विद्य	३८६
इति निर्भर्त्सितो भूयः	६२
इति निर्विद्य यादृङ्ग	३७०
इति निर्विद्य संसारात्	१०२
इति निर्वेदसंयोगाद्भो-	३३४
इति निश्चित्य पापात्मा	२६८
इति नैमित्तिकं दृष्ट्वा	१४६
इति नैसर्गिकाशेष-	३६५
इति परममवाप्य-	२१०
इति पूर्वार्पिवाक्यस्य	२७१
इति पृष्टो जिनाधीशो	१७२
इति पृष्ट्वा प्रतोष्येनं	१६१
इति प्रकाशकोपोऽभू-	५२४
इति प्रतिनिवृत्त्याशु-	३७६
इति प्रत्याप्य तं पापः	२६६
इति प्रत्याहतुः कर्ण-	२४२
इति प्रभूतद्रव्येण	२७६
इति प्रलभ्मनं तस्य	२२६
इति प्रबुद्धपुण्यानु-	२३३
इति प्रातः समुत्थाय	५२३
इति प्रापयतं देवौ	५५०
इति प्राह्वयमुक्तेऽपि	७७
इति भक्तेन तेनोक्त-	७८
इति भक्त्या कृतालापा	२३६
इति भावयतां पुंसां	५७२
इति भीत्वा तदभ्यर्णं	५४८
इति भूयां नरेन्द्रेण	६
इति मत्वा जिनप्रोक्तं	५५४
इति मत्वानुमानेन	४८३
इति मत्वापि साशङ्कः	३६५
इति मत्वा विमृज्यैतान्	१७६
इति मत्वा सुते राज्य-	११७
इति मत्वा स्वनामाङ्कः-	२६८
इति मन्त्रिणस्य सर्व-	३०६
इति मानोदयात्पापी	४४७
इति युद्धान्तमासाद्य	१७१
इति युष्वा चिरं व्याधान्	५०१
इति रक्तं स्वयं भूयो	३०६
इति राजपुरं गत्वा	५२४
इति राजोपदेशेन	५५६
इति वक्री भवेत्सापि	५३१



इति यामनरूपेण	३५८	इति स्मरंश्च भय्यानां	१८६	इत्यप्राज्ञं तदावोच-	५०२
इति बिज्ञाततत्त्वं	२६५	इति स्तुत्वादिकल्पेशो	१५	इत्यप्राज्ञीत्ततोऽस्माभिः	२५३
इति विद्वत्सभामध्ये	५०५	इति हस्ततलास्फालनेन	२६७	इत्यप्राज्ञीदसौ वास्य	१६८
इति विन्यासिते सैन्ये	३८१	इति हितकृतवेदी	२११	इत्यप्राज्ञीत्स तां सापि	५४८
इति विश्वभुवं भूयः	२७१	इतीत्यादिकुहप्रान्त-	३६५	इत्यप्राज्ञीन्पुषोऽप्यस्य	२१५
इति वृद्धोक्तिमाकर्ण्य	५२२	इतीदं जनतासर्वं	१११	इत्यब्रवीत्तदाकर्ण्य	१४६
इति शाङ्गेन पृष्टोऽसौ	३६३	इतीदमुच्चितं कार्य-	३०४	इत्यब्रवीत्तदादाय	३०६
इति शब्दार्थगम्भीर-	६४	इतीमं शपथं गन्तुं	२२३	इत्यब्रवीददः श्रुत्वा	१६६
इति श्रीमद्गणाधीश-	५५५	इतो जलनिघेस्तीरे	३७६	इत्यब्रवीदसौ सोऽपि	४५८
इति श्रीविजयं दोर्भ्या-	१५५	इतोऽतिदुष्यमोस्वर्षिण्याः	५५६	इत्यब्रवीदियं हेतुः	३६०
इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं	५१३	इतो धान्यपुराभ्यर्षा-	५५०	इत्यभिष्टूयमानस्य	३७५
इति श्रुत्वा वचो राजा	१०७	इतो नालिनकेतुश्च	१८२	इत्यमात्यस्य दुर्बुत्तं	१११
इति श्रुत्वा समागत्य	३६६	इतो लङ्कामधिष्ठाय	२८४	इत्यमुञ्चत्वहायैस्तै	३०५
इति संसारसद्भावं	४६७	इतो विनीतानगरात्	२६५	इत्ययेनायतेनैव	५६
इति सङ्गातवीर्यादि-	३५८	इतोऽश्वम्रीचक्रेशो	१४५	इत्यवादीत्ततः पापी	२६५
इति स चिन्तयन् लब्ध-	८२	इतोऽस्मिन्दशमे भागी	४५६	इत्यवादीत्तदाकर्ण्य	१३३, २६२
इति सञ्चिन्त्य तौ	१७५	इत्थं गौतमवक्त्रवारिजलसद्-	५६५	इत्यवोचत्तदाकर्ण्य	१७६
इति सञ्चिन्त्य सञ्जात-	५२०	इत्थं स्वकृतमस्तोत्रः	५५०	इत्यवोचदसौ चैत-	३५८
इति सत्यात्रसम्पन्न-	११६	इत्थं तेनेङ्कितशेन	७७	इत्यवोचन्वचस्तेषा-	२०८
इति सत्यात्रनिष्पन्न-	११६	इत्थं षोडशभावनाहित-	६	इत्यवोचं गणेशोक्त-	४१६
इति सद्यस्ततो दूर्तो	१४७	इत्यव्रासनमास्थाय	५२१	इत्यष्टाविंशतिर्भूत्वा	५२३
इति सन्गुह्य तत्सर्व-	३६६	इत्यतः सोऽब्रवीद् ब्रूहि	२२३	इत्यसन्ममसोढयं	६४
इति सम्पूर्णा राज्याय	१४२	इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा	६२	इत्यसावपि योग्येन	३०६
इति सम्प्रश्नयामास	५४०	इत्यतोऽलकमुन्दर्या	५१३	इत्यसौ च गणाधीश-	५३०
इति सर्वे मनांहारि-	४८०	इत्यत्यतर्जयत्वोऽपि	३४६	इत्यसौ तैरधिज्ञितः	५२१
इति सर्वे समाकर्ण्य	५६६	इत्यत्र परशब्दार्थं	१०६	इत्यसौसिंहचन्द्रोक्तं	११४
इति सर्वमिदं श्रुत्वा	३५३	इत्यर्थाक्षपतां सोऽपि	४०७	इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ	३५
इति सर्वेऽपि संगम्य	२७१	इत्यनालोचितार्थस्य	४७७	इत्यस्य सोऽपि वाग्जाज-	५३५
इति सर्वे समासीना-	४८०	इत्यनालोच्यकार्याङ्गं	६५	इत्यस्या धेनुमादाय	२२५
इति सा तद्वचः श्रुत्वा	१६५	इत्यनुज्ञातसर्वाङ्ग-	४६८	इत्यस्याः प्राहियोत्पत्रं	५५१
इति सविद्ये भूपालं	१०६	इत्यनुश्रेणिकप्रश्ना	४७२	इत्यकार्षीत्ततद्वाक्यः	३०६
इति सीतावचःश्रुत्वा	२६२	इत्यनेन स मन्त्री च	२७६	इत्याकर्ण्य तदोक्तं	१७६
इति सोऽपि कथामित्थं	३८८	इत्यन्तस्तत्त्वतो ज्ञात्वा	५६	इत्याकर्ण्य परपीन्द्रस्त-	१०८
इति सोऽपि द्यालुत्वा-	४६५	इत्यन्याऽन्यकथाकाले	३६०	इत्याकर्ण्य वचस्तस्य	५२६
इति सोऽपि समासन्न-	३३४	इत्यन्योऽन्यान्वितापत्य-	१४६	इत्याकर्ण्य सुधर्मखिय-	५२७
इति स्याद्वादसन्देहं	२६६	इत्यन्वतोऽज्ञानासूनु-	३०७	इत्याकलय्य कालादि-	३३७
इति स्वकुलयोग्याय	२५४	इत्यन्वयुक्तं सुग्रीवः	२६७	इत्याकलय्य को दोषो	५२२
इति स्वगतवृत्तान्त-	२६०	इत्यन्वारब्धत् स तच्छ्रुत्वा	१५१	इत्याकलय्य याथात्म्यं	७४
इति स्वपुण्यमाहात्म्य-	६७	इत्यपश्यत्तदैवेन-	२२	इत्याकाशे विमानैस्ता-	२६६
इति स्वपुत्रपौत्रादि-	१८५	इत्यपार्थं विचिन्त्यैकं	६४	इत्सवीः सम्पदस्यक्त्वा	१३६
इति स्वानुजसम्प्रश्ना-	१६३	इत्यपृच्छदसौ चाह	४३२	इत्याख्यतत्समाकर्ण्य	५००

इत्याख्यत्तद्वचः साढु-	३११	इत्युक्तः संसृतेर्भूपो	६	इदमिति विधिपाकाद्	६६
इत्याख्यत्साप्यदः पापा-	२६१	इत्युक्तः स भवेद्देव	११०	इदमेव किमस्त्यन्य-	१६२
इत्याख्यत्सार्थकोपाख्यं	२८६	इत्युक्तरतेन नागेन्द्रः	१०७	इदं सरस्त्वया केन	५१७
इत्याख्यन्नकुलेनामा	४८६	इत्युक्तरतैः सकोपो वा	५२१	इदानीं पुण्डरीकिण्यां	१८७
इत्याख्याताः पुराणज्ञै-	२७७	इत्युक्तिभिरिमां मूकी-	२८७	इदानीमप्यसौ दुष्टो	१४६
इत्यात्तत्त्वधारं तं	१६	इत्युक्तिभिमर्नस्तस्य	२७०	इन्दुः कामयते कान्ति	२१
इत्यात्मस्वामिनीदाक्ष्य	५०५	इत्युक्तो नैगमाख्येन	३७६	इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तौ	२२४
इत्यात्मानं तिरोधाय	५३२	इत्युक्त्वा काललब्धयेव	२२५	इन्द्रकोशैर्बृहद्यन्त्रैः-	२०१
इत्यात्मानं विनिन्द्यै	४६०	इत्युक्त्वा क्षुत्पिपासादि-	१५१	इन्द्रजित्प्रसूत्रान्भूप-	२६८
इत्यादि चिन्तयन् राज्यं	१४	इत्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्तं	१३६	इन्द्रजित्सेन्द्रचर्माति-	३०८
इत्यादि चिन्तयन् सद्य-	१६१	इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेटो	१५३	इन्द्रनीलच्छत्रिं दहं	२६३
इत्यादि तत्त्वसर्वस्वं	२४४	इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थ-	२६६	इन्द्रवर्माभिधानेन	३१५, ३२२
इत्यादितद्वयो योग्य-	५७	इत्युक्त्वास्तद्विजोद्भूत-	४७५	इन्द्रियायंपु संसक्तो	३३४
इत्यादि तेन गम्भीर-	६५	इत्युक्त्वा स्वयमित्त्वानु-	४८२	इन्द्रोपेन्द्रादिसनान्तौ	१६१
इत्यादियुक्तिमद्वाभिः	४६८	इत्युक्ते देव किं सत्य-	११	इभ्यात्कृती सुतो भावी	५३१
इत्यादियुक्तिवादेन	२३६	इत्युक्त्वायै परित्य	१७२	इमां तद्वर्धुर्भाषां	३१०
इत्यादिशक्तिं वां देव-	६४	इत्युग्रवंशवाधीन्दो-	३८४	इमा रम्या महानय-	१८८
इत्यादिहेतुभिर्जाति-	४७६	इत्युग्रसेनवाचोद्यत्	३८५	इमे द्वे दाक्षितं केन	५२४
इत्यादेशं समाकर्ण्य	४१८	इत्युच्चैर्गणनायको	४०५	इमे राज्यस्थितं प्राज्ञैः	२८३
इत्याधिपत्यमासाद्य	२०७	इत्युदात्तवचोमाला	५२	इमं कन्येति मभृष्टा	४२०
इत्यारोपितरत्नोर-	३२५	इत्युदात्ता मनोम्भोषौ	४१	इयन्तोऽस्मिन्मन्त्रिष्यन्ति	२८
इत्यारोप्य सुते राज्यं	२३८	इत्युदीर्य कुमारं तं	१८८	इथोऽश्वशासना राज-	२६८
इत्यारोप्यासनं स्वर्ण-	५४८	इत्युदीर्यार्पयामास	३६६	इष्टं तस्मिन्मन्त्राभीष्टा	४७७
इत्यार्हतोक्तं तत्तथ्यं	४७८	इत्युद्धतोदितैः कोप-	२६६	इष्टाष्टादशधान्यानां	८८
इत्याधिष्णुतसञ्चिन्तः	३६	इत्युपायमसावाह	२७६	इह क्षत्रपुरे दास-	११७
इत्याशापाशामाच्छिद्य	२	इत्युजुसूत्रभावेन स	३३	इह जन्मृगति द्वीपे १, २१३, ४०३	
इत्याश्वासं मुनिस्तस्त	४६१	इत्येकान्ते वचस्तस्य	३२७	इह धर्मापदेशेन	५३७
इत्याह तं मुनिः सोऽपि	५३६	इत्येतदुक्तं शात्वापि	४३६	इह पूर्वविदेहोऽस्ति	४०२
इत्याह तद्वचः श्रुत्वा १६२,	२६६	इत्येतदुक्तमाकर्ण्य	२८५	इह प्रत्येकमेतेषां	११६
२६०, ३६३		इत्येतदभिधायानु-	४६६	इह प्रेम्णागताऽस्मीति	२८५
इत्याहतुः खगेशोऽस्तु	१४७	इत्येतदुपदेशेन	३०५	इह लोकादिपर्यन्त-	२३६
इत्याह तौ च किं	१४६	इत्येतानि समस्तानि	१६८	इह मन्त्रादिभिर्भूपैः	५४७
इत्याह वचनामीषु	५६३	इत्येवं प्रेरितस्तेन	१६८	इह सचिवतनूज-	३३०
इत्याह सादरं सापि	२८६	इत्यौदालीन्यमापन्ना	५४०	इहाप्यवश्यमेप्यन्ति	४२१
इत्याह सोऽपि तद्वाक्य-	११	इदं च स्वयमाहासौ	३०५	इहैव भारते क्षेत्रे	२५०
इत्याह सोऽपि सुष्टुक्तं	५२२	इदञ्चावश्यकर्तव्यं	४८३	इहैव श्रीधराख्यस्य	६३
इत्याहुः सोऽपि तच्छ्रुत्वा	४१४	इदं तावद्विचारार्हं	२७२		
इत्याहैतद्वचः श्रुत्वा	११८	इदं प्रकृतमन्त्रान्य-२६२, ५१३, ५१८		[ इ ]	
इत्युक्तं तदमात्यस्य	२३६	इदं प्रत्येयमत्योक्तं	१५१	ईदृश्येतत्प्रमाणानि	१०६
इत्युक्तवन्तौ तत्कोप-	१३३	इदमन्यत्काचित्काश्चि-	५४१	ईदृशं संसृतेर्भावं	११३
इत्युक्तवास्ततः सर्वे	५२१	इदमन्यादतः किञ्चि-	५२४	ईदृशी नश्वरी शाता	४१
				ईशानेन्द्रो विदित्येत-	१६४

ईशानोऽन्यां दशां यातो	५२
ईषन्मिमीक्षितालोल-	२८८
[ उ ]	
उग्रसेनस्तदालोक्य	३६५
उद्यताभिनयप्रायं	२०
उच्चैःस्थितगिदं पश्य	३२७
उच्छेद्य कोटिमारुदौ	६४
उज्जयिन्यामथान्यद्यु-	४६५
उत्कृष्टर्जावितं तत्र	४२४
उत्कृष्टायुःस्थितिस्तत्र	४१६
उत्कृष्टेन शतं सप्त -	५६२
उत्तराभिमुखः पौषे	४३७
उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्ता-	८
उत्पन्नं यौवनं तस्य	१४१
उत्पन्नं स्वामिनः किञ्चिद्	१५५
उत्पन्नमायुधागारे	२६४
उत्पाताश्च पुरेऽभूवन्	२६४
उदककुम्भु निर्दिष्ट-	४०३
उदककृष्यां खगापीशो	४५१
उद्गमेनैव निर्घृत-	४५१
उदतिष्ठत्तदधाम्ना-	३६१
उदन्यानिव रत्नस्य	५५७
उदयादिधिकल्पेन	२४४
उदयाद्रिमिवारुह्य	३१६
उदयाद्बोदयादस्य	२४०
उदयास्तमयौ नित्यं	२६६
उदरस्पर्शमार्गण	२३५
उद्गमेऽपि प्रतापोऽस्य	२२
उद्भृत्याशनिवेगस्य	३५६
उद्भृत्येलाख्ययायद्रे-	१०६
उद्भूतधिसमयाऽपुच्छत्	३८४
उन्नतमूर्जितं तज्जा	३२७
उन्मार्दाव मदीभान्धो	६७
उपकारं महान्तं मे	३४२
उपचारवदभ्येत्य-	३७७
उपयभ्यापरां श्रेष्ठी	४८८
उपयान्तीमिमां वीक्ष्य	२८६
उपयोगक्षमाशोप-	५४
उपर्यशनिवेगस्य-	५२५
उपलारफालानाक्षेप-	४३०
उपविश्य तदभ्याशो	३५६

उपविष्टानिजाचारं	३६७
उपविष्टो मुदा तेन	३०४
उपसर्गं विजित्यास्य	३४६
उपसर्गं व्यधात्तेषु	५२५
उपसर्गं व्यधान्मन्त्री	३५८
उपाध्यायस्त्वमध्यास्य	४८६
उपाध्यायोऽपि कालान्तरेणा	५०१
उपायमेकमालोक्य	८
उपायश्चिन्त्यतां कौऽपि	२६६
उपाया येन सञ्चिन्त्य	४७
उपायोऽयं व्यधाय्येवं	२७१
उपायैस्ताभिरद्भूत-	२६३
उपाजितपराधौ-	१०८
उपासकद्रिलक्ष्याच्यौ	७४
उपचितोऽयमर्धत्र	१०६
उभयनयमेदाम्ब्यां	२४
उभयायत्तसिद्धित्वाद्	१४०
उभयोः मेनयोस्तत्र	१४७
उभया सममाख्याय	४६६
उल्कापातनमालोक्य	३४७
उल्मुकालीरिवायोद्भु-	३१६
[ ऊ ]	
ऊर्ध्वमैवेयकरयाधो	१८५
ऊर्ध्ववक्त्रयमद्बहि-	३२०
ऊर्ध्वत्रय्यास्वभावत्वा-	३८८
[ ऋ ]	
ऋक्षे षष्ठोपधामेन	२०८
ऋक्षो वेदरहस्यानी-	२६६
ऋक्षधो धार्गिका वीतदापाः	४४
ऋक्षुकूलानदीतीरे	४६६
ऋक्षुश्च विपुलाख्यश्च	५५२
ऋक्षुत्वाज्जहरे प्राणान्	३१६
ऋक्षुणं सृष्टिदकं तावत्	३३१
ऋक्षुतं वाचि दयाचिते	५२
ऋक्षुद्वयः सप्तसर्वाङ्गा-	४६८
[ ए ]	
एककोऽपि हली सर्वान्	१७१
एकत्रिंशत्समुद्रायु-	३४
एकत्रिंशत्सहस्राब्दै-	३४
एकद्वयुषोपितप्रान्ते	५५६

एकधर्मात्मकं सर्वं	४७६
एकधियातिरुदानां	५५८
एकत्रिलोकाशिखरं	३२६
एकादशविधरत्न	५५२
एकादशसह श्रीमद् -	५७४
एकादशाङ्गधारा सन् १४.४०, १२८	
एकादशसहस्रावधी	३१
एकादश्यां मिते चित्रे	३१
एकीकृतयतिव्रात	७४
एकोऽपि सिंहमहशः	२३०
एतत्पुष्पैः प्रदालैश्च	८८७
एतत्पूत्कारता ज्येष्ठं	२५१
एतदथ कुलीनानां	१६१
एतदेव पिधातारं	२७०
एतदन्वार्थशास्त्रस्य	१०६
एताद्रितयमत्रैव	४४४
एतद्भावनाया वधा	१६८
एतद्वाच्यं परित्वज्य	२२६
एतन्निवाग्मिनीजित्या	५४६
एतन्मां भयुरं कत्याः	३०३
एतन्मोषेऽस्मिन्	१६२
एतन्मानन्दमत्याश्च	१७५
एतन्मैव गुरुरलक्ष्मी	५८
एतस्मिन् भारते वर्षं	१२४
एतस्मिन्मभवेदत-	४१३
एतानि सन्ति मे नैव	११०
एतान् सहजशत्रुत्वाद्	४२०
एतास्वपि महाभाग	४७३
एतु गृह्णातु को दोष	१२६
एतं क्रमणं पञ्चापि	५६४
एतं च नोचका यमता-	५२३
एते त्रयोऽपि विद्यानां	२६२
एतेन परिहारेण	१७६
एतेषां क्रमशः काले	५६०
एते सर्वेऽपि साकेत-	५५८
एतैः सुखमशौ स्वाप्तैः	५२६
एतौ तत्र त्रयस्त्रिंशत्	१६८
एत्य राजगृहं सार्द्धं	५२४
एभिर्घर्मोपदेशार्थ	२२१
एवं कर्मवशाजन्तुः	११८
एवं काले प्रयात्येर्वा	३६०

एवं कुबेरदत्तस्य	५५३	एवं भ्रावकसद्वर्म	४६२	कः सामक्तिप्रयोक्तव्य-	३०४
एवं केवलबोधेन	३२८	एवं सङ्गमयन् कालं	२६	कश्चिन्मत्तगजं वीत-	३७९
एवं गच्छति कालेऽस्मिन्	५५६	एवं संवत्सरात्नीत्वा	३२६	कटकं साङ्गदं चूचामणिं	३२४
एवं चतुर्गतिषु ते त्विर-	१२०	एवं संसारसारोरु-	२२	कटी तटी कटीसूत्र-	२०६
एवं जलं त्विरं रन्वा	२८८	एवं सम्प्राप्तकल्याणाः	४२१	कण्टकानिव राज्यस्य	५५७
एवं तत्र स्थिते तस्मिन्	३५७	एवं सर्वाङ्गशोभास्य	२६	कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्या-	२८
एवं तपः करोतीति	५३०	एवं सुखसुखेनैव	१५३	कथं क्व कस्माज्जातो	१३०
एवं तपस्यतस्तस्य	३८७	एवं सुखेन कालेऽस्य	२३६	कथं तदिति चेत्किञ्च-	५२३
एवं तपस्यतो याताः	६६	एवं सुखेन भूभर्तुः	१८१	कथं तदिति चेदस्मिन्	२५६
एवं तयोर्महाभाग	३२५	एवं सुखेन सर्वेषां	३५३	कथं सागरदत्तारुख्यं	५३८
एवं तयोः समुद्रभूत-	५०५	एवं स्वकृतपुण्यस्य	४२२	कथन्न परलोकाश्च-	२३६
एवं तुमुलयुद्धेन	३८२	एवं स्वपुण्यपाकात्	२८१	कथमुन्मत्तकभवेव	३५७
एवं त्रिरूपसन्मार्गात्	१५६	एवमन्येऽपि तैरन्ये	३२२	कथाः प्ररूपयन्प्रीत्या	४७१
एवं दिनेषु गच्छन्सु	५०३	एवमुक्तवते तस्मै	३५६	कथाकथकयोस्ताव-	४४३
एवं तुष्परिणामेन	३६२	एवमेनं स्वयंयुद्धं	१३०	कथ्यतामिति दिव्याव-	५१३
एवं देवगतौ दिव्य-	३४३	एव एव पुरुमुक्ति	४३७	कथ्यतामिति पापेन	५५६
एवं देव्यां तुजा साकं	५२०	एव एव मम प्रेयो	६	कदम्बवालुकाताप-	४५५
एवं द्वादशभिर्देवो	४	एव एव विधिज्ञेयः	५६२	कदम्बवृक्षमूलस्थ-	६०
एवं द्वादशसङ्ख्यान-	३३५	एव देवोपनीतं तद्राज्यं	३४४	कदलीफलमादर्शय	२२४
एवं नित्यं निशाप्रान्ते	१०६	एव पूर्वभवे शत्रु-	१८१	कदाचिच्च महींपालः	१६१
एवं पञ्चलपक्षाधि-	८२	एव राज्यभ्रियं मुञ्चन्	२६१	कदाचित्खचराधीश-	१६५
एवं परम्परायात-	१५६	एवोऽपि पर्वतो विद्याधर	११६	कदाचिच्चैटकारुख्यस्य	४६६
एवं पित्रा सशाकेन	२६६	[ ए ]		कदाचिच्चैटको गत्वा	४८३
एवं पृथग्विनिर्दिश्य	१३६	एकत्वसङ्करेऽप्यतत्र	१७८	कदाचिच्छारदाम्भोद-	२२०
एवं प्रतिसहस्राब्दं	५५८	एरावतगजरकन्ध-	८१	कदाचिञ्जलयात्राया-	५१२
एवं प्रयाति कालेऽस्य	४१८	एरावतीनदातीरे	१८, १६४	कदाचिञ्जातवैराग्यः	१६
एवं प्रार्थयन्नानो मां	३०६	एरावतीसिद्धिद्विषणान्ते	४८४	कदाचिञ्जिनपित्रामा	३४०
एवं बन्धविधानोक्त-	४६४	एन्द्रस्यामिमुखो भूत्वा	३२४	कदाचित्काननं तस्मिन्	४४४
एवं बहिः कृतः सर्व-	२६७	[ औ ]		कदाचित्कार्तिके मासे	७७, २४६
एवं भवान्तरावद्ध-	१७५	श्रौत्यक्तियादिधीयुक्ताः	४६६	कदाचित्काललब्ध्यास्य	४१
एवं भवान्तरावर्जितो-	३३	श्रौत्युक्त्यात्तद्वनं गत्वा	१८१	कदाचित्काललाभेन	१६०
एवं भूखचराधीशं	३११	श्रौदासीन्यं सुखं तच्च	७४	कदाचित्केनचिद्धतु-	४७१
एवं महामुनिस्तत्र	३५६	[ क ]		कदाचित्तपुरप्रत्या-	५१२
एवं रामश्चिरं रन्वा	२८७	कंसं यथार्हमालोक्य	३६६	कदाचित्तन गत्वामा	२४८
एवं राज्यसुखं श्रीमान्	३६	कंसनाम्ना समाहूतः	३६३	कदाचित्तं मुता दप्ताः	६
एवं विनोद्वैरव्यैश्च	५१८	कंसस्तद्वचनं श्रुत्वा	३६६	कदाचित्प्रावृट्टारुमे	२३३, ३४८
एवं विहरमार्णं तं	३५४	कंसेन निजभृत्येन	३६३	कदाचित्सिंहसेनो	११२
एवं वैषाण्यकं सौख्यं	४५५	कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेण	३६३	कदाचिदिति सञ्चिन्त्य	५१५
एवं व्रतेन सन्न्यस्य	४५७	कः कं किं वक्ति केनेति	४१३	कदाचिद्धरणीधर्ता	२१८
एवं शीपनवस्थान-	५६२			कदाचिद्धर्मवेनाख्य	४०१
एवं शृगालवल्गुबधो	५३४			कदाचिद्व्रतिष्योऽभूत्	६

कदाचिद्विश्रमवेगो	११४	करेण शूरसेनोऽहं	३६०	कस्मिन् केन कथं कस्मात्	७६
कदाचिद्राजसिंहाख्यः	१३२	करेशुभार्गमालोक्य	२६४	कस्य कस्मिन् समीप्सेति	३५
कदाचिद्विजया देवी	४६४	करैः प्रविकसत्पुष्करै-	३१८	कस्य का तुङ्गता नाम	२३३
कदाचिन्निशि केनापि	५०८	करैर्निजैः कुमारस्य	५३६	कस्यचिद्भूतभावेन	४५०
कदाचिन्मलिता भौम-	५४६	करोति कुत्सितं कर्म	१०३	कस्यचित्स्या महादेवी	५३५
कदाचिन्मस्तिता मन्त्र-	४६०	करो प्रसार्य सस्नेहं	४६८	कस्यान्यस्य स्थिरीभावो	८२
कदाचिन्मन्दरे विद्यां	१७७	कर्णाभ्यर्णं प्रवर्तित्वा -	३१७	कांश्यपात्रत्रयापूर्णा-	११०
कदाचिन्मुनिसङ्घस्य	१६७	कर्णां तस्य न वष्येते	२०५	काकर्मासिनिवृत्त्यासौ	४७०
कदाचिल्लक्ष्मणो नाग-	३२६	कर्णां लब्ध्वासम्पूर्णा	२७	कान्नवत्पर्युस भ्रान्तः	३४६
कदाचित्स नृपो दानं	१६४	कर्तव्यमिति सम्पृष्टो	५५०	काञ्चनाख्यगुहायां	११४
कदाचित्सानुकम्पेन	३६३	कर्माणोऽस्य समर्थोऽह-	५४६	काठिन्यं कुचयोरेव	४४४
कनकश्रीः सहाभ्येत्य	१७२	कर्मानिर्मूलनं कर्तुं	५४७	कात्र प्रीतिहं जन्म-	८७
कनकोज्ज्वलनामाम्भू-	५६५	कर्मभेदात् फलं तेषां	३२६	कार्तिके कालपक्षस्य	३६
कनकनकाधियहो	३३६	कर्म स्थातिक न वा पुण्यं	७४	कार्तिके मासि रेवत्यां	१०२
कनीयसी गुणैर्ज्यैष्ठ्या	४०२	कर्माण्यनादिब्रह्मानि	१५७	का त्वं वद कुतस्त्या वे	८६
कनीयान् जिनदत्तोऽथ	४२३	कर्माण्यष्ट सकारणानि	२१०	कान्तः कुचलयाह्लादी	१०८
कन्दमूलफलान्वेषी	१८३	कर्मारिभिरिदं सर्वं	८	कान्ता कल्पलतारम्यो	१६
कन्यकानां कुमारं तं	५३३	कर्मदमुचितं ख्यात-	३११	कान्तापलपलतारोह	१७०
कन्यकार्भिः शतैः साह्रै-	१७६	कर्मैर्न निघृणस्यासी-	८७६	कान्ताभिः करणैः सर्वै-	६८
कन्यां गवेर्पत्येति	५११	कर्धटाः खत्रयद्वयेक-	३२५	कान्ति लज्जां धृति कीर्तिं	५६
कन्याकुञ्जमहीशस्य	२२२	कल्पामरैः समं सर्वै-	१७	कान्तेः का वर्णना तस्य	२०७
कन्याशतं ममास्त्यत्र	२२४	कलङ्कक्षीणते राशि	४४४	कान्त्या कुचलयाह्लादा	१६६
कन्याहस्तिमुदर्यं वाजिकपिला	७८	कलङ्कविकलः कान्तः	१२५	कामकल्पद्मोद्भूतं	५५
कान्ताभिः कमनीयाभिः	२६	कलापी गतवानेकः	२६५	कामजे व्यसने द्यूते	१०२
कपिलादिस्वशिष्याणां	४४७	कलापे पलितं प्राच्यं	२५६	कामधेन्वभिषां विद्या-	२०५
कपीनां यथमालोक्य	५२६	कलाभिरिव बालेन्दुं	५४	कामयन्ते स्त्रियःपुंस	३५
कपोलफलकौ शूद्रौ	२०५	कलाधिदग्धविद्येश-	५०३	कामरगकथामेव	११६
कमठः कुकुटसर्पः	४४२	कल्पवल्लीव दावेन	२६६	कामशोकभयोन्माद-	६६
कमठः प्राक्तनः पापी	४३३	कल्पवृक्षश्च दीनेभ्यो	४३३	कामादिशत्रुविनासो	२८२
कम्पमानैरधोवर्द्धैः	४६७	कल्पार्ताता निरागास्ते	८०	कामिनां खण्डयन्मानं	२८१
करं परार्थ्यरत्नानि	१३३	कल्पान्निर्वाणकल्याण-	२३७	कामिनी नीलनारेज-	२०७
करजालमतिक्रान्त-	२५३	कल्याणविधिपर्याप्तौ	२६१	काम्पित्यायां घराधीशो	४२०
करणत्रयसंयोगात्	६०	कल्याणमिषमं कृत्वा	४६०	कामो नाम खलः कोऽपि	७२
करणत्रयसंशान्त	१५६	कविपरमेश्वरनिगदित-	५७५	कायः सर्वां शुचिप्रायो	१६७
करणप्रावरणालम्ब-	५६२	कश्चिच्चञ्छीविजयाधीशं	१४६	कायवाकचेतसां वृत्ति	१५८
करणानामभीष्टा ये	४४६	कश्चिद्विपश्यरो वीक्ष्य	५४१	कापस्थितिसमादानं	३०४
करवाणि कथङ्कारं	१२१	कश्चिद्विप्रसुतो वेदा-	४७४	कायादिकं सदसि ते विफलं	५६७
कराग्रकर्परेशोपलक्ष्य-	३४६	कश्चित्तोकान्तरं यातः	५५२	कारणं किं तयोः कौ च	१८६
करालकरवालाग्र-	३८१	कपाभमत्तमातङ्गः-	४६५	कारणं तीर्थश्रद्धाम्नो	१८७
करिष्यन्नतितप्तानां	५३१	कषायविषयारम्भ-	५४२	कारणं प्रकृतं भावि	२५६
करी द्रमकराकीर्णं	३११	कस्मादनेन बन्धुत्व-	५३७		

कारणद्वयसन्नित्या-	४३२	किं तेन यदि शीलस्य	२६३	कुतो धर्मस्तवेत्येत-	४६०
कारणदिच्छतां कार्य	५५४	किं ध्यानात्मणिनः फणीन्द्र-	४४१	कुतो ममेति सकोधं	३६१
कारणान्यपि पञ्चैव	५५	किं न कुर्वन्त्यमी मूढाः	३८६	कुन्यघनतमोऽन्धं	१२४
कास्तेन कर्मणां कृत्वा	४८०	किं न वेत्सि ममैवं त्वं	४७५	कुन्त्या सहाकृतोत्पन्न-	३४६
कार्यं कारणतो गुणं च गुणिनो	२४८	किं प्रत्येयमिदं नेति	४१३	कुन्धुताथेशसन्ताने	२१६
कार्यं साधु करिष्यामि-	३८४	किं वस्त्वहान्क्षणिकमन्वय-	५७०	कुन्दहासा गुणाम्स्तस्य	१८
कार्यकारणभावेन	१७६	किं सुखं यदि न स्वस्मा-	५६	कुन्देन्दुनीलसङ्काशा-	६३
कार्यमित्येतदेकान्त-	२६६	किं सेव्यं क्रमयुग्ममन्वविजया-	३७	कुपिता विषलम्भिभ्रं	४२२
कार्याकार्यधिवेकस्ते	२६६	किञ्चित्कारणमुद्दिश्य	१८५	कुपितेयं विना हेतोः	२८७
कालं गमयतः स्मोद्य-	५४४	किञ्चित्कालं समासाद्य	१६५	कुपित्वा चेटकायै तं	५१७
कालदष्टस्य वा मन्त्रो	७८	किञ्चित्स्त्रिभ्रामिवातक्ष्य	२८८	कुवेरदत्तमाहूय	५४४
कालमेषमहागन्ध-	३१६	किञ्चित्स्त्रिपुण्यं समावर्ज्य	५३७	कुवेरदत्तमाहूय	५४४
काललब्धिं समाश्रित्य	३६१	किञ्चित्प्रदक्षिणाकृत्य	४६१	कुमारः श्रूयतां कश्चि-	५३३
काललब्ध्या समासाद्य	३६७	किञ्चिद्धितं प्रियं चोक्तं	१०	कुमार इति सञ्चिन्त्य	३५४
काललीलाविलव्यालं	५२	किन्तु भ्रवो वियोगोऽत्र	८६	कुमारकाले निःक्रान्ते	८५५
कालसंश्रयविधाधरेशः	४१०	किन्तु नाकाशगामित्य-	३०५	कुमारकाले पूर्वाणां	२६
कालादिलब्धिमासाद्य	३८८	किन्तु विद्याबलादेप्र	११८	कुमारत्वे दशाष्टौ च	७
कालायुक्तचतुर्भेद-	१६०	किमङ्गास्तीति सोऽप्याह	५१०	कुमारदत्तवैश्वस्य	५०५
कालान्ते कालदूतो वा	३१५	किमनेनेति यक्षैश्च	५१५	कुमारमन्दराकार-	५३८
कालान्ते कृतसंन्यासविधिः	७	किम यप्रतिपाद्यास्यै	१६८	कुमार शृणु वक्ष्यामि	५३८
कालान्ते केशवोऽयासीद्	११७	किमर्थमिदमेकत्र	३८५	कुमारस्य न भीरुस्ति	५०७
काले गच्छति जीवान्ते	४६३	किमन्त्यवोगतिं यास्य-	४७३	कुमाराण भस्मराशिं वा	१०
काले गच्छति तस्यैव	३३१	किमसौ लभ्यते द्रष्टुं	१७०	कुमागयापयामास	५१५
काले गच्छति सत्येव	१११	किमित्येष्यामि यातेति	२२८	कुमारेण समं गत्वा	३६०
काले मुखेन यात्येव	३७५	किमेतदिति सावोच-	४८२	कुमारोऽपि प्रतिशाय	५०६
कालो माण्डलिकत्वेन	२१५	किमेतदिति सावोच-	५४८	कुमारोऽपि रविर्वाग्भो	५०१
काशिदेशे नृपा	१२६	किमेतेन भवच्छौर्यं	३०८	कुमारोऽपि विदित्वैत-	५०४
काशिदेशे समायात-	८८१	किमेतेषां फलं ब्रूहि	३६६	कुमार्गवारीणि यस्मा-	४८६
काश्चित्कारिकाः काश्चित्	२८१	किरातसैन्यरूपाणि	४६५	कुम्भपूर्णापयोभिस्ता-	३६८
काश्चित्प्रसिन्तसर्वाङ्गाः	३५४	किरातेनेति समृष्टः	४६६	कुम्भार्थाद्या गरुणेशोऽस्य	२२०
काशमपायाश्च पुत्रौ तौ	४०६	कीर्तिगुणमयी वाचि	८७	कुम्भाहाराय यातं तं	१५२
कापायवस्त्रं कक्षाव-	२६७	कीर्तिवल्लीजगत्प्रान्तं	२०७	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
काष्ठाङ्गारिकपापोऽपि	४६६	कीर्तिगतस्य लता सत्यं	१२६	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
काष्ठाङ्गारिकपुत्रं	५०४	कीर्तौ श्रुतिः स्तुतौ तस्य	२१	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
काष्ठाङ्गारिकमुखास्तं	५२५	कुञ्जरो वार्षितालानो	३३४	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
काष्ठाङ्गारिकमेवैव-	५०७	कुञ्जालविषये सुकेतु-	१०५	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
कासौ किं तां न वेत्सि त्वं	३८३	कुण्डलाग्न्यपुरे राजा	१५०	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
किं कृतं भवता पूर्वं	४६०	कुतापसन्नतं दीर्घ-	१६४	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
किं कृत्यमत्र संग्रामे	३०८	कुतो जानुक्रियेत्येतद्	२८	कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
किं गोत्रः किं गुरुर्ब्रूहि	१५०			कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२
किं तेन जन्मना तेन	६			कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते	१५२

कुर्वते मां मयि प्रीतो ५१४  
 कुर्वध्वमिति सम्प्रेष्य २६६  
 कुरु यागं श्रियो बृद्धयै २५५  
 कुरु संग्रहमन्यच्च २६६  
 कुर्मस्तथेति सन्तोष्य ५१६  
 कुर्युः कुरुहलोत्पत्तिं ४८  
 कुर्वतस्तापस्योर्ध्वैः ४७६  
 कुर्वद्वनैर्धनार्लेपं २६१  
 कुर्वन् धोरं तपो विश्व- १५०  
 कुर्वन् धर्मोपदेशेन ३७  
 कुर्वन्नेवं महासख- ११३  
 कुर्वन् पर्वशशाङ्काभो ३३७  
 कुर्वन्ति स्मापरागाणि ३१६  
 कुर्याणः पञ्चभिर्मसै- ४३६  
 कुर्याणः समयं कति प्रकृतिषु ५  
 कुलं कुरुलयस्यास्य ५७  
 कुलं चेद्वह्निं तिम्रं ३००  
 कुलनाशोऽगतिर्भुक्ते २६०  
 कुलपुत्रगहाम्भोधेन ३०६  
 कुलरूपप्रयःशील- २०७  
 कुलरूपादयः केन ११६  
 कुलारोग्यनोरूपा- १४३  
 कुले मही भुजां ज्येष्ठौ २६५  
 कुलोचिता सुधोपा त्वं ५०४  
 कुशलाश्चन्दनांशीर- ५११  
 कूर्गं सोपानमार्गंण ५५३  
 कूर्मपृष्ठौ क्रमौ तस्य २०६  
 कूलनाम महीपालो ४६४  
 कृकवाकू च चेदेव- १६०  
 कृतः किलैवमादेशो ५१०  
 कृतकः सहजश्चेति ५२३  
 कृतः पुत्रवधः स्वामी- ५५२  
 कृतदोषोऽस्त्ययं नाग- १०७  
 कृतदापो हतः सीता ३२३  
 कृतनिर्वाणकल्याणाः ४३६  
 कृतपञ्चमकल्याणाः ४२  
 कृतमङ्गलनेपथ्यां ३२४  
 कृतमातृपरिप्रश्नः ४८६  
 कृतवर्मा महादधी ६८  
 कृतवीरोऽन्नवीत्सापि २२५  
 कृतशोभो जगन्नाथ- ४२०

कृतसिद्धनमस्कारः २३६, ४३७, ५२५  
 कृताञ्जलिभिरासेभ्यो ३-४  
 कृताञ्जलिर्हं याचे ३०२  
 कृतानुरूपविनया २१४  
 कृतान्तवदनं सद्यः ५०७  
 कृतान्तारोहणासन- २६८  
 कृतापराधे भ्राता ते १०८  
 कृताभिवदनो योग्यं ५१६  
 कृतार्थः सन् जगत्वातुं १६३  
 कृतार्थोऽहं कुमारेण ५४६  
 कृताष्टाहिकसपूजौ १६५  
 कृतोपचारा संधिष्य ४३४  
 कृतोपायो ग्रहोत्पैनां ४६६  
 कृत्तिकामिर्निशाताभि- ४६७  
 कृत्तिकायां तृतीयायां २६६  
 कृत्याकृत्यविवेकिति- २५२  
 कृत्याकृत्यविवेकोऽस्य २५१  
 कृत्यानामुपजापेन २८३  
 कृत्रिमाः केन जायन्ते १६६  
 कृत्रिगैश्च्छुलान्स्मान् १५३  
 कृत्वा कृष्णं च गोपाल- ३६८  
 कृत्वा जीवन्धरस्तस्य ५०७  
 कृत्वा तज्जनितद्वोभ- ४४६  
 कृत्या तपः समुत्कृष्टं २४८  
 कृत्वा दिग्भ्रजयं जित्वा ६५  
 कृत्वाऽन्वेषिष्ठं तदाभ्येत्य १०१  
 कृत्वा नान्दीश्वरीं पूजां १६२  
 कृत्वा निदानं संन्यस्य १०३  
 कृत्वा पञ्चमकल्याण- ७५, २४७  
 कृत्वा पापमदः कृथा २७७  
 कृत्वा भर्गारथे राज्यं ११  
 कृत्वा भवान्ते मन्दोदरी २७६  
 कृत्वाऽभिपचनं दद्यात् ३४६  
 कृत्वा राज्यममू सहैव ८६  
 कृत्वा राज्येऽनुजन्मानं ११२  
 कृत्वा शरीरसंकार- ३०७  
 कृत्वा रानानाग्निहोत्रादि- २६४  
 कृत्वेतान् बुद्धिभेकल्यात् ५२  
 कृत्स्नकर्मज्ञयो मोक्षो २४४  
 कृशमप्यकृशं मध्यं २८  
 कृष्णपद्मे त्रयोदश्यां ३४, २५४

कृष्णाचार्य समासाद्य १३२  
 कृष्णायां वारुणे योगे ८८  
 कृष्णेन सह रङ्ग वा ३७१  
 केचिद्क्लृष्टमातव्यं ३८७  
 केचिदेवं परे नाना ३८७  
 केचिद्दामकरोपाच- ३८२  
 केतवश्चानुकूलानि ३१८  
 केतुमालाचलदोर्भि- १४५  
 केनचित् कोलितो वेतो १७१  
 केनचित्पथिकेनामा ४७४  
 केनाचिन्मुनिनाधीत- ५१६  
 केनापि तपसा कार्यं २३६  
 केनापि हेतुनावाप्य ४५६  
 केनाप्यसह्यमापाते ५०१  
 केयमित्यनुयातोऽयौ ५४६  
 केवलशानिमानोक्त- १३१  
 केवलावगमं प्रापत्- १००  
 केवलावगमात्प्राप्य ३३८  
 केवलावगमात्कोकिला- ४७३  
 केवलावगमास्तत्र ४  
 केवलद्युतिरेवम् ६१  
 केशरामलवादीनां ५०४  
 केशवत्या महाभ्राता २४२  
 केशवाश्च नर्धनात्र ५६१  
 केशवस्यादिमस्येयं ४५२  
 केशयो जीवितान्ते १२७  
 केशयोऽपि ताम्रवेष्टु- १०४  
 केशान्विमार्चितास्तस्य ४३७  
 कौलासपत्न्ये दोक्षां १२  
 कोकिलां कावलां कौका ५६३  
 कोकिलानां कालापापो १८०  
 कोकिलाप्रथमालापै- २८३  
 कोकिलालकालापा- ७१  
 कोकिलाश्च पुग मूकी ५०६  
 काटिकाग्रशिलां तस्मि- ३२३  
 काटीद्वारदशरत्नानां ३८६  
 कोटानवसहस्रेषु ४०  
 कोऽप्यधरतवेदं न- १२  
 कोऽपीति देवैः सम्पृष्टः १३६  
 कोऽभिप्रायो महीशस्य ३६२  
 काकयुगलं विहङ्गाश्च ३८१  
 कोशले विषये रम्ये १३४

कोशातकीफलं पक्वं	३६३	क तद्वैरं वृथा शान्ति-	४३६	खचतुष्केन्द्रियत्कैः	५६
कोऽसावन्याय इत्येतत्	१८१	क मे श्रीविजयः स्वामी	१५४	खचतुष्केन्द्रियत्त्वमिमित-	२२
कौटिल्यकोटयः क्रौर्य-	३६१	क सकलपृथुशत्रु-	४२७	खचतुष्केन्द्रियत्त्वर्थेन्दे	१२२
कौतस्कुतः किमर्थं वा	२८४	क स पितृवृषमृत्युः	५२८	खचराधिपदुतं खादवतीर्णं	१४४
कौमारब्रह्मचारित्वं	२२३	क स विदिततत्वः	४८१	खचारणत्वं तुर्यावगमोत्कर्षं	११२
कौमारमिति रूपेण	२६	काचित्कव्यभिचाराच्चे-	४७८	खण्डद्वयं हयग्रीव-	४५४
कौलीन्यादनुरक्तत्वाद्-	१४१	काय वर्तत इत्येतत्	४०६	खत्रयत्वेकसङ्ख्यानैः	२३
कौशले विषयेऽयोध्या-	४३२	क्षणिकत्वे पदार्यानां	४७६	खत्रयामिद्विवर्षान्ते	१४
कौशले विषये वृद्धग्रामे	११२	क्षणिकाः सर्वपर्यायाः	३३	खत्रयायनपक्षोक्त-	१२२
कौशान्भ्यां प्रथितस्तृतीयजनने	३३६	क्षणिकैकान्तदुर्वाद	१७६	खत्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता	२३७
कौशान्भ्याख्ये सुविख्यातो	३४३	क्षपकश्रेणिसारुहा	१३७	खत्रयेकैकनिर्दिष्ट	४२
कौशान्मीनगरं तत्र	३४२	क्षमा मूर्तिमती वेयं	४८६	खत्रिपञ्चर्तुवह्युक्त-	१००
क्रमात्केवलमप्याप्य	१८०	क्षमावान् क्षमाविभागो वा	१३७	खद्वयर्द्विन्वाङ्मुक्त	६०
क्रमात्पावापुरं प्राप्य	५६३	क्षयी कलङ्गी पङ्कोत्थं	२०५	खद्वयर्त्सिद्धिवादीशः	६२
क्रमात्स्वनगरं प्राप	५४६	क्षयोपशमसम्प्राप्त-	३३४	खद्वयर्त्सिष्टसम्प्रोक्त-	१००
क्रमादेकादशाङ्गाधि-	६७	क्षन्ति वारिदाः काले	२००	खद्वयद्वयष्टवाप्युक्त-	८२
क्रमादेवं तपः कुर्वन्नुर्वी	२०६	क्षान्त्यादिः कर्मविध्वंसी	५५२	खद्वयाष्टपडेकाङ्क-	३७
क्रमाद्वीबलकायायु	५५८	क्षान्त्यादिदशधर्मा-	३३६	खद्वयेन्द्रियपक्षोक्ता-	२१६
क्रमाद्राजगृहं प्राप्य	४६६	क्षिप्त्वा लौकान्तिका-	६६	खद्वयेन्द्रियपञ्चाधिगम्य	१००
क्रमाल्लङ्कामाध्यायैना-	२६२	क्षीराभंगकं भूपान्ते	६८	खद्वयेन्द्रियपञ्चाभिधेय-	१००
क्रमेण कृतपुण्योऽसौ	४११	क्षीरंदा च सशीतोदा	१८६	खद्वयेन्द्रियपञ्चेन्द्रि-	६६
क्रमेण विहरदेशान्	११८	क्षुत्तृभयादिकर्ग-	२११	खद्वयेन्द्रियरूपप्राप्ति-	१२३
क्रमेण श्रव्यशब्दार्थ-	२७८	क्षुल्लकोऽयं गृह्णाणेति	५४५	खद्वयेन्द्रियसत्ताङ्क-	२४६
क्रमेणैवं तपः कुर्वन्	३६१	क्षेत्राणि सर्वधान्यानि	४५	खद्वयेकैन्द्रियज्ञान-	२१६
क्रमेणोग्रं तपः कुर्वन्	१३२	क्षेम श्रीविजयाधीशो	१५५	खद्विकेन्द्रियसप्तोक्त-	७४
क्रियमाणां दुर्गत्माऽसौ	५०७	क्षेमङ्कशख्यभट्टार	४३१	खपञ्चकनदशुक्तैः	३०
क्रीडवं जाम्बवत्याप-	४११	क्षेमञ्चदानुमिच्छास्ति	४५६	खपञ्चकेन्द्रियैकाब्द-	६८
क्रीडार्थं स्वबलेनागमा	४३५	क्षेमाख्यपत्तनपति-	४३	खपञ्चकेन्द्रियैकोक्त-	१२२
क्रीडितुं याचते मूढो	१३३	क्षेमा क्षेमपुरी चान्या	१८६	खपञ्चमुनिवह्निद्वि-	२१४
क्रुद्धः कटीद्वितय-	३७३	क्षेमाह्वयमवाप्यास्य	५०६	खरदूषण धृमाग्य-	३१५
क्रुद्धैः कुमारैरन्यैश्च	३०८	[ ख ]		खलखगम कृतोग्रोपद्रवं	१२०
क्रुधात्माभ्रातृपुत्रोर-	२७८	खगः सम्मिन्ननामाऽयं	१५५	खसप्तकद्विवाप्युक्ता	३२५
क्रुधा तौ युद्धसन्नदा	४५३	खगार्धीन्द्रदत्तारव्यः	१८१	खाक्षखद्वयवह्निद्वि-	२३
क्रोधजेषु त्रिषूक्तेषु	१०२	खगेशश्चक्रमादाय	१७१	खादान्तीति कृतोद्योग-	५३४
क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि	१०५	खगेशो दक्षिणश्रेण्यां	२७८, ४०२	खादेत्य नारदाऽन्येषुः	२८४
क्रोधान्मातापि सक्रोधा	४६०	खगेशोऽशनिवेगाख्यो	१५४	खादेकमानुषं चेति	१५२
क्रोधान्मित्रं भवेच्छत्रुः	४६०	खगेशोऽपि तत्क्षन्तु-	१४७	खाष्टकहरतसद्देहा	१२६
कोलव्याघ्रमुखारश्चैव	५६४	खचतुष्कत्रिवह्युक्ता	३१	खटकरथां समादाय	४१४
क्रौर्यधुयंण शौर्येण	६१	खचतुष्कद्विह्युक्तधर्मा	१७	खचराचलदाराशि-	६८३
क गम्यते त्याग राजरा-	३६६	खचतुष्कद्विवागशि	३७	खेचराधीश्वरो योद्धुं	३१६
कच्चिदात्यन्तिकी पुंसि	४७७	खचतुष्केण कोटीनां	३५	खेचरेशोऽपि तच्छ्रुत्वा	१४८
				ख्यातो नन्दपुराधीशो	३६२



[ ग ]

गङ्गासिन्धुश्च रोहिच	१८८	गत्वा तौ रामसन्देशात्	३०६	गान्धारविषये पुष्कला-	४०३
गच्छत्येवं चिरं काले	२५	गत्वा तौ स्वागति पूर्वं	१४६	गान्धारी गौरी पद्मावती	४०२
गच्छत्येवं क्षणे वास्य	३७८	गत्वात्मपरिवारेण	२४४	गान्धारी च सुता प्रादु-	३४५
गच्छत्येवं तयोः काले	२६७	गत्वात्र सुखमास्वाम्बे-	४१८	गान्धारीत्याख्यया ख्याता	४०३
गच्छन्तो दण्डकारण्ये	५१८	गत्वा द्विपोऽमिराजस्य	४११	गिर्यन्तधिजयं गन्ध-	५२६
गच्छन्त्यहच्छया व्योम्नि	४१०	गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे	४२४	गुणगुण्यभिसम्बन्धे	४८०
गजः कण्ठीरवेणैव	४५४	गत्वा निष्ठितकार्यत्वा-	२६०	गुणापालाभिधानस्य	५०३
गजरजं च वक्त्रं स्वं	२४५	गत्वा पद्मरथाम्यर्ग-	३५८	गुणप्रसन्नसन्देहा	१११
गजवृद्धितवाहोर-	३१६	गत्वा प्रविश्य तामुच्चैः	२८३	गुणवत्यार्थिकाभ्याशे	४२३
गजात्पुत्रं गभीरं गोः	५०	गत्वाऽभ्यर्च्य चिरं स्तुत्वा	७६	गुणा सत्यादयस्तस्मिन्	६८
गजादिषोडशस्वप्न-	३४	गत्वा राजकुलं वैनतेय-	४६५	गुणा गुणार्थिभिः प्रार्थ्या	१
गजारिगंजयूथ वा	३२१	गत्वा विहाय सन्मार्गं	५४१	गुणाढ्यं भावुको भात्रि	५६
गजेन्द्रवृषसिंहेन्दु-	५०	गत्वा श्वेतवनोद्यान-	२३६	गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे	२५६
गजो नाम कियान्	६४	गत्वा पट्टोपवासेन	२१५	गुणास्तस्य धनं लक्ष्मी	८७
गणिनीं संयमं श्रित्वा	१८३	गत्वेतत्पुरमन्वष्य	५४६	गुणिनां निरवघेन	१६७
गणिन्याश्चन्दनार्यायाः	४८२	गन्धपुष्पादिभिर्विघ्न-	३८१	गुणी गुणमयस्तस्य	८६
गणी निजद्विजाभीषु प्रसवैः	५५५	गन्धमादनकुश्रोत्थ-	३६५	गुणैः कुलवलादिभिर्भुवि	१७०
गणेशा दश तस्यासन्	४३६	गन्धर्वदत्तया साक्षा-	५२४	गुणैः प्रागेव सम्पूर्णाः	२१
गणैर्द्वादशभिः पूज्यः	५२६	गन्धर्वदत्ता कल्याण-	५२२	गुणैः सार्द्धमवर्द्धन्त-	८१
गतधनरिपुरोधः	१७४	गन्धर्वदत्ता सम्प्रान्य	५१८	गुरुः प्रथमचक्रेशं	१४४
गतयोर्जनकागारं	२७६	गन्धर्वदत्ता सम्प्राप्य	५१०	गुरुः श्रुतधरां नाम	२६२
गतिं प्रपातसंशुद्धा	३१६	गन्धर्वनगरेणैव	२२	गुरुणापितमादाय	५४५
गतिजीवगुणरथान-	६१	गन्धवारणमारुह्य	३५३	गुरुपत्न्यासतिदिष्टं	२७४
गतियुद्धं त्वया पूर्वं-	३४१	गन्धादिभिर्यति दिव्यै-	१८५	गुरुप्रीतमनस्यस्मिन्न-	३६६
गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि	५६२	गन्धादिभिर्भिभूयैत-	४६४	गुरुभिर्नार्यते दीक्षा-	५४५
गतेऽनन्तरवन्ताने	५७	गन्धादिभिः समभ्यर्च्य	५१२	गुरुमाश्रित्य सम्भात्रि-	४०४
गतेष्विच्छाकुमुल्येषु	२५५	गन्धारविषयख्यात-	२०२	गुल्फयोरिव मन्त्रस्य	२०६
गते स्वायुश्चतुर्भागे	७३	गन्धा सुगन्धा गन्धावान्	१८६	गुल्मवल्लीदिग्भाः सर्वे	१६६
गतोऽमितप्रभाहृद्भ्यः	१६२	गन्धोदकैः स्वयं देव्या	४८	गृहकार्ये भवद्राक्ष्य-	२६०
गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता	४६८	गम्भीरा वन्निगावर्ति	४८	गृहाण येन प्राप्तोपि	२२५
गत्यादिशुभनामानि	७३	गर्मसूतिसमुत्पन्न-	२०६	गृहाण वेपमन्यं स्वं	४४७
गत्वा कदाचिदेतेन	२६७	गर्भागमर्द्धं द्वादश्यां	२६०	गृहाण संयमं त्यक्तं	५३०
गत्वा गमनमालोक्य	५१०	गर्भाधानादिनिर्वाण-	४२	गृहाणेति वली पाणि-	३५८
गत्वाऽचलेशे संस्थाप्य	२३५	गर्मान्वयक्रियाः पूर्वं	१६६	गृहाणोदं व्रतं श्रेष्ठं	५५३
गत्वा चैत्रवनोद्यानं	३३५	गर्भावतारनक्षत्रे	१६५	गृहिणी तुम्बभूवास्या	११६
गत्वा जिनगृहे प्राप-	१६८	गर्हणं स्वदुराचारे	४२	गृहीतधर्मतस्वोऽसौ	१४४
गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित्	२६४	गर्हणं स्वदुराचारे	४०६	गृहीतनवपुण्यात्मा	५३
गत्वा तपोगुरुं कृत्वा	३३	गलन्ति गर्भास्तन्नाम्ना	६४	गृहीतमेव नेत्येतन्न-	२८६
गत्वा तत्र मनोहारि	५१३	गाढं पाशेन बध्वाधो	४१५	गृहीतानशानान्येषु-	४२३
		गान्धर्वादि विवादेषु	४१६	गृहीत्वा तामसौ क्रुद्ध-	४३३
		गान्धारविषये ख्यातो	४८२	गृहीत्वा यात्विति त्यक्तं	३६०

गृहीत्वायास मायावी	२६५	चक्रं सुदर्शनख्यानं	३२५	चतुर्भिशदतीरोध-	१७,६१
गृहीत्वा रोहिणी राहौ	२६५	चक्ररत्नं समुत्पन्नं	२६४	चत्वारिंशच्चतुर्लक्षाः	१६
गृहीत्वा शुद्धसम्पत्त्याः	४३८	चक्रवर्तिवसम्प्राप्त्यान्	२२६	चत्वारोऽत्र महीपाला	२७३
गृहीत्वा सत्त्वसारोऽस्यात्	४३८	चक्रवर्तिश्रियं प्राप्य	१८१	चन्दना च यशस्वत्या	४८४
गृहीत्वा सुष्ठु सन्तुष्ट-	५०६	चक्रस्य परिपाकं च	३१२	चन्दनाद्यार्थिकाः शून्य-	४६८
गोत्रेण काश्यपस्तस्य	२४५	चक्राद्ययवैर्भद्रै-	३२१	चन्दनायास्तदालोक्य	४८५
गोधावनमहानाग-	३६६	चक्रायुधस्ततोऽस्यैव	११५	चन्दनैश्चाच्युतात्कल्प्यात्	४६३
गोपुरेण प्रविश्यान्धि	३२३	चक्रायुधादयश्चास्य	२०६	चन्दनांशीरसमिश्रसलिलैः	११
गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य	५०४	चक्रायुधादयोऽप्येव-	२१०	चन्द्रकश्यपेने दत्तं	५२४
गोमिन्था सह सीतापि	३०५	चक्रायुधादितद्राशां	२०८	चन्द्रचूनुनिदृष्ट्वा	२५४
गोमेयमेघचक्राश्च	५१३	चक्रिन्नक्रं पुरस्कृत्य	३८२	चन्द्रप्रभाख्यांशविका	४६३
गोवर्द्धनश्चतुर्थोऽन्यो	५६४	चक्रेण तं कुमारोऽपि	२२८	चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो	१८६
गौतमश्च मया दृष्टो	५२६	चक्रेण तस्य युधितं	१७३	चन्द्रस्यैवोदयेऽस्यापि	५८
गौरीति रूपलावण्य	४४	चक्रेण विक्रमेणैव	३२२	चन्द्राभो मे सखा तस्य	५१७
गौरी पडङ्गाका श्रीमत्	१६५	चक्रमाक्रान्तदिकचक्र-	४१	चन्द्रोदयमलित्रातो	५०५
ग्रन्थद्वयपरित्यागे	२४४	चक्षुषिचक्राकुञ्चस्य	३३१	चन्द्रोदयेन्ययाम्भोधेः	४८
ग्रन्थान् कन्थामिव त्यक्त्वा	२१३	चचालाकालकालान्त-	३७६	चपेटमुष्टिदण्डादि	३६२
ग्रहीष्यामीति तेनापि	४१०	चतुरङ्गवलेनामा	२५६, ३०८	चम्पापुरसमीपस्थ	३५६
ग्रामाः कुक्कुटसम्पत्त्याः	४५	चतुरङ्गवलेनावौ	१४७	चम्पापुरेश्चरो यान्ती	३४३
ग्रामान्तरं समं गत्वा	३६७	चतुरङ्गवलोपतः	१४१	चरंस्तपः समुत्कृष्टं	२७८
ग्रामान्तगन्तमायातं	४००	चतुर्गतिमयः सोऽपि	८३	चरन्निव निशातामि	५४३
ग्रामे दुर्मर्षणो नाम	५१६	चतुर्गुणत्वमायातौ	१५६	चरमाङ्गस्य केनेदं	४१०
ग्रामे पलाशकूटाख्ये	३५२	चतुर्भानो द्वितीयेऽह्नि	७४	चरित्वा निस्तीचारं	५३
ग्रीवामङ्केन वा पश्यन्	२६२	चतुर्थकालपर्यन्ते	५५५	चरोपनीततद्द्वार्ता-	४५२
ग्रीष्मार्कमण्डलाभत्वा-	२३१	चतुर्थशाननेत्रस्य	५६४	चर्यो शैलपुरे पुष्प-	६६
[ घ ]		चतुर्थज्ञानसम्पन्न-	४, ३६, १३०	चलस्वभावे कुटिले	१३६
घटदासीं त्रिधास्यामि	५०१	चतुर्थोऽन्यत्रोभोऽस्य	४३४	चारणूरमेणमिव	४२७
घटामयति को ज्ञानां	२६४	चतुर्दशमहारत्नभू-णं	१३५	चापाशीतिसमुत्सेधो	८१
घटामयति युक्त्यैव	१३८	चतुर्दशसहस्रोक्त	६२	चापबाणधरो गत्वा	५१०
घनच्छायाभमाः सर्व-	२०८	चतुर्मासिसमायोग	५३४	चामरैरामरैरेण	६१
घनधृतपरिधानो	३७२	चतुर्मुखाह्वयः कल्कराजो	५५५	चारणत्वं समासाद्य	८
घनान्तरितकायाम-	३८७	चतुर्विधामराः सेन्द्राः	२१०	चारणत्वमपि प्राप्य	३३८
घनान् मताङ्कितः कृष्णान्	३१७	चतुर्विधानरैः सार्धं	४६७	चारित्रस्य न गन्धोऽपि	८६
घातिकर्माणि निर्मूल्य	१४६, ४६७	चतुर्विधोपधाशुद्धं	१०६	चारुदत्तादिभिः श्रोतु-	३५७
घातिकर्माणि विध्वंस्य	५२७	चतुर्विधोपसर्गोभ-	४६५	चालयति रिशरामृज्वी	४१३
घातीति नाम तद्घाता-	६१	चतुर्विधक्तपःस्योप-	२०४	चित्रं नीचकुलोत्पन्ना-	३६७
[ च ]		चतुःशतानि पञ्चाशदु-	७	चित्रकूटामिधोद्याने	२८६
चकार घोषणां पुर्या-	३६१	चतुःशतानि सम्प्रोक्त्वा	४६८	चित्रचूलः पुनश्चास्य	१८४
चकार शान्तिपूजां च	३२७	चतुःशतेषु पञ्चोत्तरेऽवहः	४०	चित्रपद्मादिकूटाख्यौ	१८६
चक्रं शक्तिर्गदा शङ्खो	३८३	चतुष्टये व्यतिक्रान्ते	२६६	चित्रायां केवलज्ञान-	३८७

		[ ज ]		
चिन्तामणिधामाः केचित्	५५७		जयन्तेऽनुगरे जातो	३३८
चिन्वन् शुभाश्रयैः पुष्पं	३६	जगत्त्रयजयोस्तिक-	जयन्तो धरणावाशा	११६
चिरं त्रिखण्डनाम्नाज्यं	६५	जगाद भवता प्रोक्तं	जयश्वागा महादीनी	१२२
चिरं परिचितस्थानं	३८२	जगाम तन्मुखं धाम्नः	जयसेना जनैः सख्यो	६
चिरं राज्यमुखं भुक्त्वा	२४१	जघन्यशुक्लद्वयभाग्	जयसेनो महीपालः	५४३
चिरं वने विद्वत्यैवं	५०६	जघानेव वनं वज्रं	जयाख्यमुख्यपञ्चाश-	१२३
चिरं सोढवा तपःकेशेशं	४४६	जटाकलापसम्भूत-	जयोऽस्मात्प्रित भ्रा मन्दं	३१८
चिरं सोऽपि तपः कृत्वा	३५३	जनकोक्त निविधात्र	जस्तोऽपि नमस्तत्र	५५४
चिरमेकादशश्रृङ्गधरः	३३७	जननमृत्तितरङ्गाद्	जगङ्गनासनासङ्ग-	२६८
चिरमेवं तपः कुर्वन्	४३०	जनयतु बलदेवो देवदेवो दुरन्ताद्	जराग्रन्थं हर्षार्जितभिव गजं	४२७
चिरमेवं तपः कृत्वा	२४५	जनस्य चेदयं तोप-	जरासन्धोऽपि युद्धेच्छु-	३८०
चिरात्ततो विनिर्गत्य	४०४	जनानात्रजतो दृष्ट्वा	जरासन्धोऽपि समान-	३८१
चिरात्तस्माद्विनिर्गत्य	४३१	जनानुरागः प्रागेव	जलं गद्गदकण्ठया	३०२
चूडामणिप्रभाभासि-	३७७	जन्तुगन्तकदन्तस्था	जलं पीत्वा मयूराणां	२६४
चेदकस्ते तदाकार्यं	५१७	जन्तुगतं भ्रम्यते भूयो	जलधेर्जलमुल्लंघय-	३१३
चेदकप्रथमहीशस्य	४८३	जन्तोः किं कुशलं कस्मान्	जलधेः तटमाश्रित्य	३१३
चेदकेन हता हंसः	५१८	जन्मकूपे क्षुपादाहा-	जलाशयमृपातस्य	४११
चेतनः कर्माभिर्ग्रतः	५४६	जन्मकूपे पतित्वायु--	जलाशयाश्च सुसन्ध्याः	४५
चेलिनी कुटिला ज्येष्ठा	४८४	जन्मदुःखजगमृत्यु-	जातः प्राङ्मन्वृत्त	७७१
चेलिनी पञ्चमी ज्येष्ठा	४८२	जन्मन्येवाभ्युपतया	ज. इयं जतुपु नान्यपु	४४५
चेललपताके चेललध्वजानुजे	५७७	जन्ममृदुजराशय-	जातकौपः कपोतोऽसुं	५१२
चेष्टामालाकिनीविद्यातो	४८४	जन्मदत्तं कार्तिकं कृष्ण-	जातजातिरमृत्तिर्मूर्च्छां	५११
चैत्रज्यास्नापत्रे पञ्चम्यां	५	जन्माद्यन्तमुहूर्तं चे-	जाततापो नृपस्तस्य	५१६
चैत्रमासे सिते पक्षे	२३४	जन्मान्तरस्मृतेर्मूर्च्छां	जातमीदृक्स्वयं का वे-	४८६
चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां	५६	जन्मान्तरं फलनास्य	जातरूपच्छात्रिः श्रीमा-	२१६
चैत्रे मासि सिते पक्षे	१८	जन्माभिषेक कल्याण-	जातरूपयुतिः सार्द्ध-	३३३
चैत्रेऽप्या मास्यहःप्राप्ते	१२३	जन्मी नश्यति निर्मूल-	जातवन्तो तदुत्कृष्ट-	२५४
चैत्रे स देवः स्वर्गाग्रात्	७३	जमदाग्निमुनेदीर्घ-	जाजद्वल्यमानकोपाग्नि	१६७
चोदितामतीर्थकृत्वापा	४६१	जम्बूद्वीपसुकच्छाख्य-	जातां पवनवेगाया-	३५६
चादितो वा स तैर्भूपां	१०२	जम्बूद्वीपेऽत्र कौशाम्यां	जाताः शोपाश्च बुद्ध्यादि-	३२८
चांगशास्त्रापदेशेन	५३२	जम्बुनामापि निर्वेदा-	जातिगोत्रादिकर्माण्य	४७६
चौर्येण रावणस्यैव	२६६	जम्बूनाम्नो गृहत्याग-	जातिमात्रेण सर्वाश्च	३६१
च्युतप्राणाच्युतन्द्रस्य	३६७	जम्बूनाम्नोऽन्वये पूर्व	जातु तौ दम्पती दृष्ट्वा	३४४
च्युता दृढरथो जज्ञे	२११	जम्बूपलक्षितं द्वीप-	जातो माहेन्द्रकल्पोऽनु-	५६५
च्युत्वा ततो विदर्भाख्य	३६७	जम्बूपलक्षितं द्वीपे १६, १६०, ३४६	जातो वनेचरः काल-	३६५
		[ छ ]	जातो व्रतधरस्तस्मिन्	४०५
छात्रस्थेन ततः काले	३३५	जम्बूविशेषणो द्वीप	जातो तृतीयजनने	२३२
छात्रस्थेन नयस्त्रदान्	४	जम्बूतम्भान्ते द्वीपे	जातो मेवो पुनरतत्रा-	३४७
छात्रस्थेन समास्तिस्रो	७४	जयः पराजयो हानि-	जातो साकतेपुष्यां-	२४२
छेदिनी सर्वधियानां	१६५	जय जीवेति कदासु-	जानकी तामिदित्युक्ता	२६३
		जयनामानुनामाङ्कः		

जानाम्यनभिजातस्व-	४१२	जिनोपदिष्टनिर्ग्रन्थ-	१६६	ज्ञानदर्शनचारित्र-	१६८
जानाम्यहं महश्चास्य	१८२	जिह्वालोलुपमालक्ष्य	२२६	ज्ञानहीनपरिक्षेशो	४३६
जायते नन्द्यशसः	३६४	जीर्णपर्णवदागण्य	७	ज्ञानादिषु च तद्वत्सु	१६७
जरापनयनोपाय-	५३५	जीव जीवैते जीवन्ध-	४६८	ज्ञानेन तपसा जैन-	१६७
जाललग्नैणपोतं वा	५३३	जीवद्यशाश्च तत्सर्ध-	३६४	ज्ञानोपयोगाभीक्ष्णोक्षौ	१६७
जिगम्भू मत्पदं दुष्टा	६६	जीवन्धरः सहायैः स्वैः	५०१	ज्ञेयमागमशास्त्राख्यं	२५७
जितारिभूमुजस्यास्य	३६	जीवंधरकुमाराव-	५०६	ज्ञेयाः षष्टिसहस्राणि	२२०
जितेन्द्रियसमाहारं	५२६	जीवंधरकुमारेण	५१६	ज्यायानहमजाये त्वं	५४२
जित्वा चिन्तागतविंशतां	३४१	जीवंधरकुमारोऽपि	५१०	ज्यायान् हरिबलस्तस्य	५४६
जित्वा जिनेन्द्रवपुपेन्द्र-	१३७	जीवंधरोऽपि यत्तस्य	५२१	ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां	२१०
जित्वा ज्योत्स्नां मितक्षेत्री	४५१	जीवंधरोऽवदन्मूर्च्छा-	५०७	ज्येष्ठसूनोर्विवाहेन	१८५
जित्वा नरेन्द्रजालाख्य-	४१८	जीवंधरोऽवदन्मूर्च्छा-	५१३	ज्येष्ठे मासि कलाशेष-	२
जित्वा प्रसिद्धखचरान्	१७३	जीव पुत्रान् तिष्ठेति	४८६	ज्येष्ठे मास्यसिते षष्ठ्यां	८०
जित्वा मां विभ्रद्रेणाशु	३०७	जीवाद्याः कालपर्यन्ताः	४७६	ज्येष्ठे पष्ठोपवासिन	१२३
जित्वास्य कुन्दसौन्दर्यं	२७	जीवाजीवादितत्पार्थो	१३८	ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रकूटस्य	५३६
जिनं प्रदक्षिणीकृत्य	१५७	जीवितान्ते गुरुस्तस्य	३५०	ज्योतिष्प्रभं कनीयांसं	४१५
जिनं मनोहरोद्याने	६७, ३२५	जीवितान्ते नियोगेन	५६२	ज्योतिर्धने नियोगेन-	१५४
जिनं श्रीपवनमान-	४६	जीवितान्तेऽभवद्देवी	४०६	ज्योतिर्लोकिसमरो भूत्वा	२२६
जिनं सागरसेनाख्यं	५०३	जीवितान्ते समासाद्य	४५६	ज्योत्स्नेव तांकावीशे	५७४
जिन इवद्दृष्टमात्रेण	५४६	जीवितान्ते स संन्यस्य	३४३	ज्वलज्ज्वालाकरालोत्था	४५५
जिनदत्तार्थिकाभ्याशे	३५१	जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन्	३३२	ज्वलत्स्यस्य प्रतापाम्नि	१६८
जिनदत्तार्थिकोपान्ते	४०१	जीवितावामितौ सम्यक्	४४४	ज्वलनादिजटी कृयातो	४५३
जिनपूजां विनिर्वृत्य	५२६	जीविताहं त्वया स्थान-	३०३	ज्वलनादिजटी तस्याः	१४०
जिनपूजां विधायातु	५२७	जीवोऽयमुद्यदुपयोगगुणोपलक्ष्य	५६६	ज्वलनादिजटी पाति	४५३
जिनप्रणालिखद्धर्मा-	१६७	जैनगेहे समन्वर्च्य	३४०	ज्वलितचलितनेत्रो	३७२
जिनप्रतिनिधिपूर्व-	४८३	जैनशासनमर्यादा-	४६०		
जिनसेनभगवतोक्तं	५७५	जैन्याश्च तनयो विश्व-	४४६	[ न ]	
जिनसेनानुगान्यास्मै	८४	जोपमाध्यमहं कुर्वे	४८३	तं कदाचिद्विहारार्थं	७३
जिनासेनानुगैर्वीर-	५६४	ज्ञातजीवंधराकृत-	५०७	तं शास्त्रावधिवाधेन	४३८
जिनस्यास्यैव तीर्थेऽग्नौ	१०५	ज्ञातात्तदेहमभ्येयः	३८८	तं तदा भोगिनीयिया	५११
जिनाहंनन्दनान्याशे	२६	ज्ञातात्मान्यभवो धिक्	३६	तं तदात्राप्य देवेन्द्रः	२०
जिनेन्द्रजननीमैरां	२०३	ज्ञात्वा तत्तस्य वैमुख्य-	८	तं त्रिः परीत्य घन्दित्वा	१८३
जिनेन्द्रभयने भूतां	४३२	ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं	५१८	तं दण्डयितुमुत्कोध-	२७०
जिनेन्द्रवदनेन्दूष	१७६	ज्ञात्वा परशुरामीय-	२२६	तं ध्याना नलानिर्दग्ध	७२
जिनेन्द्रस्यालयास्तस्त	४३२	ज्ञात्वापि तन्मूर्ति भूप-	१०	तं निरीक्षितुमैहिष्ट-	५३८
जिनेन्द्रानहमन्येषु-	५०२	ज्ञात्वा विभङ्गज्ञानोप-	२६२	तं निरूप्य परिच्छेदोऽ-	५३१
जिनैर्द्रोऽप्यब्रवीदित्थं	३५२	ज्ञात्वा संसारवैमुख्यं	५३६	तं निशम्य महाकालः	२६८
जिनेषु गणनायेषु	१६७	ज्ञात्वा हिरण्यवर्मेत-	५४७	तं मनोहारिणं दृष्ट्वा	२६२
जिनोक्तधर्मशास्त्रानु-	४६२	ज्ञानं सर्वगतं स्वरूपनियतं	५७१	तं विलोक्य महोपालः	२३२
जिनो नेमिः समुत्पन्नः	३७८	ज्ञानचारित्रसामग्री-	५७३	तं वीक्ष्य तदग्रे दक्षौ	३२३

तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य	२३६	ततः पद्मावतीजन्म	४०४	ततस्तत्त्वं विदित्वात्-	५२६
तं वीक्ष्य बालवृत्तान्तं	४११	ततः परं जिनेन्द्रस्य	४६८	ततस्तदवगम्यायात्	१२६
तं शक्त्यापातयद्राम-	३२२	ततः परीतदावाग्नि-	१२१	ततस्तयोर्विवाहेन	५०५
तं सम्पूर्णकलं प्रप्य	५४	तः पार्थासुभद्राया-	४०१	ततस्तीर्थकरोत्पत्ति-	५६०
तं सानन्दयशो ज्येष्ठ-	३६२	ततः पुण्यं न पापं वा-	४७४	ततस्तुष्टः खगाधीशः	५०३
तं सूनुकृतवृत्तान्तं	४१६	ततः पुनर्गते मासे	३६१	ततस्ते तेन रामेण	२८५
तं हन्तुं निर्भयो भीमं	५४८	ततः पुरं समानीय	८१	ततस्त्ययाशु सम्भोष्यो	५३०
त एव लब्धकालादि	४६४	ततः पुगोधसः प्राप्तुं	४७	ततस्त्वमपि केनापि	४७१
तच्चङ्गमणवेलायां	३६७	ततः प्रतीचीमागत्य	३२४	ततो गत्वान्तरं किञ्चि-	४१६
तच्चेटिकावचः श्रुत्वा	१८७	ततः प्रच्युत्य कल्पान्ताद्	१८७	ततो गत्वयुधापात-	५०६
तच्छ्लाघ्यनुश्रुताप्यस्य	४४७	ततः प्रच्युत्य भूपस्य	२४१	ततो गन्धोत्कटो भुक्त्वा	५००
तच्छ्रुत्येण निमित्तानि	१५०	ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभू-	३६४	ततो गलति निःशेषं	१
तच्छ्लोकाल्सीरपाणिश्च	१७६	ततः प्रच्युत्य सूनुस्ते	१४३	ततो यश्रो न तत्पार्श्वं	१६४
तच्छ्रुत्वा खेचराधीशः	१४५	ततः प्रत्यागतः कस्मात्	११६	ततोऽतिगृह्णता व्याज्ये-	५३४
तच्छ्रुत्वा तं निराकर्तुं	५४७	ततः प्रभृति तत्प्राहुः	१५२	ततो दीक्षावने मासे	२२०
तच्छ्रुत्वा मत्प्रभोरेपा	१५४	ततः प्रसन्नया सार्धं	८८७	ततो द्वारवतीपुर्यां	१०२
तच्छ्रुत्वाग्निप्यतां सोऽन्य-	३६६	ततः शीलोपवासादि-	२७१	ततो द्विसगरायुष्को	४५७
तच्छ्रुत्वा पश्य नैलंज्य-	५२१	ततः श्रीनागदत्तस्य	४६३	ततो धरण्या वैषम्य-	५५६
तच्छ्रुत्वा रुक्मिणीं चाह	४१८	ततः सन्नद्धसैन्यः सं-	५२६	ततोऽननुरागां दैवं	३१२
तच्छ्रुत्वा सुमतिः प्राह	१५१	ततः समुचितप्रेम्णा	५०७	ततो नलिनराजाख्यो	५६०
तच्छ्रुत्वा सोऽपि कोपाग्नि-	६५	ततः सर्वतृषु प्रेम्णा	२८१	ततो निःशेषमंहाति	१४६
तच्छ्रुत्वा स कः प्रोप	६	ततः सर्वेऽगमन् राम-	३१०	ततो निर्गत्य तिर्यङ्गु	११८
तच्छ्रौयै क्रौर्यसन्दीप्यं	४१७	ततः सर्वे प्रहृष्यास्य	३५६	ततो निवृत्तः सम्प्राप्य	४६
तज्जन्मनः प्रमत्थन्यै-	३३६	ततः साकेतमध्यास्य	२६६	ततो निवृत्य साकेतं	७
तज्जन्मनवैरसंस्कार-	१०३	ततः खिन्धोरतटे गच्छन्	३२४	ततो निवर्तमानोऽसौ	३६१
तज्जानन्नापि पापेन	४६०	ततः सुरगणार्थांश-	२८	ततो निर्विद्य संसारात्	३६१
तज्जैनभवनाभ्यर्णा-	५०६	ततः रूपकरप्रामा-	३६३	ततोऽनुजलधिं गत्वा	३२४
तज्ज्वात्वास्याः पिता चाप-	५२४	ततः सूर्योदये राजगोहे	३३५	ततोऽनुतत्प्रमाणेन	२०७
तत एव त्यजन्त्येतौ	२३०	ततः सेनापतिं पट-	३०४	ततोऽनुवदनं तस्याः	१५
ततः कनकमालैत्य	१६३	ततः सोप्यवतीयात्र	१०३	ततोऽन्धाहिः समुत्पन्नो	३६६
ततः कनकराजाख्य-	५६०	ततः स्वर्गादंतराफल्यागा	१२२	ततोऽन्येद्युः खगो नाम्ना	२७५
ततः कपोतमेतं मे	१६३	ततः स्वर्वाष्टराकम्पा	६८	ततोऽपाह समुद्भूय	४५५
ततः कान्तपुरं लज्जा	४८७	ततः स्वानुमते तस्मिन्	४५०	ततो भगवतो ध्यान-	४३८
ततः कापालिकं शोकात्	१६१	ततश्चक्रधरोऽनङ्गं	४१८	ततो भवद्भिरेवार्थं	३५८
ततः कृष्येन निर्दिष्टाः	३८१	ततश्चपलगत्याख्य-	३४०	ततो भवन्मतं भद्र	१७१
ततः केनाप्युपायेन	४१२	ततश्चानिमिषार्थांशै-	४६३	ततोऽभूदन्यदा तस्य	२६६
ततः क्षीरकदम्बे च	२६७	ततश्च्युतेन भूत्वाज-	४३१	ततो भूपतिमासाद्य	२५२
ततः क्षुल्लकवेषेण	४१७	ततश्च्युत्वा महामत्स्यो	३४६	ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो	२४१
ततः खगाद्रचवाकश्रेणी	४८४	ततश्चौर्यादिदुष्कर्म-	३४६	ततो मन्दरनालिन्यां	१७२
ततः पञ्चमकालेऽपि	५६२	ततरतं स समानीय	४६१	ततो मासांशोपायुः	२३७
		ततस्तत्कालपर्यन्ते	५३१	ततो निश्चिनमेतत्त्वं	३४४

ततो मेघगधो राज्य-	१६०	तत्तीर्थे सागराभिख्यो	६	तत्र तच्चेटिकामेका	५२२
ततो रत्नानि शोषाणि	२०६	तथ्यकैकान्तदुर्वाद-	४८०	तत्र तन्मातुलः सोम-	१५१
ततो रखाधिकाम्भोद-	५६०	तस्य सत्वादिना येन	३६	तत्र तत्स्वन्निधानेन	५२०
ततो राशः पुरं गत्वा	५१६	तत्त्वगर्भगभीरार्थ-	४५६	तत्र तादात्त्विकाः सर्वे	२०२
ततो राज्यभरं पुत्रे	८७	तस्यशेऽप्यपचारित्रे	१३८	तत्र ताम्बूलवलयन्ताः	१६८
ततोऽरिखेपुरेऽगच्छः	३२३	तत्त्वया-सर्वथा साध्य	२६०	तत्र त्वं बालिनो दूतः	३०६
ततो युवां जिनाकारान्	२७५	तत्त्वधद्भासमानेः	१६७	तत्र दि-यं सुखं भुक्त्वा	३५०
ततो यौवनमालम्ब्य	२६	तत्त्वश्रद्धानमासाद्य	४१७	तत्र धन्याख्यभूपालः	४३७
ततो वज्रायुधश्च्युत्वा	१८५	तत्त्वार्थनिर्णयात्प्राप्य	४४३	तत्र निर्दिष्टदिव्योर-	४६३
ततोऽवतीर्थ देशेऽस्मिन्	४४६	तत्पञ्जरं विभिद्यासौ	३२२	तत्र नमीशितुः सत्यभामाया-	३८३
ततोऽवतीर्थ वर्षेऽस्मिन्	६३	तत्पतिष्ट दैमित्याख्यो	५१०	तत्र पण्यस्त्रियो धीक्ष्य	४४६
ततो बन्दिनचोयाम-	३७०	तत्पदे तौ समासाद्य	१६७	तत्र पूर्वकृतं पुण्यं	५१०
ततो विश्वस्य दुष्टारि-	५४८	तत्परीक्षार्थमायान्तु	२२७	तत्र प्रवृत्तवृत्तान्त-	३७५
ततो विभिन्नमर्थादाः-	३५६	तत्परीत्य स्थितं बाहौ	६५	तत्र प्रवद्धमानोऽस्मि	२२२
ततोऽग्निहितसंन्यासः	१२५	तत्पादपङ्कजश्लोपा-	१४२	तत्र ब्रह्मा मर्हीपाल-	४
ततोऽस्य भोगऽस्तूनां	४१	तत्प्रियायत्कुतो रन्ता	३८३	तत्र भोगान्वहून्भुक्त्वा	३४१
ततोऽहं प्रेषितस्तेन	३०६	तत्पुण्यपरिपाकेन	५१	तत्र भोगान्धथायोग्यं	४३०
ततो हठासंघावातं	३०६	तत्पुरस्थापनाहेतु-	३६८	तत्र मायामये मुद्धे	३४२
तत्कण्ठे पत्रमादाय	३५५	तत्पुराणं ततो वक्ष्ये	४४	तत्र रात्रौ कृता रक्षा	४६७
तत्कथावसरे लोक	४३०	तत्पुराधिपतिः खेचरे	५२	तत्र वाच्यो मनुष्याणां	३८२
तत्करिष्यामि येनास्य	२८६	तत्पुराधिपसोऽनप्रभा-	२५४	तत्र विशति वाराशि	४३३
तत्कल्याणस्य द्वेन्द्रं-	७	तत्पुगाधीश्वरारिन्द	४०६	तत्र वित्रायिताशेष-	५७३
तत्काल खेचरद्वन्द्वं	२६७	तत्पुराधीश्वरे चन्द्रकीर्ति-	३४४	तत्र शाखापशाखाः स्वाः	२३३
तत्कालोच्चितकार्याणि	४३६	तत्पुर्यां गौघकूटाप्र-	२०१	तत्र शस्त्राणि सर्वाणि	२२७ २५०
तत्कालोच्चितनेपथ्या	२०३	तत्पूर्वमथसम्बद्धां-	२७६	तत्र शोको न कर्तव्यो	२५३
तत्कालोच्चित पोऽगौ	५३६	तत्पूर्वापरसम्बन्ध-	२७६	तत्र षोडशवारशि-	२२२ १५१
तत्कुमारौ प्रहेतव्या-	२८०	तत्प्रत्ययसमुत्पन्न-	२४६	तत्र सग्निहता दैवा-	४८४
तत्कृतं भानुर्नवेति	३६६	तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा	२६३	तत्र स्वभवसम्बन्धं	३३४
तत्कृतासहस्रकण्डूया-	४७५	तत्प्रभा-विशोषण	२०	तत्र स्थित. स्वयं धर्म-	३४०
तत्क्षणागतदेवेन्द्र-	४३७	तत्प्रमाणबलस्तेजो	१२२	तत्रस्थैरेव भुज्यन्ते	२०२
तत्क्षणे सम्भ्रमाक्रान्तो	२-५	तत्प्रयोजनमुद्दिश्य	६२	तत्राकम्पनगुर्थाद्य-	३५७
तत्क्षमस्वापराधं मे	१५१	तत्फलान्यवबुध्याम्-	२६	तत्राकृत्रिमसम्भूत-	६२
तत्क्षेत्रमितमाशक्ति-	२३४	तत्फलान्यवबुध्यासौ	८०	तत्रादायावसंभ्रान्तं	२
तत्क्षेत्रमितवीर्याभा-	१६८	तत्र किं जातमप्येष्य	५६	तत्राद्यः षोडशप्रान्त-	५६१
तत्क्षेत्रविक्रयार्द्धीशः	३४	तत्र कश्चित्तनूजं त्वं	४६५	तत्रानुभूयसद्भोगान्	४०८
तत्क्षेत्रचराले राजा	४३१	तत्र किन्नरगीताख्या-	२८१	तत्रान्यानि च रत्नानि	११०
तत्रं प्रदक्षिणीकृत्य	२१२ ३८२ ४५४	तत्र कृष्णं समालम्ब्य	३६८	तत्राप्रकाशमेर्षया	४६८
तत्क्षमावेव सर्वेषां	३५	तत्र कौरवनाथस्य	४२५	तत्राभूत्पुण्डरीकण्यां	६६
तत्क्षीर्थ एव चक्रेशो	१४८	तत्र गन्धोकटः स्वस्य	४६८	तत्रामरकलालाप-	८८
तत्क्षीर्थस्यान्तरं चक्री	१३४	तत्र जन्मान्तरद्वेषात्	३४७	तत्रावधार्य निर्वेदहेतुं	५६
		तत्र तं सर्वशास्त्राणि	५४५	तत्राष्टादशवर्षायु-	५१८

तत्रास्य देव्यां कस्याश्चिद-	२५५	तथा नानिष्टसंयोगो	२६	तदाखिलामराधीशाः	४३५
तत्रैकं चारुणं वीक्ष्य	५१६	तथान्यथा प्रयुक्तं त-	२७२	तदा गतामराधीश-	२१६
तत्रैकस्मिन् समासन्न-	२६६	तथा परांश्च दुर्बुद्धीन्	३६५	तदागत्य मरुत्सुख्या	१२२
तत्रैव कल्पे देवीत्वं	४०५	तथापि यशमेवाशः	२७५	तदागत्य वणिक्पुत्रो	३४७
तत्रैव चन्दना तस्य	४८५	तथा प्राप्नोषि सन्तोषा-	५११	तदागत्य सुराधीशाः	२२१
तत्रैव धनदेवाख्य-	४८८	तथा वस्त्योकसाराख्य-	१८३	तदागत्यासुरी देवी	१५७
तत्रैव नगरे भूति-	७७	तथा शुभयिनोदेषु	८२	तदा गन्धर्वदत्तापि	५०४
तत्रैव ब्राह्मणः पूज्यः	२६२	तथा सीता महादेवी	३२८	तदागमनमाकर्ण्य	४५३
तत्रैव लक्ष्मणोऽप्येवं	२८७	तथास्त्विति तमाशीभिः	३६५	तदागमनमात्रेण	२८१
तत्रैवारदि पुत्रेण	४८६	तथेन्द्रियततिस्तेन	५४	तदागमनमालोक्य	१७१
तत्रैवासौ पुनर्भूत्वा	३६६	तथैव गगनाद्दीपशिखो	१५५	तदागमोपदेशेन	४८०
तत्रैव विश्वभूत्याख्यो	४२६	तथैव रूपमप्यस्य	३५	तदा गण्डवड्डेन	१११
तत्रैव सन्निधौ विश्वभू-	२५६	तथैव वासुदेवोऽपि	४११	तदा चतुर्थकल्याणपूजां	८२
तत्रैव मुप्रभो रामः	१२४	तथैव संन्यस्याभूच्च	१३२	तदाज्ञयाऽग्रहीद्धर्म	४७८
तत्रोक्तदेहलेख्याधिद्	२०	तदग्रजः सम्पादाय	२२६	तदाज्ञयाथ मारोचः	२६२
तत्रोत्सवे जनाः पूजां	४६	तदद्रिमस्तर्कं गत्वा	२५२	तदा तच्छ्रुतिमात्रेण	१७०
तत्सर्वं पर्वतेनाक्तं	२७३	तदद्रेखतायै नं	५०८	तदा तदुत्सवं भूयो	२८०
तत्सन्देहे गते ताम्यां	४६२	तदधीशो बलीन्द्राख्यो	२६७	तदा तद्वान्धवाः सर्वे	५३६
तत्समायामभूत्प्रश्नः	३३४	तदनुग्रहबुद्धयैव	४७४	तदा तमः समाधूय	५३६
तत्समाप्तौ स्तुतिं कृत्वा	२६२	तदन्तकप्रतीकारे	१५७	तदा तदैव सम्भूय	३६१
तत्समीपे निधायार्थं	२२६	तदन्तेऽपश्यदन्यच्च	४६०	तदा तीर्थकराख्योरु-	२०६
तत्समीपेऽनुजा ग्रामे	४६१	तदभिप्रायमाज्ञाय	३०२	तदात्र प्रियमित्रायाः	१८५
तत्समीपे समादाय	३११	तदभिप्रायमालक्ष्य	५८	तदा दशरथाभ्यर्णा-	२८०
तत्सर्गस्यैव सायुत्वा-	३७२	तदभ्यन्तरभागे स्तो	४४	तदा दानादिनाद्धंस-	५१८
तत्समुत्पत्तिमात्रेण	३४६	तदभ्यन्तरवर्त्यायु-	७३, ८८, १२६	तदादिश विशामीश	६
तत्साहमेन तत्कीर्ति-	३०३	तदर्पयितुमायासौ	३६६	तदा दृष्टापदानस्य	४१२
तत्सिद्धिं निघ्नहेतुत्वात्	२७६	तदवस्थोचितश्रव्य-	४६८	तदा धुमुनयः प्राप्य	२३६
तत्सुतामुपवासन	५०२	तदा कृंसाज्ञया विष्णु-	३७१	तदा द्वारवतीदाहः	४२२
तत्सुता वारुणी संज्ञा	११२	तदाकर्णानकालान्त-	१२६	तदा नमिकुमारस्य	४००
तत्सूचकमिदं सर्वं	१४६	तदाकर्ण्य तदेवासौ	१४६	तदानादाय केनापि	५३४
तत्सोढुमन्त्रमो गाढ-	१६१	तदाकर्ण्य नृपाः केचि-	३८०	तदा नापितकः कोऽपि	४१७
तत्सौरभावबोधाय-	५४१	तदाकर्ण्य भवत्प्रीत्या	१८८	तदा निजासनाकम्पाद्	४३५
तत्स्वादलोपुः पापी	१५२	तदाकर्ण्य महीनाथं	३६६	तदानीमेव कैवल्यं	१८३
तथा करिण्याः पादाभ्यां	२६५	तदाकर्ण्य मुदा पुत्राः	६	तदानीमेव तं दीक्षा-	१८३
तथा कालगुहायाञ्च	४१४	तदाकर्ण्य विचिन्त्यैत-	५१६	तदानीमेव तं नीत्वा	३०६
तथागत्य कुमारोऽसौ	२२८	तदाकर्ण्यार्ककीर्तिश्च	१४६	तदानीमेव देवेन्द्रा-	३४
तथा चक्रधरे राज्य-	१८३	तदाकर्ण्यार्हं सन् राजा	१०	तदानीमेव निर्गल्य	१५५
तथा चोपचयः शत्रो-	३०६	यदाकर्ण्यैव बन्धत्वा-	३६५	तदानीमेव हस्तीन्द्रं	६८
तथा जलकुमारश्च	४१६	तदा कुमारसन्देशा-	५०२	तदानन्तमतिश्रान्तः	१६३
तथा तीर्थगणाधीश-	२५८	तदा कैवलपूजाञ्च	४३८	तदान्याभिश्च रामस्य	२८१
तथा दुष्प्रापमालोक्य	५३४	तदा कैवल्यसम्प्राप्ति-	१६१	तदा पर्वतमातापि	२६५

तदा पूजां समाकृतैः	५३१	तदासौ न समाकर्ण्य	२६०	तदैवाकुरुतां तौ च	४८८
तदा प्रभृति कन्यायाः	२६०	तदा स्वस्थानमापन्नी	३१०	तदैवागत्य तं नीत्वा	७३
तदा प्रभृति तीर्थत्वं	१२	तदा हरिबले युद्ध-	३८०	तदैवागत्य तौ देवौ	१८८
तदा प्रभृति ते कन्ये	५०५	तदित्यादाय वन्दित्वा	४६९	तदैवागत्य तन्मूर्च्छां	५११
तदा प्रभृति दुर्दप-	५५७	तदिन्द्रियार्थसान्निध्य	१२१	तदैवागत्य देवेन्द्राः	२४७, ३३३
तदा प्रभृति नागेन्द्रौ	४३०	तदीयशयनारोहं	५२२	तदैवागत्य मदग्रामं	४६७
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्	१०१	तदुक्तं ते समाकर्ण्यं	५१६	तदैवानिमिषाधीशा-	१२९
तदा प्रभृति शाल्यादि	५५३	तदुक्तमर्तिलङ्घनः	२३०	तदैवापेत्य नत्वार्धि-	२१३
तदा प्रभृत्यगात्काम-	५०६	तदुक्तं महासौभगेहैः	४६	तदैवापेत्य नाकीशो-	५६
तदा ब्राह्मणरूपेण	१०	तदुत्पत्तिफलस्यास्या-	२६४	तदैवायातसारस्वतादि-	६६
तदा भक्त्या नताष्टाङ्गा-	२३	तदुत्सवं समाकर्ण्यं	५२४	तदैवाशनिघोषाख्या	१६४
तदाभरणवृत्तान्त-	५५१	तदुद्भवे प्रसन्नानि	८०	तदैवासौ दिवो देव-	२०२
तदा मनोहरोद्यानगतं	३३६	तदुदीरितमेतस्य	५३४	तदैवाहमपि प्राप्य	५३१
तदामरसदस्यासी-	१७८	तदुपद्रवमाकर्ण्यं	५१५	तदैवाहूय सम्भ्रम-	४५२
तदा मलयदेशोशो	७६	तदुपायसहायांश्च	२६२	तदादपादि षट्खण्ड-	७
तदाम्नात्योत्तमः पौरान्-	२५१	तदेतदेव व्याख्येयं	५७६	तदौदासीन्यमुत्पन्न-	३६२
तदामृताशनाधीशाः	१३१	तदेव पुष्पमाप्राय	१६२	तदगतं मार्गमन्वेत्य	२२६
तदामृताशिनः सर्वे	२३५	तदेव पुरुपाथंश्च	५६३	दृग्त्वाऽऽशु परीत्येनं	१०४
तदा रामेण संग्रामे	३२२	तदेव सर्ववस्तूना-	४६	तद्गृहं तां स्वयं गन्वा	३८४
तदा लब्धेन्धनो वामिः	१७१	तदेवादाय सक्रोधः	१०४	तद्गृहीतं धनं सर्वे	५१६
तदालोक्य किमित्येष	२५१	तदेवानुमतं सर्वै-	१४३	तद्गोत्रे क्षत्रियोऽस्तारिः	३६
तदालोक्य हरिः क्रुद्धो	३८२	तदेवानुत्तरादन्त्या-	१२६	तद्ग्रहोत्थापितात्युग्र-	४३६
तदा लौकान्तिकाः प्राप्य	२०८	तदैव कातरः शूर्पणखा-	२८६	तद्घोषणां समाकर्ण्यं	५२४
तदावशिष्टपौलस्त्य-	३२२	तदैव खंचरौ कौचित्	१५४	तद्ज्ञाश्च मन्त्रतन्त्रादि-	५५१
तदा विद्याधरः कश्चित्	४६१	तदैव गर्भसङ्क्रान्ति-	४८	तद्दर्शनसमुद्भूत-	१७१
तदा विद्याधरा भूमि	३५८	तदैव तं समुत्साह्य	४१४	तद्दानफलमालोक्य	५१६
तदा विधाय देवेन्द्रा	३	तदैव तीर्थकृत्स्नात-	६७	तद्दूतप्रेषणादेव	१६८
तदा विशालभूतश्च	४५०	तदैव तोषो रोषश्च	४१३	तद् दृष्ट्वा दार्पिणो नमा	५५६
तदा विस्मयमापन्ना	४१७	तदैव तौ समाहूय	१६७	तद् दृष्ट्वा देहिनो मुग्धा	२६६
तदा शची महादेवी	२०३	तदैव दस्त्रा स्वं राज्यं	११७	तद् देव्या नन्दयशसः	३६२
तदा शरणमायाता-	४०८	तदैव नर्तकीवार्ता	१६८	तद् धात्र्या गुप्तमानीतः	५३५
तदा शीतक्रिया सीता-	२६५	तदैव निमिषाधीशाः	२१४	तद्भ्रुवं मम हन्तव्यो	१०७
तदा शक्राज्ञया यत्न-	३४०	तदैव भोगनिर्निष्णौ	११६	तद्भर्निव्याप दिक्प्रान्तात्	१४७
तदा संभावयामास	३८४	तदैव मङ्गलान्युच्चैः	२३४	तद्बाहुशिखरे मन्ये	२८
तदा सर्वर्तवस्तत्र	८०	तदैव मदनामोघ-	२६६	तद् भयास्त्रामयं पाप-	१८२
तदा सविस्मयो राज्ञा	११६	तदैव याममेरी च	२०२	तद् बक्तुं नास्ति कालोऽस्मा-	५४६
तदा साकेतवास्तव्य-	२२८	तदैव विजयाधीन्द्रि-	४१०	तद्बाललालनालीला	४११
तदा साधितविद्याः सन्	१५७	तदैव शूरसेनोऽपि	३६०	तद्बुद्ध्वा क्रोधसन्तप्तो	१५६
तदा सुराधिपाः प्राप्य-	४२५	तदैव स प्रसन्नात्मा	४४४	तद् भवान्तरवृत्तान्तं	५१३
तदा सेनापतिर्नाम्न	२७६	तदैव स महीशोऽपि	३४२	तद् यज्ञावसितौ ज्ञात्यं	२६६
तदा शूर्पणखागत्य	२८८	तदैव सोऽपि राज्ञात्	२५१	तद्योग्यसर्ववस्तूनि	५२०



तद् राजधानीनाथस्य	२०२	तन्निर्वेदेन रामोऽपि	२४२	तयोः परस्परप्रेमवृ-	५०५
तद् पूर्णं वर्णयन्तीथं	२८८	तन्निवासी सुनन्दाख्यो	३२३	तयोः पराक्रमप्रज्ञा	१८५
तद्वंशजेन केनापि	४८६	तन्निशाम्यास्तिकाः सर्वे	३८८	तयोः पुण्योदयास्तद्य	१६६
तद्वचः श्रवणात्तौ च	१३३	तन्निशावसितौ शुद्ध-	५२२	तयोः स्वकर्माणा ज्येष्ठो	३६३
तद्वचः श्रवणोत्पन्न-	२४६	तन्मध्यं मुष्टिसम्मायि	२०६	तयोर्जयध्वजं प्राप	४०८
तद्वचोऽवसितौ प्राशः	१५१	तन्मध्ये लक्षणस्फूर्ण-	३२२	तयोस्तुमुल्लयुद्धेन	२४२
तद्वदल्पसुखस्याभि-	५३५	तन्मांसजीवितः क्रूरः	१५२	तयोर्नरपतिर्दीक्षा-	४०३
तद्वन्मुनिश्च सर्वेषाम्	५४०	तन्मातरीय तज्जन्मतोषः	१७७	तयोर्भवत्रयायात-	२३१
तद्वाताकर्षणाहाव-	१५५	तन्माहात्म्यप्रकाशार्थं	४७६	तयोर्भित्ततेजाश्च	१४८
तद्वाती खंचराधीशः	१७१	तन्मृषा किमसौ वेत्ति	२७०	तयोर्विकलप्रीत्या याति	१४६
तद्वाताश्रवणाद्विश्व-	३६६	तन्वादीनां पुनर्दुष्प-	५६०	तयोर्विद्युत्प्रभ, सूनु-	१४३
तद्विकारेण ससाच्चि-	२६७	तन्व्या रोमावली तन्वी	१४१	तयोर्गोल्यानकं वक्ष्ये	१३९
तद्विघ्नपूर्वकं लङ्का	३१४	तपः कुर्वन्तमालोक्य	४३५	तयोर्विद्वच्चारित्वा-	४८८
तद्वितीर्णं महागोदको-	४१७	तपः पञ्चाग्रमध्येऽसौ	३४८	तर्पकाणि सुखान्याहुः	१६०
तद्विदित्वाऽप्रतिथयुक्ति-	२६०	तपस्तनूतपात्ताप-	६२	तर्पणस्तापनो मोह-	४१५
तद्वियोगमहादुःख-	५१२	तपस्यतश्चिरं घोरं	२४६	तले कपोलयोः स्त्रीणां	५८
तद्वियोगेन शांकाग्नि-	३२७	तपस्यन् सुचिरं तीव्रं	२	तव ज्योतिः प्रभाकान्ता-	१६३
तद्विलोक्य महीपालो	१५४	तपोधनस्य चक्रेशो	४३१	तव विद्वद्यग्रतो नीतं	१०
तद्विलोक्य मुनिदेवकीसुतः	३६४	तपो नाधिकमस्त्यस्मा-	४३६	तव स्यादित्यभिप्रायो	२५८
तद्विलोक्य समुत्पन्न-	५०६	तपोमाहात्म्यतस्तस्य	३६१	तवाङ्गचूते प्राणान्त	१५
तद्वीक्ष्य जानकी सर्वं	३०२	तपोलक्ष्या निगूढऽभू-	४६४	तवाग्नि तनूजेयमयं	१८३
तद्वृत्तान्तं विचार्यासौ	४७०	तपोवगममाहात्म्या-	४८६	तवादेशाऽस्ति चेद्देव्याः	२६८
तद्वेगवत्प्रवाहेण	५३४	तपोवनं सतां सेव्य-	४६५	तवाद्य तच्छिलास्तम्भ-	४५१
तद्व्याख्यातं श्रुतं सम्यक्	७६	तपोवननिष्ठानां	२२५	तवास्थे मानिवासकं	२८७
तनया लक्ष्मणा कामो-	४०२	तपोवनान्मुखेनायं	२७३	तवाहमिन्द्र इत्येना-	२३४
तनयः कुञ्चिताः स्निग्धाः	२७	तप्तचामीकरच्छायः	३३७	तवेदशीमुपायेन	३५४
तनुजो वेदवेदांगपारगो	३६५	तप्तायसपिण्डनिर्घातै-	४५५	तस्थात्वेयं प्रयात्यस्य	२६४
तनुर्मयेष्मितैः सर्वैः	२२	तप्तप्रभाधिविध्याप्त-	५३	तस्मात्तदाशामुञ्जित्वा	३०१
तनूजः कल्किराजस्य	५५७	तप्तप्याक्रम्य भोगेच्छं	२६०	तस्मात्तन्नाकलोकान्च	१३६
तनूजा चानुजास्यासी-	४८८	तप्तभ्येत्य तदेवास्मै	५०७	तस्मात्तत्तवास्तु पुत्राऽयं	४१०
तनूजस्तस्य मुन्दर्यो	३३१	तप्तयोध्यापती युद्धे	४०१	तस्मात्सागरदत्ताख्या-	५३८
तनूजस्पर्शासम्भूत-	५१६	तप्तसर्वं पुनः कर्तुं	२६४	तस्माद्भूमुरारिपुः	४२६
तनूजो भीमकस्तस्मा-	५४६	तप्तस्तमः प्रजातानां	३५०	तस्मादयुक्तं युष्माकं	२५२
तनूजो मित्रसेनायां	१६२	तप्तस्तमः प्रभायाञ्च	४५७	तस्मादस्थानकोपेन	३००
तन्त्रावापगतां चिन्तां	३४०	तप्तादायोदरं तस्या	२५३	तस्मादागत्य हेमाभ-	५१८
तन्त्रावापविभागोक्त-	६७	तप्तालारामनिर्भासि	५०१	तस्मादानीय मौलीन्द्र-	३७८
तन्नामश्रुतमात्रेण	२२६	तमुद्भ्रे पिता चास्य	३६५	तस्मादानेषु तच्छ्रेष्ठं	७६
तन्निबन्धनवर्णादि	५६०	तमुपासकसद्धर्मं	१६६	तस्मादुपेहि मोक्षस्य	२२३
तन्निमित्तसमुद्भूत-	४३३	तमेवाहिरिवाहृत्य	२२५	तस्माद्देव्यलकाली ते	४१७
तन्निरीक्ष्य भवन्माता	५१७	तयाहंदासवाक्श्रेष्ठी	४०८	तस्माद्विस्मयमापन्ना	४१४
तन्निर्वेगेण चित्राङ्ग-	३६२	तथा हिरण्यवर्माणां	५४७	तस्माद्वैरातुक्त्वेन	११८

तस्मान्न प्रतिषेधोऽह-	२५२	तस्य प्रीतिङ्करी देवी	३६२	तस्यैवाद्यो सुपेशाख्यो	६३
तस्मान्नास्मै प्रदातव्या	१४३	तस्य पुत्रः शतग्रीव-	२७८	तस्योपरि सुहृर्धावं-	३६६
तस्मान्मद्वचनं युयं	१०६	तस्य भार्या सुभद्राख्या	४६६	तां किंवदन्तीमाकार्य	५०१
तस्मान्महीं महाभागे	२	तस्य भोगोपभोगैक-	२८५	तां दुरातमाऽऽत्मसात्कृतुं	२७६
तस्मिन् काले वने रन्तुं	१८१	तस्य माताभितर्ज्यैर्न	३६८	तां भुजङ्गीमिवानैगी-	२६२
तस्मिन् कोपं परित्यज्य	१८४	तस्य माता सुमित्राख्या	१११	तां वरीतुं समायात-	२५६
तस्मिन्क्षणे समागत्य	५४८	तस्य मध्ये शुभस्थाने	४६	तां विद्यादेवतां वाम-	४८४
तस्मिन्गते स विप्रोऽपि	३४६	तस्य मे किं करोम्येतत्	३८४	तां वीक्ष्यापूर्णसौन्दर्या	४५२
तस्मिन्पुरौ ततः सुप्रतिष्ठा	५५०	तस्य यावन्न याम्यन्त-	६६	तां सम्बोध्य सुखालापै-	५११
तस्मिन्देशे जनाः सर्वे	४४	तस्य राज्ये रवावेव	३३२	ताञ्च स्नेहेन तत्कर्म-	५२४
तस्मिन्नागपुरे ख्याते	२७८	तस्य वचनांशुविसरः	५७५	तादृशं तादृशामासी-	४२२
तस्मिन्नुत्पन्नवत्येव	५४५	तस्य विप्रकुलायोग्य-	१६०	तात्स्थात्साहचर्याद्वा	१५०
तस्मिन्नुपद्रवे शान्ते	१५३	तस्य शक्राश्रया गेहे	२	तावत्स्वकायसंरक्षा	२६६
तस्मिन्नुपरते तस्य	७७	तस्य शून्यत्रिकैकदि-	२२०	तानभङ्गन् समुद्धृत्य	३१४
तस्मिन्नेव पुरे मृत्वा	४२३	तस्य शौर्यान्लो	१६६	तान् स्वयंवरशालायां	३५७
तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि	२६७	तस्य पण्डितसहस्राणि	७	तापसव्रतमन्तेऽभू-	२२२
तस्मिन्नेव पुरे वंशे	५१२	तस्य पण्डोपवासस्य	३३५	तापसाकारमादाय	२७४
तस्मिन्नेव पुरे शक्ति-	१८६	तस्य सत्येन वर्षान्ति	३३	तापसानामभूत्पल्ली-	३६०
तस्मिन्प्राक्तनस्यैहाद्रात्	४३०	तस्य सोमप्रभादीनां	५५	तापसाश्च दयाधर्म-	२७५
तस्मिन्मुषं समायाति	७२	तस्य हस्ते स्वरत्नानि	१०८	तापसैरभ्यधायीति	२७१
तस्मिन्मन्त्रिणि भूपे च	२६२	तस्याः श्यामलता चेट-	५०५	ताभ्यां स भवदेवाय	५३६
तस्मिन्वहसि चैद्वैरं	११	तस्याः स्वानुचरेणाक्तं	२५१	तामन्वेदुं व्रजन् रात्रौ	३८६
तस्मिन्वष्ण्मास-	५६, २४५, ४६०	तस्याङ्गतेजसा रत्नदीपिका	४६	तामादाय कुमारेण	५०४
तस्मिन् विद्विजने	७	तस्यानन्तमार्तदंवी	४४६	तामादाय महीनायो	१४२
तस्मिन्सुखामिलापित्वं	२६०	तस्या निराङ्गतिं तस्माद्	१४७	तामाहृषिये तौ हन्तुं	२८६
तस्मै दिव्ये ददौ रत्न-	४१४	तस्यानुपदमेवान्यां	१६३	तारकोऽपि चिरं युद्ध्वा	६५
तस्मै वरगुणैः सर्वैः	१४३	तस्यान्यदा वशिष्ठवर्षः	४६८	तालध्वजः समारुह्य	३१६
तस्मै संप्रार्थितं दास्या-	५४२	तस्या भाराक्षमत्वेन	४८	तावादित्यात्मसंस्कारं	१६५
तस्मै हेमद्युतिर्नन्द-	८२	तस्याभूत्सुप्रभा देवी	४८२	तावत्येव गते काले	२२०
तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य	३५६	तस्यामेवात्तरश्रेण्या-	३४१	तावादिर्नान्वन्धेन	५६०
तस्य कालोऽयमित्येक-	३१६	तस्यावमतिविव्यर्थे	४७४	तावन्तः केवलज्ञानाः	२४७
तस्य कालवयोवाङ्मा	४६२	तस्या व्यावर्णयत्सापि	३६७	तावन्तः खट्वाग्न्यग्नि-	२२०
तस्य किं प्रेक्षयित्युक्तौ	१४४	तस्याश्चानुपदं कश्चित्	१८१	तावन्तः पञ्चम- २३६, ३३५, ३८७	
तस्य जन्मोत्सवस्थालं	२१६	तस्याश्चास्त्युत्तरे भागे	३४०	तावन्येद्युःशोकाख्ययने	१०६
तस्य त्रिवर्गानिष्पथे	१४०	तस्यासीदनयोः सूनुः	४५१	तावर्कविधुसङ्काशौ	१४८
तस्य देवी सुभद्राख्या	४८२	तस्यास्तदा तदानीं च	२६५	तावर्पितौ मया सोऽपि	२५३
तस्य देवी कुमीमाख्या	३४	तस्यैव सुपेशाख्यः	१२५	तावासन्नविनेयत्वात्	११६
तस्य नामैव निर्भिन्न-	१६०	तस्यैवानुमतौ देव्यां	१६६	तापुभाविव चन्द्राकां	२३१
तस्य पद्मावती सूनु-	५०३	तस्यैवानुपदं काचिदु-	१८१	तापुमौ सुचिरं कृत्वा	१८५
तस्य पादौ समालम्ब्य	१८४	तस्यैवामितवत्यां स	११६	तासां चित्तपरीक्षार्थं	२८६
तस्य पाषण्डमौक्यञ्च	४७६	तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि	१८१		

तासां त्वं स्वामिनी भूत्वा	३००	तृतीचोऽपि ततोऽवादी-	२६३	तेषां रसोपयोगेन	५६०
तासु घोषवती नाम	३५६	तृतीयो वसुगिर्याख्यः	३५४	तेषामाद्येषु षट्सु स्यु-	१८८
तिरश्चामपि चेद्वैर-	१५७	तृप्तिं प्राप्नोत्यसौ वायं	५३३	तेषु चक्रातपत्राति-	२०७
तिलकान्तदिवीत्यासीत् १४०,	१८६	तृप्तौ रूपप्रवीचारात्	६७	तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां	५२३
तिष्ठतः शशगोमायू-	३१५	ते कालान्तेऽभवन्	३६२	तेष्वेकोऽभाषतात्मज्ञः	२६२
तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं तै	५७०	ते च तं च निरीक्ष्यैव	११५	तेष्वेकोऽस्ति स्त्रियः सप्तै-	२६४
तिष्ठत्वन्वैव देवोऽहं	३०६	तेजस्वी भास्वतो मत्स्य-	४३४	ते सर्वेऽपि पुरोपात्त-	४५२
तिष्ठो नद्यापि दीयन्ते	४८३	तेजो महामणिर्वादि-	८१	ते सर्वे सिद्धसाध्यत्वा-	५१५
तीक्ष्णदंष्ट्राकरालाननः	४५४	ते तत्सन्देशमाकर्ण्यं	५६	तौ च गन्धोत्कटेनैव	४६६
तीक्ष्णो विमलवत्याश्च	५३२	ते तेन सुचिरं युद्ध्वा	१७१	तौ च तद्वचनात्पूजा	२६८
तीव्रलोमविषाक्तोऽय-	५४४	ते द्विषष्टिसहस्राणि	२१०	तौ च संग्रामसज्जदौ	१०४
तीर्थकृत्कालवदवृद्धि-	५६३	तेन ज्योत्स्नेव तत्कीर्ति-	३६८	तौ तं बालं सनादाय	४१०
तीर्थकृत्नामसम्प्रापत्	१६	तेन तत्पादसंस्पर्शं	३८६	तौ तदोदयिनौ भूत्वा	१२६
तीर्थकृतसुद्वितीयोऽपि	६	तेन तेजस्विना राजा	५१	तौ त्रिलण्डाधिपत्येन	१३३
तीर्थकृत्स्वपि केपाश्चिदे-	२३६	तेन यास्यस्यसौ पृथ्वी	४७७	तौ दृष्ट्वा नागदत्तोऽपि	४६१
तीर्थान्दुसम्भृतोद्भासि	२८४	तेन सकृद्ध्य ते ताम्यां	४०८	तौ पञ्चदश चापोऽचौ-	२५५
तीर्थं विमलनाथस्य	१०२	तेन रथाने यथाकालं	१४०	तौ परस्परसंदर्शा-	३२३
तीर्थंशान्निधानेन	५४७	तेनानर्घ्यं नभो यायि	४१५	तौ राजयुवराजौ च	३२८
तीर्थेशाः सदृशो गुणैरनुभिः	४४०	तेनापि पट्टन्धेन	४०२	तौ समुत्कृष्टचारित्रौ	२५४
तीर्थेशा जगदायेन	२५८	तेनापि न प्रवेष्टव्या	२६०	तौ सम्बाध्य समारवास्य	३४२
तीर्थं श्रीवासुपूज्यस्य	६१	तेनान्तकेन ते नीताः	११	त्यज तन्माहमित्येनं	५४०
तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान्	८४	ते निदानं विमूढत्वा-	३६४	त्यज दुर्वासनां पापं	४७५
तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूता-	२५०	ते नैगमर्षिणा नीताः	३६४	त्यज सीतागतं मोह-	३०२
तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूतौ	२४१	तेनैव पापं प्रक्षाल्यं	४७५	त्यजामीत्यवदत्सीता	३०३
तुक्कालाङ्कारिकस्तस्य	४६६	तेनैव भवतो भाधि	१४४	त्यजेमामिति मारीच-	२७६
तुक् तस्य गुणकान्तायां	२५०	तेनैवास्मदभिप्रेत-	५०३	त्यागेन तस्य दारिद्र्य-	३३
तुलु राज्यमनिच्छत्सु	३३७	तेऽन्येषुः पुनरासाद्य	६	त्यागेऽयमेव दोषोऽस्य	४६२
तुलुत्वादतिशुद्धत्वात्	१२६	तेऽपि तन्वङ्गधारोऽ	१७१	त्यागो भोगाय धर्मस्य	११७
तुलुषु कुचयोरेव	४५	तेऽपि तद्वचनात्प्रापन्	१२	त्यक्तं येन कुलालचक्रमिव-	२२१
तुजेऽपरजिताख्याय	३४०	तेऽपि तत्सर्वमन्विष्य	१६६	त्यक्तसर्वसदाचारः	५५६
तुम्बीफलेषु दण्डेषु	३५७	तेऽपि तिस्रश्चतस्रश्च	३५७	त्यक्तसाम्राज्यतन्त्रोऽय	५३०
तुरङ्गमुखोद्भूत-	३८५	तेऽपि भीतास्तथा बाढं	४०८	त्यक्त्वान्यं चेदृशं वास्तां	२६०
तुरासहं पुरोधाय	२१४	तेऽपि सन्नाह संन्यं स्वं	३७५	त्यक्त्वा सव समागत्य-	८४
तुष्टा कतिपर्यंमासै-	५१	ते पुनस्तं समानीय	२३५	चतुर्विधामराधीश-	६६
तुर्णा भवत्प्रभावेन	३७६	तेभ्यस्तौ धर्मसद्भावं	२५३	त्रयः साताहिका मेघा	८६
तृणान्तरोपयोगादि-	५३३	तेभ्यो नाना मुदा दत्त्वा	४६२	त्रयस्त्रिंशत्पयोऽभ्यायु-	३३२
तृणायमन्यमानाः स्वान्	३२०	तेषां काले ब्रजत्येवं	५४३	त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायुः	१२८
तृतीयजन्मनीत्याह	२५२	तेषां गङ्गां प्रकुर्वीष्वं	१०	त्रयस्त्रिंशत्सहस्रोक्त-	२३४
तृतीयशुक्लसदध्यान-	१५६	तेषां तदुदितं तस्य	४	त्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः	२५८
तृतीये जन्मनीहासी-	२४४	तेषां पात्रस्थतदन्तान्	२२७	त्रयोदशसहस्रान्दे	२५४
तृतीये पुष्कराख्यात-	१६३			त्रयोदशान्विमानायु-	४५८
				त्रयोविंशतिवार्ध्यायुः स	१४

असरेणुप्रमाणं स्वं	२६७	त्वं जीवादिपदार्थानां	१७८	दमितारेः पिता कीर्तिधरो	१७२
असस्थावरसम्भ्रान्तः	१२०	त्वं दुष्टनिग्रहे शिष्टपालने	१८१	दयामुनिगिरास्वन्ती	४५७
त्रिशच्चापतनूत्तेधः	२१६	त्वं मे प्राणसमो बन्धु-	४७७	दयाबोधयोर्मोक्ष-	१४१
त्रिशच्छ्रुतसहस्राब्दः	६६	त्वमेव सत्यवादीति	२७३	दरनिद्रावलोकित	४६०
त्रिशच्छ्रुदभिरस्त्यैवं	४६३	त्ययानुभूयमानेषु	६२३	दरनिद्रासमुद्भूत-	२०२
त्रिशद्वर्षसहस्रायु-	२३८	त्वया पूज्य यथोद्दिष्ट	२६६	दशकण्ठान्वयायात-	३२२
त्रिशत्सहस्रवर्षायुः	२४६	त्वयाभिलषितं कार्यं	३१५	दशति स्म गजोऽप्येतद्वि-	११३
त्रिशत्सहस्रसमात्मायुः	१२२	त्वया मयोपनोदार्थं	४७०	दशधर्माः पुरेवैनं	२०६
त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य	४६	त्वया राज्यस्य यो दोषो	१६६	दशभिर्नित्यपूजायां	३४८
त्रिःपरीत्याभिवन्द्यैनं	१३५	त्वया वास्त्यावयोरष	४५३	दशमासान्तनिश्वासी	४३३
त्रिकालयोगवीरास-	१३७	त्वया सम्भोगसौख्यस्य	३	दशमोऽस्मात्परः ख्यातः	५६१
त्रिखण्डजातरजानां	३८४	त्वयैव रक्षितं पापा-	२०५	दशम्यां माघमासस्य	३
त्रिखण्डाभिपतितं सौ	१२७	त्वयैवकेन कर्मारिन्	६३	दशरथगुरुरासीत्	५७४
त्रिखण्डमण्डिते क्षेत्रे	४५५	त्वयोक्तोऽपि न ज्ञेयीतां	३०५	दशाङ्गभागसम्भोग-	१३६
त्रिखण्डराज्यभागेशौ	१४४	त्वयोपदेशः कर्तव्यो	५२३	दशाननवलान्यापन्	३२०
त्रिखण्डवासिदेवांश्च	३२४	त्वच्छ्रव्यगोयसल्लापैः	२८७	दशाननोऽप्यतिक्रान्ते	३००
त्रिलैकोक्तैर्गणापीशै-	२३	त्वज्जन्माभिपयोत्सवे सुरगिरौ	४३६	दशार्णविपये राजा	४८२
त्रिजगद्प्रसनालोल-	३१५	त्वत्पादपङ्कजपङ्क्तिपाद-	५७१	दशास्ये साम सामोक्त्या	३१०
त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं	२६	त्वत्पादपादपोद्भूत-	६३	दण्डशस्त्रे तुलायाञ्च	४५
त्रिदण्डधारकोऽप्येष	४४७	त्वत्पुरे कारयेत्येन-	५०३	दण्डो दारुपु शस्त्रेषु	२००
त्रिपृष्ठस्य धनुः शंख-	८५	त्वद्दर्शनप्रदेशं च	३४०	दण्डापनतमामन्त-	२८४
त्रिपृष्ठाय प्रदातव्या	१४४	त्वद्भक्तं दर्पणे वीक्ष्य	२८७	दरां जरत्तुर्णं मत्वा	३५७
त्रिपृष्ठो नाम दर्पिष्ठः	१४६	त्वद्भक्तो वाचि धर्मस्ते	६३	दरां स्वरयं श्रिताशोक	४६४
त्रिपृष्ठो निष्ठुरागति-	१४६	त्वद्विवाहे व्ययां कर्तु-	३८५	दत्तादित्रिनवत्युक्त-	६२
त्रिभिः शिवं पदं प्राप्य	६५	त्वां दु खिनं सुखिनमप्यु-	५६८	दत्ताशिपु किमुद्दश्य-	१६८
त्रिलक्ष्मणवक्रः पञ्च-	४२	त्वां नमन्तुत्तम. स्तोता-	६३	दत्त्वा गजं कुरुपासं	३१०
त्रिलक्ष्मणवक्राभ्यर्च्यः	६२	त्वां मे भावयितुं नष्टि	३०२	दत्त्वाजितञ्जयाख्याय	३२७
त्रिलक्ष्मणवक्रकोपेतः	३७	त्वां लोकः स्नेहसंबुद्धो	१५	दत्त्वा तत्साधनोपाय-	४००
त्रिलक्ष्मणाश्रविका देवा	३८७	त्वाद्दशी वनिता लोके	२६३	दत्त्वा ताम्णां कुमाराभ्यां	२४२
त्रिलोकनायकाभ्यर्च्यः	३७८	त्वामन्नं योजयिष्यामः	२८६	दत्त्वा तुष्टिधनं प्राप्त-	२४६
त्रिलोकमातुः पुरतो	२०३	त्वामनादृत्य योग्यां ते	२८५	दत्त्वा निपुणमत्याख्य-	१०६
त्रिवत्सरमिते याते	१००	त्वामानेतुं प्रहेष्यामि	५२०	दत्त्वाक्षदानमेताभ्यां	१६२, १६३
त्रिनिष्ठपरय सिंहेन	४३४	त्वामामनन्ति मुनयः	५७०	दत्त्वा राज्यं सतां पूज्यो	२५०
त्रिनिष्ठपेश्वरे गर्भे	२०३	त्वामिध्यकन्यके द्रष्टु-	१६५	दत्त्वा राज्ञं स्वपुत्राय	१२५
त्रिसहस्राधिकत्रिंशत्	१२८	[ द ]		दत्त्वा विजयमहाय	१४६
त्रिन् मासान् जिनकल्पेन	६०	दक्षिणे धातकीखण्डे	५०	दत्त्वा विष्वक्पानं भक्त्या	५३८
त्रैलोक्यजयिनं जेतुं	५३	ददासि परमं सौख्य-	६२	दन्तमङ्गो गजेन्द्रस्य	६२
त्र्यम्बकानदर्शनेपित्त-	१५६	ददौ दन्तद्वयेनासौ	११३	दन्ता यस्याशनं भूत्वा	२२७
त्वं कस्यात्रागतः कसमाद्	३४४	दधन् माघमसीवर्ष-	३५०	दर्पादिदं न वक्तव्य-	१४७
त्वं कुतस्ते कुतः कोऽयं	३६५	दमितारं यमं वैकं	१७१	दर्शयन्निति साश्चर्य-	२३३
त्वं च देवी कुबेरस्य	१७६	दमितारिं सभामध्ये	१६८	दर्शयित्वाऽवदत्सर्वं	३६०

दर्शयित्वाऽऽह यद्येनं	१८५	दीक्षां क्षेमङ्कराख्यमान-	१८४	दुर्लभा संयमे वृत्ति-	५४२
दद्या वसन्तकालोद्य-	३८६	दीक्षां गृहीतुमुद्युक्तो	५४२	दुर्धारां दुःखितोरुशत्रुसमिति-	४२
दद्यो नष्टासुको जातो	४८८	दीक्षां घनरथाभ्ययं	१६२	दुर्बारो दुष्टविष्वंसी	३६०
दद्यामानेन्धनान्तःस्थ-	३६१	दीक्षां जैनेश्वरीमादात्	२२२	दुर्विदग्धेनसाङ्गत्यमनेन	१३०
दाता च शक्तिविशान-	१६३	दीक्षां षष्ठोपवासेन	२२, ३०, १६	दुर्विधाः वधनाः पुण्यात्	४६२
दातासि न स्तुतिकलं	५६६	दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य	४४८	दुश्चरित्रान्महारम्भा-	४७२
दातुं भानुकुमारस्य	४१६	दीक्षां सागरसेनस्य	४०२	दुश्चेष्टस्यास्तपुष्यस्य	३१५
दानं पूजां तथाभ्यन्वच	४४	दीक्षान्वयक्रियाश्चाष्ट-	१६६	दुष्कर्म विरमैतस्मात्	५५३
दानपूजातपःशील-	१३२	दीक्षामादाय निर्वाणमार्ग-	१६३	दुष्टनिग्रहशिष्टानु-	२८३
दानयोग्यकुला नाहम-	११६	दीक्षालक्ष्याः स्वयं प्राप्ता	६०	दुष्टानुपागतौ दृष्ट्वा	४०७
दानशीलोपवाधादि-	२६०	दीनारैरर्हता पूः	३४८	दुष्पमायाः स्थितिवर्ष-	५५५
दानाहमवराख्याय	१७५	दीयमानां समालोक्य	२५०	दूतं मरीचिनाजान-	१५६
दानेषु कतमद्दानं	७६	दीर्घं तत्र सुखं भुक्त्वा	६७	दूतीव मे श्रितवती	३७४
दामद्वयावलोकेन	४३४	दीर्घकालमलं तस्या	१०३	दूतोऽपि सत्त्वं गत्वा	६२
दादिद्वयं विदुतं दूरं	३५	दीव्यत्कल्पद्रुमोपेत	३००	दूतो रामस्य गत्वान्तः-	२६६
दाप्यामीत्यभिभूपालान्	४६३	दुःखं तत्रानुभूयन्ते	४२३	दूरस्थामरविक्रियस्य भवतो	४४०
दिङ्मातङ्गपोलमूलगदितै-	७५	दुःखं स्वकर्मपाकेन	५१	दूरत् कपिलको दृष्ट्वा	१६०
दिनद्वयोपवासः सन्	६६	दुःखदावाग्निस्तपो	२८१	दूष्यलक्ष्मायमित्युक्त्वा	२५५
दिनद्वयोपवासित्वा	६०	दुःखदुःखिनिमित्ताख्य-	७३	ददमित्रादयः सर्वे	५१५
दिनद्वयोपवासं	७४, ८२	दुःखदुःफलसन्नतां	१२३	दत्तदुर्जयभूपोद्य-	२८४
दिनपटके गते तस्य	२३६	दुःखमेव सुखं मत्वा	१३७	दत्तो तत्रापि संरम्भ-	१८६
दिनादौ च दनान्ते च	४३२	दुःशास्त्रश्रुतिदर्षिष्ठः	१५१	दृष्टं शक्यमपहोतु-	३७१
दिनानि कार्निचितत्र	२८०, ५२१	दुःसाज्येनामयेनाऽसौ	३२७	दृष्टमार्गः पराधृष्यः	३०५
दिनानि कार्निचिद्याता-	१६१	दुग्धाब्धौ गिरिणा हरौ	५७६	दृष्टवन्तौ खगाधीशं	१७०
दिनानि कार्निचित्रीत्वा	२२६	दुर्गात्मनः कृपां हित्वा	५३०	दृष्टेस्तदस्तु चेन्मूल-	४७७
दिनान्येनं बहूल्यासीत्	३२१	दुराशयः सुगर्धाश-	३८५	दृष्ट्वा केनाप्युपायेन	४६७
दिने तृतीयनन्दाया-	३३५	दुरीच्या विकटाकारा	५५८	दृष्ट्वा क्षान्तिवर्षीपेऽस्याः	४८४
दिने भरणिनक्षत्रे	२०२	दुरुक्तवचनानीव	३१७	दृष्ट्वा जैनेन्द्रविम्बानि	२७६
दिनेशमस्तमानोय	५५३	दुर्गं मार्गं परेषां सुगममभिगमात्	७०	दृष्ट्वा तं तत्र तेनामा	४०३
दिनेषु केषु चत्पश्चात्थातेषु-	४६	दुर्गाण्यासन् यथास्थानं	४६	दृष्ट्वा तं तत्र मिथ्यात्वा-	२२२
दिनेषु केषु चिथातेषु-	२६२	दुर्गतिप्राप्तिदृष्टत्वा-	४७०	दृष्ट्वा तं पितरौ तस्य	३६२
दिने सम्मदगिर्बन्धे	३२८	दुर्गपालाः पुरं लङ्का	३०१	दृष्ट्वा तं निस्मयापन्नो	८
दिग्भैः सहवासेन	३५०	दुर्जयेन कलिङ्गेशा	३८०	दृष्ट्वा तं स्तोत्रितं देव	२६०
दिविजो नैगमार्षाख्यो	३६५	दुष्ण्याभिमुखो मूर्ख-	६५	दृष्ट्वा ताः स मुनिः प्राह	३६१
दिव्यं सर्वरसं भोज्यं	४५४	दुर्दमा विद्विषस्तेन	१६६	दृष्ट्वा तान्भ्यां कुतो भद्र	३६५
दिव्यभोगार्थाक्षरं भुक्त्वा	५३	दुर्दरं तव दुर्बुद्धे-	३११	दृष्ट्वा तारागणो तारापतिं	५४३
दिव्यश्रीर्मानुषी च भीः	२६	दुर्निवाये रिपुं कोप-	३१६	दृष्ट्वा तावेत्य सर्वेषां	४०७
दिव्यस्त्रीसन्निधौ स्थित्वा	५४२	दुर्भगत्वेन कान्तानां	२८६	दृष्ट्वा द्विगुणितायार-	४१२
दिव्याभरणादानेन	१६०	दुर्मर्षयाथाः सर्वेऽपि	३४६	दृष्ट्वा भ्रमस्य याथाभ्यं	१६५
विशो विलोक्य मां दृष्ट्वा-	१६१	दुर्मर्षयाथाः सर्वेऽपि	३४६	दृष्ट्वा निगूढतज्ज्ञानो	३५६
		दुर्मर्षो द्विषतानेन	२७१	दृष्ट्वा भवानहो नागदत्त	४६२

दृष्ट्वाऽमात्यमुखाद्गो	१६८	देवावगाढमभवत्तव मोहवाता	५६६	देहो विकाररहितस्तव वाग्य-	५६६
दृष्ट्वा मुनिवराख्यानं	३३१	देवी गरुडयन्त्रस्था	४८६	दोषद्रव्यायु रूपं त्वं	३१०
दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या	२८०	देवी तद्धेतुना खिन्ना	१६५	द्युकुमारसमानीय	५३१
दृष्ट्वा यथोपचारेण	२२५	देवीं परिजनः सर्वः	८६५	द्युतिविनिहतभिन्नो	१०५
दृष्ट्वा रूपपरावृत्त्या	१७८	देवीं विजयसेनाख्यां	३	द्युतिस्तस्य द्युतिर्वाभात्	५८
दृष्ट्वा श्रुत्वा विविच्यैष	४६६	देवीति गतवांस्तस्मा-	२२६	द्युतं युधिष्ठिरस्यात्र	४२१
दृष्ट्वा सागरसेनाख्यं	५५०	देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां	१२४	द्युतेन मोहविहितेन	१०५
दृष्ट्वा स्वप्नान् फलं तेषां	८८	देवीभिर्दिव्यभावाभिः	८०	द्योतिताखिलदिक्चक्रं	३८२
दृष्ट्वैनं रुधरोद्गमोभ्रनयनो	३७३	देवी यशोधरा तस्य	५३८	द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं	४०७
दृष्ट्वोद्यानवने राज-	४६२	देवी वसुधरा जात-	१६६	द्रव्यपर्यायरूपेऽर्थे	१५८
देषं वनविहाराय	३३३	देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा	२६	द्रव्यरूपेण पर्यायैः	४६७
देवः सचिहितः कश्चित्	१६३	देवैतद्वासुदेवेन	३८६	द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं	६४
देवकी च मुदा पश्चात्	२६४	देवैरन्धकवृष्टिश्च	३४७	द्रव्यार्जनं परित्यज्य	१५१
देवकी वसुदेवश्च	३६४, ३६८	देवोपनीतभोगानां	३३४	द्रव्येण बहुना सार्धं	५५१
देवक्याः स्तनयोः शात-	३६८	देवोऽपि स्वयुन्तेऽस्मि-	११६	द्रुपदाद्युभ्रंशोत्थ-	४२१
देवताधिष्ठिता नाम्ना	५११	देवोऽभवदनिर्देश्यः	४७०	द्रुमसेनोऽनुकंसार्या	५६४
देवतेति समभ्यर्च्य	३६६	देवो मदीयवंशस्य	५३७	द्रोशन्मुनेः पलपचः	४२६
देवतोपास्यमानांभि-	३७७	देवो विचित्रचूलाख्य-	१७८	द्रयेन तेन बध्नाति	१११
देवदातां समाकृष्ट	६६	देवो वीरजिनोऽयमस्तु जगतां	५७२	द्रयोर्वचनमाकार्यं	२६७
देवदारवने पुष्प-	३५५	देवौ मेघरथं पश्चात्	१६४	द्वात्रिंशत्स्वत्रयाब्दानौ	२४१
देवदुन्दभयो वाढं	६२	देव्यः स्वयम्प्रभामुख्या	८५, १४८	द्वात्रिंशता चिरं रेमे	५०८
देवदुन्दुभिमुख्याष्ट-	१००	देव्यां तुग्मेघमालिन्यां	१७७	द्वादशाब्दैः समावर्ज्यं	३४८
देवदेवः समस्तेन्द्र-	६१	देव्या भानुमहाराज-	१८८	द्वादशो नामतः सप्त	४२८
देवदेवस्तेदेवासा-	६६	देव्यैषोऽत्र निवातिन्या	४१४	द्वाविंशतिसहस्राब्दै-	७२
देव देवस्य को वक्ता	१६०	देव्योऽपि दिव्यवचनं	४०६	द्वाविंश- ७२, १२१, १८७, ४३१	
देवदेव्यस्त्वसंख्याता-	२१६	देव्यौ दानानुमोदेन	१६२	द्वाविंशत्यब्धिमेयायुः	२३८ ४५६
देव देवी च देवा च	२६५	देव्यौ विमलमत्याख्य-	१८४	द्वासप्ततिसमाः किञ्चि-	४६२
देव देवे धराचक्रं	१०	देव्यौ स्वं रूपमादाय	१६५	द्वासप्ततिगुणा लक्षाः	३
देवमानुषरक्षोत्रिभागै-	१५०	देशे सारसमुच्चये नरपति-	३२६	द्वासप्ततिसमा लक्षाः	६३
देवलोकास्तिथति लेभे	४६५	देशकोऽस्ति न मार्गस्य	४७८	द्विगुणाष्टसहस्राणां	८५
देव विद्याधराधीश-	५१	देशार्धेन समं तस्मै	३६३	द्विगुणाष्टसहस्राणि	३२४
देवविद्याधरैः सेव्यः	१३६	देशान्विहृत्य मासायुः	२१६	द्विजद्वयमपि ज्ञात्वा	१६४
देवसेनस्य चोत्पन्ना-	३६४	देशोऽर्चित्वा परादृश्ये	२६५	द्विजवेपं समादाय	२५५
देवाः खलु सहायत्वं	४७५	देशोऽस्ति गन्धिलस्तस्मिन्-	११७	द्विजाख्या धारिणं याहि ३	४६
देवागमनमालोक्य	१८४	देहचूले कुमारस्य	५०२	द्वितीयकाले वर्तते	५६०
देवा द्वितीयकल्याण-	३३३	देहज्योर्तापि यस्य शक्रसहिताः	२१७	द्वितीयशानवेदस्य	२५६
देवा देव्यस्त्वसंख्यातः	२२७	देहत्रयापनयने विनापि सिद्धि-	५७०	द्वितीयतीर्थसन्ताने	१६
देवा देव्योऽप्य-	२१-४३६, ४६८	देहप्रभेव वाग्यस्याह्लादिन्यापि	४४	द्वितीयनरकं गत्वा	४२३
देवादेशोऽस्ति चेद्रत्वा	३१३	देहाद्यग्राच्चसद्भाव-	१६६	द्वितीयशुक्रध्यानेन	६१, ४३८
देवानामधुना शूरो	४६२	देहि नापेहि धर्मात्वं	४५८	द्वितीयशुक्रसद्धान-	१५६, २०६
देवालोकरतवेवैको	४४३				

द्वितीये दिवसेऽविवक्षन्	८६
द्वितीये धातकीखण्डे	३३
द्वितीयेऽहनि तद्दाल-	४१०
द्वितीयेऽहनि साकेतं	२३
द्वितीयेऽह्नि पुरं नन्दनाभिधं	१००
द्विपृष्ठाचलयोर्द्वि	६४
द्विपृष्ठः सप्तमदलख्रिखण्डेश-	६५
द्विपृष्ठो मत्तमातङ्ग-	६५
द्विलक्ष्मणावकोपेतः ६०, १००, १३१	
द्विलोकभोगमिथ्यादृक्	१६६
द्विपतो वा न सत्वाभि-	३१६
द्विपट्कयोजनायामं	२६७
द्विषां भयं प्रकुर्वन्तो	३१६
द्विषो भीषयितुं बोधैः--	३१७
द्विसंयत्सरमानेन	८२
द्विसागरोपमं कालं	४२३
द्विसमुद्रोपमं कालं	४४८
द्विसागरोपमातीतौ	४०६
द्विसागरोपमायुष्का-	३६१
द्वीपादमुष्मान्निर्गन्तुं	३५६
द्वीपायननिदानाव-	४२०
द्वीपादचक्रवालो वा	४७
द्वीपे जम्बूद्वीपे मख्याते	२१८
द्वीपेऽपरिवेहेऽस्मिन्	१०६
द्वीपेऽत्र खगभूमर्तु-	४०३
द्वीपेऽत्र प्राग्निदेहस्य	६
द्वीपेऽत्रैव विनीतायां	३४८
द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मि-	१६२
द्वीपेऽस्मिन् कोसले देशे	४५८
द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणश्रेण्यां	१५४
द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणे भागे	१२२
द्वीपेऽस्मिन् दक्षिणे पूर्व-	१४
द्वीपेऽस्मिन् उत्तरे भागे	३३७
द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशाभ्यां	४०४
द्वीपेऽस्मिन् पुष्कलावल्यां	१४४
द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्थ-	१६६
द्वीपेऽस्मिन् प्राग्निदेहस्य	२१३
द्वीपेऽस्मिन् प्राग्निदेहे-	१४३, ३३३
द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे	

८४, ८५, २१६, ३४२, ३४७,  
३६३, ३६६, ५३६

द्वीपेऽस्मिन् भारते खेचरा	१७७
द्वीपेऽस्मिन् भारते गङ्गा	४५४
द्वीपेऽस्मिन् भारते जम्बा-	८८
द्वीपेऽस्मिन् भारते देशः	४४४
द्वीपेऽस्मिन् भारते रत्न-	१२८
द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षं	२, १५, २०, ६१, ३३१
द्वीपेऽस्मिन् भारते शालि-	४०१
द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंह-	१०८
द्वीपेऽस्मिन् मगधे देशे	४०७
द्वीपेऽस्मिन् मन्दरप्राचि-	१३२
द्वीपेऽस्मिन् सिन्धुकुटस्य	४५४
द्वीपेऽस्मिन् तेषु लङ्काख्या-	२६६
द्वेषाभेदमयाद्वाधि-	३७६
द्वेषीभावश्च पट् प्रोक्ता	२८२
द्वौ देशौ भुवमागत्य	१३६
द्वन्द्वयुद्धेन तौ जेतु-	१४७
द्वन्द्वकारणसम्प्राप्त-	५६

[ ध ]

धनं दाने मतिर्धर्मै	५२
धनं बहुतरं सारं	५४५
धनञ्जयोऽस्य सर्वश्री-	३६२
धनमित्रोऽभन्तन्दि-	१६३
धनयौवनदर्पण	५३७
धनश्रियोऽयं बन्धेन	३६२
धनादिदेवपालाख्यौ	३५१
धनुर्विद्याविदः सर्वे	५१०
धनेन महता सार्धं	४८५
धन्येणमहीपालो	१३०
धन्यान्वत्र न सा स्थातुं	२८५
धन्विनः पातयन्ति स्म	३२०
धरणेन्द्रात् पितुर्व्वा	१७६
धरणेन्द्रोऽभवन्मृत्वा	१०६
धरान्तः कृतमञ्जुषो	२७६
धरालक्ष्मीं समाहर्तुं	२८
धरित्रीं सुखसम्भोग्या	१२६
धरेयं सधभावेन	२८
धर्मं यशो महत्त्वं च	१०६
धर्मं समन्वयुद्धकृतैता-	५५२
धर्मः कश्चिदहास्ति नैतदुचितं	५७८

धर्म एवापरे धर्म-	७६
धर्मजो भीमसेनश्च	४२४
धर्मश्च कथयामास	४८५
धर्मतत्त्वं मुनेः सम्यग्	४३०
धर्मदानादि वीर्यौ च	५६४
धर्मद्वयोपलम्भाभ्यां	६७६
धर्मध्यानं प्रविश्यासौ	४३१
धर्मध्वंसनिमित्तेषु	१६७
धर्मध्वंसे सतां ध्वंस-	५५७
धर्मनिर्मुलविध्वंसं	५५६
धर्मपापे विमुच्यान्यत्	५५४
धर्मं लामोऽस्तु तेऽद्योत	४६६
धर्मशील इति ख्यातिं	३४८
धर्मश्वेतातपत्रं ते	४२६
धर्मसद्भावमाकर्ण्य	५१३
धर्मादयस्ततोऽर्थोऽर्थात्	१
धर्मादयोऽयं ध्वंसं	५८
धर्मादस्मादवाप्स्यन्ति	१३०
धर्मादृतमर्थी वार्ष्णी	४२
धर्मादृतमर्थी वृष्टि-	३५१, ४२०
धर्माधिकमाशास्त्राणि	५२३
धर्मा वान्धकदृष्टश्च	३४५
धर्मो यस्मिन् समुद्भूता	१२८
धर्मेषु रुचिमातन्वन्	५२६
धर्मो जैनेन्द्र एवास्मिन्	४६
धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र	५७७
धर्मो दया कथमसौ	६१
धर्मो दयामयो धर्म	४५८
धर्मो बलः स्वयम्भूश्च	१०३
धर्मो माता पिता धर्मो	५५७
धर्मो यागोऽयमित्येतत्-	२५७
धवलार्थयुजाष्टम्यां	७५
धवले नवमासान्ते	१२६
धातकीखण्डपूर्वार्द्ध-	१६२, ४०१
धातकीखण्डप्राग्-१, २१, १२८, १६२,	
१८७, ५१७	
धातकीखण्डप्राङ्मन्द-	४०४
धात्री च प्रस्तुतार्थस्य	२६०
धात्री मन्दोदरी नाम	२५६
धारार्थे धने रम्ये	३५४
धावन्तो दैवसंयोगा-	५०८

धिक्कष्टमिष्टमित्येतत्	१६०	न चेतद्दशानं साध्यं	३०२	नमश्चरवैरोचनोद्धृत-	३७७
धिगस्तु संमृतेभार्त्रे	२४६	य चेदसि विभाग्यत्वा-	३०१	न मरुतरेण न क्रोधान्त	३८२
धिग्योगानीदृशान्	८	न चेद्दिनभिवंशैक-	३०६	न मां प्रतिप्रयोगो यं	४७७
धिङ्मां धनमिहाहर्तुं	५३३	न चेदेवं सुरेन्द्रत्व-	२१५	नमिताखिलभूपाल	२१
धियमस्य गुणाः प्राप्य	८८	न चौर्येण विना तोपः	११०	नमितारोपदेवेन्द्रौ	२०६
धियोऽस्य सहजमना कुशलिनः	४८०	न जाने त्वां विलोक्याद्य	३०२	न मर्नमितवामरामरपतिः	३३६
धीःपौरुषञ्च त्रिजयार्जनमेव	५६७	न ज्ञातः कः करो नाम	१२६	नमेर्भगवतस्तीर्थ-	३७८
धीमानसि यदीमं त्वं	५३२	न ज्ञानात्सन्ति दानानि	७६	नयज्ञैः कार्यसिद्धयर्थ-	३०४
धीमानुदीकृते पश्यन्	५५४	न तयोर्विग्रहो यानं	१६६	नयन्स चतुरो मासान्	४३८
धीरो मेघरथो नाम	१६४	न ताखिलखगाधीश-	२६८	न युक्तमिति विबन्धा-	४६२
धूपानुलेपनैर्मास्यै-	४४४	न तावदर्थकामाभ्यां	२८	नरकःयात्तथक्त्रोर-	५३५
धूमध्वजसखोऽस्थास्तुः	५२	न तु मांसा दकं देयं	१६४	नरकायुःप्रभृत्यष्ट-	२७०
धूमोपलम्भनादग्नि	४६६	न त्यक्तुं शक्य इत्यादि	४७६	नरके घोरदुःखानां	४७०
धृतदण्डप्रवृत्तित्वाद्	३१८	नत्वा किं ब्रह्मोक्तेन	३०८	नरपतिरिह नाम्ना	१३५
धृतगण्डाय गान्धारी	३४६	न दातोऽयं नृभिर्दन्ती	२५१	नरलक्षणशास्त्रज्ञ-	५२६
धृतवृद्धाकृतिं वीक्ष्य	३७५	नदीमुखेषु सम्भूता-	२४६	नरादिवृषमः पुरे	१३४
धृतिप्रेषणाय मद्राज्य	५००	नदीसरस्तयाकादि-	५३३	नरे द्रष्टृमुता दीक्षां	३६४
धैर्याःसधाय निर्भिन्न-	२५३	ननादानकमङ्गातो	४६१	नरेन्द्रब्रह्मिभिः सार्धं	३६
ध्याति धर्म्येन नैर्मल्य-	३०१	न निर्धृतस्य संसारो	४६७	नरोऽपान्ध्याधिकारति	६५८
ध्यानद्वयसमुन्मुद्धिता-	१३५	न नेपथ्यादिभिर्मेद-	२०१	नर्तकी वर्धरीत्येका	१६७
ध्यायन्तं वीक्ष्य वन्दित्वा	५०६	नन्दगोपसमापेऽन्थान्	३७१	नर्तक्योः प्रभाशेष्यं	१५१
ध्यायन् वैराग्यसम्पत्त्या	२०	नन्दगोपस्य पुत्रोऽयौ	३७०	नलिनप्रभनामाभू-	७६
ध्रुवं तन्नादेनोक्त-	२६६	नन्दगोपोऽपि तं बाल-	३६६	नयकेवललब्धीशो	१३५
ध्वजदण्डाग्रनिर्भिन्न-	२६१	नन्दं जगदानन्द-	२०३	नयकेवलगन्धःङ्क-	२४०
ध्वजीकृतनिशातोऽग्र-	२२६	नन्देन नन्दिघोषाख्ये	४०७	नकोध्वविधनानाक्त-	७३
ध्वनिरिकाऽपि दि शोऽस्य	६१	नन्दाढ्यादिसमानीत-	५२६	न यञ्चको कजावन्तौ	१६६
ध्वनिश्चेनिर्गतस्तरता-	२०५	नन्दाज्याय ददुर्भूरि-	५१६	न यप्रभूतसंकुद्ध-	४५१
ध्वस्तं तथा प्रवलयपदलं	५६६	नन्दासन्दर्शनेनासौ	१२४	नयमासान् यथोक्तेन	८०
ध्वस्तो मुक्तिरथःपुष्टप्रभृतिभि-	२१२	नन्दिग्रामान् राभिन्वः	४७१	नयमुक्ता फलालोल	३८५
[ न ]		नन्दिभूतिश्चतुर्भृतु	५६१	नयमे मासि देशात्र-	२१४
न काचिच्चेदृशी स्त्रीषु	३००	नन्दिग्रामो बलः पुण्डरीको	२३०	नयमे मासि सम्पूर्णं	४३५, ४६०
न कामनीयकं कामे-	३५	नन्दीश्वरे महापूजां	१६४	नयभेदं जिनोद्विष्ट-	४८८
नकलः संमृतौ भ्रान्त्या	४६३	नन्दावर्तगृहे रत्न-	४६०	नययोजनाविस्तारं	३७६
नकुलः सहदेषश्च	४२४, ४-५	न पुंसु यदि तत्रास्ति	५२२	नयनध्रुवर्तुर्गर्भु	४२५
न केवलोऽयमित्येहि	३६६	न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं	३०६	नयलक्षाधिकोटीषु	२७
न कोऽस्मिन्मत्तस्त्येव	२५१	न प्राप्यतेऽत्र रंसारे	३६७	न वाच्यः पृथगुत्साहो	२२
नगरं प्रादंशत् कारकटं	१५२	न बुद्धिमन् न दुबुद्धि-	२५१	नवापि निधयः पूज्या	२०७
नगरे पद्मिनांश्वटे	१६३	नभश्चरकुमाराणां	२६७	नवापि विधिना संन्यस्यन्तो	३५१
न गोमिथ्यां न कीर्त्तौ वा	४६२	नभसः शुद्धरूपस्य	३१८	नवाभ्युपमसन्ताने	१२२
नक्तदिवं निजप्राण-	४६६	नमस्तलगतौ देवकुमारौ	३३३	नवारलितनृत्सेधो	४३५
नक्षत्राणि ग्रहस्तारकाश्च	२६६	नमो न्यरुणदुःख्यांशु-	३८१	नवे धयसि दीक्षित्वा	३६४



न शृणोषि वचः पथ्यं	३११	नानाविधार्चनाद्रव्यैः	५५२	नामुद्योऽनेन कोऽप्यासीन्न-	५१
नष्टकर्माष्टकोऽमीष्टा	१४६	नानावीरुल्लतावृक्षै-	८४	नास्यकं देव दापोऽन्ति-	१०७
न सन्ति सहजास्तस्य	१६६	नानालङ्काररम्भोक्ति-	४८८	नास्तिका पापिनः केचिद्	६३
न स्थास्तु न शुभं किञ्चि-	६६	नानामुरभिपुष्पोप-	५३२	नारित जातिद्वृतो भेदो	४७६
न स्थिरं क्षणिकं ज्ञान-	६४	नानित्तुशान्तिकाभूमि-	४४५	नारित भट्टारकस्थाज्ञा	३०३
न स्नानं भोजनं स्वापो-	१०३	नानोपायप्रतीक्षोऽय-	४७२	नास्याश्चरं त्वयामेदि-	२६१
न हार्यं कुरुतैवं भो	५२२	नान्तराय परं तस्य	५६	नास्यातो नगानो नैव	४०७
न हिसान मृगं तस्य	२६	नापन्नापन्नभोगेन	२४०	नाहमाहारवामाति	५४२
न हि मूलहरः कोऽपि	५२	नाभिः प्रदक्षिणावर्ता	२८	निःखण्डमण्डलश्चण्डः	२५५
न हि हितमिह किञ्चि-	४०६	नाभूदस्यास्ततोऽहरोऽपि	४६७	नि प्रमं निःप्रतापं च	३२०
न ह्यस्त्यकयनीयं मे	५११	नामग्रहोऽपि यस्याघं	४४	निःप्रतीचारसौख्याद्यौ	१६८
नाकाण्डमृत्यवः सन्ति	२००	नामाद्गणि तस्यासौ	३६०	निःशङ्कादिगुणांस्तन्वन्	१६४
नाक्रामति प्रजा न्यायं	६७	नामादिचतुर्थेषु	२६६	निःशेष्यकृताघाति	३२८
नागतो रावणः केन	३१४	नामुञ्चन् केचनानादि-	३८८	निःसपन्न श्रियः साऽभूत्	१६
नागदत्तं त्रिवर्ज्यान्ये	५४३	नामृतांशोर्निशासङ्गा-	२०७	निःसावद्याऽन्ति धर्मोऽन्य-	२६
नागदत्तमसौ नाहं	५४६	नाम्ना धनपतिः याता	११८	निःस्वेदत्थादिमन्नाम	४१
नागदत्तस्तादा रज्जु-	५४६	नाम्ना नन्दीत्यसौ	३५२	निकटे राजितत्याख्य-	४५४
नागदत्तेक्षितं ज्ञात्वा	५४६	नाम्नाभवत्सक्रोपानां	४३६	निकृष्य कन्यां श्रीषेण-	५१४
नागदत्तेन पापेन	५४६	नाम्ना नरपतिदंत्वा-	७४	नित्तमुं स्वयमेवोच्यै-	४३५
नागदत्तोऽपि कन्यैपा	५४६	नाम्ना नरपतिस्तस्य	१४	नियद्गीतकपायारि-	६०
नागराश्च निभूत्यैनं	५५१	नाम्ना विभोपणी जातो	११७	नियद्गीतुनिनोप्रांशु-	३५३
नागराडुपकर्ताऽभू-	२५६	नायकाभ्यां ततः सुग्रीवा-	३१४	निग्रहानुग्रहो तस्य	१२६
नागरेभ्यो महीभर्त्रे	२५२	नारदं शिलयाच्छ्राय	४१६	निग्रहीष्यामि मृत्यैनां	४८७
नागविधाश्च विद्यातु-	२७५	नारदः स तदागत्य	४१८	निग्रहेण ग्रहः क्रूरो	४८५
नागश्रियं च दौर्गत्य	५४२	नारदस्तत्तदा ज्ञात्वा	३७६	निजजन्मदिने चाक्र-	२१५
नागश्रं धितरासै त्वं	४२२	नारदस्तत्त्वमाकर्ण्य	४११	निजजात्यनुरूपाद्ये	५०७
नागश्राविहिताङ्गुल्यं	४८३	नारदस्तद्विदित्वाशु-	४००	निजजन्माऽर्धव्याप्त-	२
नागाः शेषेषु तन्नाम-	१८६	नारदागमनाच्चापि	४२१	निजदीक्षावनं षष्ठे	२१५
नागारुरैः सदा क्रुद्धै-	२५६	नारदागमहेतुञ्च	४१६	निजपापादयाहीर्य-	५४१
नागी नागश्च तच्छ्रेयात्	४३६	नारदेन समाकृष्ट	४१६	निजमल्लैः समागच्छे-	३७१
नागेन्द्रस्कन्धमारोग्य	४६१	नारदेनैव धर्मस्य	२७५	निजराज्येन संक्रातं	२३८
नाशनं स्मरति प्राच्यं	२४६	नारदाक्तमपाकर्ण्य-	२७५	निजर्ता वशेषण	५६२
नातिहृस्वोऽस्य संसार-	६	नारदोऽपि वन यातोऽ-	२६६	निजागमनवृत्तान्तं	२२४
नाथः पण्डवनं प्राप्य	४६३	नारदा विशिखारूढो	२६७	निजान्वयार्थिमानेन	३८०
नाथेति रावणं तप्य-	३२१	नारी च नरकान्ता च	१८८	निजाभिमुखमासीनं	२६६
नाथो नाथकुलस्यैकः	४८२	नाहंतानां विद्याताय	४७४	निजासने समासीनं	२८४
नाथरस्याधराख्या स्या-	२७	नालप्यते लपस्यास्य	२७	निजोत्कृष्टानुभागा-	२१
नानापत्तिमृगैः काल-	४५५	नावतो मण्डलं राहोः	५८	नितान्तमथंकार्थं	२७१
नानापुष्पफलानम्र-	२०१	नाथबोधः क्रियाशून्यो	४४५	नित्यत्वस्यापचारेण	४७६
नानाप्रसूनसुस्वाद-	४६	नाविदग्धाश्च गोपाला-	४४५	नित्यत्वेऽपि तयोः	१७८
नानामवनसर्काण	१६८	नाथोच्छ्वाङ्गयाथात्म्य-	२६४	नित्यमिष्ट्वेन्द्रवामानि-	२५८

नित्यालोकपुरे श्रीम-	३६१	निर्नामकमलञ्जोक्तं	३६५	निषिद्धात्रपि तौ तेन	२८२
नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगत-	१७४	निर्मत्स्यन्तो बोद्धुः	३१६	निषिद्धविषयांस्तरस्मा-	५३
नित्योत्सवाः निरातङ्गा-	२००	निर्भूमिच्छुद्रमच्छुद्रं	१६६	निष्कर्मं तव शुक्लतामुपगतं	४४०
नित्योदयस्य चेन्न स्यात्	५१	निर्ममं निरहंकारं	१८०	निष्कपायतयां बद्धा	४४८
नित्योदयो बुधाधीशो	५३६	निर्माण्य जिनपूजाश्च	५४४	निष्कारणं तृणलयश्च	५६६
निदानं मनसा मूढो	१६४	निर्मूल्याखिलकर्माणि	३६	निष्ठिता विफलानीति	२२६
निदानदूषितो बालतपा	१६७	निर्यातमिति वैषम्या	२७४	निष्पन्नमारवस्तूनां	२०२
निदानमकरोज्जीवितान्ते	४२४	निर्धातिसंहतश्च	५००	निसर्गाद्रावणो दृष्टा-	३०४
निदानशल्यदोषेण	३२६, ३२७	निलोपोऽम्बुदनागौ	१३७	निस्त्रिशशब्दः स्वप्नेषु	४६
निधाय मुनिपादाञ्ज-	३६०	निर्वर्त्याभिमतं यश-	२८०	निःस्वेदत्वादिनिर्दिष्ट	४६२
निपत्याकीर्तिमीमातु-	३५५	निर्वाणगमनं श्रुत्वा	१२	निःकाराम्बुजज्युक्ता	५४८
निमित्तैरष्टधा प्रोक्तै-	५५७	निर्वाणप्रार्थनं तेषां	४३६	निहृत्य घातिकर्माणि	५५५
निमुक्ता दर्शयन्ति स्म	२२८	निर्वासितोऽहं निर्मत्स्यं	३११	निहृतसकलघाती	१३१
नियोज्य स्वात्मजे राज्यं	२४०	निर्विघ्नं यशनिर्वृत्तौ	२७६	नीतिविक्रमयोर्लक्ष्मी-	१४१
निष्कुश न वैराग्यं	३०	निर्विण्णा सा निवृत्तार्ये-	३४१	नीतिशास्त्रेषु तस्नेह-	२५२
निरचिन्तश्च भूपेन	२५६	निर्विघ्नं संवृतेः शांति-	१८३	नीत्वा पयोदमागंण	३७७
निरधाक्षीदधिक्षिप्य	३१४	निर्विघ्नोपोपदेशोऽहं	२६४	नीत्वास्वगुरुसामीप्यं	५४०
निरन्तराय संसिद्धौ	२५७	निर्विशय तद्गतान् भोगान्	४०१	नीत्यैक्यर्गातां सर्वां	४४
निरन्तरोष्णनिःश्वास-	५१६	निर्विगत्रितयोद्भूति-	५७६	नीलाद्रिमिव गङ्गोप	२६६
निरस्ततद्गतस्नेह-	३२७	निर्विगात्तापसो भूत्वा	२१२	नृत्वेचगसुराधोरा-	२५४
निरस्ततिमिराटोपो	३६५	निर्वेदकारणां किञ्चि-	३८५	नृत्यत्कव्यन्धके सद्यः	३२०
नि राकरोत्पुरा तस्मा-	४७१	निर्व्रतः संसृत्तौ दीर्घ-	५५२	नृपं निवेद्य संसृष्ट	२२४
निरीक्ष्य तत्र चेलिन्या	४८३	निर्विशयोदङ्मुखो वीरो	४६३	नृपं सामिनिवेद्यात्म-	२०३
निरीक्ष्य रथागुरोरेतस्य	४६४	निर्विघ्नं तं समाक्रम्य	१६१	नृपं स्वामृत्युर्माशंक्य	४६६
निरुद्धं लब्धनिर्वेगं	५३३	निर्विघ्नं मनसालोच्य	४००	नृपः कदाचिदास्थानी	२५६
निरुद्धसर्वदुर्वृतः	४५७	निवृत्तिमेव सम्नोहा-	२७६	नृपः सुदर्शनोद्याने	३५१
निरुध्यतामिति प्रीत्या	२७५	निवृत्तौ व्रतशब्दार्थो	२४४	नृपः सुरेन्द्र दत्ताख्यः	१६
निरुप्येन्द्रवचः सम्यक्	१६५	निवृत्त्याख्यां समाह्वय	३६	नृपचेतोहरैः श्रयैः	५५७
निर्गमय्य ततो जैन-	५४१	निवृत्त्यागत्य साकेतं	२०	नृपमावेदयस्वप्ना-	२४५
निर्गमय्य कुमारस्य	३५३	निवेश्य निजरत्नायां	३१४	नृपस्तथैकशय्या-	४६
निर्ग्रन्थो नाराजा वीत-	२०६	निवेश्य पोदनाधीश	१५३	नृपस्य मेघनादस्य	४०३
निर्जिता प्राग्विदुष्यिण्या	३५७	निशम्य मगधाधीशो	५४३	नृपस्येक्ष्माकुर्वशस्य	३३७
निर्जित्य दशरथः स	१३१	निशम्य याममेयादि	२१४	नृपात्स्वप्नफलैस्तुष्टा	२०
निर्जित्य शृङ्खलाक्रान्त-	५४७	निशायाः पश्चिमे यामे	४६५	नृपात् भद्रासनारुढान्	२३१
निर्जित्य विन्धुराराति	३०८	निशिताः पवनोपेत-	२६६	नृपेण सह सर्वेषु	५०५
निर्णीय धर्मसद्भावं	३३७	निशुम्भो मारकोऽपीयां	२३१	नृपेऽनुबन्धनैरः सन्	११०
निर्विघ्नञ्च मया स्पष्टं	४६६	निश्चयव्यवहारात्म-	५५५	नृपेन्द्रैः खेचराधीशौ-	१४८
निर्दोषा दीयतां धीशे-	५०४	निश्चितं कामभोगेषु	२६	नृपैर्दीक्षां समादाय	१६६
निर्दोहंदाकमेयासा-	३६२	निश्चितो रावणः शौर्य-	२५६	नृपो घनपतिस्तरस्य	५०८
निर्धनैः परलोकार्थं	३६५	निश्चेलः कृतभूवासो	१३६	नृपोऽप्यहं कथं तत्त्व-	२७४
निर्धूय यस्य निजजन्मनि	८३				

नृपो मेघरथो नाम्ना	३५१
नेत्रगोचरमात्राखिला-	२८५
नेत्रे विलासिनी स्निग्धे	२७
नेतुदुन्दुभयो हृद्याः	८१
नेन्द्रियैरात्मनस्तृप्ति-	३६
नेम्यन्तरे खपञ्चस्व-	४३५
नेयानीत्यन्नवीत्कृष्णं	३७०
नेया श्रीरागिणी वास्या-	२१
नैते शक्त्या निराकर्तुः	२६६
नैवं चेत् प्रव्रजिष्याव	५४४
नैमित्तकं समाहूय	१५३
नोपमानस्तयोः कामो	१६६
न्यदिशन्नप्रतस्तस्मा-	३५६
न्यधाच्चाग्रे तदादाय	२६५
न्यधादेकं प्रसायिञ्चै-	३८८
न्यबोधयन् समस्तं तत्	५८६
न्यार्याजितार्थसन्तर्पि-	७१
न्याय्यो नृपः प्रजा धर्म्या	२०१

[ प ]

पङ्के पुनः समुत्थातुं	४३०
पद्मादावर्थरूपेण	४६८
पद्मे चित्राख्यनक्षत्रे	३८६
पद्मैस्तावत्सहस्राब्दे-	४५६
पञ्चकल्याणभेदेषु	२५६
पञ्चपल्लवोपमप्रान्ते	१६३
पञ्चप्रकास्त्वाध्याय	५४१
पञ्चभिर्वर्ष्यते मिथ्या-	१५६
पञ्चभिः सद्ब्रतैः पूज्यः	१३६
पञ्चमः शरदेवाख्यः	३८८
पञ्चमायगमेशं तं	१८
पञ्चमाशरपारात्त-	८१
पञ्चमुष्टिभिरुल्लुञ्ज्य	२०८
पञ्चरत्नमयं रम्यं	३८५
पञ्चरत्नसमाराज्य-	१३०
पञ्चवर्गसहस्राब्दकाले	२०७
पञ्चवह्वृषपञ्चामि-	२२०
पञ्चवंत्सगती तौ	५४५
पञ्चामिमध्यवर्तित्वं	४३६
पञ्चाप्याराध्य तैःभूव-	४२३
पञ्चाशद्विंशसहस्राणि	२१६

पञ्चाशदनुक्त्वायौ	१२६
पञ्चाशत्तत्पूर्वायुः	२१
पञ्चाश्रयं समापाप्यं	१००
पञ्चोत्तरशतोद्दिष्टै-	१७
पट्टके सम्यगालिख्य	४८३
पट्टकन्धं स्वपुण्येन	३५१
पट्टकन्धेऽस्य सर्वस्य	३५
पठच्छात्रत्रयस्यास्य	२६२
पतन्ति स्म पुनश्चेति	५४२
पतन्मधुरसोन्मिश्र-	५३३
पतिः कनकपुञ्जाख्य-	४५८
पतिः पद्मरथस्तस्य	१२१
पतः पवनवेगाख्यो	५१२
पतिभक्त्या निसर्गात्म-	३८०
पतिभिर्ज्ञां ददश्चेति	१६१
पतिमेव न ते तेन	३६४
पतिर्घनरथस्तस्य	१८५
पतिर्जयन्धरस्तस्य	५१७
पतिर्दशरथस्तस्य	१२८
पतिर्महाब्रह्मोऽथास्य	४६०
पतिष्यति ततो विश्वि	२७०
पत्युः किलरगीतस्य	३५६
पथं स्वाभ्यस्तशाब्जाणि	५४५
पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठि	१०८
पद्मगुल्ममखिलैः स्तुतं	७५
पद्मनाभश्च तत्रैव	५४
पद्मनाभः सुतो जातः	५४
पद्मनीव तदाकर्ण्य	२०२
पद्मराजस्ततः पद्म-	५६०
पद्मलेख्यः श्वसन्मासै-	८८
पद्मसेनो महीशोऽत्र	६७
पद्मानन्दकरौ भास्व-	१६६
पद्मालयमुकुलकुल-	५७७
पद्मावती च कौलीन्यं	५०३
पद्मावती च देव्योऽमू-	३८३
पद्मावतीनिमित्तेन	३०१
पद्मावतीवियोगेन	३३७
पद्मावत्या द्वितीयस्य	३४५
पद्मावत्याश्च पुत्रोऽय-	३६३
पद्मेऽस्थारनुर्न भातीव	३३
पद्मोत्तरः प्रथमजन्मनि	६१

पप्रच्छ सोऽपि नैतेषु	३८८
परतेजांसि ते तेजो	१५
परत्राप्येवमेवैभि-	३५१
परपापगिडवन्नान्यै-	५५६
परप्रणयवृत्तित्वा-	३१८
परमेरितवृत्तीनां	३२०
परमात्मपदं प्राप्ता-	२५८
परलोकमनुष्ठातु-	२६७
परलोप्रहणं शौर्ये	३११
परस्वयनुकूल्येन	१३३
परामृशात्र किं युक्तं	२१२
परार्थ्यभूरिदत्त्वा-	३७६
परार्थप्रहणं नाम	३३२
परार्थं यद्धन लोके	२२५
परार्थ्यं पञ्चधा प्रोक्तं	४५४
परामर्षं परिप्राप्तो	३०२
परामर्षति मामेव	४३६
परारवाहं सम्यक्त्वं	६१
परारुत्या कर्मपूर्वां	३०३
परा वैश्यसुता सन्तु-	४८६
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं	४७८
परितुष्य नृपं श्रित्वा	१६२
परित्यज्य तपः प्राप्य	२६३
परित्यजयितुं ब्रूहि	३००
परिनिर्वाणकल्याण-	६०
परिपीडयितुं बालं	३६७
परिपृष्टे मुनिश्चाह	५४४
परिप्राप्तोदयो रामो	२८५
परिभूतिपदं नेष्या-	४७४
परिभ्रमणमतत्ते	२६८
परिभ्रम्य भवे भूयः	१६३
परिरभ्य करौ तुतौ	२८७
परिवारजना दृष्टा	५१६
परिवारैश्च स प्रत्यग्	२८०
परिव्राजकदीक्षायाः	४४७
परिव्राजकदीक्षायां	४४८
परिव्राजकदीक्षाया-	४४६
परिव्राजकमार्गस्य	४४८
परिष्वज्यानुयुज्याङ्ग	२६६
परीक्षितव्यः सोऽस्मात्	१४६
परार्थ्यं सत्या सम्फल्या-	२८६

परीतां शिशापाद्पाज-	२६६	पश्चिमे दिवसे सोमखेदे	४२	पिण्डितर्षिद्विलक्ष्णः	७०
परीतः शिषिकां चित्रा-	३८५	पश्यतान्यानि च स्वैरं	१६०	पिण्डीकृतचतुःषष्टि-	१३१
परीतो भव्यपद्मानां	३८७	पश्यन् स्वदेव्यै राधायै	३४६	पिण्डीकृतत्रिलक्षोक्त-	४२
परे च परितः प्रापुः	३१७	पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं	४६२	पितरं तं महीपाल-	४३५
परे चाश्वाद्यः प्रापन्	२५६	पश्यैतौ कृतवेदिनौ	४४०	पितर वनराजस्य	५१६
परेण तस्मै भूमर्ता	३६६	पश्नादिलक्षणः सर्गो	२७२	पितरो तस्य सौधर्मः	८१
परेद्युः पापकर्माणौ	४०८	पाकं प्रकल्पयामास	३५८	पिता गन्धर्वदत्ताया	५०५
परेद्यु समये पाणि-	३८५	पाकशासनमुख्याश्च	२०६	पिता तु पुत्रमद्रस्तु	४८६
परेद्युर्नन्ददेशस्य	४६६	पाण्डवा संयमं प्रापन्	४४४	पितामुप्य प्रभावेण	३७०
परेद्युर्हिमागिर्यद्रि-	४३१	पातु प्रशिष्टतं वीक्ष्य	११३	पितास्यास्तद्वने रन्तुं	५१३
परे निस्तारकेश्वर्या-	३८०	पतितानां परैः सूक्ष्म	३८१	पितु कैवल्यसम्प्राप्ति	१०६
परेऽपि दोगाः प्रायेण	५५५	पाति तस्मिन् भुवं भूये	८७	पितुर्मरणवृत्तान्तं	२२७
परेषां प्राणपर्यन्ताः	३६१	पाति तस्मिन् महीं नासीद्	१६	पितृयोऽपि च्युतस्तस्मा-	८५
परेषां वास्यरूपादि	३३	पाति यस्मिन् भुवं जिष्ण्वौ	४७	पितृलंकार्यमध्याय	२६६
पर्यालध्वारख्यका वेगा-	१६५	पात्रापात्रविशेषानभिष्टः	२४६	पितृसल्लालितौ बालौ	२५०
पर्यादिवसनाः काल-	६५८	पाथेयं दुर्लभं तस्मा-	३६७	पितृस्थानपरित्यागो	२५०
पर्यटन्बहुभिः साध	३५५	पानीयं खननाद्बहि	२४३	पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य	३६६
पर्यायनर्तितं प्रेक्ष्य	३७१	पापं कल्यान्तरस्थायि	३१२	पिष्टकिण्वादिमयोगे	२३६
पर्यायेष्वेव सर्वेषां	४६७	पापधर्माभिधाना	१५८	पीडा तिलातमीक्ष्णां	४४५
पर्यायो राज्यभोग्यस्य	१६७	पापानुबन्धिकर्मैद-	३४४	पीडितोऽय मदङ्गुष्ठे	१६१
पर्वतं वस्तुराजं च	२७४	पापापापोपलेपाप-	३६	पीताम्बरं समुद्भृत्य	३७०
पर्वतस्तद्विपर्यास-	२७३	पापापीरोगमद्रस्य	७७	पीनायघ्नोन्नतौ सुस्थौ	२०६
पर्वताख्यो विधीः क्रूरो	२६३	पापबुद्धिर्मिथोऽवादी	४६६	पीत्वा स्वभवसम्बन्ध-	५३
पर्वतोक्तं भयं हित्वा	२७४	पापस्वपतिना सत्यमामा	१६१	पुण्डरीकेश्वरं भुक्त्या	२३१
पर्वतोद्दिष्टदुर्भागं	२७६	पापास्तुमुलयुद्धेन	५२५	पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको	१८८
पर्वतोऽपि पितृस्थान-	२६७	पापिष्टाऽमहमानाऽसौ	४८७	पुण्डरीकान्तपुत्रयो	५६४
पर्वतोऽप्यजशब्देन	२६७	पापिष्टौ श्रीनदीतीरे	१८६	पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेय	५६७
पर्वतौ मेपरपेण	४१४	पापेनानेन मासेन	४७०	पुण्यघोषणकृद्यत्-	४२०
पलायत निजस्थानात्	४००	पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति	५	पुण्यपापफलनापि	४७४
पलायमानो मानुष्य-	५३५	पापैः समानशूलानां	४५५	पुण्यवानस्तस्यं किन्तु	६८
पलालवर्था सावेष्ट्य	३८६	पारणादिवसे तस्मै	३८६	पुण्यश्रियोऽयमजयत्	५७५
पलाशानगरे नाग-	४६३	पारताख्य महीशस्य	२२२	पुण्यहेतुर्नियानां	४६५
पल्लोपमायुष्कालान्ते	४०४	पारिपन्थिक्यन्मागं	३१०	पुण्याज्जलायते वह्नि	४६२
पल्लवोष्ठाः प्रसूताढ्या-	१६६	पालकस्तस्य हेमाभो	४०३	पुण्याद् दृढरथो दीर्घ-	२०४
पवमानाद्यजं वाच्य-	३०५	पालको मारको वेति	५१	पुण्यान्ममादा सम्पन्ना	३१३
पश्चात्पञ्चशतैः सार्धं	४२५	पालनीयौ त्वया भद्र	२६७	पुण्यैकत्रीजमयलभ्य	६५
पश्चात्प्रसारिताग्राङ्गुली	३१८	पालयन्नन्यदा कान्ता	२७८	पुण्योदयात्कमेणाप्य	२३६
पश्चादन्तर्मुहूर्तायु	१३७	पावनीं स्तुत्यतां नीत्या	५७	पुण्योदयात् समुद्भूत-	३३६
पश्चाद्व्यावर्णयामास	४३७	पार्वेशतीर्थसन्ताने	४६२	पुण्योदयात्सुरूपादि	१२१
पश्चान्मन्दपुरे नन्द-	१६८	पिङ्गात्तुङ्गजयजूट-	२८४		
पश्चात्पट्टुतकोद्यन्दा-	२१०				

पुण्योदयोदितान् भोगान्	३४२	पुराणमपि सन्मार्गं	६६	पूज्यपाद त्वयात्रैष	४४६
पुत्रं पिताप्यनुद्योगं	२८३	पुराणश्रुतसम्भूत-	४७२	पूर्यञ्छुशिशैर्वांस	५०१
पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान्	५४	पुरासनमिदं शाल-	२६०	पूर्णचन्द्रः परित्यज्य	११२
पुत्रपौत्रादिभिः साद्धं	३४६	पुरादितीर्थकृत्काले	१०७	पूर्णमास्यां च पुण्यत्नै	१३०
पुत्रस्नानावसानेऽर्थं	५००	पुरा पुरुरवा भूत्वा	४५६	पूर्वकोटिमिताब्दायु-	५६१
पुत्रिकारतस्य सप्तासन्	३५२	पुराहितः पुनश्चास्मै	२७८	पूर्वं तालपुरार्धशी	२४६
पुत्रेणानेन सार्धं-	४७२	पुरीं प्रापय्य कान्तां स्वां	१७६	पूर्वजन्मस्मृतेर्मेष-	११५
पुत्रो भूत्वाऽस्य भूपस्य	३६२	पुरुषव्रतसम्पन्न-	४१२	पूर्वद्वादशलक्षेषु	२१
पुमानेकः स्त्रियश्चान्यः	२६५	पुरुषार्थत्रयं चैत-	३१६	पूर्वलक्षद्वयात्मायु-	६८
पुनः कुंमार एवैकं	५३५	पुरुषार्थत्रयं तस्मिन्ने-	३६	पूर्ववैरानुन्धेन	४३०
पुनः पितृनिदेशेन	३७५	पुरुषोत्तमनामा च	२५४	पूर्वसम्बन्धमाख्याय	११३
पुनः पुरः क गन्तव्य-	५२२	पुरुरवाः प्रियास्यासी-	४४४	पूर्वाङ्गिंशतिन्यूनलक्ष-	४१
पुनः पुत्रो गमिष्यामि	५२२	पुरुरवावनाधीशो	१४४	पूर्वाणां पश्चिमे भागे	४६८
पुनः प्रवृत्तसंप्रामाः	३८१	पुरुरवाः सुराः प्राच्यकल्पे	५६४	पूर्वाणां लक्ष्या हीनं	३
पुनः प्राक्तनरूपस्यः	५२३	पुरे तस्मिन्वाण्ड्मुख्यो	५०५	पूर्वानुपूर्व्या वद्वेऽहं	३३६
पुनः श्रीविजयोऽप्राप्ती-	१६५	पुरेऽत्र कनकादिकं	६६	पूर्वापरिवरोधादि-	७६
पुनः स त्रिषयासक्त-	५४१	पुरे पाटलिपुत्राख्ये	५५५	पूर्वापाठे माघमासे	७४
पुनः स्नानादिनोदावसाने	३८४	पुरेऽभूदुत्तरश्रेण्यां	१८६	पूर्वाङ्गे जन्मनीवात्र	२३६
पुनरभ्येत्य रत्नानि	१०८	पुरे गजगृहे पूज्या-	३५१	पूर्वोपात्तव्रतस्येष्टं	५५४
पुनर्जिनमतिदान्ति-	४०४	पुरेव पुरुदेवं तं	२०३	पृथक् त्रिभेदनिष्ठातिशक्ति-	७६
पुनर्मुन्याश्रम गत्वा	३५०	पुरे श्वेतिकानाम्नि	३६४	पृथक् पृथक् तां नाख्येयं	२८
पुनर्निरनुकम्पश्च	३६४	पुरे भिहुरे ख्यातो	३३६	पृथक्पृथक्त्वत्वेन	५६२
पुनर्निहित्य सद्धर्मं	१३७	पुरेऽस्मिन् पुण्डरीकाकार्यां	२५	पृथिवीसुन्दरीं नाम्ना	५२२
पुनस्तदेव यास्यन्ति	५५८	पुराधमि क्रमात्त्वान्	४२१	पृथिवीसुन्दरीमुख्याः	२३६, ३२५
पुनस्तदोरभूद्युद्धं	३१०	पुराधाः रथपतिः सेना-	२०७	पृथ्वीपथप्रवृत्तान्य-	४२०
पुरं चक्रध्वजस्तस्य	१६३	पुरोहितस्तदाकर्ण्यं	३२६, ४६६	पृथ्वी तस्मिन् रज क्षोभे	३१६
पुरं प्रत्यागमे स य	५१६	पुरोहितो गृहपतिः	२४६	पृथ्वा तां प्राक्तनं वृत्तं	४८६
पुरं प्रविश्य चक्रस्य	२४६	पुष्करद्वीपपूर्वाद्धं-	७१, १७५	पृथ्वा विज्ञाय तत्सर्वं	२२६
पुरं प्रविश्य भूपाक्ते	८८०	पुष्करगङ्गादिर्भागो	६६	पृथ्वी सहैव गत्वासी	४६१
पुरं प्रविश्य सद्रत्नैः	५५१	पुष्करगङ्गादिर्भागो	७६, ८७	पोतप्रस्थानकालेऽस्या	५४१
पुरं विनरसञ्चारं	४८६	पुष्कलं प्राग्भवायात	२२	पोतभूतं भवाब्धि तत्त-	३१२
पुरं विश्वावसुस्तस्य	२६२	पुष्कला पुष्कलावत्यो	१८६	पोदनाख्यं पतिरतस्य	१४४
पुरं सुरेन्द्रकान्तार-	१४३	पुष्पकाख्ये वने तौ च	५१३	पोदनाख्यपुरे चन्द्र-	४२१
पुरं सीमनसं नाम-	३	पुष्पचूलाह्वयो नन्दन	३६२	पोदनाधिपतिं स प्रणाम-	४५२
पुरः सन्निहितं दृष्ट्वा	२७५	पुष्पदन्तादयः पञ्चाश-	२४७	पोदनाधिपतेर्मूर्ध्नि-	१४६
पुरगोपुरनिर्याण-	४१६	पुष्पनेत्राः समुत्तुङ्गा-	६६	पौरवालकसंधातै-	३५०
पुरमेकं तनुस्थित्यै-	२६१	पुष्पाङ्गरागभूपादि-	२०१	पौर्णमास्यां धनिष्ठयां	८३
पुररक्षकमाहूय	२५१	पुष्पांश्रविमानेऽसौ	८०	पौर्णमास्यामवापार्य-	१५
पुरा चेषु व्यतीतेषु	२७३	पूजां निर्धत्तयन्द्रष्टु-	४३२	पौर्वाष्वितैकदश्यां क्षा	५६
पुराणं तस्य यक्ष्येऽहं	१	पूजां विधाय दत्त्वात्म-	५४४	प्रकटीकृततन्मायो	१२
पुराणभूपमानस्य	६४	पूज्यद्विज्जिर्मया किन्दुः	४८३	प्रकटीकृत्य तौ भूतं	१८८
				प्रकाशयन्त्या स्वान्तःस्थं	४१२

प्रकाशयितुमात्नीयं	४४५	प्रतिमायोगधारी-	१२४	प्रपीतामित्तेनाख्या-	१६३
प्रकाशयुद्धसुखित्वा	३२१	प्रतिमायोगमापाग्र्यं	४२	प्रप्रणम्य समभ्यर्च्यं	३१६
प्रकीर्णकपरिक्षेप-	२०३	प्रतिमायोगमालम्ब्य	३४६	प्रबुध्याधिकसन्तोषा-	६३४
प्रकुर्वन् भीमको राज्यं	५४७	प्रतिवक्ता स तं चोरं	३३३	प्रबोधमहतां स्त्रीत्व-	५७
प्रकृत्या त्वत्सुतो मन्दो	२६५	प्रतिषिद्ध कुमारेण	५२२	प्रबोधितः प्रसन्नात्मा	१२७
प्रकृत्यैवातितुष्टत्वा-	४३६	प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः-	४८	प्रबोधतोऽनुवादेन	२२०
प्रकृष्टदिव्यभोगानां	४७१	प्रतिष्ठापरयितुं धात्र्यां	२६७	प्रबोधो मूर्च्छितस्यैव	४६
प्रक्षालनाद्धि पंकस्य	१६६	प्रतिहतपरसैन्यौ	१३३	प्रभञ्जनखगाधीश-	२६७
प्रच्युत्यागत्य साकेते	४४८	प्रतीक्षस्वान्न मां स्थित्वे	२२३	प्रभञ्जनाख्यनृपते-	३४३
प्रजाः स भक्ष्यामस	१५२	प्रतीचि धातकीखण्डे	६७	प्रभाकरीपुराधीशो	१७०
प्रजानां पालको भोक्ता	१२५	प्रतीयमानज्ञानाभि-	४७६	प्रभाते षोडशस्वप्नान्	६७
प्रजा नां पालको राजा	१५२	प्रत्यक्षमविसंवादि	४७८	प्रभावती प्रलापिन्या	१६५
प्रजापतिमहाराजः	१४८, ४५३	प्रत्यन्तवासिसंज्ञोमे	३५७	प्रभावदर्शनं श्रेयो	२७६
प्रजापतिसुतो चैतद्	१४७	प्रत्यभापत लङ्केशो	२६४	प्रभावमस्याः पर्यामी-	३४६
प्रजापालनकार्यैक-	६८३	प्रत्ययः कोऽस्य चेद्व्यक्तं	५०५	प्रभूतप्रसवानस्र-	२८८
प्रजावती महादेवी	२३४	प्रत्ययस्तफलञ्चैतन्	४६६	प्रभो गृहाण चेतुभ्यं	३०७
प्रशक्तिकामरूपिण्या-	१६४	प्रत्यागतो मनोवेगो	४८४	प्रभोरिद्धाकुर्दशस्य	२४८
प्रशक्तिं निजरूपेण	४१५	प्रत्यागत्य करिष्यामि	४८६	प्रमदप्रसवाकीर्णं	५५७
प्रशक्तिविद्यामित्युक्त	४१२	प्रत्यागत्य कुमारं तं	५०६	प्रमाणनयनिक्षेपा	१४०, ३२६, ४७३
प्रशक्तिं साधयमास	३११	प्रत्यासन्नविनेयत्वा-	५३४	प्रमाणभूयं वाक्यस्य	२५७
प्रशाधारिपरीयेक-	७१	प्रत्यासन्नविनेयानां	४५६	प्रमाणवचनः किं वा	४१३
प्रशाधिक्रमयुक्तस्य	३६	प्रत्याह सिंहचन्द्रोऽपि	११२	प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि	६६
प्रशाधिक्रमयोलक्ष्मी	४४६	प्रत्युत्थाय यमाकारो	३७०	प्रमोदात् प्राण्य राजानं	४८
प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं	३०३	प्रत्युद्यातो महीशेन	२८०	प्रमोदाय सुतल्येह	६८
प्रणम्य पादयोर्मूर्ध्नां	४६४	प्रत्युद्भवन्ती विच्छिन्न-	४६६	प्रययुभ्ते गतिं पापा-	२७६
प्रणम्य स्थितयान् विप्रो	४७५	प्रत्येययुक्तिमद्वाग्भिः	४३७	प्रयाति तत्र विज्ञानं	२६४
प्रणम्य सोऽपि तत्पाद-	३०४	प्रत्येच्छत्सापि सन्तुष्टा	४६८	प्रयात्येवं तयोः काले	२२४
प्रणिधानात्तदाकर्ण्य	२६३	प्रथममजनि राजा	२४१	प्रयोगविहितं मर्तु-	३६२
प्रणिपत्य तयोर्दंभता	३४०	प्रदाय प्रत्सुकाहारं	२४७	प्रवर्द्धमानभाग्यस्य	४६
प्रतदनादिभिश्चैर्ना	४८५	प्रदाय राज्यं पुत्राय	२३४	प्रविशन्तं गजं चास्ये	७३
प्रतापवाडवालोल-	७१	प्रद्युम्नमुनिना सार्धं	४२०	प्रविश्य तं समालोच्य	५२१
प्रतापाद्विद्विषो यस्य	१४०	प्रद्युम्नसम्भवोत्पत्ति-	४०७	प्रविश्य तत्पुरं तत्र	४८६
प्रतापोपनताशोषा-	४५२	प्रद्युम्नादिमुता देव्यो	४१६	प्रविश्य नष्टनिदान्तां	५३२
प्रतिशृङ्ख बु तो वेतो	५२२	प्रधानप्रकृतिः प्रायः	४४५	प्रविश्य स्वोचितस्थाने	१४५
प्रतिशृङ्ख नमस्कारं	५०६	प्रध्वंखानास्त्यतिक्रान्तः	१८०	प्रविश्याधोगतीः सर्वाः	३४६
प्रतिशृङ्ख मनःपर्य-	५३६	प्रपन्नवान् गते चास्मिन्	२६१	प्रविशन्तं गृहं भिक्षा-	४२२
प्रतिपञ्चन्दरेखेव	१४०	प्रपन्नरतद्विदित्वागु-	२६१	प्रविष्टवन्तं तं देव-	३८३
प्रतिपञ्चन्दः परस्त्रीणां	४७	प्रपलायन्त तं दृष्ट्वा	४६२	प्रविष्टवान् विनाष्टात्म-	४५०
प्रतिपक्षाद्भवद्दृष्टि-	५२०	प्रपश्यन् सह भुञ्जानान्	३६२	प्रविष्टाय प्रदायान्नं	२०६
प्रतिपन्नं मया तस्मै	३५७	प्रयात्येवं सुखेनास्य	१३६	प्रविश्य भूषिता रत्नैः	४२१
प्रतिपाद्य बर्नरैर्भि-	१०७				

श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

६१७

प्रजानामेष रक्तस्थात्	१०२	प्रागासीद्विषमनामनृपति-	२४८	प्रापितैतपुरं वीरं	४८६
प्रभृत्त्या दीयते पापं	५५४	प्रागासीदमूतरसायनस्तृतीये	४२६	प्रासगीवीणानिर्वाण-	२१६
प्रबृद्धतेजसा यूना	१७३	प्राशुकैकादशोपास-	१६५	प्रासवेगोद्धतौ तस्मि-	३७६
प्रबृद्धरामप्रद्वेष-	४७४	प्राग्जन्मकृतपापस्य	५५३	प्रासापमानेन कथा	११६
प्रलयः प्राणिनामेवं	५५६	प्राग्जन्मसुकृतायेन	८१	प्रासावशोकदत्तायां	४२३
प्रलयः प्रातकालस्त वा-	६	प्राग्जन्मार्जितपापस्य	३६७	प्राप्तोऽहमिति शंसन्तं	२७०
प्रलापाक्रन्दरोदादि-	४५५	प्राग्भूभुजः प्रथितराजग्रहे	१३४	प्राप्नुवन्ति सुखं स्वर्गं	५४४
प्रशमपरमकाशा-	५७१	प्राग्योऽभून्तृपतिर्महान् धनपति २२१		प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारि-	२५४
प्रशमव्य किमस्थाने	३०१	प्राग्विश्वनन्दीति विशामधीशः ८६		प्राप्य चूडामणिं मुद्गः	५१५
प्रशस्तवक्त्रनामानं	५२६	प्राघूर्णकविधिं विश्वं	१५६	प्राप्य तन्निजभृत्यादीन्	५२०
प्रशस्ताशस्तभाषासु	३१	प्राघूर्णिकोऽहं दृष्ट्वेमां	४६०	प्राप्य द्वारावतीं केचित्	३७८
प्रशस्य यान्तौ वीक्ष्याम्बु	५१४	प्राङ्मुखो बाह्यसामग्रीं	२०६	प्राप्य निष्कमण्यस्तान-	८२
प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि	१५७	प्राच्यवृत्तिविपर्यासः	२००	प्राप्य पञ्च महाकल्पा	५६५
प्रष्टव्योऽसि स्वयम्भूर्ध्वं	२५७	प्राच्यां दिशांश्च बालाकौ	४६१	प्राप्य भानुकुमाराय	४१७
प्रसवं मधुमासो वा	५१८	प्राजापत्येन सम्बन्धो	३४६	प्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं	८१
प्रसन्नोऽनपवत्यायु-	४१	प्राञ्जलिर्भगवन्नेष	४८४	प्राप्य षष्ठोपवासेन	२४६
प्रसाधर्मावशोपाणा-	२०४	प्राणप्रिया महादेवी	८५	प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां	२५२
प्रसाधितत्रिवण्डोऽपि	४०	प्राणसन्धारणं कुर्वन्	५२५	प्राबोधयत्तयोस्तस्मा-	४११
प्रसाधिताङ्गी सान्येषु-	३६६	प्राणीति वार्यमाणोऽपि	४३५	प्रायोपगमनं प्राप्य	४३३
प्रसाध्याहृष्टमनोऽपि	४०७	प्राणैभ्योऽप्यविकान् का वा	२६३	प्रायोपगमनेनापत्	२१८
प्रसूतिमयेऽवाप्य	३६४	प्रातःछायायुगस्मीयाः	२०८	प्रायोपगमसंन्यास-	१६५
प्रस्यल्य पतितान् वीक्ष्य	२६३	प्रातः पृष्टवतीं स्वप्नान्	३	प्रायव्यकार्यसंसिद्धा-	३००
प्रस्वेदमलदिग्धाङ्गो	३६६	प्रातः शीतजलस्नानात्	४४७	प्रायव्यपूजादानादि-	१५३
प्रहारावरणेनापि	३२२	प्रादक्षिण्येन भव्येशं	६२	प्रायव्यवान् भयाद् गत्या	४५०
प्रहितोऽहं विवाहेऽद्य	४१७	प्रादक्षिण्येन बहारा-	१८६	प्रायव्य पर्वतो यागं	२६६
प्रहिल्य मद्गनं दनं	४५०	प्रादुर्भाषितदुःप्रेक्ष्य-	३१३	प्राय्यं चतुर्थकल्याण-	२१६
प्रहृत्य हेलया तस्थौ	४१४	प्रादुर्भूतक्षणान्त-	२२	प्रायोजीत् पूज्यपादस्य	३३१
प्रहृत्य साहसात्स्मात्	३७०	प्रादुर्भूता रुचिस्तज्जैः	४७३	प्राविशत्सापि तं दृष्ट्वा	११६
प्राकृतोऽयं न केनापि	४१०	प्रादुर्गसस्तदोत्पाता-	२६४	प्राविशन्नगरीं घोरं	३१४
प्राक्किं कृत्वागता चन्दना-	४८६	प्रादुरासीत्ततश्च्युत्वा	३५३	प्राविशन्नकृतं तस्मिन्-	३८१
प्राक्चिन्तागतिराबभावन् ततः	४२५	प्राप्ते तस्माद्भिर्निराल्य	४१६	प्रावीण्यं पदवाक्ययोः	५७४
प्राक् पालकः प्रथितपद्मरथः	१२४	प्राप्ते प्राप्य सहस्तर-	४५६	प्राहियोत्तदभिप्रायं	३००
प्राक् पोषयन्निर्निःशक्तिरिति	१५१	प्राप्ते माहेन्द्रकल्पेऽभूद्-	१४३	प्राहियोत्तन्निरिच्छार्द-	५०७
प्राक् प्रच्युत्याच्युताधीशो	१७७	प्राप्ते गौद्रामिसन्धाना-	२३१	प्राहियोद् द्वादशान्दानां	३४३
प्राक् षष्ठनरकाद्व्याप्त-	७२	प्राप्ते विध्वंस्य कर्माणि	४६५	प्राहियोद्दत्सकावत्याः	१६८
प्राक्तनाः षट्कुमाराश्च	३६४	प्राप्ते संन्यस्य बद्ध्वायु-	२६	प्राहियोत्स पुनः कोपा-	३७५
प्राक्तनोऽजगरः षष्ठ-	४३१	प्राप्ते संन्यस्य सा प्रायात्	१८३	प्राहुर्नास्तीति यं केचित्	३८७
प्राक्तनो नारकस्तस्मात्	११४	प्राप्ते संन्यस्य सौधर्म-	२७८	प्रियं हितं वचः काय-	२८२
प्राक्तनो नारकः पङ्कप्रभाया ११७, ११८		प्राप्ते स्वाराधनां प्राप्य	१२१	प्रियकान्तावियोगोत्थ-	२६६
प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य	५५	प्राप्तप्रेताधिवासं तद्	५३५	प्रियदर्शना ज्येष्ठा च	३५२
		प्राप्तस्वम्यकस्त्रशुद्धिञ्च	५३८	प्रियमित्रस्त्वयोरासी-	४५६

प्रियमिच्छाय पुत्राय	१३५	फाल्गुने मासि चित्रायां	३७	बली तलप्रहारेण	४५०
प्रियमित्रोऽष्टमो धर्म	३५१	फाल्गुने शुक्लसप्तम्यां	६४	बलीन्द्रामिषया ख्यातो	२४१
प्रियाजनि सुभद्राख्या	३५२	फाल्गुने श्रवणे कृष्ण-	२४७	बलीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा	२४२
प्रिया जयावती प्रातः	८८	[ व ]		बलेन महता योद्धुं	५१६
प्रिया सुग्वनराजोऽस्या-	५१३	बज्रायुधे समारोप्य	११५	बलोऽपि तद्वियोगोत्थ-	१०४
प्रिया घसन्तसेनापि	१८३	बद्धः सिंहस्थः कर्म	३६३	बहवोऽस्यायुषोऽभूवन्-	४६५
प्रीतः प्रीतिङ्करस्तत्र	५५२	बद्धदेवायुषोन्यायु-	४७२	बहिस्त्वया न गन्तव्य-	३५५
प्रीतिः सैवानुभूतिश्च	५६	बद्धो बहुविधं बन्धै-	४५५	बहिः स्थितः कुमरोऽसौ	४८७
प्रीतिङ्करः पुरे चर्या	११६	बद्ध्या तत्कारणैस्तीर्थ-	२१३	बहुत्राहुः सहस्राज्ञो	२०
प्रीतिङ्करवने सर्वगुप्त-	६७	बद्ध्यायुः क्रोधलोभान्या-	३४७	बहुभिः सह सम्प्राप्य २५०,	४०८
प्रीतिङ्करापि निर्वेगात्-	१८३	बद्ध्यानीतवते देश-	३६३	बहुयोनिपरिभ्रान्तो	१२०
प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्नः	१०४	बद्ध्या बलिनमुद्दृत्तं	३५६	बहूनि रत्नान्यादाय	३७८
प्रीत्या षोडशमानामि-	२८१	बद्ध्यायुराप दशमग्र्य-	४२७	बाजिनोऽत्र समुच्छिन्न-	३२१
प्रीत्या सुरवरैः सार्द्धं	२०४	बन्दिमागधसूतादि-	३५३	बाणप्रातान्परेषाञ्च	५०१
प्रेयसी तस्य नन्दाख्या	३६५	बन्धश्चतुःप्रकारः स्यात्-	२४४	बाधाभावाद्दरज्ञान	४४४
प्रेयान् ममैक एवासौ	१०	बन्ध्यास्तनन्धयस्यैव	१३६	बालकं वर्धयिष्याव	३६५
प्रेरितास्तेन मार्गेण	११०	बन्धवो बन्धनान्येते	१६०	बालक्रीडादिशोपैस्तां	४१७
प्रेषणं युवयंरेत-	५५०	बन्धहेतुकलज्ञानं	५७६	बालकोऽयमिति ज्ञाना-	२२६
प्रेषितः श्रीमता तेन	२६६	बन्धुः कः को न वा बन्धुः	१०७	बालचन्द्रादिसुखान्	२०२
प्रेषयामास कंसारिः	४०२	बन्धुभिः स परित्यक्तो	१०३	बालवद्धं लया ब्रैलां	६५
प्रेषयामास तं दृष्ट्वा	३६३	बन्धुश्रियां त्वमेवैका	१७२	बालाकसन्निभं बालं	२०
प्रेषिताः स्वचराधोशाः	३१५	बन्धुन् विसर्ज्य प्रायोप-	३४२	बालिलोकान्तमपतिं	३१४
प्रेषितावनु तेनेत्वा	५१४	बन्धुन्सर्वान्समाहूय	५८६	बालिसुग्रीयनामाना-	२६७
प्रोक्ताः पञ्चदशैस्तस्य	१५८	बन्धो मोक्षश्च रादान्ते	४४५	बाली कालानुकारी तं	३१०
प्रोद्धृताः कंसमल्लाश्च	३७२	बभञ्ज सत्यभामाया	४१६	बाहू दहुतर्गं तस्य	२०५
प्रोद्दृष्टान्तिदमनोऽजनि	१३४	वमार भास्वरां लक्ष्मीं	६३	बाह्यं पुरंवर्योद्याने	४६६
प्रोन्मूल्य वानरानीक-	३२४	बभूव क्षीणपुण्यस्य	३२७	बाह्यैर्येवचः श्रुत्वा-	२६१
प्रोल्लङ्घ्य गोपदमिवाम्बुनिधिं	३२८	बभूवतुरहोन्द्रश्च	४३७	बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः	१३७
प्लवनेः समवस्थानै-	३७१	बभूव स्थविरारूप-	२८८	बाह्ये तद्विषड्भेद-	१४८
[ फ ]		बभूवस्याः पातः पंक्तेः	४४६	बिलासिगत्य नागश्च	४१५
फशिदैद्यास्तदाकर्ण्य	५०८	बभूवुः प्राणिनः कम्प-	२७४	बीजजासौ पदार्थानां	४७३
फलं चेदस्ति चर्याया	१३२	बलं कलकलं किञ्चि-	३१६	बुद्ध्यादिकर्द्धयस्तस्य	३५०
फलं जैनमुनेर्विक्रय-	२७०	बलं परशुरामः स्वं	२२८	बुद्ध्या ततः स निर्यातो	११८
फलं त्रिलोकसाम्राज्यं	६३	बलकेशवमुख्याव-	३८६	बुद्धिं शक्तिमुपायं च	२८२
फलं स्वानिमिषस्वस्य	१३२	बलतेजोमहाविक्रियाभिः	५०	बुद्धिपूर्वा क्रियालिङ्गा-	२३६
फलन्त्यकार्यचर्याणां	२२६	बलदेवश्च सम्प्राप्य	३८७	बुद्ध्या सपर्ययं सर्वं	१३८
फलप्रसवहीनं वा	२८३	बलस्थाष्टसहस्राणि	३८३	बुभुक्षापीडितोऽप्येष	५४०
फलान्यनुक्रमात्तेषां	२१४	बलाख्यमुख्यपञ्चान्त-	४२	बभूवुर्मातरं भोक्तुं	५४०
फलेनाधोगतीः सर्वाः	४४८	बलाकारेण तां तस्माद्	२८५	बुभुक्षुस्तत्र विप्रोऽसौ	४७५
फलेनापि समासेन	२७१	बलावष्टम्भस्त्रिजावनी-	३१८	बोधस्तवाखिलविलोकन-	५६८
फाल्गुने कृष्णसप्तम्या-	६०	बलिना सह युद्धस्य	५२४	बोधादयो गुण्याः स्वेऽमी	१३०



बोधितः समतीतात्म-	३८६	भरतः सागराख्योऽनु-	५६४	भव्योऽयं व्रतमादाय	५५३
बोधिता इव देवेन्द्राः	२३६	भस्तार्धभहीनाथो	३८३	भव्योऽयमिति तं मत्वा	४७१
बोधो भद्रा विशेषस्य	२२४	भरते कोऽत्र पाश्चात्यः	५३१	भव्यो व्यस्तैः समस्तैश्च	४७३
ब्रह्मकल्पाधिपो ब्रह्म-	५३१	भरतो दीर्घदन्तश्च	५६६	भागयाचनयात्रादि-	४६२
ब्रह्मकल्पादिहागत्य	११८	मर्ता गन्धर्वदत्ताया-	३५६	भागे जयन्तदेवस्य	२१६
ब्रह्मकल्पेऽभवद् देवो	११८	मर्तुः सुवर्णवर्णस्य	३	भागे मनोहरे यामे	२१४
ब्रह्मलोकात्तदाभ्येत्य	३	मर्त्स्यन्ति स्म चापल्यात्	५०६	भागो विशाखनक्षत्रे	४३८ ४३६
ब्रह्मवत्करदो नैतौ	६४	भर्मद्युतिर्भवध्वंसी	४६१	भाजनं भोजनं शय्या	५३
ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे	२०२	भवतः शत्रुहृत्पद्मः	२२७	भाण्डागारावलोकार्थं	१११
ब्रह्मेन्द्रोऽयं दिवोऽभेत्य	५३१	भवता परिपृष्टोऽयं	५२७	भाति पिण्डीद्रुमो भद्रु-	६१
ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां	१६३	भवतापि महाप्रीत्या	४८४	भानानुदयमायाति	२६४
ब्रह्मि किं कर्म पुण्यं मे	२७०	भवतीभिर्वराकीभि-	३१५	भानुमान् बन्धुपद्मानां	४६१
ब्रह्मन्यमिति तद्द्वन्द्व-	२२३	भवतोऽपि नमः कृच्छ्र-	१४४	भार्या जयावती श्रीमती	४६६
[ भ ]		भवतो विप्रकन्यायां	४७२	भार्या तयोरभूत्भाग-	५४३
भक्त्या दमवराख्याय	१८७	भवत्यचेतनं किन्तु	४३२	भार्या तौ शङ्खशैलस्था	१६२
भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य	४५८, ५०२	भवत्याः स निमिर्नाम्ना	४००	भावयित्वा भवध्वंसि	४५६
भगलिर्वागलिर्द्विपायनः	५६१	भवदेवोऽप्युपागत्य	५३६	भार्यायत्वा ययौ दीक्षां	४५०
भगवन् किञ्चिदिच्छामि	१६०	भवद्भ्राया बृहन्नावा	१५७	भावनसंयमविध्वस्तित-	५४२
भगवत्यत्र को दोषो	३०४	भवद्भ्यामेव तद् ज्ञात्वा	५५१	भावानामनुमानेन	४७७
भगवन्तावहं पूज्यौ	३४०	भवद्भिः कैश्चिदप्याभ्यां	४०७	भाविचक्रुधरं विद्धि	३६६
भगवन्मद्गृहं द्वौ द्वौ	३८८	भवन्तं भगवन्दृष्ट्वा	५३६	भावि चक्रिप्रभावेन	३६५
भगवन् वामुदेवस्य	४१६	भवन्तुत्यकलां कल्यां	१७०	भावितादार्यिकाः शून्य-	२१६
भगवान् वर्धमानोऽपि	४६६	भवन्निरूपितं कार्यं	२८६	भाकिनौ रावणं हत्वे-	२७७
भगीरथोऽपि तान् गत्वा	१२	भवस्थितिवशाद्बद्ध-	४७३	भाध्यानामान्यनामासौ	४१६
भङ्गेन मार्गात्प्रच्युत्य	२६२	भवातपपरिभ्लान-	१००	भासमानौ नयौ वाभौ	३१७
भट्टैः परस्पगच्छाणि	३८१	भवान्प्रमाणभित्याख्य-	५००	भास्करस्योदयाद्बन्ध-	३८२
भट्टारिके खगेन्द्रस्य	३००	भवान् रक्तं तयोश्चित्तं	४८३	भास्वतेव जगद्येन	५५७
भट्टारिके वर्धिते	५११	भविता कथमस्माकं	५०३	भिक्षां कुवेरदत्ताख्यः	५४४
भद्रं तमस्थादावृत्य	४३८	भविष्यति कृतप्र षणस्य	२६८	भिक्षाचरमथान्येषु-	१६२
भद्रत्वात् बहुदानत्वात्	१२६	भविष्यति महादेवो	३६६	भिक्तार्थं देवकीगेहं	३६४
भद्र द्वादशवर्षान्ते	४१६	भविष्यतीति यत्प्रोक्तं	२४२	भिन्नश्चेच्छून्यताप्राप्ति	१७८
भद्रमित्रवर्णिक्	१२०	भविष्यद्बलदेवोऽपि	२६७	भिया भियेव कापेन	२५३
भद्रमित्रोऽपि पापेन	१०६	भविष्याम्यहमप्युद्यत्	५६३	भिया स्नहेन लोभेन	४१३
भद्रमित्रोऽपि पूकारं	१०८	भवेच्छिबुकमन्येषां	२०५	भिषक्प्रयोर्जितोपायैः	६
भद्रान्तगुणनीराभ्यां	३६१	भवे भाव्यत्र नवमे	१६४	भीत्वा धावन् तदैकस्मिन्	५४१
भद्रिलिख्यपुरे देशे	३६४	भवे भ्राभ्यत्याविभ्राम्यन्	३३४	भीमसेनोऽनुपार्थश्च	३४६
भद्रैषा कामरूपस्य	३४६	भव्य भक्षितपूर्वं ते	४६६	भीमस्य भोजनाद् गन्ध-	४२१
भयंकराख्यपल्लोश	४८५	भव्यभूपसहस्रेण	४५६	भीमां वैतरणीं तत्र	४५५
भयादिद्य तमंघोऽरि-	२१३	भव्यात्मनां परमनिवृत्तिसाध-	५६६	भुक्तमेव पुनर्भुक्तं	३६
भयेन लज्जयाराम-	२६३	भव्यानां कल्पवृक्षाः स्यु-	५६४	भुक्त्वा कोपदयापेतं	१३२
भरतः प्रथमो देश-	१८८	भव्यानुग्रहमुख्यायन्-	३२६	भुक्त्वा ततः समागत्य	४४८
		भव्ये भगलिदेशेऽश-	११	भुज्यमानेषु वैरस्यं	३१२

भुञ्जाना इव सम्रास	३१७	भोगभूतभोगादि	१३६	मत्वा मर्कटकान् काश्चित्-	३५४
भुञ्जानो निःप्रथीचारं	३४३	भोगानुभव एकास्मै	२१३	मत्सुता माभिनीवास्य	४५२
भुञ्जेऽहमिति रोदित्वा	५००	भोगोपभोगद्वारेण	२६१	मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे	३६३
भुवनत्रयसंक्षोभ	४४७	भोगोपभोगयोग्योऽ-	५७	मत्स्वामिनो महादेवी	३०३
भूलेचराः कुमारैश्च	३६०	भोजनावसरेऽन्येषु-	१५१	मथुराया बहिर्भागे	४१६
भूत्वा भवनवासीन्द्र-	४०४	भोजयित्वाथ तद्दाना-	४८६	मदनादिलतायाश्च	५१३
भूत्वा वने भ्रमन् मत्तो	११३	भो भवद्भिः कुतो लब्ध-	३७८	मदनानलसन्तप्त-	१८२
भूत्वा वृषभसेनस्य	४६३	भौमोपाध्यायसाक्षिष्ये	२६८	मदनोद्दीपनद्रव्यै-	२०१
भूत्वाऽसुरौ तमभ्येत्य	१८४	भ्रमन् विशाखनन्दी च	८५	मदनोद्दीपनदंशै-	२६६
भूपः कोऽपि पुरा श्रिया	२५०	भ्रमरीः कञ्जकं मुक्त्वा	२८८	मदीयमेतदित्युक्त्वा	५५१
भूपतिः पद्मगुल्माम्बु	७१	भ्रमित्वा भवकान्तारे	६७	मदीययागरक्षार्थं	२५६
भूपती तौ तयोर्दृत्वं	१६७	भ्राता तस्य सुमित्राख्यो	५११	मद्भाग्यादिति निर्भिय	३०३
भूपतेरशनेः पातो	१५२	भ्रान्तो जातिजरामृत्यु-	४५६	मद्भर्तुः कुशलोदन्तं	३००
भूपाल भूपतिरसह्य तपो	२३०	भ्रान्त्या क्रमेण सञ्चिन्त्य	२३१	मद्यमांसनिवृत्तेश्च	१४४
भूपालो नाम संग्रामे	२२२	भ्रान्त्या ततो विनिर्गत्य	५६५	मद्योग्यवस्तुस्वीकारा-	३०७
भूमृत्त्वमर्थवत्तरिमन्	७६	भ्रान्त्यान्ते सिन्धुतीरस्थ-	३४८	कधुक्नीडक्योरैवं	४०६
भूमिसंशोधने लाङ्गलाग्र-	२७६	भ्रामर्या भोगिनीत्यादि	१६५	मधुपैश्च पल्लोलै-	५६
भूमिस्थानादिभेदेन	१५०	भ्रामर्यन्सारकान्तारे	५३५	मधुरं यकुलञ्चान्य-	४६६
भूमौ सिंहपुरे जातो	३४१	[ म ]		मधुरादिमहायैश्च	५२४
भूयः संसारभीरुणां	७६	मकारादिभयं तत्र	१५१	मधुरादि तथोर्जाता	११३
भूयादस्माकमप्येव-	२०६	मघवाक्षाम पुण्यात्मा	१३४	मधुरा रामदत्तानु-	११६
भूयान्मे चक्रवर्तित्व-	२२२	मघायां चैत्रमासस्य	३०	मधुरेण मृगाणाञ्च	५०४
भूयो निवारयामास	३६८	मघायां श्रावणे मासि	२६	मधुः सत्त्वं समुत्कृत्य	१०४
भूयो विफालनोन्नाद-	३८४	मघा शशानि पेशाखे	३०	मधोः केनापि भूपं च	१०४
भूरिनीरभवानेक-	२०१	मङ्गलु दूतमुखादेत-	२६५	मध्याह्ने भूमृतां ध्वंसः	५५८
भूषणानां कुलं लेभे	२०७	मङ्गलाभिपथाभिष्ट-	४३४	मध्ये तस्य गिरिर्भाति	१३६
भूषणायैव सालोऽस्याः	४४५	मङ्गलैश्च प्रबुद्धयशु	४६०	मध्ये तस्य विनीताख्या	५४५
भूसुवर्णादित्प्रोक्त-	७७	मङ्गलि कथेत्याकुलो माता	३८६	मध्ये प्रवर्तते तस्मा-	३७६
भूसुवर्णादिभूयिष्ठ-	७७	मञ्जनि न्यनुजादीना-	१५५	मध्ये रङ्गमुदात्तचित्तविसरो	३७२
भूत्यान्महीपतिः स्नेहात्	३५५	मञ्जुपायां विनिक्षिप्य	२६०, ३६२	मध्ये वनं परिक्रम्य	२८७
भूत्या दृढप्रहार्याख्यः	३८६	मणिकेतुः पुनश्चास्य	१०	मध्ये विधाय गत्वा द्वाक्	३१२
भूत्या वृषभसेनस्य	४६३	मणिमतिः खचरी गुणभूषणा	३३०	मनः पर्ययसंशान्तः	१६, २५२
भूत्यैस्ततस्तमानाय्य	५०६	मतिः श्रुतं तपः शान्तिः	४४८	मनःपर्ययसद्बोध-	२१०
भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ	३०४	मतिरस्तु ममैषालया	४४३	मनागवसरावेक्षी	३००
भेदोऽद्रेः फणिमण्डपः	४४१	मत्करे विद्यते यस्मै	५२१	मनुष्यजननः सारं	८
भोक्तुं वीरपुरं तस्मै	३३५	मत्वेति ताम्यो दत्त्वेष्टं	४८	मनुष्यजन्मसम्प्राप्तं	५१५
भोक्तव्यमिति निर्बन्धा-	५४०	मत्वेति वा द्रुतं पेतु-	३१७	मनुष्याः संशिनस्तिर्य-	३६२
भोक्तव्यमिति विप्राय	४७५	मत्प्रिया पुत्रलाभार्थं	३६६	मनुष्याणां परञ्चानुः	५६२
भोगतृष्णामपास्याद्भु	४६	मत्पुत्रस्य युवां क्षन्तु-	१५७	मनुष्याणामनाचार-	५६०
भोगनिर्वैगयोगेन	४५८	मत्वाकृष्य वनुर्बाण-	२६३	मनोवाक्कायवृत्तेन	१५८

मनोवैगोऽन्यजन्मोऽद्य-	४६३	मया विनाऽऽत्यशोभा स्या-	२७	महान्युदयसम्पादि-	२८३
मनोहरमहोद्याने	८२, ११५	मयस्त्रीवसंशस्य	८५	महामण्णिरिवाम्भोधौ	२०४
मनोहरवनेऽगच्छत्	१७६	मयेयं कन्यका तस्मै	५०८	महामल्लो बहून् जित्वा	१३२
मनोहरवने धर्म	५४	मयेत्येवं यदि त्याज्यं	४६६	महामोहग्रहग्रस्त-	१०६
मनोहरवनोद्याने	११२, ४६५	मथैवं सुलला हेतो-	२७६	महायति. समुत्तुङ्गः	१२५
मनोहरादिशामाभिः	५८३	मरीचिरेप दुर्मार्ग-	१४४	महायोगात् प्रतिज्ञातात्	१७७
मन्त्रशालां प्रविश्यात्म	२८५	मर्त्याकारं प्रपन्नो वा	५०१	महारजपुरे विश्व-	१४२
मन्त्रिणैव कृतं सर्व-	२४१	मर्यादाकारि यत्समा-	२०६	महाफतोऽपि तत्रैव	७
मन्त्रिवर्गं ममाहूय	१४२	मलधारी परिभ्रष्ट-	३५०	महावंशो मही तस्य	२३३
मन्त्री चिरं जननधारिनिधौ	२४३	मलयाधिपचण्डशासनो	१२७	महाविभूतिसंपन्नः	५८
मन्त्रोत्साहप्रभूक्ता च	२८२	मलयाधीश्वरो नाम्ना	१२४	महाविभूत्या प्रत्येत्य	१५६
मन्त्रौपधिप्रयोगेण	५४१	मलयानिलनिःशवासा	७१	महाविभूत्या सम्प्राप्य	१४५
मन्त्र्यादि-तिकृत्तेषु	५३०	मलये कुञ्जकारुल्याने	४३०	महाव्रतमहासाम-	४६५
मन्दगन्धवहोदधूत-	२६६	मलिनाः कुटिला मुग्धैः	४६३	महाशिलाखिलाङ्गानि-	४१०
मन्दमन्दप्रमे भानौ	२६६	मल्लिर्निजविवाहार्थ	२३५	महाशिलाभिस्तैः सर्वै-	४१५
मन्दराम इवोत्तुङ्गे	१४०	मल्लिप्रभृतयोऽभूव-	२४७	महाशुक्रविमानेऽभून्म-	८८
मन्दरादिगणाधीशः	१००	मल्लोर्जिनस्य सन्तानेऽ-	२३८	महाशुक्रे ततो देवस्त्रि-	५६५
मन्दमानशिरोः पित्रो	५१८	महाकालेन दृष्टः सन्	२६८	महाशुक्रे ततो देवः	५६५
मन्दारप्रसवारुध-	३०१	महाकालोऽप्यभिप्रेतं	२७६	महाशुक्रे विमानेऽभूद्	११४
मन्दाशुभानुभागोऽयं	४१	महाकालोऽभवत्तत्र	२६२	महाशुक्रे समुत्पन्नाः	३६४
मन्दिरारुखेऽग्निभित्रारुख्यो	४८८	महागुणेषु यत्सत्य-	१०३	महासेनस्य सुन्दर्या-	५४६
मन्दिरायां जगत्ख्यातो	४४८	महाजलाशया नित्य-	१६६	महीपतिरहं देवी	४६६
मन्दोदर्याः कुलं रूपं	२५६	महादुःखोर्मिसङ्कीर्ण-	१५७	महीपतिः सुवर्णाभिः	२२०
मन्दोदर्यादितदेवी	३२२	महादेवी च तान् दृष्ट्वा	५१८	महीभुजः परे चाति-	३५५
मन्दोदर्युपस्थस्या	३०८	महाद्वारेण सम्प्रा य	५३८	महीभुजौ निशम्यैक	१६५
मन्ये नैसर्गिकं तस्य	५२	महानुदनस्तस्य	४८२	महीयशोऽन्युपायेन	२८६
मम नेत्रालिनोः प्रीत्यै	२८७	महान्ममैव योग्योऽसौ	२४१	महीरट् कोटरस्थेन	५३३
ममागमनमेतच्च	२६८	महापुराणवाराशि-	४४३	महीशमण्डले साकेते	२५६
ममापि युवराजत्व-	२६७	महापुराणस्य पुराणपुंसः	५७७	महीशोऽश्वपुराधीशो	४३१
ममायमकरादीदृक्	३४८	महापुराधिपाद्याश्च	२७५	महेन्द्रजालकानीत-	४४७
ममास्य च गुरुर्नान्यो	२७१	महापुरे वायुरथो महीपतिः	६६	महेन्द्रविक्रमस्येष्ट-	१८२
ममेति मन्यमानोऽन्यः	३१६	महापूजां सदा कुर्वन्	१६४	महेन्द्रविक्रमायैषा	४०३
ममेति शेषमप्याह-	१५६	महाप्रस्थानकर्माणः	४२२	महाद्योगो विधातव्यो	२८२
ममेदमिति भात्येव	३०३	महाफलप्रदास्तुक्ता	१६८	महोपसर्गं पूज्यस्य	३४७
ममैव सर्वरत्नानि	३०७	महाबलमहीशस्य	४८८	महा मनोहरोद्यानं	४४६
ममोपकारकावेता-	२२४	महाबलाख्यः पुरि नन्दने नृपः १२७		मां निविष्टं समभ्येत्य	४३७
मया कृतो महान्दोषः	२५४	महाबलोऽभवत्क्षु-	७	मां भोजयेत्युवाचैत-	५११
मयाः तदुक्तमित्येत-	२६५	महाभये वा सम्प्राप्ते	३१६	मांसाद्याहारसंसक्तो	४७४
मया त्रैलोक्यराज्यस्य	२७	महाभयेषु सन्धर्तुं	२३३	मा कृथाः पापदुःखाप-	३१२
मया नीतमिदं देवी-	३०३	महाभागहमर्थी त्वां	३५८	मागधादीन् सुरान् जित्वा	३८२
मयार्थलाभं निश्चित्य	१५१	महाभिमानमादित्य-	४६७	मागधोऽपि शरं वीक्ष्य	३२३

माघज्योत्स्ना त्रयोदश्या	१३०	माघोनवत्सरे दाले	२४७	मुहुर्विधृतमूर्धानः	३१८
माघशुक्लचतुर्थ्यां सा	६८	मासैः षोडशभिः पञ्च-	२, २६	मूढः प्राणी परां प्रौढि-	३०
माघशुक्लचतुर्थ्याहः	१६	मासैः षोडशभिः सार्द्ध-	१६८	मूढात्मनः स्वयं चैत-	३३६
माघे मासि धिते पक्षे	४	माहासः कुलसौरुण्य	२८६	मूलभेदेन तान्यष्टौ	२२४
मातङ्गास्तुङ्गदेहत्या-	३१८	माहेन्द्रे दिविजी भूत्वा	४०१	मूलात्प्रभृति भूजस्य	४६२
मातरः केवलं नैताः	३६०	मित्रवीरो वनेशस्य	४८५	मूलान्युत्खन्य सङ्गहन्	३४७
माताग्निना च तस्यैव	५०६	मित्रस्य रुद्रदत्तस्य	३४८	मूले क्षुपविशेषस्या-	३४७
माता ते दान्तमत्यन्ते	११३	मिथिलां प्राशित्समै	२३६	मृगाः काश्चिन्न बाधन्त	५५०
माताऽपराजिता केशवती	२४१	मिथिलायां महीपालः	३३२	मृगानितस्ततो घोरं	३८५
माता श्रीनागदत्तस्य	४६३	मिथ्यात्वं संयमाभावं	१४८	मृगावत्यामभूत्पुत्र-	४५१
मातैर्षां यमुनादत्ता	३८८	मिथ्यात्वाज्ज्योतिषां लोके	२२२	मृगोऽगाद्वायुवेगेन	१५३
मात्रा संयोज्येत्याह	५१७	मिथ्यात्वोदयसम्भूत-	१५८	मृग्यमाणो हि मे वल्ली	५१०
माघे मासि धिते पक्षे	१००	मिथ्यापापापवादाभ्या-	२७४	मृताः केचित्पुनः केचित्	३२०
माघवे शुक्लपक्षान्ते	१२८	मिथ्यैव प्रत्यपद्यन्त	४८०	मृतिप्रयोगसम्पादी	२७०
मानभङ्गः सपत्नीषु	२६०	मुक्तावलीमुपोष्यासी-	४०२	मृत्युं वा धर्मचक्रेण	१७१
मानभङ्गेन भग्नः	१३२	मुक्त्वा विधाय सन्धानं	५४७	मृत्वा ज्ञाताष्टमे कल्पे	४०२
मानसः स चतुर्भेद-	१५६	मुक्तिमार्गं नयन् भव्य-	२३७	मृत्वा तत्रैव कालान्ते	१५१
मानस्तम्भा सरांस्येता	१७२	मुक्तिमार्गं समाश्रित्य	७६	मृत्वात्र ग्वगशैलोदक्	११८
मानुषाणां सुराणाञ्च	४६१	मुखाभ्मोजानि सर्वेषां	४६१	मृत्वा माहेन्द्रकल्पेऽभू-	५४२
मानुषोत्तरमूर्धान्त-	१८८	मुखेनाभ्मोजमक्षिम्या-	१४१	मृत्वा पुलिन्दीसञ्जाता	४०२
मा भैरीरिति सौहार्द	४५०	मुख्यसर्वशंससिद्धिं	४७७	मृत्वा सम्प्राप्य तद्द्वन्द्वं	५१२
मा भैरीस्त्वं बराकोऽसौ	३६०	मुख्ये फणीन्द्रनिश्वास-	२६१	मृत्वासावमुरेन्द्रस्य	२६१
मा माया मा वृथा यामा	११	मुख्यतां मङ्गद्वयं याव	२६४	मृत्वा हैमवते भूत्वा	४०५
मामिहान्योऽहमप्यन्य-	३८३	मुद्रिकाञ्च प्रसजौ तौ	४१५	मृदङ्गादिगजेन्द्रादि	१५०
माययाऽसुरपापस्य	२७०	मुनिं धर्मशक्तिं नाम्ना	५८	मृदङ्गे पतिते भूमौ	५३५
मारीचमानसे स्निग्धः	२७६	मुनिं सागरसेनाख्यं	५४	मृदवः शीतना ऋक्षणा	३६१
मार्गशा गुणजीवानां	३२६	मुनिः संन्यस्य कालान्ते	१७७	मृदवस्तनवः स्निग्धाः	२०४
मार्गशीर्षसितैकादशी-	२३५	मुनिगुप्ताभिधं धीक्ष्य	४८८	मृदुबाहुयुगान्तीत्वा	२०३
मार्गशीर्षे धिते पक्षे	६८, २१६	मुनितारागणाकीर्णः	१७	मृष्टाशनं सम्पोष्य	५४०
मार्गे स्थितां सदा यादवेशितां	३७५	मुनिर्धमापे भो भूप	११६	मेघनादः प्रतीन्द्रोऽभू-	२११
मार्गेऽस्मिन्वतमानस्य	१६६	मुनिर्भवहुनिः प्राङ्गे	२३	मेघमालव कालेन	४११
मालां वा लुप्तवारां तां	४६८	मुनिमातपयोगेन	२५५	मेघभीरनयोः सन्तुः	२७८
मालां सन्तानकाष्ठानां	३२४	मुनिश्च तद्वचश्चेत्-	४५१	मेघाद्विपुत्रिशेषो वा	४५६
मालां सम्प्रापयत्प्रीत्या	३६२	मुनिसुव्रततीर्थेश-	२५६	मेघामरकुमारोप-	४२०
मालान्तकनका सिद्ध-	४०२	मुनिसुव्रततीर्थेशसन्ताने	३३२	मैत्रीभावः ससन्धिः स्या-	२८२
मासमात्रं परित्यज्य	१६८	मुनिस्तदिङ्किताभिज्ञः	५५३	मेरुमन्दरमहाभिषानकौ	१२०
मासान्पञ्चदशप्राप्त-	२०३	मुनीनां दुर्विधानां च	७७	मेरुष्यार्थिकाधार्यिकाभि-	२२
मासान् षोडश मासार्द्ध	२३४	मुनीन्द्रादावयोर्गस्याः	४१७	मेपरूपेण सम्पातात्	४१८
मासार्द्धकृतसंप्रामो	१५७	मुनेर्षां विनयेनैव	४४५	मोक्षमार्गं इति श्रुत्वा	४७२
मासे भाद्रपदे ज्योत्स्ना	६०	मुनौ सागरसेनाख्ये	५५२	मोक्षमार्गमनुष्ठाय	३२८
मासेष्वहःसु मासाधे-	५५८	मुसुक्षोर्दृष्टत्वस्य	७६		
		सङ्गमुद्गुस्तदाकर्ण्य	१०६		

मोक्षमार्गे स्थितः पाता	१६३
मोक्षयित्वानुबुध्यैतौ	१७३
मोहं विधित्सुभिस्तस्य	५३१
मोहनिद्रां विहास्यन्ति	३४
मोहमल्लममल्ल यो	२३३
मोहशानुर्हत्तच्छायो	३४
मोहोदयोभयाविद्ध -	३६
मौनेनावस्थिता वीक्ष्य	५२३
मौलिमौपधिमालाञ्च	४१५
[ य ]	
यः कर्मव्यतिहारेण	१६०
यः पातालमुखीवाण्यां	४१५
यः पुत्रवदनाम्भोजं	४७
यः संज्वलनसंश्रम्य	१५८
यः स्वर्गासारसौख्याधि-	६८
यन्त्रिलारव्योऽनुजस्तस्य	४००
यद्गी भविष्यतो राज-	४६५
यद्गो राजमती कार्या-	३८७
यज्ञं कथं चरन्त्यायां	२५८
यज्ञधिष्णं समालोक्य	२७५
यज्ञशब्दाभिधेयोरु-	२५७
यज्ञाय वेधसा मृष्टा	२६६
यज्ञार्थत्वाच्च तस्यारित	२७२
यज्ञेन प्रीणिता देवाः	२७०
यज्ञे पशुदधाद्धर्मो	२७२
यतः परं तदुद्भूतेः	३४३
यतेः समद्रुगस्य	४३३
यतयोऽयुतपूर्वाधि	४३६
यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धि-	२६
यत्किञ्चित् सञ्चितं पापं	२०१
यत्कमानम्रराजन्य-	५७३
यत्कक्ष्यन्नित्तृदात्मनि तद्धि	५६७
यत्सर्वं पाण्डवाः श्रुत्वा	४२२
यथाक्रमं नृपोऽयुक्त्वा	२३४
यथा तथाहं कर्तास्मि-	२५६
यथान्यायं प्रजाः सर्वाः	५२६
यथान्यधोपयुक्तं सः	२७२
यथा न्यासीकृतं हस्ते	१०६

यथा बहुगुणीभूता-	२०८
यथाविधिप्रतीक्ष्यैन-	४१५
यथा वृसान्तमेवेषु	५१८
यथा राज्यादिभिः प्राञ्ची	२७२
यथास्थाननिवेशेन	२०२
यथेष्टे विचरेत्येतत्	३५४
यथोक्तं भावयित्वैता-	४३३
यथोक्तभूभुजा भावा-	५५५
यथाक्तविधिना सिंह-	४५३
यथोचितमभिषुद्धस्य	६०
यदातश्चनतक्रेण	२२३
यदि कश्चिच्चतुर्थोऽरित	१८०
यदि कुप्येदियं ताप-	४८५
यदि क्षत्रियपुत्राणां	६
यदि निर्मत्सरासि त्वं	५०४
यदि पूज्य प्रियां प्रेक्षे	३८३
यदि रोगजरादुःख-	१३६
यदि वाञ्छेरिति क्रोधात्	४८४
यदि विधेत चर्यायाः	१२५
यदि सकलकरीन्द्रप्रोक्त-	५७८
यदृच्छ्याप्यसम्भेदं	२३
यदृच्छ्या धनं यात-	१११
यद्यज्जनपदस्योक्तं	४५
यद्यदालोक्यते तत्तत्त्व-	४६
यद्यच्चाञ्छिष्टदोषञ्च-	४७५
यद्येव तत्समायाग-	५४८
यमान् सोऽपि गतप्राणान्	३६५
यशः कुन्ददुर्दानर्भासि	१६६
यशः प्रकारथत्याशाः	६६
यशसा लेश्यया चास्य	५७
यशोघरगुरुद्दिष्टं	७
यशोधरा तथा रत्नायुधः	११५
यस्मादाभ्यां कुमारभ्यां	२८६
यस्य जीवादिभावानां	४७६
यस्य नामापि धर्तृणां	३३१
यस्य निष्कममाकम्ब्य	४६७
यस्य प्राशुनलांशुजालप्रखरः	५७४
यस्य हस्तगतो जेतुं	५४८
यस्याशां मालतीमाला	४४६
यस्यानताः पदनखै-	५७३

यस्यास्याञ्जजवाक्त्रिया-	१७३
यस्योत्तुङ्गमत्तञ्ज	५७६
यस्योत्पादमनुप्रसादमगम-	७५
यागः सिद्धयति शक्तानां	२५६
यागमृत्युफलं साक्षा-	२७२
यागमृत्युफलैर्नैषा	२७०
यागव्याजं समारभ्य	३५८
यागे यज्ञः क्रतुः पूजा	२५७
यातु मत्पादसेवां स	३१०
यातैः कतिपयैर्देवी	४८
यादवाश्च तदायान-	३७५
यादवैः सविराटाख्यैः	३८०
यादृच्छिकं न चेदन्यत्	२८८
यान्तीं द्रष्टुं समायाता	५५१
या प्रागवतरद्धानी	१७५
यामेति दूतेनालय्य	१७०
यावदौदयिको भाव-	५५
यावद्धरा जलानिधि-	५७७
यासौ पद्मलता सापि	४६३
या स्वस्वैवास्य सा विद्या	२५
युक्तमेतदयुक्तं चे-	१३८
युगपत्त्रितयं कर्म	३६६
युद्धं धनरयाधीशो	१८६
युद्धभूमिधिष्ठाय	३१६
युद्धवीर्यं प्रहरणावरणां	१५६
युद्धान्ते नौ तदा वीरो	२४२
युद्धायास्फाल्यतां भेरी	३१५
युद्धे पुरुषकारेण	५१६
युद्धे भङ्गं विधायेन्द्र -	४०३
युद्धे श्रीविजयोप्येनं	१५६
युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य	१६२
युद्धाचिरं पदातीनां	१४७
युद्धाचिरं ह्यग्नीव	१४७
युद्धाच्योऽन्येन्यं	१८६
युद्धा बहुविधेनामा	२३१
युद्धा रणाङ्गणे प्राप्त-	४८२
युधिष्ठिरः समस्तस्य	४२२
युयुत्सया ययौ वीक्ष्य	५१५
युयुत्सवो विपत्ताश्च	५१५
युवाभ्यां केन तद्वाच्य-	२२३
युवाभ्यामुक्तमेवेदं	२८३

सुम्पदीयं भुवि ख्यातं	१६६	रत्नमाला हर्लं भास्वद्	१४८	राजपुत्र समुहिन	२२७
सुम्पदश्रे महारत्नं	६२	रत्नवत्या च सम्प्राप्त्य	५२६	राजभिर्बहुभिः सार्धं	५६, २३४
येन तादृग्विभं प्रथमं	२६०	रत्नसंचयनामात्र	४०६	राजमार्गा विराजन्ते	२०१
येनाप्तानिमिषेश्वरैरयमयी	२४	रत्नहारं त्रिरीटं च	३२४	राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि	५१
येन शिष्टमुत्सवर्त्म विमुक्ते	२३७	रत्नाद्युपायनोपेतं	६२	राजसिंहचरो लङ्घि-	१३३
येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे	१४६	रत्नानि चात्मसात्कृत्य	३०४	राजाऽत्र व्याकुलीभूय	११५
येषां प्रमेय वमुष्णं सुमुखप्रमाणं	५६६	रत्नानि निधयश्चास्य	५३	राजा तामिन्द्रसेनस्य	१६२
योगालम्बनसंश्रुं ह्यं	१२२	रत्नान्युपायनीकृत्य	३७८	राजा नन्दाभिषत्तस्मात्	५६५
योगस्ताभ्यो महास्तस्य	२३३	रत्नान्येतानि सत्तैव	३२५	राजा प्रागपराजितो जितरिपुः	३८
योगोऽयमुष्णिभिः प्रोक्तो	२५६	रत्नायुषोऽन्त्यकल्पोत्थ	११६	राजा भद्रपुरे वंशे	७२
योऽजायत क्षितिभृदत्र	७०	रत्नावलंसिका माला	३२५	राजाभूर्नलिनप्रभः प्रभुतमः	८३
यो ज्ञानशायकज्ञेय-	१५८	रत्नैरपूरयन् देवाः	७२	राजा महाबलस्तत्र	१६
योद्धुं प्रक्रममाणं मां	१५४	रथनूपुरनाथेन	१४६	राजा राजपुरे सत्य	५०२
योद्धुमाभ्यां समं भीम	२४२	रथनूपुरमुद्दिश्य	१५६	राजापि श्यामलाख्यां स्वां	३५५
योमयं मम कर्ताऽत्र	५४६	रथनूपुरराजासौ	१४७	राजा श्रीधरदेवोऽपि	११४
यो रत्नसञ्चयपुरेशमहाबलाख्यो	२४	रथान्तकनकस्य स्वं	४०६	राजा सिंहपुरस्थाह-	५००
योषितां भूषणं लजा	४८	रथान्तकनकस्यायं	४१०	राजा सिंहरथः ख्यातः	१४२
योषित्सु व्रतशीलादि-	४१३	रथैर्दिकचक्रमाक्रम्य	३१८	राजा सूर्यप्रभरत्स्य	३४०
योषाः पुष्टा महामात्रा	५२५	रमणीयामिधं कृत्वा	५०२	राजास्वयम्वरोनाम्ना	२०
यौवनं जरसा प्रास्यं	८	रम्भास्तम्भादयोऽन्येपा-	२८	राजैव रञ्जिताशेषः	४६४
यौवनापूर्णसर्वाङ्ग-	१४२	रम्यरामानुखाम्भोज-	१६	राज्ञः काश्यपगोत्रस्य	३७७
[ र ]		रम्या च रम्यकारख्या	१८६	राज्ञः कुण्डपुरेशस्य	४६०
रक्तस्य मनसा तृप्तिः	२५	रश्मिवेगसुवेगादि	१५६	राज्ञः क्षमकराख्यस्य	१७७
रञ्जितास्यारविन्दाख्यो	४२६	रश्मिवेगादिभिः सार्द्धं	१५६	राज्ञां महागुणास्तास्मिन्	३३
रञ्जित्वाऽस्थात्कुमारं तं	२२८	रसभावसमाधिष्ठं	४५५	राज्ञां स भक्तिनाम्ना	५५८
रञ्जित्वैतत्सरोऽन्येषां	५१७	रसातलं गतोऽन्यथ	५०५	राज्ञा तुष्टवतावादि	३५७
रघुः पुरातनो भूपः	३४४	रसायनादिपाकाख्य-	१५२	राज्ञा त्वं प्रतिपिद्धोऽसि	३५४
रजस्येवं नभोभाग-	३१६	रहस्यकार्यबाह्यत्वं	२६०	राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं	१०
रञ्जितस्फटिके तत्र	१५१	राक्षसेन विवाहेन	३२०	राज्ञी राजा समालोक्य	४६५
रतिरच्छिन्नसन्ताना	६६	राक्षसेन हतस्तस्मान्	४६०	राज्ञी चंप महापुण्य-	५२०
रतिप्रेया रतिश्चैत्य	१६५	रागादिदोषनिर्मुक्तो	४४३	राज्ञेव योग्यदण्डेन	२६८
रत्नं ममानिवेद्येदं	३०७	रागादि दोषहीनत्वा-	४३३	राज्ञोक्ते प्रतिथतो हस्तुं	२५१
रत्नतेजाः प्रिया तस्य	५१२	राघवः कुशली टवं	३०६	राज्यं विनिर्जिताराति	२५
रत्नत्रयेण येनाप्तं	६२	राजगोहं जरासन्ध-	३६१	राज्यं विभज्य तत्सैरं	५३०
रत्नप्रभां प्रविश्यैव	४५४	राजगोहं समीक्ष्यैतं	३६४	राज्यं विभज्य दिक्पालै-	३५३
रत्नप्रभां प्रविष्टः सन्	४७३	राजगोहं समुद्दिश्य	४६६	राज्यभारं परित्यज्य	५१८
रत्नप्रभाषिले सर्पा-	४०६	राजगोहाद्विनिर्गन्तु-	३५४	राज्यभारं समारोप्य	७२, २१२, २४६, ३३१
रत्नमालां गले कृत्वा	५४८	राजते स्म तपोराज्ये	११	राज्यभोगैः स्वकान्ताभि-	१६५
रत्नमाला गदा सीरो	३८३	राजन्नेतानि शास्त्रोक्त-	३६८	राज्यमस्यैव मे स्नेहाद्	४५०
रत्नमाला तथोरासीत्	११७	राजपुत्रमनुस्वाहं	२८३		

राज्यलक्ष्मीं चिरं भुक्त्वा	४५५
राज्यलक्ष्म्या व्यभाल्लक्ष्मी	१७८
राज्यसंप्राप्तिकालरते	२३६
राज्यस्य कतमोऽत्रेति	४७१
राज्यस्य दुर्भरं भारं	२६
राज्यव्याहोऽयमेवेति	४७१
राज्ये पञ्चसहस्राणि	३३३
रामं वा तुगरुद्ध-	२६२
रामदत्ता तलश्च्युत्वा	११४
रामभट्टारकेणाहं	३०५
रामस्थापि गदा रत्नमाला	८५
रामाभिप्रेतकार्यस्य	३०५
रामे चेत्येव तद्विद्धि	३०१
रामो नाम बलो भावि	२६४
राक्षसन्तेषु नः शत्रु-	३०६
रावणानुजसुभ्रां-	३३
राष्ट्रेऽन्मित्रेऽ विख्याते	५११
रासमीरुपमापाद्य	३६७
राहुग्रभतर्कमम्पाताद्	३२७
रिपुतुनयाऽदृष्टः पृथ्वीकि-	३१
रुक्मिणीं सत्वभामा च	३८३, ४१६
रुक्मिण्याथ महाद्व्या	३६६
रुचकाख्ये विमानेऽयं	११५
रुचिः प्रवर्तते यस्य	५५७
रुद्रदत्त त्वया प्रशा-	४६६
रुद्रदत्तोऽगपरवाभ्री	४६६
रुपिती राक्षसो वृत्त	३१३
रुपं पञ्चविधं श्वेत-	५२३
रूपमालोक्य तत्कोऽथ-	१५३
रूपयौवनमौन्दर्य-	६३६
रूपलावण्यकान्त्यादिः	२०१
रूपशोभां विना नेमः	२८
रूपादिगुणसम्पत्ति	१४१
रूपादिगुणसम्पत्त्या-	१८०, ३३६
रूपाया स्त्रीगुणास्तस्याः	४७
रूपान्वयवयःशिक्षा	५४
रूपिणी सुभगानृत्यगीत-	६१
रूपीय शौर्यमखिलं	३७२
रूपेण केवलनेयं	१७५
रेणुकीत्यमिधां तस्या	२२४

रोगोत्पासां तु श्रेयं	३६
रोधो गुत्यादिभिन्नेषां	२४४
रोहिण्याः पुण्यभाक्पद्म-	३६०
रोहिण्यतो मनोवेगा	१६५
रौद्रगात्रसगन्धर्व-	४६०
रौरवेऽजनि दुष्टात्मा	२७०
[ ल ]	
लक्षं त्रयं त्रिनिदिष्टा	२२१
लक्ष्मणैरेव भिक्षाशी	२६१
लक्ष्मणयायुःपूर्वोक्त	१२५
लक्ष्मित्रितयसम्मिण्ड-	२३
लक्ष्मणप्रमाप्रेक्त	२३
लक्ष्मणश्च सुपूर्वाणां	४०
लक्ष्मासमायुश्चत्वारिंश	२०४
लक्ष्मणं नायकं वृत्तना	३१०
लक्ष्मणप्रमुखान्मुख्यान्	३१३
लक्ष्मणश्च जगत्ताद-	३११
लक्ष्मणाक्रमविक्रान्ति-	२८८
लक्ष्मणापि मुनि नत्वा	४०१
लक्ष्मीः परिकरतरय	१४०
लक्ष्मीः सहचर्या तरय	६८
लक्ष्मीगनश्री तेषां	२५
लक्ष्मीविधादिचक्रेशं	५१५
लक्ष्मीललाटपट्टेऽस्मि-	२०५
लक्ष्मीविकाशमस्यायान्	३४
लक्ष्मीलाङ्गनमेवास्य	४५१
लक्ष्म्यौ कपोलयोलक्ष्म्या	२७
लक्ष्म्यौ नवे युवानौ	१६७
लक्ष्म्याभ्यर्णानिवृत्तः सन्	५१०
लग्नगोचरसंशुद्ध-	३२४
लक्ष्मादाहेन दाहं च	३१३
लक्ष्मादीपादिषु स्वैरं	३४७
लक्ष्मानगरमासाद्य	८६८
लक्ष्मापुरग्रहभगि	२१४
लक्ष्मापुरेऽप्यगुगतौ	३११
लतां समुत्सुकृतनीं	२८७
लब्धकालादिगतोऽपि	३६
लब्धनिष्क्रान्तिकल्याण-	४
लब्धवाधिर्नितान-	२०८
लब्धबोधः समाश्रित्य	१७७

लब्धबोधः समुत्सुक-	
लब्धलौकान्तिकरतोत्रः	७४
लब्ध्वा प्रीतिङ्काराहान-	५४५
लभेयामिति तद्राज्य-	५४५
ललज्जिहाशातास्त्युय-	४६३
लामो लाभेषु पुत्राणां	६
लिखितौ वा सजीवानां	४५७
लिलङ्घयिष्येऽन्योऽन्यं	२२
लीलावलोकनेर्दासै-	३६०
लुब्धो न लभते पुण्यं	५२
लेश्या यस्य मृगालनालधवला	६५
लोकद्वयादृतं मरणा	३२७
लोकद्वयद्विदो नान्य-	२५३
लोकानन्तरं नत्वा	५०६
लोकनालन्तरस्यापि	१२८
लोकनालालिखितानां	२०४
लोकमानो नमो राम-	२६२
लोकमानो विभङ्गेन	४३८
लोकेन च त्रिसुहाकुली-	४७४
लोकाऽयं देवलोकौ वा	८१
लोचनान्यां हरेर्वाप्य-	४५६
लोभधर्मासुगाह्यादि-	३०४
लोभाक्रान्ताशयां देशात्	२६७
लोभात्सहस्रब्राह्मण-	२३०
लोहनाना चतुर्थः स्या-	५६४
लौकान्तिकैः समभ्येत्य	१२३
[ व ]	
वक्तुं धारयता यशो	२६८
वक्तव्येतिनिमित्तानि	४१३
वक्तृश्रावकथाभेदान्	१३८
वक्त्रलीलां दधद्वाङ्म-	१३६
वक्त्रादधनमसौ वारि	२८८
वङ्गाख्यदेशे मिथिलानगरे	३३४
वचस्यत्रयिते तस्य	२५७
वचोऽनेचद्विचारोच्चै-	३१३
वज्रपातापितात्तरमा-	३७०
वज्रमुष्टिस्तद्रालोक्य	३६०
वज्रायुषकुमारस्य	१८०
वज्रायुषेऽथ भूताथे	१८०
वज्रण घटिते जङ्घे	२८
वट्टमसनीपस्थो-	४७०

विनेयोऽहं कृतभाद्रो	४६८	विलोक्य गन्धमाख्यादि-	३६८	वश्वभूतिः पतिस्तस्य	८४
विपाकस्यपर्यन्त-	७२	विलोक्य चाग्णद्वन्द्वं	५१७	विश्वभूतिस्तपः प्रायात्	८४
विपुलाविमललक्ष्मी-	१८	विलोक्य चित्रचूलाख्य	१८४	विश्वभूतेविशाखादि	८४
विपुलाद्री हताशेष	५२७	विलोक्य तं महानाग-	४३०	विश्ववस्यास्खलितं प्रशस्ति-	५७१
विप्रस्थं षट्प्रमावादी	४७८	विलोक्य तं मृगं मत्वा	४४४	विश्वान् देशान् विद्वत्यान्ते	३८७
विकलानिभिषत्वा स्मो	८३	विलोक्य तद्बले भङ्गं	५२६	विश्वान्यैषयिकान्भोगान्	४३४
विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां	६६	विलोक्य पाण्डुभूपालो	३४५	विश्वान्वलोकनभित्तन्वदनन्त-	५६८
विभाति गोपुरोपेत-	२०१	विलाक्य भवति श्रीत्या	४८४	विश्वाना व्यानशो तस्य	१७८
विभाषि भवतोस्तेजो	२८१	विलोक्य मुद्रामुद्दिद्य	४५२	विषयद् मुसङ्गीणं	४६५
विभीः शकनापि किं मर्तुं-	२५२	विलोक्य रागाद् भूपेन	१४५	विषयाधिपतिभूत्या-	२७१
विभीषणशान्तिवैन	२७०	विलोक्य विहितक्रोधौ	१७३	विषयाल्पमुखेष्वेवं	५३४
विभीषणादयः केचित्	३२८	विलोक्य स्वयमायेत-	४७८	विषये पुण्डरीकिण्या-	४०१
विभीषणादिभिश्चामा	३२८	विलोक्यानङ्गनिर्मुक्त-	४८४	विषये पुष्कलावत्यां	३४१, ४४४,
विभूतिमद्वितीयैवं	३६४	विलाक्यानन्तरं राज्ञा	५४५	४५६, ५३८	
विभूष्य पितरौ चास्य	४६१	विलोक्यापातमुल्काया	५०	विषये मङ्गलावस्थां	५३
विभूष्य भूषणैः सर्वै-	५७	विलोक्यास्मात्क्रियद्दूरं	४६६	विषये वरसवासाख्ये	४८२
विभ्यन्मृत्यास्तमाधावन्	३३४	विलोपितस्तदा पद्म-	४०५	विषयेषु तर्कवाचो	३
विमलवाहनमाहवदुद्धरं	५	विक्रान्तातंथ्यानस्य	४३१	विषयेषु विपक्तः सन्	३३७
विमलायाः सुता मङ्गो	३८६	विवादाऽभूमहारतत्र	२६७	विषयेरेव चेलीखणं	७४
विमलेऽब्धसमे वाधे	६७	विवादां याद भङ्गाऽत्र	२७३	विषयल्लोफलाभ्याशु-	४०५
विमानेऽनुपमे नाम्ना	६३	विवाहविधिना तौ च	५२४	विषयस्तनपयःपाय-	३६७
विमाने श्रीवरो देवो	११३	विवाहविधिना पद्म-	४६२	विष्टामालोक्य बालस्य	५४०
विमाने स्थापयित्वाशु-	४१८	विवाहाचित्तिन्यासै-	१४५	विष्टा लुद्विनादानि	५५६
विमुक्तनन्निभिः सार्धं	४६६	विशाखनन्दः संसारे	४५१	विष्णुयोगे महाभाग-	८०
विमुक्ताऽहृदिमार्सं	३१	विशाखनन्दरतं दृष्ट्वा	४४६	विष्णाः स्वयम्प्रमायां च	१४८
विमुज्य लोचने तस्मै	२७६	विशाखनन्दी तं दृष्ट्वा	८५	विष्णार्जरेत्कुमारेण	४१६
विमुक्ताऽस्मि वारिण्यर्ध-	५२५	विशाखनन्दा विहित-	८६	विषयजनाय मङ्गरतं	४६८
वियागमेतयाः साढु-	२८१	विशाखभूर्तिपुत्रेण	८४	विसंजितततो नन्द-	३७५
विरक्तः संसृतेः पुत्र-	६६	विशाखभूतिरेतस्य	४४६	विसर्ज्य बन्धुवर्गण	४२४
विरक्ता चेत्यया देव	२८६	विशाखभूतधरणीपतिर्वमी	८६	विसर्ज्य तथापश्चा	५४७
विरजेन शिराजेन	२६८	विशाखभूतधरतरमं	१२३	विसर्जनमर्थिलोक्येनं	३५३
विरज्य राज्यभोगात्-	२१८	विशाखज्ञ चतुर्दशो	८६	विसृज्यतामिति प्राक्ताऽ-	३११
विरज्य राज्यभागेषु	२१५	विशाखज्ञे स चक्राङ्को	२५१	विरतरेण किमुक्तन	३१२
विराटभूपतेभूरि-	४२१	विशुद्धपुद्गलारब्ध-	४६१	विरतुतामिन जनधर्य-	३८५
विरन्तःस्वामिता धर्मा-	४०८	विशुद्धयोः प्रसिद्धित्वात्	४५३	विरमयात्परित. पश्यन्	५४६
विरसान् सरसान् मत्वा	१६	विशुद्धियरिणामाना-	२४०	विद्वन्ती वने धीक्ष्य	२६८
विलाङ्गलं बलं विष्णो-	३८२	विश्रम्भज्ञाससंस्पर्श-	५५	विद्वन्मासमात्रायुः	२१०
विलासिनी करोद्धय-	५२८	विश्लेष्य पादशदिनानि	५२७	विद्वत् प्ररिथतरतस्य	५१७
विलासैर्विभ्रमेहावि-	१६४	विश्वकर्ममलैर्युक्ता	४२५	विद्वत् विपुलोद्याने	१५४
विलाक्य किल कालेन	८२	विश्वनन्दिनमाहूय	४४६	विद्वत्सुव्रताः सर्वे	३८६
विलोकिनीनां कान्तानां	५६	विश्वनन्दी तदाकर्ण्य-	४५०	विद्यायादिक्रमायां	७८



बहारमन्ते संहृत्य	६४	वेङ्क्रीधिपतिश्चायं	११४	ब्रीडया पीडितः सोऽपि	२२४
विहृत्य भाक्तिकाः काश्चि-	४२५	वैराग्यकाष्ठामावृष्ट	१३४	[ अ ]	
विः ल्य मासमात्रायुः	२५७	वैजयन्ते त्रयस्त्रिंशत्	५६	शंसन्ति निश्चिते कृत्ये	३०८
विहृत्य पुनरागच्छन्	५३८	वैजयन्तो नृपस्तस्य	१०६	शकटं भाण्डसम्भूषणं	३६४
विहृत्य विविधान् देशान्	७५	वैजयन्त्यां ब्रह्मो देवो	२३१	शकटाकारमादाय	३६७
विहृत्य विषयान् प्राप	७०	वेरं बहसि ते भ्राता	१०७	शकनृपकालान्यन्तर-	५७७
विहृत्य विहृतिं त्यक्त्वा	३२६	वैराज्यपरिवारो वा	२८८	शक्तयो देवतानाञ्च	३६७
वीक्षते स्म प्रियामीपञ्चे-	३८६	वंशालकृष्णपद्मस्य	४३४	शक्तित्रितयसम्भृत्या	२३८
वीक्ष्य मङ्गला परीक्षार्थं	३८६	वंशाख्यौत्तरनपत्तादि-	२१६	शक्तिनाममहोशस्य	३४५
वीक्ष्य बन्धःस्थले साक्षात्	४३०	वंशाखं मासि कृष्णायाम्	३२६	शक्तिभिद्वित्रयोपेतौ	१
वीक्ष्य विशातवृत्तान्तं	१६१	वंशाखस्य किते पक्षे	२०	शक्तिभिद्वयगुणमित्वा-	१४०
वीक्षां घोषवतीं चासु	३५६	वंश्यवेषं सनादाय	५२७	शक्राशया तदा तत्र	३७६
वीक्षावाद्येन हृद्येन	५८	वंश्यः सर्वसमृद्धाख्य-	५४०	शक्राशया सनानीय	४६२
वीक्षास्वयंभवे तस्य	५८२	व्यजिज्ञपन्वृषं साऽपि	२२८	शक्रादयोऽपि कञ्ज्ये	५८
वातदण्डादिशधत्वाच्चिगमाः	४५	व्यतीतं त्रित सध्यान-	३२८	शक्राद्या व्याघ्रि दूरा-	४२५
वीक्षेति कथ्यया प्राक्तो	३५७	व्यधात्तद्वैय सतादा-	४३८	शङ्कमानेति सा वीक्ष्य	३०३
वीक्षनीहारसज्ज्यात्स्ना-	७१	व्यधाय वैधता तस्य	२०५	शङ्कं विजयघोषाख्यं	४१४
वीक्ष्वाह्यकारोक्ष-	७२	व्यरमत् सा समाकृता	२६१	शङ्कतूयादिभस्तस्मिन्	५४६
वीक्षरागो पि सोऽप्याह	३४८	व्यस्ताननाभिभीष्माणि	४६५	शङ्कनिर्नामिकाख्याभ्यां	२५२
वीक्षलज्जा विमर्यादा	३५४	व्याख्येयानि त्वया सर्वा-	२६६	शङ्कनिर्नामिकौ राज्ञा	३६३
वीक्षप्रमस्त-रस्फुटं	५०६	व्याजहार दुःखमानं	३०७	शङ्कभेरीगजारति-	२०३
वीक्ष्यत्याश्च नन्दाख्य-	४५६	व्यातं ह्यप्रभया सदा विजयते	२४७	शङ्का च नलिनाभ्या च	१८६
वीक्षेनो महाधरो	४४३	व्याधः शृगालवक्राम	११३	शङ्का च परिभ्रम्य	१६२
वीगङ्गाऽऽग्रिलः सर्व-	५५८	व्याधाधिपेष्टृ तानीतं	३८५	शङ्कन्दनीलसङ्काशौ	८५
वृद्धिपण्यो वरादिश्च	४६६	व्याधमध्यमणिच्छाया-	२०६	शङ्का नाम धनदवावी	३६२
वृद्धमूले स्थिता वीक्ष्य	५२४	व्याधोहास्तुलसाप्रियस्तसुलसः	२७७	शतक्रतुः शतमखः	२५८
वृत्तक तत्र वक्ष्यामो	४६६	व्याध्यानादिर्हितं	५७५	शतत्रयं स षट्चत्वारि-	३७५
वृत्तकं तस्य वक्ष्यामो	६१	व्याध्यानानुसारं	५७५	शतसंस्तरे याते	२३५
वृषो श्लक्षणे सुवत्पशं	२०६	व्युच्छिन्ना सं तदभ्यन्तरायुः	८१	शतानि त्रीणि पूर्वाणि	४६८
वृथाटनं पतित्याज्य	३५४	व्युच्छिन्नेभुक्तिगन्भागं	२०४	शतानि पञ्च मन्वस्य	१४२
वृथात्वं याञ्चिता विप्र-	३५६	व्रजन्वनं लवेलायां	४३०	शतानि नव विशेषा	३८७, ४६८
वृद्धग्रामं निजं गत्वा	५४०	व्रणवक्षत्रगलद्धारा-	४६७	शतानि षट्सहस्रं च	२२०
वृद्धिक्रियात्मधर्मस्य	१६७	व्रणः गन्धर्वसंभक्त-	३५०	शतानि सप्तपूर्वाणां	२१६
वृद्धिस्य स्वपक्षत्व	३७५	व्रतं तपोधनाभ्यासो	४७०	शत्रुं मम समुत्पन्न-	३६७
वृष्टिमापातयिष्यन्ति	५६०	व्रतं नैतस्य समान्यं	४५७	शत्रुक्षयकरं कर्म	२८२
वेदकोऽसि न वेद्योऽसि	६३	व्रतं प्राण यथाचेन	४५७	शब्दनिष्पादने लोपः	२००
वेदाद्भिर्द्वाद्विंशत्का	२७१	व्रतशालानिष्टेषु	१६७	शम्भुखोऽभयत्स्वामी	१६
वेदान्त सूक्ष्मसुद्धित्या-	१६०	व्रतभ्यार्भाषितं सौख्यं	४७१	शय्यातले विनिक्षिप्य	२६६
वेश्यां वधन्तसेनाख्या-	४२४	व्रतात्प्रत्ययमायाति	५५४	शरकुन्तादिशस्त्रौघै-	१०६
वेष्टिता रक्षशालेन	१३६	व्रतिनं तं व्रतयोऽपि	१८४	शरदादिद्वितीयायां	३३३
वेत्सि चेदब्रूहि सीता-	२८६	व्रतेन जायते सम्पन्ना	५५४		

शरव्याप्तिः सरित्स्वेव	३३२	शिवङ्करे तदीशस्य	४६३	शून्यत्रयद्विसप्तोक्त-	६०
शरासनानि सन्धार्य	३१७	शिवगुप्ताभिधानस्य	३२७	शून्यत्रयमुनिप्रोक्त-	६६
शरीरं न भिषप्रचर्यं	३६	शिवगुप्तमुनेरन्ते	२४१	शून्यत्रययुगाष्टोक्त	८३
शरीरभोगसंसार-	१६६	शिवभूतेः समापन्ना	४८७	शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्त-	१२३
शरीरवृद्धिस्तस्यासीद्	४६	शिवभूतेरभूद्भार्या	४८७	शून्यत्रिकर्तुत्रिख्यात-	६०
शल्येन वृषसेनेन	३८०	शीतलाख्यजिनाधीश-	३६५	शून्यत्रिकदशक्षेय-	३७
शशास्य सिंहपतेन	२६६	शीतलाम्भस्तटाकं वा	४४४	शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्त-	२४६
शशाङ्कः सेवकः प्रेमक-	५६१	शीतलेशस्य तीर्थान्ते	७५	शून्यत्रितयपक्षैक-	१७
शल्लेणाहन्तुमुद्युक्ता	४०८	शीतलो यस्य सद्धर्मः	७१	शून्यत्रितयरन्ध्रद्वि-	२३६
शाण्डिलाख्यस्य मुख्यस्य	४४८	शीलदत्तगुरोः पार्श्वे	४८८	शून्यत्रितयसप्तोक्त-	७४
शातङ्करे समुत्पद्य	३५२	शीलमाहात्म्यसम्भूत-	४६६	शून्यद्वयचतुःपक्ष-	३०
शान्तचित्तः स निर्वेदो	११३	शीलायुधो गुणव्रत	४६५	शून्यद्वयचतुः शून्य-	६२
शान्तं वपुश्रवणहारिवचश्चरित्रं	७०	शीलावहा महादेवी	४०५	शून्यद्वयद्विरन्ध्रेन्द्रि-	७४
शान्तिरभ्येति निर्दिष्टं	४७०	शुक्तिमुक्ताविशेषेण	२१४	शून्यद्वययुगाष्टैक-	३१
शान्तिवृद्धिर्जयः श्रेयः	५७५	शुक्लकृष्णस्त्रियौ	१०६	शून्यद्वयर्तुसप्तोक्त-	३७
शान्तीशतीर्थतन्तान-	२१४	शुक्लध्यानं समापूर्य	४२०	शून्यद्वयर्द्धिशून्याब्धि-	१३१
शाङ्गश्चमुलः पाञ्च-	३२५	शुक्लध्यानाग्निनिर्देश	५३०	शून्यद्वयानिपक्षोक्त-	३७
शालयो लीलया वृद्धि-	२००	शुक्लध्यानानलालीढ-	५४७	शून्यद्वयाष्टरन्ध्रैक-	१७
शालाख्यवैद्यवेपेण	४१६	शुक्लध्यानोद्भवध्यात्वा-	६०	शून्यद्वयेन्द्रियर्तुक्त-	८२
शाश्वतं पदमन्विच्छन्	२४७	शुक्लध्यानेन कर्माणि	३७	शून्यद्वयेन्द्रियद्वयुक्त-	६६
शास्त्रबालत्वयोरैक-	२६३	शुक्लफाल्गुनजाष्टभ्यां	१५	शून्यद्वितयपक्षैक-	२०६
शास्त्राभयान्नदानानि	७६	शुक्लतलेश्याः श्वसन्मासै-	५३	शून्यद्वितयपक्षैकै-	३८७
शास्त्राभ्यासनशालो-	८४४	शुक्लतलेश्याः स्वतजोऽव-	२६	शून्यद्वितयपक्षरन्ध्र-	१७
शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या	४३३	शुक्लतलेश्याद्वयःसादै-	२१८	शून्यद्विरन्ध्रान्ध्र्यब्धि-	४२
शिक्षकाः खद्वयत्वंक-	४	शुक्लतलेश्या द्विहस्ताङ्गका	४०	शून्यं पञ्चाष्टरन्ध्रोक्त-	३२५
शिक्षकाः षट्शतद्वादश-	३३५	शुक्लजगन्मागशाःपस्य	२२०	शून्यपञ्चकपक्षाब्धि-	३२५
शिक्षकास्तस्य सद्गन्धाः	२४७	शुक्लशुक्लचतुर्थ्यन्त-	१२१	शून्यपञ्चचतुःस्रैक-	३१
शिक्षितैकादशाङ्गोऽसौ	७६	शुक्लौ कृष्णश्चाम्यन्त-	६८	शून्यपञ्चचतुद्वयक-	४
शिक्षिणीभूतमीः कन्या	५४६	शुद्ध एा चरन्पक्षे	१७	शून्यपञ्चद्विकैकोक्ता	३३५
शिक्षिकां नागादत्ताख्या	१३०	शुद्धदेशजमेदं तत्	४५५	शून्यपञ्चमुनीन्द्रैक-	२३७
शिक्षिकां देवकुर्वाख्या-	३८६	शुद्धश्रद्धानचारित्रः	१३५	शून्यपञ्चतुष्टोक्त-	२३
शिक्षिकां देवसंरुद्धा-	८८	शुद्धश्रद्धानमन्त्र्य-	२१	शून्यपञ्चैकपक्षोक्त-	१७
शिक्षिकां वैजयन्त्याख्यां	२२०	शुद्धश्रद्धानसम्पन्नं	१६२	शून्यपञ्चैकसप्तोक्त-	४२
शिरस्तत्पश्यतो भर्तु-	३२१	शुनः स्थाने स्थितो दीनो	५२	शून्यपक्षैकपूर्वायुः	५७
शिरोमुखादिसंजात-	१५०	शुभयोगे सितज्येष्ठ-	४०	शून्यपक्षद्वयुगाप्तोक्त-	४०
शिरो विराजते तस्य	२०४	शुभा शब्दाभिधाना च	१८६	शून्यपक्षवार्धिपूर्वायुः	२७
शिलां रष्ट्रश्च नृपारुद्धा	१६१	शुभाशुभविपाकानां	३०८	शून्यसप्तकवस्वब्धि-	३२५
शिलां हस्ततलेनाह-	१८१	शुभाशुभविभागोक्त-	१५०	शूरो लघुसमुत्थानः	६२
शिलातले निविश्योच्चै-	४५४	शुभ्रषाद्यष्टधीधुयान्	४०	शृगालः करिचदास्यस्यं	५३४
शिलासलिलदेहोत्तौ	३४७	शुक्लाहारमथान्येषु-	५५३	शृगु चित्तं समाधाय	४७०
शिल्पिभिः कारयित्वाकै-	४३३	शून्यगोदेऽतिदुःखेन	३६६	शृगु देव महाविज्र-	३७८

शृणु भद्रारक स्वामिन्	२८६	श्रीनन्दार्हं न भोक्ष्येऽहम्	५१४	श्रुत्या तत्तो च गत्सैन	३५२
शृणु भव्य भवस्यास्य	१५८	श्रीत्रिष्टुभः कुमागणां	१४५	श्रुत्वा तत्तोदनाधीशो	१५५
शृणु भद्र प्रवक्ष्यामि	५१७	श्रीदत्तायां कुशलिष्ठः	१६३	श्रुत्वा तत्पौरुषं ख्यातं	३६८
शृणु कैरं विदुज्जा स्मन्	१०८	श्रीधराख्यगुरोः पाश्वे	४४६	श्रुत्वा तत्सहितुं नाहं	५५६
शृणु श्रेणिक जम्बूभू	४६४	श्रीधरस्य सुता भूत्वा	४०५	श्रुत्वा तत्सात्मजो राम-	२५५
शृणु सागरसेनाख्य-	५५२	श्रीधराख्या सुता जाता	११४	श्रुत्वा तदैव तं लब्ध-	३७७
शृण्वेते जन्मनि प्राचि	४२४	श्रीधरा चागता नाकात्	११५	श्रुत्वा तद्गोपतिः शोका	३७०
शेषयोस्तु चतुर्थं स्या-	४७६	श्रीनागजिनमासाद्य	२५०	श्रुत्वा तद्वचनं क्रोधे	३७६
शेषाः कल्पे भवन्नादौ	३२८	श्रीनागदत्तमातापि	४६१	श्रुत्वा तद्वचनं चक्री	३८४
शेषाः प्रकृतयस्तेन	६६	श्रीनागद	४६१	श्रुत्वा तद्वचनं चित्तो	४४६
शेषमालां समादाय	५०२	श्रीपञ्चम्यां बुधार्द्रां	५७७	श्रुत्वा तद्वचनं तौ च	२४१
शेषावसर्पिणीकाल-	५५५	श्रीपुरेशः प्रजापाल-	२३८	श्रुत्वा तद्वचनं मन्द-	२२४
शेषौ ययोपदिष्टार्थ-	२६२	श्रीप्रमे प्रथमे कल्पे	५०	श्रुत्वा तद्वचनं राजा	२५३, ३४२
शैलस्तम्भं समुद्धतुं	३७०	श्रीभूतिः सत्यघोपाङ्को	१०८	श्रुत्वा तद्वचनं विप्र-	४७६
शैशोचित्तसर्वाथै-	२७	श्रीभूतिसचिवो नागश्चमरः	११६	श्रुत्वा तद्वचनं सर्व-	२६१
शोकदावानलम्लाना-	१७३	श्रीमती वज्रजंघ वा	२६३	श्रुत्वा तन्नागराजोऽपि	१०७
शोकाकुलः सुनिर्विण्ण-	३४३	श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाख्यः	३४२	श्रुत्वा तन्नाहमस्य स्या-	४६६
शौर्यदेशाधिपः शर-	३८८	श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये	६२	श्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्या-	२८६
शौर्यस्य सम्भवो याव-	२८२	श्रीमान् जिनाऽजितो जीयाद्	१	श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि	४३४
शौर्योर्जितत्वाद्दुस्साह-	२८२	श्रीमानामुक्तिपर्यन्तं	४६८	श्रुत्वा दूतोऽभ्युपेत्यैष-	३१०
श्मशाने राक्षसः पापी	१५२	श्रीमानितः खगाधीशो	४५३	श्रुत्वा धर्मं च सम्यक्त्वं	११४
श्रद्धादिगुणसम्पन्नः	५३, ३८६	श्रीमूलसंघवाराशौ	५७३	श्रुत्वा धर्मं जगत्पूज्य-	५०२
श्रद्धानशोधरदनं	१०१	श्रीवर्धमानमनिशं	५६५	श्रुत्वा धर्मं जिनादत्त्मा-	५२६
श्रद्धाय बोधिमासाद्य	३६३	श्रीवर्धमानमानम्य	४६८	श्रुत्वा धर्मं तदभ्यर्णं	५३६
श्रद्धालुधर्ममप्राप्ती-	३२५	श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या	५०	श्रुत्वा धर्मं व्रतैः सार्द्धं	१७६
श्रद्धा सद्यः समुपका	४७३	श्रीवर्मा श्रीधरा देवोऽजित-	६५	श्रुत्वा धर्मं सतां त्या-यं	५१
श्रवणाद् लादिनादित्र-	३७१	श्रीवर्माऽस्य सुमीमाख्या-	११८	श्रुत्वा धर्मधियादत्त-	३६७
श्रवणे संयमं प्राप्य	८२	श्रीबृहत्स्वस्तिका	१५०	श्रुत्वा धर्ममदं जन्म	११२
श्रव्यैर्हितमितालापैः	३०६	श्रीप्रेणः कुञ्जः सुरः	२२१	श्रुत्वाऽऽवयनसम्पन्न-	१६०
श्रावकः कपिरोमाख्य-	४७५	श्रीप्रेणश्चान्यदा गत्वा	५१४	श्रुत्वा नृपो वर्णङ्मुख्यो	३८८
श्रावकः समुपेत्येनं	५४२	श्रीप्रेणाख्यमहीशस्य	४२४	श्रुत्वा परशुरामस्त-	२८८
श्रावकाः सुरकीर्त्याद्याः	२१०	श्रीप्रेणायां सुतस्तस्य	१७८	श्रुत्वाऽपरराजितो धर्म-	११५
श्रावका लक्ष्मेकं तु	३३५	श्रीप्रेणो नाम तस्यासीत्	४७	श्रुत्वापि तीर्थं कृद्वाचं	४४७
श्रावकास्त्रीणि लक्ष्माणि	४	श्रुतं तयोभूतामेधो	५६४	श्रुत्वा प्रोद्यदमपणं	१६३
श्राविकापञ्चलक्षार्च्यः	७०	श्रुतं त्वयेत्यसौ शास्त्रे-	२७१	श्रुत्वा भक्त्या परीत्येनं	५५३
श्रित्वा नदी समुद्भूत-	५५६	श्रुतं वक्तृविशेषेण	४००	श्रुत्वा यथाथं मत्याभिभूत	१४३
श्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्म	४१२	श्रुततद्वचना साह	३४१	श्रुत्वा यथावन्निमित्त-	२२७
श्रियं क्रियास्य मे निधनं	१४	श्रुतधर्मकयो जात-	२७८	श्रुत्वा यस्य वचोऽगु	श्रुतिसुखं ४४१
श्रियो माया सुखं दुःखं	८०	श्रुतप्रावृङ्गनध्वान-	१५५	श्रुत्वा रामोदयाभादि-	३०७
श्रीकान्ता नाम तस्यासीद्	४७	श्रुतस्वप्नफला देवी	४६०	श्रुत्वा लक्ष्णवत्तेषां	३५८
श्रीगृहे काकिणीचर्म-	२४६	श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रि-	४६६	श्रुत्वावधार्यं तद्राजा	३५३

श्रुत्वा विभूतिमद्गत्वा	५२७
श्रुत्वा शाङ्गधरः शत्रु-	३७६
श्रुत्वा श्रीनागदत्तोऽपि	४६०
श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा	४६
श्रुत्वा सप्रश्रयो धर्म-	८७
श्रुत्वा सुव्रतनामार्हत्पाश्वे	६३
श्रुत्वाहं तत्र गत्वाख्यं	१५४
श्रुत्वाैतत्कर्म किं कर्तुं	३६६
श्रुत्वाैतत्पितरौ कन्या	५११
श्रुत्वाैतदतिशोकात्ता	१७३
श्रुत्वाैतद्राज्यभारं स्वं	१६६
श्रुयते तत्तथैवास्तं	२२६
श्रेणिद्वयाधिपत्येन	१६५, ४५४
श्रेयः श्रेयेषु नास्त्यन्यः	७६
श्रेयस्तीर्थान्तरे पञ्च-	८८
श्रेयो गणधरं प्राप्य	१२५
श्रेयो वास्तुं तता यत्नं	४७५
श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन	२०६
श्रेष्ठिना धयमाहूता-	४६१
श्रेष्ठिनी किं करोतीति	४८६
श्रोतुं ममापि चेत्याह	५४४
श्लाघ्यमानः स्थयं केनचि-	३५६
[ ष ]	
षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं	२८१
षट्त्रिंशन्मुनिभिः साधै	४३६
षट्पञ्चाशन्महाद्वीपा-	२६६
षट्शून्यवह्निपूर्वायुः	३५
षट्पृथ्विमतधर्मादि-	६०
षट्सहस्रचतुर्जानि-	६०
षट्सहस्रप्रमाप्रोक्त-	८३
षट्सागरोपमात्मायु-	२४८
षडङ्गबलसंयुक्तः	२१५
षड्विंशतितनूत्सधौ	२३१
षष्ठावत्युक्तभारण्ड	५५५
षण्मासान् सास्त्रजानि	४०
षण्मासैर्मौनमास्थाय	३७
षण्मासैःन्तिमैस्तरिम्न	४३४
षष्टिलक्षमिताब्दायुः	६८
षष्ठः श्रीभूर्पतिशब्दाख्यः	५६१
षष्ठ्यामथोत्तराषाढे	३७७
षष्ठोपवासयुक्तस्य	३८७

षष्ठोपवासेनाहस्य	२२०
षाड्गुण्यं तत्र नैगुण्य-	१६
षोडशाब्ध्यायुपा दिव्य-	८५
षोडशाब्ध्युपमस्वायु-	३३७
षोडशाधिर्भविष्यति	५६०
[ स ]	
संक्रुद्धमतमातङ्ग-	३८१
संग्रामाम्भोनिधेः प्रोताः	३१७
संग्रामासहनात्तत्र	८४
संजयन्ततनूजाय	१०६
संशया सर्वकल्याणी	१५४
संज्ञाप्रज्ञास्वचिह्नादि	१७६
संततसर्वमूर्धन्यः	६४
संन्यस्यन्ति सहस्रारं	१२५
संन्यस्येशानकल्पे	१८२
संन्यस्यान्तपरित्यक्त-	३४
संन्यासाधिना त्यक्त-	११
संदर्भ्य विषवृत्तं च	१०७
संयमं बहुभिः सार्ध-	५६
संयमं सम्भगादाय	१८५, ३३७
संयमं स्वयमादाय	३४६
संयमप्रत्ययोत्पन्न-	२३६
संयमस्य परां कांठि-	१६८
संयनासंयमादूर्ध्वं	४५७
सयभीयं शमं यातः	१६४
संयमोऽयं त्वयैवापि	२५४
संयोगजः स्वज इति द्विविधो	५६८
संयोगां देहिनां देहे	१२१
संत्सरं समादाय	१७२
संत्सरद्वये याते	१२३
संत्सरसहस्राणां	२४५
संज्ञमाना देवीभि-	२१६
संज्ञिसंवदमानेन	२७५
संवेगजननं पुण्यं	३३६
संशयामरतथान्येयु-	२६६
संगक्ताख्या निषिद्धेयु-	५४२
संमत्कुमुद्रती सा धिका-	२३४
संसारमीशराप्रोक्त-	१३८
संसारवधनं साधो	५१०
संवागी निर्वृत्तश्चेति	४६७
संवागी मुक्त इत्यात्मा	२४४

संसारे चक्रकभ्रान्त्या	३६
संसारे पञ्चधा प्रोक्तं	४६४
संसारे प्रलयं याते	५५
स एपोऽभ्यर्णभन्वत्या-	४६३
स कदम्बमुखी वाण्यां	४१५
स कदाचिच्छरीरादि-	१२५
स कदाचित्तनूजाप्यै	५०
स कदाचित्सभागेहे	७६
स कदाचित्समासाय	१०२
स कदाचित् समासीनं	८७
स कदाचित् समुत्पन्नबोधिः	१
स कदाचित् सुखासीनः	३
स कदाचित्स्वजामातुः	१४६
स कदाचिदयोध्यायां	३४६
स कदाचिदुपरलोका-	४८६
स कदान्चिदुपाध्यायः	२६५
स कदाचिद्विद्यं गत्वा	१६३
स कदाचिद् दिवोत्कायाः	२१३
स कदाचिद्वने रतुं	४०१
स कदाचिद् विलाक्योत्का-	२३८
स कदाचिन्महावर्षा	३६८
स कदाचिन्महीनाथो	४७
सकलाभरसन्दोह-	४०
स कोऽपि पापपाको मे	६२
स को मे कौतुकं तस्मिन्	५२६
स कौतुकः समन्वैत्य	४६४
सक्रियं धर्मसाकर्ण्यं	३५१
सक्तो रत्नायुधो भोगे	११५
स खत्रयतुपत्तुं	८१
सखायौ धनराजस्य	५१४
सगरश्चक्रवर्त्यं शोषैः	८
स घोरतपसा दीघं	१३२
सङ्कलय्य नरेन्द्रोऽपि	३७७
सकुलीकृतगौधोर-	३७८
सङ्कशेन सदाबद्ध-	४७४
संक्षोपाद्विरतृतेरथा-	४७२
स चक्रलक्षितां लक्ष्मी	४३१
सचामरा महीशा या	३१७
सचिन्तरतत्र जैनेन्द्र-	५४६
स चेटकमहाराजः	४८३
सचारित्रेऽप्यशास्त्रे	१३८

स जयति गुणभद्रः	५७८	सदा त्रिभुवनासेव्यो	१८	स धर्मस्तस्य लाभो यो	४६६
स जयति जयसेनो यो	१३	सदादिव्रितयं नञ्चयत्	५५	स धीमान् वृद्धसयोगं	५४
स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः	५७७	स दायदभयाद् गत्वा	५१३	स धीमान् षोडशे वर्षे	५४
सजानिं जयसेनाख्यं	६१३	सदा विनिद्रो मृगवत्	१३७	स धीरललितः पूर्व	२१
स जीवितान्ते सम्भूय	४४७	सदा शब्दप्रवीचारश्चतुर्थ-	८८	स धृत्वैकदशाङ्गानि	३३१
सज्जनावर्ज्यं निर्णिक-	३८१	स दुर्गन्धेन तजन्तु-	५३५	सनत्कुमारकल्पस्य	२५४
सज्जयन्तमहाचैत्य-	१५६	स दुश्चेष्टितदौर्गत्या-	५३७	सनत्कुमारकेशं	१३६
सज्जयस्याथसन्देहे	४६२	स दूत. सत्वरं गत्वा	१४५	सनत्कुमारदेवोऽस्मा-	५६४
सज्जातसम्पदाः प्राप्य	३७७	स दूतो राजगोहं स्वं	१४५	सनत्कुमारद्विराख्या	२०२
संज्ञानैलिभिरप्येभिः	६६	स देवदेव्यसंख्यात-	३१	स नापितं विकाराणा-	४१८
स तं निरीक्ष्य तत्रैव	२१५	स देवरमणोद्याने	१६१	स नारदः पुनस्तत्र	२८५
स तथैवाचरन् घोरं	२२२	स देवार्चनवेलायां	४८३	सनिदानोऽभवत्प्रान्ते	४५१
स तदैव सभामप्याजि-	१६७	सद्गृहीत्वादिस्निद्धयन्ताः	१६६	सन्तत्या मलसञ्चयः परिणती	१०१
स तद्धेतुसमुद्भूत-	७१	सद्दृष्टया सौकुमार्येण	१६६	सन्ततो मायया सीता-	३२१
सति व्ययेऽपि बन्धानां	४६७	सद्धर्मलाभयोग्याश्च	५४४	सन्तस्तद्वान्धवाश्रान्ये	२६१
सती प्रीतिमती मेरुगिरेः	३४१	सद्भावप्रतिपन्नानां	१०६	सन्तानिभ्यः ससन्तानः	१७६
सती विजयदेवस्य	४०४	सद्भावः सर्वाशास्त्राणां	५७४	सन्ति तत्सेवकाः सर्वे-	३०४
स तेन मानभङ्गेन	६२	सद्यः कृत्वा समुद्रवातं	१००	सन्तुष्टिर्विनयज्ञान्ती-	५६०
स तैः श्लाघ्यषडङ्गेन	२४६	सद्यः प्रापयत. स्मैतौ	५५१	सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै	११०
स तैः सहावहृत्याखिलार्य-	६०	सद्यः शीलवती स्पर्शा-	२६३	सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः	५६२
सत्कर्म भावितैर्भायैः	४४६	सद्यश्चतुर्विधा देवाः	८१	सन्दधत्सन्तति मुञ्चं-	५०१
सत्कुलेषु समुद्भूतास्तत्र	४६	सद्यः सम्यक्त्वमादाय	१८०	सन्धिं तपोधनेः सार्द्ध-	२८०
सत्यं प्रकुर्वता सद्यः	२८५	सद्यः सर्वासि शुष्काणि	२७४	सन्ध्येव भानुमस्तादा-	३८६
सत्यं सार्वदयामयं तव धनः	८३	सद्यः सामयिकीं शुद्धिं	२०८	सन्नद्धाः सन्तु ना युद्धे	३१८
सत्यबोधो मृषावादी	११०	सद्यः सीतालतां दग्धुं	३०१	सन्निधाने च तस्यायः	५०
सत्यन्धरमहादेव्या	५२७	सद्यस्तञ्जालनं दृष्ट्वा	५४६	सन्मार्गदूषणं कृत्वा	४५६
सत्यन्धरमहाराजं	५२०	सद्यस्तदास्य बालस्य	३६५	सन्न्यस्य विधिना स्वर्ग-	५४४
सत्यन्धरमहाराज-	५२५	सद्यस्तामेत्य तत्कर्म	४०३	सन्न्यस्य विधिवत्लोक-	५४४
सत्यन्धरोऽददादेतद्	५०६	सद्यो जयानकानीकं	३८२	सपत्ना इव सम्पन्न-	३१७
सत्यप्यथे रतिर्न स्यात्-	४६७	सद्यो जितं जिनेः	३२	स पञ्चाग्निगतपः कुर्वन्	११८
सत्यप्यात्मनि कौमारे	२३६	सद्यो जातिस्मृतिं गत्वा	४५६	स पातु पार्श्वनाथोऽस्मान्	४२१
सत्यभाया रहं गत्वा	४१७	सद्यो द्युत्समूहोऽपि	१२४	स पुनः श्रावणे शुक्ल-	३७७
सत्यभामा सुताराऽभूत्	१६४	सद्यो निवर्तते स्मास्मान्	३६१	सप्तपुत्राः समास्थान्ते	३६४
सत्यभामासुतोद्दिष्ट-	४१८	सद्यो निर्बिद्य संसार.त्	१०३	सप्तप्रकृतिनिर्मूल-	४७२
सत्यवत्यां दुर्षीर्वातः	३४५	सद्यो मनोहरोद्याने	३३१	सप्तप्रकृतिनिर्नाश-	१५६
सत्यां प्रयाति कालेऽसा-	५६	सद्यो मन्त्रपदाद् भ्रष्टो	१११	सप्तमः सकलां पृथ्वीं	३६४
सत्यायुषि मृतिस्तस्मिन्-	२१	सद्यो यत्नी च सुस्थाप्य	४१७	सप्तमीं पृथिवीं पायाद्	११७
सत्सु भाविषु च प्रीति-	४६७	सद्यो विलोक्य सोऽप्याशु-	१६८	सप्तमे संयमस्थाने	१०६
सत्सु सत्स्यपि भोगेषु	४४६	स दुर्व्यसंयमी भूत्वा	५४०	सप्तमेऽहनि यत्स्य	१५३
सदसदुभयमेतैकशब्देन	६१	सद्बृहत्स्तेजसो मूर्ति-	१०४	सप्तर्षयो वा पुण्यश्च	४८२
सदसद्वादसद्भाव-	१२३	सद्बोधोदयसम्भूत-	२१८	सप्तविंशतिवादप्यायु-	१३४

सप्तविंशतिवाराशि-	४३२	समादिशत्पुरां गर्भं	५०६	सम्याद्य तीर्थकृत्नाम	२३४
सप्तव्यसनसम्पन्ना	३८८	समाधिगुप्तनामानं	४२३	सम्पूज्य वन्दितुं यान्ति	५३८
सप्तव्यसनसंसक्तौ	१६८	समाधिगुप्तमासाद्य	१६२, ४२१	सम्पूर्णाः किमयं शरच्छशधरः	६४
सप्तसप्ततिकुण्डादि-	८२	समाधिगुप्तयोगीशो	४०४	सम्पूर्णाथौवना यान्ती	४०६
सप्त सस्थानगतौ ख्यात-	४०६	समाधिगुप्तसंज्ञश्च	५६१	सम्पूज्य पालयामास	६६
सप्तापि काननेऽन्येषु-	३६१	समानां पञ्चपञ्चाशत्	२३५	सम्पृच्छन्तिस्म सर्वेऽपि	२७३
सप्तान्युपमितायुष्को	४४८	समानां सप्ततिस्तस्य	५५५	सम्प्रत्यपि दुःसक्तोऽहं	३१३
सप्तान्युपमितायुः सन्	४४८	समापादयदाकर्ण्य	३५६	सम्प्रत्यप्रतिमल्लौ वा	१६८
सप्तारत्नप्रमाणाङ्गा	५५५	समायुतमितात्मायुः	२४८	सम्प्रविश्यायुधागारं	३८४
सप्रतापा प्रमेवाभात्	३६०	समारोपितकोदण्ड-	४१६	सम्प्राप्तवान् कुमारोऽपि	५४८
सप्रभयं प्रजानाथ-	४५३	समाश्लिष्य सुखप्रश्न-	५११	सम्प्राप्तार्घासना स्वप्ना-	४६०
सप्रभयं समीक्ष्यैन-	४६५	समीक्ष्य तं जनोऽन्योन्य	३५२	सम्प्राप्तोपान्त्यसंज्ञानः	१२३
सफला सर्वदा वृष्टि-	६३६	समीक्ष्यादैशिकप्रोक्त-	३५५	सम्प्राप्तुवन्ति तत्रैत	५४४
सबलं पितरं हत्वा	१७२	समीपं प्राप्य भक्त्यातो	४७१	सम्प्राप्य खेचरेशेभ्य-	३५६
सु बालवत्सया धेन्वा	८२	समीपे चन्दनार्घ्या	५२७	सम्प्राप्य गगनाभोगं	१८८
स बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं	२३२	समीपे तस्य तत्सूनुः	२६२	सम्प्राप्य नित्रकूटाख्यं	२६१
सभयस्तानि दृष्ट्वाख्य-	३६८	समीपे रामदत्तापि	११२	सम्प्राप्य जीवितस्यान्तं	७२
स भव्योऽतिविरक्तः सन्न-	३६०	समुच्चासनमारोप्य	१६०	सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्य	४५६
सभां भोक्त्वा खगेशो	१५७	समुत्कृष्टाष्टशुद्धाङ्क-	२३८	सम्प्राप्य वह्यो नोप-	५०८
सभार्यं श्रेष्ठिनं मैव-	४६२	समुत्तानायितुं शक्ता	२६१	सम्प्राप्य भुक्तभोगाङ्गो	४५६
समं जनन्या सन्नन्दि-	४७२	समुत्पन्नमहाबोधिः	४६३	सम्प्राप्य मेरुमागोप्य	४६१
समं प्राचीरियं त्याज्ये-	३०२	समुदगतैकच्छत्रादि-	३२८	सम्प्राप्य पतितस्तस्मिन्	५४१
समं भानुश्च सञ्जात-	४१७	समुद्वटस्य सद्वृत्त-	५४१	सम्प्राप्य यु यमानेपु	३१४
समक्षं भूपतेरात्म-	१०६	समुद्भूतेन तपसो	६२६	सम्प्राप्य यौवनं तन्वी	४५२
समनन्तरमेवास्य	१३५	समुद्भूतोऽयमाश्लिष्य	२२७	सम्प्राप्य रावधं सोप-	६६६
समभावनया तृप्यन्	२४७	समुद्भ्रान्तो निभार्योऽन्यै-	५०६	सम्प्राप्य संघर्षं प्राप्य	३४१
समभाषत मायाशो	२२२	समुद्रविजयाख्याय	३५३	सम्प्राप्योपशामं भावं	४०६
समयुक्तं रामेण	३२३	समुद्रविजयार्दानां	३४५	सम्प्रार्थ्य विविधाहारान	४१७
समर्चितो महादेवैः	३७	समुद्रविजयाधीशं	३६०	सम्बन्धो कर्धुभिः कोऽसौ	५६
समर्प्यन्तां कलत्राणि	३८०	समुद्रविजये पाति	३५३	सम्भवे तव लोकानां	१५
समवर्तीनरान् सर्वान्	३२०	समुद्रसेननामानं	३५०	सम्भावयन्तु पिङ्गाक्षं	२६०
समवसरणालक्ष्या	५	स मुनिस्तार्थनाथेन	४५४	सम्भावयन्तमात्मानं	२८४
समभ्राण्यतां वैश्य	५१२	समुन्मूल्य निहन्तुं तं	४५०	सम्भूतपरिणामेन	२७०
समस्तव्रतसम्पन्नो	४७०	समुपाविद्धदेकत्र	२६८	सम्भूय पोदनपुरे	१२७
समस्ताह्लादकेनासी-	१५	ससुपेत्य रथाङ्गेश	४०२	सम्भूयेतौ द्वितीयेऽह्नि	३२४
समस्तैः शैशवं तस्य	३४	समुल्लाङ्घितमयादः	६५	सम्मतस्तैर्नमस्कृतुं	५४५
समाः पञ्चसहस्रान-	२१४	समेतमेव सम्भक्त्य-	४८०	सम्मेदं पर्वतं प्राप्य	१८
समाकर्ण्य समुत्पन्न-	३३१	सम्भवस्यान्तरे जाते	२०	सम्मेदगिरिमासाद्य	८३, १२३
समाकर्षणरज्ज्वाव-	४६१	सम्पत्तिर्वा चरित्रस्य	४११	सम्मेदपर्वते मासं	३७
समागत्य तयोः कृत्वा	२३५	सम्पद्यते न वेत्येतद्	२६८	सम्मेदशैलमासाद्य	७५
समाचारबहिर्भूता-	५४२	सम्पर्कं मनसा मत्वा	४८५	सम्भक्त्यमपरे सद्यः	४६६
				सम्भक्त्यादिचतुष्वेण	४७५

सम्यक्त्वाभावत-	१७२	सर्वाभाषां भवद्भाषां	४२६	स विद्यया समाहृता-	२७५
सम्यक्त्वादिषु बन्धासौ	३४२	सर्वाभाषास्वभावेन	३५१	स विलक्षो ह्यग्नीषो	४५४
सम्यक् प्रार्थयतेतास्ते	५१६	सर्वमितद्गुरुरास-	५५०	सविभं वाशनं मित्रं	४६७
सम्यक् श्रद्धाय तत्सर्वं	४१५	सर्वलक्षणसम्पूर्णा	११५	सविस्मयौ विलम्बैनां	३६५
सम्यगाराध्य सम्भूतः	३६३	सर्वलक्षणसम्पूर्णा	३३७	सव्यापसव्यमुक्तार्थ-	३१६
सम्यगेवं तपः कुर्वन्	२२०	सर्ववित्तन्मतश्रद्धा	४८०	सब्रतौ जीवितस्यान्ते	४०८
सन्यग्ज्ञानविहीनत्वा-	४४७	सर्वविद्याच्छिदा श्रुत्वा	४००	सशल्यः सोऽपि तच्छ्रुत्वा	८५
सम्यग्दर्शनमादाय	१४१	सर्वशस्त्रसमुद्भिन्न-	३८२	स शाब्दः स हि तर्कज्ञः	५५७
सम्यग्दर्शनरत्नञ्च	५५७	सर्वशान्तिः दो देवः	२०४	स शीलगुणसम्पन्नः	८४
सम्यग्दृष्टिगृहीते हग्	५०१	सर्वश्रोतार्यिकावगं	५५८	सशोको रहमागल्य	२६४
सम्यग्दृष्टिरयं सत	५४८	सर्वसङ्गपरिव्यागाद्यत्र	१३६, ५२७	स श्रीगौतमनामापि	३५०
सम्यग्भवति विशात-	३५६	सर्वसन्तापकृतीक्षण-	५३६	स श्रीवृद्धि च सम्प्राप्त	२१
स यः षोडशभेदेन	१५८	सर्वस्थानानि दुःस्थानि	४६७	स श्रुतो मद्गुरोर्धर्म-	२७२
सयत्नां शीलमालां वा	२६६	सर्वस्वमर्थिजनताः स्वामिह-	५६६	स श्रेष्ठी वनमाला च	३४३
स योगभावपर्यन्ते	४६७	सर्वस्वहरजोद्भूत	१०६	स पट् प्रकृतिभिर्मूर्ष्य-	३३
सरः सूर्येन्दुकलभ-	२५४	सर्वो निर्वाण्य विश्रम्य	५१६	स संरम्य चिरं तामि-	८६
स रक्तो गुणमङ्गयोः	६२	सर्वाणि जलपुष्पाणि	५०६	स सद्बुद्धिस्तमादाय	५०१
स रत्नकवचं लेख्य-	३४६	सर्वाण्येतानि सम्भूय	७३	स सवरमण्योयाख्यं	५४१
सरतारं परं सारं-	२१८	सर्वभरणदृश्याङ्गी	४८६	स सहस्रसमायुक्तो	३८३
सरसं त्रिसं तोदृणं	५५६	सर्वार्थसिद्धावुत्पन्ने	२५५	स सन्नद्धबलोऽपाव-	५०७
सरसः सागरास्तर्षा-	४३४	सर्वार्थसिद्धिदेवस्य	२१४	स सुखेन्दुसन्तश्री-	७२
सरसा शङ्खचक्रादि	५१	सर्वार्थसिद्धि शिविका-	२०८	स सुवर्णवसुगैर्हं	१६१
स राजपूजितस्तत्र	१६०	सर्वार्थसिद्धौ देवेन्द्र	११६	स स्नेहामृतसम्भूक्त-	६७
स राजा तेन पुत्रेण	४६	सर्वार्थसिद्धौ सत्सौख्यं	१२८	स स्नेहाद्रामदत्तायाः	१११
स रामचरणाभ्योजं	२६८	सर्वो क्रमेण श्रीमन्तो	५६४	सह ताभ्यां समप्राप्ती-	३०४
स रोगाः प्रापुरारोग्यं	८०	सर्वे ते पिण्डताः सन्तो	४	सह तेन महीपालाः	८६
स रोजं वोदयान्दानोः	४८	सर्वे ते पुनन्येद्यु-	५२३	सहदेवोऽपि सम्भ्रम्य	४६३
सर्पशय्या धनुःशङ्खा	३६८	सर्वे ते सुचिरं कृत्वा	१२	सह देव्याश्च सम्भूतः	१३५
सर्वे निधाय तच्चित्तं	४७२	सर्वे दीक्षां ग्रहीष्याम	५३१	सह पूर्वधनस्थान-	५५२
सर्वं स्वयंप्रभारुष्येन	३४१	सर्वे नियोगककल्याण-	१०७	सह योगो युवाभ्याश्च	४११
सर्वकर्मचण्डामात्यः	४६४	सर्वेन्द्रियसमाह्लाद्र-	३५	सह विष्णुकुमारेण	३५७
सर्वज्ञः सर्वलाकेशः	६१	सर्वे वाग्बतिनो ग्राह्या	५५४	सह सञ्जात इत्येत-	५१८
सर्वज्ञस्य विरागस्य	४७७	सर्वेषां दर्शिता व्याक्तं	२७१	सहसा वेष्टते वार्कं	४१६
सर्वज्ञाज्ञानिमित्तान	४७२	सर्वेषां दिव्यभूषाभिः	५०६	सहसेत्वद्भुतं कर्म	३८४
सर्वत्र विजयः पुण्य-	५२५	सर्वैर्वरगुणगण्यो	२६०	सहसेव सुभौमस्या-	२२८
सर्वत्र सर्वादा सर्वं	६३	सलक्ष्मासहस्रोक्त-	१२३	सहसेवात्मनो रागं	५०६
सर्वथात्मादितत्त्वानां	४७६	सलज्ज. संयमी भूत्वा	२५५	सहसोदुम्बराख्येन	३६६
सर्वदानिष्ठसंयोगो	८	सलिलं वा तृपात्तस्य	२५२	सहस्रदेवतारक्ष्यं	२२८
सर्वदोषमयो भावो	४१३	सलखं प्राभूतं दत्त्वा	४५२	सहस्रपत्रमम्भोज-	३७०
सर्वप्रकृतिसान्निध्ये	३२७	सलखोपायनं सन्तं	२५७	सहस्रबाहुं सम्पाष्य	२२५
सर्वमव्यहितं वाञ्छन्	१६५	सवलाका इवाभ्योदाः	३१८	सहस्रबाहुमाहस्य	२२६
				सहस्रबाहुरिचवाकुः	२३२

सहस्रभूपैः सायाहो	२४६	साङ्गवादीन् लोकविख्यातान्	५४६	साम्राज्यसारसौख्यं	१२७
सहस्रमन्तिप्रशाना-	४३६	साङ्ख्याद्यासप्रवादानां	४७६	सारभूतानि वस्तूनि	१६८
सहस्रमुनिभिः साङ्	७०, २२१	सा जिह्वा तौ मनः कर्णां	४४	सारमामोदमादाय	२२१
सहस्रमेकं त्रिशान-	४६८	सातकरे विमानेऽम्-	३४२	सारसौख्यत्समागच्छन्	४५०
सहस्रयन्त्रज्ञाणि	२३०	सातपञ्चशुभैः सौख्य-	२	सारस्वतादितस्तोत्र-	२१५
सहस्रपरिमना साङ्	१५६	सा तेषां फलमाकर्ण्यं	१५	साराधनाचतुष्कः सन्	४३३
सहस्रात्रवर्येभ्यन्त-	७६	सा देवैर्धसुधारादिपूजां	६७	सार्येन सममागच्छ-	३४३
सहस्रारं करे कृत्वा	२२८	साद्यन्तहीनमनवद्यमनादि-	५६७	साङ्गत्रिकोटिसंख्यातं	३०६
सहस्राधिमानेश-	६७	साधनं क्रमशो मुक्ते	१६३	साङ्गद्विचत्वारिंश-	१३५
सहस्राङ्गं सहस्रं तु	२४७	साधयन्त्यन्यथा दर्पादिमे	१६	साङ्गघोडशमासान्त-	३४३
सहस्रेण समादाय	३८६	साधयमासमासांस्ते	४००	साङ्गारिन्नित्रयोत्सेध	५६०
सहस्रेणाप तुर्थाधबोधं	२१५	साधवस्तत्रयोग्योऽय-	५२५	साधं कनकवत्यासौ	४५८
सहस्रेणाप्य नैर्ग्रन्थं	६०	साधारशास्तत्र न सन्तु	५६६	साधं स्वपरिवारेण	५३८
सहस्रैः सप्तभिः साङ्	१४६	साधिका पूर्वक्रीड्यायुः	५६२	साधं स्वहैतुसम्प्राप्तौ	५५८
सहस्रैर्नानमास्थाय	२३७	साधुविदमनेनेति	५३५	साधंभौमीं श्रियं सम्यक्	२२७
सह स्वाभाविकं रूप-	५२३	साध्यायां ह्यत्र शन्नसाध्यन्ते	४६	सा लक्ष्मीः सकलामरार्चितपदा	४२६
सहानावृत्तदेवेन	५३६	साध्यसाधनसम्बन्धो	४७८	साधधिर्निजयं तेन	३७६
सहान्यकल्पे भूत्वेह	५४३	साः नागदत्तदुश्चेष्टां	५५२	सावद्यम्भं वचः भुत्वा	१५०
सहाभ्येतु मया लङ्का	३०६	सान्धहं कुर्वती वृद्धिं	१७५	साऽविशच्चन्द्रोत्सामा-	२०३
सहायांश्चादिश तस्य	३१३	सापि कालानिष्ठाद्भूता	७२	सा विहर्तुं वनं याता	५०८
सहाया बान्धवाश्चास्य	५०७	सापि गर्भार्भककौर्यान्	३६३	सा वीतरागता प्रीति-	२३५
सहायीकृत्य सम्पूज्य	३०५	सापि दृष्ट्वा महीनायमभ्युत्थातुं	४६	सा सुव्रतार्थिकाभ्यर्णं	३६६
सहायै सह संविश्य	५००	सापि पञ्चनमसत्कार	४८४	सा स्त्रीत्वान्नाशबुद्धयेत्	४१४
सहायैः साधित कार्यं	३१५	सापि पद्मावतीं क्षान्तिं	४०५	साहसं पश्य भुञ्जेऽहं	६६
सहावश्यमहं ताभ्यां	३१५	सापि स्वस्वामिनीमेत-	५२२	सिंहकेतोर्विधायाभिषेकं	३४५
सहासो विद्यते नान्य-	४७५	साप्यान्ताभरणाऽऽगत्य	४८४	सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य	११५
सहोत्पत्तौ श्रियोऽनेन	५८	साप्याह तेषु मे वाञ्छा	२२३	सिंहचन्द्रोऽभयद्राजा	११२
सा कथा यां समाकर्ण्य	३४३	साप्याह सुजने देशे	५१८	सिंहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि	११४
साकल्पेन तदाख्यातं	१६५	साप्याह सुप्तवान् राजा	४६६	सिंहनादं तदा कुर्वन्	३२२
साकेतनगरं गत्वा	२६१	सा प्रबुध्य फलान्यात्मपते	१२६	सिंहनिःक्रीडितायुग्रं	५६
साकेतनगराधीशो	४३७	साभिषेकं सुरैः प्राप्य	३३५	सिंहमद्रः सुकम्भोजो	४८२
साकेतपतिना किं ते	२६०	सामग्रीसन्निधानेन	४७७	सिंहशर्याऽयमित्येषो	४५१
साकेतपुरमन्येषु-	११६	सामभेदविधानशाः	५१५	सिंहसेनमहाराज-	१०६
साकेतपुरमभ्येत्य	३२७	साम वाचि दया चित्तं	८७	सिंहसेनादयस्तस्य	४
साकेतस्य विभूतिं ते	४३७	सामानिकादिभिर्देवै-	४६०	सिंहसेनोऽपि कालान्ते	११२
साक्षालक्ष्मीरिवाक्षुषां	५०६	सामानिकादिषर्वाङ्घ्रिं	४३३	सिंहसेनोऽशनिबोधप्रान्तः	११६
सागरो धनपालाख्य-	४६६	सामायिकं समादाय	३०, १०४	सिंहकृतिः स सहसा	३७३
सागरोऽन्तकान्तारं	६३	सामायिकादिषट्कस्य	१६७	सिंहासने समारोप्य	३२४
सागरोपमकौटीनां	३, ६६	सामायोपप्रदां भेदं	२८२	सिंहासने समासीनं	१६५
सागरोपमविशाल्या-	२४५	सामीप्यादक्ष्यानन्द-	२७४	सिंहासने समासीनो	१७५
साधिचुल्लगीगतस्थूल-	२२६	साम्राज्यसन्धनान्यस्य	२०७	सिंहादिविद्विद्वाहिन्यौ	१४५



सिद्धानैव मया प्राप्तं	४६४	सुखं नाम तदेवात्र	२६	सुतो यन्नादिदत्तायां	३६३
सितपद्मत्रयोदश्यां	१२६	सुखं विषयजं प्राप्तुं	३६०	सुतो राजपुरे जाति	५१७
सिते पौषे चतुर्दश्यां	२३	सुखगर्भा जयश्यामा	१२२	सुतो विजयरामाख्यो	३२६
सिद्धकूटमगास्तोतुं	५४३	सुखदुःखादि संवेद्यं	२३६	सुतोऽस्यास्तत्र भर्तारं	३६४
सिद्धभूपदतिं यस्य	५७३	सुखानि धर्मसाराणि	१२८	सुतौ तौ यौवनापूर्वा	१८५
सिद्धराक्षसविद्यत्वा-	४८६	सुखानि सह भुञ्जानः	५२४	सुतौ समुदभूतां तत्र	४०८
सिद्धाचले कदाचिचं	१८४	सुखस्य तस्य को वेत्ति	६६	सुदत्तस्तेन निर्विण्णः	१८२
सिद्धार्थशिविकामूढां	१६	सुखेन नवमे मासि	२३५	सुदत्तो नाम तस्यासी-	१८२
सिद्धार्थसुरसम्बोध-	४१६	सुखेनासाधुनानेन	५३३	सुदर्शनार्थिकाभ्यर्षो	३५१
सिद्धार्थो व्याप्तसम्भक्तवो	३३१	सुरगुरुमण्य्याख्यः	३५२	सुदूतमिन्दुनामानं	१४४
सिद्धे वैकत्र घातोक्ते	२५७	सुमहं तलहस्तेन	२६१	सुधर्मगणभृत्पार्श्वं	५३७
सिन्धुसिन्धुखगाद्रथन्त-	३८२	सुग्रीवः कुम्भकरौन	३२१	सुधर्मण्यन्तिमं शानं	५३७
सिन्ध्वाख्यविषये भूभृद्-	४८२	सुमीवागुमदाद्यात्म-	३२१	सुधर्मनाभिन स ज्येष्ठे	१३०
सिराननद्धदुष्कायो	३४६	सुग्रीवानिलपुत्रादि-	३१६	सुधर्मा केवली जम्बू	५३७
सीतां नेति विनिश्चित्य	३१२	सुघोषः शतघोषाख्याः	१५६	सुधर्माचार्यमासाद्य	३४८
सीतां नेतुमतोऽस्माक-	३११	सुघोषविद्युद्ष्ट्राख्यौ	१७३	सुधोः कथं सुखांशेषुः	३०
सीतां मिथः श्रिताभावि	३०२	सुघोषाहेतुना प्राप्त-	५०४	सुधीर्मदनवेगा च	१६२
सीतां शीलवतीं कश्चिदपि	३२१	सुज्ञानमप्यविशेषं	३१२	सुधीर्मनोहरोद्याने	१३५
सीताद्यष्टसहस्राणि	३२५	सुतं योग्यतमं मत्वा	३४२	सुनन्दो नन्दिश्रेणश	३६२
सीता वैश्यांश्चुधिं प्राप्य	३०१	सुतं समर्पयामास	५०१	सुनीताख्या च शीता च	३४५
सीता न्यस्येति नीता सा-	३०६	सुतं स्वराज्ये संस्थाप्य	४३१	सुन्दर्यामभवत्तस्य	११६
सीता मया हृतेत्येत् किं-	३०८	सुतस्य शूरवीरस्य	३४५	सुपारश्वो मौनमास्थाय	४२
सीताशापेन दाहोऽसौ	२६६	सुतां च स्वन्दनारूढां	१७५	सुपुण्यं योग्यमन्वेष्टुं	३४४
सीता शीलवतीं सेयं	२६४	सुता कनकमालेति	१८३	सुप्तः परार्थमाणिक्थ-	५३४
सीतासुकस्तथा गच्छन्	२६१	सुता कुवेरदत्तस्य	५३२	सुप्रकारपुराधीशः	४०२
सीतोदोदकतटे दुर्ग-	४४	सुता दृढरयायाश्च	४२४	सुप्रतिष्ठजिनाभ्यर्षो	३५३
सीमङ्करमुनिं श्रित्वा	१८२	सुता मम सुकान्ताया-	१८२	सुप्रतिष्ठमहाराजो	४०
सीरपाणिश्च तद्दुःखात्त-	८६	सुताममितवेगस्य	२७६	सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये	३४२
सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य	३६८	सुतायाजितसेनाय	४	सुप्रभागखिनीपार्श्वे	१७३
सीरादिप्रभृतिप्रसिद्ध त्रिलसद्-	३२६	सुताय मेघसेनाय	१६६	सुप्रभार्यादयः सप्त	३३५
सीरियोऽपि नवैवात्र	५६१	सुताय श्रुतशास्त्राय	३३१	सुप्रभूतमिदं लब्धं	३४७
सुकण्ठान् गायकान्	४०	सुतारया सह ज्योतिर्वनं	१५३	सुप्रभोऽपि प्रभाजालं	१२६
सुकुमारी च निर्विण्णा	४२४	सुतारां मेऽनुजामेव	१६०	सुवन्ध्वाख्यो भृशं स्वास्थ्य-	२२७
सुकुमारीति संज्ञास्था	४२३	सुता सागरदत्तस्य	५३२	सुबोजं सुप्रभूतं च	७७
सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्या-	४२३	सुता हिरण्यवत्यासीत्	११२	सुधीजमल्पमन्युतं	७८
सुकुम्भेन निकुम्भेन	३१५	सुते निःस्निग्धतां भर्तुं-	२५२	सुभानुरभवत्ततः	४२६
सुकुलुरिति सर्वस्व	१०३	सुतो गगनसुन्दर्या	३११	सुभानुभानुनामानं	३६६
सुकेतोरेव दृष्टान्तो	१०३	सुतो गीतमपुत्रस्य	३४६	सुभौमः सार्वभौमोऽजि-	५६४
सुकेतुजातौ धृतेन	१०३	सुतो दशरथाख्यस्य	२८४	सुभौमोऽपि विपद्यान्ते	२३०
सुकेतोर्विजयाधार्मी	३६६	सुतो देव्यां प्रभंकर्या-	४३२	सुमतिं गच्छिनीं प्राप्य	१८७
सुकेत्वाभयशल्येन	२३०	सुतो ममायं रागेण	५३२	सुमन्दराजिनाभ्याशो	३४२
				सुमित्रस्तेन रङ्गरथो	१३२

सुमित्रो धनमित्रोऽन्य-	५१०	सुवर्णदारको नाम	५३४	सोऽपि गत्वा भवद्वाती	११
सुसुखाक्षरपदमैश्च	३८७	सुविरक्तां वनेशोऽसौ	५१४	सोऽपि शतानुभावत्वा-	३१३
सुमुखो नाम तन्नैव	३४३	सुविहितमहापार्थो	१७३	सोऽपि तं प्रतिगृह्णौ चं	४६८
सुरः सौधर्मकल्पेऽनु-	५६४	सुव्रता यार्थिकाभ्याशे	३६४	सोऽपि तज्ज्ञायते किञ्चि-	५०८
सुरङ्गे समवस्थाप्य	५१४	सुसप्तपरमस्थान-	१६२	सोऽपि तत्तत्त्वसद्भाव	२४४
सुरतेषु धिलज्ज्वां	२००	सुसिद्धमुनिनिर्दिष्ट-	२२७	सोऽपि तत्सम्भ्रमं दृष्ट्वा	४६१
सुरदुन्दुभिनिर्घोषं	४८६	सुसीमा कुण्डला सार्द्ध-	१८६	सोऽपि तद्गणिकावाती	११६
सुरदेवादिगुर्वन्त-	३४७	सुसीमानगरं तस्मिन्	१,३३	सोऽपि तद्दुर्बचः श्रुत्वा	१३३
सुरभ्यविषयान्तःस्थ-	३६२	सुस्थिताख्यगुरुं प्राप्य	५३६	सोऽपि तस्यापारं रिश्रत्वा	५४६
सुरभ्यविषये ख्यात-	५३२	सुस्थिताऽर्द्धसिने सापि	२३४	सोऽपि तेनैव दण्डेन	२२६
सुरभ्यविषये पोदनेशः	३४८	सुस्थानपूर्वकं ज्येष्ठो	४१०	सोऽपि तेनोपसृद्धः सं-	३६४
सुरभ्यविषये रभ्ये	४५१	सूनवे धनदाख्याय	६७	सोऽपि दिव्यो गजो गत्वा-	३४४
सुरलोकादिमे लोकमिन्द्रे	६८	सुनुः कुणिकभूपत्य	४७१	सोऽपि दुश्चरितस्यास्य	३१३
सुराः केऽत्र नराः के वा	४४६	सुसुर्ममेक एवायं	५३२	सोऽपि पापः स्वयं क्राधाः	५५६
सुराः पदमावती वीक्ष्य	१६३	सुसुर्विजयमद्रोऽस्य	१४३	सोऽपि प्रकटितात्मीय	४१८
सुराः सर्वेऽपि नत्वेन-	४६४	सुनुस्तयोः प्रतीनाऽभूत्	१७८	सोऽपि प्रागेव बद्धासु	३२२
सुराः सौधर्ममुख्यास्तं	८८	सुनो वनरथे राज्यं	१२१	सोऽपि भीतो गतो दूरं	३७१
सुराशस्तस्य नाभूवन्	२३८	सुपकाराऽपि कालान्ते	३६३	सोऽपि यद्येवमेतस्य	११६
सुरादिमलयोद्यानं	५३६	सुरसेनो महाराजः	२१४	सोऽपि यत्तमनुस्मृत्य	२०८
सुराधीशः स्वहस्तेन	४६४	सुर्यकान्तसमुद्रमूत	१५४	सोऽपि विप्रोऽर्जितादिद्य-	१६१
सुरा निर्वाणकल्याण-	६४	सुर्याचन्द्रमसौ जित्वा	६	सोऽपि व्यापारवायास	३६५
सुराष्ट्रवर्धनाख्यस्य	४०१	सुर्याचन्द्रमसौ संहिकेयो	१६७	सोऽपि रत्नप्रभां गत्वा	५५६
सुरास्तत्र समागत्य	४४५	सुर्यावते तपो याते	११४	सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा	३६२
सुरूपां बालिकां वीक्ष्य	२७६	सैनयोरुभयोरगसीत्	१२६	सोऽपि श्राधरसान्निध्ये	५५
सुरूपाख्यमुता विद्यु-	४०३	सेनापतिं समप्राक्षीत्	२०६	सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो	१२
सुरूपा वसुधा देवी	२५६	सेव्यमानः सदा रक्तैः	८६	सोऽपि सान्निहितस्तत्र	५१६
सुरेन्द्रजालं जालान्त-	४१५	सेव्यरतेजस्विभः सर्वे	१२६	सोऽपि सम्प्राप्तसम्मान-	४५३
सुरेन्द्रेणारस्य दुग्धाब्धि-	१२	सेन्ययोद्धमभोरगसीत्	१०४	सोऽपि सम्प्राप्य सामग्री-	५३०
सुरेन्द्रमन्दरस्थान्ते	४०	संहिकेयनिर्गार्याक-	३२६	सोऽपि सर्वसहिष्णुः	१०७
सुरैः सम्प्राततत्पूजो	३०	सोढुं तदक्षमः कश्च-	५५६	सोऽपि स्वाधिविवाधे	५६
सुरैरूढां समाकृष्टा	४१	सोढुं तनुजयोर्दुःख-	१६२	सोऽप्यदानमुद्रिकां काम-	४१८
सुरैस्तदानसंतुष्टै-	६०	सोढुं सिंहापसर्गोऽसौ	४३३	सोऽप्यथ तत्र सादयोऽ	५१३
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां	१२३	साढ्वा व्याधकृतं	११७	सोऽप्यन्यश्च मुनेर्जातं	५०३
सुलक्षणायां तस्याभूत्	१८२	सोत्सवः सहस्रोदस्या-	३२०	सोऽप्येवमप्रवीतप्राप्त-	५४३
सुलोचनायाः पट्टत्रिशत्	४३६	सोत्सवाः प्रापयन्ति स्म	२३६	सोऽप्रीत्तत्र निर्याणकालं	३५४
सुवर्णगजवत्सौ च	१०६	सोऽनुत्तरविमानेषु	२३४	सोमदत्तो नृपस्तस्मै	३६
सुवर्णतिलकासार्द्ध	१८७	सोऽन्वीतस्तद्रयान्मुक्त्वा	३५६	सोमदत्तो नृपा गौरः	६०
सुवर्णतेजसा प्राति-	५१४	सोपदेशं धृतं सर्वै-	२६३	सोमदेवः सुनिर्विद्य-	४२२
सुवर्णतेजा नाम्नाभू-	५१२	सोऽपयासो गिगौ सम्भे-	३११	सोमदेवो द्विजोऽत्रैव	४२२
सुवर्णतेजास्तस्माच्च	५१६	सोऽपि कालान्तरे बुद्धि-	४८८	सोमभूतिश्च वेदाङ्क-	४२२
		सोऽपि कोपग्रहाविष्ट-	६२	सोमवंशसमुद्भूतः	२१६

सोमश्रीस्ततिप्रया	१५२	स्थितां कुक्कुटसर्पेषु	१५४	स्वचन्द्रककलापाम्भो-	२६५
सोमिलाभोजयत्स्यै	४८७	स्थिता जीवधरस्तस्या	५०४	स्वच्छन्दं चिरमाक्रीड्य-	४८४
सोमिलार्यां कृतद्वेष-	४९३	स्थितो मोक्तुमगौ नन्द-	३६३	स्वस्थास्तिष्ठन्तु तत्तत्र	१५१
सौजन्यं बन्धवो धर्मो	१०३	स्थित्वर्षियतिमुन्न्यस्त-	२५८	स्वदीक्षापदानक्षत्र-	२४७
सौजन्यं हन्यते भ्रंशो	१११	स्थित्वाऽत्र निष्क्रियं मामं	६०	स्वदुःखेनापि निर्विषण-	३८६
सौधर्मकल्पे चित्राङ्ग-	३४८	स्थित्वा दिनद्वयं वीत-	५६३	स्वद्विजोत्सर्पिभाभार-	४७६
सौधर्मकल्पे देशीन्व-	४०३	स्थित्वा विभासरस्तस्मि-	५२५	स्वनामश्रवणादेशं	२८४
सौधर्मकल्पे देवोऽभू-	४७८	स्थित्वा पष्ठोपवासेन	४६६	स्वनामश्रुतिसंशुध्यन्	१०७
सौधर्मकल्पे श्रोत्रिणो	१६३	स्थिरचरणधिवेशो	३७२	स्वपादनखसंक्रान्त-	४१
सौधर्ममुख्यदेवेन्द्रा	६०	स्थिररौद्रेरसः सद्यः	४५७	स्वपादनटनृतार्थ-	३१७
सौधर्मार्थिपतिर्मकल्या	३७७	स्थिरावत्युज्जतौ शुक्लीतौ	६३	स्वपादशरणो भद्रां	४८६
सौभाग्ये निरस्तान्त-	५३२	स्थूणागाराभिधानेऽभू	४४८	स्वपितामहसन्त्यागो	४४६
सौधाप्रा दालिता लोल-	३७६	स्थूणास्थूलपक्कफला प्रोचद्	१६६	स्वपित्रा सममन्येक्षुः	५३६
सौन्दर्यस्य समद्रोऽय-	२१६	स्थूलवेतालरूपाणि	४६५	स्वपुत्रच्छात्रार्थाव-	२६५
सौमुख्यं लोकविज्ञानं	१३८	स्नानस्त्रलेपनाशेष-	५२०	स्वपुण्यफलसारेण	३८८
स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि	१७६	स्नातामलङ्कृतां शुद्ध-	२६१	स्वपूर्वकृतपुण्यस्य	३८३
स्तनप्रसूतिमित्येवं	३०२	स्नाहि चित्तं समाधेदि	४८८	स्वपूर्वंजन्मपापेन	१८६
स्तनयोर्वलवत्पीडां	३६७	स्तुपाभ्यसूयया कार्यं	३८६	स्वपूर्वमनसम्बन्धं	१८८
स्तमिततमसमाधिं व्यस्त-	१०१	स्नेहमाहप्रहप्रस्तो	१३०	स्वपूर्वमवसम्बन्ध-	४२२, ५११
स्तुतस्तदैव संतोषः	३०	स्नेहादन्योन्यसंशक्तं	५१२	स्वप्नान् कृष्णद्वितीयायां	२४५
स्तुत्यं प्रमादयितुमर्थिज्जो	५६६	स्पर्द्धमानमुजाग्राभ्यां	२०५	स्वप्नान्तमेतस्या	३३६
स्तुत्वाः सतामभिपटुन्य	१६०	स्पर्शादयोऽष्टधा स्पर्शाः	५२३	स्वप्नान् पादश संवीक्ष्य	४०
स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं	१८६	स्पष्टमद्य मया दृष्टं	६८	स्वप्ने किं फलमंतस्ये-	२६५
स्तातुगारिभिरे भक्त्या	४३३	स्पष्टाकर्णनविज्ञान-	५४१	स्वप्ने दृष्ट्या समुत्थाय	३२६
स्त्रियः समारधत्जन्यः	४७	स्पृहन्तुस्वाताखङ्गाशु-	३१७	स्वप्नेऽपि केनचित्ताद्य	१३६
स्त्रीगुणैः सकलोः शक्या	४२०	स्मरन् देवकुमारमन्ये	१३६	स्वप्रभावं प्रकाश्यास्य	२६६
स्त्री तामनुभवन्तीभि-	२८६	स्मरन् सहस्रशिला	६७	स्वप्राग्जन्माकृतिं तस्य	२३०
स्त्रीत्वं सर्तात्यमेक-	२६०	स्मरस्यायां वदिष्यावस्तव्यं	८	स्वब्राह्मणतथैवैतं	२५६
स्त्रीलक्षणानि, सर्वाणि	४५२	स्मर्तव्या देवता चिधे	२५१	स्वभावान्तरसम्बन्ध-	४०१
स्त्रीश्च तादृग्गुणोपेता	४१	स्मितभेदाः सरस्वत्याः	२०५	स्वभातुलानीपुत्राय	४८६
स्त्रीसुतादिव्यया शक्ते-	११०	स्मितार्थैः स्वं जघं सोऽपि	३७६	स्वयं गृहं समागत्य	५१२
स्त्रीमृष्टिमपि जेतार	३०१	स्मितपूर्वभवा राज्ञा	४०३	स्वयं गृहीतुमारब्धः	४४७
स्थानं ता एव निन्दायाः	३६०	स्मृत्वा धिमाति निन्दित्वा	५४२	स्वयं चेत्या प्रदेशं तं	५१२
स्थानभ्रंशात्सुख्यच्छेद्यो	३१-	स्थां समाहितमोहोऽहं	२१३	स्वयं चेत्याक्षराभ्यासं	५१२
स्थापयित्वा समारुह्य	५३५	स्थाच्छब्दवाञ्छितारित्व-	३२६	स्वयं पतितपर्णादे-	४३६
स्थापितः स शिरांभागे	४१८	स्थात्तद्रामाय शक्ताय	२५६	स्वयं परिजनेनापि	२६५
स्थास्तु नाज्ञानवैराग्य-	२२४	स्थाद्धीस्तत्त्वनिर्माश्रीनी कृतधियः	४८१	स्वयंप्रभश्च सर्वात्मभू-	५६१
स्थास्तुबुद्ध्या विमुग्धत्वा-	२३८	स्थाद्वैमनस्यं तेऽश्चर्यं	५००	स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि	४११
स्थास्याभ्येतत्समाकर्ण्य	५३१	स्वं फगोष्यभिलाषात्म-	३१२	स्वयंप्रभाख्यदेवस्य	४०५
स्थितं पिण्डीहूमस्याधो	४६४	स्वगतं तं स्तत्रं श्रुत्वा	१६४	स्वयं प्रागपि तं हन्तुं	४१२
स्थितस्ततोपस्थाद्योगे	५१७	स्वचक्रमिव तस्यासी-	१०२		

स्वयं रक्तो विरक्तायां	१६१	स्वस्यामेवं स्वयं तुता	२८७	हर्म्यपुष्टं सभामभ्ये	२४६
स्वयंवर समुद्धोष्य	५०३	स्वस्याश्चेष्टितमेतेन	३६४	हलभृत्तद्वियोगेन	२३२
स्वयंवरविधौ तस्मिन्-	५२५	स्वहस्ताखिलाभूपाल-	२२७	हलायुधं महारत्न-	३५५
स्वयंवरविवाहोरु-	४२४	स्वाः स्वास्ताथाविधाः सर्वाः	३५४	हलायुधोऽपि तच्छोका-	१३३
स्वयं सम्प्राप्य देवेन्द्रैः	२१५	स्वाम्रजाङ्गेक्षणेद्भूत	१०७	हस्त्याश्च रुदन्याश्च	३०१
स्वयं रखलयितुं चेतः	४६५	स्वाचार्यवर्यमनुमृत्यु हितानु-	२७७	हस्ताभ्राह्मिवात्मानं	२६२
स्वयं स्वपरिवारेण	२२६	स्वातियोगं तृतीयेद	५६३	हस्तचित्राख्ययानाधि-	२२
स्वयं स्वयम्प्रभाख्यान-	१६७	स्वानुरक्तान् जनान् सर्वान्	६६	हस्ताग्रमितमध्यानि	३१६
स्वयं स्वाथ समुद्दिश्य	५३०	स्वान्तःपुरपरीवार-	३३६	हस्ताभ्यां हस्तमुक्तौर्वाद्	२२३
स्वयञ्च बोद्रयो नाम	४८४	स्वामिजात्यमरोगत्वं	१४२	हस्तावलम्बनेनैतं	५२२
स्वयमादाय बन्धस्यौ	३६३	स्वाम्यमाल्यौ जनस्थानं	२८३	हृतिनाख्यपुराधीशो	३५७
स्वयमुत्पाद्य दैवेन	७१	स्वायुरन्ते धिनिर्याय	४५५	हृ तोत्तरक्ष्योर्मध्यं	४६३
स्वयमेव लग्नाधीशः	१४१	स्वायुरन्ते समाराध्य	३३१	हृ तोत्तरान्तरं याते	४६६
स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेश-	५१	स्वायुरन्ते समुत्पन्नः	३६४	हानिर्धनः सत्वात्रे	४५
स्वयम्प्रभा चतुर्दृष्ट्वा	१५६	स्वायुराद्यष्टवर्षेभ्यः	४१	हावो वक्त्राम्बुजस्यास्य	२८
स्वयम्प्रभा प्रतिभांवी	१४४	स्वायुश्चतुर्थभागावशेषे	७३	हासेनापि मुनिप्रोक्त-	३६४
स्वयम्प्रभापि सद्धर्म	१४१	स्वायं मृगारिशब्दोऽसौ	४५७	हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य	४१६
स्वयम्प्रभायाः कश्चेतो-	१४४	स्वार्यः सागरमेरुष्यां	६२	हातिनाख्या पुरी तस्य	२०१
स्वयम्भुवं समुद्दिश्य	१०४	स्वाधिक्षेत्रनिर्णीति-	२१८	हिसादिपञ्चकं धर्मः	३७
स्वयम्भुकेसवैश्वर्यं	३६५	स्वावधिक्षेत्रसञ्चार-	१४	हिसादि दोषदुरभ्यो	७६
स्वयम्भुत्वं भवेन्मेऽद्य-	२५७	स्वीकुर्वन्त्यत एवान्य-	३२०	हिसाधर्मं परित्यज्य	४०८
स्वराप्रमादिसद्वाद्यं	५०४	स्वीकृत्य प्राक्तनं वेप-	४४८	हिसाधर्मं विनिश्चित्य	२६३
स्वराजधान्यां संसेव्यः	२४६	स्वीचकार मधुः शोका-	४०६	हिसानृतान्यरैरामा-	५४४
स्वं राज्यं दत्तवांस्तुभ्यं	४७१	स्वोक्तप्रमाणदेवीभि-	१३५	हिसाप्रधानशास्त्राद्वा	४१३
स्वराज्यं युवराजाय	२४६	स्वोत्पत्त्यनन्तरं लोकान्तरं	३६७	हिसायामिति धात्वर्थ-	२५८
स्वराज्यग्रहणे शङ्का	३८६	स्वोपकारोऽयसंवृद्धिः	७७	हिसायो यज्ञशब्दश्चे-	२५८
स्वर्गः किमीदृशो वेति	४६	स्वोपयोगानिमित्तानि	४८८	हिसैव धर्म इत्यज्ञो	२६३
स्वर्गमयैव यागेन	२७४	स्वोपाध्यायं तदायुच्छ्रय	३५७	हितो लङ्केश्वरायास्मै	३०५
स्वर्गलोकश्च तद्गोह-	४३५	[ ह ]		हिमवत्सागराघाट-	१३६
स्वर्गलोकजयाजात-	१३६	हंसावलीति सदेहं	२६१	हिमवान् महाहिमवान्	१८८
स्वर्गात्त्रिदिरसरोऽपि	४७१	हठात्कृष्ण तदाकर्ण-	४००	हिमवान् विजयो विद्वान्	३४५
स्वर्गात्तदैव देवेन्द्राः	२०३	हत कुक्कुटसर्पोऽपि	११३	हिमानीपटलच्छन्न-	६६
स्वर्गादित्यात्र भूयानां	८४	हताघातिचतुष्कः सन्-	५६३	हिमानीपटलोन्मुक्तं	२८१
स्वर्गापवर्गयोर्बीजं	५५४	हताऽसौ भीतवैताली	१५४	हिरण्यवर्मणः पद्मा-	४०५
स्वर्गावतारकल्याण-	३७७	हतो लकुटपाषाणौ	३६६	हिरण्यवर्मणोऽरिष्ट-	३५६
स्वर्लोकं शान्तचित्तेन	४६३	हत्या वमर्गमल्ललङ्घ्य	२२५	हीनभासोऽभत्रक्नेचि-	५०४
स्वर्लोकः क्रियतेऽस्माभि-	२५६	हननावर्ण्यो विद्या	३१४	हीने पोष्टशपूर्वाङ्गे	३५
स्ववक्राब्जप्रविष्टेभ-	३३३	हन्तुं तत्तेऽपि विज्ञाय	४२०	हीयते वद्धंते चापि	१६६
स्ववक्राब्जप्रविष्टोरु-	४३४	हन्यादन्तान्तसंक्रान्तं	३६३	हुताशनशिग्वान्यस्त-	५६३
स्ववाकिरणजालेन	४०१	हयग्रीवोऽपि जन्मान्त-	१४७	हृदि गन्धर्वदत्तैर्न	५०४
स्ववृत्त्यनुगमनेव	२१८	हरिं शान्तान्तरङ्गत्वा-	४५६	हेतुना केन दीक्ष्यं	३६१
स्ववृद्धौ शत्रुहानौ वा	२८३	हरिश्चन्द्रामिधः सिंह-	५६१	हेतुवादोऽप्रमाणं चे-	४७७
स्वश्च्युत्वाऽन्तन्मत्याख्या	१६३	हरिश्चोहरिरारुद्धः	३१५	हे नारद ! त्वमेवात्र	२६६
स्वसमुद्भूतसद्भक्ति-	२०६	हरियथेष्टमञ्जानि	३७०	हेमप्रमेण भूमर्त्रा	३८०
स्यसा नसा वेत्का वा	११८	हरिवंशामलव्योम-	३५४	हेमामपुरुषार्थाय	५१६
स्वसैन्यं समुपायेन	३६१	हरिवर्माभिषोऽनेष्टु-	२४४	हेमोपलधिबुद्धिर्वा	४३६
स्वामिन स्वस्मिन् गुणस्थाने	५५	हरिविक्रमतः पश्चा-	५१४	हेलायारोपयद्यश्च	३८४
स्वस्य दानं प्रशंसन्ति	७७	हरिषेणः कृताशेष-	४५८	हेरप्यवतसंशुभ	१८८
स्वस्य रत्नप्रभावात्	४७३	हरिषेणोऽप्युपादाय	२४६	होमधेनुरियं तात !	२२५
स्वस्य स्वाभिहिताख्यस्य	४३२	हरिषेणोऽप्युपादाय	४६	ह्वाः षोडशसङ्ख्याः स्तुः	१८८
स्वस्थाः स्वयंभवायैव	३५६	हर्तमयैव सीतां वा	३०६	ह्वाहृदयतीर्थे	१८६



